

हिंदी शब्दसागर के सशोधन संपादन का संपूर्ण तथा प्रथम एवं द्वितीय भाग के प्रकाशन का साठ प्रतिशत व्ययभार भारत सरकार के शिक्षामंत्रालय ने वहन किया ।

परिवर्धित, संशोधित, नवीन संस्करण

शकाब्द १८६१

नागरीप्रचारिणी सभा
वाराणसी
मूल्य १५/० —

१६६६ ई०

आवश्यक सशोधन

पृष्ठसंख्या २३१६ के बाद कृपया २३१७, २३१८ आदि पढ़ें । आठ पृष्ठों के बाद पुन मूल से २३३३, २३३४ आदि छप गया है, इन्हें २३२५, २३२६ आदि पढ़ें । पृ० २६३६ के बाद से अत तक की पृष्ठसंख्या भी अशुद्ध छप गई है, जिन्हें कृपया २६३७, २६३८ आदि पढ़ें, अंतिम पृष्ठसंख्या २७२४ होगी ।

शमुनाथ वाजपेयी

द्वारा

नागरी मुद्रण, वाराणसी

में मुद्रित

प्रकाशिका

'हिंदी शब्दसागर' अपने प्रकाशनकाल से ही कोश के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के दिशानिर्देशक के रूप में प्रतिष्ठित है। तीन दशक तक हिंदी की, मूर्धन्य प्रतिभाओं ने अपनी सतत तपस्या से इसे सन् १९२८ ई० में मूर्त रूप दिया था। तब से निरंतर यह ग्रंथ इस क्षेत्र में गभीर कार्य करनेवाले विद्वत्समाज में प्रकाशस्तम्भ के रूप में मर्यादित हो हिंदी की गौरवगरिमा का आख्यान करता रहा है। अपने प्रकाशन के कुछ समय बाद ही इसके खड एक एक कर अनुपलब्ध होते गए और अप्राप्य ग्रंथ के रूप में इसका मूल्य लोगों को सहस्र मुद्राओं से भी अधिक देना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में अभाव की स्थिति का लाभ उठाने की दृष्टि से अनेक कोशों का प्रकाशन हिंदी जगत् में हुआ, पर वे सारे प्रयत्न इसकी छाया के ही बल जीवित थे। इसलिये निरंतर इसकी पुनः अवतारणा का गभीर अनुभव हिंदी जगत् और इसकी जननी नागरीप्रचारिणी सभा करती रही, किन्तु साधन के अभाव में अपने इस कर्तव्य के प्रति सजग रहती हुई भी वह अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाहन कर सकने के कारण मर्यादित पीढा का अनुभव कर रही थी। दिनोत्तर उत्तर-दायित्व का ऋण चक्रवृद्धि सूद की दर से इसलिये और भी बढ़ता गया कि इस कोश के निर्माण के बाद हिंदी की श्री का विकास बड़े व्यापक पैमाने पर हुआ। साथ ही, हिंदी के राष्ट्रभाषा पद पर प्रतिष्ठित होने पर उसकी शब्दसंपदा का कोश भी दिनोत्तर गतिपूर्वक बढ़ते जाने के कारण सभा का यह दायित्व निरंतर गहन होता गया।

सभा की हीरक जयती के अवसर पर, २२ फाल्गुन, २०१० वि० की, उसके स्वागताध्यक्ष के रूप में डा० सपूर्णानंद जी ने राष्ट्रपति राजेंद्रप्रसाद जी एवं हिंदीजगत् का ध्यान निम्नांकित शब्दों में इस ओर आकृष्ट किया—'हिंदी के राष्ट्रभाषा घोषित हो जाने से सभा का दायित्व बहुत बढ गया है। हिंदी में एक अच्छे कोश और व्याकरण की कमी खटकती है। सभा ने आज से कई वर्ष पहले जो हिंदी शब्दसागर प्रकाशित किया था उसका वृहत् सस्करण निकालने की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि इस काम के लिये पर्याप्त धन व्यय किया जाय और केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों का सहारा मिलता रहे।'

उसी अवसर पर सभा के विभिन्न कार्यों की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा—'वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दकोश सभा का महत्वपूर्ण प्रकाशन है। दूसरा प्रकाशन हिंदी शब्दसागर है जिसके निर्माण में सभा ने लगभग एक लाख रुपया व्यय किया है। आपने शब्दसागर का नया सस्करण निकालने का निश्चय किया है। जब से पहला सस्करण छपा, हिंदी में बहुत बातों में और हिंदी के अलावा ससार में बहुत बातों में बड़ी प्रगति हुई है। हिंदी भाषा भी इस प्रगति से अपने को वंचित नहीं रख सकती। इसलिये शब्दसागर का रूप भी ऐसा होना चाहिए जो यह प्रगति प्रतिबिंबित कर सके

और वैज्ञानिक युग के विद्यार्थियों के लिये भी साधारणतः पर्याप्त हो। मैं आपके निश्चयों का स्वागत करता हूँ। भारत सरकार की ओर से शब्दसागर का नया सस्करण तैयार करने के सहायतार्थ एक लाख रुपए, जो पाँच वर्षों में बीस बीस हजार करके दिए जाएंगे, देने का निश्चय हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि इस निश्चय से आपका काम कुछ सुगम हो जाएगा और आप इस काम में अग्रसर होंगे।'

राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद जी की इस घोषणा ने शब्दसागर के पुनः संपादन के लिये नवीन उत्साह तथा प्रेरणा दी। सभा द्वारा प्रेषित योजना पर केंद्रीय सरकार के शिक्षामंत्रालय ने अपने पत्र सं० एफ १४—३।५४ एच० दिनांक ११।५।५४ द्वारा एक लाख रुपया पाँच वर्षों में, प्रति वर्ष बीस हजार रुपए करके, देने की स्वीकृति दी।

इस कार्य की गरिमा को देखते हुए एक परामर्शमंडल का गठन किया गया, इस अवधि में देश के विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी विद्वानों की भी राय ली गई, किन्तु परामर्शमंडल के अनेक सदस्यों का योगदान सभा को प्राप्त न हो सका और जिस विस्तृत पैमाने पर सभा विद्वानों की राय के अनुसार इस कार्य का संयोजन करना चाहती थी, वह भी नहीं उपलब्ध हुआ। फिर भी, देश के अनेक निष्णात अनुभवसिद्ध विद्वानों तथा परामर्शमंडल के सदस्यों ने गभीरतापूर्वक सभा के अनुरोध पर अपने बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए। सभा ने उन सबको मनोयोगपूर्वक मथकर शब्दसागर के संपादन हेतु सिद्धांत स्थिर किए जिनसे भारत सरकार का शिक्षामंत्रालय भी सहमत हुआ।

उपर्युक्त एक लाख रुपए का अनुदान बीस बीस हजार रुपए प्रति वर्ष की दर से निरंतर पाँच वर्षों तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय देता रहा और कोश के संशोधन, संवर्धन और पुनः संपादन का कार्य लगातार होता रहा, परन्तु इस अवधि में सारा कार्य निपटाया नहीं जा सका। मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री डा० रामधन जी शर्मा ने बड़े मनोयोगपूर्वक यहाँ हुए कार्यों का निरीक्षण परीक्षण करके इसे पूरा करने के लिये आगे और ६५०००) अनुदान प्रदान करने की सत्तुति की जिसे सरकार ने कृपापूर्वक स्वीकार करके पुनः उक्त ६५०००) का अनुदान दिया। इस प्रकार सपूर्ण कोश का संशोधन संपादन दिसंबर, १९६५ में पूरा हो गया।

इस ग्रंथ के संपादन का सपूर्ण व्यय ही नहीं, इसके प्रकाशन के व्ययभार का ६० प्रतिशत बोझ भी दो खंडों तक भारत सरकार ने वहन किया है, इसी लिये यह ग्रंथ इतना सस्ता निकालना संभव हो सका है। उसके लिये शिक्षामंत्रालय के अधिकारियों का प्रशंसनीय सहयोग हमें प्राप्त है और तदर्थ हम उनके अतिशय आभारी हैं।

जिस रूप में यह ग्रंथ हिंदीजगत् के समुख उपस्थित किया जा रहा है, उसमें अद्यतन विकसित कोशशिल्प का यथासामर्थ्य उपयोग और

प्रयोग किया गया है, किंतु हिंदी की और हमारी सीमा है। यद्यपि हम अर्थ और व्युत्पत्ति का ऐतिहासिक क्रमविकास भी प्रस्तुत करना चाहते थे, तथापि साधन की कमी तथा हिंदी ग्रंथों के कालक्रम के प्रामाणिक निर्धारण के अभाव में वैसा कर सकना संभव नहीं हुआ। फिर भी यह कहने में हमें सकोच नहीं कि अद्यतन प्रकाशित कोशों में शब्दसागर की गरिमा आधुनिक भारतीय भाषाओं के कोशों में अतुलनीय है, और इस क्षेत्र में काम करनेवाले प्रायः सभी क्षेत्रीय भाषाओं के विद्वान् इससे आघार ग्रहण करते रहेगे। इस अवसर पर हम हिंदीजगत् को यह भी नम्रतापूर्वक सूचित करना चाहते हैं कि समा ने शब्दसागर के लिये एक स्थायी विभाग का सकल्प किया है जो बराबर इसके प्रवर्धन और सशोधन के लिये कोशशिल्प सवधी अद्यतन विधि से यत्नशील रहेगा।

शब्दसागर के इस सशोधित प्रवर्धित रूप में शब्दों की संख्या मूल शब्दसागर की अपेक्षा दुगुनी से भी अधिक हो गई है। नए शब्द हिंदी साहित्य के आदिकाल से एव सूफी साहित्य (पूर्व मध्यकाल), आधुनिक काल, काव्य, नाटक, आलोचना, उपन्यास आदि के ग्रंथ, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य आदि और अभिनयन एव पुरस्कृत ग्रंथ, विज्ञान के सामान्य प्रचलित शब्द और राजस्थानी तथा डिगल, दक्खिनी हिंदी और प्रचलित उर्दू शैली आदि से सकलित किए गए हैं। परिशिष्ट खड में प्राविधिक एव वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों की व्यवस्था की गई है।

हिंदी शब्दसागर का यह सशोधित परिवर्धित संस्करण कुल दस खंडों में पूरा होगा। इसका पहला खंड पीप, सवत् २०२२ वि० में छपकर तैयार हो गया था। इसके उद्घाटन का समारोह भारत गणतंत्र के प्रधान मंत्री स्वर्गीय माननीय श्री लालबहादुर जी शास्त्री द्वारा प्रयाग में ३ पीप, स० २०२२ वि० (१८ दिसंबर, १९६५) को भव्य रूप से सजे हुए पहाल में काशी, प्रयाग एव अन्यान्य स्थानों के वरिष्ठ और सुप्रसिद्ध साहित्यसेवियों, पत्रकारों तथा गण्यमान्य नागरिकों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। समारोह में उपस्थित महानुभावों में विशेष उल्लेख्य माननीय श्री प० कमलापति जी त्रिपाठी, हिंदी विश्वकोश के प्रधान संपादक श्री डा० रामप्रसाद जी त्रिपाठी, पद्मभूषण कविवर श्री प० सुमित्रानंदन जी पंत, श्रीमती महादेवी जी वर्मा आदि हैं। इस सशोधित सवर्धित संस्करण की सफल पूर्ति के उपलक्ष्य में इसके समस्त संपादकों को एक एक फाउंटेन पेन, ताम्रपत्र और ग्रंथ की एक एक प्रति माननीय श्री शास्त्री जी के करकमलों

द्वारा भेंट की गई। उन्होंने अपने सक्षिप्त सारगर्भित भाषण में इस सभा की विभिन्न प्रवृत्तियों की चर्चा की और कहा, 'सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करनेवाली यह सभा अपने ढंग की अकेली संस्था है। हिंदी भाषा और साहित्य की जैसी सेवा नागरीप्रचारिणी सभा ने की है वैसी सेवा अन्य किसी संस्था ने नहीं की। भिन्न भिन्न विषयों पर जो पुस्तकें इस संस्था ने प्रकाशित की हैं वे, अपने ढंग के अनूठे ग्रंथ हैं और उनसे हमारी भाषा और साहित्य का मान अत्यधिक बढ़ा है। सभा ने समय की गति को देखकर तात्कालिक उपादेयता के वे सब कार्य हाथ में लिए हैं जिनकी इस समय नितांत आवश्यकता है। इस प्रकार यह निस्सकोच कहा जा सकता है कि भाषा और साहित्य के क्षेत्र में यह सभा अग्रतिम है'।

प्रस्तुत छठे खंड में 'प' से लेकर 'प्युर' तक के शब्दों का सचयन है। नए नए शब्द, उदाहरण, योगिक शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द और महत्वपूर्ण ज्ञातव्य सामग्री 'विशेष' से सकलित इस भाग की शब्दसंख्या लगभग १९,००० है। अपने मूल रूप में यह अश कुल ३७५ पृष्ठों में था जो अपने विस्तार के साथ इस परिवर्धित सशोधित संस्करण में लगभग ५३० पृष्ठों में आ पाया है।

संपादकमंडल के प्रत्येक सदस्य ने यथासामर्थ्य निष्ठापूर्वक इसके निर्माण में योग दिया है। स्व० श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़ नियमित रूप से नित्य गभा में पधारकर इसकी प्रगति को विशेष गभीरतापूर्वक गति देते थे और प० करुणापति त्रिपाठी ने इसके संपादन और सयोजन में प्रगाढ़ निष्ठा के साथ घर पर, यहाँ तक कि यात्रा पर रहने पर भी, पूरा कार्य किया है। यदि ऐसा न होता तो यह कार्य संपन्न होना संभव न था। हम अपनी सीमा जानते हैं। संभव है, हम सबके प्रयत्न में त्रुटियाँ हो, पर सदा हमारा परिनिष्ठित यत्न यह रहेगा कि हम इसको और अधिक पूर्ण करते रहे क्योंकि ऐसे ग्रंथ का कार्य अस्थायी नहीं, सनातन है।

अंत में शब्दसागर के मूल संपादक तथा सभा के संस्थापक स्व० डा० श्यामसुंदरदास जी को अपना प्रणाम निवेदित करते हुए, यह संकल्प हम पुनः दुहराते हैं कि जब तक हिंदी रहेगी तब तक सभा रहेगी और उसका यह शब्दसागर अपने गौरव से कभी न गिरेगा। इस क्षेत्र में यह नित नूतन प्रेरणादायक रहकर हिंदी का मानवर्धन करता रहेगा और उसका प्रत्येक नया संस्करण और भी अधिक प्रभोज्यल होता रहेगा।

ना० प्र० सभा, काशी
अनंत चतुर्दशी, २०२६ वि० }

सुधाकर पांडेय
प्रधान मंत्री

संकेतिका

[उद्धरणों में प्रयुक्त संदर्भग्रंथों के इस विवरण में क्रमशः ग्रंथ का संकेताक्षर, ग्रंथनाम, लेखक या संपादक का नाम और प्रकाशन के विवरण दिए गए हैं ।]

अंधेरे०	अंधेरे की भूख, डा० रागेय राधव, किताब महल, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण	अध०	अधकथानक, सपा० नाथूराम प्रेमी, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, बंबई, प्र० स०
अकबरी०	अकबरी दरबार के हिंदी कवि, डा० सरजूप्रसाद अग्रवाल, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, सं० २००७	अष्टाग (शब्द०)	अष्टांगयोगसंहिता
अखिलेश (शब्द०)	अखिलेश कवि	अष्टाग०	अष्टांगयोग संहिता
अग्नि०	अग्निशस्य, नरेंद्र शर्मा, भारती भंडार, इलाहाबाद, प्र० सं०	आधी	आधी, जयशंकर प्रसाद, भारती भंडार, इलाहाबाद, पंचम स०
अजात०	अजातशत्रु, जयशंकर प्रसाद, १६वीं सं०	आकाश०	आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद, भारती भंडार, इलाहाबाद, पंचम स०
अणिमा	अणिमा, प० सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', युग मंदिर, उन्नाव	आचार्य०	आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रशेखर शुक्ल, वाणी वितान, वाराणसी, प्र० स०
अतिमा	अतिमा, सुमित्रानंदन पंत, भारती भंडार, इलाहाबाद, प्र० स०	आश्रेय अनु-क्रमणिका (शब्द०)	आश्रेय अनुक्रमणिका
अनामिका	अनामिका, प० सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', प्र० स०	आदि०	आदिभारत, अर्जुन चौबे काश्यप, वाणी विहार, बनारस, प्र० स०, १९५३ ई०
अनुराग०	अनुरागसागर, सपा० स्वामी युगलानंद विहारी, वैकटेश्वर प्रेस, बंबई, प्र० स०	आधुनिक०	आधुनिक कविता की भाषा
अनुराग बाग (शब्द०)	अनुराग बाग	आनदधन (शब्द०)	कवि आनदधन
अनेक (शब्द०)	अनेकार्थ नाममाला (शब्दसागर)	आराधना	आराधना, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', साहित्यकार संसद, इलाहाबाद, प्र० स०
अनेकार्थ०	अनेकार्थमंजरी और नाममाला, सपा० बलभद्र-प्रसाद मिश्र, युनिवर्सिटी आफ इलाहाबाद स्टडीज, प्र० स०	आर्द्रा	आर्द्रा, सियारामशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगांव, झांसी, प्र० स०, १९८४ वि०
अपरा	अपरा, प० सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग	आर्य भा०	आर्यकालीन भारत
अपलक	अपलक, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', राजकमल प्रकाशन, प्र० सं०, १९५३ ई०	आर्यों०	आर्यों का आदिदेश, सपूर्णानंद, भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, १९६७ वि०, प्र० स०
अभिषाप्त	अभिषाप्त, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, १९४४ ई०	इद्र०	इद्रजाल, जयशंकर प्रसाद, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स०
अमिट०	अमिट स्मृति, महावीरप्रसाद द्विवेदी, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, १९३० ई०	इंद्रा०	इंद्रावती, सपा० श्यामसुंदरदास, ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स०
अमृतसागर (शब्द०)	अमृतसागर	इशा०	इशा, उनका काव्य तथा रानी केतकी की कहानी, सपा०, अजरस्तदास, कमलमणि ग्रंथ-माला, बुलानाला, काशी, प्र० स०
अयोध्या (शब्द०)	अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'	इति०	इतिहास और आलोचना, नामवर सिंह
अरस्तू०	अरस्तू का काव्यशास्त्र, डा० नगेंद्र, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स०, २०१४ वि०	इतिहास	हिंदी साहित्य का इतिहास, प० रामचंद्र शुक्ल, ना० प्र० सभा, वाराणसी, नवीं स०
अर्चना	अर्चना, प० सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', कला-मंदिर, इलाहाबाद	इत्यलम्	इत्यलम्, 'अज्ञेय,' प्रतीक प्रकाशन केंद्र, दिल्ली
अर्थ०	अर्थशास्त्र, कौटिल्य, [५ खड] सपा० आर० शामशास्त्री, गवर्नमेन्ट ब्लाक प्रेस, मैसूर, प्र० स०, १९१९ ई०	इनशा (शब्द)	इनशा अल्ला खी
		इरा०	इरावती, जयशंकर प्रसाद, भारती भंडार, इलाहाबाद, चतुर्थ स०
		उत्तर०	उत्तररामचरित नाटक, अनु०प० सत्यनारायण कविरत्न, रत्नाश्रम, आगरा, पंचम स०

एकांत०	एकांतवासी योगी, मनु० श्रीधर पाठक, इडियन प्रेस, प्रयाग, प्र० स०, १८८६ वि०	काव्य० य० प्र०	काव्य यथार्थ और प्रगति, डा० रागेय राघव, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, प्र० स०, २०१२ वि०
ककाल	ककाल, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, सप्तम स०	काश्मीर०	काश्मीर सुषमा, श्रीधर पाठक, इडियन प्रेस, इलाहाबाद प्र० स०
कठ० उप० (शब्द०)	कठवल्ली उपनिषद्	कासीराम (शब्द०)	कासीराम कवि०
कढ़ी०	कढ़ी में कोयला, पाडेय वेचन शर्मा 'उग्र', गरुघाट, मिर्जापुर, प्र० स०	किन्नर०	किन्नर देश में, राहुल साकरयायन, इडिया पब्लिशर्स, प्रयाग, प्र० स०
कबीर ग्र०	कबीर ग्र थावली, सपा० श्यामसु दरदास, ना० प्र० सभा, काशी	किशोर (शब्द०)	किशोर कवि
कबीर० बानी	कबीर साहब की बानी	कीर्ति०	कीर्तिलता, सं० बाबूराम सक्सेना, ना० प्र० सभा, वाराणसी, तृ० सं०
कबीर बीजक	कबीर बीजक, कबीर ग्रथ प्रकाशन समिति, बाराबकी, २००७ वि०	कुकुर०	कुकुरमुत्ता, 'निराला', युगमंदिर, उन्नाव
कबीर बी०	कबीर बीजक, सपा० हंसदास, कबीर ग्रथ प्रकाशन समिति, बाराबकी, २००७ वि०	कुणाल	कुणाल, सोहनलाल द्विवेदी
कबीर म०	कबीर मसूर [२ भाग], वेंकटेश्वर स्टीम प्रिंटिंग प्रेस, बंबई, सन् १९०३ ई०	कृपि०	कृपिशास्त्र
कबीर० रे०	कबीर साहब की ज्ञानगुदडी व रेस्ते, बेलवेडियर स्टीम प्रिंटिंग प्रेस, इलाहाबाद	केशव (शब्द०)	केशवदास
कबीर० श०	कबीर साहब की शब्दावली [४ भाग] बेलवेडियर स्टीम प्रिंटिंग प्रेस, इलाहाबाद, सन् १९०८	केशव ग्र०	केशव ग्रंथावली, सपा० प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० स०
कबीर (शब्द०)	कबीरदास	केशव० भ्रमी०	केशवदास की भ्रमीघूंट
कबीर सा०	कबीर सागर [४ भा०], सपा० स्वा० श्री युगलानंद बिहारी, वेंकटेश्वर स्टीम प्रिंटिंग प्रेस, बंबई	कोई कवि (शब्द०)	भ्रजातनाम कोई कवि
कबीर सा० स०	कबीर साखी सग्रह, बेलवेडियर स्टीम प्रिंटिंग प्रेस, इलाहाबाद, १९११ ई०	कुलार्णव तत्र (शब्द०)	कुलार्णव तत्र
कमलापति (शब्द०)	कवि कमलापति	कौटिल्य ग्र०	कौटिल्य का भ्रयंशास्त्र
करुणा०	करुणालय, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, तृ० स०	कवासि	कवासि, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', राजकमल प्रकाशन, बंबई, १९५३ ई०
करुणं०	सेनापति करुणं, लक्ष्मीनारायण मिश्र, किताब महल, इलाहाबाद, प्र० स०	खानखाना (शब्द०)	खन्दुरंहीम खानखाना
कविद (शब्द०)	कविद कवि	खालिक०	खालिकबारी, सपा० श्रीराम शर्मा, ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स०; २०२१ वि०
कविता कौ०	कविता कौमुदी [१-४ भा०], सपा० रामनरेश त्रिपाठी, हिंदी मंदिर, प्रयाग, तृ० स०	खिलौना	खिलौना (भासिक)
कवित्त०	कवित्तरत्नाकर, सपा० उमाशकर शुक्ल, हिंदी परिषद्, विश्वविद्यालय, प्रयाग	खुदाराम	खुदाराम और चंद हसीनो के खतूत, पाडेय वेचन शर्मा 'उग्र', गरुघाट, मिर्जापुर, षाठवाँ स०
कादधरी (शब्द०)	कादधरी ग्रंथ	खेती की पहली पुस्तक (शब्द०)	खेती की पहली पुस्तक
कानन०	काननकुसुम, जयशकर प्रसाद, भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, पंचम स०	गग प्र०	गग कवित्त [ग्रथावली], सपा० बटेकृष्ण, ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स०
कामायनी	कामायनी, जयशकर प्रसाद, नवम स०	गदाधर०	श्रीगदाधर भट्ट जी की बानी
काया०	कायाकल्प, प्रेमचंद, सरस्वती प्रेस, बनारस, ६वाँ स०	गदाधर सिंह (शब्द०)	गदाधर सिंह
काले०	काले कारनामे, 'निराला,' कल्याण साहित्य मंदिर, प्रयाग, २००७ वि०	गबन	गबन, प्रेमचंद, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद, २६वाँ स०
काव्य० निबंध	काव्य और कला तथा अन्य निबंध, जयशकर प्रसाद, भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद चतुर्थ सं०	गालिब०	गालिब की कविता, स० कृष्णदेवप्रसाद गोड, वाराणसी, प्र० स०
		गि०दा०, गि०दास (शब्द०)	गिरिधरदास (बा० गोपालचंद्र)
		गिरिधर (शब्द०)	गिरिधर राय (कुडलियावाले)
		गीतिका	गीतिका, 'निराला', भारती भंडार, इलाहाबाद, प्र० स०
		गुजन	गुजन, सुमित्रानंदन पंत, भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० सं०
		गुधर (शब्द०)	गुधर कवि
		गुमान (शब्द०)	गुमान मिश्र

गुलाब (शब्द०)	कवि गुलाब	चोटी०	चोटी की पकड़, 'निराला,' किताब महल, इलाहाबाद, प्र० म०
गुलाल०	गुलाल बानी, वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १९१० ई०	छद०	छद प्रभाकर, भानु कवि, भारतजीवन प्रेस, काशी, प्र० स०
गोदान	गोदान, प्रेमचंद, सरस्वती प्रेस, बनारस, प्र० स०	छत्र०	छत्रप्रकाश, स० विलियम प्राइस, एजुकेशन प्रेस, कलकत्ता, १८२६ ई०
गोपाल उपासनी (शब्द०)	गोपाल उपासनी	छिताई०	छिताई वार्ता, सपा० माताप्रसाद गुप्त, ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स०
गोपाल० (शब्द०)	गिरिधर दास (गोपालचंद्र)	छीत०	छात स्वामी, सपा० ब्रजभूषण शर्मा, विद्या विभाग, अष्टछाप स्मारक समिति, काँकरोली, प्र० सं०, सवत् २०१२
गोपालभट्ट (शब्द०)	गोपालभट्ट, वाल्मीकि रामायण के अनुवादक	जग० बानी	जगजीवन साहब की बानी, वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १९०६, प्र० सं०
गोरख०	गोरखवानी, स० डा० पीतांबरदास बडधवाल, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, द्वि० स०	जग० श०	जगजीवन साहब की शब्दावली
ग्राम०	ग्राम साहित्य, सपा० रामनरेश त्रिपाठी, हिंदी मंदिर, प्रयाग, प्र० स०	जनानी०	जनानी इचोढी, अनु० यशपाल, अशोक प्रकाशन, लखनऊ
ग्राम्या	ग्राम्या, सुमित्रानंदन पंत, भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० स०	जय० प्र०	जयशंकर प्रसाद, नदकुलारे वाजपेयी, भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० स०, १९६५ वि०
घट०	घट रामायण [२ भाग], सतगुरु तुलसी साहित्य, वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, तृ० सं०	जयसिंह (शब्द०)	जयसिंह कवि
घनानंद	घनानंद, सपा० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, प्रसाद परिषद्, वाणीधितान, ब्रह्मनाल, वाराणसी	जायसी श्र०	जायसी श्र थावली, सपा० रामचंद्र शुक्ल, ना० प्र० सभा, द्वि० सं०
घाघ०	घाघ और भट्टरी, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद	जायसी श्र० (गुप्त)	जायसी श्रंथावली, सपा० माताप्रसाद गुप्त, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० सं०, १९५१ ई०
घासीराम (शब्द०)	घासीराम कवि	जायसी (शब्द०)	मलिक मुहम्मद जायसी
चद	चद हसीनो के खतूत, 'उग्र', हिंदी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता, प्र० स०	जिप्सी	जिप्सी, इलाचंद्र जोशी, सेंट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, प्र० स०, १९५२ ई०
चद्र०	चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग, नवाँ स०	जुगलेश (शब्द०)	जुगलेश कवि
चक्र०	चक्रवाल, रामधारी सिंह 'दिनकर', उदयाचल, पटना, प्र० स०	ज्ञानदान	ज्ञानदान, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ १९४२ ई०
चरण (शब्द०)	चरणदास	ज्ञानरत्न	ज्ञानरत्न, दरिया साहब, वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद
चरणचंद्रिका (शब्द०)	चरणचंद्रिका	भरना	भरना, जयशंकर प्रसाद, भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, सातवाँ स०
चरण० बानी	चरणदास की बानी, वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स०	भाँसी०	भाँसी की रानी, वृंदावनलाल वर्मा, मयूर प्रकाशन, भाँसी, द्वि० स०
चाँदनी०	चाँदनी रात और भजगर, चंपेद्रनाथ 'अशक', नीलाम प्रकाशन गृह, प्रयाग प्र० स०	टंगोर०	टंगोर का साहित्यदर्शन, अनु० राधेश्याम पुरोहित, साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, प्र० स०
चाणक्य नीति (शब्द०)	चाणक्य नीति	ठंडा०	ठंडा सोहा, धर्मवीर भारती, साहित्य भवन लि०, प्रयाग, प्र० स०, १९५२ ई०
चाणक्य नीति (शब्द०)	चाणक्य नीति	ठाकुर०	ठाकुर शतक, सपा० काशीप्रसाद, भारत-जीवन प्रेस, काशी, प्र० स०, सवत् १९६१
चिंता	चिंता, प्रज्ञेय सरस्वती प्रेस, प्र० स०, सन् १९४० ई०	ठेठ०	ठेठ हिंदी का ठाठ, अयोध्यासिंह उपाध्याय, खड्गविलास प्रेस, पटना, ५० सं०
चिंतामणि	चिंतामणि [२ भाग], रामचंद्र शुक्ल, इडियन प्रेस, लि०, प्रयाग		
चिंतामणि (शब्द०)	कवि चिंतामणि त्रिपाठी		
चित्रा०	चित्रावली, स० जगन्मोहन वर्मा, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० सं०		
चुभते०	चुभते चौपदे, अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरि-शोध,' खड्गविलास प्रेस, पटना, प्र० सं०		
चौखे०	चौखे चौपदे, " " "		

ढोला०	ढोला भाखू रा हूहा, सपा० रामसिंह, ना० प्र० सभा, काशी, द्वि० स०	देव० प्र० देव (शब्द०) देव (शब्द०) देशी० दैनिकी	देव थावावली, ना० प्र० सभा, काशी, प्र०सं० देव कवि देव कवि (मैनपुरीवाले) देशी नाममाला दैनिकी, सियारामशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगाँव, फाँसी, प्र० स०, १९६६ वि०
तितली	तितली, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग, सातवाँ स०	दो सो वावन०	दो सो वावन वैष्णवो की वार्ता [दो भाग], शुद्धाद्वैत एकेडमी, काँकरोली, प्रथम स०
तुलसी	तुलसीदास, 'निराला', भारती भट्टार, लीडर प्रेस, प्रयाग, चतुर्थ स०	द्वि०	द्विगीत, रामाधरी सिंह 'दिनकर,' पुस्तक भट्टार, लहेरियासराय, पटना, प्र० स०
तिथितत्व (शब्द०) तुलसी प्र०	तिथितत्व निर्णय तुलसी प्र थावली, सपा० रामचन्द्र शुक्ल, ना० प्र० सभा, काशी, तृतीय स०	द्वि० अभि० प्र०	द्विवेदी अभिनदन ग्रथ, ना० प्र० सभा, वाराणसी
तुरसी श०, तुलसी श०	तुलसी साहब की शब्दावली (हाथरसवाले) वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १९०६, १९११	द्विज (शब्द०) द्विजदेव (शब्द०) द्विवेदी (शब्द०) धरनी० बा०	द्विज कवि अयोध्या नरेश महाराजा मानसिंह 'द्विजदेव' महावीरप्रसाद द्विवेदी धरनी साहब की बानी, वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १९११ ई०
तेग० (शब्द०) तेज० तोष (शब्द०) त्याग०	तेगबहादुर तेजविष्णुनिषद् कवि तोष त्यागपत्र, जैनेन्द्रकुमार, हिंदी ग्रथ रत्नाकर कार्यालय, बबई, प्र० स०	धरम० शब्दा०, धरम० ध्रुष० धूप०	धरमदास की शब्दावली ध्रुवस्वामिनी, प्रसाद धूप और धूर्मा, रामधारीसिंह 'दिनकर,' भ्रजंता प्रेस, लि०, पटना ४
द० सागर	दरिया सागर, वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १९१० ई०	नद० प्र०, नददास प्र०	नददास प्र थावली, सपा० ब्रजरत्नदास, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स०
दक्खिनी०	दक्खिनी का गद्य और पद्य, सपा० श्रीराम शर्मा, हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद, प्र० स०	नई०	नई पोथ, नागाजुंन, किताब महल, इलाहाबाद, प्र० स०, १९५३
दयानिधि (शब्द०) धरिया० बानी	दयानिधि कवि धरिया साहब की बानी, वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, द्वि० स०	नट०	नटनागर विनोद, सपा० कृष्णबिहारी मिश्र, इडियन प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स०
दश०	दशरूपक, सपा० डा० भोलाशकर व्यास, चौखभा विद्याभवन, वाराणसी, प्र० स०	नदी०	नदी के द्वीप, 'अज्ञेय,' प्रगति प्रकाशन, दिल्ली, प्र० स०, १९५१ ई०
दशम० (शब्द०) दहकते०	भाषा दशम स्कंध दहकते भगारे, नरोत्तमप्रसाद नागर, अभ्युदय कार्यालय, इलाहाबाद	नया०	नया साहित्य नए प्रश्न, नददुलारे वाजपेयी, विद्यामंदिर, वाराणसी, २०११ वि०
दाहू०	श्री दाहूदयाल की बानी, स० सुधाकर द्विवेदी, ना० प्र० सभा, वाराणसी	नरेश (शब्द०) नागयज्ञ	'नरेश' कवि जनमेजय का नागयज्ञ, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग, सप्तम स०
दाहूदयाल प्र० दाहू० (शब्द०) दिनेश (शब्द०) दिल्ली	दाहूदयाल प्र थावली दाहूदयाल कवि दिनेश दिल्ली, रामधारी सिंह 'दिनकर,' उदयाचल, पटना, प्र० स०	नागरी (शब्द०) नाथ (शब्द०) नाथसिद्ध०	नागरीदास कवि नाथ कवि नाथसिद्धो की बानियाँ, ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स०
दिव्या	दिव्या, यशपाल, विष्णव कार्यालय, लखनऊ, १९४५ ई०	नाभादास (शब्द०) नारायणदास (शब्द०) निवधमालादश (शब्द०) नील०	नाभादास सत नारायणदास निवधमालादश (म० प्र० द्विवेदी) नीलकुसुम, रामधारीसिंह 'दिनकर,' उदयाचल, पटना, प्र० स०
दीन० प्र०	दीनदयाल गिरि थावली, सपा० ययाम-सु दरदास, ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स०	नेपाल०	नेपाल का इतिहास, प० बलदेवप्रसाद, वैकटेश्वर प्रेस, बबई, १९६१ वि०
दीनदयालु (शब्द०) दीप०	कवि दीनदयालु गिरि दीपशिखा, महादेवी वर्मा, किताबिस्तान, इलाहाबाद, प्र० स०, १९४२ ई०		
दी० ज०, दीप ज०	दीप जलेगा, उपेंद्रनाथ 'प्रभक,' नीलाम प्रकाशन गृह, प्रयाग		
दुर्गाप्रसाद (शब्द०) [हलह (शब्द०)	दुर्गाप्रसाद कवि हलह		

पञ्चवटी	पञ्चवटी, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगाँव, भाँसी, प्र० स०		अग्रवाल, प्रखिल भारतीय ग्रंथ साहित्यमठल, मयुरा, स० २०१० वि०
पजनेस०	पजनेस प्रकाश, सपा० रामकृष्ण वर्मा, भारत जीवन यशालय, काशी, प्र० स०	प्र० सा० प्रताप ग्रं०	प्रगतिशील (वादी) साहित्य । प्रतापनारायण मिश्र ग्रंथावली, सपा० विजय- शंकर मल्ल, ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स०
पदमावत	पदमावत, स० वासुदेवशरण अग्रवाल, साहित्य सदन, चिरगाँव, भाँसी, प्र० स०		प्रतापनारायण मिश्र
पट्टु०, पट्टुमा०	पट्टुमावती, सपा० सूर्यकांत शास्त्री, पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर, १९३४ ई०	प्रताप (शब्द०) प्रवध०	प्रवधपत्र, 'निराला', गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, प्र० स०
पद्माकर ग्रं०	पद्माकर ग्रंथावली, सपा० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स०	प्रभावती	प्रभावती, 'निराला,' सरस्वती भंडार, लखनऊ, प्र० स०
पद्माकर (शब्द०)	पद्माकर भट्ट		प्राणसंगीत, सपा० सत संपूर्णसिंह, बेल- वेडियर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स०
प० रा०, प० रासो	परमाल रासो, सपा० प्रयामसुंदरदास, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स०	प्राण०	प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास, डा० रागेय राघव, आत्माराम ऐंड संस, दिल्ली, प्र० स०, १०५३ ई०
परमानंद०	परमानंदसागर	प्रा० भा० प०	प्रियोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस, पृष्ठ स०
परमेश (शब्द०)	परमेश कवि		प्रियादास
परिमल	परिमल, 'निराला', गंगा ग्रंथागार, लखनऊ, प्र० स०	प्रिय०	प्रेमपथिक, जयशंकर प्रसाद, भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, वृ० स०
पर्दे०	पर्दे की रानी, इलाचंद्र जोशी, भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स०, १९६६ वि०	प्रिया० (शब्द०) प्रेम०	प्रेमचंद और गोर्की, सपा० शचीरानी गुट्टे, राजकमल प्रकाशन लि०, बंबई, १९५५ ई०
पलद्द०	पलद्द सहव की बानी [१-३ भाग], बेलवे- डियर प्रेस, इलाहाबाद, १९०७ ई०	प्रेम० और गोर्की	प्रेमघन सर्वस्व, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प्र० स०, १९६६ वि०
पल्लव	पल्लव, सुमित्रानंदन पंत, इंडियन प्रेस लि०, प्रयाग, प्र० स०	प्रेमघन०	प्रेमसागर
पाणिनि०	पाणिनिकालीन भारतवर्ष, वासुदेवशरण अग्र- वाल, मोतीलाल बनारसीदास, प्र० स०	प्रे० सा० (शब्द०) प्रेमाजलि	प्रेमाजलि, ठा० गोपालशरण सिंह, इंडियन प्रेस लि०, प्रयाग, १९५३ ई०
पारिजात०	पारिजातहरण	फिसाना०	फिसाना ए आजाद [चार भाग], प० रत्ननाथ 'सरणार,' नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, चतुर्थ सं० फूलों का कुर्ता, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, प्र० स०
पार्वती	पार्वती, रामानंद तिवारी शास्त्री, भारतीयवन, मंगलभवन, नयापुरा, कोटा (राजस्थान), प्र० स०, १९५५ ई०	फूलो०	बंगाल का काल, हरिवंश राय 'बच्चन,' भारती भंडार, इलाहाबाद, प्र० स०, १९४६ ई०
पा० सा० सि०	पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धांत, लीलाधर गुप्त, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० स०, १९५२ ई०	वदल०	वदनवार, वेवेद्र सत्यार्थी, प्रगति प्रकाशन, दिल्ली, १९४६ ई०
पिंजरे०	पिंजरे की उड़ान, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, १९४६ ई०	वदन०	वदमाश वर्पण, तेगमली, भारतजीवन प्रेस, बनारस, प्र० स०
पूर्ण (शब्द०)	पूर्ण कवि	वद०	वनवीर कवि
पू० म० भा०	पूर्वमध्यकालीन भारत, वासुदेव उपाध्याय भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स०, २००६ वि०	वलवीर (शब्द०) वलभद्र (शब्द०)	वलभद्र कवि
पु० रा०	पृथ्वीराज रासो [५ खंड], सपा० मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, प्रयामसुंदर दास, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स०	वांकी० ग्रं०, वांकीदास ग्रं०	वांकीदास ग्रंथावली [तीन भाग], सपा० राम- नारायण हूगड, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० सं०
पु० रा० (उ०)	पृथ्वीराज रासो [४ खंड], स० कविराज मोहनसिंह, साहित्य संस्थान, राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर, प्र० स०	वांगेदरा	वांगेदरा
पोद्दार अभि० ग्रं०	पोद्दार अभिनंदन ग्रं०, सपा० वासुदेवशरण	वापू विल्ले०	वापू, कवितासंग्रह विल्लेसुर बकरिहा, निराला, युगमंदिर, उधवा, प्र० सं०

विसराम (शब्द०) विहारी र०	विसराम कवि विहारी रत्नाकर, संपा० जगन्नाथदास 'रत्नाकर', गंगा प्रथमार्, लखनऊ, प्र० स०
विहारी (शब्द०) वी० रासो	कवि विहारी वीसलदेव रासो, सपा० सत्यजीवन वर्मा, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स०
वीसल० रास वी० श० महा०	वीसलदेव रास, सपा० माताप्रसाद गुप्त, प्र० स० वीसवी शताब्दी के महाकाव्य, डा० प्रतिपाल-सिंह शोरिए टल बुकहिपो, देहली, प्र० स०
बुद्ध च०	बुद्धचरित, रामचंद्र शुक्ल, ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स०
वृहत्० वृहत्सहिता (शब्द०)	वृहत्सहिता वृहत्सहिता
वेनी (शब्द०) वेला	कवि वेनी प्रवीन वेला, 'निराला,' हिंदुस्तानी पब्लिकेशस, इलाहाबाद, प्र० स०
वेलि०	वेलि क्रिसन रुक्मिणी री, स० ठाकुर रामसिंह, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० स०, १९३१ ई०
वोधा (शब्द०) व्रज०	कवि वोधा व्रजविलास, सपा० श्रीकृष्णदास, लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, बबई, तृ० स०
व्रज० प्र०	व्रजनिधि प्र थावली, सपा० पुरोहित हरिनारायण शर्मा, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स०
व्रजमाधुरी०	व्रजमाधुरी सार, सपा० वियोगी हरि, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, तृ० स०
व्रह्म (शब्द०) भक्तमाल (प्रि०)	व्रह्म कवि (बीरबल) भक्तमाल, टीका० प्रियादास, वेंकटेश्वर प्रेस, बबई, १९५३ वि०
भक्तमाल (श्री०)	भक्तमाल, श्रीभक्तिसुधाविदु स्वाद, टीका० सीतारामशरण, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, द्वि० स०, १९८३ वि०
भक्ति०	भक्तिसागरादि, स्वामीचरण, वेंकटेश्वर प्रेस, बबई, सवत् १९६० वि०
भक्ति प०	भक्ति पदार्थ वर्णन, स्वामी चरणदास, वेंकटेश्वर प्रेस, बबई, सवत् १९६०
भगवतरसिक (शब्द०) भट्ट (शब्द०) भस्मावृत०	भगवत रसिक बालकृष्ण भट्ट भस्मावृत चिनगारी, यमपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, १९४६ ई०
भा० इ० ह०	भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जयचंद्र विद्यालकार, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० स०, १९३३ वि०
भा० प्रा० लि०	भारतीय प्राचीन लिपिमाला, गौरीशंकर हीराचंद श्रोत्रा, इतिहास कार्यालय, राजमेवाड, प्र० स०, १९५१ वि०

भारत०	भारतभारती, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्यसदन, बिरगाँव, झाँसी, नवम स०
भा० भू०, भारत० नि०	भारत भूमि और उसके निवासी, जयचंद्र विद्यालकार, रत्नाश्रम, आगरा, द्वि० सं० १९८७ वि०
भारतीय० भारतेंदु प्र०	भारतीय राज्य और शासनविधान भारतेंदु प्रथावली [४ भाग], सपा० ब्रजरत्न-दास, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स०
भा० शिक्षा	भारतीय शिक्षा, राजेंद्रप्रसाद, आत्माराम ऐंड सस, दिल्ली, १९५३ ई०
भाषा शि० भिक्षारी प्र०	भाषा शिक्षण, प० सीताराम चतुर्वेदी भिक्षारीदास प्र थावली [दो भाग], सपा० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, ना० प्र० सभा, काशी
भीखा श०, भुवनेश (शब्द०) भूषण प्र०	भीखा शब्दावली प्र० स० भुवनेश कवि भूषण प्र थावली, सपा० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, साहित्य सेवक कार्यालय, काशी, प्र० सं०
भूषण (शब्द०) भोज० भा० सा०	कवि भूषण त्रिपाठी भोजपुरी भाषा और साहित्य, डा० उदय-नारायण तिवारी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, प्र०स०
भति० प्र०	भतिराम प्र थावली, सपा० कृष्णविहारी मिश्र, गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, द्वि० स०
भतिराम (शब्द०) मधु०	कवि भतिराम त्रिपाठी मधुकलश, हरिवंशराय 'बच्चन,' सुषमा निकुंज, इलाहाबाद, द्वि० स०, १९३९ ई०
मधुज्वाल	मधुज्वाल, सुमित्रानंदन पंत, भारती भंडार, इलाहाबाद, द्वि० स०, १९३९ ई०
मधु भा०	मधुमालती वार्ता, सपा० माताप्रसाद गुप्त, ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स०
मधुशाला	मधुशाला, हरिवंश राय 'बच्चन,' सुषमा निकुंज, इलाहाबाद, प्र० स०
मनविरक्त० मनु०	मनविरक्तकरण गुटका 'सार (चरणदास) मनुस्मृति
मन्नलाल (शब्द०) मलूक० बानी मलूक० (शब्द०) महा०	कवि मन्नलाल मलूकदास की बानी, बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग मलूकदास महाराणा का महत्व, जयशंकर प्रसाद, भारती भंडार, इलाहाबाद, चतुर्थ सं०
महावीर प्रसाद (शब्द०) महाभारत (शब्द०)	पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी महाभारत
महाराणा प्रताप (शब्द०) माधव०	महाराणा प्रताप माधवनिदान, लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, बबई, चतुर्थ सं०
माधवानल०	माधवानल कामकदला, वोधा कवि, नवल-किशोर प्रेस, लखनऊ, प्र० स०, १८९१ ई०

मान०	मानसरोवर, प्रेमचंद, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद		श्रीवास्तव, भारतजीवन प्रेस, काशी, प्र० स०,
मानव	मानव, कवितासकलन, भगवतीचरण वर्मा		१९८२ ई०
मानव०	मानवसमाज, राहुल सांकृत्यायन, किताब	रति०	रतिनाथ की चाची, नागार्जुन, किताब महल,
	महल, इलाहाबाद, द्वि० स०		इलाहाबाद, द्वि० स०, १९५३ ई०
मानस	रामचरितमानस, सपा० शम्भुनारायण चौबे,	रत्न० (शब्द०)	रत्नसार
	ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स०	रत्नपरीक्षा (शब्द०)	रत्नपरीक्षा
मिट्टी०	मिट्टी और फूल, नरेंद्र शर्मा, भारती भंडार,	रत्नाकर	रत्नाकर [दो भाग], ना० प्र० सभा, काशी,
	इलाहाबाद, प्र० स०, १९६६ वि०		चतुर्थ और द्वि० स०
मिलन०	मिलनयामिनी, हरिवंश राय 'बच्चन,' भारतीय	रस०	रसमीमांसा, सपा० विश्वनाथप्रसाद मिश्र,
	ज्ञानपीठ काशी, प्र० स०, १९५० ई०		ना० प्र० सभा, काशी, द्वि० स०
मुंशी अभि० प्र०	मुंशी अभिनंदन ग्रंथ, सपा० डा० विश्वनाथ-	रस क०	रसकलश, श्रयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध,'
	प्रसाद, हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ,		हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस, तृतीय स०
	आगरा विश्वविद्यालय, आगरा	रसखान०	रसखान और घनानंद, सपा० श्रीरसिंह,
मुबारक (शब्द०)	मुबारक कवि		ना० प्र० सभा, द्वि० स०
मृग०	मृगनयनी, वृ दावनलाल वर्मा, मयूर प्रकाशन,	रसखान (शब्द०)	सैयद इब्नाहिम रसखान
	भांसी	रस र०, रसरतन	रसरतन, सपा० शिवप्रसाद सिंह, ना० प्र०
मैला०	मैला और चल, फणीश्वरनाथ 'रेणु,' समता	रसनिधि (शब्द०)	सभा, वाराणसी, प्र० स०
	प्रकाशन, पटना-४, प्र० स०	रहीम०	राजा पृथ्वीसिंह
मोहन०	मोहनविनोद, स० कृष्णबिहारी मिश्र, इलाहा-	रहीम (शब्द०)	रहीम रत्नावली
	बाद लॉ जर्नल प्रेस, प्र० स०	राज० इति०	अब्दुरहीम खानखाना
यशो०	यशोधरा, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन,		राजपूताने का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद
	चिरगांव, भांसी, प्र० स०		श्रीभा, अजमेर, १९६७ वि०, प्र० स०
यामा	यामा, महादेवी वर्मा, किताबिस्तान, प्रयाग,	रा० रू०	राजरूपक, सपा० पं० रामकरण, ना० प्र०
	प्र० स०		सभा, काशी, प्र० स०
युग०	युगवाणी, सुमित्रानंदन पंत, भारती भंडार,	रा० वि०	राजविलास, सपा० मोतीलाल मेनारिया, ना०
	इलाहाबाद, प्र० स०	राज्यश्री	प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स०
युगपथ	युगपथ ,, ,, ,,	राम०	राज्यश्री, जयशंकर प्रसाद, लीडर प्रेस, इला-
युगांत	युगांत, सुमित्रानंदन पंत, इद्र प्रिंटिंग प्रेस,		हाबाद, सातवां स०
	अल्मोडा, प्र० स०	रामकवि (शब्द०)	रामचरितमानस, सपा० विजयानंद त्रिपाठी,
योग०	योगवाशिष्ठ (वैराग्य मुमुक्षु प्रकरण), गंगा-	राम० च०	भारती भंडार, इलाहाबाद, प्र० स०
	विष्णु श्रीकृष्णदास, लक्ष्मी वैकटेश्वर छापा		१९७३ वि०
	खाना, कल्याण, बंबई, स० १९६७ वि०	राम० धर्म०	राम कवि
रंगभूमि	रंगभूमि, प्रेमचंद, गंगा ग्रथागार, लखनऊ, प्र०		सक्षिप्त रामचंद्रिका, सपा० लाला भगवानदीन,
	स०, १९८१ वि०	राम० धर्म० स०	ना० प्र० सभा, वाराणसी, पृष्ठ स०
रघु० रू०	रघुनाथ रूपक गीतारो, सपा० महताबचंद्र		रामस्नेह धर्मप्रकाश, सपा० मालचंद्र जी शर्मा,
	खारैड, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स०		चौकसराम जी (सिंहथल), बडा रामद्वारा,
रघु० दा० रघुनाथदास	रघुनाथदास		बीकानेर ।
(शब्द०)			रामस्नेह धर्मसंग्रह, सपा० मालचंद्र जी शर्मा,
रघुनाथ (शब्द०)	रघुनाथ		चौकसराम जी (सिंहथल), बडा रामद्वारा,
रघुराज (शब्द०)	महाराज रघुराजसिंह, रीवांनरेश	रामरसिका०	बीकानेर ।
रजत०	रजतशिक्षर, सुमित्रानंदन पंत, लीडर प्रेस,	रामानंद०	रामरसिकावली [भक्तमाल]
	इलाहाबाद, २००८ वि०		रामानंद की हिंदी रचनाएं, सपा० पीतांबर-
रज्जव०	रज्जव जी की बानी, ज्ञानसागर प्रेस, बंबई,	रामाश्व०	दत्त बहथवाल, ना० प्र० सभा, प्र० स०
	१९७५ वि०		रामाश्वमेध, ग्रंथकार, मन्नालाल द्विज, त्रिपुरा
रत्न०	रत्नहजारा, सपा० श्री जगन्नाथप्रसाद	रेणुका	भैरवी, वाराणसी, १९३६ वि०
			रेणुका, रामधारी सिंह 'दिनकर,' पुस्तक भंडार,
			लहेरियासराय. पटना, प्र० स०

रै० बानी
लक्ष्मणसिंह (शब्द०)
लल्लू (शब्द०)
लवकुश चरित्र (शब्द०)
लहर

रैदास बानी, बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद
राजा लक्ष्मणसिंह
लल्लूलाल
लवकुश चरित्र
लहर, जयशंकर प्रसाद, भारती भंडार,
इलाहाबाद, पचम सं०

लाल (शब्द०)
वर्ण०, वर्णरत्नाकर
विद्यापति

लाल कवि (छत्रप्रकाशवाले)
वर्णरत्नाकर
विद्यापति, सपा० खर्गेन्द्रनाथ मिश्र, यूनाइटेड
प्रेस, लि०, पटना

विनय०

विनयपत्रिका, टीका० प० रामेश्वर भट्ट,
इडियन प्रेस लि०, प्रयाग, तृ० सं०

विशाख

विशाख, जयशंकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग,
तृ० सं०

विश्राम (शब्द०)
वीणा

विश्रामसागर
वीणा, सुमित्रानंदन पंत, इडियन प्रेस, लि०
प्रयाग, द्वि० सं०

वेनिस (शब्द०)
वैशाली०, वै० न०

वेनिस का बाँका
वैशाली की नगरवधू, चतुरसेन शास्त्री, गीतम
बुकडिपो, दिल्ली, प्र० सं०

वो दुनिया

वो दुनिया, यशपाल, विप्लव कार्यालय, सख-
नऊ, १९४१ ई०

व्यंग्यार्थ (शब्द०)
व्यास (शब्द०)
व्रज (शब्द०)
श० दि० (शब्द०)
शंकर (शब्द०)
शंकर०

व्यंग्यार्थ कौमुदी
शबिकादत्त व्यास
व्रज (शब्द०)
शंकरदिग्विजय
शंकर कवि
शंकरसर्वस्व, सपा० हरिशंकर शर्मा, गयाप्रसाद
एंड संस, आगरा, प्र० सं०

शंभु (शब्द०)
शंभु०

शंभु कवि
शंभु तला, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन,
चिरगाँव, भाँसी

शंभुतला

शंभुतला नाटक, अनु० राजा लक्ष्मणसिंह,
हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग, चतु० सं०

शाहजहाँनामा (शब्द०)
शाहजहाँनामा

शाहजहाँनामा
शाहजहाँनामा सहिता, टी० सीताराम शास्त्री, मुषर्ह
वैभव मुद्रणालय, सबत् १९७१

शिक्षर०

शिक्षर शशोत्पत्ति, सपा० पुरोहित हरिनारायण
शर्मा, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० सं०, १९८५

शिवप्रसाद (शब्द०)
शिवराम (शब्द०)
शुक्ल० भ्रमि० प्र०

राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद
शिवराम कवि
शुक्ल भ्रमिनंदन ग्रंथ, मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य
संमेलन

शृ० सत० (शब्द०)
शृगार सुधाकर (शब्द०)

शृगार सतसई
शृगार सुधाकर

शेर०
शैली
श्यामा०

शेर श्री सुखन, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
शैली, कल्याणपति त्रिपाठी
श्यामास्वप्न, सपा० डा० कृष्णलाल, ना० प्र०
सभा, काशी, प्र० सं०

श्रद्धानंद (शब्द०)
श्रीधर (शब्द०)
श्रीधर पाठक (शब्द०)
श्रीनिवास प्र०

श्रद्धानंद
श्रीधर कवि
श्रीधर पाठक
श्रीनिवास ग्रंथावली, सपा डा० कृष्णलाल,
ना० प्र० सभा, काशी, प्र० सं०

सतति०
सचिता
सत तुरसी०

सततिकांता सतति, देवकीनंदन क्षत्री, वाराणसी
सचिता (कविता संग्रह),
सत तुरसीदास की शब्दावली, बेलवेडियर
प्रेस, इलाहाबाद ।

स० दरिया, सत दरिया

सत कवि दरिया, म० घमोद ग्रहचारी, बिहार
राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, प्र० सं०

सत र०

सत रविदास और उनका काव्य, स्वामी
रामानंद शास्त्री, भारतीय रविदास सेवासघ,
हरिद्वार, प्र० सं०

संतवाणी०, सत०सार०

संतवाणी सार संग्रह [२ भाग], बेलवेडियर
प्रेस, इलाहाबाद

सन्यासी,

संन्यासी, इलाहद्व जोशी, भारती भंडार,
लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० सं०

संपूर्णा० भ्रमि० प्र०

संपूर्णानंद भ्रमिनंदन ग्रंथ, सपा० आचार्य
नरेंद्रदेव, ना० प्र० सभा, वाराणसी

स० दर्शन

समीक्षादर्शन, रामलाल सिंह, इडियन प्रेस,
प्रयाग, प्र० सं०

सत्य०

कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी, श्री
पनारसीदास चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य संमेलन,
प्रयाग, द्वि० सं०

सत्यार्थप्रकाश (शब्द०)
सबल (शब्द०)
सभा० वि० (शब्द०)
सरस्वती (शब्द०)
स० शास्त्र

सत्यार्थप्रकाश
सबलसिंह चौहान [महाभारत]
सभाविलास
सरस्वती, मासिक पत्रिका
समीक्षाशास्त्र, प० सीताराम चतुर्वेदी, बखिल
भारतीय विक्रम परिषद, काशी, प्र० सं०

स० सप्तक

सतसई सप्तक, सपा० श्यामसुंदरदास, हिंदु-
स्तानी एकेडमी, प्रयाग, प्र० सं०

सहजो०

सहजो बाई की बानी, बेलवेडियर प्रेस,
इलाहाबाद, १९०८ वि०

साकेत

साकेत, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्यसदन, चिर-
गाँव, भाँसी, प्र० सं०

सागरिका

सागरिका, डा० गोपालशरण सिंह, लीडर
प्रेस, प्रयाग, प्र० सं०

साम०

सामधेनी, रामचारी सिंह 'दिनकर,' उदयाचल,
पटना, द्वि० सं०

सा० दर्पण	साहित्यदर्पण, सपा० शास्त्रिग्राम शास्त्री, श्री मृत्युजय श्रीयधालय, लखनऊ, प्र० स०	हस०	हसमाला, नरेंद्र शर्मा, भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० स०
सा० लहरी	साहित्यलहरी, सपा० रामलोचनशरण विहारी, पुस्तक भंडार, लहेरियासराय, पटना	हकायके०	हकायके हिंदी, ले० मीर अब्दुल वाहिद, प्र० सपा० 'बद्र' काशिकेय, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स०
सा० समीक्षा	साहित्य समीक्षा, कालिदास कपूर, इडियन प्रेस, प्रयाग	हनुमान (शब्द०)	हनुमन्नाटक
साहित्य०	साहित्यालोचन	हनुमान कवि (शब्द०)	हनुमान कवि (शब्द०)
सिद्धांतसंग्रह (शब्द०)	सिद्धांतसंग्रह	हम्मीर०	हम्मीरहठ, सपा० जगन्नाथदास 'रत्नाकर,' इडियन प्रेस, लि०, प्रयाग
सीताराम (शब्द०)	सीताराम कवि	ह० रासो०	हम्मीर रासो, सपा० डा० श्यामसुंदरदास, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० सं०
सुदर० प्र०	सुदरदास गथावली [दो भाग], सपा० हरिनारायण शर्मा, राजस्थान रिसर्च सोसायटी, कलकत्ता	हरिजन (शब्द०)	कवि हरिजन
सुंदरीसिद्धर (शब्द०)	सुंदरीसिद्धर	हरिदास (शब्द०)	स्वामी हरिदास
सुखदा	सुखदा, जैनेंद्रकुमार, पूर्वोदय प्रकाशन, दिल्ली, प्र० सं०	हरिश्चंद्र (शब्द०)	भारतेंद्रु हरिश्चंद्र
सुखदेव (शब्द०)	कवि 'सुखदेव'	हरिसेवक (शब्द०)	हरिसेवक कवि
सुधाकर (शब्द०)	महामहोपाध्याय प० सुधाकर द्विवेदी	हरी घास०	हरी घास पर क्षण भर, अज्ञेय, प्रगति प्रकाशन, नई दिल्ली, १९४९ ई०
सुजान०	सुजानचरित (सूदनकृत), सपा० राधाकृष्ण, नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, प्र० स०	हर्ष०	हर्षचरित् एक सांस्कृतिक अध्ययन, वासुदेव-शरण अग्रवाल, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, प्र० स०, १९५३ ई०
सुनीता	सुनीता, जैनेंद्रकुमार, साहित्यमंडल, बाजार सीताराम, दिल्ली, प्र० स०	हालाहल	हालाहल, हरिवशराय बच्चन, भारती भंडार, प्रयाग, १९४६ ई०
सुदर (शब्द०)	सुदर कवि	हिंदी आ०	हिंदी आलोचना
सूत०	सूत की माला, पत शीर बच्चन, भारती भंडार, इलाहाबाद, प्र० स०	हिंदी का०	हिंदी काव्य की अतश्चेतना
सूदन (शब्द०)	सूदन कवि (भरतपुरवाले)	हि० का० प्र०	हिंदी काव्य पर आंग्ल प्रभाव, रवींद्रसहाय वर्मा, पद्मजा प्रकाशन, कानपुर, प्र० सं०
सूर०	सूरसागर [दो भाग], ना० प्र० सभा, द्वितीय स०	हि० क० का०	हिंदी कवि शीर काव्य, गणेशप्रसाद द्विवेदी हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० स०
सूर० (शब्द०)	सूरदास	हि० ना०	हिंदी के नाटक
सूर० (राधा०)	सूरसागर, सपा० राधाकृष्णदास, वेंकटेश्वर प्रेस, प्र० स०	हिंदी प्रदीप (शब्द०)	हिंदी प्रदीप
सेवक (शब्द०)	'सेवक' कवि	हिंदी प्रेमगाथा	हिंदी प्रेमगाथा काव्यसंग्रह, गणेशप्रसाद द्विवेदी, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, १९३९ ई०
सेवक प्रयाम (शब्द०)	सेवक प्रयाम कवि	हिंदी प्रेमा०	हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य, डा० कमल कुलश्रेष्ठ, चौधरी भानसिंह प्रकाशन, कचहरी रोड
सेवासदन	सेवासदन, प्रेमचंद, हिंदी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता, द्वि० सं०	हि० प्र० चि०	हिंदी काव्य में प्रकृतिचित्रण, किरणकुमारी गुप्त, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
सेर कु०	सेर कुहसार, प० रतननाथ 'सरशार,' नवल-किशोर प्रेस, लखनऊ, च० सं०, १९३४ ई०	हि० सा० भू०	हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारिप्रसाद द्विवेदी, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, बबई, तृ० सं०, १९४८
सौ अज्ञान० (शब्द०)	सौ अज्ञान और एक सुजान, अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिप्रौढ'	हिंदु० सभ्यता	हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता, बेनीप्रसाद, हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, प्र० स०
स्कंद०	स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद, भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० स०	हित हरिवश (शब्द०)	वैष्णव सत हित हरिवश
स्वर्ण०	स्वर्णकिरण, सुमित्रानंदन पंत, लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० स०	हिम कि०	हिमकिरीटिनी, माखनलाल चतुर्वेदी, सरस्वती प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद, तृ० सं०
स्वाधीनता (शब्द०)	स्वाधीनता		
स्वामी हरिदास (शब्द०)	स्वामी हरिदास		

हिम त०	हिमतरंगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी, भारती भडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स०	हिल्लोल	हिल्लोल, शिवमगल सिंह 'मुमन', सरस्वती प्रेम, बनारस, द्वि० स०
हिम्मत०	हिम्मतवहादुर विरुदावली, लाला भगवान- दीन, ना० प्र० सभा, काशी, द्वि० स०	हुमायूं हृदय०	हुमायूं नामा, अनु० अजरस्तदास, ना० प्र० सभा, वाराणसी, द्वि० स० हृदयतरंग, सत्यनारायण कविरत्न

[व्याकरण, व्युत्पत्ति आदि के संकेताक्षरों का चिह्नण]

अ०	अप्रेजी	जी०, जीवन०	जीवनचरित्
अ०	अरबी	ज्या०	ज्यामिति
अक० रूप	अकर्मक रूप	ज्यो०	ज्योतिष
अनु०	अनुकरण शब्द	डि०	डिगल
अनुध्व०	अनुध्वन्यात्मक	स०	तमिल
अनु० मु०	अनुकरणार्थमूलक	तकं०	तकंशास्त्र
अनुर०	अनुरणनात्मक रूप	ति०	तिष्ठती भाषा
अप०	अपभ्रंश	तु०	तुर्की
अर्ध० मा०	अर्धमागधी	दू०	दूहा या दूहला
अल्पा०	अल्पार्थक	दे०	देखिए
अव०	अवधी	देश०	देशज
अव्य०	अव्यय	देशी	देशी
इव०	इवरानी	धर्म०	धर्मशास्त्र
उ०	उदाहरण	नाम०	नामधातु
उच्चा०	उच्चारण सुविधार्थ	ना० घा०	नामधातुज क्रिया
उडि०	उडिया	नामिक धातु	नामिक धातु
उप०	उपसर्ग	ने०	नेपाली
उभय०	उभयलिङ्ग	न्याय०	न्याय या तकंशास्त्र
एकव०	एकवचन	प०	पजावी
कहावत	कहावत	परि०	परिशिष्ट
काव्यशास्त्र	काव्यशास्त्र	पा०	पाली
[को०], (को०)	अन्य कोश	पु०	पु लिङ्ग
कोक०	कोंकणी	पुतं०	पुतंगाली
क्रि०	क्रिया	पु० हि०	पुरानी हिंदी
क्रि० अ०	क्रिया अकर्मक	पू० हि०	पूर्वी हिंदी
क्रि० प्र०	क्रिया प्रयोग	पु०	पुष्ठ
क्रि० वि०	क्रिया विशेषण	प्रत्य०	प्रत्यय
क्रि० स०	क्रिया सकर्मक	प्र०	प्रकाशकीय या प्रस्तावना
क्व०	क्वचित्	प्रा०	प्राकृत
गीत	लोकगीत	प्रे०	प्रेरणार्थक रूप
गुज०	गुजराती	फ०	फर्रांसीसी भाषा
ची०	चीनी भाषा	फकीर०	फकीरो की बोली
छ०	छंद	फा०	फारसी
जापा०	जापानी	बंग०	बंगला भाषा
जावा०	जावा द्वीप की भाषा	घरमी०	घरमी भाषा

बहुव०	बहुवचन	वै०	वैदिक
बु० स०	बु देलखड की बोली	व्या०	व्याकरण
बोल०	बोलचाल	(शब्द०)	शब्दसागर
भाव०	भाववाचक सज्ञा	सं०	संस्कृत
भू०	भूमिका	सयो०	सयोजक अव्यय
भू० कृ०	भूत कृदन्त	सयो० क्रि०	सयोजक क्रिया
मरा०	मराठी	स०	सकर्मक
मल०	मलयाली या मलयालम भाषा)	सक० रूप	सकर्मक रूप
मला०	मलायलम भाषा	सधु०	सधुक्कडी भाषा
मि०	मिलाइए	सर्व०	सर्वनाम
मुसल०	मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त	स्वे०	स्वेनी भाषा
मुहा०	मुहावरा	स्त्रि०	स्त्रियो द्वारा प्रयुक्त
यू०	यूनानी	स्त्री०	स्त्रीलिंग
यी०	योगिक	हि०	हिंदी
राज०	राजस्थानी	Ⓣ	काव्यप्रयोग, पुरानी हिंदी
लक्ष०	लशकरी	>	व्युत्पन्न
ला०	लाक्षणिक	†	प्रांतीय प्रयोग
लै०	लैटिन	‡	ग्राम्य प्रयोग
व० कृ०	वर्तमान कृदन्त	✓	धातुचिह्न
वि०	विशेषण	*	सभाव्य व्युत्पत्ति
वि० द्वि० मू०	विषमद्विरुक्तिमूलक	?	अनिश्चित व्युत्पत्ति



हिंदी शब्दसागर

प

प—हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनो के अंतिम वर्ग का पहला वर्ण । इसका उच्चारण ओठ से होता है इसलिये शिक्षा में इसे ओष्ठ्य वर्ण कहा गया है । इसके उच्चारण में 'दोनों' ओठ मिलते हैं इसलिये यह स्पर्श वर्ण है । इसके उच्चारण में शिक्षा के अनुसार विवार, श्वास, घोष और अल्पप्राण नामक प्रयत्न लगते हैं ।

पंक—सज्ञा पु० [सं० पङ्क] १. कीचड़ । कीच ।

यौ०—पंकज । पंकरुह ।

२ पानी के साथ मिला हुआ पोतने योग्य पदार्थ । लेप । उ०—
श्याम अंग च दन की आभा नागरि केसरि अंग । मलयज
पक कुमकुमा मिलिकै जल जमुना इक रंग ।—सूर (शब्द०)

३. पाप (की०) । ४ वडा परिमाण । घनी राशि (की०) ।

पंककर्वट—सज्ञा पु० [पङ्ककर्वट] जलयुक्त कीचड़ [की०] ।

पंककीर—सज्ञा पु० [सं० पङ्ककीर] टिटिहरी नाम की चिडिया ।

पंकक्रीड^१—वि० [सं० पङ्कक्रीड] कीचड़ में खेलनेवाला ।

पंकक्रीड^२—सज्ञा पु० सूअर ।

पंकक्रीडनक—सज्ञा पु० [सं० पङ्कक्रीडनक] दे० 'पंकक्रीड' ।

पंकगडक—सज्ञा पु० [पङ्कगडक] एक प्रकार की छोटी मछली ।

पंकग्राह—सज्ञा पु० [सं० पङ्कग्राह] मगर ।

पंकचर—सज्ञा पु० [अ० पंकचर] छेद । छिद्र । पंवर । उ०—हमें
न चहिए डनलप टायर, पंकचर ले शैतान सैमाल ।—वदन०,
पृ० १४५ ।

पंकच्छिद—सज्ञा पु० [सं० पङ्कच्छिद] एक प्रकार का वृक्ष ।
निर्मली [की०] ।

पंकज^१—वि० [सं० पङ्कज] कीचड़ में उत्पन्न होनेवाला ।

पंकज^२—सज्ञा पु० १ कमल ।

यौ०—पंकज वन = (१) कमल का वन । उ०—तू भूल न गी
पंकजवन में, जीवन के इस सूनेपन में, ओ प्यार पुलक से
भरी दुलक ।—लहर, पृ० २ ।

सारस पक्षी (की०) ।

पंकजजन्मा—सज्ञा पु० [सं० पङ्कजजन्मन्] ब्रह्मा, जो कमल से
उद्भूत है [की०] ।

पंकजन्म—सज्ञा पु० [सं० पङ्कजन्मन्] कमल [की०] ।

पंकजन्मा^१—सज्ञा पु० [सं० पङ्कजन्मन्] कमल ।

पंकजन्मा^२—वि० [सं० पङ्कजन्मन्] कीचड़ से पैदा होनेवाला [की०] ।

पंकजनाभ—सज्ञा पु० [सं० पङ्कजनाभ] विष्णु [की०] ।

पंकजराग—सज्ञा पु० [सं० पङ्कजराग] पद्मराग मणि । उ०—
परिजन सहित राय रातिन कियो मज्जन प्रेम प्रयाग ।
तुलसी फल चार को ताके मनि मरकत पंकज राग ।
—तुलसी (शब्द०) ।

पंकजवाटिका—सज्ञा स्त्री० [सं० पङ्कजवाटिका] तेरह अक्षरो का एक
वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक भरण, एक नगण, दो
जगण और अत में एक लघु होता है । इसे एकावली और
कजावली भी कहते हैं । जैसे,—श्री रघुवर तुम ही जगनायक ।
देखहु दशरथ को सुखदायक । सोदर सहित पिता पदपावन ।
वदन किय तव ही मनभावन ।—केशव (शब्द०) ।

पंकजात—सज्ञा पु० [सं० पङ्कजात] कमल ।

पंकजासन—सज्ञा पु० [सं० पङ्कजासन] ब्रह्मा ।

पंकजित्—सज्ञा पु० [सं० पङ्कजित्] गरुड़ के एक पुत्र का नाम ।

पंकजिनी—सज्ञा स्त्री० [सं० पङ्कजिनी] १. पद्माकर । कमलाकर ।
२. कमलिनी । कमलवृक्ष ।

पंकण—सज्ञा पु० [सं० पङ्कण] चाडाल का निवासस्थान [की०] ।

पंकत^(१)—सज्ञा स्त्री० [सं० पङ्कित्] दे० 'पक्ति' । उ०—(क) बक
पकत रद नीर, गरजण गाज पिछाण ।—वांकी० अ०,
भा० १, पृ० १७ । (ख) च डीसूल पार जात मराला पकताँ
चगी ।—रघु०, ६०, पृ० २४६ ।

पंकदिग्ध—वि० [सं० पङ्कदिग्ध] पंकयुक्त । जिसपर मिट्टी पोती
गई हो [की०] ।

पंकदिग्धशरीर—सज्ञा पु० [सं० पङ्कदिग्धशरीर] ए० दानव का नाम ।

पंकदिग्धाग^१—वि० [सं० पङ्कदिग्धाङ्ग] वह जिसके अंगो पर कीचड़
का लेप किया गया हो [की०] ।

पंकदिग्धांग^२—सज्ञा पु० [सं० पङ्कदिग्धाङ्ग] कार्तिकेय के एक अनुचर
का नाम ।

पंकधूम—सज्ञा पु० [सं० पङ्कधूम] जैनियों के एक नरक का नाम ।

पंकपर्पटी—सज्ञा स्त्री० [सं० पङ्कपर्पटी] सौराष्ट्रमृत्तिका । गोपीचंदन ।

पंकप्रभा—सज्ञा पु० [सं० पङ्कप्रभा] कीचड़ से भरे हुए एक नरक
का नाम ।

पंकभाक—वि० [सं० पङ्कभाज्] कीचड़ में हुआ हुआ । पक्किल [की०] ।

पंकभारक—वि० [सं० पङ्कभारक] कीचवाला । पक्किल । जिसमें
कीचड़ भरा हो [की०] ।

पंकमडूक—[सं० पङ्कमडूक] १ घोंघा । २ छोटी सीप । सुतही ।
 पकरुह—सज्ञा पुं० [सं० पङ्करुह] कमल । उ०—पुनि पुनि प्रभु पद
 कमल गहि जोरि पकरुह पानि । बोली गिरिजा वचन बर
 मनहु प्रेम रस सानि ।—मानस, १।११६ ।
 पंकवारि—सज्ञा स्त्री० [सं० पङ्कवारि] कांजी ।
 पंकवास—सज्ञा पुं० [सं० पङ्कवास] केकडा । ककंट ।
 पकशुक्ति—सज्ञा स्त्री० [सं० पङ्कशुक्ति] १. ताल मे होनेवाली
 सीप । सुतही । २ घोघा ।
 पकशूरण—सज्ञा पुं० [सं० पङ्कशूरण] कमल की जड । [को०] ।
 पकसूरण—सज्ञा पुं० [सं० पङ्कसूरण] दे० 'पकशूरण' [को०] ।
 पकार—सज्ञा पुं० [सं० पङ्कार] १ एक पेड जो गडहो के कीचडो में
 होता है । इस पीघे में स्त्री और पुरुष दो भलग जातियाँ होती
 हैं । २ जलकुञ्जक । ३. सिघाढा । ४. सेवार । ५. पुल ।
 ६ बाँघ । सेतु । ७ सीढ़ी ।
 पकिल^१—वि० [सं० पङ्किल] जिसमे कीचड हो । कीचडवाला ।
 उ०—उतरकर पर्वत से निर्भरी भूमि पर पकिल हुई, सलिल
 देह कलुषित हुआ ।—अनामिका, पु० ७ ।
 पकिल^२—सज्ञा पुं० बड़ी नाव । बजडा ।
 पकिलता—सज्ञा स्त्री० [सं० पङ्किलता] कीचयुक्त होने की अवस्था
 या भाव । २. मैल । गदगी । ३. कालिमा । कलुष [को०] ।
 पकेज—सज्ञा पुं० [सं० पङ्केज] दे० 'पंकज' ।
 पकेरुह—सज्ञा पुं० [सं० पङ्केरुह] १. पकरुह । कमल । २ सारस
 (को०) ।
 पकेशय—वि० [सं० पङ्केशय] कीचड में निवास करनेवाला [को०] ।
 पकेशया—सज्ञा स्त्री० [सं० पङ्केशया] जोक ।
 पक्चर—सज्ञा पुं० [अ०] (रवड के) ट्यूब या ब्लैडर में किसी
 नोकदार चीज के चुमने से होनेवाला छेद । उ०—मोटरकार
 के पिछले दोनो पहियों में पक्चर हो गए ।—तारिका,
 पु० १५४ ।
 पक्ति—सज्ञा स्त्री० [सं० पङ्क्ति] १ ऐसा समूह जिसमें बहुत सी
 (विशेषत एक ही या एक ही प्रकार की) वस्तुएँ एक दूसरे
 के उपरांत एक सीध में हों । श्रेणी । पांती । कतार ।
 लाइन । २ चालीस अक्षरों का एक वैदिक छंद जिसका वरुण
 नील, गोत्र भार्गव, देवता वरुण और स्वर पञ्चम है । ३. एक
 वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में पाँच पाँच अक्षर अर्थात् एक
 भगण और अत में दो गुण होते हैं । ४. दस की संख्या । ५.
 सेना मे दस दस योद्धाओं की श्रेणी । ६. कुलीन ब्राह्मणों
 की श्रेणी ।
 यौ०—पक्तिच्युत । पक्तिपावन ।
 ७ भोज मे एक साथ बैठकर खानेवालों की श्रेणी । जैसे,—
 उनके साथ हम एक पक्ति में नहीं खा सकते ।
 यौ०—पक्तिभेद ।
 विशेष—हिंदू आचार के अनुसार पतित आदि के साथ एक पक्ति
 में बैठकर भोजन करने का निषेध है ।

न (जीवो या प्राणियो की) वर्तमान पीढ़ी (को०) । ६ पृथ्वी
 (को०) । १० प्रसिद्धि (को०) । ११ पाक (को०) ।
 पत्तिकटक—वि० [सं० पङ्क्तिक्तकटक] पत्तिदूषक ।
 पत्तिका—सज्ञा स्त्री० [सं० पङ्क्तिक्ता] पत्ति । लाइन [को०] ।
 पत्तिकृत—वि० [सं० पङ्क्तिक्तकृत] श्रेणीबद्ध ।
 पत्तिग्रीव—सज्ञा पुं० [सं० पङ्क्तिक्तग्रीव] रावण ।
 पत्तिचर—सज्ञा पुं० [सं० पङ्क्तिक्तचर] कुरुर पक्षी ।
 पत्तिच्युत—वि० [सं० पङ्क्तिक्तच्युत] किसी कलक, दोष आदि के
 कारण जाति की श्रेणी से बाहर किया हुआ । विरादरी से
 निकाला हुआ ।
 पत्तिदूष—वि० [सं०] दे० 'पत्तिदूषक' [को०] ।
 पत्तिदूषक^१—वि० [सं० पङ्क्तिक्तदूषक] पगत को दूषित करनेवाला ।
 नीच । कुजाति । जिसके साथ एक पक्ति में बैठकर भोजन
 नहीं कर सकते ।
 पत्तिदूषक^२—सज्ञा पुं० ऐसे ब्राह्मण जिनको मनु आदि के मत से श्राद्ध
 में भोजन कराना या दानादि देना निषिद्ध माना गया है ।
 विशेष—इनकी गणना मनुस्मृति अध्याय ३ मे दी गई है ।
 पत्तिपावन—सज्ञा पुं० [सं० पङ्क्तिक्तपावन] १ वह ब्राह्मण जिनको
 यज्ञादि में बुलाना, भोजन कराना और दान देना श्रेष्ठ माना
 गया है ।
 विशेष—मनु आदि स्मृतियों मे ऐसे ब्राह्मणों की गणना दी गई
 है । शास्त्रों का कथन है कि ऐसा ब्राह्मण यदि एक भी मिले
 तो वह ब्राह्मणों की पक्ति को पवित्र कर देता है ।
 २ वह गृहस्थ जो पचाग्नियुक्त हो ।
 पत्तिवद्ध—वि० [सं० पङ्क्तिक्तवद्ध] श्रेणीबद्ध । पांति मे लगा हुआ ।
 कतार में बँधा हुआ ।
 पत्तिवाह्य—वि० [सं० पङ्क्तिक्तवाह्य] पगत से निकाला हुआ ।
 जातिच्युत ।
 पत्तिवीज—देश० पुं० [सं० पङ्क्तिक्तवीज] १ बबूल । २ उरगा । ३
 कारिणकार ।
 पत्तिरथ—सज्ञा पुं० [सं० पङ्क्तिक्तरथ] राजा दशरथ ।
 पंकी(पुं)—सज्ञा स्त्री० [सं० पङ्क्तिक्त] एक वर्णिक छंद । दे० 'पक्ति' ३।
 उ०—भाग गुनै को । नारि नरा को । नाहि लखती ।
 अक्षर पत्ती ।
 पंक्यज(पुं)—सज्ञा पुं० [सं० पङ्कज] दे० 'पंकज' । उ०—सिव
 सनकादिक नारदा, ब्रह्म लिया निज वास जी । कहीं कवीर पद
 पंक्यजा, अरु नेडा चरण निवास जी ।—कवीर ग्र०, पृ० ६८ ।
 पंख—सज्ञा पुं० [सं० पक्ष, प्रा० पक्ख] १. पर । डैना । वह अवयव
 जिससे चिड़िया, फर्तिगे आदि हवा में उड़ते हैं । उ०—(क)
 पख छत्ता परबस परा सुआ के बुधि नाहि ।—कवीर (शब्द०) ।
 (ख) काटेसि पख परा खग धरनी ।—तुलसी (शब्द०) ।
 मुहा०—पख जमना = (१) न रहने का लक्षण उत्पन्न होना ।
 भागने या चले जाने का लक्षण देख पडना । जैसे,—इस नौकर

को भी श्रवण पक्ष जमे, श्रवण यह न रहेगा । (२) इधर उधर घूमने की इच्छा देख पडना । वहकने या बुरे रास्ते पर जाने का रग ढग दिखाई पडना । जैसे,—इस लटके को भी श्रवण पक्ष जम रहे हैं । (३) प्राण खोने का लक्षण दिखाई देना । शामत आना ।

विशेष—बरसात में चीटो, चीटियो तथा और कीडो को पर निकलते हैं और वे उड उडकर मर जाते हैं, इससे यह मुहावरा बना है ।

पंख लगना = पक्षी के समान वेगवान् होना । **पख लपेटे सिर धुनना** = मधु के लोभ से मधु की मक्खी सा बनना । स्वयं ही परेशानी में डालकर पछनाना । उ०—पख लपेटे सिर धुन, मनही मन पछताय ।—धरनी०, पृ० ८४ ।

२ तीर के आगे दोनो और निकला हुआ फल ।

पखराज(पु)—सञ्ज्ञा पु० [सं० पखिराज] गरुड । उ०—बरवागू के सचि पखराज सीधाव ।—रघु० ६०, पृ० २४० ।

पखरी—सञ्ज्ञा पु० [सं० पख, हि० पख + डी (स्वा० प्रत्य०)] 'पंखडी' । उ०—सब जग छेली काल कसाई कर्द लिए कंठ काट । पच तत्त की पच पखरी खड खड करि वांटे ।—दाहू०, पृ० ३६४ ।

पंखा—सञ्ज्ञा पु० [हि० पख] [गी० अल्पा० पखी] वह वस्तु जिसे हिताकर हवा का झोका किसी और ले जाते हैं । बिजना । वेना । उ०—अवनि सेज पखा पवन श्रवण न कछु परवाह ।—पद्माकर (शब्द०) ।

विशेष—यह भिन्न भिन्न वस्तुओं का तथा भिन्न आकार और आकृति का बनाया जाता है और इसके हिलाने से वायु चलकर शरीर में लगती है । छोटे छोटे वेनो से लेकर जिसे लोग अपने हाथों में लेकर हिलाते हैं, बड़े बड़े पखो तक के लिये, जिसे दूसरे हाथ में पकडकर हिलाते हैं, या जो छत में लटकाए जाते हैं और डोरी के सहारे से खींचे जाते हैं या जिन्हें चरखी से चलाकर या बिजली आदि से हिलाकर वायु में गति उत्पन्न की जाती है, सबके लिये केवल 'पखा' शब्द से काम चल सकता है । इसे पख के आकार का होने के कारण श्रवणवा पहले पख से बनाए जाने के कारण पखा कहते हैं ।

क्रि० प्र०—चलाना ।—खींचना ।—फूलना ।—हिलाना ।—डुलाना ।

मुहा०—पखा करना = पखा हिला या डुलाकर वायु संचारित करना ।

२. भुजमुल का पार्श्व । पखुआ । पखुरा ।

पंखाकुली—सञ्ज्ञा पु० [हि० पखा + कुली] वह कुली जो पखा खींचने के लिये नियत किया गया हो ।

पंखाज—सञ्ज्ञा पु० [सं० पखवाध, हि० पखावज, पखाज] दे० 'पखावज' ।

पंखापोश—सञ्ज्ञा पु० [हि० पखा + फा० पोश] पखे के ऊपर का गिलाफ ।

पखापोस(पु)—सञ्ज्ञा पु० [हि० पंखा + फा० पोस] दे० 'पखापोश' । उ०—पिहित पराई वात इगित सो बोध करे पी को देखि श्रमित उतारयो पखापोस है ।—दुलह (शब्द०) ।

पखाल(पु)—सञ्ज्ञा पु० [सं० पखाल] गिद्ध आदि पक्षी । उ०—वरगा राल वरमाल सूर वर । त्रिपत पखाल दिल खुले ताला ।—रघु० ६०, पृ० २० ।

पखि(पु)—सञ्ज्ञा पु० [सं० पखी] दे० 'पखी' । उ०—ककनू पखि जंस सर साजा । सर चढि तवाहि जरा चह राजा ।—जायसी प्र० (गुप्त), पृ० २५८ ।

पंखी^१—सञ्ज्ञा पु० [सं० पखी, पा० पक्खी] १ पक्षी । चिडिया । उ०—पगै पगै मुई चपत आवा । पखिन देखि सवन डर खावा ।—जायसी (शब्द०) । २ कबूतर के पख से बंधी हुई सूत की बत्ती जिसे ढरकी के छेदों में अँटकाते हैं । (जुलाहे) । ३. पंखी । फातिगा । ४ एक प्रकार का ऊनी कपडा जो भेड के बाल से पहाड़ों में बुना जाता है । ५ वह पतली पतली हलकी पत्तियाँ जो साखू के फल के सिरे पर होती हैं । ६. पंखडी ।

पखी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पखा] छोटा पखा ।

पंखीसेढ—सञ्ज्ञा पु० [हि० पखी + अ० सेल] चौकोर पाल जो मस्तूल से तिरछे एक तिहाई निकला रहे ।

पंखुरी(पु)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पखडी' । उ०—बोलता मध्ये में वसे हीरा वरन सरूप । सात पखुरी सुरत की किंचित वस्तु अनूप ।—कवीर (शब्द०) ।

पग^१—वि० [सं० पङ्गु] १ लँगडा । २ स्तब्ध । वेकाम । उ०—नख सिख रूप देखि हरि जू के होत नयन गति पग ।—सूर (शब्द०) ।

पंग^२—सञ्ज्ञा पु० [देश०] एक पेड जो आसाम की और सिलहट कछार आदि में होता है ।

विशेष—इसकी लकडी बहुत मजबूत होती है और मकानों में लगती है । इसका कोयला भी बहुत अच्छा होता है । लकडी से एक प्रकार का रंग भी निकलता है ।

पग^३—सञ्ज्ञा पु० [देश०] एक प्रकार का नमक जो लिवरपूल से आता है ।

पग(पु)^४—सञ्ज्ञा पु० [हि०] जयचंद की एक उपाधि । दलपगुर । जयचंद, कन्नौज का राजा । उ०—भूल्यो नृप इन रंग महि, पग चढयो हम पुट्टि । सुनि सुदर वर वज्जने अई अपुत्र कोइ दिट्ट ।—पृ० रा०, ६१।११४७ ।

यौ०—पगजा = पग की पुत्री । सयोगिता ।

पंगई—सञ्ज्ञा स्त्री० [?] नाव खेने का छोटा डांडा जिसका एक जोडा लेकर एक ही आदमी नाव चला सकता है । हाथ हलसा । चमचा । वैठा । चप्पू (लश०) ।

पंगत, पंगति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पट्टि, पा० पत्ति] १ पंती । पक्ति । उ०—बरदत की पंगति कुद कली श्रवणधर पल्लव खोलन की । चपला चमकै घन बीच जगै छवि मोतिन माल अमोलन की । घुंघुराची लट लटके मुख ऊपर कुडल लोच कपोलन

की। निवछावर प्राण करे तुलसी बलि जाउं लला इन बोलन की।—तुलसी (शब्द०)।

क्रि० प्र०—जोड़ना।

२. भोज के समय भोजन करनेवालो की पक्ति।

क्रि० प्र०—वैठना।—उठना।—लगना।

३ भोज।

क्रि० प्र०—करना।—लगाना।—होना।—देना।

४ समाज। सभा। ५ जुलाहों के करघे का एक औजार जो दो सरकडो से बनाया जाता है।

विशेष—इसे कैंची की तरह स्थान स्थान पर गाड़ देते हैं। इनके ऊपरी छेदो पर ताने के किनारे के सूत इसलिये फँसा दिए जाते हैं जिससे ताना फैला रहे।

पगरगण^(५)—सञ्ज्ञा पुं० [स० प्रावरण, प्रा० पगरण] वस्त्र। कपडा। उ०—विहद कोर गोटे बर्यो, पातर रे पोसाक। परणी फाटे पगरण, वेली फाटे वाक।—वाँकी० ग्र०, भा० २, पृ० ६।

पगा—वि० [स० पङ्गु] [पि० स्त्री० पगी] १. लँगडा। २. स्तब्ध। बेकाम। उ०—नागरी सकल सकेत आकारिनी गनत गुनगनन मति होत पगो।—नागरीदास (शब्द०)।

पंगानी^(५)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] कोई वस्तु जो पग सबधी हो। उ०—जिन मन्त्री कैमास बघ बघ्यौ पगानी।—पृ० रा०, ५७।६६। २. पग की पुत्री। सयोगिता।

पगायता—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पग] पायताना। गोडवारी।

पगास—सञ्ज्ञा पुं० [?] एक प्रकार की मछली।

पगो^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [स० पङ्ग, हिं० पाँक] घान के खेत में लगनेवाला एक कीड़ा।

पगो^(५)^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] कीर्ति। यज्ञ। उ०—पगी गग प्रवाह, निरमल तन कीधो नही। चित्त क्यूँ राखै चाह तिके सरग पावण तरणी।—वाँकी० ग्र०, भा० ३, पृ० ४६।

पगु^१—वि० [स० पङ्गु] जो पैर से चल न सकता हो। लँगडा। उ०—(क) मूक होइ वाचाल पगु चढे गिरिवर गहन। जासु कृपा सो दयाल, द्रवी सकल कलिमल दहन।—मानस, १।१। (ख) मति भारत पगु भई जो निहारि विचारि फिरी उपमा न पवै।—तुलसी (शब्द०)।

पगु^२—सञ्ज्ञा पुं० १ शनैश्चर। २ एक रोग। यह मनुष्य के पैरो में और जाँघो में होता है।

विशेष—यह वात रोग का मेद है। वैद्यक का मत है कि कमर में रहनेवाली वायु जाँघो की नसों को पकड़कर सिक्को देती है जिससे रोगी के पैर सिक्क जाते हैं और वह चल फिर नहीं सकता।

३ एक प्रकार का साधु जो भिक्षा वा मलमूत्रोत्सर्ग के अतिरिक्त अपने स्थान से उठकर किसी और काम के लिये दिन भर में एक योजन से बाहर नहीं जाता।

पगुगति—सञ्ज्ञा स्त्री० [स० पङ्गुगति] वर्णिक छंदो का एक दोष।

विशेष—जब किसी वर्णिक छंद में लघु के स्थान में गुरु या गुरु के स्थान में लघु आ जाता है तब यह दोष माना जाता है। जैसे,—‘फूटि गए श्रुति ज्ञान के केशव आंखि अनेक विवेक की फूटी। इसमें ज्ञान के साथ ‘के’ और विवेक के साथ ‘की’ गुरु हैं। यहाँ नियमानुसार लघु होना चाहिए था।

पगुग्राह—सञ्ज्ञा पुं० [स० पङ्गुग्राह] १ मगर। २. मकर राशि।

पगुडा—वि० [स० पङ्गुडा] पति के पीछे पीछे चलनेवाली। उ०—किसकी ममा चचा पुनि किसका पगुडा जोई। यह ससार बजार मँड्या है, जानेगा जन कोई।—कवीर ग्र०, पृ० १२०।

पगुता—सञ्ज्ञा पुं० [स० पङ्गुता] १. लँगडापन। २. स्तब्धता [गो०]।

पगुर^(५)—वि० [स० पङ्गुल] २० ‘पगुल’। उ०—(क) जैसे नर पगुरो विन सु भगुरी न चल्लहि। आधारित भगुरी हल्लवह वत्त न चल्लहि।—पृ० रा०, ६१। १०२८। (ख) सब पगुर किहि विधि कहत यह जयचंद सु इद।—पृ० ६१। १०२७।

पगुल^१—सञ्ज्ञा पुं० [स० पङ्गुल] १. झडी का पेड़। २. सफेद घोड़ा जो सफेद काँच के रंग का हो। ३. सफेद रंग का घोड़ा।

पंगुल^२—क्रि० [स० पङ्गु] पगु। लँगडा। उ०—पगुला मेरु सुमेर उडावे, त्रिभुवन माही डोले।—कवीर श०, भा० २, पृ० २६।

पंगुल्यहारिणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [स० पङ्गुल्यहारिणी] चगोनी।

पगो—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पाँक] मिट्टी जो नदी अपने किनारे बरसात वीत जाने पर डालती है।

पघरना—क्रि० प्र० [हिं० पिघलना] द्रवित होना। पिघलना। भावाभिभूत होना। उ०—तपा जी तुम्हारे वचन सुण कर मोम की न्याई पपर गए हाँ जी।—प्राण०, पृ० २६२।

पच^१—वि० [स० पञ्चन्] पाँच। जो सत्या में चार से एक अधिक हो।

यौ०—पचपात्र। पचनस्र। पचानन। पचामृत। पचशर। पचेंद्रिय। पचअसनान=सत्य, शील, गुरु के वचन का पालन, शिक्षा देना, और दया करना ये पाँच प्रकार के स्नान।—गोरख०, पृ० ७६।

पच^२—सञ्ज्ञा पुं० १ पाँच या अधिक मनुष्यो का समुदाय। समाज। जनसाधारण। सर्वसाधारण। जनता। लोक। जैसे,—पच कहैं शिव सती विवाही। पुनि श्रवठेरि मरायनि वाही।—तुलसी (शब्द०)। (ख) साईं तेली तिलन सो कियो नेह निर्वाह। छाँटि पटक ऊजर करी दई बडाई ताहि। दई बडाई ताहि पच महँ सिगरे जानी। दै कोलू मे पेरि करी एकत्तर घानी।—गिरिधर (शब्द०)।

मुहा०—पच की भीख = दस आदमियो का अनुग्रह। सर्वसाधारण की कृपा। सबका आशीर्वाद। उ०—और ग्वाल सब गृह आए गोपालहि वेर भई। राज करै वे घेन तुम्हारी नैदहि कहति सुनाई। पच की भीख सूर बलि मोहन कहति जशोदा माई।—सूर (शब्द०)। पच की दुहाई =

३ पाँच या अचिक्र शरदमित्री या भगमाज जो किसी भगदे या मामले को निघटाने के लिये एकप्र हो। न्याय करनेवाली सभा।

क्रि० प्र०—बुलाना।

सौ०—मरपंच। पंचनामा।

मुष्टा०—(किसी तो) पंच मानना या बचना=रुगडा निघटाने के लिये किसी को नियत करना। रुगडा निघटानेवाला स्त्रीतार करना। उ०—दोनों ने मुझे पंच माना।—शिव-प्रसाद (शब्द०)।

वह जो फौजदारी के दोरे के मारुदमे में दौरा जज की अदालत में मुकदमे के फैसले में जज को सहायता के लिये नियत हो। ५. दलाल। (दलाल)। ६ किसी विषय विशेष में मुख्यता प्राप्त करनेवाला व्यक्ति।

पंच^१—पि० [सं० पञ्च] विस्तृत। फैला हुआ।

पंचक—सं० पुं० [सं० पञ्चक] १. पाँच का समूह। पाँच का समूह। जैसे, इन्द्रियपञ्चक, पञ्चपत्रक। २. वह जिसके पाँच अवयव या भाग हो। ३. पाँच मीठे का स्वाद। ४. पचिष्ठा आदि पाँच नक्षत्र जिसमें किसी नए वायु का आरंभ निषिद्ध है। (फलित ज्यो०)। पनखा। ५. शकुन शास्त्र। ६ पाशुपत दक्षिण में गिनाई हुई आठ वस्तुएँ जिनमें प्रत्येक के पाँच पाँच भेद किए गए हैं। ये आठ वस्तुएँ ये हैं—लाभ, मल, उपाय, देश, अस्थि, विद्युद्धि दीक्षा, कारिक और वल। ७ पाँच प्रतिनिधियों की सभा। पचापत। ८ युद्धक्षेत्र। रणभूमि (को०)।

पंचकन्या—सं० स्त्री० [सं० पञ्चकन्या] पुराणानुसार पाँच स्त्रियाँ जो मदा कन्या ही रही अर्थात् विवाह आदि करने पर भी जिनका कन्यात्व नष्ट नहीं हुआ। अहल्या, द्रौपदी, कुती, तारा और मदीदगी ये पाँच कन्याएँ रही गई हैं।

पंचकपाल—सं० पुं० [सं० पञ्चकपाल] वह पुरोडाश जो पाँच कपालों में प्रयत्न पृथक् पढ़ाया जाय।

पंचकपाल—पि० पाँच कपालों में लैवार किया हुआ।

पंचकर्प, पंचकर्पट—सं० पुं० [सं० पञ्चकर्प, पञ्चकर्पट] महाभारत के अनुसार एक देश जो पश्चिम और दक्षिण और जिसे नकुल ने राजसूय यज्ञ के समय जीता था।

पंचकर्म—सं० पुं० [सं० पञ्चकर्मन्] १. चिद्विला की पाँच विधाएँ। समन, निरेषन, नमन, निरहवस्ति और अनुवस्ति (अनुशासन)। कुछ लोग निरहवस्ति और अनुवस्ति (अनुशासन) के स्थान में स्नेहन और वस्त्रोत्तरण मानते हैं। २. वेदों के अनुसार पाँच प्रकार के कर्म—उत्प्रेषण, धनोपहार, धनुष्य, दानार्थ और समन।

पंचकल्याण—सं० पुं० [सं० पञ्चकल्याण] यह भोजन जिनका विर (माया) और पाँचों पंच लोको है और वेद शरीर ज्ञान, वाता वा विनी रण का हो। ऐसा भोजन सुख देनेवाला माना जाता है।

पंचकवल—सं० पुं० [सं० पञ्चकवल] वाता वात जो सृष्टि के प्रवर्तन करने के पूर्व सुरो, पीतल, पीपी, रोपी, पीए आदि

के लिये अलग निदान दिया जाता है। यह सब पचिर्भव-दव का अंग माना जाता है। अघ्राशन। अघ्राशन। उ०—पंचकवल करि चयन लागे। गाँ-गान करि अति रत्नुरागे।—तुलसी (शब्द०)।

पंचकपाय—सं० पुं० [सं० पञ्चकपाय] तन के अनुसार एक पाँच वृक्षों का कपाय—जामुन, मेमर, निरंदा, मोरसिरी और बेर।

विशेष—यह कपाय छाल को पानी में भिगाकर निदाना जाता है और सुर्या के पूजन में काम आता है।

पंचकाम—सं० पुं० [सं० पञ्चकाम] तत्रसार के अनुसार पाँच कामदेव जिनके नाम ये हैं—काम, मन्मथ, कर्प, मन्मथज और मीनवेतु।

पंचकारण—सं० पुं० [सं० पञ्चकारण] जैनशास्त्र के अनुसार पाँच कारण जिनमें किसी काम की उत्पत्ति होती है। ये हैं—काल, स्वभाव, नियति, पुरुष और कर्म।

पंचकी०—पि० [सं० पञ्चकी] १. पंच द्वियों में सबसे बड़े की। २. दुनिया की। लोगों की। उ०—पट की नानि अनीति सब मन की भेटि उपाधि। दादू परहुर पचरी नाम रहै ते साधि।—दादू, पृ० ४१०।

पंचकृत्य—सं० पुं० [सं० पञ्चकृत्य] १. ईश्वर या महादेव के दो पाँच प्रकार के कर्म—गृष्टि, स्विति, ध्यान, विधान और अनुग्रह (सर्वदर्शनसंग्रह) २. पक्षीवृक्ष। पंगोठे का पक्ष।

पंचकृष्ण—सं० पुं० [सं० पञ्चकृष्ण] पुरुष के अनुसार एक पीठ का नाम।

पंचकोण^१—सं० पुं० [सं० पञ्चकोण] १. पाँच कोने। २. तुलसी में लगन से पाँचवाँ और नवाँ स्थान।

पंचकोण^२—पि० जिनमें पाँच कोने हों। पंचकोना।

पंचकोल—सं० पुं० [सं० पञ्चकोल] पीपल, पिपरामूल, चन्द, चित्रकमूल और तोठ। वैद्यक में इन्हें पावन, रचिकर तथा गुल्म और प्लीहा रोगनाशक माना है।

पंचकोश—सं० पुं० [सं० पञ्चकोश] उपनिषद् और वेदान्त के अनुसार शरीर संवृद्धि करनेवाले पाँच कोश (स्त)।

विशेष—इनके नाम और एनकी परिभाषा ये हैं—प्रथम कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनन्दमय कोश। इनमें शूल शरीर की प्रथम कोश, पाँचों कर्मेन्द्रियों सहित प्राण को प्राणमय कोश, पाँचों इंद्रियों के सहित मन को मनोमय कोश, पाँचों अनेन्द्रियों के सहित बुद्धि को विज्ञानमय कोश तथा अहंकारादिक का अविचारण को आनन्दमय कोश कहते हैं। पहले को शूल शरीर, दूसरे को सूक्ष्म शरीर और तीसरे, चौथे और पाँचवें को वास्तव शरीर कहते हैं।

पंचकोष—सं० पुं० [सं० पञ्चकोष] : 'पंचकोश'।

पंचकोस—सं० पुं० [सं० पञ्चकोस] [सं० पञ्चकोस] पाँच कोश की उपाई और उपाई के बीच रहते हुए शरीर को पवित्र स्थिति। शरीर। उ०—सर्वकोस सुख को सुधारण

परमारथ को जानि आप भपने सुपास वास दियो है।
—तुलसी (शब्द०)।

पचकोसी—सज्ञा स्त्री० [हि० पञ्चकोश] १ काशी की परिभ्रमा।
३ वह व्यक्ति जो पाँच कोस दूर का हो। उ०—मगर सुना
पचकोसी आदमी अगरे आए तो सारा भेद खुल जाय। नहीं
पाँच कोस के उधर का आदमी अगरे आए तो उसपर जादू
का असर खाक न हो।—फिसाना०, भा० ३, पृ० २०।

पचक्रोश—सज्ञा पुं० [स० पञ्चक्रोश] पचकोस। काशी। उ०—
स्वारथ परमारथ परिपूरन पचक्रोश महिमा सी।—तुलसी
(शब्द०)।

पचक्लेश—सज्ञा पुं० [मं० पञ्चक्लेश] योगशास्त्रानुसार अविद्या,
अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक पाँच प्रकार
के क्लेश।

पचचारण—सज्ञा पुं० [मं० पञ्चचारण] वैद्यक के अनुसार पाँच
मुख्य क्षार या लवण—काचलवण, सैधव, सामुद्र, विट्
और सौवर्चल।

पचखट्व—सज्ञा पुं० [मं० पञ्चखट्व] पाँच खाटो का समूह [को०]।

पंचखट्वी—सज्ञा स्त्री० [पञ्चखट्वी] पाँच छोटी खाटों [को०]।

पचगगा—सज्ञा पुं० [स० पञ्चगङ्गा] पाँच नदियों का समूह। दे०
'पचगगा'—१।

पंचगगा—सज्ञा स्त्री० [स० पञ्चाङ्गा] १ पाँच नदियों का समूह—
गगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और घृतपापा। इसे पचनद
भी कहते हैं। २ काशी का एक प्रसिद्ध स्थान जहाँ गगा के
साथ किरणा और घृतपापा नदियाँ मिली थी। ये दोनों
नदियाँ भव पटकर लुप्त हो गई हैं।

पंचगण—सज्ञा पुं० [स० पञ्चगण] वैद्यकशास्त्रानुसार इन पाँच
श्लेषधियों का गण—विदारीगघा, वृहती, पुष्पिनपर्णा, तिदि-
ग्घिका और भूकृष्णमाड।

यौ०—पचगणयोग।

पचगत—सज्ञा पुं० [स० पञ्चगत] वीजगणित के अनुसार वह
राशि जिसमें पाँच वर्ण हो।

पंचगव्य (पुं०)—सज्ञा पुं० [स० पञ्चगव्य, प्रा० पच + गव्य] दे०
'पचगव्य'। उ०—पञ्चगव्य अस्नान करि सीस सहस्र घट
मडि। दीपदान घृत सहस्र सिव कुसुमजलि सिर छडि।—पृ०
रा०, ७१२।

पंचगव—सज्ञा पुं० [स० पञ्चगव] पाँच गायो का समूह [को०]।

पचगव्य—सज्ञा पुं० [स० पञ्चगव्य] गाय से प्राप्त होनेवाले पाँच
द्रव्य—दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र जो बहुत पवित्र
माने जाते हैं और पापो के प्रायश्चित्त आदि में खिलाए
जाते हैं।

विशेष—पचगव्य में प्रत्येक द्रव्य का परिमाण इस प्रकार कहा
गया है—घी, दूध, गोमूत्र एक एक पल, दही एक प्रसृति
(पसर) और गोबर तीन तोले।

पचगव्यघृत—सज्ञा पुं० [स० पञ्चगव्यघृत] आयुर्वेद के अनुसार

बनाया हुआ एक घृत जो अप्समार (मिरगी) और उन्माद
में दिया जाता है।

विशेष—गाय का दूध, घी, दही, गोबर का रस और गोमूत्र चार
चार सेर और पानी सोलह सेर सबको एक साथ एक दिन
पकाने पर यह बनता है।

पचगीत—सज्ञा पुं० [मं० पञ्चगीत] श्रीमद्भागवत के दशमस्कंध के
अंतर्गत पाँच प्रसिद्ध प्रकरण जिनके नाम हैं, वेणुगीत, गोपी-
गीत, युगलगीत, अमरगीत और महिपीगीत।

पंचगु—वि० [स० पञ्चगु] पाँच गाएँ देकर विनिमय किया
हुआ [को०]।

पंचगुण—सज्ञा पुं० [मं० पञ्चगुण] १ शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा
गंध—ये पाँच गुण। २ आयुर्वेदोक्त एक प्रकार का वात-
नाशक तैल।

पचगुण—वि० पाँचगुना [को०]।

पचगुणी—सज्ञा स्त्री० [मं० पञ्चगुणी] जमीन। पृथ्वी [को०]।

पचगुप्त—सज्ञा पुं० [मं० पञ्चगुप्त] १. कछुवा। २. चार्वाक दर्शन
जिसमें पचे द्रव्य का गोपन प्रधान माना गया है।

पचगुप्तिरसा—सज्ञा स्त्री० [स० पञ्चगुप्तिरसा] असवरग। स्पृका।

पचगौड़—सज्ञा पुं० [स० पञ्चगौड़] देशानुसार विध्य के उत्तर बसने-
वाले ब्राह्मणों के पाँच भेद—सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड,
मैथिल और उत्कल।

विशेष—यह विभाग स्कन्दपुराण के सह्याद्रि खंड में मिलता है
और किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता। दे० 'गौड'।

पचग्रामी—सज्ञा स्त्री० [मं० पञ्चग्रामी] पाँच गाँवों का समाहार [को०]।

पचग्रास—सज्ञा पुं० [स० पञ्चग्रास] पाँच ग्रास। पाँच कौर। उ०—
केचित् करहि कण्ठ तन भारी। भोजन पचग्रास आहारी।
—सुंदर ग्र०, भा० १, पृ० ६१।

पंचघात—सज्ञा पुं० [स० पञ्चघात] सगीत में प्रयुक्त एक ताल [को०]।

पचचक्र—स्त्री० पुं० [स० पञ्चचक्र] तत्रशास्त्रानुसार पाँच प्रकार के
चक्र जिनके नाम ये हैं—राजचक्र, महाचक्र, देवचक्र, वीरचक्र
और पशुचक्र।

पचचक्रु—सज्ञा पुं० [स० पञ्चचक्रु] गौतम बुद्ध का एक नाम [को०]।

पंचचत्वारिंश—वि० [मं० पञ्चचत्वारिंश] पैंतालीसवाँ।

पचचत्वारिंशत्—सज्ञा स्त्री० [स० पञ्चचत्वारिंशत्] पैंतालीस।

पचचामर—सज्ञा पुं० [मं० पञ्चचामर] एक छद का नाम। इसके
प्रत्येक चरण में जगण, रगण, जगण, रगण, मगण और
अंत में गुरु होते हैं। इसे नाराच और गिरिराज भी कहते हैं।
दे० 'नाराच'।

पंचचीर—सज्ञा पुं० [मं० पञ्चचीर] एक बुद्ध। मज्जुघोष [को०]।

पचचूड़—वि० [स० पञ्चचूड़] पाँच कलेंगियोंवाला। पाँच चोटियों-
वाला [को०]।

पचचूड़ा—सज्ञा स्त्री० [मं० पञ्चचूड़ा] एक अप्सरा। (रामायण)।

पचचोल—सज्ञा पुं० [स० पञ्चचोल] हिमालय पर्वत पर एक
भाग [को०]।

पंचजन—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चजन] १ पाँच वा पाँच प्रकार के जनों का समूह । २. गधर्व, पितर, देव, असुर और राक्षस । ३. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निपाद । ४. मनुष्य । जन-समुदाय । ५. पुरुष । ६. मनुष्य जीव और शरीर से सबंध रखनेवाले प्राण आदि । ७. एक प्रजापति का नाम । ८. एक असुर जो पाताल में रहता था ।

विशेष—यह कृष्णाक्षर के गुरु सदीपनाचार्य के पुत्र को चुरा ले गया था । कृष्णाक्षर इसे मारकर गुरु के पुत्र को छुड़ा लाए थे । इसी असुर की हड्डी से 'पांचजन्य' शस्त्र बना था जिसे भगवान् कृष्णाक्षर बजाया करते थे ।

६. राजा सगर के पुत्र का नाम ।

पंचजनी—सज्ञा स्त्री० [मं० पञ्चजनी] १ पाँच मनुष्यों की मडली । पचायत । २. विश्वरूप की कन्या का नाम (भागवत) ।

पंचजनीन—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चजनीन] १ भांड । नकल करने-वाला । २. नट । स्वांग बनानेवाला । अभिनेता ।

पंचजन्य—सज्ञा पुं० [मं० पञ्चजन्य] एक प्रसिद्ध शस्त्र जिसे कृष्णाक्षर बजाया करते थे । यह एक राक्षस की हड्डी का था जिसका नाम पंचजन था । वि० दे० 'पंचजन'—८ ।

पंचमजाती (पुं०)—सज्ञा स्त्री० [हिं० पाँच + अ० जमाअत + ई (प्रत्य०)] पाँच ज्ञानेंद्रियाँ । उ०—दाढ़ काया मसीति करि, पंच जमाती मनहीं मुला इमाम । आप अलेख इलाही आगै तह सिजदा करे सलाम ।—दाढ़०, पृ० १२८ ।

पंचज्ञान—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चज्ञान] १ वह जो पाँच प्रकार के ज्ञान से युक्त हो । २. बुद्ध का एक नाम ।

पंचतंत्र—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चतन्त्र] संस्कृत की एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें विष्णुगुप्त द्वारा नीतिविषयक कथाओं का संग्रह है ।

विशेष—इसमें पाँच तंत्र हैं जिनके नाम क्रमशः मित्रलाभ, सुहृद्भेद, काकोलुकीय, लब्धप्रणाम और अपरीक्षित कारक हैं ।

पंचतत्री^१—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चतन्त्रिन्] एक प्रकार की वीणा जिसमें पाँच तार लगते हैं ।

पंचतत्री^२—वि० जिसमें पाँच तार हों । पाँच तार का बना हुआ ।

पंचतत्व—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चतत्त्व] १. पंचभूत । पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश । उ०—पञ्चाद्वर्ती भारतीय दार्शनिकों ने पंचतत्व का प्रतिपादन किया है ।—सं० दरिया (भू०), पृ० ५४ । २. वाम मार्ग के अनुसार मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, और मैयुन । इन्हें 'पाँच प्रकार' भी कहते हैं । ३. तंत्र के अनुसार गुप्तत्व, मंत्रत्व, मनस्तत्व, देवतत्व और ध्यानतत्व ।

पंचतन्मात्र—सज्ञा पुं० [मं० पञ्चतन्मात्र] सांख्य में पाँच स्थूल महाभूतों के कारणरूप, सूक्ष्म महाभूत जो अतीन्द्रिय माने गए हैं । इनके नाम हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध । तन्मात्र ये इस कारण कहलाते हैं कि ये विद्युद्ध रूप में रहते हैं अर्थात् एक में किसी दूसरे का मेल नहीं रहता । स्थूल भूत विद्युद्ध नहीं होते । एक भूत में दूसरे भूत भी सूक्ष्म रूप में मिले रहते हैं ।

विशेष—३० 'तन्मात्र' ।

पंचतप—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चतप] पचाग्नि [को०] ।

पंचतपा—सज्ञा पुं० [मं० पञ्चतपस्] पचाग्नि तापनेवाला तपस्वी । चारों ओर आग जलाकर धूप में बैठकर तप करनेवाला ।

पंचतय—वि० [सं० पञ्चतय] पंचगुना [को०] ।

पंचतरु—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चतरु] पाँच वृक्ष—मदार, पारिजात, सतान, कल्पवृक्ष और हरिच दन ।

पंचता—सज्ञा स्त्री० [मं० पञ्चता] १ पाँच का भाव । २. शरीर घटित करनेवाले पाँचों भूतों का अलग अलग अवस्थान । मृत्यु । विनाश ।

पंचताल—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चताल] अष्टताल का एक भेद । इस भेद में पहले युगल, फिर एक, फिर युगल और अंत में शून्य होता है ।

पंचतालेश्वर—सज्ञा पुं० [मं० पञ्चतालेश्वर] शुद्ध जाति का एक राग ।

पंचतित्त—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चतित्त] आयुर्वेद में इन पाँच कड़ुई ओषधियों का समूह—गिलोय (गुरुच), कटकारि (भट कटैया), सोंठ, कुट और चिरायता (चक्रदत्त) ।

विशेष—पंचतित्त का काढ़ा ज्वर में दिया जाता है । भावप्रकाश में पंचतित्त ये हैं—नीम की जड़ की छाल, परवल की जड़, अदरूसा, कटकारि (कटैया) और गिलोय । यह पंचतित्त ज्वर के अतिरिक्त विसर्प और कुष्ठ आदि रक्तदोष के रोगों पर भी चलता है ।

पंचतीर्थ—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चतीर्थ] पाँच तीर्थों का समूह । दे० 'पंचतीर्थी' । उ०—फिर पंचतीर्थ को चढे सकल गिरिमाला पर, है प्राण चपल ।—तुलसी०, पृ० २५ ।

पंचतीर्थी—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चतीर्थी] पाँच तीर्थ स्थान । पाँच तीर्थ ।

विशेष—ये तीर्थ भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न नाम के हैं । काशी खड के अनुसार काशी की पंचतीर्थी निम्नांकित है—ज्ञानधापी, नदिकेश, तारकेश, महाकालेश्वर और दंडपाणि । वाराह पुराण के अनुसार विश्रान्ति, शौकर, नैमिष, प्रयाग और पुष्कर ये पाँचतीर्थ ।

पंचतृण—सज्ञा पुं० [मं० पञ्चतृण] इन पाँच तृणों का समूह—कुश, काँस, शर (सरकडा), दर्भ (डाम) और ईख । भाव-प्रकाश के मत से शालि (धान), ईख, कुश, काश और शर ।

पंचतोलिया—सज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का भीना महीन कपड़ा ।

पंचतोरिया (पुं०)—सज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का भीना महीन कपड़ा । पंचतोलिया । उ०—सेत जरतारी की उज्यारी कचुकी को किस अनियारी डीठि प्यारी पेन्हीं पंचतोरिया ।—देव (शब्द०) ।

पंचत्रिंश—वि० [सं० पञ्चत्रिंश] पैंतीसवाँ ।

पंचत्रिंशत्—वि० [सं० पञ्चत्रिंशत्] पैंतीस ।

पंचत्व—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चत्व] १. पाँच का भाव । २. शरीर

सघटित करनेवाले पाँचों भूतो का अलग अलग अवस्थान ।
मृत्यु । विनाश ।

क्रि० प्र०—होना ।

मुद्दा०—पचत्व प्राप्त होना = मरना ।

पचथु—सज्ञा पुं० [म० पञ्चथु] कोयल ।

पंचदश—वि० [स० पञ्चदशन्] पद्रह ।

पचदश—सज्ञा पुं० पद्रह की संख्या ।

पंचदशी—सज्ञा स्त्री० [म० पञ्चदशी] १ पूर्णमासी । २ अमावस्या ।
३ वेदात्त का एक प्रसिद्ध ग्रथ ।

पचदेव—सज्ञा पुं० [म० पञ्चदेव] पाँच प्रधान देवता जिनकी उपासना
प्राजकल हिंदुओं में प्रचलित है—ग्रादित्य, रुद्र, विष्णु, गणेश
और देवी ।

विशेष—इन देवताओं में यद्यपि तीन वैदिक हैं तथापि सबका
ध्यान और सबकी पूजा पौराणिक और तांत्रिक पद्धति
के अनुसार होती है । इन देवताओं में प्रत्येक के अनेक विग्रह
हैं जिनके अनुसार अनेक नाम रूपा से उपासना होती है ।
कुछ लोग तो पाँचों देवताओं की उपासना समान भाव से
करते हैं और कुछ लोग किसी विशेष संप्रदाय के अंतर्गत
होकर किसी विशेष देवता की उपासना करते हैं । विष्णु के
उपासक वैष्णव, शिव के उपासक शैव, सूर्य के उपासक सौर
और गरुपति के उपासक गारुपत्य कहलाते हैं ।

पचद्रविड—सज्ञा पुं० [म० पञ्चद्रविड] उन ब्राह्मणों के पाँच भेद जो
विष्णुचल के दक्षिण वसते हैं—महाराष्ट्र, तैलंग, कर्णाट,
गुर्जर और द्रविड ।

पचधा—क्रि० वि० [म० पञ्चधा] पाँच प्रकार से । पाँच ढग
का [को०] ।

पचनख—सज्ञा पुं० [म० पञ्चनख] १ वह पशु जिसके हाथ और पैरों
में पाँच पाँच नख होते हैं । जैसे, बंदर । २ हाथी (को०) ।
३ कच्छप । कूर्म (को०) । ४ बाघ । व्याघ्र (को०) ।

विशेष—स्पृतियों में इनके नाम खाने का निषेध है ।

पंचनखराज—सज्ञा पुं० [म० पञ्चनखराज] दे० 'पचनखी' [को०] ।

पचनखी—सज्ञा स्त्री० [म० पञ्चनखी] गोह । पेड़ों पर रहनेवाली
बड़ी छिपकली [को०] ।

पचनद—सज्ञा पुं० [म० पञ्चनद] १ पाँच नदियों का समाहार ।
पजाव की वे प्रधान पाँच नदियाँ जो सिंधु में मिलती हैं—
सतलज, व्याम रावी, चनाब और भेलम । २ पजाव प्रदेश
जहाँ उक्त पाँच नदियाँ बहती हैं । ३ काशी के अंतर्गत एक
तीर्थ जिसे पचगंगा कहते हैं ।

पचनवत—वि० [म० पञ्चनवत] पचानवेवाँ ।

पचनवति—सज्ञा स्त्री० [म० पञ्चनवति] पचानवे की संख्या ।

पचनाथ—सज्ञा पुं० [म० पञ्च + नाथ] बदरीनाथ, द्वारकानाथ,
जगन्नाथ, रगनाथ, और श्रीनाथ । उ०—पचनाथ कलिपानन
जोई । निरखे नर नारायण होई ।—गोपाल (शब्द०) ।

पचनामा—सज्ञा पुं० [हि० पच + फा० नाम] वह कागज जिसपर
पच लोगो ने अपना निर्णय या फैसला लिखा हो ।

पचनिंब—सज्ञा पुं० [स० पञ्चनिम्ब] नीम के पाँच अवयव—पत्ता,
छाल, फूल, फल और मूल ।

पचनी^१—सज्ञा स्त्री० [स० पचिणी, प्रा० पखणी] पक्षिणी ।
उ०—चालत कटक गोरी प्रबल भूषी चाली पचनिय ।—पृ०
रा०, ११।५ ।

पंचनी^२—सज्ञा स्त्री० [स० पञ्चनी] १. कपड़े की बनी पासा खेलने
की विसात । २. शतरंज की विमात [को०] ।

पंचनीराजन—सज्ञा पुं० [म० पञ्चनीराजन] पाँच प्रकार की
आरती [को०] ।

पचपत्नी—सज्ञा पुं० [म० पञ्चपत्तिन्] एक प्रकार का शकुन शास्त्र
जिसमें अ, इ, उ, ए और ओ इन पाँच वर्णों को पक्षी
कल्पना करके शुभाशुभ विचार किया जाता है ।

पचपत्र—सज्ञा पुं० [म० पञ्चपत्र] एक पेड़ । चंडाल कद ।

पंचपदी—सज्ञा स्त्री० [म० पञ्चपदी] १ पाँच कदम या डग । २
थोड़ी देर का अवध । ३. एक प्रकार की ऋचा [को०] ।

पंचपनडो—सज्ञा स्त्री० [देश०] दे० 'पचौली' ।

पचपर्णिका—सज्ञा स्त्री० [स०] गोरक्षी नाम का पौधा ।

पचपर्व—सज्ञा पुं० [स० पञ्चपर्वन्] अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा,
अमावस्या और सूर्य की सक्रांति [को०] ।

पंचपल्लव—सज्ञा पुं० [पुं० पञ्चपल्लव] इन पाँच वृक्षों के पल्लव-
श्राम, जामुन, कैय, विजौरा (वीजपूरक) और बेल । कोई
कोई श्राम, बट और मौलसिरी के पल्लवों को पचपल्लव में
लेते हैं । पूजा में घर के ऊपर रखने के लिये पचपल्लव का
प्रयोजन पड़ता है । विभिन्न पद्धतियों में विभिन्न प्रकार के
पल्लवों का उल्लेख मिलता है ।

पंचपात—सज्ञा पुं० [म० पञ्चपत्र] पंचौली नाम का पौधा ।
पचपनडी ।

पचपात्र—सज्ञा पुं० [स० पञ्चपात्र] १ गिलास के आकार का चौड़े
मुह का एक बरतन जो पूजा में जल रखने के काम में आता
है । इसके मुह का घेरा पेंदे के घेरे के बराबर ही होता है ।
२ पार्वण श्राद्ध । ३ पाँच पात्रों का समूह (को०) ।

पचपाद्^१—वि० [स० पञ्चपाद्] पाँच पैरोवाला [को०] ।

पचपाद्^२—सज्ञा पुं० एक सवत्सर [को०] ।

पचपिता—सज्ञा पुं० [म० पञ्चपितृ] पिता, आचार्य श्वसुर, अन्नदाता
और भय से रक्षक ।

पचपितृ—सज्ञा पुं० [स० पञ्चपितृ] दे० 'पचपिता' ।

पचपित्त—सज्ञा पुं० [म० पञ्चपित्त] वैद्यक शास्त्र के अनुसार वराह,
छाग, महिष, मत्स्य और मयूर का पित्त ।

पंचपीरिया—सज्ञा पुं० [हि० पाँच + फा० पीर] मुसलमानों के
पाँचों पीरों की पूजा करनेवाला ।

पचपुष्प—सज्ञा पुं० [स० पञ्चपुष्प] देवी पुराणानुसार ये पाँच फूल-

जो देवताओं को प्रिय है—चपा, ग्राम, शमी, कमल और कनेर ।

पंचप्रस्थ—वि० [म० पञ्चप्रस्थ] पंचगुनी ऊँचाईवाला [को०] ।

पंचप्राण—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चप्राण] पाँच प्राण या वायु—प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान ।

पंचप्रासाद—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चप्रासाद] १. वह प्रासाद जिसमें पाँच शृंग या गुब्बद हो । २. एक प्रकार का देवगृह जिसे 'पचरत्न' या 'पंचरतन' कहते हैं ।

पंचबंध—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चबन्ध] मिताक्षरा के अनुसार एक प्रकार का अर्थदंड जो खराब हुई वस्तु के मूल्य का पंचमाश हो [को०] ।

पंचवटी—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चवटी] दे० 'पचवटी' ।

पंचवला—सज्ञा स्त्री० [म० पञ्चवला] वैद्यक के बला, अतिबला, नागवला, राजवला और महाबला नामक औषधियों का समूह ।

पंचवाइ(पु)—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चवायु] दे० 'पचवायु' । उ०—पचवाइ जे सहजि समावै, ससिहर के घरि आणै सूर ।—सीतल मिलै सदा सुखदाई अनहद शब्द वजावै तूर ।—दादू०, पृ० ६७४ ।

पचवाण—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चवाण] दे० 'पचवाण' ।

पचवान(पु)—सज्ञा पुं० [सं०] कामदेव । पचवाण । उ०—कहै पद्माकर प्रपची पचवान हू के सुकानन के माँन पै परी त्यो घोर घानै सी ।—पोद्दार अभि० ग्र०, पृ० ४६४ ।

पचवाहु—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चवाहु] शिव [को०] ।

पंचविंदुप्रसृत—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चविन्दु प्रसृत] एक प्रकार की नृत्यमुद्रा [को०] ।

पचर्विस(पु)—वि० [सं० पञ्चर्विस] पचचीसवाँ । पचचीस की सख्या-वाला । उ०—अब सुनि पचर्विस अघ्याई । पचर्विस निर्मल हूँ जाई ।—नद ग्र०, पृ० ३०७ ।

पचविडाल(पु)—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चविडाल] बौद्ध शास्त्रों में निरूपित शालस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह ये पाँच प्रतिबन्ध । उ०—काआ तरुवर पचविडाल ।—इतिहास, पृ० १२ ।

पचवीज—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चवीज] ककड़ी, खीरा, अनार, पचवीज और पानरीवीज—ये पाँच प्रकार के बीज [को०] ।

पंचभद्र—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चभद्र] १. वैद्यक में एक औषधिगण जिसमें गिलोय, पित्तपापडा, मोथा, चिरायता और सोंठ हैं । २. पचकल्याण षोडा ।

पचभद्र—वि० १. पाँच गुणों से युक्त (व्यजन आदि) । २. पापी । दुष्ट [को०] ।

पचभर्तारी—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्च + भर्तार + हिं० ई (प्रत्य०)] द्रौपदी ।

पंचभागी—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चभागिन्] पच महायज्ञों की पाँच देवियाँ [को०] ।

पचभुज^१—वि० [सं० पञ्चभुज] पाँच भुजाओंवाला [को०] ।

पचभुज^२—सज्ञा पुं० १. पाँच भुजाओंवाला क्षेत्र या कोण । २. गणेश का एक नाम [को०] ।

पंचभूत—सज्ञा पुं० [सं०] पाँच प्रधान तत्व जिनसे ससार की सृष्टि हुई है—आकाश, वायु, अग्नि, जल, और पृथिवी । उ०—लेत उठी मुख माधव नामा । पचभूत में किय विश्रामा ।—हिंदी प्रेमगाथा०, पृ० २१८ ।

विशेष—दे० 'भूत' ।

पंचभृंग—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चभृङ्ग] पाँच वृक्ष जिनके नाम हैं—देवदाली, शमी, भगा, निगुंठी और तमालपत्र [को०] ।

पंचमडली—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चमण्डली] पाँच भलेमानसों की सभा । पचायत ।

विशेष—चाद्रगुप्त द्वितीय के साँचीवाले शिलालेख में यह शब्द आया है ।

पंचम^१—वि० [सं० पञ्चम] [वि० स्त्री० पचमी] १ पाँचवाँ । जैसे, पचम वर्ण, पचम स्वर । २ सचिर । सुदर । ३ दक्ष । निपुण ।

पचम^२—सज्ञा पुं० [सं०] १ सात स्वरों में पाँचवाँ स्वर ।

विशेष—यह स्वर पिक या कोकिल के अनुरूप माना गया है । सगीत शास्त्र में इस स्वर का वर्ण ब्राह्मण, रंग श्याम, देवता महादेव, रूप इद्र के समान और स्थान फ्रोंच द्वीप लिखा है । यमली, निर्मली और कोमली नाम की इसकी तीन मूर्च्छनाएँ मानी गई हैं । भरत के अनुसार इसके उच्चारण में वायु नाभि, उरु, हृदय, कंठ और मूर्धा नामक पाँच स्थानों में लगती है, इसलिये इसे 'पचम' कहते हैं । सगीत दामोदर का मत है कि इसमें प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान एक साथ लगते हैं इसीलिये यह 'पचम' कहलाता है । स्वरग्राम में इसका संकेत 'प' होता है ।

२ एक राग जो छह प्रधान रागों में तीसरा है ।

विशेष—कोई इसे हिंडोल राग का पुत्र और कोई भैरव का पुत्र बतलाते हैं । कुछ लोग इसे ललित और वसंत के योग से बना हुआ मानते हैं और कुछ लोग हिंडोल, गाधार और मनोहर के मेल से । मोमेश्वर के मत से इसके गाने का समय शरदऋतु और प्रातःकाल है और विभाषा, भूपाली, कर्णाटी, बडहसिका, मालश्री, पटमजरी नाम की इसकी छह रागिनियाँ हैं, पर कल्लिनाथ त्रिवेणी, स्तभतीर्या, आभीरी, ककुभ, वरारी और सौवीरी को इसकी रागिनियाँ बतलाते हैं । कुछ लोग इसे ओडव जाति का राग मानते हैं और ऋषभ, कोमल पचम और गाधार स्वरों को इसमें वर्जित बताते हैं ।

३. वर्ग का पाँचवाँ अक्षर—ड, ज, ए, न और म । ४ मैथुन ।

पंचमकार—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चमकार] वाम मार्ग के अनुसार मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन ।

पंचमतान—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चमतान] मीठी धावाज । उ०—

शिक्षित आज है कल का कूजन पिक की पञ्चमतान ।—
अनामिका, पृ० ६४ ।

पञ्चमवेद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चमवेद] पाँचवाँ वेद—महाभारत,
पुराण एव नाट्य ।

पञ्चमहापातक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चमहापातक] पाँच प्रकार के
महापाप ।

विशेष—मनुस्मृति के अनुसार ये पाँच महापातक हैं—ब्रह्महत्या,
सुरापान, चोरी, गुरु की स्त्री से व्यभिचार और इन पातको
के करनेवालो के साथ ससर्ग ।

पञ्चमहाभूत—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चमहाभूत] दे० 'पञ्चभूत' । उ०—
पञ्चमहाभूत अर्थात् पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उत्पन्न
हुए और इन पञ्चभूतों से समस्त ससार हुआ ।—कवीर म०,
पृ० ३०६ ।

पञ्चमहायज्ञ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चमहायज्ञ] स्मृतियों और गृह्य सूत्रो
के अनुसार वे पाँच कृत्य जिनका नित्य करना गृहस्थो के
लिये आवश्यक है ।

विशेष—गृहस्थो के गृहकार्य से पाँच प्रकार से हिंसा होती है जिसे
धर्मशास्त्रो में 'पञ्चसूना' कहते हैं । इन्ही हिंसाओ के पाप से
निवृत्ति के लिये धर्मशास्त्रो में इन पाँच कृत्यो का विधान
है । वे कृत्य ये हैं

- (१) अघ्यापन—जिसे ब्रह्मयज्ञ कहते हैं । सव्यावदन इसी
अघ्यापन के अंतर्गत है ।
- (२) पितृतर्पण—जिसे पितृयज्ञ कहते हैं ।
- (३) होम—जिसका नाम देवयज्ञ है ।
- (४) बलिवैश्वदेव वा भूतयज्ञ ।
- (५) अतिथिपूजन—नृयज्ञ वा मनुष्ययज्ञ ।

पञ्चमहाव्याधि—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चमहाव्याधि] वैद्यकशास्त्र के
अनुसार ये पाँच बड़े रोग—अर्शा, यक्ष्मा, कुष्ठ, प्रमेह और
उन्माद ।

पञ्चमहाव्रत—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चमहाव्रत] योगशास्त्र के अनुसार ये
पाँच आचरण—अहिंसा, सन्नृता, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और
अपरिग्रह ।

विशेष—पतजलि जी ने इन्हें 'यम' माना है । जैन यतियों के
लिये इनका ग्रहण जैन शास्त्र में आवश्यक बतलाया गया है ।

पञ्चमहाशब्द—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चमहाशब्द] पाँच प्रकार के वाजे
जिन्हें एक साथ बजवाने का अधिकार प्राचीन काल में
राजाओ महाराजाओं को ही प्राप्त था । इसमें ये पाँच वाजे
माने गए हैं—शृंग (सींग), तम्मत (खैजडी ?), शंख, भेरी
और जयघटा ।

पञ्चमहिष—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चमहिष] सुश्रुत के अनुसार भंस से
प्राप्त पाँच पदार्थ—मूत्र, गोबर, दही, दूध और घी ।

पञ्चसांग—सञ्ज्ञा पुं० [पुं० पञ्चसाङ्ग] पाँचवाँ भाग या अंग ।

पञ्चमागी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चमाङ्गिन्] दूधरे (शत्रु) देशो से गुप्त
सवध स्थापित कर अपने देश को हानि पहुँचानेवाला व्यक्ति ।

देशद्रोही । भेदिया । उ०—सरकार की दृष्टि में समर्थक
बनने के लिये एक श्रोत्र तो वे पञ्चमागियों का कार्य करते
रहे ।—नेपाल०, पृ० १२१ ।

पञ्चमास्य^१—वि० [सं० पञ्चमास्य] पाँच महीने का । पाँच महीने पर
होनेवाला ।

पञ्चमास्य^२—सञ्ज्ञा पुं० कोकिल ।

पञ्चमी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चमी] १ शुक्ल या कृष्णपक्ष की पाँचवीं
तिथि ।

विशेष—व्रत आदि के लिये चतुर्थीयुक्ता पञ्चमी तिथि ग्राह्य मानी
गई है ।

२ द्रौपदी । ३ एक रागिनी । ४ व्याकरण में अपादान कारक ।
५ एक प्रकार की ईंट जो एक पुरुष की लड़ाई के पाँचवें
भाग के बराबर होती थी और यज्ञो में वेदी बनाने में काम
आती थी । ६ तंत्र में एक मंत्रविधि । ७ एक प्रकार की
विसात जिसपर गोटियाँ नेलते थे (को०) ।

पञ्चमुख^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चमुख] १ शिव । २ सिंह । ३ एक
प्रकार का रुद्राक्ष जिसमें पाँच लकीरें होती हैं । ४. पाँच
फलोंवाला वारण (को०) ।

पञ्चमुख^२—वि० पाँच मुखोवाला । जैसे, पञ्चमुख गणेश । पञ्चमुख
शिव । (को०) ।

पञ्चमुखी^१—वि० [सं० पञ्चमुखिन्] पाँच मुखवाला ।

पञ्चमुखी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ वासा । अटूसा । २ जवा ।
गुडहल का फूल । ३ सिंही । सिंह की मादा । ४ पार्वती ।

पञ्चमुद्रा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चमुद्रा] तंत्र के अनुसार पूजनविधि में
पाँच प्रकार की मुद्राएँ—प्रावाहनी, स्थापनी, सन्नीधापनी,
सवोधिनी, सम्मुखीकरणी ।

पञ्चमुष्टिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चमुष्टिक] वैद्यक में एक श्रोपध जो
सन्निपात में दी जाती है ।

विशेष—जी, बेर का फल, कुलधी, मूंग और काष्ठामलक एक
एक मुट्ठी लेकर छठगुने पानी में पकाने से यह बनती है ।

पञ्चमूत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चमूत्र] गाय, बकरी, भेंड, भैंस और गधो
इन पाँच पशुओ का मूत्र (को०) ।

पञ्चमूल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चमूल] वैद्यक में एक पाचन श्रोपध जो
श्रोपधियों की जड़ लेकर बनती है ।

विशेष—श्रोपधिमैद से पञ्चमूल कई हैं जैसे—वृहत्, स्वल्प, तृण,
शतावतं, जीवन, बला, गोखुर इत्यादि ।

वृहत्पञ्चमूल—बेल, सेनापाठा (श्योनाक), गंभारी, पाँडर
और गनियारी ।

स्वल्पपञ्चमूल—शालपर्णी, पुत्रिनपर्णी (पिठवन), बडी भटक-
टैया, छोटी भटकटैया और गोखरु ।

तृणपञ्चमूल—कुण, काश, शर, इक्षु और दर्भ ।

पञ्चमूली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चमूलिन्] स्वल्प पञ्चमूल ।

पञ्चमेख—वि० [हिं० पाँच + मेख या मिलाना] १. जिसमें पाँच
प्रकार की चीजें मिली हो । जैसे, पंचमेख मिठाई । २ जिसमें

सब प्रकार की चीजें मिली हो । मिला जुला ढेर । ३ साधारण ।

पंचमेली—वि० [हिं० पंचमेल] पांच चीजों की मेलवाली (मिठाई-आदि) । मिश्रित ।

पंचमेवा—सज्ञा पु० [हिं० पांच-मेवा] किसमिस, बदाम, गरी, छुहाडा और चिरोजी यह पांच प्रकार का मेवा ।

पंचमेश—सज्ञा पु० [सं० पञ्चमेश] फलित ज्योतिष के अनुसार पांचवें घर का स्वामी ।

पंचयज्ञ—सज्ञा पु० [सं० पञ्चयज्ञ] पंचमहायज्ञ ।

पंचयाम—सज्ञा पु० [सं० पञ्चयाम] दिन ।

विशेष—शास्त्रों में दिन के पांच पहर और रात के तीन पहर माने गए हैं । रात के पहले चार दंड और पिछले चार दंड दिन में लिए गए हैं ।

पंचरग—वि० [हिं० पांच + रग] १ पांच रग का । अनेक रगों का । रग विरग का ।

पंचरत्न—सज्ञा पु० [सं० पञ्चरत्न] पखौडा वृक्ष ।

पंचरत्न—सज्ञा पु० [सं० पञ्चरत्न] पांच प्रकार के रत्न ।

विशेष—कुछ लोग सोना, हीरा, नीलम, लाल और मोती को पंचरत्न मानते हैं और कुछ लोग मोती, मूंगा, वैक्रात, हीरा और पद्मा को । २ महामारत के पांच प्रसिद्ध आख्यान—गीता, विष्णुसखनाम, भीष्मस्तवराज, अनुस्मृति और गजेंद्र-मोक्ष (को०) ।

पंचरश्मि—सज्ञा पु० [सं० पञ्चरश्मि] सूर्य (को०) ।

पंचरसा—सज्ञा पु० [सं० पञ्चरसा] आमला ।

पंचरात्र—सज्ञा पु० [सं० पञ्चरात्र] १ पांच रातों का समूह । २ एक यज्ञ जो पांच दिन में होता था । ३ वैष्णव धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ । ४ भास कवि का एक नाटक ।

पंचराशिक—सज्ञा पु० [सं० पञ्चराशिक] गणित में एक प्रकार का हिसाब जिसमें चार ज्ञात राशियों के द्वारा पांचवीं अज्ञात राशि का पता लगाया जाता है ।

पंचरीक—सज्ञा पु० [सं० पञ्चरीक] संगीत शास्त्र के अनुसार एक ताल ।

पंचल—सज्ञा पु० [सं० पञ्चल] शकरफंद ।

पंचलक्षण—सज्ञा पु० [सं० पञ्चलक्षण] पुराण के पांच चिह्न या लक्षण जो ये हैं, 'सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वशानुचरित चैव पुराण पंचलक्षणम्' । अर्थात्—सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, देवताओं की उत्पत्ति और परंपरा, मन्वन्तर मनु के वंश का विस्तार ।

पंचलवण—सज्ञा पु० [सं० पञ्चलवण] वैद्यक शास्त्रानुसार पांच प्रकार के लवण—काँच, सेंधा, सामुद्र, विट और सोवर ।

पंचलागलक—सज्ञा पु० [सं० पञ्चलागलक] एक महादान जिसमें पांच हल के जोत के बराबर भूमि दी जाती है (को०) ।

पंचलोकपाल—संज्ञा पु० [सं० पञ्चलोकपाल] पांच सरक्षक देव—विनायक, दुर्गा, वायु, आकाश और अश्विनीकुमार (को०) ।

पंचलोह—सज्ञा पु० [सं० पञ्चलोह] दे० 'पंचलोह' ।

पंचलोहक—सज्ञा पु० [सं० पञ्चलोहक] दे० 'पंचलोह' ।

पंचलौह—सज्ञा पु० [सं०] १ पांच धातुएँ—सोना, चाँदी, ताँबा, सीसा और राँगा । २ पांच प्रकार का लोहा—वज्रलोह, कांतलोह, पिंडलोह और क्रौंचलोह ।

पंचवक्त्र—सज्ञा पु० [सं० पञ्चवक्त्र] दे० 'पंचमुख' (को०) ।

पंचवक्त्रा—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चवक्त्रा] दुर्गा (को०) ।

पंचवट—सज्ञा पु० [सं० पञ्चवट] यज्ञोपवीत (को०) ।

पंचवटी—सज्ञा पु० [सं० पञ्चवटी] रामायण के अनुसार दंडकारण्य के अंतर्गत एक स्थान जहाँ रामचंद्र जी वनवास में रहे थे । यह स्थान गोदावरी के किनारे पर नासिक के पास है । सीता हरण यही हुआ था । २ पांच वृक्षों का वह समूह जो ये हैं—अश्वत्थ, विल्व, वट, धात्री और अशोक ।

विशेष—हेमाद्रि अंतखड में इनके लगाने की विधि का वर्णन है और कहा गया है कि ऐसे स्थान पर तपस्या और मंत्रसिद्धि होती है ।

पंचवदन—सज्ञा पु० [सं० पञ्चवदन] शिव ।

पंचवर्ग—सज्ञा पु० [सं० पञ्चवर्ग] १. पांच वस्तुओं का समूह । जैसे, पांच प्रकार के चर, पांच हड्डियाँ । २. पंच महाभूत—क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर (को०) । ३. पांच ज्ञानेंद्रियाँ (को०) । ४. पंचमहायज्ञ (को०) । ५. पांच प्रकार के गुप्तचर—कापटिक, उदास्थित, गृहपति व्यजन, वैदेहिक व्यजन और तापस व्यजन, (को०) ।

पंचवर्ण—सज्ञा पु० [सं० पञ्चवर्ण] १ प्रणव के पांच वर्ण अर्थात् अ, उ, म, नाद और विंदु । २. एक वन का नाम । ३. एक पर्वत का नाम ।

पंचवर्णदेशीय—वि० [सं० पञ्चवर्णदेशीय] लगभग पांच वर्ष पुराना । पांच वर्ष का (को०) ।

पंचवर्षीय—वि० [सं० पञ्चवर्षीय] पांच वर्ष का । पांच वर्ष तक चलनेवाला । जैसे, पंचवर्षीय योजना ।

पंचवल्कल—सज्ञा पु० [सं० पञ्चवल्कल] वट, गूलर, पीपल, पाकर और वेत या सिरिस की छाल ।

पंचवल्लभा—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चवल्लभा] द्रौपदी का नाम (को०) ।

पंचवाण—सज्ञा पु० [सं० पञ्चवाण] १ कामदेव के पांच वाण जिनके नाय ये हैं—द्रवण, शोषण, तापन, मोहन और उन्मादन । कामदेव के पांच पुष्पवाणों के नाम ये हैं—कमल, अशोक, आम्र, नवमल्लिका और नीलोत्पल । २ कामदेव ।

पंचवातीय—सज्ञा पु० [सं० पञ्चवातीय] राजसूय के अंतर्गत एक प्रकार का होम । उ०—शुनासीरीय और पंचवातीय याग अनुष्ठान हुआ ।—वैशाली०, पृ० ४१३ ।

पंचवाद्य—सज्ञा पु० [पु०] तंत्र, आनन्द, सुषिर, घन और वीरो का गर्जन ।

पंचवान—सज्ञा पु० [म० पञ्चवाण ?] राजपूतो की एक जाति ।

पंचवायु—सज्ञा पु० [स० पञ्चवायु] शरीरस्थ पाँच वायु जिनके नाम हैं—प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान । उ०—अधमय कोश सु तो पिंड है प्रगट यह प्राणमय कोश पंचवायु हू वपानिये ।
—सु दर अ०, भा० २ पु० ५६८ ।

पंचवार्षिक—वि० [म० पञ्चवार्षिक] हर पाँचवें वर्ष होनेवाला [को०] ।

पंचविंश^१—वि० [म० पञ्चविंश] पञ्चीसवाँ [को०] ।

पंचविंश^२—सज्ञा पु० (पञ्चीस तत्वों से युक्त) विष्णु [को०] ।

पंचविंशति—वि० [म० पञ्चविंश] पञ्चीस [को०] ।

पंचविध—वि० [म० पञ्चविध] १. पंचगुना । २ पाँच प्रकार का [को०] ।

यौ०—पंचविधप्रकृति=शासन के पाँच अवयव—अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, अर्थ, और दंड ।

पंचवृक्ष—सज्ञा पु० [स० पञ्चवृक्ष] पाँच देववृक्ष जिनके नाम हैं—मदार, पारिजात, सतान, कल्पवृक्ष और हरिचंदन [को०] ।

पंचशब्द—सज्ञा पु० [स० पञ्चशब्द] १ पाँच मंगलसूचक वाजे जो मंगल कार्यों में बजाए जाते हैं—तंत्री, ताल, भाँफ, नगारा और तुरही । २ 'पंचमहाशब्द' । २ व्याकरण के अनुसार सूत्र, वातिक, भाष्य, कोश और महाकवियों के प्रयोग । ३. पाँच प्रकार की ध्वनि—वेदध्वनि, वदीध्वनि, जयध्वनि, षडध्वनि और निशानध्वनि ।

पंचशर—सज्ञा सं० [म०] १ कामदेव के पाँच वाण । २ कामदेव ।

पंचशस्य—सज्ञा पु० [म० पञ्चशस्य] देवकार्य में प्रयुक्त होनेवाले घान, मूँग, तिल, उडद, और जी ये पाँच अन्न [को०] ।

पंचशाख—सज्ञा पु० [स० पञ्चशाख] १ हाथ । २ पतसाखा । ३. हाथी [को०] ।

पंचशारदीय—सज्ञा पु० [म० पञ्चशारदीय] एक प्रकार का यज्ञ [को०] ।

पंचशिख—सज्ञा पु० [म० पञ्चशिख] १ सिंघा वाजा । २ एक मुनि जो महाभारत के अनुसार महर्षि कपिल के पुत्र थे ।

विशेष—साख्य शास्त्र के ये एक प्रधान आचार्य थे । साख्य सूत्रों में इनके मत का उल्लेख मिलता है । इनको लोग द्वितीय कपिल कहते हैं । ये कपिल की शिष्यपरंपरा के आसुरि के शिष्य थे । ३ सिंह [को०] ।

पंचशोप—सज्ञा पु० [म० पञ्चशीर्ष] एक प्रकार का सर्प [को०] ।

पंचशील—सज्ञा पु० [स० पञ्चशील] १ बौद्ध धर्म के अनुसार शील या सदाचार के पाँच सिद्धांत जिनका आचरण प्रत्येक धर्मशील व्यक्ति के लिये आवश्यक बताया गया है—(१) अस्तेय (चोरी न करना), (२) अहिंसा (हिंसा न करना), (३) ब्रह्मचर्य (व्यभिचार न करना), (४) सत्य (झूठ न बोलना) और (५) मादक द्रव्यों का भोग न करना । २ पाँच राजनीतिक सिद्धांत जो सन् १६५४ के बर्दुग सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के प्रमुख देशों द्वारा शांति बनाए रखने के उद्देश्य से स्थिर किए गए हैं । ये इस प्रकार हैं ।—(१)

राज्य की श्रवणता और प्रभुता के प्रति परस्पर समान, (२) परस्पर अनाक्रमण का आश्वासन, (३) आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, (४) परस्पर समानता का भाव और (५) शांतिमय सहअस्तित्व ।

पंचशूरण—सज्ञा पु० [म० पञ्चशूरण] वैद्यक में पाँच विशेष कद—श्रत्यम्लपर्णी, काठबेल, मालाकद, सूग्ग, सफेद सूग्ग ।

पंचशैरीपक—सज्ञा पु० [म० पञ्चशैरीपक] सिरिम वृक्ष के पाँच अंग जो औषध के काम आते हैं—जड़, छाल, पत्ते, फूल और फल ।

पंचशैल—सज्ञा पु० [स० पञ्चशैल] पुराणों में वर्णित एक पर्वत [को०] ।

पंचप—वि० [म० पञ्चप] पाँच या छह [को०] ।

पंचपट्टि^१—सज्ञा स्त्री० [म० पञ्चपट्टि] पैसठ की सरया ।

पंचपट्टि^२—वि० पैसठ ।

पंचसंधि—सज्ञा स्त्री० [स० पञ्चसन्धि] व्याकरण में संधि के पाँच भेद—स्वर संधि, व्यजनसंधि, विसर्गसंधि, स्वादिसंधि और प्रकृति भाव । २. रूपक की प्रकृति तथा अवस्थाओं के समिश्रण से होनेवाली पाँच संधियाँ । ये इस प्रकार हैं—मुम् प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण [को०] ।

पंचसप्तति^१—स्त्री० गी० [स० पञ्चसप्तति] पंचहत्तर की सख्या ।

पंचसप्तति^२—वि० पंचहत्तर ।

पंचसवद^(१)—सज्ञा पु० [स० पञ्चशब्द] 'पंचशब्द' । उ०—(क) इतने सुभट्ट राज जूह धार । बजि पंचसवद वाजे करार ।—पु० रा०, ८।१५ । (ख) पंचसवद धुनि मंगल गाना । पट पावडे परहि विधि नाना ।—तुलसी (शब्द०) ।

पंचसर^१—सज्ञा पु० [स० पञ्चशर] कामदेव । दे० 'पंचशर' । उ०—मदन मनोभव पंचसर मयन कुसुमसर मार ।—अनेकार्थ०, पु० १८ ।

पंचसर^२—सज्ञा पु० [स० पञ्च + स्वर या दे०] दे० 'पंचशब्द' । उ०—मुरधर प्रगट थयो महराजा । वाजे सु सुर पंचसर वाजा । रा० रु०, पु० ३०१ ।

पंचसिक—वि० [हि० पचीस + एक] पचीस । उ०—एक कोट पंचसिक द्वारा पचे मागहि हाला ।—कवीर प्र०, पु० २७३ ।

पंचसिद्धासी—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चसिद्धान्ती] ज्योतिष सबधी सूर्य सिद्धांत आदि पाँच सिद्धांत [को०] ।

पंचसिद्धोषधि—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चसिद्धोषधि] वैद्यक में ये पाँच औषधियाँ—सालिव मिर्ची, चराहीकद, रोदती, सर्पाक्षी और सरहटी ।

पंचसुगणक—सज्ञा पु० [स० पञ्चसुगणक] वैद्यक में ये पाँच सुगण औषधियाँ—लौंग, शीतलचीनी, अगूर, जायफल, कपूर, अथवा कपूर, शीतलचीनी, लौंग, सुपारी और जायफल ।

पंचसूना—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चसूना] मनु के अनुसार पाँच प्रकार की हिंसा जो गृहस्थों से गृहकार्य करने में होती है । वे पाँच काम जिनके करने में छोटे छोटे जीवों की हिंसा होती है ।

विशेष—वे पाँच काम ये हैं—बूल्हा जलाना, आटा आदि पीसना, भाड़ देना, कूटना और पानी का घड़ा रखना । इन्हें मनु ने

चुल्ली, पेपरी, उपस्कर, कंडनी और उदकुम लिखा है। इन्ही पाँच प्रकार की हिसाओं के दोषों की निवृत्ति के लिये पंचमहायज्ञों का विधान किया गया है। दे० 'पंचमहायज्ञ'।

पंचसूर्य—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चसूर्य] दे० 'पंचसूर्य'।

पंचस्कंध—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चस्कन्ध] बौद्ध दर्शन में गुणों की समष्टि जिसे स्कंध कहते हैं।

विशेष—स्कंध पाँच हैं—रूपस्कंध, वेदनास्कंध, सज्ञास्कंध सस्कार स्कंध और विज्ञानस्कंध रूपस्कंध का दूसरा नाम वस्तुतन्मात्रा है। इस स्कंध के अंतर्गत ४ महाभूत, ५ ज्ञानेंद्रिय, ५ तन्मात्राएँ, २ लिंग (स्त्री और पुरुष), ३ अवस्थाएँ (चेतना, जीवितेंद्रिय और आकार), चेष्टा, वाणी, चित्ताप्रसादन, स्थितिस्थापन, समता, समष्टि, स्थायित्व, ज्ञेयत्व और परिवर्तनशीलता नामक २८ गुण माने जाते हैं। रूपस्कंध से ही वेदनास्कंध की उत्पत्ति होती है। यह वेदनास्कंध पाँच ज्ञानेंद्रियों और मन के भेद से छह प्रकार का होता है, जिनमें प्रत्येक के रुचि, अरुचि, स्पृहशून्यता ये तीन तीन भेद होते हैं। सज्ञास्कंध को अनुमित-तन्मात्रा भी कहते हैं। इन्द्रिय और अंत करण के अनुसार इसके छह भेद हैं। वेदना होने पर ही सज्ञा होती है। चौथा सस्कारस्कंध है जिसके ५२ भेद हैं—स्पर्श, वेदना, सज्ञा, चेतना, मनसिकार, स्मृति, जीवितेंद्रिय, एकाग्रता, चित्तकं, विकार, वीर्य, अधिमोक्ष, प्रीति, चढ, मध्यस्थता, निद्रा, तद्रा, मोह, प्रज्ञा, लोभ, अलोभ, उत्ताप, अनुताप, ही, अही, दोष, अदोष, विचिकित्सा, श्रद्धा, दृष्टि, द्विविध प्रसिद्धि (शारीर और मानस), लघुता, मृदुता, कर्मज्ञता, प्राज्ञता, उद्योतना, साम्य, करुणा, मुदिता, ईर्ष्या, मात्सर्य, काकंश्य, श्रोत्रत्य और मान। पाँचवाँ विज्ञान स्कंध है। हिंदू धास्यों में कहे हुए चित्त, आत्मा और विज्ञान इसके अंतर्भूत हैं। इस स्कंध के चेतना के धर्माधर्म भेद से ४९ भेद किए गए हैं। बौद्ध दर्शनों के अनुसार विज्ञानस्कंध का क्षय होने से ही निर्वाण होता है।

पंचस्नेह—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चस्नेह] घी, तेल, चरबी, मज्जा और मोम।

पंचस्रोतस्—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चस्रोतस्] १ एक तीर्थ का नाम। २. एक यज्ञ।

पंचस्वेद—स्त्री० पुं० [सं० पञ्चस्वेद] वैद्यक के अनुसार लोणस्वेद, बालुकास्वेद, वाष्पस्वेद, घटस्वेद और ज्वालास्वेद।

पंचहजारी—सज्ञा पुं० [फा० पञ्चहजारी] १. पाँच हजार की सेना का अधिपति। २. एक पदवी जो मुगल साम्राज्य में बड़े बड़े लोगों को मिलती थी।

पंचांग^१—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चाङ्ग] १. पाँच अंग या पाँच अंगों से युक्त वस्तु। २ वृक्ष के पाँच अंग—जड़, छाल, पत्ती, फूल और फल (वैद्यक)। ३. तंत्र के अनुसार ये पाँच कर्म—जप, होम, तर्पण, अभिषेक और विप्रभोजन जो पुरश्चरण में किए जाते हैं। ४. ज्योतिष के अनुसार वह तिथिपत्र जिसमें किसी संवत् के वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण

व्योरेवार दिए गए हों। पञ्चा। ५ राजनीतिशास्त्र के अंतर्गत सहाय, साधन, उपाय, देश-काल-भेद और विपद्-प्रतिकार। ७ प्रणाम का एक भेद जिसमें घुटना, हाथ और माथा पृथ्वी पर टेककर आँसू देवता की ओर करके मुँह से प्रणामसूचक शब्द कहा जाता है। ७ तांत्रिक उपासना में किसी इष्टदेव का कवच, स्तोत्र, पद्धति, पटल और सहस्र नाम। ८. वह घोड़ा जिसके चारों पैर टाप के पास सफेद हो और माथे पर सफेद टीका हो। पंचभद्र। पंचकल्पार्ण। ९ कच्छप। कछुवा।

यौ०—पंचांग मास = पत्रा के अनुमार चलनेवाला महीना। पंचांग वर्ष = सवत्। पंचांग शुद्धि = ज्योतिष में वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण की शुद्धता।

पंचांग^२—वि० पाँच अंगोंवाला [को०]।

पंचांगिक—वि० [सं० पञ्चाङ्गिक] पाँच अंगोंवाला [को०]।

पंचांगुल^१—वि० [सं० पञ्चाङ्गुल] [वि० स्त्री० पंचांगुला, पंचांगुली] जो परिमाण में पाँच अंगुल का हो या जिनमें पाँच उँगलियाँ हो।

पंचांगुल^२—सज्ञा पुं० १ एरह। रेंड। अडी। २ तेजपत्ता। ३ पजे के आकार का एक उपकरण (को०)।

पंचांगुलि—वि० [सं० पञ्चाङ्गुलि] पाँच अंगुलियोंवाला [को०]।

पंचांगुली—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चाङ्गुली] तक्राह्वा नामक क्षुप [को०]।

पंचातरीय—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चान्तरीय] बौद्ध मत के अनुसार पाँच प्रकार के पातक—माता, पिता, अर्हंत और बुद्ध का घात और याजकों के साथ विवाद।

पंचान^७—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चानन] सिंह। पंचानन। उ०—भालि वीर वाराह हक्क बज्जी चावहिसि मुक्कि थान पंचान मिले समूह सूर घसि।—पृ० रा०, १७।१।

पंचांश—सज्ञा [सं० पञ्चांश] पाँचवाँ हिस्सा। पाँचवाँ भाग [को०]।

पंचाङ्ग^७—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चानन] सिंह। पंचानन। उ०—पंचाङ्ग नइ पाखरघउ मइगल नइ मद कीष। मोहण बोली मारुइ कत पेम रस पीध।—ढोला०, दू० ५५४।

पंचाङ्ग—सज्ञा स्त्री० [हिं० पंचाङ्ग] दे० 'पंचायत'।

पंचाक्षर^१—वि० [सं० पञ्चाक्षर] जिसमें पाँच अक्षर हों। जैसे, पंचाक्षर मंत्र, पंचाक्षर शब्द, पंचाक्षर वृत्ति।

पंचाक्षर^२—सज्ञा पुं० १ प्रतिष्ठा नामक वृत्ति जिसमें पाँच अक्षर होते हैं। २ शिव का एक मंत्र जिसमें पाँच अक्षर हैं—ॐ नम शिवाय।

पंचाग्नि^१—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चाग्नि] १ अन्वाहार्य पंच, गार्हपत्य, आहवनीय, आवासथ्य और सभ्य नाम की पाँच अग्नियाँ। २ छादोग्य उपनिषद् के अनुसार सूर्य, पर्जन्य, पृथिवी, पुरुष और योषित्।

यौ०—पंचाग्नि विद्या = छादोग्य उपनिषद् के अनुसार सूर्य, वादल, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री सबधी तात्त्विक विज्ञान।

३. एक प्रकार का तप जिसमें तप करनेवाला अपने चारों ओर

अग्नि जलाकर दिन में धूप में बैठ रहा है। यह तप प्रायः ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। ४ आयुर्वेद के अनुसार चीता चिचडी, भिलावाँ, गधक और मदार नामक शोषधियाँ जो बहुत गरम मानी जाती हैं।

पंचाग्नि^२—वि० १ पंचाग्नि की उपासना करनेवाला। २ पंचाग्नि विद्या जानेवाला। ३ पंचाग्नि तापनेवाला।

पंचाज—भस्म पु० [म० पञ्चाज] बकरी से प्राप्त होनेवाला पाँच पदार्थ—दूध दही, घी, पुरीष (लेंडी) और मूत्र [को०]।

पंचातप—सज्ञा पु० [म० पञ्चातप] चारों ओर आग जलाकर ग्रीष्मऋतु में बैठकर तप करना। पंचाग्नि।

पंचातिग—वि० [म० पञ्चातिग] मुक्त [को०]।

पंचात्कोप—सज्ञा पु० [म० पञ्चात्कोप] कौटिल्य के अनुसार राजा के विजय के लिये आगे बढ़ने पर राज्य में विद्रोह फैलाना।

पंचात्मक—वि० [सं० पञ्चात्मक] जिसमें पाँच तत्व हो। पाँच तत्वों से युक्त, जैसे शरीर [को०]।

पंचात्मा—सज्ञा स्त्री० [म० पञ्चात्मन्] पंचप्राण।

पंचानन^१—वि० [म० पञ्चानन] जिसके पाँच मुँह हो। पंचमुखी।

पंचानन^२—सज्ञा पु० १ शिव। २ सिंह। उ०—सवै सेन अवसान मुक्क लय्यो बर तामस। तब पंचानन हक्क धक्क चहुआना पामिस।—पृ० रा०, १७।

विशेष—(१) सिंह को पंचानन कहने का कारण लोग दो प्रकार से बतलाते हैं। कुछ लोग तो पाँच शब्द का अर्थ विस्तृत करके पंचानन का अर्थ 'चौड़े मुँहवाला' (पञ्च विस्तृत आनन यस्य) करते हैं। कुछ लोग चारों पंजों को जोड़कर पाँच मुँह गिना देते हैं।

(२) विषय और अध्ययन की दृष्टि से सर्वोच्चता एवं गुरुत्व तथा श्रेष्ठता का बोध कराने के लिये इस शब्द का प्रयोग नाम आदि के साथ भी होता है। जैसे, न्यायपंचानन, तर्कपंचानन।

३ सगीत में स्वरसाधन की एक प्रणाली। आरोही—सा रे ग म प। रे ग म प घ। ग म प घ नि म प घ नि सा। अवरोही—सा नि घ प म। नि घ प म ग। घ प म ग रे। प म ग रे सा। ४ ज्योतिष में सिंह राशि [को०]। ५ वह रुद्राक्ष जिसमें पाँच रेखाएँ हों [को०]।

पंचाननी—सज्ञा स्त्री० [म० पञ्चाननी] १ दुर्गा। २ सिंह की मादा। शेरनी [को०]।

पंचानवे—वि० [म० पञ्चानवति, पा० पचनवद्] नव्वे और पाँच। पाँच कम सी।

पंचानवे^२—सज्ञा पु० नव्वे से पाँच अधिक की सख्या या अंक जो इस प्रकार लिखा जाता है—६५।

पंचाप्सर—सज्ञा पु० [म० पञ्चाप्सरस्] रामायण और पुराणों के अनुसार दक्षिण में पपा नामक तालाब जहाँ शातकर्ण मुनि तप करते थे। इनके तप से भय खाकर इंद्र ने इनको तप

से च्युत करने के लिये पाँच अप्सराएँ भेजी थीं। रामायण में शातकर्ण को माडकर्ण लिखा है। पपाप्सर।

पंचामरा—सज्ञा स्त्री० [म० पञ्चामरा] वैद्यक में दूर्वा, विजया, विल्व-पत्र निर्गुंड़ी और काली तुलसी।

पंचामृत^१—सज्ञा पु० [म० पञ्चामृत] १ एक प्रकार का स्वादिष्ट पेय द्रव्य जो दूध, दही, घी, चीनी और मधु मिलाकर बनाया जाता है। पुराण, तत्रादि के अनुसार यह देवताओं को स्नान कराने और चढाने के काम में आता है। २ वैद्यक में पाँच गुणकारी शोषधियाँ—गिलोय, गोखरू, मुसली, गोरखमुड़ी और शतावरी।

पंचामृत^२—वि० पाँच वस्तुओं के योग से निर्मित [को०]।

पंचाम्नाय—सज्ञा पु० [सं० पञ्चाम्नाय] तत्र में वे पाँच शास्त्र जो शिव के पाँच मुखों से उत्पन्न माने जाते हैं [को०]।

पंचाम्न—पुं० [सं० पञ्चाम्न] अश्वत्थ आदि पाँच वृक्ष [को०]।

पंचाम्ल—सज्ञा पु० [सं० पञ्चाम्ल] वैद्यक में ये पाँच अम्ल या खट्टे पदार्थ—अम्लवेद, इमली, जँभीरी नीबू, कागदी नीबू और विजौरा। मतांतर से—वेर, अनार, विषावलि, अम्लवेद और विजौरा नीबू।

पंचायत—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चायतन] १ किसी विवाद, झगड़े या और किसी मामले पर विचार करने के लिये अधिकारियों या चुने लोगों का समाज। पंचों की बैठक या सभा। कमेटी। जैसे—(क) विरादरी की पंचायत। (ख) उन्होंने अदालत में न जाकर पंचायत से निपटारा कराना ही ठीक समझा।

क्रि० प्र०—बैठना।—बैठाना।—बटोरना।

२. बहुत से लोगों का एकत्र होकर किसी मामले या झगड़े पर विचार। पंचों का वाद विवाद।

क्रि० प्र०—करना।—होना।

यौ०—पंचायत घर—वह स्थान जहाँ समाज के लोग पंचों के साथ बैठकर किसी मामले के सर्वध में निर्णय करते हैं।

३ एक साथ बहुत से लोगों की बकवाद।

पंचायतन—सज्ञा पु० [सं० पञ्चायतन] [स्त्री० पंचायतनी] पाँच देवताओं की प्रतिमा। वह स्थान जहाँ पंचदेव की प्रतिमाएँ हो [को०]।

पंचायती—वि० [हि० पंचायत] १ पंचायत का किया हुआ। पंचायत का। २ पंचायत सबकी। ३ बहुत से लोगों का मिला जुला। सारके का। जिसपर किसी एक आदमी का अधिकार न हो। जो कई लोगों का हो। जैसे,—पंचायती भ्रलाडा। ४ सब पंचों का। सर्वसाधारण का।

यौ०—पंचायती राज—जनता का राज्य। बहुत से लोगों का मिला जुला शासन। जनतंत्र।

पंचारी—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चारी] चौसर, शतरज आदि की विसात [को०]।

पंचार्चि—सज्ञा पु० [सं० पञ्चार्चिस्] बुध ग्रह [को०]।

पंचाल—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चाल] १ एक देश का प्राचीन नाम जो

ब्राह्मण और उपनिषद् ग्रंथों से लेकर पुराणों तक में पाया जाता है ।

विशेष—इस देश की सीमा भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न रही है । यह देश हिमालय और चबल के बीच गंगा नदी के दोनों ओर माना जाता था । गंगा के उत्तर प्रदेश को उत्तर पंचाल और दक्षिण प्रदेश को दक्षिण पंचाल कहते थे । इस देश को देवपंचाल से भिन्न समझना चाहिए जो सौराष्ट्र देश का एक भाग था । इस देश का पंचाल नाम पडने के सबब में पुराणों में यह कथा है महाराज हर्यश्व अपने भाई से लड़कर अपनी ससुराल मधुपुरी चले गए और अपने ससुर मधु की सहायता से उन्होंने अयोध्या के पश्चिम के देशों पर अधिकार कर लिया । जब लोगों ने आकर उनसे अयोध्या के राजा के आक्रमण की बात कही तब उन्होंने पाँच पुत्रों (मुद्गरण, सृजय, वृहदिषु, प्रवीर और कापिल्य) की ओर देखकर कहा कि ये पाँचों हमारे राज्य की रक्षा के लिये अलम् (पंचालम्) हैं । तभी से उनके अधिकृत देश का नाम पंचाल पडा ।

हरिवंश में लिखा है कि हर्यश्व ने सौराष्ट्र देश में आनतपुर नामक नगर बसाया था । इसी आधार पर कुछ लोग देवपंचाल को ही पंचाल कहते हैं । पर महाभारत में हिमालय के अचल से लेकर चबल तक फैले हुए गंगा के उभयपार्श्वस्थ देश का ही वर्णन पंचाल के अंतर्गत आया है । पांडवों के समय में इस देश का राजा द्रुपद था जिससे द्रोणाचार्य ने उत्तरपंचाल छोड़ लिया था । महाभारत में उत्तरपंचाल की राजधानी अहिच्छत्रपुर और दक्षिण की कपिल लिखी है । द्रौपदी यहीं के राजा की कन्या होने के कारण 'पांचाली' कही गई है ।

२ [स्त्री० पंचाली] पंचाल देशवासी । ३ पंचाल देश का राजा । ४. एक ऋषि जो वाभ्रव्य गोत्र के थे । ५ महादेव । शिव । ६ एक छद्म जिसके प्रत्येक चरण में एक तगरण (JSI) होता है । ७. दक्षिण देश की एक जाति । इस जाति के लोग बढई और लोहार का काम करते हैं और अपने को विश्वकर्मा के वंश का वतलाते हैं । ये जनेऊ पहनते हैं । ८ एक सर्प का नाम । ९. एक विपैला कीडा ।

पंचालिका—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चालिका] १ पुतली । गुडिया । २ नटी । नर्तकी । उ०—नचति मच पंचालिका कर सकलित अपार ।—केशव (शब्द०) ।

पंचालिसा—वि० [हि० पंच+चालिस] दे० 'पैतालिस' ।

पंचालिष्ठ—वि० [?] दे० 'पैतालिस' ।

पंचाली—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चाली] १. पुतली । गुडिया । २ पांचाली । द्रौपदी । ३ एक प्रकार का गीत । पांचाली । ४ चौसर की विसात । पंचारी

पंचावयव—वि० [सं० पञ्चावयव] पाँच अवयव अर्थात् अगोवाला [को०] ।

पंचावस्थ—वि० [सं० पञ्चावस्थ] पाँचवी अवस्था में पहुँचा हुआ अर्थात् मृत ।

पंचावस्थ^२—सज्ञा पुं० पंचत्व । शव । मुर्दा [को०] ।

पंचाविक—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चाविक] भेड से प्राप्त होनेवाले पाँच पदार्थ—दूध, दही, घी, पुरीप और मूत्र [को०] ।

पंचावी—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चावी] वह गाय जिसके तले ढाई वर्ष का बच्चा हो ।

पंचाश—वि० [सं० पञ्चाश] पचासवाँ

पंचाशत्—वि० [सं० पञ्चाशत्] पचास ।

पंचाशिका—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चाशिका] १. वह पुस्तक जिसमें पचास श्लोक कवित्त आदि हो । जैसे, चौरपंचाशिका । २. पचास का समूह (को०) ।

पंचाशीत—वि० [सं० पञ्चाशीत] पंचासीवाँ ।

पंचाशीति—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चाशीति] पंचासी की संख्या ।

पंचास—वि० [सं० पञ्चाश] दे० 'पचास' । उ०—प्रसन चद सम जतिय दिन्न इक मय इष्ट जिय । इह आराधत भट्ट प्रगट पचास वीर विय ।—पृ० रा०, ६।२६ ।

पंचास्य^१—वि० [सं० पञ्चास्य] पाँच मुँहवाला ।

पंचास्य^२—सज्ञा पुं० १ सिंह । विशेष—दे० 'पंचानन' । २ शिव ।

पंचाह—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चाह] १. एक यज्ञ का नाम जो पाँच दिन में होता था । २ सोमयाग के अंतर्गत वह कृत्य जो सुत्या के पाँच दिनों में किया जाता है ।

पंचिका—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चिका] पाँच अध्यायों वा खंडों का समूह । २ एक प्रकार का लूना जो पाँच गोटियों से खेला जाता है (को०) । ३ रजिस्टर । खाता । वही । लेखा (को०) ।

पंचीकरण—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चीकरण] वेदांत में पंचभूतों का विभाग विशेष ।

विशेष—वेदांतसार के अनुसार प्रत्येक स्थूल भूत में शेष चार भूतों के अंश भी वर्तमान रहते हैं । भूतों की यह स्थूल स्थिति पंचीकरण द्वारा होती है जो इस प्रकार होता है । पाँचों भूतों को पहले दो बराबर बराबर भागों में विभक्त किया, फिर प्रत्येक के प्रथमांश को चार चार भागों में बाँटा । फिर इन सब बीसों भागों को लेकर अलग रक्खा । अंत में एक एक भूत के द्वितीयार्ध में इन बीस भागों में से चार चार भाग फिर से इस प्रकार रक्खे कि जिस भूत का द्वितीयार्ध हो उसके अतिरिक्त शेष चार भूतों का एक एक भाग उसमें आ जाय ।

पंचिकृत—वि० [सं० पञ्चीकृत] (भूत) जिसका पंचीकरण हुआ हो ।
पंचूरा—सज्ञा पुं० [हि० पानी+चूना] लडकों के खेलने का मिट्टी का एक बरतन या बिलौना जिसके पेंदे में बहुत से छेद होते हैं । पानी भरने से वह छेदों में से होकर टपकने लगता है ।

पंचेंद्रिय—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चेन्द्रिय] पाँच ज्ञानेंद्रियाँ जिनके द्वारा प्राणियों को बाह्य जगत् का ज्ञान होता है । दे० 'इन्द्रिय' ।

पंचेपु—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चेपु] कामदेव (जिसके पाँच इपु या शर हैं) ।

पंचो—सज्ञा पुं० [देश०] गुल्ली डंडे के खेल में डंडे में गुल्ली को मार-

कर दूर फेंकने का एक ढग । इसमें गुल्ली को बाएँ हाथ से उछालकर दाहिने हाथ से मारते हैं ।

पंचोपचार—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चोपचार] पूजा में प्रयुक्त होनेवाले या साधन रूप पाँच द्रव्य । गध, पुष्प, दूध, दीप, नैवेद्य—ये पाँच देवपूजन में प्रयुक्त होनेवाले पदार्थ [को०] ।

पंचोपविष—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चोपविष] हड, मदार, कनेर, जल-पीपल और कुचला—ये पाँच कृत्रिम और सामान्य विष [को०]

पंचोपण—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चोपण] पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, मिर्च और चित्रक नामक पाँच औषधियाँ ।

पंचोष्मा—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चोष्मन्] शरीर के भीतर, भोजन पचानेवाली पाँच प्रकार की अग्नि ।

पंचौदन—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चौदन] एक यज्ञ का नाम ।

पंचौवान—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चवाण] पचवाण । कामदेव । उ०—पचागनि कहा सावे पंचौवान हमें दाधे हुरै वेदरद होय अग्नि माँक घर दै ।—ब्रज० य०, पृ० १३२ ।

पंचौली—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्च+आवलि] एक पौधा जो पश्चिम भारत, मध्यप्रदेश, ववई और वरार में मिलता है । पचपात । पचपानडी ।

विशेष—इसकी पत्तियों और डठलों से एक प्रकार का सुगंधित तेल निकलता है जिसका व्यवहार यूरोप के देशों में होता है । इसकी खेती पान के भीटों में की जाती है । पौधे दो दो फुट की दूरी पर लगाए जाते हैं । एक वार के लगाए हुए पौधों से दो वार छह छह महीने पर फसल काटी जाती है । दूसरी फसल कट जाने पर पौधे खोदकर फेंक दिए जाते हैं । डठल सूख जाने पर बड़े बड़े गट्टों में बाँधकर विक्री के लिये भेज दिए जाते हैं । इन डठलों से भवके द्वारा तेल निकाला जाता है । ६६ सेर लकड़ी से लगभग वारह से पद्रह सेर तक तेल निकलता है । यूरोप में इस तेल का व्यवहार सुगंध द्रव्य की भाँति होता है । इसे 'पचपात' और 'पचपानडी' भी कहते हैं ।

पंचौली—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चकुल, पञ्चकुली] वशपरपरा से चली आती हुई एक उपाधि ।

विशेष—प्राचीन समय में किसी नगर या गाँव में व्यवस्था रखने और छोटे मोटे झगड़ों को निपटाने के लिये पाँच प्रतिष्ठित कुल के लोग चुन लिए जाते थे जो 'पच' कहलाते थे ।

पछा—सज्ञा पुं० [हिं० पानी+छाल] १ पानी की तरह का एक स्राव जो प्राणियों के शरीर से या पेड़ पौधों के अंगों से चोट लगने पर या यो ही निकलता है । २ छाले, फफोले, चेचक आदि के भीतर भरा हुआ पानी ।

पछाला—सज्ञा पुं० [हिं० पानी + छाला] १. फफोला । २. फफोले का पानी । उ०—केतकी ने कहा काँटा अडा तो अडा और छाला पडा तो पडा पर निगोडी तू क्यो पछाला हुई ।—इनशा० (शब्द०) ।

पछिराज—सज्ञा पुं० [सं० पछिराज] दे० 'पक्षिराज' ।

पंछी—सज्ञा पुं० [सं० पञ्ची] चिड़िया । पक्षी । उ०—भई यह साँक सवन सुखदाई । मानिक गोलक सम दिनमणि मनु संपुट दियो छिपाई । अलसानी ढग मूँदि मूँदि के कमल लता मन भाई । पंछी निज निज चले वसेरन गावत काम वघाई ।—हरिश्चंद्र (शब्द०) ।

पज—वि० [फा०] पाँच [को०] ।

पौ—पजश्रायत । पंजगज । पंजगूना = पंचगुना । पजगोशा = पचकोण युक्त । पंचकोना । पजतन । पजनोश । पजहजारी ।

पंजश्रायत—सज्ञा स्त्री० [फा०] कुरान की पाँच छोटी छोटी श्रायतें जो प्राय गमी या फातिहे के समय पढी जाती हैं [को०] ।

पंजगज—सज्ञा पुं० [फा०] पाँचेंद्रिय समूह । पाँच इन्द्रियाँ [को०] ।

पंजतन—सज्ञा पुं० [फा०] पाँच व्यक्ति ।

पजनोश—सज्ञा पुं० [फा०] १. महर, लोह, ताँवा, अभ्रक और पारद का रासायनिक मिश्रण । २ लोहे का मैल । महर [को०]

पंजर—सज्ञा पुं० [सं० पञ्जर] १. शरीर का वह कड़ा भाग जो अणुजीवों तथा बिना रीढ़ के और क्षुद्र जीवों में कोश या आवरण आदि के रूप में ऊपर होता है और रीढ़वाले जीवों में कड़ी हड्डियों के ढाँचे के रूप में भीतर होता है । हड्डियों का ठहरा या ढाँचा जो शरीर के कोमल भागों को अपने ऊपर ठहराए रहता है अथवा बंद या रक्षित रखता है । ठठरी । अस्थिसमुच्चय । ककाल । २. पसलियों से बना हुआ परदा । ऊपरी घड (छाती) का हड्डियों का घेरा । पार्श्व, वक्षस्थल आदि की अस्थिपत्ति । उ०—जान जान कीने जो तै नेहिन ऊपर वार । भरे जो नैन कटाच्छ के खजर पजरफार ।—रसनिधि (शब्द०) । ३ शरीर । देह । ४ पिंजडा । उ०—पजर भगन हुआ, पर पक्षी अब भी अटक रहा है आर्ष ।—साकेत, पृ० ३६६ ।

पौ—पजरशुक = पालतू तोता । पालतू सुग्गा । पिंजडे में पालित सुग्गा ।

५ गाय का एक सस्कार । ६ कलियुग । ७ कोल कद ।

पजरक—सज्ञा पुं० [सं० पञ्जरक] १ खाँचा । भावा । बेंत या लचीले डठलों आदि का बुना हुआ बड़ा टोहरा । २ पिंजरा । पिंजर (को०) ।

पंजरना—क्रि० अ० [सं० प्रज्वल] दे० 'पजरना' ।

पजराखेट—सज्ञा पुं० [सं० पञ्जराखेट] एक प्रकार का भावा या जाल जो मछली पकड़ने में काम आता है [को०] ।

पजरी—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्जर (= ठठरी)] अर्थों । टिकठी ।

पजरोजा—वि० [फा० पंजरोजह्] पाँच दिनों का । चद दिनों का । अस्थायी [को०] ।

पजवी—वि० [सं० पञ्चमी] पाँच की सख्यावाली । पाँचवीं । उ०—पजवी नाडि इद्री की करी । नानक किसे विरले सोफी परी ।—प्राण०, पृ० १६ ।

पंजशाखा—सज्ञा पुं० [अ० पजशाखह्] एक तरह की मशाल । एक तरह की वैठकी (दीपाधार) जिसमें पाँच शाखाओं पर दीप या मोमवत्ती जलाई जाती है । दे० 'पनसाखा' [को०] ।

पंजहजारी—सज्ञा पुं० [फा० पंजहजारी] एक उपाधि जो मुसलमान राजाओं के समय में सरदारों और दरवारियों को मिलती थी। ऐसे लोग या तो पाँच हजार सेना रख सकते थे अथवा पाँच हजार सेना के नायक बनाए जाते थे।

पंजा—सज्ञा पुं० [फा० पंजह् तुलनीय वि० सं० पंचक] १. पाँच का समूह। गाही। जैसे, चार पजे ग्राम। २ हाथ या पैर की पाँचों उँगलियों का समूह, साधारणतः हथेली के सहित हाथ की और तलवे के अगले भाग के सहित पैर की पाँचों उँगलियाँ। जैसे, हाथ या पैर का पजा, बिल्ली या शेर का पजा।

मुहा०—पजा फेरना या मोड़ना = पजा लडाने में दूसरे का पजा मरोड़ देना। पजे की लडाई में जीतना। पंजा फैलाना या चढ़ाना = लेने या अधिकार में करने के लिये हाथ बढ़ाना। हथियाने का डील करना। लेने का उद्योग करना। पंजा मारना = लेने के लिये हाथ लपकाना। झपाटा मारना। पंजे झाँककर पीछे पड़ना या चिमटना = हाथ धोकर पीछे पड़ना। जी जान से लगना या तत्पर होना। सिर हो जाना। पजे में = (१) पकड़ में। मुट्टी में। ग्रहण में। जैसे, पजे में आया हुआ शिकार। (२) अधिकार में। कब्जे में। वश में। ऐसी स्थिति में जिसमें जो चाहे किया जा सके। जैसे,—अब तो तुम हमारे पजे में फँस गए (या घ्रा गए) हो, अब कहाँ जाते हो? पजे में कर लेना = अधिकार में कर लेना। उ०—हित ललक से भरी लगावट ने, कर लिया है किसे न पजे में।—चौखें०, पृ० २०। पजे से = पकड़ से। मुट्टी से। अधिकार से। कब्जे से। जैसे, पजे से छूटना, पजे से निकलना। पजा लडाना = एक प्रकार की कसरत या बलपरीक्षा जिसमें दो आदमी एक दूसरे की उँगलियाँ फँसाकर मरोड़ने का प्रयत्न करते हैं। उ०—भरवी मेरी तेरी झुझा। तभी वजेगी मृत्यु लडाएगी जब तुझसे पजा।—अपरा, पृ० १३३। पंजा लेना = पजा लडाना। पजों के बल चलना = बहुत ऊँचा होकर चलना। इतराना। गर्व करना। जमीन पर पैर न रखना।

३ पजा लडाने की कसरत या बलपरीक्षा।

क्रि० प्र०—करना।—होना।

मुहा०—पजा ले जाना = पजा लडाने में जीत जाना। दूसरे का पजा मरोड़ देना।

४ उँगलियों के सहित हथेली का सपुट। जगुल। जैसे, पजा भर आटा। ५ जूते का अगला भाग जिसमें उँगलियाँ रहती हैं। जैसे,—इस जूते का पजा दवाना है। ६ बेल या भँस की पसली की चौड़ी हड्डी जिससे भगी मैला उठाते हैं। ७ पजे के आकार का बना हुआ पीठ छुजलाने का एक औजार। ८ मनुष्य के पजे के आकार का कटा हुआ टीन या और किसी धातु की चद्दर का टुकड़ा जिसे लवे वाँस आदि में बाँधकर झड़े या निशान की तरह ताँजिए के साथ लेकर चलते हैं। ९ पुट्टे के ऊपर का भाँस (चिक या कसाई)।

१०. ताश का वह पत्ता जिसमें पाँच चिह्न या वृष्टियाँ हो। जैसे, हँट का पजा। ११ जुए का दाँव जिसे नक्की भी कहते हैं।

मुहा०—छक्का पजा = दाँव पेंच। चालवाजी। उ०—नीकी चाल काहू की सिखाई जो न मानै औ न जानै भली भाँति चलिवे को व्यवहार है। छक्का पजा बंद कामादिक के न चूकै सी न जीवन के रंग बदरंग को प्रचार है।—चरण चंद्रिका (शब्द०)।

पंजातोड़ बैठक—सज्ञा स्त्री० [हिं० पजा + तोड़ना + बैठक] कुश्ती का एक पेंच जिसमें सलामी का हाथ मिलाते हुए जोड़ के पजे को तिरछा लेते हैं, फिर अपनी कुहनी उसके पेट के नीचे रख पकड़े हुए हाथ की अपनी गर्दन या कंधे पर से ले जाकर बगल में दवाते हैं और झटके के साथ खींचकर जोड़ को चित गिराते हैं।

पंजाब—सज्ञा पुं० [फा०] [हिं० पजाबी] भारत के उत्तरपश्चिम का प्रदेश जहाँ सतलज, व्यास, रावी, चनाव और झेलम नाम की पाँच नदियाँ बहती हैं।

विशेष—प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम पचनद आया है। विद्वानों की धारणा है कि ऋग्वेद में जिस सप्तसिंधु का उल्लेख है वह यही प्रदेश है। उसमें अणुमती, अजसी, अनितभा, अशमन्वती असिकनी, ककुभा (काबुल नदी), क्रमु, शुतुद्री, वितस्ता, शिफा, शर्यणावती, सरस्वती, सुवास्तु (स्वात) इत्यादि जिन बहुत सी नदियों का उल्लेख है वे प्रायः सब पंजाब की ही हैं। सरस्वती के किनारे का सारस्वत प्रदेश वैदिक काल में बहुत पुनीत माना जाता था और वहाँ अनेक बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं। मनुसंहिता का ब्रह्मपि देश भी पंजाब के ही अंतर्गत था। महाभारत में आए हुए मद्र, आरट्ट, सिंधु, गांधार आदि देश पंजाब में ही पडते थे। महाभारत में मद्र देश के वासियों का आचार व्यवहार निंदित कहा गया है।

पंजाबल—सज्ञा पुं० [हिं० पजा + बल] पालकी के कहारों की बोली, यह सूचित करने के लिये कि आगे की भूमि ऊँची है।

विशेष—यह वाक्य अगले कहार पीछले कहारों की सूचना के लिये बोलते हैं।

पंजाबी^१—वि० [फा०] पंजाब सबधी। पंजाब का। जैसे, पंजाबी घोड़ा, पंजाबी भाषा, पंजाबी जूता।

पंजाबी^२—सज्ञा पुं० [स्त्री० पंजाबिन] पंजाब का रहनेवाला। पंजाब निवासी।

पंजारा—सज्ञा पुं० [सं० पिञ्जा (= रुई) अथवा पिञ्जकार] १. रुई से सूत कातनेवाला। २. रुई धुननेवाला। धुनिया।

पंजाह—वि० [फा०, तुल सं० पञ्चाशत्] पचास [को०]।

पंजि—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्जि] १. रुई की पिउनी या गोल पहल जिसे हाथ में लेकर काता जाता है। २. आलेख। बही।

रजिस्टर । ३ पंचाग । पत्रा । जप्ती [को०] ।

यौ०—पजिकार । पजिकारक ।

पजिका—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्जिका] १ पंचाग । २ शब्दशा
व्याख्या करनेवाली टीका । विस्तृत टीका । ३ वही खाता
(को०) । ४ यम का वह खाता जिसमें प्राणी के कर्मों का लेखा
रहता है (को०) । ५ पूनी । पिउनी (को०) ।

पजिकारक—सज्ञा पुं० [सं० पञ्जिकारक] १ पंचागनिर्माता । २
लेखक । वहीखाता लिखनेवाला । ३ एक जाति । कायस्थ
[को०] ।

पजी—सज्ञा स्त्री० [सं० पञ्जी] दे० 'पजि' ।

पजीकरण—सज्ञा पुं० [सं० पञ्जीकरण] १. लेख आदि का वही या
रजिस्टर पर लिखा जाना । २ रजिस्टर होना । रजिस्टर में
लिखकर पक्का करना ।

पजीकार—सज्ञा पुं० [सं० पञ्जीकार] १ पजी या वही लिखनेवाला
व्यक्ति । लेखक । मुनीम । २ पंचाग का निर्माता । ज्योतिषी ।

पजीरी^१—सज्ञा स्त्री० [हिं० पाँच + जीरा] एक प्रकार की मिठाई जो
आँटे को घी में भूनकर उसमें धनिया, सोठ, जीरा आदि
मिलाकर बनाई जाती है ।

विशेष—इसका व्यवहार विशेषतः नैवेद्य में होता है । जन्माष्टमी
के उत्सव तथा सत्यनारायण की कथा में पजीरी का प्रसाद
बँटता है । पजीरी प्रसूता स्त्री के लिये भी बनती है और
पठावे में भी भेजी जाती है ।

पजीरी^२—सज्ञा स्त्री० [देश०] दक्षिण का एक पौधा जो मालावार,
मैसूर तथा उत्तरी सरकार में होता है और श्रोषधि के काम में
आता है । यह उत्तेजक, स्वेदकारक और कफनाशक होता है ।
जुकाम या सर्दी में इसकी पत्तियों और ठठलों का काढ़ा दिया
जाता है । मस्कृत में इसे इ दुपर्णी और अजपाद कहते हैं ।

पजुम—वि० [फा०] पचम । पाँचवाँ । उ०—पजुम स्वाव देखा
जो है इक शहर । मद जन वहाँ को रहे घर व घर ।
—दक्खिनी०, पृ० ३०१ ।

पटलि^१—सज्ञा पुं० [सं० पटल] आवरण । पद । उ०—परगृह जाय
न देखे चंचलि । गुरुमुखि त्यागे माया पटलि ।—प्राण०,
पृ० ११ ।

पंढ^१—सज्ञा पुं० [सं० पण्ड] १ नपुसक । हिंजडा । २ वह (पेठ)
जिसमें फल न लगे ।

पण्ड^२—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डव] दे० 'पाण्डव' । उ०—सँभ्राम पण्ड
कैरवे कि खड वारण सोणिय । रा० रू०, पृ० ६० ।

पण्ड^३—सज्ञा पुं० [सं० पण्ड] दे० 'पण्ड' । उ०—वसे अपण्डो पण्ड मे
ता गति लपै न कोइ ।—कवीर ग्र०, पृ० १८ ।

पण्डक—सज्ञा पुं० [सं० पण्डक] दे० 'पण्ड' ।

पण्डग—सज्ञा पुं० [सं० पण्डग] खोजा । नपुसक ।

पण्डर—सज्ञा पुं० [हिं० पानी + ढरना (ढरा)] परनाला । पनाला ।
नावदान ।

पण्डल^१—वि० [सं० पाण्डुर] पाहु वरुण का । पीला । उ०—(क)
लोने मुख पण्डल पै मण्डल प्रकाश देव, जैसे चंद्र मण्डल पै चंदन
चढ़ाइयतु ।—देव (शब्द०) ।

पण्डल^२—सज्ञा पुं० [सं० पण्ड, हिं० पण्ड + ल] पिण्ड । शरीर ।
उ०—(क) आसा एकहि नाम की जुग जुग पुरवँ भास ।
ज्यो पण्डल कोरी रहै वसे जो चंदन पास ।—कवीर (शब्द०) ।
(ख) पण्डल पिण्डर मन भँवर अरथ अनूपम वास । एक नाम
सीचा अमी फल लागी विश्वास ।—कवीर (शब्द०) ।

पण्डव, पण्डवा—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डव] दे० 'पाण्डव' ।

पण्डा^१—सज्ञा पुं० [सं० पण्डित] [स्त्री० पण्डाइन] १ किसी तीर्थ
या मंदिर का पुरोहित या पुजारी । तीर्थ पुरोहित । मंदिर
का पुजारी । घाटिया । पुजारी । उ०—माया महा ठगिन
हम जानी । तिगुन फाँस लिए कर डोले डोले मधुरी
वानी । केणव के कमला हूँ वैठी शिव के भई भवानी ।
पण्डा के मूरति हूँ वैठी तीर्थ मे भई पानी ।—कवीर
(शब्द०) । २ रोटी बनानेवाला ब्राह्मण । रसोइया ।

पण्डा^२—सज्ञा स्त्री० [सं० पण्डा] १ विवेकात्मिका बुद्धि । विवेक ।
ज्ञान । बुद्धि । २ शास्त्रज्ञान ।

पण्डाइन—सज्ञा स्त्री० [हिं० पण्डा] १ पण्डा की स्त्री । २. रसोइया
की स्त्री या रसोई बनानेवाली औरत ।

पण्डापूर्व—सज्ञा पुं० [सं० पण्डापूर्व] मीमामा शास्त्रानुसार वह धर्मा-
धर्मात्मक अदृष्ट जो अपने कर्म का फल देने में अयोग्य हो ।

विशेष—मीमासा का मत है कि प्रत्येक कर्म के करते ही, चाहे
वह अधर्म हो या धर्म एक अदृष्ट उत्पन्न होता है । इस अदृष्ट
में अपने कर्म के शुभाशुभ फल देने की योग्यता होती है । पर
कितने कर्मों के शुभाशुभ फल तो मिलते हैं और उनके फलों
के मिलने का वर्णन अर्थवाद वाक्यों में भी है पर कितने ऐसे
भी कर्म हैं जिनका फल नहीं मिलता । ऐसे कर्मों की विधि तो
शास्त्रों में है पर उनका अर्थवाद नहीं है । इस प्रकार के कर्मों
के करने से जो अदृष्ट उत्पन्न होता है उसे 'पण्डापूर्व' कहते हैं ।
मीमासकों का मत है कि ऐसे अदृष्टों में स्पष्ट फल देने की
योग्यता नहीं होती पर वे पाप और पुण्य का क्षय करते हैं ।
नैयायिक इस प्रकार के अदृष्ट को नहीं मानते ।

पण्डाल—सज्ञा पुं० [अ०] किसी भारी समारोह के लिये बनाया हुआ
विस्तृत मंडप । जैसे, ममेलन का पण्डाल । काग्रेस का पण्डाल ।

पण्डावत—वि० [सं० पण्डावत] बुद्धिमान या पण्डा लिखा [को०] ।

पण्डित^१—वि० [वि० स्त्री० पण्डित] [पण्डिता, पण्डिताइन पण्डितानी]
१. विद्वान् । शास्त्रज्ञ । ज्ञानी ।

विशेष—लोक में 'पण्डित' शब्द का प्रयोग पढ़े लिखे ब्राह्मणों ही
के लिये होता है । शिष्टाचार में ब्राह्मणों के नाम के पहले यह
शब्द रखा जाता है ।

२. कुशल । प्रवीण । चतुर । ३. संस्कृत भाषा का विद्वान् ।

पण्डित^२—सज्ञा पुं० १ पण्डा लिखा शास्त्रज्ञ ब्राह्मण । २ वह जो
सदसद् के विवेकज्ञान से युक्त हो । शास्त्रज्ञ विद्वान् । ३.
ब्राह्मण । ३ एक प्रकार का गणद्रव्य । सिद्धक (को०) ।

पण्डितक^१—सज्ञा पुं० [सं० पण्डितक] १. घृतराष्ट्र के एक पुत्र का
नाम । २. विद्वान् व्यक्ति (को०) ।

पण्डितक^२—वि० शास्त्रज्ञ । विद्वान् । शिक्षित [को०] ।

पंडितजातीय—वि० [सं० पण्डितजातीय] अल्प चतुर । कुछ कुशल [को०] ।

पंडितमंडल—सज्ञा पुं० [सं० पण्डितमण्डल] [स्त्री० पण्डितमंडली] पंडितों की गोष्ठी । विद्वानों की मंडली [को०] ।

पंडितमानिक—वि० [सं० पण्डितमानिक] दे० 'पंडितम्मन्य' [को०] ।

पंडितमानी—वि० [सं० पण्डितमानिन्] दे० 'पंडितम्मन्य' [को०] ।

पंडितम्मन्य—वि० [सं० पण्डितम्मन्य] अपने को विद्वान् मानने-वाला । पांडित्याभिमानी । मूर्ख ।

पंडितराज—सज्ञा पुं० [सं० पण्डितराज] १. प्रकांड विद्वान् । बहुत बड़ा पंडित । २. संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रसगगाधर' के रचयिता विद्वान् जगन्नाथ की उपाधि [को०] ।

पंडितबादी—वि० [सं० पण्डितवादिन्] पंडित होने का स्वांग या ढोंग करनेवाला [को०] ।

पंडिता—वि० स्त्री० [सं० पण्डिता] विदुषी । उ०—तू तो आप बड़ी पंडिता है, मैं तुम्हें क्या समझाऊंगी ।—भारतेंदु ग्र०, भा० १, पृ० ३५ ।

पंडिताइना—सज्ञा स्त्री० [हिं० पंडित] दे० 'पंडितानी' ।

पंडिताई—सज्ञा स्त्री० [हिं० पंडित + आई (प्रत्य०)] विद्वत्ता । पांडित्य । वैदुष्य ।

पंडिताऊ—वि० [हिं० पंडित] पंडितों के ढग का । जैसे, पंडिताऊ हिंदी ।

पंडितानी—सज्ञा स्त्री० [हिं० पंडित] १. पंडित की स्त्री । २. ब्राह्मणी ।

पंडितिमा—सज्ञा स्त्री० [सं० पण्डितिमन्] पांडित्य । विद्वत्ता [को०] ।

पंडी (पुं०)—सज्ञा स्त्री० [सं० पण्डु] दे० 'पण्डु' । उ०—डुती कि नाग चदन । चढत दुद्ध पंडिय ।—पृ० रा० २५।३१० ।

पण्डु—वि० [सं० पण्डु] १. पीलापन लिए हुए मटमैला । २. श्वेत । सफेद । ३. पीला । ४. पाँच की संख्या का वाचक ।—रघु० ६०, पृ० ५० ।

पण्डुक—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डु] [स्त्री० पण्डुकी] कपोत या कवूतर की जाति का एक पक्षी जो ललाई लिए भूरे रंग का होता है । उ०—इस सुंदर तथा खेमावार वृक्ष पर शुक, मयूर, पण्डुक इत्यादि सहस्रो प्रकार के पक्षियों का निवास है ।—कवीर म०, पृ० ४६६ ।

विशेष—यह प्रायः जगली भाड़ियों और उजाड़ स्थानों में होता है । नर की बोली कड़ी होती है और उसके गले में कठा सा होता है जो नीचे की ओर अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है पर ऊपर साफ नहीं मालूम होता । पण्डुक दो प्रकार का होता है, एक बड़ा दूसरा छोटा । बड़े का रंग भूरा और खुलता होता है । छोटे का रंग मटमैला लिए इंट सा लाल होता है । कवूतर की तरह पण्डुक जल्दी पालतू नहीं होता । पण्डुक और सफेद कवूतर के जोड़ से कुमरी पैदा होती है ।

पर्या०—पिण्डुक । पेड़की । फास्ता ।

पंडुरा^१—सज्ञा पुं० [देश०] १. पानी में रहनेवाला साँप । डेढ़हा ।

उ०—ऐसे हरि सो जगत लरतु है । पंडुर कतहूँ गरुड घरतु है ।—कवीर (शब्द०) ।

पंडुर (पुं०)^२—सज्ञा पुं० [सं० पण्डुर, प्रा० पंडुर] पीलापन । (भय आदि के कारण) शरीर का पीला या सुफेद हो जाना । पांडुर । उ०—भेद वचन तन पेद सुतन पंडुर चढि भाइय । उष्ट घरद्वर कपि सु तन प्राक्रम जभाइय ।—पृ० रा०, १ । २७५ ।

पंडोही—सज्ञा पुं० [हिं० पानी + दह] नावदान । परनाला । पनाला ।

पंडू—सज्ञा पुं० [सं० पण्डू, पण्डूक] वह जो वात रोग से ग्रस्त हो । पगु आदमी । २. हिंजडा [को०] ।

पता—सज्ञा, पुं० [सं० पन्थ] मार्ग । रास्ता । उ०—जेथ वरफ वरसी जमै, परवत सिखराँ पत ।—वाँकी० ग्र०, भा० ३, पृ० ५७ ।

पंती (पुं०)—सज्ञा स्त्री० [सं० पण्डुक्ति, प्रा० पण्डुक्ति] श्रेणी । पाँत । पक्ति । उ०—अगौ सुदति पण्डुक्ति विरूर । पलकत अद्रु मत भरत भूर । पृ० रा०, १।६२४ ।

पथ^१—सज्ञा पुं० [सं० पन्थ] १. मार्ग । रास्ता । राह । उ०—(क) वरनत पथ विविध इतिहासा । विश्वनाथ पण्डुके कैलासा ।—मानस, १।५८ । (ख) जो न होत अस पुरुष उँजारा । सुम्भि न परत पथ अँधियारा ।—जायसी (शब्द०) (ग) विरहिन ऊभी पंथ सिर पथी पँडै धाय । एक शब्द कहो पीव का कव रे मिलेगे आय ।—कवीर (शब्द०) । २. आचार-पद्धति । व्यवहार का क्रम । चाल । रीति । व्यवस्था ।

पथ^२—कुपथ । उ०—रघुवसिन्ह कर सहज सुभाऊ । मनु कुपथ पगु धरै न काऊ ।—मानस, १।२३१। सुपथ ।

मुहा०—पथ गहना = (१) रास्ता पकड़ना । चलने के लिये रास्ते पर होना । चलना । उ०—विछुरत प्राण पयान करेंगे रहौ आजु पुनि पथ गहौ ।—सूर (शब्द०) । (२) चाल पकड़ना । ढग पर चलना । विशेष प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना । आचरण ग्रहण करना । पथ करना = ' ' ' पथ गहना उ०—क्रम क्रम ढोला पथ कर, ढाण म चूके ढाल ।—ढोला०, दू० ४४० । पथ दिखाना = (१) रास्ता बताना । (२) धर्म या आचार की रीति बताना । उपदेश देना । उ०—गुरु सेवा जेइ पथ दिखावा । विनु गुरु जगत् को निगुन पावा ?—जायसी (शब्द०) । पथ देखना या निहारना = रास्ता देखना । वाट जोहना । प्रतीक्षा करना । इतजार करना । उ०—(क) तुमरो पथ निहारौँ स्वामी, कवाँहि मिलीगे अतर्यामी ।—सूर (शब्द०) । (ख) माखन खाव लाल मेरे आई । खेलत आज अवार लगाई । ... मैं बैठी तुम पथ निहारौँ । आवो तुम पै तन मन वारी ।—सूर (शब्द०) । पथ न सूझना = रास्ता न दिखाई पड़ना । उ०—आगे चलो पथ नहि नूँझ पीछे दोष लगावे ।—कवीर सा० स०, पृ० ४६ । पथ में या पथ पर पाँव देना = (१) चलना । चलने के लिये पैर उठाना या बढाना । (२) रीति या ढग पर चलना । विशेष प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होना । आचरण ग्रहण करना । जैसे,—भूल कर भी बुरे पथ में पाँव न देना । पथ पर लगना = (१)

रास्ते पर होना । (२) चाल ग्रहण करना । किसी के पंथ लगाना = (१) किसी के पीछे होना । अनुसरण करना । अनुयायी होना । (२) किसी के पीछे पडना । बराबर तग करना । लगातार कष्ट देना । उ०—किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर नागा । हठि सबही के पथहि लागा ।—तुलसी (शब्द०) । पथ पर लाना या लगाना = (१) ठीक रास्ते पर करना । (२) अच्युती चाल पर ले चलना । उत्तम आचरण सिखाना । धर्मोपदेश करना । उ०—अगुआ भयउ सेख बुरहानू । पथ लाय मोहि दीन्ह गियानू ।—जायसी (शब्द०) । पथ सेना या सेवना = राह देखना । बाट जोहना । आसरा देखना । उ०—हारिल भई पथ मै सेवा । अरव तोहि पठवो कोन परेवा ।—जायसी (शब्द०) ।

३ धर्ममार्ग । संप्रदाय । मत । जैसे, कवीरपथ, नानकपथ, दाथूपथ । उ०—सैयद अशरफ पीर पियारा । जिन मोहि पथ दीन उजियारा ।—जायसी (शब्द०) ।

पंथ^३—सज्ञा पुं० [म० पथ्य] वह हल्का भोजन जो रोगी को लघन या उपवास के पीछे शरीर कुछ स्वस्थ होने पर दिया जाता है । जैसे, मूंग की दाल आदि ।

पंथक—वि० [सं० पन्थक] मार्ग में पैदा हुआ । मार्ग में पैदा होने-वाला [को०] ।

पथकी^४—सज्ञा पुं० [सं० पथिक] राही । पथिक । राह चलता मुसाफिर । उ०—(क) मंदिरन्ह जगत दीप परगसी । पथकि चलत वसेरन वसी ।—जायसी (शब्द०) । (ख) कौन हौ ? किततें चले ? कित जात हौ ? केहि काम ? जू । कौन की दुहिता, वहू कहि कौन की यह वाम, जू । एक गाँव रहौ कि साजन मित्रवधु बखानिए । देश के ? परदेश के ? किधो पथकी ? पहिचानिए ।—केशव (शब्द०) ।

पंथड़ा—सज्ञा पुं० [हि० पथ + ढा (प्रत्य०)] मार्ग । रास्ता । पथ । उ०—पथडँ जाय पाँव नहि तोडूँ घर बैठा ऋधि पाऊँगा ।—राम० धर्म०, पृ० १६ ।

पथवाना—सज्ञा पुं० [सं० पन्थ + हि० वान (प्रत्य०)] पथिक । मुसाफिर । उ०—पथवान पुच्छयो नदी उत्तारि तिन अषिय ।—पृ० रा०, ७।७२ ।

पथा^५—सज्ञा पुं० [सं० पन्थ] 'पथ' । उ०—करहि पयान भोर उठि नितहि कोस दम जाहि । पथी पथा जो चलहि ते का रहन श्रोताहि ।—जायसी (शब्द०) ।

पथान^६—सज्ञा पुं० [सं० पन्थ या पथ] मार्ग । उ०—एहि महँ रुचिर सप्त सोपाना ।—रघुपति भगति केर पथाना ।—तुलसी (शब्द०) ।

पथिक^७—सज्ञा पुं० [सं० पथिक] 'पथिक' । उ०—पथिक सो जो दरव मो रुसे । दरव समेटि बहुत अरस मूसै ।—जायसी प्र० पृ० २२३ ।

पथिनी—वि० [सं० पन्थ + हि० इनी (प्रत्य०)] राह पर चलनेवाली । उ०—मै मानुंगी अधिक उनमे हैं महामोह

मग्ना । तो भी प्राय प्रणयपथ की पथिनी ही सभी हैं ।—प्रिय०, पृ० २४६ ।

पंथी—सज्ञा पुं० [सं० पंथिन्] १ राही । बटोही । पथिक । उ०—(क) बडा हुआ तो क्या हुआ जैसे छाँह खजूर । पथी छाँह न वैठही फल लागा तो दूर ।—कवीर (शब्द०) । (ख) करहि पयान भोर उठि नितहि कोस दस जाहि । पथी पथा जो चलहि ते कित रहँ श्रोताहि ।—जायसी (शब्द०) । २ किसी संप्रदाय का अनुयायी । जैसे, कवीरपथी, दादूपथी इत्यादि ।

पद^१—सज्ञा स्त्री० [फा०] शिक्षा । सीख । उपदेश । उ०—नफस नाँव सो मारिए गोसमाल दे पद । दूई है सो दूरि करि तव घर मे शानद ।—दादू (शब्द०) ।

पंदर^२—सज्ञा पुं० [हि०] द० 'फदा' । उ०—जगमग दिवारी है कि दामिनी उज्यारी है कि, देवता सवारी है कि मद हास पद है ।—अज प्र०, पृ० १५० ।

पंदरह^३—वि० [सं० पञ्चदश, पा० पयणरस, प्रा० पयणरह] जो सख्या में दस और पाँच हो ।

पंदरह^४—सज्ञा पुं० दस और पाँच की सख्या या अंक जो इस प्रकार लिखा जाता है—१५ ।

पंदरहवाँ—वि० [फा० पदरह] [वि० स्त्री० पदरहवाँ] जो पदरह के स्थान पर हो । जिसका स्थान चौदह और पदार्थों के पीछे हो ।

पंदार—वि० [फा० पद] सुभाव या शिक्षा लेनेवाला [को०] ।

पंदरह—सज्ञा पुं० [हि० पदरह] द० 'पदरह' । उ०—पंदरह दश इकीहि सत्त, मन में घरे परोय ।—प्राण०, पृ० ५५ ।

पंधलाना—क्रि० सं० [देश०] फुसलाना । वहलाना ।

पंना^५—सज्ञा पुं० [हि० पन्ना] एक रत्न । द० 'पन्ना' । उ०—पदि पना मानिक मंगवाए । गोमोदिक लीलागन त्याए ।—प० रासो, पृ० २२ ।

पंप—सज्ञा पुं० [अ०] १ वह नल जिसके द्वारा पानी ऊपर खींचा या चढाया जाता है अथवा एक और से दूसरी और पहुँचाया जाता है । २ पिचकारी । हवा भरने की पिचकारी ।

फि० प्र०—करना ।

३ एक प्रकार का हलका अंगरेजी जूता जिसमें पजे से इधर का भाग ढँका रहता है ।

पपा—सज्ञा स्त्री० [सं० पम्पा] दक्षिण देश की एक नदी और उसी से लगा हुआ एक ताल और नगर जिनका उल्लेख रायायण और महाभारत में है ।

विशेष—रामायण में लिखा है कि पपा नदी से लगा हुआ ऋष्यमूक पर्वत है । ये दोनों कहाँ हैं इसका ठीक ठीक निश्चय नहीं हुआ है । विन्सन साहब ने लिखा है कि पपा नदी ऋष्यमूक पर्वत से निकलकर तुंगभद्रा नदी में मिल गई है । रामायण से इतना पता तो और लगता है कि मलय और ऋष्यमूक दोनों पर्वत पास ही पास थे । हनुमान ने ऋष्यमूक

से मलयगिरि पर जाकर राम से मिलने का वृत्तांत सुग्रीव से कहा था। आजकल त्रावकोर (तिरुवाकुर) राज्य में एक नदी का नाम 'पवे' है। यह पश्चिम घाट से निकलती है जिसे वहाँवाले 'अनमलय' कहते हैं। अस्तु यही नदी पपा नदी जान पड़ती है और ऋष्यमूक पर्वत भी वहीं हो सकता है जिससे यह नदी निकली है।

पंपाल—वि० [सं० पापालु] पाप या बुरे कर्म करनेवाला। पापी।

पंपासर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पम्पासर] दे० 'पंपा'। उ०—पंपासरहि जाहु रघुराई। तहँ होइहि सुग्रीव मिताई।—मानस, ३।३०।

पंपा—सञ्ज्ञा पुं० [फ्रा० पुवा (= कपास)] एक प्रकार का पीला रंग जो ऊन रँगने में काम आता है।

विशेष—४ छटाँक मोखा हलदी की बुकनी १३ छटाँक गधक के तेजाव में मिलाई जाती है। हल हो जाने पर उसे ६ सेर उबन्ते हुए पानी में मिला देते हैं। इस जल में धुला हुआ ऊन एक घंटे तक छाया में सुखाया जाता है। यह रंग कच्चा होता है पर यदि हलदी की जगह अकलवीर मिलाया जाय तो रंग पक्का होता है।

पंपार—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पँवार] पँवार नाम की क्षत्रिय जाति। दे० 'परमार'। उ०—सपनानुराग वढधौ नृपति अरु स्रोतानन राग भय। पमार मोहि छोरे सलष अनप एन आवू सुलय।—पृ० रा०, १२।१३।

पसाखा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पनसाखा] एक प्रकार का मशाल। पाँच शाखाओं का दीपस्तम्भ या दीपाधार। पनसाखा। उ०—हम स्त्रीच स्त्रीचकर चरबी पशाखा वालेंगे।—भारतेंदु ग्र० भा० १ पृ० २६६।

पसा—अन्व० [सं० पार्श्व, हिं० पास] दे० 'पास'। उ०—जैसी देह सँवारी हसा। तैसी लेहु हमारे पसा।—कबीर सा०, पृ० ५६५। (५) २ दे० 'पासा'।

पसारी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पश्यशाली] हलदी, घनिया आदि मसाले तथा दवा के लिये जड़ी बूटी वेचनेवाला बनिया।

पसासार—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाशक, हिं० पासा + सारि (= गोटी)] पासे का खेल। उ०—अनिरुद्ध जी और राजकन्या निद्रा से चौक पसासार खेलने लगे।—लल्लु (शब्द०)।

पसासारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पाशक, हिं० पासा + सारि (= गोटी)] पासे का खेल। उ०—कोउ खेलत कहू पसासारी। खेलन कौतुक की बलभारी।—सबलसिंह (शब्द०)।

पंसेरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पाँच + सेर] पाँच सेर की तौल।

पँखडी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पखडी'।

पँखिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पख] १ भूसे या भूसी के महीन टुकड़े। पाँकी। २ पखडी। उ०—देव कइ अपनी वस ना रस लालच लाल चितै भइ चेरी। वेगि ही बूडि गई पँखिया अँखिया मधु की मखिया भइ मेरी।—इतिहास, २६६।

पँखुड़ा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पच्छ, हिं० पख] मनुष्य के शरीर में कंधे के पास का वह भाग जहाँ हाथ जुड़ा रहता है। पखोरा। कंधे और बाँह का जोड़।

पँखुडी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पँख] फूल का दल। पखडी। उ०—कमल सूख पँखुडी भइ रानी। गलि गलि के मिलि छार भुरानी।—जायसी (शब्द०)।

पँखुरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पख] दे० 'पँखुडी'। उ०—(क) मैं बरजी के बार तू इत कित लेति करोट। पँखुरी गई गुलाब की परिहै गात खरोट।—बिहारी (शब्द०)।

पँखुरा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पच्छ, हिं० पख] दे० 'पँखुडा'।

पँखेरू—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पखालु] दे० 'पखेरू'। उ०—भएउ अचल धुव जोगि पँखेरू। फूलि वैठ थिर जैस सुमेरू।—जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० ३१२।

पँगा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'उपग'।

पँगरा—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] १ मझोले आकार का एक प्रकार का कँटीला वृक्ष। डौलढाक। ढाक। मदार।

विशेष—यह वृक्ष प्रायः सारे भारत में पाया जाता है। शीत ऋतु में इसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। इसकी लकड़ी बहुत मुलायम, पर चिमडी होती है और तलवार की म्यान या तख्ते आदि बनाने के काम में आती है।

पँगला—वि० [सं० पङ्गु + ल (प्रत्य०)] [वि० स्त्री० पँगली] पगु। लँगडा।

पँगुला—वि० [सं० पङ्गुल] 'पँगुल'। उ०—गूँगा हूआ बावरा, वहिरा हूआ कान। पाँयन से पँगुला हूआ, सतगुरु मारा वान।—कबीर सा० स०, पृ० ६।

पँचकल्याण—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पचकल्याण] दे० 'पचकल्याण'। उ०—पिन्न सदली वौरता, चगर सिराजी हस। पँचकल्याण कुमैत हय रोहालिक महिया बस।—प० रासो, पृ० १३८।

पँचकुरा—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पाँच + कुरा] एक प्रकार की बँटाई जिसमें खेत की उपज के पाँच भागों में से एक भाग जमींदार लेता है।

पँचगोटिया—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पाँच + गोटी] वह खेल जो ५-५ गोटियों से खेला जाय।

पँचतोरिया—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का वस्त्र। पचतोलिया। उ०—सहज सेत पँचतोरिया पहिरे अति छवि देत।—बिहारी (शब्द०)।

पँचमेल—वि० [हिं० पाँच + मेल] दे० 'पचमेल'।

पँचमेली—वि० [हिं० पँचमेल] १ पाँच चीजों की मेलवाली (मिठाई आदि)। २ मिश्रित। उ०—पँचमेली भाषा लिखि जात बरन उन माही।—प्रेमघन०, भा० २, पृ० ४१६।

पँचरँग—वि० [हिं० पाँच + रँग] १ पाँच रंग का। उ०—पँचरँग सारी मँगोओ। बधुजन सब पहरावो।—सूर (शब्द०)। २ अनेक रंगों का। रंगविरग। ३ पाचभौतिक (लाक्ष०)। उ०—चार पिछोरी साजि पँचरँग नव चोली है।—द० ग्र०, पृ० ३८६।

पँचलडा—वि० [हिं० पाँच + लडा] पाँच लडों का। जैसे, पँचलडा हार।

पँचलड़ी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाँच + लड़] गले में पहनने की पाँच लड़ों की माला ।

पँचलरो—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पँचलड़ी' ।

पँचवान (७) —सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चवाण ?] राजपूतों की एक जाति ।
उ०—पत्नी श्री पँचवान वधेले । अग्रपर चौहान चँदेले ।
—जायसी (शब्द०) ।

पँचसर (७) —सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चशर] दे० 'पञ्चशर' । उ०—जब कोउ या तन तनक निहारें । ताकों निघरक पँचसर मारें ।—
नद० ग्र०, पृ० १२० ।

पँचहराँ—वि० [सं० पञ्च + स्तर] १ पाँच तह या पतं का ।
२ पाँच वार का किया हुआ ।

पँचालिका (७) —सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चालिका] १ नदी । नर्तकी ।
उ०—नाचति मच पँचालिका कर सकलित अपार ।—
केशव (शब्द०) ।

पँछिराज—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पछिराज] दे० 'पक्षिराज' । उ०—अब कहना कछु नाही, मस्ट भलो पँछिराज ।—जायसी ग्र०
(गुप्त), पृ० १६८ ।

पँजड़ी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पञ्च, फा० पज] चौसर के एक दाँव का नाम ।

पँजना—क्रि० क० [सं० पञ्ज (= वृद्ध होना, रुकना)] धातु के बरतन में टाँके आदि द्वारा जोड़ लगाना । झलना । झाल लगाना ।

पँजनी (७) †—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] 'पँजनी' । उ०—वजनी पँजनी पायली मन भजनी फुर वाम । रजनी नीद न परति है सजनी विन घनस्याम ।—राम० धर्म०, पृ० २३७ ।

पँजरना—क्रि० अ० [सं० प्रज्वलन] दे० 'पजरना' ।

पँजरो—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पञ्जर] १ पसली । पजर । २ अरथी जिसपर जलाने के लिये शव ले जाते हैं ।

पँडराँ—सञ्ज्ञा पुं० [?] दे० 'पँडवा' ।

पँडरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पदना] वह भूमि जो ईख बोने के लिये रखी गई हो । उखाँड । पँडुवा ।

क्रि० प्र०—रखना । छोड़ना ।

पँडरु—सञ्ज्ञा पुं० [?] [स्त्री० पँडरी] दे० 'पँडवा' ।

पँडवा—सञ्ज्ञा पुं० [?] भैंस का वच्चा ।

पँडुवाँ—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० परना] दे० 'पँडरी' ।

पँतीजनाँ—क्रि० स० [सं० पिञ्जन (= धुनकी)] रूई से बिनीले निकालकर अलग करना । रूई ओटना । पीजना ।

पँतीजी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिञ्जन (= धुनकी)] रूई धुनने की धुनकी ।
उ०—चरख पँतीजी चरख चढ़ि ज्यों ढाँकत जग सूत ।—
वृ० द (शब्द०) ।

पँत्यारी (७) —सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] पत्ति । श्रेणी । कतार ।

पँदरोही—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पडोह' ।

पँवडा—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पँवाडा' । उ०—उर विज्ञान जन साथ

राम पँवडा भर लीजै । निर्भर नित आनद अगम घर आसण कीजै ।—राम धर्म०, पृ० २४५ ।

पँवनारि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पद्मनाल] पद्मनाल । कमलदह । उ०—
भुज उपमा पँवनारि न पूजी खीन भई तिहि चित ।—जायसी
ग्र० (गुप्त), पृ० १६५ ।

पँवर^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पँवरी' ।

पँवर (७) †—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रभार] सामान । मामली । उ०—भसम गग लोचन अहि डमरू, पचतत्व सुचक अस भीरू । हर के वस पाँचउ यह पँवरू, जिनसे पिड उरेह ।—देवस्वामी (शब्द०) ।

पँवरना—क्रि० अ० [सं० प्लवन] १ तैरना । २ थाह लेना । पता लगाना । उ०—सूकर स्वान सियार सिंह सरप रहीं घट माहि । कुजर कीरी जीव सब पँवरहि जानहि नाहि ।—
कवीर (शब्द०) ।

पँवरि (७) —सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुर (= घर), या पुरस (= आगे)] प्रवेशद्वार या गृह । वह फाटक या घर जिससे होकर किमी मकान में जायें । ड्योडी । उ०—(क) पँवरि पँवरि गढ लाग केवारा । श्री राजा सो भई पुकारा ।—जायसी (शब्द०) (ख) उषरी पँवरि चला सुलताना ।—जायसी (शब्द०) । (ग) पँवरिहि पँवरि सिंह लिखि काढ़े ।—जायसी (शब्द०) ।

पँवरिया—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पँवरी, पौरि] १ द्वारपाल । दरवान । ड्योडीदार । २ पुत्र होने पर या किसी और मंगल अवसर पर द्वार पर बैठकर मंगलगीत गानेवाला याचक ।

पँवरी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पौरि] दे० 'पँवरि' ।

पँवरी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाँव] खडाऊँ । पादत्राण । पाँवरी । उ०—पायन पहिरि लेहु सब पँवरी । काट न चुमे गड़े अकरोरी ।—जायसी (शब्द०) ।

पँवाड़ा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रवाद] १ लंबी चौड़ी कथा जिसे सुनते जी ऊँचे । कल्पित आख्यान । कहानी । दास्तान । २ वडाई हुई बात । व्यर्थ विस्तार के साथ कही हुई बात । बात का बतवकड । ३ एक प्रकार का गीत जिसमें वक्ता की कीर्ति और शौर्य का वर्णन रहता है ।

पँवार सञ्ज्ञा पुं० [सं० परमार] राजपूतों की एक जाति । दे० 'जाति' ।

पँवारना—क्रि० स० [सं० प्रवारण (= रोकना)] हटाना । दूर करना । फेंकना । उ०—(क) सावज न होइ भाई सावज न होइ । बाकी मासु भखै सब कोइ । सावज एक सकल ससारा अवि-
गति वाकी वाता । पेट फारि जो देखिए रे भाई आहि करेज न अर्ता । ऐसी वाकी माम रे भाई पल पल मानु बिकाई । हाड गोड लै धूर पँवारे आगि धुवाँ नहि खाई ।—कवीर (शब्द०) । (ख) सुआ मूनाक कठोर पँवारी । वह कोमल तिल कुमुम सँवारी ।—जायसी (शब्द०) । दे० 'पवारना' ।

पँवार (७) —सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रवाल] प्रवाल । मूँगा । उ०—देखि दशा सुकुमारि की युवती सब घाई । तरु तमाल, वृक्षत फिरै कहि कहि मुरझाई । नँदनदन देखे कहूँ मुरली करधारी । कुडल मुकुट विराजै तनु कुडल भारी । लोचन चारु विलास है नासा अति लोनी । अरुन अघर दशनावली छबि बरवे

कौनी । बिब पँवारे लाजही दामिनि दुति थोरी । ऐसे हरि हमको कही कहुँ देखे हौं री ।—सूर (शब्द०) ।

पँवारा (पु) —सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रवाद] १ कीर्ति की गाथा । वीरता का आख्यान । उ०—वीर बडो विरदैंत बली, अजहुँ जग जागत जासु पँवारे । सो हनुमान हनी मुठिका, गिरि गो गिरिराज ज्यो गाऊ को मारो ।—तुलसी ग्र०, पृ० १९१ । दे० 'पँवाडा' ।

पँवारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] लोहारो का एक आजार जिससे लोहे में छेद किया जाता है ।

पँसरहटा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पँसारी+हट, हट] वह बाजार जहाँ पसारियो की दुकानें हो ।

पँसियाना—क्रि० सं० [हिं० पासा] पासे से मारना ।

पँसुरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पँसुली' ।

पँसुली—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पसली' ।

पँह—अव्य० [सं० पार्श्व] १ पास । समीप । नजदीक । २ से ।

पँ—वि० [सं०] १ पीनेवाला । जैसे,—द्विप, अनेकप, मद्यप । २ रक्षा या शासन करनेवाला । जैसे, क्षितिप, नृप ।

पँ—सञ्ज्ञा पुं० १ वायु । हवा । २ पत्ता । ३ अडा । ४ पीने की क्रिया । ५ सगीत में पंचम स्वर का सकेत [को०] ।

पइ (पु) —अव्य० [सं० प्रति, प्रा० पडि, पइ, हिं० पँ] पास । समीप । उ०—एक दिवस पूगल सहदर सउदागर आवत । तिया पइ घोडा अति धरा देच्या लाख लहत ।—ढोला०, दू० ८३ ।

पइआल (पु) —सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाताल] दे० 'पाताल' । उ०—सगल खड महि रहै अखड सुरग पइआल अरु ब्रह्मड ।—प्राण०, पृ० ६ ।

पइगः—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पग] दे० 'पैग', 'पग' ।

पइजः—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिज्ञा] दे० 'पैज' ।

पइठः—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रविष्टि] दे० 'पैठ' ।

पइठनाः—क्रि० अ० [सं० प्रविष्ट से धातुरूप] दे० 'पैठना' । उ०—भावकि पइठी भालि, सु दरि काइ न सलसलइ । बोलइ नही ज बाल धरा घघूणी जोइयउ ।—ढोला०, दू० ६०३ ।

पइता—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक छद जिसे पाइता भी कहते हैं । इसमें एक भरण, एक भरण और सगण होना है । जैसे,—ताके दोनो कुल गनिए, औ दोनो लोचन मनिये । जेते नारी गुण गनियो । सो है लागे श्रुति सुनियो ।

पइनाः—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पैना' ।

पइभर (पु) —सञ्ज्ञा पुं० [सं० पदाति + भट] दे० 'पैदल' । उ०—गज वाजि रथ्य पइभर गहर सजिय सेन सनमुख चलिय ।—पु० रा०, १।६।८ ।

पइयाँ—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] जगली चेरी । उ०—पइमों की प्रसन्न पखडियाँ उडती थी पिछवारे । महक रहे थे नीवू, कुसुमों में रजघघ सँवारे ।—श्रुतिमा, पृ० १५ ।

पइया—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] वह धान जिसके दाने नष्ट हो जाते हैं, पर छिलका जैसे का तैसा रहता है । खोलना धान । कीड़े से खाया

हुआ बेकार धान । उ०—पइया करम ध्यान सो फटको जोग जुक्ति करि सूये ।—भीखा श०, पृ० २० ।

पइरना (पु) —क्रि० सं० [हिं० पैरना] तैरना । पैरना । उ०—पइरि मोभँ अइलिहँ तरनि तरग । लाँघल साए सहस भुजग । विद्यापति, पृ० २५८ ।

पइलडा (पु) —वि० [हिं० परला] उस ओर का । दूसरी तरफ का । दे० 'परला' । उ०—कूँ मँडियाँ कलिअल कियउ, सरवर पइलइ तीर । निसि भरि सज्जण सल्लियाँ, नयणो वूहा नीर ।—ढोला०, दू० ५६ ।

पइला—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] अनाज मापने का एक वरतन जिसमें पाँच सेर अनाज आता है ।

पइसाँ—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रविश, प्रा० पइस] पैठ । प्रवेश । गति । रसाई । पहुँच ।

पइसना—क्रि० अ० [सं० प्रविश] दे० 'पैसना' । उ०—(क) हियडइ भीतर पइसि करि, ऊगउ सज्जण रूख । नित सूकइ नित पलहवइ, नित नित नवला दूख ।—ढोला०, दू० १८ । (ख) खेला पइसइ मँडली । आखर आखर आणजे जोडि । बी० रासो, पृ० ४ ।

पइसारा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पइसना] पैठ । प्रवेश । उ०—अति लघु रूप धरौं निसि नगर करउँ पइसार ।—तुलसी (शब्द०) ।

पइहरना (पु) —क्रि० सं० [हिं० पहनना] पहनना । पहिरना । धारण करना । उ०—(क) गलि पइहरउ मोतीय कौ हार ।—बी० रासो, पृ० ७२ । (ख) जान तणी साजति करउ, जीरह रगावली पइहरज्यो टोप ।—बी० रासो, पृ० ११

पई (पु) —सञ्ज्ञा पुं० [सं० पद, प्रा० पय, पइ] पैर । पाँव । उ०—अष्टजाम चित लौ रहतु है प्रमु जी के परलुँ पई ।—गुलाल०, पृ० ४२ ।

पईर—सञ्ज्ञा पुं० [देशी पइअ] पहिया । रथचक्र । उ०—बडकै ओधण बधिया, पैसे पई पताल । सोच करै नह सागडी घवल तणी दिस भाल ।—बाँकी० ग्र०, भा० १, पृ० ३८ ।

पउँअः (पु) —सञ्ज्ञा पुं० [सं० पउ, प्रा० पउम] दे० 'पउ' । उ०—पउँअ नाल अइयपन भल भैल । रात परीहन पतलव देल । विद्यापति, पृ० १६५ ।

पौ—पउअनाल = पउनाल । पँवनार ।

पउँरि, पउँरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] डधोढी । दे० 'पौरि' ।

पउडी (पु) —सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पँवरि] प्रवेशद्वार । डधोढी । उ०—ऊची पउडी लै गगनतरि चढीआ । अउहद वीचारु चमकी जोतीडीआ ।—प्राण०, पृ० २२३ ।

पउढना—क्रि० अ० [देशी पवड] शयन करना । पौढना । उ०—ढोलउ मारु पउढिया, रसमई चतुर सुजाण । च्यारे दिसि चउकी फिरइ सोहत भूप जुवाण ।—ढोला०, दू० ५६६ ।

पउती—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] ढक्कनदार टोकरी । सडूकची । उ०—नानी को सीको से पखी, विजनी, पान सुपारी रखने का

डिब्बा, धुयरी, पडती, विडहाडा, रिकावी, डलिया, चेंगेरी
फुलझाली बनाने का भारी शोक था।—नई०, पृ० ११२।

पञ्चारा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पञ्चानाल] दे० 'पौनार'।

पञ्चनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] छोटा पौना।

पञ्चरुसर (पुं०)†—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परुष] दे० 'परुष'। उ०—पियासनो
पञ्चरुस ककेतोजे बोलकए, जिह तोरि दुटि न पडली।—
विद्यापति, पृ० १००।

पञ्चला—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पौर, प्रा० पउर, हि० पोल (= दरवाजा)।
दरवाजा। डधौड़ी। प्रवेशद्वार। उ०—जोगी बईठो पउलइ
जाई, बमूत सरी सी पोल कराई।—वी० रासी, पृ० ७१।

पञ्चला—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पावँ + ला (प्रत्य०)] भद्दे प्रकार की खडाऊँ
जिसमें खूँटी के स्थान पर ऊँगलियाँ फँसाने के लिए रस्सी लगी
रहती है। पवाई।

पञ्चवा (पुं०)†—वि० [हिं० पाना] पानेवाला। प्राप्त करनेवाला। उ०—
पञ्चवा प्रेम पगर जो नावँ उनमुनि जाय गगन घर घावै।—
गुलाल०, पृ० ५८।

पञ्चवाँ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाद] दे० 'पौवा'।

पण्दा—सञ्ज्ञा पुं० [फा० प्यादा] दे० 'प्यादा'। उ०—सव्वस्म सराव
पराव कइ ततत कवावा दाम अविषेक करीवी कहजो का
पाछा पण्दा लेले भम।—कौलि०, पृ० ४०।

पण्द (पुं०)†—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पैर] दे० 'पैर'। उ०—पण्द पखाल
रोसे नहिं खाए। अघरा हाथ भेटल हर जाए।—विद्यापति,
पृ० ३१३।

पकठोसा—वि० [देश०] पक्का और ठोस। प्रौढ आयु का। उ०—
पंद्रह साल की कच्ची छोकरी पचास साल के पकठोस दूल्हा के
साथ किस तरह अपनी जिनगी काटेगी।—नई०, पृ० २६।

पकड़—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रकृष्ट, प्रा० पक्कड़] १ पकड़ने की क्रिया
या भाव। धरने का काम। ग्रहण। जैसे,—तुम उसकी पकड़
से नहीं छूट सकते।

प्यो—धर पकड़।

मुहा०—पकड़ में आना = (१) पकड़ा जाना। गृहीत होना।
मिलना। हाथ लगना। (२) दाँव पर चढ़ना। घात में
आना। वश में होना।

२ पकड़ने का ढग। ३ लड़ाई या कुश्ती आदि में एक एक बार
आकर परस्पर गुथना। मिडत। हाथापाई। जैसे,—
(क) हमारी तुम्हारी एक पकड़ हो जाय। (ख) वह कई
पकड़ लड़ चुका है। ४ दोष, भूल आदि ढूँढ निकालने
की क्रिया या भाव। जैसे,—उमकी पकड़ बड़ी जबरदस्त
है, उसने कई जगह भूलें दिखाईं। उ०—जहाँ शब्दों की
ही पकड़ है और बात बात में वितर्क होता है वहाँ निश्चित
रूप से किसी सिद्धांत का मक्षितीकरण सुलभ नहीं।—रस
क०, पृ० २४। ५ रोक। अवरोध। वधन। उ०—इतना न
चमकृत हो वाले ! अपने मनका उपकार करो। मैं एक पकड़
हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो।—कामायनी,

पृ० १००। ६ समझ। ७ किसी राग का परिचायक
स्वरग्राम।

पकड़ धकड़—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पकड़] दे० 'धर पकड़'।

पकड़ना—क्रि० सं० [सं० प्रकृष्ट, + प्रा० पक्कड़] १ किसी वस्तु
को इस प्रकार दबता से स्पर्श करना या हाथ में लेना कि वह
जल्दी छूट न सके अथवा इधर उधर जा या हिल डोल न
सके। धरना। थामना। गहना। ग्रहण करना। जैसे,—
(क) छड़ी पकड़ना। (ख) उसका हाथ पकड़े रहो, नौह
तो वह गिर पड़ेगा। (ग) किमी वस्तु को उठाने के लिये
चिमटी से पकड़ना।

सयो० क्रि०—देना।—लेना।

२ छिपे हुए या भागते हुए को पाना और अधिकार में करना।
काबू में करना। गिरफ्तार करना। जैसे,—चोर पकड़ना। ३
गति या व्यापार न करने देना। कुछ करने से रोक रखना।
स्थिर करना। ठहराना। जैसे,—बोलते हुए की जवान पकड़ना,
मारते हुए का हाथ पकड़ना।

सयो० क्रि०—लेना।

४ ढूँढ निकालना। पता लगाना। जैसे,—गलती पकड़ना, चोरी
पकड़ना। ५ कुछ करते हुए को कोई विशेष बात आने
पर रोकना। टोकना। जैसे,—जहाँ वह भूल करे वहाँ उसे
पकड़ना। ६ दौड़ने, चलने या और किसी वान में बढे हुए
के बराबर हो जाना। जैसे,—(क) दौड़ में पहले तो
दूसरा आगे बढा था पर पीछे इमने पकड़ लिया। (ख)
यदि तुम परिश्रम से पढोगे तो दो महीने में उसे पकड़ लोगे।
७ किसी फैलनेवाली वस्तु में लगकर उनका अपने में मचार
करना। जैसे,—फूम का आग को पकड़ना, कपड़े का रग
पकड़ना। ८ लगकर फैलना या मिलना। सचार करना। जैसे
आग का फूस को पकड़ना। ९ अपने स्वभाव या वृत्ति के
अतर्गत करना। धारण करना। जैसे,—चाल पकड़ना, ढग
पकड़ना। १० आक्रांत करना। ग्रसना। छोपना। धेरना।
जैसे,—रोग पकड़ना, गठिया पकड़ना।

पकड़वाना—क्रि० सं० [हिं० पकड़ना का प्रे०रूप] पकड़ने का
काम दूसरे में कराना। ग्रहण करना। जैसे,—चोर को सिपाही
से पकड़वाना।

सयो० क्रि०—देना।—मँगाना।

पकड़ाना—क्रि० सं० [हिं० पकड़ना का प्रे०रूप] १ किसी के
हाथ में देना या रखना। थमाना। जैसे,—यह किताब उन्हें
पकड़ा दो। २ पकड़ने का काम कराना। ग्रहण कराना।
जैसे,—चोर पकड़ाना।

सयो० क्रि०—देना।

पकना—क्रि० अ० [सं० पक्क, हिं० पक्का, पका + ना (प्रत्य०)]
१ पक्कावस्था को पहुँच जाना। कच्चा न रहना। अनाज,
फल आदि का पुष्ट होकर काटने या खाने के योग्य होना।
ऐसी अवस्था को पहुँचाना जिसमें स्वाद, पूर्णता आदि आ
जाती है। जैसे,—ग्राम पकना, खेत में अनाज पकना।

संयो० क्रि०—जाना ।

मुहा०—बाल पकना = (बुढ़ापे के कारण) बाल सफेद होना ।
२ आँच या गरमी खाकर गलना या तैयार होना । सिद्ध होना ।
सीझना । रिधना । चुरना । जैसे, दाल पकना, रोटी पकना,
रसोई पकना ।

मुहा०—(मिट्टी का) बरतन पकना = आँवे में तैयार होना ।
कलेजा पकना = जी जलना । सताप होना ।

३ फोड़े, फुसी, घाव, आदि का इम अवस्था में पहुँचना कि
उनमें मवाद आ जाय । पीव से भरना । ४ चीसर में गोटियों
का सब धरो को पार करके अपने घर में आ जाना । ५
कीमत ठहरना । सौदा पटना । मामला तै होना ।

पकमान (पु०)†—सज्ञा पुं० [सं० पक्वान्न] दे० 'पकवान' । उ०—
चीर कपूर पान हमें साजल, पाअस आओ पकमाने ।—
विद्यापति, पृ० ३२५ ।

पकरना (पु०)†—क्रि० सं० [हिं० पकड़ना] दे० 'पकड़ना' । उ०—
नट नायक नँदलाल को मन पकरि नचावै ।—घनानंद०,
पृ० ४५५ ।

पकराना (पु०)†—क्रि० सं० [हिं० पकड़ाना] दे० 'पकड़ाना' । उ०—
चीर लपेटि सु पिय पकराए ।—नद० ग्र०, पृ० १३ ।

पकरियाङ्ग—सज्ञा पुं०, स्त्री० [सं० पर्कटी, हिं० पाकर + इया (प्रत्य०)]
दे० 'पाकर' । उ०—उम्र नौ दस साल की, बस, तोलता
दिल कि चढकर पकरिए पर बोलता ।—कुंकुर०, पृ० ६४ ।

पकला—सज्ञा पुं० [हिं० पकना] फोडा ।

पकवान—सज्ञा पुं० [सं० पक्वान्न] घी में तलकर बनाई हुई खाने
की वस्तु । जैसे, पूरी, कचौरी आदि । उ०—दादू एक अलह
राम है, सअथ साईं सोइ । मैदे के पकवान सब, खातां होय
सो होइ ।—दादू०, पृ० ३५ ।

पकवाना—क्रि० सं० [हिं० पकाना का प्रेरणरूप] १ पकाने का
काम कराना । पकाने में प्रवृत्त करना । २ आँच पर तैयार
कराना । जैसे, रसोई पकवाना ।

पकसाना†—क्रि० अ० [हिं० पकना] किमी वस्तु (फल आदि)
का पकने की ओर अग्रसर होना ।

पकसालू—सज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का बराम ।

विशेष—यह पूर्व और उत्तर बगाल, आसाम, चटगाँव तथा
बरमा में होता है । पानी भरने के लिये इसके चोगे बनते
हैं । छाता बनाने के काम में भी यह आता है । इसकी पतली
फट्टियों से टोकरे भी बनते हैं ।

पकाई—सज्ञा स्त्री० [हिं० पकाना] १ पकाने की क्रिया या भाव ।
२ पकाने की मजदूरी ।

पकाना—क्रि० सं० [हिं० पकना] १ फल आदि को पुष्ट और
तैयार करना । जैसे, पाल में आम पकाना ।

सयो० क्रि०—डालना ।—देना ।—लेना ।

२ आँच या गरमी के द्वारा गलाना या तैयार करना ।
रीधना । सिझाना । जैसे, खाना पकाना, रोटी पकाना ।

मुहा०—(मिट्टी का) बरतन पकाना = आँवे में आँच के द्वारा
कड़ा और पुष्ट करना । कलेजा पकाना = जी जलाना ।
सताप पहुँचाना ।

३ फोड़े, फुसी, घाव आदि को इस अवस्था में पहुँचाना कि
उसमें पीव या मवाद आ जाय । ४ मात्रा पूरी करना ।
सौदा पूरा करना । लगाना । जैसे,—चार रुपए का गुड
पका दो (बनिये) ।

पकार—सज्ञा पुं० [सं० प+कार] 'प' अक्षर ।

पकाव—सज्ञा पुं० [हिं० पकना] १ पकने का भाव । २ पीव ।
मवाद ।

पकावन—सज्ञा पुं० [सं० पक्वान्न] दे० 'पकवान' । उ०—दूती
बहुत पकावन साधे । मोतिलाहूँ श्री खेरीरा बाँधे ।
—जायसी (शब्द०) ।

पकौड़ा—सज्ञा पुं० [हिं० पका+वरी, बड़ी] [स्त्री० अल्पा० पकौड़ी]
घी या तेल में पकाकर फुलाई हुई बेसन या पीठी की
बट्टी, बडी ।

पकौड़ी—सज्ञा स्त्री० [हिं० पकौड़ा] दे० 'पकौड़ा' ।

पक्वण—सज्ञा पुं० [सं०] १ चाडाल की भोपडी या घर । २
चाडालो की वस्ती [को०] ।

पक्वरस—सज्ञा पुं० [सं०] मदिरा ।

पक्वचारि—सज्ञा पुं० [सं०] काँजी ।

पक्का—वि० [सं० पक्व] [वि० स्त्री० पक्की] अनाज या फल जो
पुष्ट होकर खाने के योग्य हो गया हो । जो कच्चा न हो ।
पका हुआ । जैसे, पक्का आम । २ जिसमें पूर्णता आ गई
हो । जिसमें कसर न हो । पूरा । जैसे, पक्का चोर, पक्का
घूर्त । ३ जो अपनी पूरी बाढ या प्रौढता को पहुँच गया
हो । पुष्ट । जैसे, पक्की लकड़ी ।

मुहा०—पक्का पान = वह पान जो कुछ दिन रखने से सफेद और
खाने में स्वादिष्ट हो गया हो ।

४ जिसके सस्कार वा सशोधन की प्रक्रिया पूरी हो गई हो ।
साफ और दुरुस्त । तैयार । जैसे, पक्की चीनी, पक्का शोरा ।

५ जो आँच पर कड़ा या मजबूत हो गया हो । जैसे, मिट्टी
का पक्का बरतन । ६ जिसे अभ्यास हो । जो मँज गया हो ।
जो किसी काम को करते करते जमा या बैठा हो । पुस्ता ।

जैसे पक्का हाथ । ७ जिसका पूरा अभ्यास हो । जो अभ्यस्त
वा निपुण व्यक्ति के द्वारा बना हो । जैसे, पक्का खत, पक्के
अक्षर । ८ अनुभवप्राप्त । तजस्वेकार । निपुण । दक्ष ।
होशियार । जैसे,—हिसाब में अब वह पक्का हो गया । ९

आँच पर गलाया या तैयार किया हुआ । आँच पर पका हुआ ।

मुहा०—पक्का खाना या पक्की रसोई = घी में पका हुआ
भोजन । जैसे, पूरी कचौरी, मालपूआ आदि । पक्का पानी =
(१) शौंटाया पानी । (२) स्वास्थ्यकर जल । निरोग और
पुष्ट जल ।

१० दृढ । मजदूत । टिकाऊ । जैसे,— इस मंदिर का काम बहुत पक्का है, यह जल्दी गिर नहीं सकता ।

मुहा०—पक्का काम = असली चाँदी सोने के तार के बने बेल बूटे का काम । असली कारचोवी का काम । जैसे,— इस टोपी पर पक्का काम है । पक्का घर या मकान = सुखी चूने के मसाले और ईंटों से बना हुआ घर । पक्का रंग = न छूटने-वाला रंग । बना रहनेवाला रंग ।

११ स्थिर । दृढ़ । न टलनेवाला । मिश्रित । जैसे, पक्की बात, पक्का इरादा, विवाह पक्का करना । १२ प्रमाणों से पुष्ट । पामाणिक । जिसे भूल या कसर के कारण बदलना न पड़े या जो अन्यथा न हो सके । ठीक जँचा हुआ । नपा तुला । जैसे,— (क) वह बहुत पक्की सलाह देता है । (ख) पक्की दलील ।

मुहा०—पक्का कागज = वह कागज जिसपर लिखी हुई बात कामून से दृढ समझी जाती है । स्टाप का कागज । पक्की बही या खाता = वह बही जिसपर ठीक जँचा हुआ या तै किया हुआ हिसाब उतारा जाता है । पक्का चिट्ठा = ठीक ठीक जँचा चिट्ठा ।

१३ जिसका मान प्रामाणिक हो । टकसाली । जैसे, पक्का मन, पक्की तोल, पक्का वीधा ।

यौ०—पक्का गवैया = पक्का गाना गानेवाला । शास्त्रीय संगीत गानेवाला । पक्का गाना = शास्त्रीय संगीत । पक्का पानी = (शरीर आदि का) गेहूँ वरुण ।

पक्काइत—सज्ञा स्त्री० [हि० पक्का] दृढता । मजदूती । निश्चय । पोढ़ाई ।

पक्खर(७)¹—सज्ञा स्त्री० [हि० पाखर] दे० 'पाखर' ।

पक्खर²—वि० [सं० पक्ख, प्रा० पक्क] पक्का । पुस्ता । उ०—लक्ख मे पक्खर तिकखन तेज जे सूर समाज में गाज गने हैं ।— तुलसी (शब्द०) ।

पक्खा³—सज्ञा पुं० [हि० पाखा] दे० 'पाखा' । उ०—पानी पक्खा पीस जन अपना आयु गवाउ ।—प्राण०, पृ० २५६ ।

पक्खपौड—सज्ञा पुं० [सं०] पखौडा नाम का एक पेड़ ।

पक्खव्य—वि० [सं०] पकाने लायक । २ पचाने योग्य । [को०] ।

पक्का¹—वि० [सं० पक्क] पकानेवाला । पचा सकनेवाला [को०] ।

पक्का²—सज्ञा पुं० १ जठराग्नि । २ वह जो रसोई बनाता हो । रसोइया [को०] ।

पक्कि—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ रसोई तैयार करना । भोजन पकाना । भोजन पकाने की क्रिया । २ जठराग्नि जिमसे खाया हुआ अन्न पचता है । ३ फल आदि का पक्कावस्था प्राप्त करना । पकना । ४ गौरव । यश । ख्याति । ५ भोजन की धाली ।

यौ०—पक्किनाशन = पाचन क्रिया को खराब करनेवाला । पक्किशूल = पाचन की गडबडी से पेट में होनेवाला दर्द । पक्किस्थान = जहाँ भोजन पचता है । पाचनस्थान ।

पक्कित्रम—वि० [सं०] १ पक्क । पका हुआ । २ पकाया हुआ । ३ उवालने से प्राप्त । पकाने से प्राप्त । जैसे, नमक [को०] ।

पक्क¹—वि० [सं०] १ पका हुआ । २ पक्का । ३ परिपुष्ट । दृढ । ४ सँका हुआ । पकाया हुआ (को०) । ५ पूरी तरह से विकसित (को०) । ६ श्वेत । सफेद । जैसे, पक्क केश (को०) ।

पक्क²—सज्ञा पुं० पकाया हुआ भोजन या अन्न [को०] ।

पक्ककृत—सज्ञा पुं० [सं०] १ पकानेवाला । सूपकार । २ (फोड़े आदि को पकानेवाला) नीम ।

पक्कवता—सज्ञा स्त्री० [सं०] पक्क होने का भाव । पक्कापन ।

पक्कवरस—सज्ञा पुं० [सं०] मदिरा । मद्य [को०] ।

पक्कवारि—सज्ञा पुं० [सं०] काँजी । काँजिक [को०] ।

पक्कश—सज्ञा पुं० [सं०] एक अत्यन्त नीच जाति ।

पक्कवातीसार—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का अतीसार । ग्रामाती-सार का उलटा ।

विशेष—ग्रामातीसार में मल के साथ आँव गिरती है, पक्कवाती-सार में नहीं ।

पक्कवाधान—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पक्काशय' [को०] ।

पक्कवान—सज्ञा पुं० [सं० पक्कवान्] दे० 'पक्कवान्' ।

पक्कवानहटा—सज्ञा पुं० [सं० पक्कवान् + हट्ट] मिठाई बाजार । पक्कवान की दूकानें । उ०—मच्चूर पीरजन पदसम्हार सहीन्त धनहटा, सोनहटा, पनहटा, पक्कवानहटा, मच्चूरहटा करेओ सुख-रव कथा कहते ।—कीर्ति०, पृ० ३० ।

पक्कवान्—सज्ञा पुं० [सं०] १ पका हुआ अन्न । २ घी पानी आदि के साथ आग पर पकाकर बनाई हुई खाने की चीज । पक्कवान ।

पक्काशय—सज्ञा पुं० [सं०] पेट में वह स्थान जहाँ ग्रामाशय में ढीला होकर अन्न जाता है और यकृत और क्लोम ग्रथियों से आए हुए रस से मिलता है । यह वास्तव में अन्न का ही एक भाग है ।

विशेष—शूक के साथ मिलकर खाया हुआ भोजन अन्न की नली से होकर नीचे उतरता है और ग्रामाशय में जाता है जो मशक के आकार की थैली सा होता है । इस थैली में आकर भोजन इकट्ठा होता है और ग्रामाशय के अम्लरस से मिलकर तथा मास के आकुचन प्रसारण द्वारा मथा जाकर ढीला और पतला होता है । जब भोजन अम्लरस से मिलकर ढीला हो जाता है तब पक्काशय का द्वार खुल जाता है और ग्रामाशय बड़े वेग से उसे उस ओर ढकेलता है । पक्काशय यथार्थ में छोटी अर्त के ही प्रारम्भ का बारह अगुल तक का भाग है जिसके ततुओं में एक विशेष प्रकार की कोष्ठाकार ग्रथियाँ होती हैं । इसमें यकृत से आकर पित्त रस और क्लोम से आकर क्लोम रस भोजन के साथ मिलता है । क्लोम रस में तीन विशेष पाचक पदार्थ होते हैं जो ग्रामाशय से कुछ विश्लेषित होकर आए हुए (अघपचे) द्रव्य का और सूक्ष्म अणुओं में विश्लेषण करते हैं जिससे वह घुलकर श्लेष्ममयी कलाओं से होकर रक्त में पहुँचने के योग्य

हो जाता है। पित्त रस के साथ मिलने से क्लोम रस में तीव्रता आती है और बसा या चिकनाई पचती है।

पक्ष—सज्ञा पु० [स०] १ किसी स्थान वा पदार्थ के वे दोनो छोर या किनारे जो अगले और पिछले से भिन्न हों। किसी विशेष स्थिति में दहिने और बाएँ पढ़नेवाले भाग। और। पार्श्व। तरफ। जैसे, सेना के दोनो पक्ष।

विशेष—‘ओर’, ‘तरफ’ आदि में ‘पक्ष’ शब्द में यह विशेषता है कि यह वस्तु के ही दो अंगों को सूचित करता है, वस्तु से पृथक् दिक् मात्र को नहीं।

२ किसी विषय के दो या अधिक परस्पर भिन्न अंगों में से एक। किसी प्रसंग के संबन्ध में विचार करने की अलग अलग बातों में से कोई एक। पहलू। जैसे,—(क) सब पक्षों पर विचार कर काम करना चाहिए। (ख) उत्तम पक्ष तो यही है कि तुम खुद जाओ। ३ किसी विषय पर दो या अधिक परस्पर भिन्न मतों में से एक। वह बात जिसे कोई सिद्ध करना चाहता हो और जो किसी दूसरे की बात के विरुद्ध हो। जैसे,—(क) तुम्हारा पक्ष क्या है? (ख) तुम शास्त्रार्थ में एक पक्ष पर स्थिर नहीं रहते।

यौ०—उत्तम पक्ष। पूर्वपक्ष। पक्षखंडन। पक्षग्रहण। पक्षमदन। पक्षसमर्थन।

मुहा०—पक्ष गिरना = मत का युक्तियों द्वारा सिद्ध न हो सकना। शास्त्रार्थ या विवाद में हार होना। पक्ष निर्बल पढ़ना = मत का युक्तियों द्वारा पुष्ट न हो सकना। पक्ष प्रबल पढ़ना = मत का युक्तियों द्वारा पुष्ट होना। दलील मजबूत होना। पक्ष संभालना = किसी मत या बात का खंडन होने से बचाना। पक्ष में = मत या बात के प्रमाण में। कोई बात सिद्ध करने के लिये।

४ दो या अधिक बातों में से किसी एक के संबन्ध में (किसी की) ऐसी स्थिति जिससे उसके होने की इच्छा, प्रयत्न आदि सूचित हो। अनुकूल मत या प्रवृत्ति। जैसे,—तुम देने के पक्ष में हो कि न देने के?

मुहा०—किसी बात के पक्ष में होना = किसी बात का होना ठीक या अच्छा समझना।

५ ऐसी स्थिति जिसमें एक दूसरे के विरुद्ध प्रयत्न करनेवालों में से किसी एक की कार्यसिद्धि की इच्छा या प्रयत्न सूचित हो। झगडा या विवाद करनेवालों में से किसी के अनुकूल स्थिति। जैसे,—इस मामले में वह हमारे पक्ष में है।

मुहा०—(किसी का) पक्ष करना = दे० ‘पक्षपात करना’। पक्ष ग्रहण करना = पक्ष लेना। (किसी का) पक्ष लेना = (१) (झगडे में) किसी की ओर होना। किसी की सहायता में खडा होना। सहायक होना। (२) पक्षपात करना। तरफदारी करना।

६ निमित्त। लगाव। संबन्ध। जैसे,—ऐसा करना तुम्हारे पक्ष में अच्छा न होगा। ७ वह वस्तु जिसमें साध्य की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे, ‘पर्वत वह्निमान है’। यहाँ पर्वत पक्ष है जिसमें

साध्य वह्निमान की प्रतिज्ञा की गई है (न्याय)। ८ किसी की ओर से लडनेवालों का दल या समूह। फौज। सेना। दल। ९ सहायको या सवर्गों का दल। साथ रहनेवाला समूह। १०—अग पक्ष जाने बिना करिय न बैर विरोध। —(शब्द०)।

यौ०—केशपक्ष = बालों का समूह।

१० सहायक। सखा। साथी। ११ किसी विषय पर भिन्न भिन्न मत रखनेवालों के अलग अलग दल। विवाद या झगडा करनेवालों की अलग अलग मडलियाँ। वादियों प्रतिवादियों के अलग अलग समूह। जैसे,—(क) दोनो पक्षों को सावधान कर दो कि झगडा न करें। (ख) तुम कभी इस पक्ष में मिलते हो कभी उस पक्ष में। १२ चिडियों का डैना। पक्ष। पर। १३ शरपक्ष। तीर में लगा हुआ हुआ पर। १४ एक महीने के दो भागों में से कोई एक। चांद्रमास के पंद्रह पंद्रह दिनों के दो विभाग। पंद्रह दिन का समय। पाख।

विशेष—पर्व दो होते हैं—कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक कृष्ण पक्ष कहलाता है क्योंकि उसमें चंद्रमा की कला प्रतिदिन घटती जाती है, जिसमें रात अंधेरी होती है। शुक्ल प्रतिपदा में लेकर पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष कहलाता है क्योंकि उसमें चंद्रमा की कला प्रतिदिन बढ़ती जाती है जिससे रात उजेली होती है। कृष्ण पक्ष में सूर्यास्त से और शुक्ल पक्ष में सूर्योदय से तिथि ली जाती है।

१५ गृह। घर। १६ बूट्टे का छेद। १७ हाथ में पहनने का कडा। २० महाकाल। शिव। २१ नीव। भित्ती। दीवार (को०)। २२ पडोस (को०)। २३ दीवार का ताख। पाख (को०)। २४ शुद्धता। पूर्णता (को०)। २५ स्थिति। दशा (को०)। २६ शरीर (को०)। २७ सूर्य (को०)। २८ दो की संख्या का सूचक शब्द (को०)।

पक्षक—सज्ञा पु० [स०] १ पार्श्व द्वार। २ खिड़की। चोर दरवाजा। ३ ओर। पक्ष। ३ सहायक। तरफदार। ४ पखा (को०)।

पक्षका—सज्ञा स्त्री० [स०] बगल की दीवार (को०)।

पक्षगम—वि० [स०] पखों से उडनेवाला (को०)।

पक्षग्रहण—सज्ञा पु० [स०] दो में से कोई एक पक्ष या दल चुनना। किसी पक्ष का समर्थन करना (को०)।

पक्षघात—सज्ञा पु० [स०] दे० ‘पक्षाघात’।

पक्षचर—सज्ञा पु० [पु०] १ भुंड से बहका हुआ हाथी। २ चंद्रमा। ३ सेवक। भृत्य (को०)।

पक्षच्छिद्र—सज्ञा पु० [स०] (पर्वतों के पंख काटनेवाला) इद्र का एक नाम (को०)।

पक्षज—सज्ञा पु० [स०] चंद्रमा।

पक्षजन्मा—सज्ञा पु० [स० पक्षजन्मन्] दे० ‘पक्षज’ (को०)।

पक्षति—सज्ञा स्त्री० [स०] १ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। २ पख की जड। पखना। डैना (को०)।

पक्षद्वय—सज्ञा पु० [स०] विवाद के दोनो दल या पक्ष। २ दो पाख। सहीना (को०)।

पक्षद्वार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] खिडकी। चौर दरवाजा।
पक्षधर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पक्ष का आदमी। तरफदार। २ पक्षी।
 चिडिया। ३ चंद्रमा (को०)। ४ समूह से भटका हुआ
 हाथी (को०)।
पक्षधर्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पक्ष में हेतु के होने का अनुमान (को०)।
पक्षानाड़ी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पक्ष की खोखली डंडी जिससे कलम
 तैयार की जाती है (को०)।
पक्षनिक्षेप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ किसी पक्ष या विवाद में डालने की
 क्रिया। २ पक्ष गिराना (को०)।
पक्षपात—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विना उचित अनुचित के विचार के किसी
 के अनुकूल प्रवृत्ति या स्थिति। तरफदारी। २ रुचि। इच्छा
 (को०)। ३ अनुराग। आसक्ति (को०)। ४ (चिडियों के)
 पक्षों का गिरना (को०)।
पक्षपातित्ता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पक्षपाती होने की क्रिया या भाव।
 पक्षग्रहण। २ मित्रता। ३ पक्षों का संचालन (को०)।
पक्षपातित्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पक्षपातित्ता' (को०)।
पक्षपाती—वि० [सं० पक्षपातिन्] तरफदार। विना उचित अनुचित
 के विचार के किसी के अनुकूल प्रवृत्त होनेवाला।
पक्षपालि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पक्षद्वार। खिडकी (को०)।
पक्षपुट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पक्ष। पर। डेना (को०)।
पक्षपोषण—वि० [सं०] कोई एक पक्ष लेनेवाला। भ्रष्टा कराने-
 वाला (को०)।
पक्षप्रथोक्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नृत्य में हस्तमुद्रा का एक भेद (को०)।
पक्षविदु—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पक्षविन्दु] १ 'पक्षविदु' (को०)।
पक्षभाग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ काँस। पसली और कूहे के बीच का
 मांसवाला भाग। २ हाथी का पार्श्व (को०)।
पक्षभुक्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह दूरी जो सूर्य एक पक्षवारे में पूरी
 करता है (को०)।
पक्षभेद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] किसी विवाद का दो पक्षों में बँटवारा (को०)।
पक्षमूल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ डेना। पर। २ प्रतिपदा तिथि।
पक्षरचना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] किसी के पक्षसाधन के लिये रचा हुआ
 आयोजन। पद्यत्रय। चक्र।
पक्षरात्रि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार की क्रीडा। एक खेल (को०)।
पक्षरूप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] महादेव।
पक्षवचितक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पक्षवचितक] नृत्य में हाथ की एक विशेष
 मुद्रा (को०)।
पक्षवध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पक्षाघात' (को०)।
पक्षवर्धिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पक्षवर्धिनी] वह द्वादशी तिथि जो
 सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक रहे।
पक्षवाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एकपक्षीय वयान। एकतरफा वयान (को०)।
पक्षवान्—वि० [सं० पक्षवत्] [वि० स्त्री० पक्षवती] १ पक्षवाला।
 परवाला। २ उच्च कुल में उत्पन्न।

पक्षवान्^२—सञ्ज्ञा पुं० पर्वत।

विशेष—पुराणों में कथा है कि पहले पर्वतों को पक्ष होते थे और
 वे उड़ते थे। पीछे इन्द्र ने उनके पर काट लिए। इसी में इन्द्र
 का एक नाम 'पक्षच्छिद' भी है।

पक्षवाहन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चिडिया। पक्षी।

पक्षविदु—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पक्षविन्दु] कका पक्षी।

पक्षव्यापी—वि० [सं०] किसी विवाद पर छा जानेवाला (को०)।

पक्षसुंदर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पक्षसुन्दर] लोघ्र।

पक्षहत—वि० [सं०] जिसका एक पार्श्व लकवे के आघात से बेकाम
 हो गया हो (को०)।

पक्षहर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पक्षी। २ दगावाज। विश्वामघाती (को०)।

पक्षहोम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक पक्षवारे तक चलनेवाला यज्ञ (को०)।

पक्षांत—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पक्षान्त] १ अभावस्था। २ पूर्णिमा। ३
 सैन्यदल का अंतिम छोर (को०)।

पक्षांतर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पक्षान्तर] दो पक्षों में से कोई एक पक्ष।
 दूसरा पक्ष (को०)।

पक्षाघात—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अर्धांग रोग जिसमें शरीर के दाहिने या
 बाएँ किसी पार्श्व के सब अंग (जैसे, हाथ पैर, कंधा, इत्यादि)
 क्रियाहीन हो जाते हैं। आधे अंग का लकवा। फालिज।

विशेष—वैद्यक के अनुसार इस रोग में कुपित वायु शरीर के
 अर्धांग में भरकर और उसकी शिराओं और स्नायुओं का
 शोषण करके सधिवधनो और मस्तिष्क को शिथिल कर देती
 है जिससे उस पार्श्व के सब अंग निष्क्रिय और निश्चेष्ट हो जाते
 हैं। डाक्टरों के अनुसार पक्षाघात दो प्रकार का होता है,
 एक तो वह जिसमें अंगों की गति मारी जाती है, दूसरा वह
 जिसमें सवेदना नष्ट हो जाती है और अंग सुन्न हो जाते हैं।

पक्षाभास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सिद्धांताभास।

पक्षातिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कुमार की अनुचरी मातृका।

पक्षालु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पक्षी।

पक्षावसर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूर्णिमा।

पक्षाहार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जो पक्षवारे में एक बार भोजन
 करे (को०)।

पक्षि—वि० [सं० पक्षिन्] पक्षवाला। उड़ेवाला (को०)।

पक्षिकोट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] छोटी चिडिया (को०)।

पक्षिणी^१—वि० [सं०] पक्षवाली।

पक्षिणी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० १ चिडिया। मादा चिडिया। २ पूर्णिमा।
 ३ दो दिन और एक रात का समय (स्मृति)। ४ बाल-
 धातिनी पूतना (को०)।

पक्षितीर्थ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दक्षिण का एक तीर्थ।

विशेष—प्राचीन काल में यह तीर्थ हिंदुओं और बौद्धों के बीच
 प्रसिद्ध था। यह मदरास से १६-१७ कोस दक्षिण पड़ता है।
 आजकल इसका नाथ 'तिरुक्कडुकुनरम्' है।

पक्षिपति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सपाति का नाम (को०)।

पक्षिपानीयशास्त्रिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] पक्षियों के पानी पिलाने के लिये निर्मित पात्र या हीज [को०] ।

पक्षिपाल—वि० [म० पक्षिपालक] चिडिया पालनेवाला । उ०—पक्षिपाल ना पायहै अडा । सो ली धर्म रचै नव खडा ।—कवीर सा०, पृ० ७ ।

पक्षिपु गव—सज्ञा पुं० [सं० पक्षिपुङ्गव] १ जटायु । २ गरुड [को०] ।

पक्षिमार्ग—सज्ञा स्त्री० [सं०] वायु [को०] ।

पक्षिराज—सज्ञा पुं० [म०] १ पक्षियों का राजा, गरुड । २ जटायु । ३ एक प्रकार का घान ।

पक्षिल—सज्ञा पुं० [सं०] १ दे० 'पक्षिलस्वामी' । २ मददगार । सहायक । सहयोगी ।

पक्षिलस्वामी—सज्ञा पुं० [म०] एक प्राचीन आचार्य । हेमचन्द्र के मत से वात्स्यायन ही का नाम पक्षिल स्वामी है ।

पक्षिशार्दूल—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का नृत्य [को०] ।

पक्षिशाला—सज्ञा पुं० [म०] १ घोसला । २ पिंजरा । पिंजर । ३ चिडियाघर [को०] ।

पक्षीन्द्र—सज्ञा पुं० [सं० पक्षीन्द्र] गरुड [को०] ।

पक्षी—सज्ञा पुं० [सं० पक्षिन्] १ चिडिया । २ तरफदार । ३ बाण [को०] । ४ शिव [को०] ।

पक्षी^२—वि० १ पक्षवाला । पखवाला । २ पक्ष विशेष का समर्थक । तरफदार [को०] ।

पक्षीपति—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पक्षिपति' ।

पक्षीश्वर—सज्ञा पुं० [सं०] गरुड [को०] ।

पक्षीय—वि० [सं०] (समस्त के अत मे) किसी पक्ष, समूह आदि से संबन्ध रखनेवाला । जैसे, कुरूपक्षीय ।

पक्षेष्टि^१—वि० [म०] एक पक्ष मे होनेवाला । पाक्षिक ।

पक्षेष्टि^२—सज्ञा पुं० [म०] पाक्षिक याग । वह यज्ञ जो प्रति पक्ष किया जाय ।

पक्षम—सज्ञा पुं० [म० पक्षमन्] १ अश्व की विरनी । वरीनी । २ महीन धागा । धागे का कोना [को०] । ३ पख [को०] । ४ फूल की पखुडी [को०] । ५ पशुओं के मुख का बाल । मूँछ । जैसे, सिंह, बिल्ली आदि के [को०] । ६ पशुओं के शरीर का बाल [को०] ।

पक्षमकोप—सज्ञा पुं० [सं०] अश्व की विरनी या पलकों का एक रोग ।

पक्षमल—वि० [सं०] १ लवी और सुंदर वरीनियोंवाला । २ रोमश । बालीवाला । ३ मुलायम । चिकना [को०] ।

पक्ष्य^१—वि० [सं०] १ पखवारे मे होने या घटनेवाला । २ प्रत्येक पख मे बदलनेवाला । ३ पक्षपात करनेवाला [को०] ।

पक्ष्य^२—सज्ञा पुं० तरफदार । पक्ष लेनेवाला [को०] ।

पखंड—सज्ञा पुं० [सं० पखण्ड] दे० 'पखण्ड' । उ०—आसन वासन मानुस अडा । भए चौखड जो ऐस पखंडा ।—जायसी (शब्द०) ।

पखंडी^१—वि० [सं० पखण्ड + ई (प्रत्य०)] दे० 'पखंडी' ।

पखंडी^२—सज्ञा पुं० [हिं० पखंडी] वह जो कठपुतलियां नचाता हो । कठपुतली का नाच दिखानेवाला व्यक्ति । उ०—कतहुँ चिरहँटा पखी लावा । कतहुँ पखंडी काठ नचावा ।—जायसी (शब्द०) ।

पख—सज्ञा स्त्री० [सं० पख, प्रा० पख] १ वह बात जो किसी वान के साथ जोड़ दी जाय और जिसके कारण व्यर्थ कुछ और श्रम या कष्ट उठाना पड़े । ऊपर से व्यर्थ बढ़ाई हुई बात । तुरा । जैसे,—मैं आऊँगा अवश्य पर साथ मे लाने की पख न लगाइए ।

क्रि० प्र०—लगना ।—लगाना ।

२ ऊपर से बढ़ाई शर्त । बाधक नियम । अडगा । जैसे,—इस्तहान की पख न होती तो ये उस जगह पर हो जाते । ३ झगडा । बखेडा । झूठ । हैरान करनेवाली बात । जैसे,—तुमने मेरे पीछे अच्छी पख लगा दी है यह रूपयो के लिये बराबर मुझे धेरा करता है ।

क्रि० प्र०—करना ।—फैलाना ।—मचाना ।

४ दोष । त्रुटि । नुकस । जैसे,—वे इस हिसाब में यह पख निकालेंगे कि इसमें अलग अलग व्योरा नही है ।

पखंडी—सज्ञा स्त्री० [म० पक्ष्म] फूलो का रगीन पटल जो खिलने के पहले आवरण के रूप में गर्भ या परागकेसर को चारो ओर से बंद किए रहता है और खिलने पर फैला रहता है । पुष्पदल । जैसे, गुलाब की पखंडी, कमल की पखंडी ।

पखतूद—सज्ञा पुं० [देश०] डिगल में एक प्रकार का काव्यदोष ।—रघु० रू०, पृ० १४ ।

पखनारी—सज्ञा स्त्री० [म० पख + नाल] चिडियों के पखों की ढठी जिसे ढरकी के छेद मे तिली रोकने के लिये लगाते है (जुलाहे) ।

पखपान—सज्ञा पुं० [हिं० पग + पान] पैर में पहनने का एक गहना जिसे पाँवपोश भी कहते हैं ।

पखरना—क्रि० सं० [हिं० पखारना] प्रक्षालन करना । धोना । पखारना ।

पखरवाना—क्रि० सं० [हिं० पखारना] दे० 'पखराना' ।

पखराना—क्रि० सं० [हिं० पखारना का प्रेर०रूप] धुलवाना । पखारने का काम कराना ।

पखरी—सज्ञा स्त्री० [हिं०] १ दे० 'पखर' । २ दे० 'पखंडी' ।

पखरैत—सज्ञा पुं० [हिं० पखर + ऐत (प्रत्य०)] वह घोडा या बैल या हाथी जिसपर लोहे की पखर पडी हो ।

पखरौटा—सज्ञा पुं० [हिं० पखंडी + औटा (प्रत्य०)] सोने या चाँदी के बर्क से लपेटा हुआ पान का बीडा ।

पखवाड़ा—सज्ञा पुं० [सं० पख + वार] दे० 'पखवारा' ।

पखवारा—सज्ञा पुं० [सं० पख + वार] १ चांद्रमास का पूर्वार्ध या उत्तरार्ध । महीने के पंद्रह पंद्रह दिन के दो विभागों मे से कोई एक । २ पंद्रह दिन का काल । उ०—परखेसु मोहिँ एक पखवारा । नहिँ आवीँ तो जानेसु मारा ।—मानस ४१६ ।

पखा (पु) —सज्ञा पुं० [सं० पक्ष] १ दाढ़ी । श्मश्रु । २ पक्ष । उ०—
मोर पखा सिर ऊपर राखिहो गुज की माल गरे पहिरोगी ।
—रसखान०, पृ० १३ ।

पखावज —सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पखावज' ।

पखाटा —सज्ञा पुं० [क्ण०] घनूप का कोना ।

पखान (पु) —सज्ञा पुं० [सं० पापाण] दे० 'पापाण' । उ०—नहीं चद्र
मनि जो द्रवै यह तेलिया पखान । —दीनदयाल (शब्द०) ।

पखाना (पु) —सज्ञा पुं० [सं० उपाख्यान] कहावत । कहवृत्त । कथा ।
मसल ! उ०—वालापन ते निकट रहत ही सुन्यो न एक
पखानो ।—सूर (शब्द०) ।

पखाना (२) —सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पखाना' ।

पखापखी (पु) —सज्ञा स्त्री० [सं० पक्षापक्षि ?] निरतर किमी न किसी
एक पक्ष के स्वीकरण की स्थिति या क्रिया । उ०—दादू पखा-
पखी ससार सब निरपख विरला कोई । —दादू० पृ० ३१६ ।

पखारना —क्रि० सं० [सं० प्रचालन, प्रा० पक्खाडन] पानी से
मैल आदि साफ करना । धोना । जैसे, पैर पखारना । उ०—
(क) पाँव पखारि निकट वैठारे समाचार सब वूके ।—सूर
(शब्द०) । (ख) जो प्रभु पार भवसि गा चहहू । तो पद पदुम
पखारन कहहू । —तुलसी (शब्द०) ।

पखाल —सज्ञा स्त्री० [सं० पय (= पानी) + हि० खाल] १ बेल के
चमड़े की बनी हुई बड़ी मशक जिसमें पानी भरा जाता है ।
उ०—भीतर मैला बाहेरी चोखा, पाणी प्यड पखाले धोना ।
—दक्खिनी०, पृ० ३४ । २ घोंकनी ।

पखालना (पु) —क्रि० सं० [सं० प्रचालन] दे० 'पखारना' । उ०—
पपर पखाल रोसे नहि खाए, अघरा हाथ भेटल हर जाए ।
विद्यापति, पृ० ३१३ ।

पखाल पेटिया —सज्ञा पुं० [हि० पखाल + पेट] १ वह जिसका
पेट पखाल की तरह बड़ा हो । बड़े पेटवाला । २ बहुत खाने-
वाला आदमी । पेटू ।

पखाली —सज्ञा पुं० [हि० पखाल] पखाल या मशक में पानी भरने-
वाला । भिश्ती ।

पखवज —सज्ञा स्त्री० [सं० पक्ष + वाद्य] एक वाजा जो मृदग से
कुछ छोटा होता है ।

पखावजी —सज्ञा स्त्री० [सं० पखावज + ई (प्रत्य०)] पखावज
वजानेवाला ।

पखिया —सज्ञा पुं० [हि० पख + हया (प्रत्य०)] भगढालू ।
बखेडा मचानेवाला ।

पखी (पु) —सज्ञा पुं० [सं० पक्षिन्] दे० 'पक्षी' ।

पखीरी (पु) —सज्ञा पुं० [देश०] दे० 'पक्षी' ।

पखुडी —सज्ञा स्त्री० [हि० पख = पख] दे० 'पखडी' ।

पखुरा —सज्ञा पुं० [सं० पक्षमूल] दे० 'पखुवा' ।

पखुरी —सज्ञा स्त्री० [हि० पख] दे० 'पखडी' । उ०—मनहुँ खिलायो
कमल कछु प्रात अरुण ने आय । नैक पखुरिन बीच में अतर
परत लखाय ।—शकुंतला, पृ० १३६ ।

पखुवा —सज्ञा पुं० [सं० पक्ष, हि० पक्ख] बाँह का वह भाग जो
किन्नारे या बगल में पडता है । पगुरा । भुजमूल का पार्श्व ।
पार्श्व । बगल ।

मुहा०—पखुवे मे लगकर बैठना = बगल में सटकर बैठना ।

पखेरुवा (पु) —सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पखेरु' ।

पखेरु —सज्ञा पुं० [सं० पक्षालु, प्रा० पक्खाडु] पक्षी । चिडिया ।
उ०—मधुवन तुम कन रहत हरे । विरह वियोग श्याम मुदर
के ठाडे कयो न जरे ? ससा स्यार श्री वन के पखेरु
धिक धिक सवन वरे ।—सूर (शब्द०) ।

पखेव —सज्ञा पुं० [श्य०] वह खाना जो भैरव या गाय को, वच्चा
जनने पर, दूह दिनों तक दिया जाता है । इसमें मोठ, मूड,
हलदी, मँगरेला और उर्द का आटा होता है ।

पखौडा —सज्ञा पुं० [सं०] पत्तपोड वृक्ष । एक पेट का नाम ।

पखौआ —सज्ञा पुं० [सं० पक्ष] पक्ष । पर । उ०—चारे रँग के
काग पखौआ, पटियन जात उनारे । ककरिजिया खो ओठ
ईसुरी खकल कलेजे डारे ।—गुजल० अभि० प्र०, पृ० १५७ ।

पखौटा —सज्ञा पुं० [हि० पख] १ डैना । पर । २ मछली का पर ।

पखौड़ा —सज्ञा पुं० [हि० पखौरा] दे० 'पखौरा' ।

पखौरा —सज्ञा पुं० [पक्ष+हि० औरा (प्रत्य०)] कधे और भुजदड
की सधि । कधे पर की हड्डी ।

पक्खर (पु) —सज्ञा स्त्री० [हि० पाखर] दे० 'पाखर' । उ०—सजे
द्वर अवर साज वाज । बनी पक्खर वाजि साज समाज ।
—ह० रासो, पृ० ३४ ।

पग —सज्ञा पुं० [सं० पदक, प्रा० पथक, पक] १ पैर और पाँव ।
२ चलने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैर रखने की
क्रिया की समाप्ति । डग । फाल । ३ चलने में जिस स्थान से
पैर उठाया जाय और जिस स्थान पर रखा जाय दोनों के
बीच की दूरी । डग । फाल ।

मुहा०—पग परना = पैरो पर सिर रखकर प्रणाम करना ।
पाँव लगना या छूना । उ०—अस कहि पग परि पेम अति
सिय हित विनय सुनाइ ।—मानस, २।२८४ । पग फूँककर
धरना = सावधान होकर और नोच नमस्कार कदम
रखना । उ०—घनमानो को प्रति पग फूँककर धरना पडता
है ।—प्रेमघन०, भा० २, पृ० २७६ । पग रोपना = कोई
प्रतिज्ञा करके किसी जगह दृढतापूर्वक पैर जमाना ।

पगचंपी —सज्ञा स्त्री० [हि० पग + चॉपना] पैर दवाने की क्रिया ।
पैर दवाना । उ०—नारायण देवा मही, ज्यूँ नारायण चद ।
कमला पगचपी करै वक सक तज वद ।—वाँकी० प्र०,
भा० २, पृ० ४० ।

पगडडो —सज्ञा स्त्री० [हि० पग + डडो] जंगल या मैदान में वह
पतला रास्ता जो लोगों के चलते चलते बन गया हो ।

पगड़ा (पु) —सज्ञा पुं० [फा० पगाह] प्रभात । दे० 'पगरा' । उ०—
सघली रैन आनदघन वरस्या पगड़े म्हाँ पर छाया ।
—घनानंद, पृ० ३८६ ।

पगड़ी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पटक, हिं० पाग + डी (प्रत्य०)] वह लबा कपडा जो सिर लपेटकर बाँधा जाता है। पाग। चीरा। साफा। उष्णीष।

क्रि० प्र०—बाँधना।—बाँधना।

मुहा०—(किसी से) पगड़ी अटकना = बराबरी होना। मुकाबला होना। पगड़ी उछलना = दुर्गति होना। बुरी नीवन आना। पगड़ी उछलना = (१) वेइज्जती करना। दुर्दशा करना। (३) उपहास करना। हँसी उड़ाना। पगड़ी उतरना = मान या प्रतिष्ठा भग होना। वेइज्जती होना। पगड़ी उतारना = (१) मान या प्रतिष्ठा भग करना। वेइज्जती करना। (२) वस्त्रमोचन करना। ठगना। लूटना। धन संपत्ति हरण करना। (किसी को) पगड़ी बाँधना = (१) उत्तराधिकार मिलना। बराबत मिलना। (२) उच्च पद या स्थान प्राप्त होना। सरदारी मिलना। अधिकार प्राप्त होना। (३) प्रतिष्ठा मिलना। सम्मान प्राप्त होना। (किसी को) पगड़ी बाँधना = (१) उत्तराधिकार देना। गद्दी देना। (२) उच्च पद या अधिकार देना। सरदार बनाना। (किसी के साथ) पगड़ी बदलना = भाई चारे का नाता जोड़ना। मैत्री करना। (किसी की) पगड़ी रखना = मानरक्षा करना। इज्जत बचाना। (किसी के आगे) पगड़ी रखना = बहुत नम्रता करना। गिडगिडाना। हा हा खाना।

पगतरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पाग + तल] सूता।

पगदासी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पाग + दासी] १ जूता। २ खडाऊँ उ०—देखि द्वार भीर, पगदासी कटि बाँधी धीर, कर सो उखीर करि, चाहै पद गाइयै।—भक्तमाल (प्रिया०), पृ० ४८६।

पगना—क्रि० सं० [सं० पाक] १ शरवत या शीरे में इस प्रकार पकना कि शीरा चारो ओर लिपट और घुस जाय। रस के साथ परिपक्व होकर मिलना। जैसे, पेठे का चीनी में पगना २ किसी लसलसे पदार्थ के साथ इस प्रकार मिलना कि वह उसमें भर जाय। सनना। रस आदि के साथ श्रोतप्रोत होना। ३ बहुत अधिक अनुरक्त होना। किसी के प्रेम में डूबना। मग्न होना। उ०—कहै पद्माकर पगी यो पतिप्रेम ही मे, पदमिनी तोसी, तिया तोही पेखियत है।—पद्माकर (शब्द०)।

संयो० क्रि०—जाना।

पगनियाँ—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पाग + नियाँ (प्रत्य०)] जूती। उ०—तानिया न तिलक मुथनियाँ पगनियाँ न धामे धुमराती छोडि सेजिया सुखन की।—भूषण (शब्द०)।

पगपान—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पाग + पान] पैर में पहनने का एक भूषण जिसे पलानी या गोडसकर भी कहते हैं। उ०—पगपान चाँदी को चरन पहिनन लागी सोभा देखि रभा रति गर्वहू गरत सो।—भारतेंदु ग्र०, भा० २, पृ० ८२४।

पगारखी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पाग + रखी] खडाऊँ। पादत्राण। पगतरी। उ०—इनको अच्छी प्रकार से अग माँज माँज के

स्नान कराकर, पगारखी तथा कमली आदि नई मँगवा दी।—भक्तमाल (प्रिया०), पृ० ५६२।

पगरना—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] सोने चाँदी के नक्काशो का एक औजार जो नक्काशी करते समय छोटा गड्ढा बनाने के काम में आता है।

पगरा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पाग + रा (प्रत्य०)] पग। डग। कदम। उ०—सूर सनेह ग्वारि मन अटको छाँडिहु दिए परत नहि पगरो। परम मगन हूँ रही चितै मुख सबही ते भाग याहि को अगरो।—सूर (शब्द०)।

पगरा—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पगाह (= सवेरा)] यात्रा आरंभ करने का समय। प्रभात। चलने का समय। सवेरा। तडका। उ०—(क) पौ फाटी पगरा हुआ जागे जीवा जून। सब काहू को देत हैं चोच समाना धून।—कवीर (शब्द०)। (ख) कविरा पगरा दूर है, बीच परी है राति। ना जाने क्या होयगा ऊगंता परभात।—कवीर (शब्द०)।

पगरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पाग] दे० 'पगड़ी'। उ०—प्यार पगी पगरी पिय की घर भीतर आपने सीस सँवारी।—मति० ग्र०, पृ० ३४५।

पगला—क्रि० पुं० [हिं०] [वि० स्त्री० पगली] दे० 'पागल'।

पगवाहाँ—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पाग + सं० वाहन] पैदल सेना। उ०—वागाँ ली विचित्राँ पगवाहाँ।—रा० रू०, पृ० ३३४।

पगहाँ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रग्रह, प्रा० पग्गाह] [स्त्री० पगही] वह रस्सी जिससे पशु बाँधा जाता है। गिरावँ। पघा।

पगा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पाग] १ पटका। दुपट्टा। उ०—भगा भगा अरु पाग पिछोरी ढाढिन को पहिराए।—सूर (शब्द०)। २ पाग। पगड़ी। पाग। उ०—सीस पगा न भगा तन मे प्रभु जाने को आहि वसे किहि ग्रामा।—कविता कौ०, भा० १, पृ० १४६।

पगा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रग्रह] दे० 'पघा'। उ०—तृण दशनन लै मिलु दसकधर कठहि मेलि पगा।—सूर (शब्द०)।

पगा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पगरा] दे० 'पगरा'।

पगाना—क्रि० सं० [सं० पाक या पाक] १ पागने का काम कराना। २ अनुरक्त करना। मग्न करना। उ०—का कियो योग अजामिल जू गनिका कबही मति प्रेम पगाई।—तुलसी (शब्द०)।

पगार—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राकार] गड, प्रासाद या बाग वगीचे के रक्षार्थ बनी हुई चहारदीवारी। रखवाली के लिये बनी हुई दीवार। ओट की दीवार। उ०—(क) वीथिका बजार प्रति अटनि अगार प्रति पँवरि पगार प्रति वानर विलोकिए।—तुलसी (शब्द०)। (ख) नाँघती पगारन नगारन की धमकै।—भूषण (शब्द०)।

पगार—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पाग + गारना] १ पैरो से कुचली हुई मिट्टी, कीचड़ वा गारा। २ ऐसी वस्तु जिसे पैरो से कुचल सकें। ३ वह पानी वा नदी जिसे पैदल चलकर पार कर सकें। पायाव। उ०—गिरि ते ऊँचे रसिक मन दूढे जहाँ हजार। वहै सदा पसु नरन को प्रेम पयोधि पगार।—(शब्द०)।

पगार—सञ्ज्ञा पुं० वेतन। तनख्वाह।

पगारां^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पग] मार्ग । रास्ता । उ०—छहक पगारा नोर छित्त, घुरे नगारा घोर ।—रघु० ६०, पृ० ६४ ।

पगारना—क्रि० सं० [हिं० पगार+ना ?] फैलाना ।

पगाह—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] यात्रा आरम्भ करने का समय । भोर । तडका । दे० 'पगारा' ।

पगिआ^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पाग+इया (प्रत्य०)] दे० 'पगडी' । उ०—जटा फटके लटके पगिआ घट ना परचो रस रहत जो भीने ।—स० दरिया, पृ० ६३ ।

पगिआना^१—क्रि० सं० [हिं० पगाना] दे० 'पगाना' ।

पगिया^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पाग+इया (प्रत्य०)] दे० 'पगडी' । उ०—कुटिल अलक समात नहि पगिया, अलस सो भलमले । नद० अ०, पृ० ३५३ ।

पगियाना—क्रि० सं० [हिं० पगाना] दे० 'पगाना' ।

पगु^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पग] दे० 'पग' । उ०—राम सकल कुल रावनु मारा । सीय सहित निज पुर पगु धारा ।—मानस, १।२५ ।

पगुराना^१—क्रि० अ० [हिं० पागुर] १ पागुर करना । जुगाली करना । २ हजम कर जाना । डकार जाना । ले लेना ।

पगेरना—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] कसेरो की एक प्रकार की छेनी जो बरतनों पर नकाशी करने के काम में आती है ।

पगारा^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पागना या पकाना] पीतल या लौहा गलाने की धरिया । पागा ।

पगध^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पाग] पाग । पगडी । उ०—गज गही दौरि सिर पगध सुड ।—पृ० रा०, ५।२५ ।

पघरना^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पिघलना] दे० 'पिघलना' । उ०—ज्यो पाले का पिड पघरना । समुक्ति देषि निश्चै करि मरना ।—सुदर अ०, भा० १, पृ० ३३४ ।

पघा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रग्रह, प्रा० पगह] वह रस्सा जो गायो, बैलो आदि चौपायो के गले में बांधा जाता है । ढोरो को बांधने की मोटी रस्सी । पगहा ।

पघाल—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का बहुत कड़ा लोहा ।

पघिलना^१—क्रि० अ० [हिं० पिघलना] दे० 'पिघलना' ।

पघिलाना—क्रि० सं० [हिं० पिघलना] दे० 'पिघलाना' ।

पघैया^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पग (= पैर, पैदल) +इया (प्रत्य०)] गार्वाँ आदि में घूम घूमकर माल बेचनेवाला व्यापारी ।

पच^१—वि० [सं० पञ्च] हिंदी पाँच का समासगत रूप । जैसे, पच-कल्याण, पचमेवा, पचरतन, पचतोरिया, पचगुना आदि ।

पच^२—वि० [सं०] पाकता । पाकक [को०] ।

पचक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] रसोइया [को०] ।

पचकना—क्रि० अ० [हिं०] दे० 'पिचकना' ।

पचकल्याण—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पच + कल्याण] दे० 'पंचकल्याण' ।

पचकल्याणी^१—वि० [हिं०] पाँच का कल्याण करनेवाला । धूर्त । चाइर्या । (व्यग्य) ।

पचखना^१—वि० [हिं० पाँच+खड] पाँच खडोवाला या पंचमजला (मकान आदि) ।

पचखना^२—क्रि० अ० [सं० पिच्च (= दवना)] दे० 'पिचकना' ।

पचखना^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चक] दे० 'पचक-४' ।

पचगुना—वि० [सं० पञ्चगुण] पाँच वार अधिक । पाँचगुना ।

पचग्रह—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चग्रह] मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि का समूह ।

पचड़ा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पच (= पाँच = पच = प्रपच) +ड़ा (प्रत्य०)] १ झूठ । वखोडा । पँवाडा । प्रपच । उ०—आज बाह्यांगी में ऐसी मारपीट हुई कि नहीं कह सकता । वह बड़ा पचड़ा है ।—भारतेंदु अ०, भा० १, पृ० ३५२ ।

क्रि० अ०—निकालना ।—फँलाना ।

२ एक प्रकार का गीत जिसे प्रायः श्रोत्रिया लोग देवी आदि के सामने गाते हैं । ३ लावनी या खयाल के ढग का एक प्रकार का गीत जिसमें पाँच पाँच चरणों के टुकड़े होते हैं । ऐसे गीतों में प्रायः कोई कथा या आख्यान हुआ करता है ।

पचत^१—वि० [सं०] १ पकाया हुआ । २ पका हुआ । परिपक्व ।

पचत^२—सञ्ज्ञा पुं० १ अग्नि । २ सूर्य । ३ इंद्र का नाम । ४ पकाया हुआ भोजन या खाद्य पदार्थ [को०] ।

पचताना^१—क्रि० अ० [हिं० पछताना] दे० 'पछताना' । उ०—खावते जुग सब चलि जावे खटा मिठा फिर पचतावे ।—दक्खिनी०, पृ० १०५ ।

पचतावा^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पछतावा] दे० 'पछतावा' । उ०—साजनि आगे कि बोलव आधो । आगे गुनि जे काज न करए पाछे हो पचताओ ।—विद्यापति, पृ० ८८ ।

पचतूरा—सञ्ज्ञा पुं० [देश० अथवा सं० पच तूर्य (= पचसवट)] एक प्रकार का वाजा ।

पचतोरिया—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्च+तार या सं० पट+तार] एक प्रकार का कपडा । उ०—(क) पीरे पचतोरिया लसित अतलस लाल, लाल रद चद मुखचद ज्यो शरद को ।—देव (शब्द०) । (ख) सेत जरतारी की उज्यारी कचुकी की कसि अनियारी डीठि प्यारी उठि पन्ही पचतोरिया ।—देव (शब्द०) ।

पचतोला^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पचतोरिया] एक प्रकार का कपडा । जरी का कपडा । उ०—हमन भावज रानी, अचसे बढी स्थानी वादल पो का पानी, पचतोला से छानी ।—दक्खिनी०, पृ० ३६२ ।

पचतोलिया—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पाँच+तोला+इया (प्रत्य०)] पाँच तोले का वाट ।

पचतोलिया^२—वि० [हिं०] पाँच तोले की अर्थात् हलकी । वजन में न मालूम पढ़नेवाली । उ०—ऐसे पचतोलिया पाग नरायनदास प्रतिवर्ष श्री गुरुसँई जी को पठावते ।—दो सो वावन०, भा० १, पृ० १३१ ।

पचतोलिया^३—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'तोलिया' ।

पचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पकाने की क्रिया या भाव । पाक । २ पकने की क्रिया या भाव । ३ पकाने का सामान । पकाने का

साधन, पात्र, ई धन आदि (को०) । ४ अग्नि । ५ वह जो पकाता हो । पकानेवाला ।

पचना—क्रि० अ० [म० पचन] १ खाई हुई वस्तु का जँठराग्नि की सहायता से रसादि मे परिणत होना । भुक्त पदार्थों का रसादि में परिणत होकर शरीर में लगने योग्य होना । हजम होना । जैसे,—(क) रात का भोजन अभी तक नहीं पचा । (ख) जरा सा चूरण खा लो, भोजन पच जायगा । २ क्षय होना । समाप्त या नष्ट होना । जैसे, वाई पचना, शेखी पचना, मोटाई पचना । ३ किसी चीज का मालिक के हाथ से निकलकर अनुचित रूप से किसी दूसरे के हाथ में इस प्रकार चला जाना कि फिर कोई उससे ले न सके । पराया माल इस प्रकार अपने हाथ मे आ जाना कि फिर वापस न हो सके । हजम हो जाना । जैसे,—उनके यहाँ अमानत में हजारों रुपए के जेवर रखे थे, सब पच गए । ४ अनुचित उपाय से प्राप्त किए हुए धन या पदार्थ का काम में आना । जैसे—उन्होंने लावारसी माल ले तो लिया पर पचा न सके, सब चोर चुरा ले गए । ५ बहुत अधिक परिश्रम के कारण शरीर, मस्तिष्क आदि का गलना, सूखना या क्षीण होना । ऐसा परिश्रम होना जिससे शरीर क्षीण हो । बहुत हैरान होना । दुख सहना । उ०—ऊँचे नीचे करम धरम अधरम करि पेट ही को पचत बेचत वेटा बेटकी ।—तुलसी (शब्द०) ।

संयो० क्रि०—जाना ।

मुहा०—पच मरना = किसी काम के लिये बहुत अधिक परिश्रम करना । जीतोड़ मिहनत करना । परेशान होना । हैरान होना । उ०—जगत भेख माया के कारण पच्च मरै दिन रात रे । अत बेर नागा हुय चालै ना कोई सग न साथ रे । राम० धर्म०, पृ० २१६ ।

६ एक पदार्थ वा दूसरे पदार्थ मे पूर्ण रूप से लीन होना । खपना । जैसे,—जरा से चावल मे सारा घी पच गया ।

पचनागार—सज्ञा पुं० [म०] पाकशाला । रसोईघर । वावरचीखाना ।

पचनाग्नि—पज्ञा पुं० [पुं०] जठराग्नि । पेट की आग जिससे खाया हुआ पदार्थ पचता है ।

पचनिका—सज्ञा स्त्री० [स्त्री०] कढाही ।

पचनी—सज्ञा स्त्री० [स्त्री०] बिहारी नीबू । जगली नीबू ।

पचनीय—सज्ञा पुं० [सं०] पचने योग्य । जो पच सकता हो ।

पचपच^१—सज्ञा स्त्री० [अनु०] १ पचपच शब्द होने की क्रिया या भाव । २ कीचड़ ।

पचपच^२—सज्ञा पुं० शिव का एक नाम [को०] ।

पचपचा—वि० [हिं० पचपच] वह अधपका भोजन जिसका पानी ठीक तरह से सूखा या जला न हो ।

पचपचाना—[हिं० पचपच] १ किसी पदार्थ का आवश्यकता से अधिक गीला होना । कीचड़ होना (क्व

पचपन^१—वि० [सं० पञ्चपञ्चाशत्, पा० पचपण्यास] पचास और पाँच । पाँच कम साठ ।

पचपन^२—सज्ञा पुं० पचास और पाँच की सख्या या अंक जो इस प्रकार लिखा जाता है—५५ ।

पचपनवाँ—वि० [हिं० पचपन + वाँ (प्रत्य०)] क्रम मे पचपन के स्थान पर पडनेवाला । जो गिनने मे चौवन के बाद पचपन की जगह पडे ।

पचपल्लव—सज्ञा पुं० [सं० पञ्च पल्लव] दे० 'पचपल्लव' ।

पचवीस—सज्ञा पुं० [हिं० पच्चोस] बीस और पाँच का जोड़ । २५ की सख्या । पचीस प्रवृत्तियाँ । उ०—रहै पचवीस का पहरा ।—घट०, पृ० ३०६ ।

पचमेल—वि० [वि० पाँच + मेल] जिसमें कई या सब प्रकार (के पदार्थ आदि) हो । जिसमे कई या सब मेल (की चीजें) हो । जैसे पचमेल मिठाई ।

पचरंग^१—सज्ञा पुं० [हिं० पाँच रंग] चौक पूरने की सामग्री । मेहदी का चूरा, अबीर, बुक्का, हल्दी और सुरवाली के बीज ।

विशेष—इस सामग्री मे सर्वत्र ये ही ५ चीजें नहीं होती । इनमे से कुछ चीजों के स्थान पर दूसरी चीजें भी काम मे लाई जाती हैं ।

पचरंग^२—वि० दे० 'पचरंगा' ।

पचरंगा^१—वि० [हिं० पाँच + रंग] [वि० स्त्री० पचरंगी] १ जिसमे भिन्न भिन्न पाँच रंग हो । पाँच रंग का या पाँच रंगो वाला । २ (कपडा) जो पाँच रंगो से रंगा या पाँच रंगो के सूतो से बुना हुआ हो । ३ जिसमे कई या बहुत से रंग हो । कई रंगो से रजित । उ०—अजब एक फूल पचरंगा ।—घट०, पृ० २४७ ।

पचरंगा^२—सज्ञा पुं० नवग्रह आदि की पूजा के निमित्त पूरा जानेवाला चौक जिसके खाने या कोठे पचरंग के पाँच रंगो से भरे जाते हैं ।

पचरा—सज्ञा पुं० [हिं० पचड़ा] दे० 'पचड़ा'—२ । उ०—गावर्हि पचरा मूड कँपावर्हि, वोरलर्हि सकल कमाई हो ।—गुलाल०, पृ० २२ ।

पचलड़ी—सज्ञा स्त्री० [हिं० पाँच + लड़ी] माला की तरह का एक आभूषण जिसमे पाँच लडियाँ होती हैं ।

विशेष—यह गले मे पहना जाता है और इसकी अंतिम लड़ी प्राय नाभि तक पहुँचती है । कभी कभी प्रत्येक लड़ी के और कभी कभी केवल अंतिम के बीचो बीच एक जुगमू लगा रहता है । इसके दाने सोने, मोती अथवा किसी अन्य रत्न के होते हैं ।

पचलोना—सज्ञा पुं० [सं० पञ्च, हिं० पाँच + लोन (= लवण)] १ जिसमे पाँच प्रकार के नमक मिले हो । उ०—मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता इयाम सलोना ।—भारतेंदु अ०, भा० १, पृ० ६६२ । २ दे० 'पचलवण' ।

पचवई—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पचवाई' ।

पचवना(पु)—क्रि० स० [हि० पचाना] दे० 'पचाना' । उ०—विस-
वाय गय मो वीर जानि । पचवत जहर जनु दूध पानि ।—
पृ० रा०, ६।७३ ।

पचवाई—सज्ञा स्त्री० [हि० पाँच + वाई] एक प्रकार की देशी
शराब जो चावल, जौ, ज्वार आदि से चुआई जाती है ।

पचहत्तर^१—वि० [म० पञ्च सप्त, प्रा० पचहत्तर] सत्तर और
पाँच । अस्सी से पाँच कम ।

पचहत्तर^२—सज्ञा पुं० मत्तर और पाँच के जोड़ने से बनेवाली
सरया या अक्र जो इस प्रकार लिखा जाता है—७५ ।

पचहत्तरवाँ—[वि० पचहत्तर+वाँ (प्रत्य०)] गिनने में पचहत्तर
के स्थान पर पढ़नेवाला । क्रम में जिसका स्थान पचहत्तर
पर हो ।

पचहरा—वि० [हि० पाँच + हरा] १ पाँच परतों या तहोंवाला ।
पाँच बार मोटा या लपेटा हुआ । पाँच आवृत्तियोंवाला ।
२ पाँच बार किया हुआ (अप्रयुक्त) ।

पचा—सज्ञा स्त्री० [म०] पकाने या पकने की क्रिया [को०] ।

पचानक—सज्ञा पुं० [देश०] एक पक्षी जिसका शरीर एक चालिशत
लवा होता है । इसके डैने और गर्दन काली होती हैं ।
दक्षिण भारत और बंगाल इसके स्थायी आवासस्थान हैं पर
अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में भी यह पाया जाता है ।

पचाना—क्रि० स० [हि० पचना] १ पचना का सकर्मक रूप ।
पकाना । आँच पर गलाना । २ खाई हुई वस्तु को जठराग्नि
की महायता से रसादि में परिणत कर शरीर में लगने योग्य
बनाना । जीर्ण करना । हजम करना जैसे,—तुम चार
चपातियाँ भी नहीं पचा सकते ।

संयो क्रि०—जाना ।—डालना ।—लेना ।

३ समाप्त या नष्ट करना । जैसे, वाई पचाना, मोटाई पचाना
आदि ।

क्रि० प्र०—डालना ।—देना ।

३ किसी की कोई वस्तु अनुचित या अवैध उपाय से हस्तगत कर
सदा अपने अधिकार में रखना । पराए माल को अपना कर
लेना । हजम कर जाना । उगलने का उलटा । जैसे,—किसी
का माल चुगाना सहज है पर पचाना सहज नहीं है ।

सयो० क्रि०—जाना ।—डालना ।—लेना ।

४ अवैध उपाय से हस्तगत वस्तु को अपने काम में लाकर लाभ
उठाना । जैसे,—ब्राह्मण का धन है, ले तो लिया पर तुम
पचा न सकोगे । ५ अत्यधिक परिश्रम लेकर या क्लेश देकर
शरीर मस्तिष्क आदि को गलाना, सुखाना या क्षय करना ।
जैसे,—(क) तपस्या करके देह पचा डाली । (ख)
वेधकूप से बहस करके कौन व्यर्थ माथा पचावे ?

सयो० क्रि०—डालना ।—देना ।

६ एक पदार्थ वा दूसरे पदार्थ को अपने आपमें पूर्ण रूप से
लीन कर लेना । खपाना । जैसे,—यह चावल बहुत घी
पचाता है ।

पचापच—सज्ञा स्त्री० [हि० पचपच] बार बार मुख से धूकने का
भाव । उ०—जैसी ही उनको पान सुरती की पचापच से
नेफरत है वैसी इधर चुष्ट के घूम से ।—भारतेंदु ग्र०,
भा० ३, पृ० ६६५ ।

पचाय^१—सज्ञा स्त्री० [हि० पचवाई] एक प्रकार की शराब ।
पचवाई । उ०—जब पीएगा तो पचाय ही ।—मैला०,
पृ० २४३ ।

पचायनी—सज्ञा पुं० [म० पञ्चानन] सिंह । उ०—कोइक काल
अभूत कै पचायन भारे ।—पृ० रा०, २४। ३४५ ।

पचार^१—सज्ञा पुं० [हि० पच्चर] बाँस या लकड़ी का वह छोटा
ढंढा जो जूए में बाईं ओर होता है और सीढी के ढंढे की
तरह उसके ढाँचे में दोनों ओर टुका रहता है ।

पचारना^१—क्रि० स० [म० प्रचारण] किसी काम के करने के
पहले उन लोगों के बीच उसकी घोषणा करना जिनके विरुद्ध
वह किया जानेवाला हो । ललकारना । जैसे, हाँक पचारकर
कोई काम करना । उ०—कोप कौन पगुर कुवर हके वीर
पचार ।—प० रासो, पृ० १४२ ।

पचावा^१—सज्ञा पुं० [हि० पचना+आव (प्रत्य०)] पचने की क्रिया
या भाव ।

पचास^१—वि० [स० पञ्चाशत, प्रा० पञ्चासा] चालीस और दस ।
चालीस से दस अधिक । साठ से दस कम ।

पचास^२—सज्ञा पुं० वह सख्या या अक्र जो चालीस और दस के जोड़
से बने । चालीस और दस की सख्या या अक्र जो इस प्रकार
लिखा जाता है—५० ।

पचासवाँ—वि० [हि० पचास+वाँ (प्रत्य०)] गणना में पचास के
स्थान पर पढ़नेवाला ।

पचासा—सज्ञा पुं० [हि० पचास] १ एक ही प्रकार की पचास
वस्तुओं का समूह । जैसे, पजनेस पचासा (पचास पद्यों का
समूह) । २. जेलखाने का घंटा । घडियाल । उ०—बजे पर
पचासा तीन ठे रोटिये के रहिगै आसा रामा ।—प्रेमघन०,
भा० १, पृ० ३६० ।

पचासी^१—वि० [म० पञ्चाशीति, प्रा० पांचासीई, पच्चासी] अस्सी
और पाँच । अस्सी से पाँच अधिक । पाँच ऊपर अस्सी ।

पचासी^२—सज्ञा पुं० वह सख्या या अक्र जो अस्सी और पाँच के जोड़
में बने । अस्सी और पाँच के योग की फलस्वरूप सख्या या
अक्र जो इस प्रकार लिखा जाता है—८५ ।

पचासीवाँ—वि० [हि० पचासी+वाँ (प्रत्य०)] गणना में पचासी के
स्थान पर पढ़नेवाला । जो क्रम में पचासी के स्थान पर हो ।

पचि—सज्ञा स्त्री० [स०] १ पकाने की क्रिया या भाव । पाचन ।
२ अग्नि । आग ।

पचित—वि० [सं० पचित (= पचा हुआ, अच्छी तरह घुलामिला
हुआ)] १ पचनी क्रिया हुआ । जडा हुआ । वैठया हुआ
(क्व०) । उ०—हरी लाल प्रवाल पिरोजा पगति बहुमणि
पचित पचावनो ।—सूर (शब्द०) । २. भली भाँति पचा

हुआ । भली भाँति जिसका पाक हो गया हो । उ०—चवित उसका विज्ञान ज्ञान वह नहीं पचित । भौतिक मद से मानव आत्मा हो गई विजित ।—ग्राम्या, पृ० ६५ ।

पची—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पचित] दे० 'पच्ची' ।

पचीस^१—वि० [सं० पञ्चविंशति, पा० पंचवीसति, अपभ्रंश प्रा० पचीस] पाँच और बीस । बीस से पाँच अधिक । पाँच ऊपर बीस ।

पचीस^२—सञ्ज्ञा पुं० वह सख्या या अक्ष जो पाँच और बीस के जोड़ने से प्रकट हो । ५ और २० के योगफल रूप सख्या या अक्ष जो इस प्रकार लिखा जाता है—२५ ।

पचीसवाँ—वि० [हिं० पचीस + वाँ (प्रत्य०)] गणना में पचीस के स्थान पर पढ़नेवाला । जो क्रम में पचीस के स्थान पर हो ।

पचीसी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पचीस] १ एक ही प्रकार की २५ वस्तुओं का समूह । जैसे, बैताल पचीसी (पचीस कहानियों का संग्रह) । २ किसी की आयु के पहले २५ वर्ष । जैसे,—अभी तो उन्होंने पचीसी भी नहीं पार की । ३ एक विशेष गणना जिसका संकडा पचीस गार्हियों अर्थात् १२५ का माना जाता है । आम, अमरूद आदि सस्ते फलों की खरीद विक्री में इसी का व्यवहार किया जाता है । ४ एक प्रकार का खेल जो चौसर की विसात पर खेला जाता है ।

विशेष—इसकी गोलियाँ भी उसी की सी होती हैं और उसी की तरह चली जाती हैं । अंतर केवल यह है कि इसमें पासे की जगह ७ कौडियाँ होती हैं जो खडखडाकर फेंकी जाती हैं । चित और पट कौडियों की सख्या के अनुसार दाँव का निश्च होता है ।

पचूका—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पिच से अनु०] पिचकारी ।

पचेल (पुं०) सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पछेली] पछेली नामक हाथ का आभूषण जो पीछे की ओर पहना जाता है । उ०—भूषण देति जसोमति पहुँची पाँच पचेल । टीका टीक टिकावली, हीरा हार हमेल ।—छीत०, पृ० २५ ।

पचेलिम^१—वि० [सं०] १ जीघ्र पकनेवाला । अपने आप पकनेवाला । स्वयं परिपक्व होनेवाला [मो०] ।

पचेलिम^२—सञ्ज्ञा पुं० १ अग्नि । २. सूर्य [मो०] ।

पचेलुक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जो भोजन बनाता हो । रमोइया [मो०] ।

पचोतर—वि० [सं० पञ्चोत्तर] (किसी सख्या से) पाँच अधिक । पाँच ऊपर । जैसे, पचोतर सो ।

पचोतर सो—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चोत्तरशत] सो और पाँच की सख्या या अक्ष । एक सो पाँच । यह अंको में इस प्रकार लिखा जाता है—१०५ ।

पचोतरा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चोत्तर] कन्या पक्ष के पुरोहित का एक नेग जिसमें उसे दायज में, विशेषकर तिलक के समय वर पक्ष को मिलनेवाले रूपयो आदि में से सैंकड़े पीछे पाँच मिलता है ।

पचौआ—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] किसी कपड़े पर छीट छप चुक्ने के पीछे ८ या १२ दिन तक उसे धूप में खुला रखना ।

विशेष—ऐसा करने से छापते समय सारे स्थान पर जो धब्बे आ जाते हैं वे छूट जाते हैं ।

पचौनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पाचन] १ पाचन । पाचक । २ ग्रामाशय जहाँ खाए अन्न का पाचन होता है ।

पचौर—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पच या पचौली] गाँव का मुखिया । सरदार । सरगना । उ०—पहुँचे जाइ पचौर प्रवीन । छत्रसाल सो मुजरा कीन ।—लाल (शब्द०) ।

पचौली^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पाँच+कुली] गाँव का मुखिया । सरदार । पच ।

पचौली^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] एक प्रकार का पौधा जो मध्यभारत तथा बर्मा में अधिकता से होता है । इसकी पत्तियों से एक प्रकार का तेल निकाला जाता है जो विलायती सुगंधियों (एसेंस आदि), में पड़ता है ।

पचौर—वि० [हिं० पाँच + सं० आवर्त] जिसकी पाँच तहों की गई हो । पाँच परत का । पाँच तह या परत किया हुआ । पचहरा । उ०—चौर पचौर के चादर निचौर है ।—(शब्द०) ।

पचचड़—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पचचर' ।

पचचर—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पचित या हिं० पच्ची] काठ का पैरद । लकड़ी या बाँस की वह कट्टी या गुल्ली जिसे चारपाई, चौखट आदि लकड़ी की बनी चीजों में साल या जोड़ को कसने के लिये उसमें दूटे हुए दरार या रध्र में ठोकते हैं ।

विशेष—छेद या खाली जगह भरने के लिये इसके एक सिरे को दूसरे से कुछ पतला कर लेते हैं । परन्तु जब इससे दो लकड़ियों को जोड़ने का काम लेना होता है तब इसे उतार चढाव नहीं बनाते, एक फट्टी या गुल्ली बना लेते हैं ।

२ लकड़ी की बड़ी मेख या खूँटा (लश०) ।

क्रि० प्र०—ठोकना ।—देना ।—करना ।

मुहा०—पचचर अडाना = वाधक होना । वाधा खड़ी करना । रुकावट डालना । अडगा डालना । जैसे,—तुम नाहक इस काम में क्यों पचचर अडाने हो । पचचर ठोकना = किसी को कष्ट पहुँचाने या पीड़ित करने के लिये कोई उपाय करना । ऐसा काम करना जिससे किसी को बहुत कष्ट पहुँचे या वह खूब तग और परेशान हो । खूँटा ठोकना । जैसे,—धवटाते क्यों हो, ऐसी पचचर ठोकूँगा कि सारी आई बाई पच जायगी । पचचर मारना = होते हुए काम को रोकना । बनती हुई बात को बिगाड़ देना । भाँजी मारना । जैसे,—अगर तुम पचचर न डालते तो यह सबघ अवश्य बैठ जाता ।

पचचरी—वि० [सं० पचित] धारण किए हुए । उ०—इक सूही दूजी सोहणी, तीजी सो भावती नारि । सुहने रूपे पचचरी, नानक विनु नावै कुडचार ।—सतवाणी०, पृ० ६८ ।

पचची—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पचित] १ ऐसा जडाव या जमावट जिसमें बड़ी या जमाई जानेवाली वस्तु उस वस्तु के विलकुल समतल

होना पञ्चिमे नहूँ नही वा जमाई जाय । किसी वस्तु के पने नहूँ नाल पञ्चिमी वस्तु के दुतडे इन प्रकार खोदकर लेना कि वे इस वस्तु के तल (मतह) के मेल में हो जायें प्रोत् देखने वा पने में उमरे वा गडे हुए न मालूम हो तथा दान वा नीम न दिगार्ड पढने के कारण आघार पञ्चु हो ही भग जान पडें । जैसे, सगमर्म पर रगविरग के पक्ष के टुगा वा जडा । २ किसी घातुनिमित पदार्थ पर किसी मन्त्र घातु के पनर वा जडाव । जैसे, किसी कर्तो वा जग्ते ही किसी चीज पर चाँदी के पत्तरो का टपार ।

मुद्रा०—(किसी म) पच्चि हो जाना = विलकुल मिल जाना या बही हो जाना । लीन हो जाना । हल हो जाना । जैसे,— वा नद्वार नय जय उठना हूँ तय तव आसमान में पच्चि हो जाना हे ।

पञ्चीकार—पञ्चि [हि० पच्चि + पा० कार] पच्चि का काम करनेवाला व्यक्ति ।

पञ्चीकारी—पञ्चि [हि० पच्चि + पा० कारी (= करना)] पच्चि करने की क्रिया या भाव । जठने जोडने की क्रिया या भाव ।

पञ्चु०—पञ्चु [उ० पञ्च, प्रा० पच्चु] दे० पक्ष । उ०—मनु जुग पञ्चु प्रतञ्चु होत मिटि जात जमुन जल ।—भारतेंदु ग्र० भा० १, पृ० ४५५ ।

पञ्चुकट—पञ्चु [उ०] माल की मझोली जड जो रंगाई के काम में आती है ।

पञ्चुघात—पञ्चु [हि०] दे० 'पक्षाघात' ।

पञ्चुताई०—पञ्चु [उ० पाता] दे० 'पक्षपात' ।

पञ्चुति०—पञ्चु [पञ्चान] पञ्चात् । वाद में । उ०—उर मशेरि मुशरिय, तिन पञ्चुति इच्छनि नुमरय । इति दल्पिया गगन चरितिय, तटा जैतकुमार उठयो सुनिय ।—पृ० भा० १, १२।३७ ।

पञ्चुधर०—पञ्चु [पञ्चु + धर] पक्षधर । पक्षी । उ०—तनु भित्तिय गगन गगन, अहि घराय, मन घोर । तुलसी हरि भए पाधर ताउ नहूँ मय मो ।—तुलसी ग्र०, पृ० ६४ ।

पञ्चुपात—पञ्चु [पञ्चुपात] दे० 'पक्षपात' । उ०—तुलसी भावना पछि मन भाया । ता में पञ्चुपात नहि राया ।—पट०, पृ० २२६ ।

पञ्चुपाय०—पञ्चु [पञ्चान + पद] पीछे हटा हुआ । पीछे पैर देनेवाला । उ०—भट्ट पीज चानुवक की पञ्चुपाय । तवै जातुना राइ पीनी म्हाय ।—पृ० भा०, १।४५३ ।

पञ्चुम—पञ्चु [पञ्चिम] 'पश्चिम' ।

पञ्चुपाती—पञ्चु [पञ्चुपात] दे० 'पक्षापात' ।

पञ्चु—पञ्चु [पञ्चु + पा० पच्चि] दे० 'पक्षी' । उ०—करं पीर ताँत नहूँ पच्चि माई ।—ह० रासो, पृ० ३७ ।

पञ्चु—पञ्चु [पञ्चु] दे० 'पक्ष' । उ०—नप सिद्धि माम

अरु बहुत पच्चि । ऋतु सिसिर द्वादसी तिथि सुरच्छि ।—ह० रासो, पृ० २६ ।

पच्चिउं०—पञ्चु [पञ्चु + उं] दे० 'पश्चिम' । उ०—पच्चिउं कर वर पुरुष क वारी ।—जायसी ग्र०, पृ० ११६ ।

पच्चिनी०—पञ्चु [पञ्चु + नी] दे० 'पक्षिणी' ।

पच्चिम^१—पञ्चु [पञ्चु + म] दे० 'पश्चिम' । उ०—पुंवे सेना नज्जिअइ, पच्चिम हुअऊँ पयान ।—वीति०, पृ० ६२ ।

पच्चिम^२—पञ्चु [पञ्चु + म] पिछला । पीछे का (हि०) ।

पच्चियान०—पञ्चु [पञ्चु + यान] दे० 'पिछला' । उ०—रही जाम एक निसा पच्चियान । वजे नहूँ नीसान वीसान जान ।—पृ० भा०, १।६३१ ।

पच्चिराज०—पञ्चु [पञ्चु + राज] गरुड । उ०—पक्षिराज जच्चिराज प्रेतराज जातुघान ।—केशव (शब्द०) ।

पच्चिवँ—पञ्चु [पञ्चु + वँ] दे० 'पश्चिम' ।

पच्चो—पञ्चु [पञ्चु] दे० 'पक्षी' ।

पच्चुँ—पञ्चु [पञ्चु + उं] दे० 'पीछे' । उ०—वीर देव सम वीर लरि भगिग सेन कमधज्ज । ता पच्चुँ सोमेस पर उड्डि सार वजरज्ज ।—पृ० भा०, १।६५५ ।

पच्चु^१—पञ्चु [पञ्चु + उं] दे० 'पीछे' ।

विशेष—योगिक पदों में ही यह रूप प्राप्त होता है । जैसे,—अग-पछ, पछलगा, पछलत्ता ।

पच्चु^२—पञ्चु [पञ्चु + उं] दे० 'पक्ष' । नरफदारी । उ०—दीना-नाथ दयाल भक्त की पच्चु करो ।—धरम०, पृ० २३ ।

पच्चु^३—पञ्चु [पञ्चु + उं] दे० 'पक्ष' । पर । उ०—एक भरोसा पाय दिया सिर भाइ लराई । पच्चु की पच्चु गया रहा इक नाम सहाई ।—पलद०, भा० १, पृ० ७० ।

पच्चु^४—पञ्चु [पञ्चु + उं] दे० 'पीछे' । उ०—प्रीतम वीछुडिया पच्चुई, मुई न कहिजइ काइ ।—ढोला०, पृ० ४०३ ।

पच्चुटी०—पञ्चु [पञ्चु + टी] दे० 'पक्ष' ।

पच्चुडना—पञ्चु [पञ्चु + उं] दे० 'पक्ष' । लटने में पटक जाना । पछाटा जाना । २ दे० 'पिछडना' ।

पच्चुताना—पञ्चु [पञ्चु + ताना] किसी किए हुए अनुचित काय के सबब में पीछे से दुखी होना । किसी की हुई बात पर पीछे से खिन्न होना या खेद प्रकट करना । पञ्चात्ताप करना । पच्चुतावा करना । उ०—दो दूक कलेजे के करता पच्चुताता पथ पर आता ।—अपरा, पृ० ६६ ।

पच्चुतानि०—पञ्चु [पञ्चु + तानि] पच्चुताने का भाव । पच्चुतावा । पञ्चात्ताप ।

पच्चुतावा^१—पञ्चु [पञ्चु + तावा] दे० 'पच्चुतावा' ।

पच्चुतावना—पञ्चु [पञ्चु + तावना] दे० 'पच्चुताना' ।

पच्चुतावा^२—पञ्चु [पञ्चु + तावा] दे० 'पच्चुतावा' । वह सताप या दुख जो किसी की, की हुई बात पर पीछे से हो । अपने किए को बुरा समझने में होनेवाला रज । पञ्चात्ताप । अनुताप ।

उ०—गैल जीवन पुनु पलटि न आयए केवल रहे पछतावे ।—
विद्यापति, पृ०, १९५।

पछना^१—सञ्ज्ञा पु० [हि० पाछना] १ वह अस्त्र आदि जिससे कोई चीज पाछी जाय । पाछने का औजार । २ वह उस्तरा जो सिंगी लगाने से पहले शरीर मे घाव करने के काम आता है । ३ शरीर मे से रक्त निकालने की क्रिया । फसद ।

पछना^२—क्रि० अ० पाछा जाना । पाछने की क्रिया होना ।

पछमन(पु)—क्रि० वि० [हि०] पीछे । अगमन या अगुमन का उलटा ।
३० 'पीछे' ।

पछरना^१—क्रि० अ० [हि०] पिछड़ जाना । पीछे पड़ना । २ पश्चात्पद होना । वापस होना । लौटना ।

पछरा^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पछाड' । उ०—'हरीचद' पिय विनु
अति व्याकुल मुरि मुरि पछरा खात ।—भारतेंदु ग्र०, भा०
२, पृ० ४०० ।

पछलगा—सञ्ज्ञा पु० [हि० पछ+लगना] दे० 'पिछलगा' । उ०—हौं
पडितन केर पछलगा । किछु कहि चला तवल देइ डगा ।—
जायसी (शब्द०) ।

पछलागू(पु)—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पिछलागू' । उ०—अगुआ केर
रोहु पछलागू ।—जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० १३६ ।

पछवत—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पीछे+वत] वह चीज जो फसिल के अत
में बोई जाय ।

पछवा^१—वि० [म० पश्चिम] पश्चिम की । पश्चिम दिशा की ।
पश्चिमी । पश्चिम दिशा सबधी ।

पछवा^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाछा] अंगिया का वह हिस्सा जो पीठ
की तरफ मोडे के पीछे रहता है ।

पछवा^३—वि० दे० 'पछुआ' ।

पछाँ(पु)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पहचान' । उ०—केतक दिवस कू
जू हुआ वो जवाँ । सो वई वाप हंगाम उसका पछाँ ।—
दक्खिनी०, पृ० ७८ ।

पछाँई^१—वि० [हि० पछाँह] पश्चिमी । पश्चिम का । पश्चिम मे
पैदा होने या रहनेवाला । उ०—वह पछाँई गाय लेगा ।—
गोदान, पृ० ३ ।

पछाँह—सञ्ज्ञा पु० [म० पश्चात्, प्रा० पच्छा] पश्चिम मे पढनेवाला
प्रदेश । पश्चिम की ओर का देश ।

पछाँहिया—वि० [हि० पछाँह+इया (प्रत्य०)] पछाँह का ।
पश्चिम प्रदेश का ।

पछाँही—वि० [हि०] दे० 'पछाँई' ।

पछाड़^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाछा] बहुत अधिक शोक आदि के कारण
खडे खडे बेसुध होकर गिर पडना । अचेत होकर गिरना ।
मूर्छित होकर गिरना ।

मुहा०—पछाड़ खाना = खडे खडे अचानक बेसुध होकर गिर
पडना । उ०—परति पछाड़ खाइ छिन ही छिन अति आनुर
ह्वै दीन । मानहु सूर काछि है लीनी वारि मध्य ते मीन ।
—सूर (शब्द०) ।

पछाड़^२—सञ्ज्ञा पु० [हि० पछाड़ना] कुशती का एक पेंच ।

विशेष—जब शत्रु सामने रहता है तब एक हाथ उसकी जाँघो
के नीचे से निकालकर पीछे की ओर से उसका लेंगोट
पकडते हैं और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर से घुमाकर उसकी
बगल मे अडाते हैं और इस प्रकार उसे उठाकर चित फेंक
देते हैं । इसमे अधिक बल की आवश्यकता होती है ।

पछाड़ना—क्रि० स० [हि० पछाड़] १ कुशती या लडाई मे
पटकना । गिराना । २ वाद विवाद मे हराना । किसी क्रिया
या काम में मात करना । पराजित करना । उ०—भारतीय
मुसलमानो के बीच, विशेषत सूफियो की परपरा मे, ऐसी
अनेक कहानियाँ चली, जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या
योगी को करामात मे पछाड़ दिया ।—इतिहास, पृ० १५ ।

सयो० क्रि०—डालना ।—देना ।

पछाड़ना^२—क्रि० स० [स० प्रचालन, प्रा० पक्खालन, पच्छाउन]
धोने के लिये कपडे को जोर से पटकना ।

सयो० क्रि० डालना ।—देना ।

पछाड़ी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पिछाड़ी' ।

पछाना^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पहचान' । उ०—जो आशिक का
जिसकू अछेगा निशान । तो माशूक कू वाई चलेगा पछान ।—
दक्खिनी०, पृ० १५२ ।

पछानना(पु)—क्रि० स० [हि०] दे० 'पहचानना' । उ०—ज्यों
सपे त्यों विपत्ति पछानै, वेगम महिल लडावै ।—प्राण०,
पृ० ६६ ।

पछाया—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पाछा] किसी वस्तु के पीछे का भाग ।
पिछाडी । जैसे, अंगिया का पछाया ।

पछार^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पछाड' ।

पछार^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पछारना] पछारने की क्रिया या भाव ।

पछारना^१—क्रि० स० [म० प्रचालन, प्रा० पच्छाउन] कपडे को
पानी से साफ करना । धोना ।

पछारना(पु)^२—क्रि० स० [हि० पछाड़] दे० 'पछाडना' । उ०—
पुनि रिसान गहि चरन फिरायो । महि पछारि निज बल
देखरायो ।—मानस, ६।७३ ।

पछालना(पु)—क्रि० स० [म० प्रचालन] पछारना । धोना । उ०—
जावक रचि क अंगुरियन मृदुल सुठारी हो । प्रमु कर चरन
पछालत अति सुकुमारी हो ।—तुलसी ग्र०, पृ० ५ ।

पछावर, पछावरिं—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] एक प्रकार का पेय । (मट्ठा,
कढी, काँजी या पना और दूध आदि) जो रसेदार होता
है । पछियावर । उ०—(क) जेइ अघाने जठर पर जल पिय
फेरत पानि । तुच्छ खुधा पाछे रही तव लई पछावरि वानि ।
पृ० रा०, ६३।१०३ । (ख) पुनि आरि सो ह्वै विधि स्वाद
वने । विधि दोइ पछावरि सात वने ।—केशव (शब्द०) ।

पछाहीं—वि० [हि० पछाँह] पछाँह का । पश्चिम प्रदेश का ।
जैसे, पछाही पान, पछाही आदमी ।

पछिआना^१—क्रि० स० [हि० पाछे+आना] १. पीछे हो लेना ।

पीछे पीछे चलना । पीछा करना । उ०—लीनो व्यासदेव पछिआई । बारहि बार पुकारत जाई ।—रघुराज (शब्द०) ।
२ किसी को पीछे छोड़ देना । अपने से पीछे कर देना ।

पछिउँ—सज्ञा पुं० [म० पश्चिम, प्रा० पच्छिउँ] दे० 'पश्चिम' ।

पछिता^१—सज्ञा पुं० [मं० पश्चात्ताप] दे० 'पछतावा' । उ०—
केहि कारन पछिता करी भयो रैन परमात ।—हिंदी प्रेम-
गाथा०, पृ० २७६ ।

पछिताना^१—क्रि० अ० [हिं० पछताना] दे० 'पछताना' । उ०—
धनु देखि मदन पछिता । हर के समय समर किन भायो ।
—नद० अ०, पृ० १२२ ।

पछितानि^१—सज्ञा स्त्री० [हिं० पछिताना] पछताने का भाव ।
पछतानि । पछतावा । उ०—प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई ।
हरउ भगत मन के कुटिलाई ।—मानस, २।१० ।

पछिताव—सज्ञा पुं० [स० पश्चात्ताप] दे० 'पछताना' । उ०—
सुनि सीतापति सील सुभाव । सिला साप सताप विगत भइ
परसत पावन पाव । दई सुगति सो न हेरि हरख हिय चरन
छुए कोप छिताव ।—तुलसी (शब्द०) ।

पछितावना^१—क्रि० अ० [हिं० पछिताव] दे० 'पछताना' ।
उ०—जानति हो पछितावत ही मन, लखि मो अँगन छोरे
ही । रूप रसिक विघना के सारे सवन होत बरजोरे ही ।—
पोद्दार अभि० अ०, पृ० २६४ ।

पछिनावा^१—सज्ञा पुं० [देश०] पशुघ्नो का एक रोग ।

पछिया^१—सज्ञा स्त्री० [स० पश्चिम] दे० 'पछुर्पा' । उ०—चल रहे
ग्राम कुजो मे पछिया के फकीर, दिल्ली लेकिन ले रही लहर
पुरवाई में ।—दिल्ली, पृ० २२ ।

पछियाई^१—सज्ञा स्त्री० [हिं० पछिया] दे० 'पछुर्पा' । उ०—रत्नो के
फूल जडे, लता चढी जड पकडे । लहरी पछियाई नहरो की
खाडी ।—आराधना, पृ० ७५ ।

पछियाउरि^१—सज्ञा स्त्री० [देश०] दे० 'पछावरि' । एक प्रकार का
पेय । सिखरन या शरवत । उ०—सुनि जाउरि पछियाउरि
आई । धिरित खाई के बनी मिठाई ।—जायसी अ०,
पृ० १२४ ।

पछियाना—क्रि० सं० [हिं० पीछे] दे० 'पछिआना' ।

पछियाव—सज्ञा पुं० [हिं० पच्छिउँ+वाउ] पच्छिम की हवा ।

पछियावर—सज्ञा स्त्री० [देश० या हिं० पीछे] १. दे० पछियाउरि' ।
२ छाछ से बना हुआ एक प्रकार का पेय पदार्थ जो भोज-
नादि मे परोसा जाता है । इससे भोजन शीघ्र पचता है ।
दे० 'पछावरि' ।

पछिल^१—क्रि० वि० [हिं० पीछे] दे० 'पीछे' । उ०—वाँहहि अत्र
अपार चदेले वीर हैं । पछिल न धारहि पाय महा रनधीर
हैं ।—प० रासो०, पृ० ७ ।

पछिलगा^१—सज्ञा स्त्री० [हिं० पीछे+लगना] दे० 'पिछलग' ।

पछिलना^१—क्रि० अ० [हिं०] दे० 'पिछटना' ।

पछिला—वि० [हिं० पीछे] [वि० स्त्री० पछिली] दे० 'पिछला' ।

उ०—(क) भूलिगा वह शब्द पछिला मति मदरस पागो ।
—जग० बानी, पृ० ३६ । (ख) वेदहु हरि के रूप स्याम मुन
ते जो निसरे । कर्म क्रिया आसक्ति सबे पछिने सुधि निसरे
—नद० अ०, पृ० १७७ ।

पछिवाँ^१—सज्ञा स्त्री० [म० पश्चिम] दे० 'पश्चिम' । उ०—जनु
ससि उदो पुरुव दिमि कीन्हा । श्री रवि उठी पछिने दिमि
लीन्हा ।—जायसी अ० (गुप्त), पृ० २५३ ।

पछिवाँ^२—वि० [हिं० पच्छिम] पश्चिम की (हवा) ।

पछिवाँ^३—सज्ञा स्त्री० पश्चिम की हवा ।

पछोत^१—सज्ञा स्त्री० [सं० पश्चात्, प्रा० पच्छा] १ घर का पिछ-
वाहा । मकान के पीछे का भाग । उ०—छानि वरेटि पो
पाट पछोति मयारि कहा किहि काम के कोरे ।—प्रह्वरी०,
पृ० ३५४ ।

पछोत^२—क्रि० वि० पीछे । पीछे की ओर । उ०—ग्राह अगीत,
पछोत गई, नित टरत मोहि मनेह के कूरन ।—ठाकुर०,
पृ० १ ।

पछुवाँ^१—वि० [हिं० पच्छिम] पच्छिम की (हवा) ।

पछुवाँ^२—सज्ञा स्त्री० पच्छिम की हवा ।

पछुचा—सज्ञा पुं० [हिं० पाछा] कडे के आकार का पेर मे पहनने
का एक गहना ।

पछेडाँ^१—सज्ञा पुं० [हिं० पाछ] पीछा ।

क्रि० प्र०—करना ।—होना ।

पछेलना^१—सज्ञा पुं० [हिं० पाछ+एलना (प्रत्य०)] पीछे डालना ।
पीछे छोड़ना । आगे बढ़ जाना ।

पछेला^१—सज्ञा पुं० [हिं० पाछ+एला (प्रत्य०)] [स्त्री० पछेला
पछेली] १ हाथ मे एक साथ पहने जानेवाले बटन से चिपटे
कडे मे से पिछला जो अगले से मडा होता है । पीछे की
मठिया । २ हाथ मे पहनने का स्त्रियों का एक प्रकार का
कडा जिसमे उभरे हुए दानो को पक्ति होती है ।

पछेला^२—वि० पीछे का । पिछला ।

पछेलिया^१—सज्ञा स्त्री० [हिं० पछेल] दे० 'पछेली' ।

पछेली—सज्ञा स्त्री० [हिं० पछेल] दे० 'पछेला' । उ०—जाके चोप
की चुनरी, जान पछेली चमक रही ।—बवीर अ०, पृ० ११ ।

पछेव^१—अव्य० [हिं० पीछा, प्रा० पच्छव] दे० 'पीछे' । उ०—
फिरि व्यास कहै सुनि अनग राइ । भवतव्य वात मेटी न
जाय । रघुनाथ हाथ त्रैलोक देव । ते कनक मृग लागे पछेव ।
—पृ० रा०, ३।३४ ।

पछै^१—क्रि० वि० [हिं०] दे० 'पीछे' । उ०—आदि अगम अवि-
कार एक ईश्वर अविणासी । पछै प्रकृति ततपच विविध सुर
ईखजवासी ।—रा० रू०, पृ० ७ ।

पछोडना—क्रि० सं० [सं० पश्चालन, प्रा० पच्छाडन] १ सूप आदि
मे रखकर (अन्न आदि के दानो को) साफ करना । फटकना ।

२ भटकारना । उ०—हाथ पछोड़ि गुरु विन ओह रोता ।
—प्राण, पृ० ४७ ।

सयो० क्रि०—ढालना ।—देना ।

मुहा०—फटकना पछोड़ना = उलट पलटकर परीक्षा करना ।
खूब देखना भालना । उ०—सूर जहाँ लौं श्यामगात हैं देखे
फटक पछोरी ।—सूर (शब्द०) ।

पछोरना†—क्रि० सं० [हि०] दे० 'पछोड़ना' । उ०—कहो कौन
पै कढे बनूका भुम की रास पछोरे ।—सूर (शब्द०) ।

पछौरा—सज्ञा पु० [हि०] दे० 'पछोरी' ।

पछ्छु०—सज्ञा पु० [हि०] दे० 'पीछे' । उ०—सरकि सेन सबक
घरकि, पछ्छु जगल भए ठड्डु ।—पृ० रा०, २४।१६८ ।

पछ्छिला०—वि० [हि०] दे० 'पछिला' । उ०—पछ्छिलो
वलन सुरतान दिषि, सिध लोक अविस्तर कपो ।—पृ०
रा०, २४।२०५ ।

पछ्छावर†—सज्ञा स्त्री० [देश०] एक प्रकार का सिखरन या शरबत ।
उ०—भूतल के सब भूपन को मद भोजन तो बहु भाँति
कियोई । मोद सो तारकनद की मेद पछ्छावरि पान
सिरायो हियोई ।—केशव (शब्द०) ।

पजमुर्दगी—सज्ञा स्त्री० [फा० पजमुर्दगी] उदासीनता । खिन्नता [क्रि०] ।

पजमुर्दा—वि० [फा० पजमुर्दा] शिथिल । उदास । मुरझाया हुआ ।
उ०—कहाँ हथेली पर सिर रखे हक पर लहनेवाले योद्धा ।
कहाँ हथेली से सिर ढाँपे पजमुर्दा माटी के धोधा ।—बगाल,
पृ० ५४ ।

पजर†—सज्ञा पु० [सं० प्रक्षरण] १ चूने या टपकने की क्रिया ।
२ झरना ।

पजरन०—क्रि० प्र० [सं० प्रज्वलन] जलना । दहकना । सुलगना ।
उ०—(क) पजरि पजरि तनु अधिक दहत है सुनत तिहारे
वेन ।—सूर (शब्द०) । (ख) याके उर श्रीरे कछु लगी
विरह की लाय । पजरे नीर गुलाब के पिय की बात सिराय ।
—विहारी (शब्द०) ।

पजरहर—सज्ञा पु० [फा०] एक प्रकार का पत्थर जो पीलापन या
हरापन लिए सफेद होता है और जिसपर नक्काशी
होती है ।

पजामा‡—सज्ञा पु० [हि०] दे० 'पायजामा' ।

पजारना०—क्रि० सं० [हि० पजारना] जलाना । प्रज्वलित करना ।
दहकाना । सुलगाना ।

पजावना—क्रि० सं० [हि० पजारना] हटाना । उजाड़ना । उ०—
(क) गी अजमेर मियाँ तज गुम्मार । आयी दुर्ग पजावे
ऊपर ।—रा० रू०, पृ० ३२३ । (ख) जोधायो उत्तर दिस
जेती । अहनिंस राम पजावे एती ।—रा० रू०, पृ० २१६ ।

पजावा—सज्ञा पु० [फा० पजावा] आर्वा । ईंट पकाने का मट्टा ।

पजूसण—सज्ञा पु० [देश०] जैन मत का एक व्रत ।

पजोखा—सज्ञा पु० [?] किसी के मरने पर उसके सबधियों से शोक-
प्रकाश । मातमपुरसी ।

पजोड़ा—सज्ञा पु० [हि० पाजी+ओड़ा (प्रत्य०)] पाजी । दुष्ट ।

पजौडापन—सज्ञा पु० [हि० पजौड़ा + पन (प्रत्य०)] पाजीपन ।
कमीनापन । उ०—जी हाँ खुदावद, क्या मानी, जो
बात है वही पजौडेपन की ।—सैर कु०, पृ० २३ ।

पज्ज—सज्ञा पु० [सं० पथ, या पज्ज] शूद्र ।

पज्जर—सज्ञा पु० [सं० पञ्जर] दे० 'पांजर' ।

पञ्जटिका—सज्ञा पु० [सं० पञ्जटिका] एक छद जिसके प्रत्येक चरण
में १६ मात्राएँ इस नियम से होती हैं कि षवी और छठी
मात्रा पर एक एक गुरु होता है । इसमें जगण का निषेध है ।

पफ़री—सज्ञा पु० [सं० प्रसर (= फैलाव या वेग)] प्रसार ।
फैलाव । उ०—दहम एक चश्मा है लब खुशक तर, गिर्दे
उसके पानी की भीगी पफ़र ।—दक्खिनी०, पृ० ३०२ ।

पटंतर—वि० [हि० पटतरना] उपमा । समानता । बराबरी ।
सादृश्य । उ०—रामनाम कै पटतरै देवे को कुछ नाहि । क्या
ले गुरु संतोषिए हौंस रही मन माहि ।—कबीर ग्र०, पृ० १ ।

पटंबर०—सज्ञा पु० [सं० पट्ट (= पाट) + अम्बर] रेशमी कपडा ।
कोषेय । उ०—जहँ देखौ जहँ पाट पटवर, ओढन अवर
चीर ।—घरम०, पृ० २७ ।

पटंभर०—सज्ञा पु० [हि० पटतर] सादृश्य । समानता । तुलना ।
उ०—सो विरला ससार पटंभर उनका ऐसा । मिसरी
जँहैर समान जँहैर है मिसरी जँसा ।—पोद्दार अभि० ग्र०,
पृ० ४३० ।

पट†—सज्ञा पु० [सं०] १. वस्त्र । कपडा । २. पर्दा । चिक । कोई
आड करनेवाली वस्तु ।

क्रि० प्र०—उठाना ।—खोलना ।—हटाना ।

३ लकड़ी घातु आदि का वह चिकना चिपटा टुकड़ा या पट्टी
जिसपर कोई चित्र या लेख खुदा हुआ हो । जैसे, ताम्रपट ।
४. कागज का वह टुकड़ा जिसपर चित्र खींचा या उतारा
जाय । चित्रपट । उ०—लौटी ग्राम बहू पनघट से, लगा
चित्तेरा अपने पट से ।—आराधना, पृ० ३७ । ५. वह चित्र
जो जगन्नाथ, बदरिकाश्रम आदि मंदिरों से दर्शनप्राप्त
यात्रियों को मिलता है । ६. छप्पर । छान । ७. सरकड़े आदि
का बना हुआ वह छप्पर जो नाव या बहली के ऊपर ढाल
दिया जाता है । 'द चिरौंजी का पेड़ । पियार । ८.
कपास । १०. गधतृण । शरवान । ११. रेशम । पट्ट ।

पटवसतर = पट्टवस्त्र । पट्टाशुक । रेशमी वस्त्र । उ०—
नहाते त्रिकाल रोज पंडित अचारी बडे, सदा पटवस्तर सूत
अग ना लगाई है ।—पलद्म०, भा० २, पृ० १०६ ।

पट†—सज्ञा पु० [सं० पट] १. साधारण दरवाजो के किवाड़ ।

क्रि० प्र०—उघड़ना ।—खुलना ।—खोलना ।—देना ।—बंद
करना ।—भिड़ाना ।—भेड़ना ।

मुहा०—पट उघटना = मंदिर का दरवाजा इसलिये खुलना कि लोग मूर्ति के दर्शन पा सकें। दर्शन का समय आरंभ होना। पट खुलना = दे० 'पट उघटना'। पट बंद होना = मंदिर का दरवाजा बंद हो जाना। दर्शन का समय बीत जाता।

२ पालकी के दरवाजे के किवाड़ जो सरकाने से खुलते और बंद होते हैं।

यौ०—पटदार = वह पालकी जिसमें पट हो।

क्रि० प्र०—खुलना।—खोलना।—देना।—बंद करना।—सरकाना।

मुहा०—पट मारना = किवाड़ बंद कर देना।

३. सिंहासन। राज्यसिंहासन। उ०—इन नछिन्न चहुआन की पट अभिषेक समान।—पृ० रा०, ७।१७०।

यौ०—पटरानी।

४. किसी वस्तु का तलप्रदेश जो चिपटा और चौरस हो। चिपटी और चौरस तलभूमि। ५. रगमच का पर्दा। पर्दा।

यौ०—पटपरिवर्तन।

पट^३—सजा पु० [देग०] १ टाँग।

मुहा०—पट घुसना = दे० 'पट लेना'। पट लेना = पट नामक पेंच करने के लिये जोड़ की टाँगें अपनी ओर खींचना।

२ कुश्ती का एक पेंच जिसमें पहलवान अपने दोनों हाथ जोड़ की आँखों की तरफ इसलिये बढ़ाता है कि वह समझे कि मेरी आँखों पर थप्पड़ मारा जायगा और फिर फुरती से झुककर उसके दोनों पैर अपने सिर की ओर खींचकर उसे उठा लेता और गिराकर चित्त कर देता है। यह पेंच और भी कई प्रकार से किया जाता है।

पट^४—वि० ऐसी स्थिति जिसमें पेट भूमि की ओर हो और पीठ आकाश की ओर। चित्त का उलटा। आँधा।

मुहा०—पट पडना = (१) आँधा पडना। (२) कुश्ती में नीचे के पहलवान का पेट के बल पडकर मिट्टी थामना। (३) मद पडना। धीमा पडना। न चलना। जैसे—रोजगार पट पडना, पासा पट पडना, आदि। तलवार पट पडना = तलवार का आँधा गिरना। उस ओर से न पडना जिधर धार हो।

पट^५—क्रि० वि० चट का अनुकरण। तुरत। फौरन। जैसे, चट मंगनी पट ब्याह।

पट^६—[अनु०] किसी हलकी छोटी वस्तु के गिरने से होनेवाली आवाज। टप। जैसे, पट पट बूँदे पडने लगी।

विशेष—खटपट, घमघम आदि अन्य अनुकरण शब्दों के समान इसका प्रयोग भी 'से' विभक्ति के साथ क्रियाविशेषण-वत् ही होता है। सजा की भाँति प्रयोग न होने के कारण इसका कोई लिंग नहीं माना जा सकता।

पटइना, पटइनि^(७)—सजा स्त्री० [हि० पटवा] पटवा जाति की स्त्री। पटहार जाति की स्त्री। उ०—पटइनि पहिरि सुरैंग

तन चोला। श्री वरइनि मुख खात तभोला।—जायसी ग्र०, पृ० ८१।

पटक—सजा पु० [सं०] १ सूती कपड़ा। २ शिविर। तबू। खेमा। ३ आधा गव (को०)।

पटकन^(८)—सजा स्त्री० [हि० पटकना] १ पटकने की क्रिया या भाव। २ चपत। तमाचा।

क्रि० प्र०—देना।

३ छोटा डडा। छटी।

क्रि० प्र०—खाना।—मारना।

पटकना^१—क्रि० म० [म० पतन+करण या अनु०] १ किसी वस्तु को उठाकर या हाथ में लेकर भूमि पर जोर से टालना या गिराना। जोर के साथ ऊँचाई से भूमि की ओर झोक देना। किसी चीज को झोके के साथ नीचे की ओर गिराना। जैसे, हाथ का लोटा पटक देना, मेज पर हाथ पटकना। २ किसी खड़े या बैठे व्यक्ति को उठाकर जोर से नीचे गिराना। दे मारना। उ०—पुनि नल नीलहि अत्रनि पछारेसि। जहँ तहँ पटकि पटकि भट मारेसि—तुलसी (शब्द०)।

सयो० क्रि०—देना।

विशेष—'पटकना' में ऊपर से नीचे की ओर झोका देने या जोर करने का भाव प्रधान है। जहाँ बगल से झोका देकर किसी खड़ी या ऊपर रखी चीज को गिरावें वहाँ ढबेलना या गिराना कहेंगे।

मुहा०—(किसी पर, किसी के ऊपर या किसी के सिर) पटकना = कोई ऐसा काम किसी के सुपुर्द करना जिसे करने की उसकी इच्छा न हो। किसी के वार वार इनकार करने पर भी कोई काम उसके गले मढ़ देना। जैसे,—भाई तुम यह काम मेरे ही सिर क्यों पटकते हो किसी ओर को क्यों नहीं ढूँढ लेते।

२ कुश्ती में प्रतिद्वंद्वी को पछाडना, गिरा देना या दे मारना। जैसे,—मैं उन्हें तीन वार पटक चुका।

पटकना^२—क्रि० म० १ सूजन बैठना या पचकना। वरम या आमास का कम होना। २ गेहूँ, चने, धान आदि का सील या जल से भीगकर फिर सूखकर सिकुडना।

विशेष—ऐसी स्थिति को प्राप्त होने के पश्चात् अन्न में बीजत्व नहीं रह जाता। वह केवल खाने के काम में आ सकता है, बोन के नहीं।

३ पट शब्द के साथ किसी चीज का दरक या फट जाना। जैसे,—हाँडी पटक गई।

पटकनि^(९)—सजा स्त्री० [हि० पटकना] पटकने की क्रिया या भाव। उ०—तैसिव मृदु पटकनि चटकनि कछतारन बी। लटकनि मटकनि भलकनि कल कुडल हारन की।—नद० ग्र०, पृ० २२।

पटकनिया—सजा स्त्री० [हि० पटकना] १ पटकने की क्रिया या भाव। पटकान।

क्रि० प्र०—देना ।

२ पटके जाने की क्रिया या भाव ।

क्रि० प्र०—खाना ।

३ भूमि पर गिरकर लोटने या पछाड़े खाने की क्रिया या अवस्था । लोटनिया । पछाड़ ।

क्रि० प्र०—खाना ।

पटकनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पटकना] १ पटकने की क्रिया या भाव । जैसे,—पहली ही पटकनी में बचा को छट्टी का दूध याद आ गया ।

क्रि० प्र०—देना ।

२ पटके जाने की क्रिया या भाव ।

क्रि० प्र०—खाना ।

३ भूमि पर गिरकर लोटने या पछाड़ें खाने की क्रिया या अवस्था ।

क्रि० प्र०—खाना ।

पटकरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [दिश०] एक प्रकार की बेल ।

पटकर्म—सञ्ज्ञा पुं० [स० पटकर्मन्] कपडा बुनने का काम । जुलाहे का घघा [को०] ।

पटका—सञ्ज्ञा पुं० [स० पट्टक] १ वह दुपट्टा या रुमाल जिससे कमर बाँधी जाय । कमरबंद । कमरपेच । उ०—खैचि कमर सौं बाँध्या पटका । अथ पति हुआ वैठकर पटका ।—सुदर प्र०, भा० १, पृ० ३५१ ।

क्रि० प्र०—बाँधना ।

मुहा०—पटका बाँधना = कमर कसना । किसी काम के लिये तैयार होना । पटका पकड़ना = किसी को कार्यविशेष के लिये उत्तरदायी या अपराधी मानकर रोकना । कार्यविशेष से अपना असवध बतकर जान बचाने का प्रयत्न करनेवाले को रोक रखना और उस काम का जिम्मेदार ठहराना । दामन पकड़ना ।

३ दीवार में वह बंद या पट्टी जो मुदरता के लिये जोड़ी जाती है ।

पटकान—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पटकना] १ पटकने की क्रिया या भाव । जैसे,—मेरी एक ही पटकान में उसके होश ठिकाने हो गए ।

क्रि० प्र०—देना ।

२ पटके जाने की क्रिया या अवस्था ।

क्रि० प्र०—खाना ।

३ भूमि पर गिरकर लोटने या पछाड़ खाने की क्रिया या अवस्था ।

क्रि० प्र०—खाना ।

पटकार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ कपडा बुननेवाला । जुलाहा । २ चित्र-पट बनानेवाला । चित्रकार ।

पटकुटी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पट + कुटी] रावटी । छोलवारी । खेमा (दि०) ।

पटकूल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] रेशमी वस्त्र । उ०—सब सहर नारि श्रु गार कीन । अथ अथप मुड मिलि चलि नवीन । थपि कनक थार भरि द्रव्य हुव । पटकूल -जरफ जरकसी ऊव ।—पृ० रा०, १, ७१३ ।

पटखनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पटकन] दे० 'पटकनी' । उ०—रियासतो के नामी गरामी शहसवार इसपर सवार हुए और सवार होते ही पटखनी खाई ।—फिसाना०, भा० ३, पृ० २१ ।

पटचित्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पट + चित्र] १ कपडे पर बनाया हुआ चित्र । २ सिनेमा की फिल्म । उ०—उसके बाद सुनीता ने कुछ न कहा और मुँह मोडकर पटचित्र ही देखती रही । सुनीता, पृ० १३४ ।

पटचर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ जीर्ण वस्त्र । पुराना कपडा । उ०—तब लपेट तैलाक्त पटचर आग लगाई रिपुओ ने ।—साकेत, पृ० ३६० । २ चोर । तस्कर । ३ महाभारत और पुराणों में वर्णित एक प्राचीन देश ।

विशेष—महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ के मत से यह देश प्राचीन चोल है । पर महाभारत सभापर्व में सहदेव का द्विविजय प्रकरण पढ़ने से इसका स्थान मत्स्य देश के दक्षिण चेदि के निकट कही पर जान पड़ता है । जैन हरिवंश के मत से यह मगध देश का ही अशविशेष है ।

पटड़ा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पटरा' ।

पटड़ी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पटरी' ।

पटण (५)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पत्तन] दे० 'पत्तन' । उ०—हाट पटण देखि रह्या हैरान । नानक एह गढ छूटे निदान ।—प्राण०, पृ० २८ ।

पटतर (५)—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० सं० पट्ट (= पटरी) + तल (= पटरी के समान चौरस)] १ समता । बराबरी । तुल्यता । समानता । उ०—महामधुर कमनीय जुगल वर । इनही को दीजै इन पटतर ।—घनानंद, पृ० ४१ । २ उपमा । सादृश्य कथन । तशावीह ।

क्रि० प्र०—देना ।—पाना ।—लहना ।

पटतर^२—वि० जिसकी सतह ऊँची नीची न हो । चौरस । समतल । बराबर ।

पटतरना—क्रि० अ० [हिं० पटतर] बराबर ठहराना । उपमा देना । उ०—जो पटतरिअ तीय सम सीया । जग अस जुवति कहीं कमनीया ।—मानस, १, २४७ ।

पटतारना^१—क्रि० सं० [हिं० पटा + तारना (= अटाजना)] खजू भाले आदि को उस स्थिति में पकड़ना जिसमें उनसे बार किया जाता है । खाँडा, भाला आदि शस्त्रों को किसी पर चलाने के लिये पकटना या खीचना । सँभालना । उ०—फिर पठान सो जग हित चलयो सेज पटतारि ।—सूदन (शब्द०) ।

पटवारना^२—क्रि० स० [हि० पटतर] ऊँची नीची जमीन को चौरस करना । टीले को काटकर उसकी मिट्टी को इधर उधर इस प्रकार फैला देना कि जहाँ वह फैलाई जाय वहाँ का तल चौरस रहे । पटवारना ।

पटताल—सज्ञा पुं० [सं० पट+ताल] मृदग का एक ताल ।

विशेष—यह ताल १ दीर्घ या २ ह्रस्व मात्राओं का होता है । इसमें एक ताल और एक खाली रहता है । इसका बोल यो

+
○

हे—घा, केटे दि ता, घा ।

पटत्क—सज्ञा पुं० [सं०] तस्कर । चोर [क्रि०] ।

पटद्^१—सज्ञा पुं० [सं०] कपास ।

पटधारी^१—वि० [सं० पटधारिन्] जो कपडा पहने हो ।

पटधारी^२—सज्ञा पुं० तोशाखाने का मुख्य अफसर । उ०—बोलि सचिव सेवक सखा पटधारि भंडारी । तेहु जाहि जोइ चाहिए सनमानि सँभारीं ।—तुलसी (शब्द०) ।

पटन^१—सज्ञा पुं० [सं० पत्तन प्रा० पट्टण पट्टण] दे० 'पत्तन' उ०—धर्म पुरी एक नगर सुहावा । हाट पटन बहु देखि बनावा ।—हिंदी प्रेमगाथा०, पु० २०५ ।

पटन^२—सज्ञा पुं० [सं०] गुजरात देश, जहाँ की राजधानी का नाम पट्टन या पाटन था । उ०—श्रवतार लियौ प्रिधिराज पट्ट ता दिन दान अनत दिय । कनवज्ज देस गज्जन पटन किल-किलत कालकनिय ।—पु० रा०, १।६८७ ।

पटना^१—क्रि० अ० [हि० पट (= जमीन के सतह के बराबर)] १ किसी गड्ढे या नीचे स्थान का भरकर आस पास की सतह के बराबर हो जाना । समतल होना । जैसे,—वह भील अब बिलकुल पट गई है । २ किसी स्थान में किसी वस्तु की इतनी अधिकता होना कि उससे शून्य स्थान न दिखाई पड़े । परिपूर्ण होना । जैसे,—रणभूमि मुर्दों से पट गई । ३ मकान, कुएँ आदि के ऊपर कच्ची या पक्की छत बनाना । ४ मकान की दूसरी मंजिल या कोठा उठाया जाना । ५ मींचा जाना । सेराव होना । जैसे,—वह खेत पट गया । ६ दो मनुष्यों के विचार, भाव, रुचि या स्वभाव में ऐसी समानता होना जिससे उनमें सहयोगिता या मित्रता हो सके । मन मिलना । बनना । जैसे,—हमारी उनकी कभी नहीं पट सकती । ७ विचारों, भावों या ठचियों की समानता के कारण मित्रता होना । ऐसी मित्रता होना जिसका कारण मनों का मिल जाना हो । जैसे,—आजकल हमारी उनकी खूब पटती है । ८ खरीद, बिक्री, लेन देन आदि में उभय पक्ष का मूल्य, सूद, शर्तों आदि पर सहमत हो जाना । तै हो जाना । बैठ जाना । जैसे, सौदा पट गया, मामला पट गया, आदि । ९ (ऋण या देना) चुकता हो जाना । (ऋण) भर जाना । पाई पाई अदा हो जाना । जैसे,—ऋण पट गया ।

संयो० क्रि०—जाना ।

पटना^२—सज्ञा पुं० [सं० पट्टन] दे० 'पाटलिपुत्र' ।

पटनिया, पटनिहा—वि० [हि० पटना + इया या इहा (प्रत्य०)] १ वह वस्तु जो पटना नगर या प्रदेश में बनी हो । जैसे, पटनिया एक्का । २ पटना नगर या प्रदेश से सबंध रखनेवाला ।

पटनी^१—सज्ञा स्त्री० [हि० पाटना] वह कमरा जिसके ऊपर कोई और कमरा हो । कोठे के नीचे या कमरा । पटौहा ।

पटनी^२—सज्ञा स्त्री० [हि० पटना (= तै होना)] १ जमींदारी का वह अंश जो निश्चित लगान पर मदा के लिये बंदोबस्त कर दिया गया हो । वह जमीन जो किसी को इस्तमरारी पट्टे के द्वारा मिली हो ।

यौ०—पटनीदार ।

विशेष—यदि काश्तकार इस जमीन या इसके अंशविशेष को वे ही अधिकार देकर जो उसे जमींदार से मिले हैं, दूसरे मनुष्य के साथ बंदोबस्त कर दे तो उसे 'दरपटनी' और ऐसे ही तीसरे बंदोबस्त के बाद उसे 'सिपटनी' कहते हैं ।

२ खेत उठाने की वह पद्धति जिसमें लगान और किसान या असामी के अधिकार सदा के लिये निश्चित कर दिए जाते हैं । इस्तमरारी पट्टे द्वारा खेत का बंदोबस्त करने की पद्धति । ३ दो खँटियों के सहारे लगाई हुई पटरों जिसपर कोई चीज रखी जाय ।

पटपट^१—सज्ञा स्त्री० [अनु० पट] हलकी वस्तु के गिरने से उत्पन्न शब्द की बार बार आवृत्ति । 'पट' शब्द अनेक बार होने की क्रिया या भाव । पट शब्द की बार बार उत्पत्ति ।

पटपट^२—क्रि० वि० बराबर पट ध्वनि करता हुआ । 'पटपट' आवाज के साथ । जैसे, पटपट बूँदे पड़ने लगी ।

पटपटाना—क्रि० अ० [हि० पटकना] भूख प्यास या सरदी गरमी के मारे बहुत बूट पाना । बुरा हाल होना । २ किसी चीज से पटपट ध्वनि निकलना । जैसे,—ये चने खूब पटपटा रहे हैं ।

पटपटाना^२—क्रि० स० १ किसी चीज को वजा या पीटकर पटपट शब्द उत्पन्न करना । जैसे,—व्यर्थ क्या पटपटा रहे हो ? २ खेद करना । शोक करना ।

पटपर^१—वि० [वि० पट + अनु० पर] समतल । बराबर । चौरस । हमवार ।

पटपर^२—सज्ञा पुं० १ नदी के आसपास की वह भूमि जो बरसात के दिनों में प्रायः सदा डूबी रहती है । इसमें केवल रबी की खेती की जाती है । २ ऐसा जगल जहाँ घास, पेड़ और पानी तक न हो । अत्यंत उजाड़ स्थान ।

पटबंधक—सज्ञा पुं० [हि० पटना + सं० बन्धक] एक प्रकार का रेहन जिसमें महाजन या रेहनदार रखी हुई संपत्ति के लाभ में से सूद लेने के बाद जो कुछ बच जाता है उसे मूल ऋण में मिनहा करता जाता है और इस प्रकार जब सारा ऋण वसूल हो जाता है तब संपत्ति उसके वास्तविक स्वामी को लौटा देता है ।

क्रि० प्र०—करना ।—देना ।—लेना ।—रखना ।

पटविजना—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पट + विज्जु] 'पटवीजना' । उ०—
शून्य विजना के पटविजना से, चाँद सितारे आसमान के, जरा
मरगु से मुक्त न देखे, देखा—अपने ही समान थे ।—हस०,
पृ० ५४ ।

पटवीजना—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पट (= वरावर) + विज्जु (= विजली)]
जुगुनू । खद्योत ।

पटभाक्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन काल का एक यत्र जिससे आँख
को देखने में सहायता मिलती थी ।

पटमंजरी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पटपञ्जरी] सपूर्ण जाति की एक शुद्ध
रागिनी जो हिंडोल राग की स्त्री है ।

विशेष—हनुमत् के मत से इसका स्वरग्राम यह है—प घ नि सा
रे ग म प । इसका गान समय ६ दड से १० दड तक है ।
एक और मत से यह श्री राग की रागिनी है और इसका
गान समय एक पहर दिन के बाद है ।

कोई कोई इसे सकर रागिनी भी मानते हैं । इसमें से कुछ के
मत से यह नट और मालश्री के मिलाने से बनी है । दूसरे
इसे मारु, बूलश्री, गाधारी और घनाश्री के संयोग से बनी
हुई मानते हैं ।

पटमंडप—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पटमण्डप] तवू । खेमा । शिविर ।

पटम^१—वि० [हि० पटपटाना] वह जिसकी आँखें भूख से पटपटा
या बैठ गई हो । जो भूख के मारे श्रधा हो गया हो ।

पटम^(२)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पटु] धोखा । छल । छद्म । पाखंड ।
पटुता । इन बातों मोहि अचिरज आवै । पटम किए पिव
कैसे पावै ।—सतवानी० पृ० १० ।

पटमय^१—वि० [सं०] कपड़े से बना हुआ [को०] ।

पटमय^२—सञ्ज्ञा पुं० तवू । खेमा ।

पटरक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पटेर । गोदपटेर ।

पटरा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पट + हि० रा (प्रत्य०) अथवा सं० पटल]
[श्री० अल्पा० पटरी] १ काठ का लवा चौकोर और चौरस
चीरा हुआ हुआ टुकड़ा जो लवाई चौड़ाई के हिसाब से बहुत
कम मोटा हो । तख्ता । पल्ला ।

विशेष—काठ के ऐसे भारी टुकड़े को जिसके चारो पहल वरावर
या करीब करीब वरावर हो अथवा जिसका घेरा गोल हो
'कुदा' कहेंगे । कम चौड़े पर मोटे लवे टुकड़े को 'वल्ला' या
वल्ली कहेंगे । बहुत ही पतली वल्ली को छह कहेंगे ।

मुहा०—पटरा कर देना = (१) किसी खड़ी चीज को गिराकर
पटरी की तरह जमीन के वरावर कर देना । (२) मनुष्य,
वृक्ष आदि को काटकर गिरा देना । मार काट कर फैला ।
देना या बिछा देना । जैसे,—शाम तक उसने सारे का मारा
जगल काट कर पटरा कर दिया । (३) चौपट कर देना ।
तवाह कर देना । सर्वनाश कर देना । जैसे,—इस वर्ष के
अकाल ने तो पटरा कर दिया । पटरा होना = मरकर गिर
जाना । मर जाना । नष्ट हो जाना । स्वाहा हो जाना ।
जैसे,—इस साल हैजे से हजारों पटरा हो गए ।

२. घोषी का पाट । ३. हेगा । पाटा ।

मुहा०—पटरा फेरना = किसी के घर को गिराकर जुते हुए
खेत की तरह चौरस कर देना । घस कर देना । तवाह
कर देना । पटरा हो जाना = मर कटकर नष्ट हो जाना ।

पटरागिनि^(१)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पटरानी' । उ०—पट-
रागिनि पाँवार रूप रभा गुन जुव्वन । प्रमुदा प्रान समान
नहीं विसरत एक छन ।—पृ० रा०, १।३७० ।

पटरानी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पट + रानी] वह रानी जो राजा के
साथ सिंहासन पर बैठने की अधिकारिणी हो । किसी राजा
की विवाहिता रानियों में सर्वप्रधान । राजा की सबसे बड़ी
रानी । राजा की मुख्य रानी । पट्टरानी । पाटमहिपी ।

पटरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पटरा] १ काठ का पतला और लंबोतरा
तख्ता ।

मुहा०—पटरी जमना = घुड़सवारी में जीन पर सवार का रानो
को इस प्रकार चिपकाना कि घोड़े के बहुत तेज चलने या
शरारत करने पर भी उसका आसन स्थिर रहे । रान बैठाना
या जमाना । पटरी बैठना = मन मिलना । मित्रता होना ।
मेल होना । पटना । जैसे,—हमारी उनकी पटरी कभी
न बैठेगी ।

२ लिखने की तख्ती । पटिया । १ वह चौड़ा खपडा जिसपर
नरिया जमाते हैं । ४ सडक के दोनो किनारों का वह कुछ
ऊँचा और कम चौड़ा भाग जो पैदल चलनेवालों के लिये
होता है । ५. नहर के दोनो किनारों पर के रास्ते । ६
बगीचों में क्यारियों के इधर उधर के पतले पतले रास्ते जिनके
दोनों ओर सुदरता के लिये घास लगा दी जाती है । रविश ।
७. सुनहरे या रुपहले तारों से बना हुआ वह फीता जिसे
साडी, लहंगे या किसी कपड़े की कोर पर लगाते हैं । ८ हाथ
में पहनने की एक प्रकार की पट्टीदार चौड़ी जूड़ी जिमपर
नक्काशी बनी होती है । ९ जतर । चौकी । तावीज ।

पटल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. छप्पर । छान । छत । २. आवरण ।
पर्दा । आड करने या ढकनेवाली कोई चीज । ३. परत ।
तह । तबक । ४. पहल । पापत्र । ५. आँख की बनावट की
तह । आँख के पर्दे । ६. मोनियाविद नामक आँख का
रोग । पिटारा । ७. लकड़ी आदि का चौंस टुकड़ा । पटरा ।
तख्ता । ८. पुस्तक का भाग या अक्षविशेष । परिच्छेद । ९.
माथे पर का तिलक । टीका । १०. समूह । ढेर । अन्नार ।
११. लाव लश्कर । लवाजमा । परिच्छेद । १२. वृक्ष ।
पेठ (को०) । १३. पिटक । पिटारी (को०) । १४. पुस्तक । ग्रथ
(को०) । १५. वृत्त । डठल (को०) ।

पटलक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. आवरण । पर्दा । झिलमिली । वुरका ।
२. कोई छोटा सडक, डलिया या टोकंग । ३. समूह । राशि ।
ढेर । अन्नार ।

पटलता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. पटल का काम । २. अधिकता ।
उ०—जौन अग ढिग हँ कदी हुई ऐन की छाँह ।
अजहँ लीं अवलोकिये, पुलक पटलता ताह ।—मतिराम
पं०, पृ० २०५ ।

- पटलप्रांत**—सज्ञा पु० [सं० पटलप्रांत] छप्पर का सिरा या किनारा ।
- पटला**—सज्ञा स्त्री० [सं०] भीमा के आकार की नौका । ६४ हाथ लंबी, ३२ हाथ चौड़ी और ३२ हाथ ऊँची नाव । (युक्ति कल्पतरु) ।
- पटली**^१—सज्ञा स्त्री० [सं० पटल] १ छप्पर । छान । छत । २ वृक्ष (को०) । ३. डठल । वृत्त (को०) । ४ समूह । झुंड । पक्ति । उ०—नव पल्लव कुसुमित तरु नाना । चचरीक पटली कर गाना ।—मानस, ३।३४ ।
- पटली**^२—सज्ञा स्त्री० [हिं०] २० 'पटरी' । उ०—उत्तम पटली प्रेम की रे डोरी सुरति लगाई ।—सुदर ग्र०, भा० २, पृ० ८२६ ।
- मुहा०**—पटली बैठना = मिश्रता होना । मन मिलना । पटरी बैठना । उ०—पटली है बैठने की गोरे की साँवले से ।—वेला, पृ० ६० ।
- पटवा**^१—सज्ञा पुं० [सं० पाट+वाह (प्रत्य०)] [स्त्री० पटइन] रेशम या सूत में गहने गूथनेवाला । पटहार । उ०—कतहुँ तमोलिय पान भुलाने । कहुँ पटवा पाटहि श्ररुमाने ।—इंद्रा०, पृ० १५ ।
- पटवा**^२—सज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का वैल जिसका रंग नारंगी का सा होता है । यह वैल मजबूत और तेज चलनेवाला होता है ।
- पटवा**^३—सज्ञा पुं० [सं० पाट] पटसन की जाति का एक प्रकार का पौधा । लाल अवारि ।
- विशेष**—यह पौधा बगाल में अधिकता से बोया जाता है । कहीं कहीं यह वागों में शोभा के लिये भी लगाया जाता है । इसमें एक प्रकार की कलियाँ लगती हैं जो खाई जाती हैं । इसके तनों से एक प्रकार का रेशा निकलता है और इसके फल तथा बीज कहीं कहीं औषधि रूप में काम में आते हैं ।
- पटवाद्य**—सज्ञा पुं० [सं०] झाँझ के आकार का एक प्राचीन वाजा जिससे ताल दिया जाता था ।
- पटवाना**^१—क्रि० सं० [हिं० पाटना का प्रे० रूप] १ पाटने का काम दूसरे से कराना । २ आच्छादित कराना । छत डलवाना जैसे, घर पटवाना । ३ गड्ढे आदि को भरकर आसपास की जमीन के बराबर कराना । भरवा देना । पूरा करा देना । जैसे, गड्ढा पटवा देना । ४ सिंचवाना । पानी से तर कराना । ५ ऋण आदि श्रदा करा देना । चुकवा देना । पटाना । दाम दाम दिलवा देना । जैसे—उसने अपने मित्र से वह ऋण पटवा दिया ।
- पटवाना**^२—क्रि० सं० [हिं० 'पटाना का प्रे० रूप] (पीडा या कष्ट) दूर कर देना । मिटाना । बंद करना । शांत करना ।
- पटवाप**—सज्ञा पुं० [सं०] खेमा । तबू [को०] ।
- पटवारगिरी**—सज्ञा स्त्री० [हिं० पटवारी+फ़ा० गरी] १ पटवारी का काम । जैसे,—इन्होंने २० साल तक पटवारगिरी की है । २ पटवारी का पद । जैसे,—उस गाँव की पटवारगिरी इन्हीं को मिलनी चाहिए ।
- पटवारी**^१—सज्ञा पुं० [सं० पट+कार, हिं० वार] गाँव की जमीन और

उसके लगान का हिसाब बिताव रखनेवाला एक छोटा सरकारी कर्मचारी ।

पटवारी^२—सज्ञा स्त्री० [सं० पट+हिं० वारी (प्रत्य०)] कपड़े पहनानेवाली दासी । उ०—पानदानवारी बेती पीकदानवारी चौरवारी पखावारी पटवारी चली घाय कैं ।—रघुगज (शब्द०) ।

पटवास—सज्ञा पुं० [सं०] १ वस्त्रनिमित्त गृह । शिविर । तबू । २ वह वस्तु या चूर्ण जिससे वस्त्र सुगंधित किया जाय । वे सुगंधियाँ या चूर्ण जिनसे कपड़ा वासित (सुगंधित) करने का काम लिया जाय । उ०—जल थल फन फूल भूरि, अवर पटवास घूरि, स्वच्छ यच्छ कर्दम हिय देवन ग्रभिलापे ।—केशव (शब्द०) । ३ लहंगा । साया ।

पटवासक—सज्ञा पुं० [सं०] पटवास चूर्ण । वस्त्र बगानेवाली सुगंधियों का चूर्ण ।

पटवेशम—सज्ञा पुं० [सं० पटवेशमन] खेमा । तबू [को०] ।

पटसन—सज्ञा पुं० [सं० पाट+हिं० सन] १. एक प्रसिद्ध पौधा जिसके रेशे से रस्सी, बोरे, टाट और वस्त्र बनाए जाते हैं ।

विशेष—यह गरम जलवायुवाले प्रायः सभी देशों में उत्पन्न होता है । इसके कुल ३६ भेद हैं जिनमें से ८ भारतवर्ष में पाए जाते हैं । इन ८ में से दो मुख्य हैं और प्रायः इन्हीं की खेती की जाती है । इसके कई भेद अब भी वन्य अवस्था में मिलते हैं । दो मुख्य भेदों में से एक को 'नरछा' और दूसरे को 'वनपाट' कहते हैं । 'नरछा' विशेषतः बगाल और भ्रामाम में बोया जाता है । वनपाट की अपेक्षा इसके रेशे अधिक उत्तम होते हैं । नरछे का पौधा वनपाट के पौधे से ऊँचा होता है । और पत्ती तथा कली लंबी होती है वनपाट की पत्तियाँ गोल, फूल नरछे से बड़े और कली की चौंच भी नरछे से कुछ अधिक लंबी होती है । पटसन की बोआई भदई जिन्यों के साथ होती है और कटाई उस समय होती है जब उसमें फूल लगते हैं । इस समय न काट लेने से रेशे बड़े हो जाते हैं । बीज के लिये थोड़े से पौधे खेत में एक किनारे छोड़ दिए जाते हैं, शेष काटकर और गड्ढों में बंधकर नदी, तालाब या गड्ढों के जल में गाड़ दिए जाते हैं । तीन चार दिन बाद उन्हे निकालकर डठल से छिलके को अलग कर लेते हैं । फिर छिलको को पत्थर के ऊपर पछाड़ते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी में धोते हैं जिससे कड़ी छाल बटकर धुल जाती है और नीचे की मुलायम छाल निकल आती है । छिलके या रेशे अलग करने के लिये यंत्र भी है, परंतु भारतीय किसान उसका उपयोग नहीं करते । यंत्र द्वारा अलग किए हुए रेशों की अपेक्षा सड़ाकर अलग किए हुए रेशे अधिक मुलायम होते हैं । छुड़ाए और सुखाए जाने के अनंतर रेशे एक विशेष यंत्र में दवाए अथवा कुचले जाते हैं । जबतक यह क्रिया होती रहती है, रेशों पर जल और तेल के छींटे देते रहते हैं जिससे उनकी रुखाई और कठोरता दूर होकर, कोमलता, चिकनाई और चमक आ जाती है । आजकल पटसन के रेशों से तीन काम लिए जाते हैं—मुलायम, लचीले रेशों से कपड़े तथा टाट बनाए जाते हैं, कड़े रेशों से रस्से,

रस्सियाँ और जो इन दोनों कामों के अयोग्य समझे जाते हैं उनसे कागज बनाया जाता है। रेशो की उत्तमता, अनुत्तमता के विचार से भी पटसन के कई भेद हैं। जैसे, उत्तरिया, देसवाल, देसी, झोरा या डोरा, नारायनगजी, सिराजगजी आदि। इनमें उत्तरिया और देसवाल सर्वोत्तम हैं। पटसन के रेशे अन्य वृक्षो या पीघो के रेशो से कमजोर होते हैं। रग इसके रेशों पर चाहे जितना गहरा या हलका चढाया जा सकता है। चमक, चिकनाई आदि में पटसन रेशम का मुकाबला करता है, जिस कारखाने में पटसन के सूत और कपडे बनाए जाते हैं उनको जूट मिल और जिस यत्र में दाव पहुँचाकर रेशो को मुलायम और चमकीला बनाया जाता है उसे 'जूट प्रेस' कहते हैं।

२ पटसन के रेशे। पाट। जूट।

विशेष—(क) पटसन से रस्से, रस्सियाँ टाट और टाट ही की तरह का एक मोटा कपडा तो बहुत दिनों से लोग बनाते रहे हैं, पर उसका बारीक रेशम तुल्य सूत और उनसे बहु-मूल्य वस्त्र तैयार करने की ओर उनका ध्यान नहीं गया था। अब उसका खूब महीन सूत भी बनने लग गया है। (ख) कुछ लोगों का यह अनुमान है कि नरछा नामक उत्तम जाति के पटसन के बीज भारत में चीन से लाए गए हैं। बगाल और आसाम के जिन जिन भागों में नरछे की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है वहाँ की जलवायु में चीन की जलवायु से बहुत कुछ समानता है।

पटसाली—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पटशाली] धारवाड प्रांत की जुलाहो की एक जाति जो रेशमी वस्त्र बुनती है।

पटहसिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] सपूर्ण जाति की एक रागिनी जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं। यह रागिनी १७ दड से २० दड तक के बीच में गाई जाती है।

पटह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ दुडुभी। नगाडा। डका। आडवर। २ घडा डोल। ३ समारभ। किसी कार्य को आरम्भ करना (को०)। ४ हिंसन। नुकसान पहुँचाना (को०)।

पटहघोषक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] डोल पीटकर घोषणा करनेवाला व्यक्ति।

पटहभ्रमण—सञ्ज्ञा पुं० [म०] (लोगो को एकत्र करने के लिये) घूम घूमकर डुंगी या डोल पीटना [को०]।

पटहवेला—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] डुंगी पीटे जाने का समय।

पटहार, पटहारा^१—वि० [पाट + हि० हार (प्रत्यय०)] रेशम के डोरे बनानेवाला। रेशम के डोरो से गहना गूँथनेवाला।

पटहार, पटहारा^२—सञ्ज्ञा पुं० [स्त्री० पटहारिन या पटेरिन] एक जाति जो रेशम या सूत के डोरे से गहने गूँथती है। पटवा।

पटहारिन—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पटहार] १ पटहार की स्त्री। २ पटहार जाति की स्त्री।

पटा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पट] प्राय दो हाथ लंबी किर्च के आकार की लोहे की फट्टी जिससे तखवार की काट और वचाव सीधे

जाते हैं। उ०—पटा पवडिया ना लहे, पटा लहे कोई सूर।—दरिया०, पृ० १५।

पटा^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पट] पीड़ा। पटरा। उ०—चीका चौकी पीठी पटा भारी पनिगह, पलइठि तेआए आसन।—वर्ण-रत्नाकर, पृ० १२।

मुहा०—पटाफेर = विवाह की एक रस्म जिसमें वर वधू के आसन परस्पर अदल बदल दिए जाते हैं। पटा धांधना = पटरानी बनाना। उ०—चौदह सहस तिया में तोको पटा बंधाऊँ आज।—सूर (शब्द०)।

२ (पट की तरह समतल होने के कारण) गडम्यल। जैसे, कनपटा, कनपटी।

यौ०—पटाकर।

पटा^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पट्ट] १ अधिकारपत्र। सनद। पट्टा। उ०—(क) विधि के कर को जो पटो लिखि पायो।—तुलसी (शब्द०)। (ख) सतगुरु साह साध सौदागर भक्ति पटो लिखवइयो हो।—घरम०, पृ० ११। २. पगडी या कलंगी की तरह का एक भूषण जो पहले राजाओं द्वारा किसी विशिष्ट कार्य में सफलता प्राप्त करने या श्रेष्ठ वीरता-प्रदर्शन पर सामंतों को दिया जाता था। उ०—सिर पटा छाप लोहान होइ। लगें सु सरह सय पाइ लोइ।—पृ० रा०, ४।१५।

पटा^४—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पटना] लेन देन। क्रय विक्रय। सीदा। उ०—मन के हटा में पुनि प्रेम को पटा भयो।—पद्माकर (शब्द०)।

पटा^५—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] १ चौडी लकीर। धारी। २ लगाम की मुहरी। ३ चटाई। ४. 'पट्टा'।

पटाई^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पटाना] पटाने की क्रिया या भाव। सिचाई। आबपाशी। उ०—दूधे पटाइअ सींचीप्र नीत, सहज तजे करइला तीत।—विद्यापति, पृ० २१३। २ सिचाई की मजदूरी।

पटाई^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाटना] १ पाटने की क्रिया या भाव। २ पाटने की मजदूरी।

पटाक^१—[अनु०] किसी छोटी चीज के गिरने का शब्द। जैसे,—वह पटाक से गिरा।

विशेष—चटाक, घडाम आदि अनुकरण शब्दों के समान इसका व्यवहार भी सदा 'से' विभक्ति के साथ क्रियाविशेषणवत् होता है। सञ्ज्ञा की भाँति प्रयुक्त न होने के कारण इसका कोई लिंग नहीं माना जा सकता।

पटाक^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक पक्षी [को०]।

पटाका^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पट (अनु०)] १ पट या पटाक शब्द। २ पट या पटाक शब्द करके छूटनेवाली एक प्रकार की आतशवाजी।

क्रि० प्र०—छोटना।

३ पटाके की ध्वनि। कोडे या पटाके की आवाज। ४ तमाचा। थप्पड। चपत।

क्रि० प्र०—जमाना ।—देना --लगाना ।

पटाका^२—सञ्ज्ञा स्त्री० युवती अथवा कम अवस्थावाली स्त्री (वाजारू) ।

पटाका^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] दे० 'पताका' [को०] ।

पटाक्षेप—सञ्ज्ञा पुं० [स०] पर्दा गिरना या गिराना । जवनिका गिराना । जवनिकापात [को०] ।

पटाखा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पट अनुध्व०] दे० 'पटाका' ।

पटाफर^७—वि० [हि० पटा + फरना] मदसावी । मतवाला (हाथी) । उ०—वस नहि होत सुजान पटाफर गज है जैसे । कमल नाल के तनु बंधे रुकि रहिहै कैसे ।—ब्रज० अ०, पृ० ७० ।

पटान—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाटना] पाटने की क्रिया या भाव । पटाव ।

पटाना—क्रि० स० [हि० पट (=समतल)] १ पाटने का काम कराना । गड्ढे आदि को भरकर आसपास की जमीन के बराबर कराना । २ छत को पीटकर बराबर कराना । ३ पाटन बनवाना छत बनवाना । जैसे, कोठा पटाना । ४ ऋण चुका देना । अदा कर देना । जैसे,—मैंने उनका सब पावना पटा दिया । ५ बेचनेवाले को किसी मूल्य पर सौदा देने के लिये राजी कर लेना । मूल्य तै कर लेना । जैसे, सौदा पटाना । ६ सीचना । जल से सिंचित करना । जैसे, खेत पटाना ।

पटाना^२—क्रि० अ० शात होकर बैठना । चुपचाप बैठना ।

पटापट^१—क्रि० वि० [अनु० पट] लगातार बारबार 'पट' ध्वनि के साथ । निरंतर पट पट शब्द करते हुए । 'पट पट' की ऐसी आवृत्ति जिसमें दो ध्वनियों के मध्य बहुत ही कम अवकाश हो और एक सम्मिलित ध्वनि सी जान पड़े । तेजी से । जैसे,—पटापट मार पड़ी । उ०—प्रेम की घटा में बुद परे पटापट ।—बलदू०, पृ० २७ ।

पटापट^२—सञ्ज्ञा स्त्री० निरंतर पटपट शब्द की आवृत्ति । ऐसी 'पटपट' ध्वनि जिसमें दो ध्वनियों के बीच इतना कम अवकाश हो कि अनुभव में न आ सके । जैसे,—इस पटापट से तो तवीअत परेशान हो गई ।

पटापटी—सञ्ज्ञा स्त्री० [अनु०] वह वस्तु जिसमें अनेक रंगों के फूल पत्ते कढ़े हों । वह वस्तु जो कई रंगों से रेंगी हुई हो । चित्र विचित्र वस्तु । उ०—सारी जरतारी भारी उत चटापटी की लागी जामे गोट तमामी पटापटी की ।—रत्नाकर, भा० १, पृ० ६ ।

मुहा०—पटापटी का पर्दा = वह पर्दा जितने रंग विरग के फूल पत्ते या समोसे आदि कढ़े हों । पटापटी की गोट = वह रंग विरगी गोट जिसमें सिंघाडे आदि कढ़े हों ।

पटार—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं० पिटक] १ पिटारा । पेटी । मजूषा । २ पिजड़ा । ३ रेशम की रस्सी का निवार । ४ कनखजूरा । (बु देलखड़ी) ।

पटालुका—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] जोक । जलीका ।

पटाव—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पाटना] १ पाटने की क्रिया । २ पाटने का भाव । ३ पटा हुआ स्थान । पाटकर चौरस किया हुआ स्थान । ४ दीवारों के आधार पर पाटकर बनाया हुआ ऊँचा स्थान । पाटन । ५ लकड़ी का वह मजबूत तस्ता जिसे दरवाजे के ऊपरी भाग पर रखकर उसके ऊपर दीवार उठाते हैं । भरेठा ।

पटि—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं० पटी] १ कोई छोटा वस्त्र या वस्त्रखंड । २ जलकुम्भी । ३ रगमच का पर्दा (को०) । ४ कनात (को०) ।

पटिआ—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पटिया' ।

पटिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [स०] कोई छोटा वस्त्र या वस्त्रखंड ।

पटिछेप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] यवनिकापात । रगमच का पर्दा गिराना [को०] ।

पटिया^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं० पटिका] १ पक्षर का प्रायः चौकोर और चौरस कटा हुआ टुकड़ा जिसकी मोटाई लवाई चौड़ाई के हिसाब से बहुत कम हो । चिपटा चौरस शिलाखंड । फलक । उ०—जहाँ मण्णजटित पटिया विछी है यही माधवी कुज है ।—शकु तला, पृ० ११२ । २ काठ का छोटा तस्ता । ३ खाट या पलग की पट्टी । पाटी । ४ पटरी । फुटपाथ । उ०—एक युवक पुल की लकड़ी में पटिया पर खड़ा पोस्ट आफिस की ओर मुख किए इस दृश्य को देख रहा था । पिंजरे०, पृ० १६ । ५ माँग । पट्टी । उ०—समुक्त की पटिया पारो सजनीं छुटिया गुहो सम्हार हो ।—कवीर श०, भा० २, पृ० १३४ ।

क्रि० प्र०—काढ़ना ।—पारना ।—सँवारना ।

५ हेगा । पाटा । ६ कवल या टाट की एक पट्टी । ७ लिखने की पट्टी । तख्ती । ८ सँकरा और लवा खेत ।

पटिया^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाटना + इया (प्रत्य०)] चिपटे तले की बड़ी और ऊपर से पटी हुई नाव जो बदरगाहों में जहाज से बोझ उतारने और चढाने के काम में आती है (लश०) ।

पटियैता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पटि + ऐत (प्रत्य०)] दायाद । पट्टीदार । उ०—आज अखाडे जाते हुए पहलवान रामसिंह के पडोसी पटियैत से चार आँखें हुई, शीलवान मनोहर को उन्होंने चग पर चढाया, कहा जोर कराने जा रहे हो ।—काले०, पृ० २ ।

पटी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पटि' [को०] ।

पटी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं० पट] १ कपड़े का पतला लवा टुकड़ा । पट्टी । उ०—मीत विरह की पीर को सकी न पलट्टग काँध । रूप कपूर लगाइ कै प्रीति पटी सो बाँध ।—रसनिधि (शब्द०) । २ पटका । कमरबंद । उ०—पीट पटी लपटी कटि में अरु साँवरो सुदर रूप सँवारे ।—देव (शब्द०) ।

पटीमा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पट्टी] छीपियों का वह तस्ता जिसपर वे छापते समय कपड़े को बिछा लेते हैं ।

पटीर—सञ्ज्ञा पुं [स०] १ एक प्रकार का चदन। उ०—लावति वीर पटीर घसि ज्यो ज्यो सीरे नीर। त्यों त्यों ज्वाल जगै दई या मृदु बाल सरीर।—स० सप्तक पृ० २३०। २ कत्या। ३ कत्ये या खैर का वृक्ष। ४. मूली। ५ वटवृक्ष। उ०—जटिल पटीर कृपाल बट रक्तफला न्यग्रोध। यह बसीवट देखु बलि सब सुख निरुपघ बोध।—नददास (शब्द०)। ६ कटुक। गेंद (को०)। ७ कामदेव (को०)। ८ केश (को०)। ९ मेघ। बादल (को०)। १० वातरोग (को०)। ११ प्रतिश्याय। ठढक। जुकाम (को०)। १३ क्यारी (को०)। १४ ऊँचाई। उच्चता (को०)। १५ उदर (को०)।

पटीर^२—वि० १ सुदर। सौंदर्ययुक्त। २ ऊँचा। [को०]।

पटीरजन्मा—सञ्ज्ञा पुं [स० पटीरजन्मन्] चदन का वृक्ष [को०]।

पटीरमारुत—सञ्ज्ञा पुं [स०] चदन के संपर्क से सुगन्धित हवा [को०]।

पटीलना—क्रि० अ० [हिं० पटाना] १ किसी को उलटी सीधी बातें समझा बुझाकर अपने अनुकूल करना। ढग पर लाना। हथे चढाना। उतारना। २ अर्जित करना। कमाना। प्राप्त करना। ३ ठगना। छलना। ४ मारना। पीटना। ठोंकना। ५ परास्त करना। नीचा दिखाना। ६ सफलतापूर्वक किसी काम को समाप्त करना। खतम करना। पूर्ण करना।

सयो० क्रि०—ढालना।—देना।—लेना।

पटीला(पुं)।—सञ्ज्ञा पुं [हिं०] चिपटा कडा। पछेला। पटेला। उ०—चाल की घुरिया पहिरो सजनी परख पटीला डार हो।—कवीर, श०, भा० २, पृ० १३४।

पटु^१—वि० [स०] १ प्रवीण। निपुण। कुशल। दक्ष। उ०—नदी नाव पटु प्रश्न अनेका। केवट कुसल उतर सविवेका।—मानस, १।४१। २ चतुर। चालाक। होशियार। ३ धूर्त। छलिया। मक्कार। फरेबी। ४ निष्ठुर। अत्यंत कठोर हृदयवाला। ५ रोगरहित। तदुरुस्त। स्वस्थ। ६ तीक्ष्ण। तीखा। तेज। ७ उग्र। प्रचंड। ८ स्फुट। प्रकाशित। व्यक्त। ९ सुदर। मनोहर। उ०—(क) रघुपति पटु पालकी मँगाई। तुलसी (शब्द०)। (ख) पौढाये पटु पालने सिमु निरखि मगन मन मोद।—तुलसी (शब्द०)।

पटु^२—सञ्ज्ञा पुं १ नमक। २ पाशुलवण। पांगा नोन। ३ परवल। ४ परवल के पत्ते। ५ करेला। ६ चिरचिटा नाम की लता। ७ चीनी कपूर। ८ जीरा। ९ वच। १० नक-छिकनी। ११ छत्रक। कुकुरमुत्ता (को०)।

पटुआ—सञ्ज्ञा पुं [हिं०] दे० 'पटुवा १ और २'।

पटुक—सञ्ज्ञा पुं [स०] परवल।

पटुकल्प—वि० [म०] कुछ कम पटु। जो पूर्ण कुशल या चालाक न हो। कामचलाऊदक्ष।

पटुका—सञ्ज्ञा पुं [स० पटिका] १ दे० 'पटका'। उ०—हरीचंद पिय मिले तो पग परि गहि पटुका समझाऊँ।—भारतेंदु ग्रं०, भा० १, पृ० ४६३। २ चादर। गले में ढालने का वस्त्र। उ०—कटि काछनि सिर मुकुट विराजत, कांधे पर

सोहै पटुका लहरिया।—भारतेंदु ग्रं०, भा० २, पृ० ४३५। ३ धारीदार चारखाना।

पटुकी—सञ्ज्ञा स्त्री [हिं०] कमरबंद। पटका। पटुका। उ०—कोउ नगधर वर पिय की गहि रहि परिकर पटुकी। जनु नवघन ते सरकि दामिनी छटा सु अटकी।—नद० ग्रं०, पृ० २०।

पटुता—सञ्ज्ञा स्त्री [स०] १ पटु होने का भाव। प्रवीणता। निपुणता। होशियारी। २ चतुराई। चालाकी।

पटुतूलक—सञ्ज्ञा पुं [स०] एक घास। लवणतृण।

पटुतृणक—सञ्ज्ञा पुं [स०] लवणतृण नाम की घास।

पटुत्रय—सञ्ज्ञा पुं [स०] वैद्यक का एक पारिभाषिक शब्द जिससे तीन नमको का बोध होता है—विड नोन, सेंधा नोन और काला नोन।

पटुत्व—सञ्ज्ञा पुं [स०] पटुता।

पटुपत्रिका—सञ्ज्ञा स्त्री [स०] छोटे घेंच का पीघा।

पटुपर्णिका—सञ्ज्ञा स्त्री [म०] एक प्रकार की कटेहरी।

पटुपर्णी—सञ्ज्ञा स्त्री [स०] एक प्रकार की कटेहरी। सत्यानाशी। कटेहरी। स्वर्णक्षीरी। भंडभांड।

पटुमात्—सञ्ज्ञा पुं [स०] भ्राघ्रवश का एक राजा। किसी किसी पुराण में इसका नाम पटुमान् या पटुमायि मिलता है।

पटुरूप—वि० [स०] अत्यंत चतुर [को०]।

पटुली—सञ्ज्ञा स्त्री [स० पट्ट] १ काठ की पटरी जो झूलों के रस्सों पर रखी जाती है। तख्ता। पटल। उ०—दोऊ हाथन की हथेली ताकी पटुली कौ भाव करे तामें श्रीठाकुर जी को डोल झुलाए।—दो सी बावन०, भा० १, पृ० २२६। २ चौकी पीढी। उ०—पटुली कनक की तिही बानक की बनी मनमोहनी।—नद० ग्रं०, पृ० ३७५। ३ गाडी या छकड़े में जडा हुआ लबा चिपटा डडा।

पटुवा(पुं)।—सञ्ज्ञा पुं [हिं०] दे० 'पटवा'। उ०—पटुवन्ह चीर आनि सब छोरे। सारी कघुकी लहुरि पटोरे।—जायसी ग्रं० (गुप्त), पृ० ३४४।

पटुवा^२—सञ्ज्ञा पुं [स० पाट] १ पटसन। जूट। २ एक साग। करेमू।

पटुवा^३—सञ्ज्ञा पुं [हिं० पटला] गून के सिरे पर बँधा हुआ डडा जिसको पकड़े हुए माँझी लोग गून खींचते हैं।

पटुवा^४—सञ्ज्ञा पुं [देश०] तोता। शुक्र।

पटुका(पुं)।—सञ्ज्ञा पुं [स० पट या देश०] दे० 'पटका'।

पटुबाज—सञ्ज्ञा पुं [हिं० पटा + फा० बाज] १ पटा खेलने-वाला। पटे से लडनेवाला। पटैत। २ एक खिलौना जो हिलाने से पटा खेलता है। ३ छिनाल स्त्री। कुलटा परंतु चतुरा स्त्री (बाजारू)। ४ व्यभिचारी और धूर्त पुरुष (बाजारू)।

पटेर—सञ्ज्ञा स्त्री [स० पटेरक] पानी में होनेवाली सरकड़े की जाति की एक प्रकार की घास। गोद पटेर। उ०—फटत

पटेरहि लागत बार । अस कछु कीनो नदकुमार ।—नंद ग्र०, पृ० २५८ ।

विशेष—इसके पत्ते प्राय एक इंच चौड़े और चार पाँच फुट तक लंबे होते हैं । पत्ते बहुत मोटे होते हैं और पत्तों में ये नए पत्ते निकलते हैं । इन पत्तों से चटाइयाँ आदि बनाई जाती हैं । इसमें बाजरे की बाल की तरह वाले लगती हैं, जिनके दानो का आटा सिंध देश के दरिद्र निवासी खाते हैं । वैद्यक में यह कसैली, मधुर, शीतल, रक्तपित्तनाशक और मूत्र, शुक्र रज तथा स्तनो के दूध को शुद्ध करनेवाली मानी जाती है ।

पर्या०—गुंद्र । पटेरक । रच्छ । श्र गवेराभमूलक ।

पटेरा—सज्ञा पुं० [हिं०] १ दे० 'पटेला' । २ दे० 'पटैला' ।

पटेला^१—सज्ञा पुं० [हिं० पट्टा + (प्रत्य०) ऐल (= बाला)] १ गाँव का नवरदार (मध्यप्रदेश) । २ गाँव का मुखिया । गाँव का चौधरी । एक प्रकार की उपाधि ।

विशेष—यह उपाधि धारण करनेवाले प्राय मध्य और दक्षिण भारत में होते हैं ।

पटेला (सरदार)—सज्ञा पुं० स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री जिनका पूरा नाम वल्लभ भाई पटेल था ।

पटेलना—क्रि० सं० [हिं०] दे० 'पटेलना' ।

पटैला—सज्ञा पुं० [हिं० पाटला स्त्री० अल्पा० पटेली] १ वह नाव जिसका मध्य भाग पटा हो । बेल घोड़े आदि को ऐसी ही नाव पर पार उतारते हैं । २ एक घास जिसकी चटाइयाँ बनाते हैं । वि० दे० 'पटेर' । ३ हेगा । ४ सिल । पटिया । ५ कुपती का पेच जिससे नीचे पड़े हुए जोड़ को चित किया जाता है ।

विशेष—इसमें बाएँ हाथ से जोड़ की गरदन पर कलाई जमाकर उसकी दाहिनी बगल पकड़ लेते और दाहिने हाथ से उसकी दाहिनी ओर का जाँघियाँ पकड़कर स्वयं पीछे हटते हुए उसे अपनी ओर खींचते हैं जिससे वह चित हो जाता है ।

†६ हाथ का कड़ा । पछेला । पछेली ।

पटेली—सज्ञा स्त्री० [हिं० पटैला] छोटी पटैला नाव ।

पटैवा^१—सज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पटवा' । उ०—मोराहारे अंगना पाकडी सुनु बालहिया । पटैवा आरुस बास परम हरि बालहिया । पटैवा भइया हीत नीत सुन बालहिया । चोलरि एक विनि देहि परम हरि बालहिया ।—विद्यापति, पृ० १५४ ।

विशेष—इस उदाहरण से ज्ञात होता है कि गहना गूँथने के साथ ये लोग वस्त्र (रेशमी) बुनने का व्यवसाय भी करते थे ।

पटैव—सज्ञा पुं० [हिं० पटा + ऐत (प्रत्य०)] पटा खेलने या लडनेवाला पटैवाज ।

पटैला—सज्ञा पुं० [हिं० पटरा] १ लकड़ी का बना हुआ चिपटा डडा जो किवाड़ों को बंद करने के लिये दो किवाड़ों के मध्य आड़े बल लगाया जाता है । इसे एक ओर सरकाने से किवाड़

बंद होते और दूसरी ओर सरकाने से खुलते हैं । डडा । ब्योडा । २. दे० 'पटैला' । उ०—कोई पटैले पर बाँसों के ठाट ठाटे हैं ।—प्रेमघन०, भा० २, पृ० ११३ ।

पटोटज—सज्ञा पुं० [सं० पट + उटज] १. तबू । वेमा । २. कुकुरमुत्ता [को०] ।

पटोर—सज्ञा पुं० [सं० पटोल] १ पटोल । २ कोई रेशमी कपडा । उ०—पुनि पट पीत पटोरन पोछत, धरि आगे समुहाइ ।—नद० ग्र०, पृ० ३८६ । ३ परवल ।

पटोरी—सज्ञा स्त्री० [सं० पाट + ओरी (प्रत्य०)] १ रेशमी साडी या घोती । २ रेशमी किनारे की घोती । उ०—घसि चदन इक चोली कीनी कचुकि पहिरि पटोरी लीनी ।—हिंदी प्रेमगाथा०, पृ० १६१ ।

पटोल^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ एक प्रकार का रेशमी कपडा जो प्राचीन काल में गुजरात में बनता था ।

पौ०—पाटपटोल । उ०—दीन्हूउ सोनउ सोलहूउ पाट पटोला बीडा पान ।—वी० रासो, पृ० ६ ।

२ परवल की लता । मोथा श्री पटोल दल आनी । त्रिफला श्री श्रीकुटा समानी ।—इंद्रा०, पृ० १५१ । ३. परवल का फल ।

पटोलक—सज्ञा पुं० [सं०] सीपी । शुक्ति । सुतही ।

पटोलपत्र—सज्ञा पुं० [सं०] १ एक प्रकार की पोई । २ परवल की लता का पत्र ।

पटोलिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] सफेद फूल की तुरई या तरौई ।

पटोली—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ दे० 'पटोलिका' । २. ७ चादर । पटोरी उ०—फाडि पटोली धुज करो कामलडी फहराय । जेहि जेहि भेपे पिय मिलै सोइ सोइ भेप कराय ।—कवीर सा० सं०, पृ० ४१ ।—

पटोसिर^१—सज्ञा पुं० [सं० पट + हिं० सिर] पगडी । साफा । उ० उ०—धन धावन, बगपाँति पटोसिर वैरख तडित सोहाई ।—तुलसी ग्र०, पृ० ४४१ ।

पटौनी—सज्ञा पुं० [देश०] माँझी । मल्लाह ।

पटौर्हाँ—सज्ञा पुं० [हिं० पाटना + श्रौहा (प्रत्य०)] १ पटा हुआ स्थान । २ पटाव के नीचे का स्थान । ३ वह कमरा जिसके ऊपर कोई और कमरा हो । ४ पटवधक ।

पट्ट^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ पीढा । पाटा । २ पट्टी । लख्खी । लिखने की पट्टिया । ३ ताँवे आदि धातुओं की वह चिपटी पट्टी जिसपर राजकीय आज्ञा या दान आदि की सनद खोदी जाती थी । ४ किसी वस्तु का चिपटा या चौरस तल भाग । ५ शिला । पट्टिया । ६ धाव पर बाँधने का पतला कपडा । पट्टी । ७ वह भूमि सबधी अधिकारपत्र जो भूमिस्वामी की ओर से असामी को दिया जाता है और जिसमें वे सब शर्तें लिखी होती हैं जिनपर वह अपनी जमीन उसे देता है । पट्टा । ८ ढाल । ९ पगडी । १० दुपट्टा । ११ नगर । चौराहा । चतुष्पथ । १२ राजसिंहासन ।

पौ०—पट्टमहिपी ।

४ रेशम । १५ लाल रेशमी पगडी । १६ पाट । पटसन । १७ लडाई का वह पहनावा या कवच जिससे केवल घड डका रहे और दोनो बाहे खुली रहे (कोटि०) । १८ उत्तम और वारीक रगीन वस्त्र (को०) ।

पट^२—वि० [सं०] मुख्य । प्रधान ।

पट्ट^३—वि० [देश०] दे० 'पट' २ ।

पट्ट^४—[अनु०] दे० 'पट' १ ।

पट्टक—सज्ञा पुं० [?] १ लिखने की पट्टी या पटिया । तख्ती । २ ताअपट पर खुदी हुई राजाज्ञा या अन्य विषय । ४ दस्तावेज । इकरारनामा । ५ वह रेशमी वस्त्र जिसकी पगडी बनाई जाय । ६ घाव पर बाँधने की पट्टी । ७ पटका । कमरबंद ।

पट्टकीट—सज्ञा पुं० [सं०] रेशम का कीडा [को०] ।

पट्टज—सज्ञा पुं० [सं०] टसर का कपडा । रेशमी वस्त्र ।

पट्टण—सज्ञा पुं० [म० पत्तन] दे० 'पट्टन' । उ०—काया माँहै पट्टण गाँव, काया माँहै उत्तम ठाँव । —दादू० ६४५ ।

पट्टदेवी—सज्ञा पुं० [सं०] राजा की प्रधान रानी । पटरानी ।

पट्टदोल—सज्ञा स्त्री० [सं०] कपडे का बना हुआ भूल या पलना ।

पट्टन—सज्ञा पुं० [सं०] १ नगर । २ बडा नगर ।

पट्टनी—सज्ञा स्त्री० [सं०] नगरी । पुरी । (को०) ।

पट्टमहिषी—सज्ञा स्त्री० [म०] पटरानी । प्रधान रानी ।

पट्टरंग—सज्ञा पुं० [सं० पट्टरङ्ग] पटग । वक्मम ।

पट्टरंजक—सज्ञा पुं० [सं० पट्टरञ्जक] दे० 'पट्टरग' ।

पट्टरंजन—सज्ञा पुं० [सं० पट्टरञ्जन] दे० 'पट्टरग' ।

पट्टरंजनक—सज्ञा पुं० [सं० पट्टरञ्जनक] दे० 'पट्टरग' ।

पट्टराज—सज्ञा पुं० [सं० पट्ट] महाराष्ट्र के उन ब्राह्मणों की उपाधि जो पुजारी का काम करते हैं ।

पट्टराज्ञी—सज्ञा स्त्री० [सं०] पटरानी ।

पट्टला—सज्ञा स्त्री० [म०] जनपद । जिला [को०] ।

पट्टवस्त्र—वि० [सं०] रगीन वस्त्र या रेशमी वस्त्र पहननेवाला [को०] ।

पट्टवासा—वि० [सं० पट्टवासस्] दे० 'पट्टवस्त्र' ।

पट्टशाक—सज्ञा पुं० [म०] पट्टवा ।

पट्टाशुक—सज्ञा पुं० [सं०] १ एक प्रकार का प्राचीन पहनावा । २ रेशमी कपडा (को०) ।

पट्टा—सज्ञा पुं० [म० पट्ट, पट्टक] १ किसी स्थावर संपत्ति विशेषतः भूमि के उपयोग का अधिकारपत्र जो स्वामी की ओर से असामी, किरायेदार या ठेकेदार को दिया जाय ।

विशेष—मालिक अपनी जायदाद जिस काम के लिये और जिन शर्तों पर देता है और जिनके विरुद्ध आचरण करने से उसे अपनी वस्तु वापस ले लेने का अधिकार होता है वे इसमें लिख दी जाती हैं । साथ ही उसकी संपत्ति से लाभ उठाने के बदले असामी से वह वार्षिक या मासिक धन या लाभांश ६-७

उसे देने की जो प्रतिज्ञा करता है उसका भी इसमें निर्देश कर दिया जाता है । पट्टा साधारणतः दो प्रकार का होता है—(१) मियादी या मुद्दती और (२) इस्तमरारी । मियादी पट्टे के द्वारा मालिक एक विशेष अवधि तक के लिये असामी को अपनी चीज से लाभ उठाने का अधिकार देता है और उस अवधि के बीत जाने पर उसे उसको (असामी को) वेदखल कर देने का अधिकार होता है । इस्तमरारी, दवामी, या सर्वकालिक पट्टे से वह असामी को सदा के लिये अपनी वस्तु के उपभोग का अधिकार देता है । असामी की इच्छा होने पर वह इस अधिकार को दूसरा के हाथ कीमत लेकर बेच भी सकता है । जमींदारी का अधिकार जिस पट्टे के द्वारा एक निर्दिष्ट काल तक के लिये दूसरे को दिया जाता है उसे ठेकेदारी या मुस्ताजिरी पट्टा कहते हैं । असामी जिस पट्टे के द्वारा असल मालिक से प्राप्त अधिकार या उसका अश्विषेय दूसरे को देता है उसे शिकमी पट्टा कहते हैं । पट्टे की शर्तों का स्वीकृतिसूचक जो कागज असामी की ओर से लिखकर मालिक या जमींदार को दिया जाता है उसे कवूलियत कहते हैं । पट्टे पर मालिक के और कवूलियत पर असामी के हस्ताक्षर या सही अवश्य होनी चाहिए ।

क्रि० प्र०—लिखना ।

२ कोई अधिकारपत्र । सनद । ३ चमडे या वानात आदि की बद्धी जो कुत्तों, विल्लियों के गले में पहनाई जाती है ।

मुहा०—पट्टा तोड़ना या तोड़ना = कुत्ते या बिल्ली का अपने पालनेवाले के यहाँ से भागकर अन्यत्र चला जाना ।

४ एक गहना जो झुड़ियों के बीच में पहना जाता है । ५ पीढ़ा । ६ कामदार जूतियों पर का वह कपडा जिसपर काम बना होता है । ७ घोड़े के मुँह पर का वह लबा सफेद त्रिषान जो नथुनों से लेकर भत्ये तक होता है । ८ घोड़े के मस्तक पर पहनाने का एक गहना । ९ पुरुषों के सिर के बाल जो पीछे की ओर गिरे और बराबर कटे होते हैं । १० चपरास । ११ वह वृत्ताकार पट्टी जिसमें चपरास टँकी रहती है । १२ कन्यापक्ष के नाई, घोबी, कहार आदि का वह नेग जो विवाह में वरपक्ष से उन्हें दिलवाया जाता है ।

क्रि० प्र०—चुकाना ।—चुकवाना ।

विशेष—देहात के हिंदुओं में यह रीति है कि नाई, घोबी, कहार, भगी आदि की मजदूरी में से उतना अंश नहीं देते जितना पड़ते से अविवाहिता कन्या के हिस्से पडता है । कन्या का विवाह हो जाने पर यह सारी रकम इकट्ठी वर के पिता से उन्हें दिलवाई जाती है ।

१५ महाराष्ट्र देश में काम में लाई जानेवाली एक प्रकार की तलवार ।

पट्टाचार्य—सज्ञा पुं० [सं०] दक्षिण देश में बसनेवाले प्राचीन पंडितों की उपाधि ।

पट्टार—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्राचीन देश ।

पट्टाग्रह— [] पट्टा में उतारना ।

पट्टाग्री— [] पट्टाग्री ।

पट्टिका— [] १ छोटी तस्ती । पट्टिया । २ छोटा गणपट या चित्रपट । ३ कपड़े को छोटी पट्टी । ४ एक विद्या नाम पट्टा । ५ शेराम का फीता । ६ पठानी लोष । ७ पट्टी । साद आदि पर बाँधने की पट्टी (ले०) । ८ दस्तार । उतारना (ले०) ।

पट्टिकाग्र— [] पठानी लोष ।

पट्टिकाग्रोत्र— [] पठानी लोष । पट्टिकाग्र ।

पट्टिल— [] पूतिपरज । पलंग ।

पट्टिलोत्र— [] पठानी लोष ।

पट्टिलोत्रक— [] 'पट्टिलोत्र' ।

पट्टि— [] एत प्रकार का प्राचीन शस्त्र या खाँडा ।

विशेष—जारी लंबाई की तीन मापें थीं । उत्तम ४ हाथ, मध्यम ३ हाथ और अधम ३ हाथ लंबा होता था । मुठिया में ऊपर चढ़ानेवाले की पल्लाई के बचाव के लिये लोहे की एक पानी बनी होती थी । धार इसमें दोनों ओर होती थी । धारमूल जिसे 'पटा' कहते हैं वह इससे केवल लंबाई में कम होता है और उसमें दोनों में समान है ।

पट्टिनी— [] १ पट्टिशा बाँधनेवाला । २. पट्टिशा से सटनपाना ।

पट्टिस— [] पट्टिशा । पट्टा ।

पट्टी— [] पट्टिशा १ लकड़ी की वह लंबोत्तरी, चौरस हो पिपटी पट्टी जिनपर प्राचीन काल में विद्याधियों को पाठ सिखाया जाता था और अब आरम्भिक छात्रों को लिखना सिखाया जाता है । पाटी । पट्टिया । तस्ती ।

मुद्रा०—पट्टी पढ़ना = गुफ से पाठ प्राप्त करना । सबक पढ़ना । पट्टी पढ़ाना = छात्र को पट्टी पर लिखकर पाठ देना । सबक पढ़ा देना ।

२ पाठ । मुद्रा । जैसे,—धने यह पट्ट नहीं पढ़ी है ।

हि० प्र०—पट्टा ।—पढ़ाना ।

३ उद्देश । शिक्षा । सिखावन । जैसे,—(क) यह पट्टी तुम्हें किसके पास दी ? (ख) आजकल तुम किसकी पट्टी पढ़ते हो ? (ग) यह शिक्षा जो बुरी नियत से दी जाय । वह बुरी नी उद्देश्य स्थापना के लिये दे । बहुकानेवाली शिक्षा । बुरासा । बुरासा । बुरासा । भ्रष्टा । दम । जैसे,—तुम उसको जरा पट्टी पढ़ा देना, फिर मेरा काम पूरा होगा ।

हि० प्र०—पट्टा ।—पढ़ाना ।

मुद्रा०—पट्टी में स्थाना = किसी पत्र के गुप्त अभिप्राय को न समझने को हुए पर उसे मान लेना । किसी के चरम में आ जाना । किसी के रम में आ जाना ।

५ लकड़ी की वह पट्टी जो पाठ के शब्दों की लंबाई में लगाई जाती है । पाटी । ६. पाठु भाग्य या कपड़े की घञ्जी ।

हि० प्र०—उतारना ।—काटना । = तराशना ।

७ कपड़े की वह घञ्जी जो धाव या अन्य किसी स्थान में बाँधी जाय ।

हि० प्र०—बाँधना ।

८ पत्थर का पतला, चिपटा और लंबा टुकड़ा । ९ लकड़ी की लंबी बल्ली जो छत या छाजन के ठाठ में लगाई जाती है । १०. ठाठ की ओर की नल्लियों की पाँती । ११ सन की बुनी हुई घञ्जियाँ जिनके जोड़ने से टाट तैयार होते हैं । १२ कपड़े की कोर या चिनारी । १३ वह तस्ती जो नाव के बीचो बीच होता है । १४ एक प्रकार की मिठाई जिसमें चाशनी में अन्य चीजें जैसे चना, तिल आदि मिलाकर जमाते और फिर उसके चिपटे, पतले और चौकोर टुकड़े काट लिए जाते हैं । १५ सूती या ऊनी कपड़े की घञ्जी जिसे सर्दी और थकावट से बचने के लिये टाँगो में बाँधते हैं ।

विशेष—यह चार पाँच अंगुल चौड़ी और प्रायः पाँच हाथ लंबी होती है । इसके एक सिरे पर मजबूत कपड़े की एक और पतली घञ्जी टँकी रहती है जिससे लपेटने के बाद ऊपर की ओर कसकर बाँध देते हैं । अन्य लोग इसे केवल जाड़े में बाँधते हैं, पर सेना और पुलिस के सिपाहियों को इसे सभी ऋतुओं में बाँधना पड़ता है ।

१६ पक्ति । पाँती । कतार । १७ माँग के दोनों ओर के कंधी से लुब वैठाए हुए बाल जो पट्टी से दिवाई पड़ते हैं । पाटी । पट्टिया । उ०—नेल और पानी से पट्टी से सँवारी सिर पर । मुँह पर माँझा दिये जल्लादो जगी आती है ।—भारतेंदु प्र०, भा० ३, पृ० ७६० ।

विशेष—पट्टी अर्द्धी तरह वैठाने के लिये कुछ स्त्रियाँ बालों में भिगीया हुआ गोद, अलसी का लुग्राव अथवा तेल और पानी भी लगाती हैं ।

हि० प्र०—वैठाना ।—सँवारना ।

मुद्रा०—पट्टी जमाना = माँग के दोनों ओर के बालों को गोद या लुग्राव आदि की सहायता से इस प्रकार वैठाना कि वे सिर में बिलकुल बिपक जायँ और पट्टी से मालूम होने लगेँ । पट्टी वैठाना या सँवारना ।

१८ किसी वस्तु, विशेषतः किसी संपत्ति का, एक एक भाग । हिस्सा । भाग । विभाग । पत्ती । १९ ऐसी जमींदारी का एक भाग जो एक ही मूल पुरुष के उत्तराधिकारियों या उनके द्वारा नियत किए हुए व्यक्तियों की संयुक्त संपत्ति हो । किसी जमींदारी का उतना भाग जो एक पट्टीदार के अधिकार में हो । पट्टीदारी का एक मुख्य भाग । योक का एक भाग । हिस्सा ।

यौ०—पट्टीदार । पट्टीदारी ।

मुद्रा०—पट्टी का गाँव = पट्टीदारी गाँव । वह गाँव जिसके बहुत से मानिक हों और इन कारण उसमें मुद्रव्य का अभाव हो ।

उ०—पट्टी का गाँव और पट्टी का घर अच्छा नहीं होता ।

२० वह प्रतिरिक्त कर जो जमींदार किसी विशेष प्रयोजन के

निमित्त आवश्यक धन एकत्र करने के लिये असामियों पर लगाता है। नेग। श्रववाव।

पट्टी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [स० पट] घोड़े की वह दौड़ जिसमें वह बहुत दूर तक सीधा दौड़ता चला जाय। लवी और सीधी सरपट। जैसे,—घोड़े को पट्टी दो।

पट्टी^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] १ पठानी लोघ। २ एक शिरोभूषण। एक गहना जो पगडी में लगाया जाता है। ३ तलसारक। तोबडा। ४ घोड़े की तग। ५ एक शिरोभूषण। उ०—बाहो में बहु बहुटे, जोशन बाजूवद, पट्टी बाँध सुषम, गहने ले गँवारियों के धन।—ग्राम्या, पृ० ४०।

पट्टीदार—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पट्टी + फा० दार] १ वह व्यक्ति जिसका किसी संपत्ति में हिस्सा हो। वह जो किसी संपत्ति के अंश का स्वामी हो। हिस्सेदार। २ पट्टीदारी के मालिकों में से एक। सयुक्त संपत्ति के अंशविशेष का स्वामी। ३ वह व्यक्ति जिसे किसी संपत्ति में हिस्सा बँटाने का अधिकार हो। हिस्सा बँटाने के लिये झगडा करने का अधिकार रखनेवाला। ४ वह व्यक्ति जो किसी विषय में दूसरे के बराबर अधिकार रखता हो। वह व्यक्ति जिसकी राय की उपेक्षा न की जा सकती हो। बराबर का अधिकारी। समान अधिकारयुक्त। जैसे,—क्या आप कोई मेरे पट्टीदार हैं कि जो मैं कहीं वह आप भी करें।

पट्टीदारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पट्टीदार] १ पट्टी होने का भाव। बहुत से हिस्से होना। किसी वस्तु का अनेक की संपत्ति होना। जैसे,—इस गाँव में तो खासी पट्टीदारी है। २ पट्टीदार होने का भाव। बराबर अधिकार रखने का भाव। हिस्सेदारी।

मुद्दा०—पट्टीदारी अटकना=ऐसा झगडा उपस्थित होना जिसका कारण पट्टी हो। पट्टीदारी विषयक या पट्टीदारी के कारण कोई झगडा खडा होना। पट्टीदारी के कारण विरोध होना। जैसे,—मेरे आपके कोई पट्टीदारी थोड़े ही अटकी है। पट्टीदारी करना = (१) किसी के बराबर अधिकार जताना। पट्टीदार होने के कारण किसी के काम में रुकावट करना। पट्टीदारी के बल पर किसी का विरोध करना। पट्टीदारी के हक पर अडना। जैसे,—आप तो बात बात में पट्टीदारी करते हैं। (२) बराबरी करना। जो कोई एक करे उसे आप भी करना।

३ वह जमींदारी जो एक ही मूल पुरुष के उत्तराधिकारियों या उनके नियत किए हुए व्यक्तियों की सयुक्त संपत्ति हो। वह जमींदारी जिसके बहुत से मालिक होने पर भी जो श्रविभक्त संपत्ति समझी जाती हो। भाई चारा।

विशेष—पट्टीदारी जमींदारी में अनेक विभाग और उपविभाग होते हैं। प्रधान विभाग को 'थोक' और उसके अंतर्गत उपविभागों को 'पट्टी' कहते हैं। प्रत्येक पट्टी का मालिक अपने हिस्से की जमीन की स्वतंत्र व्यवस्था करता है और सरकारी कर देता है। पर किसी एक पट्टी में मालगुजारी बाकी रह

जाने पर वह सारी जायदाद से वसूल की जा सकती है। प्रायः प्रत्येक थोक में एक एक 'लंबरदार' होता है। जिस पट्टीदारी की सारी जमीन हिस्सेदारों में बँट गई हो उसे मुकम्मल या पूर्ण पट्टीदारी और जिसमें कुछ जमीन तो उनमें बाँट दी गई हो पर कुछ सरकारी कर और गाँव की व्यवस्था का खर्च देने के लिये सामे में ही अलग कर ली गई हो उसे नामुकम्मल या अपूर्ण पट्टीदारी कहते हैं। नामुकम्मल पट्टीदारी में जब कभी अलग की हुई जमीन का मुनाफा सरकारी कर देने के लिये पूरा नहीं पडता तब पट्टीदारों पर अस्थायी कर लगाकर वह पूरा किया जाता है।

पट्टीवार^१—क्रि० वि० [हि० पट्टी + फा० वार] प्रत्येक पट्टी का अलग अलग। पट्टी के भेद के अनुसार या साथ। इस प्रकार जिसमें हर पट्टी का हिसाब अलग अलग आ जाय। जैसे,—मुझे एक पट्टीवार जमाबंदी तैयार कराना है।

पट्टीवार^२—वि० (बही) जिसमें प्रत्येक पट्टी का हाल या हिसाब अलग अलग हो। (बही या लेख) जो पट्टी के भेद को ध्यान में रखकर तैयार किया गया हो। जैसे,—(क) पट्टीवार खतौनी या जमाबंदी। (ख) पट्टीवार वासिल बाकी।

पट्टीश, पट्टीस—सञ्ज्ञा पुं० [स०] दे० 'पट्टिश' [को०]।

पट्टी^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पट्टी] १ एक ऊनी वस्त्र जो पट्टी के रूप में बुना जाता है। काश्मीर, अल्मोडा आदि पहाड़ी प्रदेशों में यह बनता है। यह खूब गरम होता है पर ऊन इसका कडा और मोटा होता है। उ०—डाकुओं ने सत्तू और पट्टी (ऊनी चादर) देखकर उसे छोड़ दिया।—किन्नर०, पृ० १०५। २ एक प्रकार का चारखाना जिसमें धारियाँ होती हैं।

पट्टी^२—सञ्ज्ञा सं० [देश०] सुवा। तोता। शुक।

पट्टेदार—वि० [हि० पट्टे + दार] सँवारे सजाए हुए (वाल)। पट्टी से युक्त। पट्टी काट कर सजाए हुए। उ०—पट्टेदार वालों पर तेल से भरी पुरानी काली टोपी, कुटिलता से भरी गोल गोल आँखें किसी विकट भविष्य की सूचना दे रही थी।—तितली पृ० ११८।

पट्टेपछाड़—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पट्टे + पछाड़ना] कुश्ती का एक पेंच। विशेष—यह पेंच उस समय चित्त करने के लिये काम में लाया जाता है जिस समय जोड़ कुहनियाँ टेककर पट्टे पडा हो और इस कारण उसे चित्त करने में कठिनाई पडती हो। इसमें उसके एक हाथ पर जोर से थाप मारी जाती है और साथ ही उसकी जाँघ को इस जोर से खींचा जाता है कि वह उलटकर चित्त हो जाता है। यदि थाप दाहिने हाथ पर मारी जाय तो बाईं जाँघ और यदि बाएँ हाथ पर मारी जाय तो दाहिनी जाँघ खींचनी पड़ेगी।

पट्टेबैठक—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पट्टे + बैठक] कुश्ती का एक पेंच जिसमें जोड़ का एक हाथ अपनी जाँघों में दबाकर और अपना एक हाथ उसकी जाँघों में डालकर अपनी छाती का बल देते हुए उसे चित्त फेंक दिया जाता है।

पट्टेत^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पट्टेत] १ पटैत। २ वेवकुफ।

पट्टैत^२—पञ्चा पु० [हि० पट्टा + ऐत (प्रत्य०)] वह कवूतर जो विलकुल लाल, काला या नीला हो और जिमके गले में सफेद कठा हो ।

पट्टमान^७—वि० [सं० पठ्यमान] पढने योग्य । जिसका पढना उचित हो । उ०—अपट्टमान पाएग्रथ पट्टमान वेद वै ।—केशव (शब्द०) ।

पट्टा—सञ्ज्ञा पु० [न० पुष्ट, प्रा० पुट्ट] [स्त्री० पठिया] १ जवान । तरुण । पाठ ।

यौ०—जवान पट्टा ।

२ मनुष्य, पशु आदि चर जीवों का वह वच्चा जिसमें यौवन का आगमन हो चुका हो पर पूर्णता न आई हो । नवयुवक । उदत । जैसे,—अभी तो वह विलकुल पट्टा है ।

विशेष—चौपायों में घोड़े पक्षियों में कवूतर, उल्लू और मुर्ग तथा सरीसृपों में साँप के यौवनोन्मुख वच्चे को पट्टा कहते हैं ।

३ कुश्तीबाज । लडाका । जैसे,—उस पहलवान ने बहुत से पट्टे तैयार किए हैं । ४ ऐसा पत्ता जो लवा, दलदार या मोटा हो । जैसे, धौकुवार या तवाकू का पट्टा । ५ वे ततु जो मासपेशियों को परस्पर और हड्डियों के साथ बाँधे रहते हैं । मोटी नस । स्नायु ।

मुहा०—पट्टा चढ़ना = किसी नस का तन जाना । नस पर नस चढना । पट्टों में घुसना = गहरी दोस्ती पैदा करना । अत रग बनना ।

६. एक प्रकार का चौड़ा गोटा जो सुनहला और रुपहला दोनों प्रकार का होता है । उ०—भूठे पट्टे की है मूवाफ पढी चोटी में । देखते ही जिसे आँखों में तरी आती है ।—भारतेंदु श०, भा० २, पृ० ७९० । ७ अतलस, सासनलेट आदि की पट्टी पर बेल बुनकर बनाई हुई गोटा । ८ पेडू के नीचे कमर और जाँघ के जोड़ का वह स्थान जहाँ छूने से गिल्टियाँ मालूम होती हैं ।

पट्टापछाड़—वि० [हि० पट्टा + पछाड़ना] इतनी बलवती (स्त्री) जो पुरुष को पछाड़ दे । खूब हूँटपुँट और बलवती (स्त्री) । जैसे,—वह तो सासी पट्टेपछाड़ औरत है ।

पट्टी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पट्टा] १ 'पठिया' ।

पठगाँ—सञ्ज्ञा पुं० [पठ०] अवलव । आश्रय । सहारा । उ०—तीन लोक रिसियाय सकल सुरनर और नारी । मोर न बाँके वार पठगा पाया भारी ।—पलद्म०, भा० १, पृ० ५ ।

पठत—वि० [म० पठन] जिममें पर रचित और कठस्थी कृत काव्य आदि का पाठ हो । उ०—पठत कविसमेलन आदि की महायता से छात्रों को काव्य पढने और कविता कठस्थ बनने के लिये प्रोत्साहित और प्रेरित किया जा सकता है ।—भाषा शि०, पृ० ६६ ।

पठ—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाठ] वह जवान बकरी जो ब्याई न हो । पाठ ।

पठक^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पढ़नेवाला । पाठ करनेवाला ।

पठक^२—सञ्ज्ञा पुं० [म० पट्टकृच्] तहसील । तालुका । उ०—मुक्तियाँ अथवा प्रदेश कई विषयों (जिलों) में बँटे रहते थे, और ये विषय फिर कई पठकों (तहसील अथवा तालुको) में विभाजित थे ।—आदि०, पृ० ४४५ ।

यौ०—पठकपति = तहसीलदार । तालुकेदार । उ०—विषयों के मुख्य अधिकारी विषयपति तथा पठकों के पठकपति कहलाते थे ।—आदि०, पृ० ४४५ ।

पठन—पञ्चा पु० [सं०] पढने की क्रिया । पढना ।

यौ०—पठन पाठन = पढना पढाना ।

पठनीय—वि० [म०] पढने योग्य ।

पठनेटा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पठान + टटा (= बेटा) (प्रत्य०)] पठान का लडका । वह जो पठान जाति में उत्पन्न हुआ हो । उ०—परे रुधिर लपेटे पठनेटे फरकत हैं ।—भूषण (शब्द०) ।

पठमंजरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पठमञ्जरी] श्री राग की चौथी रागिनी । इसका गान समय एक पहर दिन के बाद है । विशेष—'पठमजरी' ।

पठरा—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] देश 'पटरा' । उ०—जहाँपर रेतकर लोहदड को तितर वितर किया था—उस स्थान पर पठरे उग पडे ।—कवीर म०, पृ० २४५ ।

पठवना—वि० [प्रा० पठवण] पठाया हुआ । प्रेषित ।

यौ०—अठवन पठवना = स्थानिक और भेजा या पठाया हुआ प्रेत आदि । उ०—सतगुरु शब्द सहाई । निकट गए तन रोग न व्यापै पाप ताप मिट जाई । अठवन पठवन दीठ न लागै उलटे तेहि घर खाई ।—कवीर श०, भा० २, पृ० २८ ।

पठवना—क्रि० सं० [म० प्रस्थान] भेजना । रवाना करना ।

पठवाना^७—क्रि० सं० [हि० पठाना का प्र० रूप] भेजवाना । भेजने का काम दूसरे से कराना । दूसरे को भेजने में प्रवृत्त करना ।

पठान^१—सञ्ज्ञा पुं० [पश्तो पुस्ताना] एक मुसलमान जाति जो अफगानिस्तान के अधिकांश और भारत के सीमांत प्रदेश, पंजाब तथा रुहेलखंड आदि में बसती है । इस जाति के लोग कट्टर, क्रूर, हिंसाप्रिय और स्वाधीनताप्रिय होते हैं ।

विशेष—यह जाति अनेक संप्रदायों और शाखाओं में विभक्त है जिनमें से प्रत्येक के नाम के साथ वंश या संप्रदाय का सूचक 'खेल', 'जई' आदि कोई न कोई शब्द लगा रहता है । जैसे, जक्का खेल, गिलजई आदि । प्रत्येक संप्रदाय में एक सरदार होता है जिसको 'मलिक' कहते हैं । सीमांत प्रदेश के पठानों में यही सरदार शासक होता है । सीमांत प्रदेश के पठान प्रायः असभ्य हैं । आखेट, चोरी और डकैती ही उनकी जीविका के साधन हैं । अफगानिस्तान के पठान अपेक्षाकृत सभ्य हैं । भारत के पठान उपयुक्त दोनों ही स्थानों के पठानों से अधिक सभ्य हैं और प्रायः खेती या नौकरी करके अपनी जीविका चलाते हैं । धर्म की अपेक्षा रूढ़ि और सभ्यता की अपेक्षा स्वाधीनता पठानों को अधिक प्रिय है ।

नीति अनीति का वे बहुत कम विचार करते हैं। पठान प्राय लंबे चौड़े, डील डीलवाले, गोरे और क्रूरकृति होते हैं। जातिबधन इनमें विशेष दृढ है। एक संप्रदाय के पठान का दूसरे में व्याह नहीं हो सकता। स्त्रियों की सतीत्वरक्षा का इन्हें बहुत ज्यादा ख्याल रहता है। इनके आपस के अधिकांश झगड़े स्त्रियों ही के लिये होते हैं। इनके उत्तराधिकार आदि के झगड़े कुरान के अनुसार नहीं, बरन् रूढ़ियों के अनुसार फैसल होते हैं, जो भिन्न भिन्न संप्रदायों में भिन्न भिन्न हैं।

पठानों का प्राचीन इतिहास अनिश्चयात्मक है। पर इसमें कोई सदेह नहीं कि अधिकांश उन हिंदुओं के वंशज हैं जो गांधार, काबोज, बाह्लीक आदि में रहते थे। फारस के मुसलमान होने के बाद इन स्थानों के निवासी क्रमशः मुसलमान हुए। इनमें से अधिकांश राजपूत क्षत्रिय थे। परमार आदि बहुत से राजपूत वंश अपनी कई शाखाओं को सिंधपार बसनेवाले पठानों में बतलाते हैं। पूर्वज कहीं से आए और कौन थे, इस विषय में कोई कल्पना अधिक साधारण नहीं है। इनकी भाषा 'पश्तो' आर्य प्राकृत ही से निकली है। पीछे तुर्क और यहूदी जातियाँ भी अफगानिस्तान में आकर बस गईं और पुराने पठानों से इस प्रकार हिल मिल गईं कि अब किसी पठान का वंश निश्चय करना प्रायः असंभव हो गया है। पठान शब्द की व्युत्पत्ति भी अनिश्चयात्मक है। इस विषय में अधिक ग्राह्य कल्पना यह है कि पहले पहल अफगानिस्तान के 'पुस्ताना' स्थान में बसने के कारण इस जाति को 'पुस्तून' और इसकी भाषा को 'पुस्तू' कहते थे। फिर क्रमशः जाति को पठान और भाषा को पश्तो कहने लगे।

पठान^३—सज्ञा पुं [?] जहाज या नाव का पेंदा। (लश०)।

पठाना—क्रि० स० [स० प्रस्थान, प्रा० पठान] भेजना।

पठानिन—सज्ञा स्त्री [हि० पठान + इन (प्रत्य०)] १. 'पठानी'।

पठानी^१—सज्ञा स्त्री [हि० पठान] १. पठान जाति की स्त्री। पठान स्त्री। २. पठान होने का भाव। ३. पठान जाति की चरित्रगत विशेषता। क्रूरता, शूरता, रक्तपातप्रियता आदि पठानों के गुण। पठानपन।

पठानी^२—वि० [हि० पठान] १. पठानों का। जैसे, पठानी राज्य। २. जिसका पठान या पठानों से संबंध हो। पठानों से संबंध रखनेवाला।

पठानीलोघ—सज्ञा पुं [स० पट्टिकालोघ] एक जंगली वृक्ष जिसकी लकड़ी और फूल औषध के और पत्तियाँ और छाल रंग बनाने के काम में आती हैं।

विशेष—यह उगाया या रोपा नहीं जाता, केवल जंगली रूप में पाया जाता है। इसकी छाल को उवालने से एक प्रकार का पीला रंग निकलता है जो कपड़ा रंगने के काम में लाया जाता है। विजनौर, कुमाऊँ और गढ़वाल के जंगलों में इसके वृक्ष बहुतायत से पाए जाते हैं। चमड़े पर रंग पक्का करने और अवीर बनाने में भी इसकी छाल का उपयोग किया जाता है। लोघ के दो भेद होते हैं।

एक को 'पठानी लोघ' और दूसरे को केवल 'लोघ' कहते हैं। औषध के काम में 'पठानी लोघ' ही अधिक आता है। दोनों लोघों को वैद्यक में कसैला, शीतल, वातकफनाशक, नेत्रहितकारी, रुधिर और विष के विकारों का नाशक कहा है। लोघ का फूल कसैला, मधुर, शीतल, कड़ुवा, ग्राहक और कफपित्तनाशक माना गया है।

पर्या०—पट्टिकालोघ। क्रमुक। स्थूलवल्कल। जीर्णपत्र। वृहत्पत्र। पट्टी। लाक्षाप्रसादन। पट्टिकाख्य। पट्टिलोघ। पट्टिका। पट्टिलोघक। वल्कलोघ। वृहद्दल। जीर्णबुध्न। वृहद्दलक। शीर्णपत्र। अक्षिभेपज। शावर। श्वेतलोघ। गालव। बहुलत्वच्। लाक्षाप्रसाद। वल्क।

पठार^१—सज्ञा पुं [देश०] एक पहाड़ी जाति।

पठार^२—सज्ञा पुं [स० प्रस्तार] ऊँचा और लंबा चौड़ा मैदान जिसके नीचे का भाग ढालवाँ होता है। उ०—तीसरा भाग दक्षिण का पठार कहलाता है। यहाँ पुराने समय से ही विभिन्न शासक राज्य करते थे।—पू० म० भा०, पु० ६।

पठान^१—सज्ञा पुं [हि० पठावा] वह जो किसी के भेजने से कही जाय। वह मनुष्य जो किसी का भेजा हुआ कही गया या आया हो। दूत। सदेशवाहक।

पठावनि, पठावनी—सज्ञा स्त्री [हि० पठाना] १. किसी को कही भेजने का भाव। किसी को कही कोई वस्तु या सदेश पहुँचाने के लिये भेजना। २. किसी के भेजने से कही जाने का भाव। किसी के भेजने से कही कुछ लेकर जाना। ३. भेजने या पहुँचाने की मजदूरी। उ०—तेई पायँ पाइकँ चढ़ाइ नाव धोए विनु खँहो न पठावनी कै हँहँ न हँसाइ कै।—तुलसी (शब्द०)।

पठार—सज्ञा पुं [देश०] एक प्रकार की घास।

पठि—सज्ञा स्त्री [स०] पढ़ने की क्रिया। पठन। पढ़ना। अध्ययन [को०]।

पठित—वि० [स०] १. पढ़ा हुआ (ग्रंथ)। जिसे पढ़ चुके हो। अधीत। २. जिसने पढ़ा हो। पढ़ा लिखा। शिक्षित।

विशेष—इस अर्थ में इस शब्द का व्यवहार कुछ लोग करते हैं। जैसे, पठित समाज। परन्तु वास्तव में यह ठीक नहीं है।

पठियर^१—सज्ञा स्त्री [हि० पाट] वह बल्ली या पटिया जो कुएँ के मुँह पर बीचोबीच या किसी एक ओर इसलिये रख दी जाती है कि पानी निकालनेवाला उसी पर पैर रखकर पानी निकाले। इसपर खड़े होकर पानी निकालने से घड़े के कुएँ की दीवार से टकराने का भय नहीं रहता।

पठिया—सज्ञा स्त्री [हि० पट्टा + इया (स्त्रीबोधक प्रत्य०)] यौवनप्राप्त स्त्री। युवती और हृष्टपुष्ट स्त्री। जवान और तगड़ी स्त्री। युवती मादा।

पठोर—सज्ञा स्त्री [हि० पट्टा + ओर (प्रत्य०)] १. जवान पर बिना ब्याई। २. जवान पर बिना ब्याई मुर्गी।

पठौनी^१—सज्ञा स्त्री [हि० पठाना + औनी (प्रत्य०)] १. किसी को कुछ देकर कही भेजने की क्रिया या भाव। कोई वस्तु या

सदेश पहुँचाने के लिये कही भेजना । उ०—खेल ले नैहरवाँ दिन चार । पहिली पठौनी तीन जने आए नौवा बाम्हन वार ।—कवीर श०, भा० १, पृ० ४ ।

क्रि० प्र०—भेजना ।

२ किसी की कोई चीज लेकर कही जाने की क्रिया या भाव । किसी के भेजने से कही जाना ।

क्रि० प्र०—आना ।—जाना ।

पठ्य—वि० [स० पाठ्य] दे० 'पाठ्य' ।

पठ्यमान^(७)—वि० [स० पाठ्य+मान (प्रत्य०)] पढ़ा जाने के योग्य । सुपाठ्य ।

पड़कुलिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] पड़क पक्षी । पेड़की । उ०—चीड़ो की उर्व्वंग भुजाएँ भटका सा पड़कुलिया का स्वर ।—इत्यलम्, पृ० ६६ ।

पड़छती—सञ्ज्ञा पुं० [स० पटच्छदि] १ वह छोटा छप्पर या टट्टी जिसे दरसात के आरम्भ में कच्ची दीवार पर इसलिये लगा देते हैं कि बौछार से वह कट न जाय । भीत की रक्षा के लिये लगाया जानेवाला छप्पर या टट्टी ।

क्रि० प्र०—बाँधना ।—लगाना ।

२ कमरे आदि के बीच में लकड़ी के खम्भों पर या दो दीवारों के बीच में तख्ते या लट्ठे आदि ठहराकर बनाई हुई पाटन जिसपर चीज असवाव रखते हैं । टाँड ।

पड़छती—सञ्ज्ञा पुं० [स० पटच्छदि] दे० 'पड़छती' ।

पड़त^(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पड़ना] दे० 'पड़ता' ।

पड़ता—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पड़ना] १ किसी वस्तु की खरीद या तैयारी का दाम । किसी माल को खरीदने, तैयार कराने या लाने आदि में पड़ा हुआ खर्च । लागत । सर्फों की कीमत ।

मुहा०—पड़ता खाना या पड़ना = लागत और अभीष्ट लाभ मिल जाना । खर्च और मुनाफा निकल जाना । जैसे—(क) आपके साथ सौदा करने में हमारा पड़ता नहीं खायगा । (ख) इतने पर इस वस्तु के बेचने में हमारा पड़ता नहीं खाता । पड़ता फैलाना = किसी चीज को तैयार करने, खरीदने और मँगाने आदि में जो खर्च पड़ा हो उसे देखते हुए उसका भाव निश्चित करना । वस्तु की सख्या और उसके प्राप्त करने में पड़े हुए खर्च की रकम देखते हुए एक एक वस्तु का मूल्य मालूम करना । पड़ता निकालना या बैठाना = दे० 'पड़ता फैलाना' ।

३ दर । शरह । ३ भूकर की दर । लगान की शरह । ४ सामान्य दर । श्रौसत । सरदर शरह । एक एक वस्तु या एक एक निश्चित काल का मूल्य या आमदनी जो सब वस्तुओं के मूल्य या पूरे काल में वस्तु की सख्या या कालविभाग की सख्या को भाग देने से निकले । जैसे,—कलकत्ते में आपकी आय का क्या पड़ता है ।

मुहा०—पड़ता रहना = श्रौसत होना ।

पड़ताल—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परिवोलन] १ पड़तालना क्रिया का भाव । किसी वस्तु की सूक्ष्म छानबीन । भली भाँति जाँच या देख माल । गौर के साथ किसी चीज की जाँच । अन्वीक्षण । अनुसधान ।

क्रि० प्र०—करना ।—होना ।

विशेष—इस अर्थ में यह शब्द प्रायः 'जाँच' के साथ योगिक रूप में बोला जाता है, अकेले क्वचित् प्रयुक्त होता है । जैसे,—वे हिसाब की जाँच पड़ताल करने आए थे ।

३ गाँव अथवा नहर के पटवारी द्वारा खेतों की एक विशेष प्रकार की जाँच ।

विशेष—यह जाँच खरीफ, रबी और फसल जायद नामक तीनों कालों के लिये अलग अलग तीन बार होती है । खेत में कौन सी चीज बोई गई है, किसने बोई है, खेत सींचा गया है या नहीं, सींचा गया है तो कहाँ से जल लाकर सींचा गया है, आदि बातें इस जाँच में लिखी जाती हैं । गाँव का पटवारी प्रत्येक पड़ताल के बाद जिसवार एक नकशा बनाता है । इस नकशे से माल के अधिकारियों को यह मालूम होता है कि इस वर्ष कौन सी चीज कितने बीघे बोई गई है, उसकी क्या अवस्था है और वह कितनी उपजोगी, आदि ।

३. मार । (क्व०) ।

विशेष—इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग बहुधा बालकों को ही मारने पीटने के संवध में होता है ।

पड़तालना—क्रि० सं० [हि० पड़ताल+ना (प्रत्य०)] पड़ताल करना । जाँचना । अनुसधान करना । छान बीन करना ।

पड़ती—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पड़ना] विना जुती हुई भूमि । पड़ी हुई जमीन । भूमि जिसपर कुछ काल से खेती न की गई हो ।

विशेष—माल के कागजात में पड़ती के दो भेद किए जाते हैं—पड़ती जदीद और पड़ती कदीम । जो भूमि केवल एक साल से न जोती बोई गई हो उसको पड़ती जदीद और जो एक से अधिक सालों से न जोती बोई गई हो उसको पड़ती कदीम मानते हैं ।

क्रि० प्र०—छोड़ना ।—पड़ना ।—रखना ।

मुहा०—पड़ती उठना = (१) पड़ती का जोता जाना । पड़ती पर खेती होना । जैसे,—यह पड़ती बहुत दिनों पर उठी है । (२) पड़ती के जोते जाने का प्रवध होना । पड़ती खेत का बंदोवस्त हो जाना । जैसे,—इस साल हमारी बहुत सी पड़ती उठ गई । पड़ती उठाना = (१) पड़ती को जोतना । पड़ती पर खेती आरम्भ करना । जमींदार का इस आशा पर किसी पड़ती को खेती के योग्य बनाना और उसपर खेती आरम्भ करना कि दो एक साल के बाद कोई असामी उसे ले लेगा । जैसे,—इस साल मैंने अपनी बहुत सी पड़ती उठाई है । (२) पड़ती का बंदोवस्त कर देना । पड़ती को लगान पर काश्तकार को देना । पड़ती छोड़ना = किसी खेत को कुछ समय तक यों ही छोड़ना, उसे जोतना वगैरह नहीं जिसमें उसकी

उर्वरा शक्ति बढ़ जाय । जैसे,—इस साल इस गाँव में बहुत सी जमीन पडती छोड़ी गई है ।

पढ़दक्षिणा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रदक्षिणा] दे० 'प्रदक्षिणा' । उ०—दे पढ़दक्षिणा चढे अकाश । पारस परसु मिले प्रभ तास ।—प्राण०, पृ० १६८ ।

पढ़दारा—वि० [सं० प्रतिहार या देश०] सुनहली छड़ीवाले चोबदार । छड़ीदार । आसा वरदार । उ०—अत मिलताँ आदर अदव, करे कमेंध विण पार । सेव खडा गिण देवसभ, गुरजदार पढदार ।—रा० रू०, पृ० १०६ ।

पढ़दा—सञ्ज्ञा पु० [हि०] दे० 'परदा' । उ०—पढ़दा जरी वाफत कै बनाए । ध्वजा तोरण सर्व कै गेह छाए ।—ह० रासो, पृ० १६ ।

पढ़ना—क्रि० अ० [सं० पतन, प्रा० पडन] एक स्थान से गिरकर, उछलकर अथवा और किसी प्रकार दूसरे स्थान पर पहुँचना या स्थित होना । कहीं से चलकर कहीं, प्राय ऊँचे स्थान से नीचे आना । गिरना । पतित होना । जैसे,—जमीन पर पानी या ओला पडना, सिर पर पत्थर पडना, चिराग पर हाथ पडना, साँप पर निगाह पडना, कान में आवाज पडना, कुरते पर छोटा पडना, विसात पर पासा पडना आदि ।

सयो० क्रि०—जाना ।

विशेष—'गिरना' और पडना के अर्थों में यह अंतर है कि पहली क्रिया का विशेष लक्ष्य गति व्यापार पर और दूसरी का प्राप्ति या स्थिति पर होता है । अर्थात् पहली क्रिया वस्तु का किसी स्थान से चलना या रवाना होना और दूसरी क्रिया किसी स्थान पर पहुँचना या ठहरना सूचित करती है । जैसे—पहाड़ के पत्थर गिरना और सिर पर पत्थर पडना ।

२. (कोई दु खद घटना) घटित होना । अनिष्ट या अवाञ्छनीय वस्तु या अवस्था प्राप्त होना । जैसे, डाका पडना, अकाल पडना, मुसीबत पडना, ईश्वरीय कोप पडना, इत्यादि ।

मुहा०—(किसी पर) पडना = विपत्ति या मुसीबत आना । सकट या कठिनाई प्राप्त होना । जैसे,—(क) जैसी मुझ पर पडी ईश्वर वैसी किसी पर न डाले । (ख) जिसपर पडती है वही जानता है ।

३ विछाया जाना । फैलाया जाना । रखा जाना । डाला जाना । जैसे, दीवार पर छप्पर पडना, जनवासे मे विस्तर या भोज में पत्ताल पडना । ४ छोटा या डाला जाना । पहुँचना या पहुँचाया जाना । दाखिल होना । प्रविष्ट होना । जैसे, पेट में रोटी पडना, दाल में नमक पडना, कान मे शब्द या आँख में तिनका पडना, दूध में पानी पडना, किसी के घर मे पडना (= व्याही जाना), फेर मे पडना, इत्यादि ।

सयो० क्रि०—जाना ।

५ बीच में आना या जाना । हस्तक्षेप करना । दखल देना ।

जैसे,—तुम चाहे जो करो, हम तुम्हारे मामले मे नही पडते । ६ ठहरना । टिकना । विश्राम करने या रात बिताने के लिये श्रवस्थान करना । डेरा डालना । पडाव करना (वरात या सेना के लिये बोलते हैं) । जैसे,—आज वरात कहीं पडेगी ?

मुहा०—पडा होना = (१) एक स्थान मे कुछ समय तक स्थित रहना । एक ही जगह पर बने रहना । जैसे,—(क) वे तीन रोज तक तो वही पडे हुए थे, आज गए हैं । (ख) वह दस रुपए महीने पर वरसो मे पडा है (२) एक ही श्रवस्था मे रहना । रखा रहना । धरा रहना । श्रव्यवहृत रहना । जैसे,—यह किताब तुम्हारे पास एक महीने से पडी है, पर शायद तुमने एक पन्ना भी न उलटा होगा । (३) बाकी रहना । शेष रहना । जैसे,—(क) सारी किताब पडने को पडी है । (ख) अभी ऐसे सैकड़ो लोग पडे होंगे जिनके कानो मे यह शुभ सदेश नही पडा ।

७ विश्राम के लिये सोना या लेटना । कल लेना । आराम करना । जैसे,—थोड़ी देर पडे रहो तो तबीअत हलकी हो जायगी ।

सयो० क्रि०—जाना ।—रहना ।

मुहा०—पडे रहना या पडा रहना = वरावर लेटे रहना । बिना कुछ काम किए लेटे रहना । लेटकर बेकारी काटना । निकम्मा रहना । जैसे,—दिन भर पडे रहते हो, क्या तुम्हारी तबीअत भी नही धवराती ?

८ बीमार होना । खाट पर पडना । जैसे,—(क) अबकी तुम किस बुरी साडत मे पडे कि अबतक न उठे । (ख) मैं तो आज चार रोज से पडा हूँ, तुमने कल बाजार मे मुझे कैसे देखा ?

संयो० क्रि०—जाना ।—रहना ।

९. मिलना । प्राप्त होना । जैसे,—तुम यह किताब लोगे, तभी तुम्हे चैन पडेगा ।

संयो० क्रि०—जाना ।

१० पडता साना । जैसे,—(क) चार आने मे नही पडता, नही तो बेच न देता । (ख) हमें वह आलमारी १२ में पडी है । (ग) इकट्ठा सौदा सस्ता पडता है ।

सं० क्रि०—जाना ।

११ आय, प्राप्ति आदि का श्रौसत होना । पडता होना । जैसे,—यहाँ मुझे एक रुपए रोज से अधिक नही पडता ।

सं० क्रि०—जाना ।

१२. रास्ते में मिलना । मार्ग मे मिलना । जैसे,—(क) तुम्हारे रास्ते में चार नदियाँ और पाँच पडाव पडेंगे । (ख) घर से निकलते ही काना पडा, देखें कुशल से पहुँचते हैं या नही । १३. उत्पन्न होना । पैदा होना । जैसे,—बाल मे दाने पडना । फल मे कीडे पडना । १४ स्थित होना । जीमे — (क) वगीचे मे डेरा पडा है । (ख) इस कुडली के सातवें घर में मगल पडा है । १५ सयोगदश होना ।

उपस्थित होना । प्रसंग में आना । जैसे, वात पडना, मौका पडना, साथ पडना, काम पडना, पाला पडना, साविका पडना, इत्यादि । जैसे,—जब कभी वात पडती है वे तुम्हारी तारीफ ही करते हैं ।

विशेष—जिन जिन स्थलो में 'होना' क्रिया बोली जाती है उनमें से बहुत से स्थलो में 'पडना' का भी प्रयोग हो सकता है । 'पडना' के प्रयोग में विशेषता यही होती है कि इससे व्यापार का अधिक सयोगवश होना प्रकट होता है । 'साथ हुआ' और 'साथ पडा' में से पिछला क्रियाप्रयोग व्यापार में सयोग का भाव सूचित करता है ।

१६ जाँच या विचार करने पर ठहरना । पाया जाना । जैसे,—(क) दोनो में लाल घोडा कुछ मजबूत पडता है । (ख) यह धान उससे कुछ बीस पडता है । १७ (देशांतर या अवस्थांतर) होना । (पहली स्थिति या दशा त्यागकर नई स्थिति या दशा को) प्राप्त होना । (वदलकर) होना । जैसे, नरम पडना, ठढा पडना, ढीला पडना, इत्यादि ।

विशेष—'पडना' के प्रयोग से जिस दशांतर की प्राप्ति सूचित की जाती है वह प्राय पूर्वदशा से अपेक्षाकृत हीन या निकृष्ट होती है । जहाँ पहली स्थिति से अच्छी स्थिति में जाने का भाव होता है वहाँ इसका व्यवहार कम स्थलो पर होता है ।

८ मैथुन करना । समोग करना (पशुओं के लिये) । जैसे,—यह घोडा जब जब किसी घोड़ी पर पडता है तब तब बीमार हो जाता है । १९ अत्यंत इच्छा होना । घुन होना । चिंता होना । जैसे,—तुम्हें तो यही पड रही है कि किस प्रकार इस साल बी० ए० हो जायें ।

मुहा०—क्या पडी है—क्या प्रयोजन है । क्या मतलब है । जैसे,—तुमको क्या पडी है जो तुम उसके लिये इतना कष्ट उठाते हो । उ०—परी कहा तोहि प्यारि पाप अपने जरि जाही ।—सूर (शब्द०) ।

विशेष—यह क्रिया अनेक क्रियाओं विशेषतः अकर्मक क्रियाओं से सयुक्त होती है । यह जब घातुरूप के साथ सयुक्त होती है तब मुख्य क्रिया के व्यापार में आकस्मिकता या सयोग सूचित करती है, जैसे, कह पडना, दे पडना, आ पडना, जा पडना आदि । और जब घातुरूप के बदले पूरी क्रिया ही से सयुक्त होती है तब उसके करने में कर्ता की बाध्यता, विवशता या परतन्त्रता प्रकट करती है, जैसे, कहना पडा, देखना पडा, सहना पडा, ग्राना पडा, जाना पडा इत्यादि । इसके अतिरिक्त कभी कभी किसी शब्द के साथ लगकर यह क्रिया कुछ विशेष अर्थ देने लगती है । जैसे,—(क) कुछ रुपया तुम्हारे नाम पडा है । (ख) कई दिन से तुम उनके पीछे पडे हो । (ग) सरदी के मारे गले पड गए हैं । (घ) अब तो यह किताब हमारे गले पडी है, आदि । ऐसी दशा में यह महाविरे का रूप धारण कर लेती है । ऐसे अर्थों के लिये मुख्य शब्द अथवा सज्ञाएँ देखो । जिस प्रकार व्यापार के घटित होने के लगभग या सद्यः व्यापार सूचित करने के लिये क्रिया का रूप भूतकालिक करके तब उसके साथ 'जाना' लगाते हैं

(जैसे, हाथ जला जाता है पैर कटा जाता था, चीज हाथ से गिरी जाती है) उसी प्रकार 'पडना' भी लगाते हैं, जैसे,—छडी हाथ से गिरी पडती है । उ०—चूनरि चारु चुई सी परे चटकीली हरी अँगिया ललचावे ।—(शब्द०) ।

पडपड^१—सज्ञा स्त्री० [अनु०] १ निरंतर पडपड शब्द होना । २. दे० 'पटपट' ।

पडपड^२—सज्ञा पुं० [हिं०] पूँजी । मूलधन ।

पडपडाना—क्रि० अ० [अनु०] १ पडपड शब्द होना । २ मिर्च, सोठ आदि कडवे पदार्थों के स्पर्श से जीभ पर जलन सी मालूम होना । अत्यंत कडवे पदार्थ के भक्षण या स्पर्श से जीभ पर किंचित् दुःखद तीक्ष्ण अनुभूति होना । चरपराना । जैसे,—तुमने ऐसी मिर्च खिलाई कि अब तक जीभ पडपडा रही है ।

पडपडाहट—सज्ञा स्त्री० [हिं० पडपडाना] पडपडाने की क्रिया या भाव । चरपराहट । जैसे,—ऐसी तेज मिर्च खाई कि अबतक पडपडाहट नहीं मिटी ।

पडपणा—सज्ञा स्त्री० [देश०] सहायता । उ०—जो राजा ऊपर खड जाऊँ पडपण खान सुजायत पाऊँ ।—रा० रू०, पृ० ३०७ ।

पडपोता—सज्ञा पुं० [सं० प्रपौत्र] [स्त्री० पडपोती] पुत्र का पोता । पोते का पुत्र । लडके के लडके का लडका । प्रपौत्र ।

पडम—सज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का मोटा सूती कपडा जो प्राय खेमे वगैरह बनाने में काम आता है ।

पडरू—सज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पँडवा' ।

पडवज^१—सज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का वाजा । उ०—तुरक सुजायतखान री, सात करीं सूँ वात । दाखे लिखे दुरग नूँ, पडवज सक्र प्रमात ।—रा० रू०, पृ० २४४ ।

पडवा^१—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिपदा, प्रा० पडिवा] प्रत्येक पक्ष की प्रथम तिथि ।

पडवा^२—सज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पँडवा' ।

पडवा^३—सज्ञा पुं० [देश०] घाट पर रहनेवाली वह नाव जो यात्रियों को पार ले जाती है । घटहा । (लश०) ।

पडवाना—क्रि० स० [हिं० पडना] गिरवाना । पडने का काम दूसरे से कराना ।

पडवी—सज्ञा स्त्री० [देश०] एक प्रकार की ईख जो वैशाख या जेठ में बोई जाती है ।

पडसादा^१—सज्ञा पुं० [सं० प्रतिशब्द, प्रा० पडिसद्, पडिसाद्] प्रतिशब्द । प्रतिध्वनि । उ०—(क) मारू तोइए कणमणइ साल्ह कुमर बहु साद । दासी तद दीवाधरी सौमलिया पडसाद ।—ढोला०, दू० ६०५ । (ख) वाँगा विदल बरावर वादे विड गाजियो गयण पडसादे ।—रा० रू०, पृ० २५३ ।

पडहाँ—सज्ञा पुं० [सं० पटह] दे० 'पटह' । उ०—(क) सौमही चाली छद् आरती । वाजइ पडह पखावज भेर ।—वी० रासो, पृ० ६४ । (ख) सज्जण चाल्या हे सखी, पडहउ वाज्यउ द्रग ।—ढोला० दू० ३५१ ।

पडा—सज्ञा पुं० [देश०] दे० 'पडवा' ।

पढ़ाइन—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाँडे] दे० 'पँडाइन' ।

डाकारा—सञ्ज्ञा पुं० [अनु०] दे० 'पटाका' ।

मुहा०—पढ़ाके की गोट = दे० 'पटापटी' मे 'पटापटी की गोट' ।

डाना^१—क्रि० स० [हि० पढ़ना का सक० रूप] गिराना ।
भुकाना । दूसरे को पढ़ने मे प्रवृत्त करना ।

डाना^२—क्रि० स० [हि० फाड़ना का प्रे० रूप] फाड़ने का काम
दूसरे से कराना । उ०—कल्ल पडाग्र न मुड मुडाया । घरि
घरि फिरत न भूकणु वाया ।—प्राण०, पृ० १११ ।

विशेष—योगी, विशेषत नाथपथी अपनी दीक्षा के क्रम में कान
की ललरी को चिरवाकर उसमे कुडल पहनते हैं । इसी लिये
इन योगियों को कनफटा भी कहा जाता है ।

पढ़ापढ़^१—क्रि० वि० [अनु०] दे० 'पटापट' ।

पढ़ापढ़^२—सञ्ज्ञा स्त्री० दे० 'पटापट' ।

पढ़ाव—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पढ़ना + आव (प्रत्य०)] सेना अथवा किसी
यात्रीदल के यात्रा के बीच में प्रायः रात बिताने के लिये कहीं
ठहरने का भाव । यात्रीसमूह का यात्रा के बीच में अवस्थान ।
जैसे,—आज यही पढ़ाव पड़ेगा ।

क्रि० प्र०—डालना ।—पढ़ना ।

२ वह स्थान जहाँ यात्री ठहरते हो । वह स्थान जो यात्रियों को
ठहरने के लिये निर्दिष्ट हो । चट्टी । टिकान । जैसे,—आज
हम लोग अमुक पढ़ाव पर विश्राम करेंगे ।

मुहा०—पढ़ाव मारना = (१) पढ़ाव डाले हुए किसी यात्रीदल
को लूटना । कारवान या काफिला लूटना । (२) कोई बड़ा
साहसपूर्ण कार्य करना । भारी शौर्य प्रकट करना । जैसे,—
कौन सा पढ़ाव मार आए हो ?

३ चिपटे तले की बड़ी और खुली नाव जो जहाज से बोझ उता-
रने और चढ़ाने के काम मे आती है ।

पढ़ाशी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पड़ाशी] ढाक का पेड़ ।

पढ़िया—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पँडवा, पड़वा] भैंस का मादा वच्चा ।

पढ़ियाना^१—क्रि० स० [हि० पढ़िया + आना (प्रत्य०)] भैंस का
भैंसे से संयोग हो जाना । भैंसाना ।

पढ़ियाना^२—क्रि० स० भैंस वा भैंसे से संयोग कराना । भैंस को
मैथुनार्थ भैंसे के समीप पहुँचाना ।

पढ़िवा^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिपदा, प्रा० पडिवआ] प्रत्येक पक्ष की
प्रथम तिथि । पड़वा । प्रतिपदा ।

पढ़ीहारा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिहार] दे० 'प्रतिहार' । उ०—राई
कहई सुणि हो पड़ीहार । वेगि पलांग भलाई तुषार ।—
वी० रासो, पृ० १३८ ।

पढ़ुआ—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] ऊख का खेत ।

पढ़ेरू^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पडरू' ।

पढ़ीरा^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'परवल' ।

पड़ोस—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिवेश या प्रतिवास, प्रा० पडिवेस, पडिवास]

१ किसी के घर के आसपास के घर । किसी के घर के
समीप के घर । प्रतिवेश ।

थौ०—पास पड़ोस = आसपास । समीपवर्ती स्थान ।

मुहा०—पड़ोस करना = पड़ोस मे वसना । पड़ोसी होना । जैसे,—
पड़ोस तो मैंने आपका किया है, माँगने किससे जाऊँ ।

२ किसी स्थान के आसपास के स्थान । किसी स्थान के
समीपवर्ती स्थान । जैसे,—घर के पड़ोस मे चमार वसते हैं ।

पड़ोसणा^१, पड़ोसिन—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पड़ोस] पड़ोस की रहनेवाली
स्त्री । उ०—पाँच पड़ोसण वैठी छइ आय ।—वी० रासो,
पृ० ६४ ।

पड़ोसिया^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पड़ोस] दे० 'पड़ोसी' । उ०—हम जुवति
पति गेलाह विदेस । लगनहि वसए पड़ोसिया कलेस ।—
विद्यापति, पृ० ३८६ ।

पड़ोसी—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पड़ोस + ई (प्रत्य०)] [स्त्री० पड़ोसिन]
वह मनुष्य जिसका घर पड़ोस मे हो । पड़ोस में रहनेवाला ।
जिसका घर अपने घर के पास हो । प्रतिवासी । प्रतिवेशी ।
हमसाया ।

थौ०—अड़ोसी पड़ोसी = पड़ोसी इत्यादि ।

पड़ोसी^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पड़ोस] दे० 'पड़ोसी' ।

पढ़ंत—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पढ़ना + अंत (प्रत्य०)] १. पढ़ने की क्रिया
या भाव । २. मंत्र । जादू । ३. निरंतर पढ़ने की क्रिया ।
पठत । बराबर पढ़ना । जैसे, पढ़त कविसमेलन ।

पढ़ता—वि० [हि० पढ़ना] पढ़नेवाला । पाठ करनेवाला । उ०—
वेद पढ़ता पाँडे मारे पूजा करते स्वामी हो ।—कवीर
(शब्द०) ।

पढ़त—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पठन] पढ़ने की क्रिया या भाव ।

पढ़ना^१—क्रि० स० [सं० पठन] १. किसी लिखावट के अक्षरों का
अभिप्राय समझना । किसी पुस्तक, लेख आदि को इस प्रकार
देखना कि उसमे लिखी बात मालूम हो जाय । जैसे,—इस
पुस्तक को मैं तीन बार पढ़ गया ।

सयो० क्रि०—जाना ।—डालना ।—लेना ।

२ किसी लिखावट के शब्दों का उच्चारण करना । उच्चारण-
पूर्वक पाठ करना । वाँचना । किसी लेख के अक्षरों मे
सूचित शब्दों को मुँह से बोलना । जैसे,—जरा और जोर
से पढ़ो कि हमको भी सुनाई दे ।

सयो० क्रि०—जाना ।—देना ।

३ उच्चारण करना । मध्यम या धीरे स्वर से कहना । जैसे,—
तुम कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो ।

सयो० क्रि०—जाना ।—देना ।

४ स्मरण रखने के लिये किमी विषय का बारबार उच्चारण
करना । रटना । जैसे, पहाड़ा पढ़ना ।

संयो० क्रि०—जाना ।—डालना ।

५ मंत्र फँकना । जादू करना ।

सयो० क्रि०—देना ।

६ तोते, मैना आदि का मनुष्यों के सिखाए हुए शब्द उच्चारण करना । जैसे,—बूढ़ा तोता भला क्या पढ़ेगा । ७ विद्या पढ़ना । शिक्षा प्राप्त करना । अध्ययन करना । जैसे,—इस लड़के का मन पढ़ने में खूब लगता है ।

सयो० क्रि०—जाना ।—लेना ।

यौ०—पढ़ना लिखना = शिक्षा पाना । पढ़ना पढ़ाना । पढ़ने लिखने या पढ़ने पढ़ाने का काम । पढ़ा लिखा = शिक्षित । जिसने शिक्षा प्राप्त की हो ।

८ नया पाठ प्राप्त करना । नया सबक लेना । जैसे,—तुमने आज पढ़ लिया या नहीं ?

सयो० क्रि०—लेना ।

पढ़ना^२—सज्ञा पुं० [म० पाठीन] एक प्रकार की मछली । विशेष—दे० 'पढ़िना' ।

पढ़नी—सज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का घान ।

पढ़नी उढ़ी—सज्ञा स्त्री० [पढ़नी (?) + उढ़ी (= उड़ान)] कसरत में एक प्रकार का अभ्यास जिसमें आदमी, टीला या अन्य कोई ऊँची चीज उछलकर लौधी जाती है ।

विशेष—इस अभ्यास के दो भेद हैं—एक में सामने की और और दूसरे में पीछे की ओर उछलते हैं । उछलनेवालों के अभ्यास के अनुसार टीला एक, दो या तीन हाथ तक ऊँचा होता है ।

पढ़वाना—क्रि० स० [हि० पढ़ना तथा पढ़ाना का प्रे० रूप] १ किसी से पढ़ने की क्रिया कराना । किसी को पढ़ने में प्रवृत्त करना । बँचवाना । जैसे,—यह पत्र तुमने किससे पढ़वाया ? २ किसी से पढ़ाने की क्रिया कराना । किसी के द्वारा किसी को शिक्षा दिलाना । जैसे,—मैंने अमुक पंडित से अपने लड़के को पढ़वाया है ।

पढ़वैयाँ—सज्ञा पुं० [हि० √पढ़ + ऐया (प्रत्य०)] पढ़नेवाला । शिक्षार्थी ।

पढ़ाई—सज्ञा स्त्री० [हि० पढ़ना + आई (प्रत्य०)] १ पढ़ने का काम । विद्याभ्यास । अध्ययन । पठन । २ पढ़ने का भाव । जैसे,—तुम्हारी पढ़ाई हमको तो ऐसी ही वैसी मानूम होती है । ३ वह धन जो पढ़ने के बदले में दिया जाय ।

पढ़ाई^२—सज्ञा स्त्री० [हि० पढ़ाना + आई (प्रत्य०)] १ पढ़ाने का काम । अध्यापन । पाठन । पढ़ौनी । २ पढ़ाने का भाव । ३ पढ़ाने का ढग । अध्यापनशीली । जैसे,—अमुक स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है । ४ वह धन जो पढ़ाने के बदले में दिया जाय ।

पढ़ाकू—वि० [स० पठ हि० √पढ़ + आकू (प्रत्य०)] बहुत पढ़नेवाला । जो पढ़ते न थके । उ०—उत्तके विद्यालय के साथियो ने उन्हें पढ़ाकू की उपाधि दे रखी थी ।—भारतू०, पृ० ३ ।

पढ़ाना—क्रि० स० [हि० पढ़ना का प्रे० रूप] शिक्षा देना । पुस्तक की शिक्षा देना । अध्यापन करना ।

संयो० क्रि०—डालना ।—देना ।

यौ०—पढ़ाना लिखाना ।

२ कोई कला या हुनर सिखाना । उ०—(क) कुतिस कठोर कूर्म पीठि ते कठिन अति हठि न पिनाक काहू चपरि चढायो है । तुलसी गो राम के मरौज पानि परसत दूटयो मानो वारे ते पुगणि ही पढ़ायो है ।—तुनी (शब्द०) । (ग) परम चतुर जिन कीन्हे मोहन अल्प वयन ही घोरी । वारे ते जेहि यहै पढ़ायो बुधि, उल गल विधि घोरी ।—सू० (शब्द०) ।

सयो० क्रि०—डालना ।—देना ।

३ तोते, मैना आदि पक्षियों को बोलना सिखाना । उ०—सुक नारिका जानकी ज्याए । कनक पीजरन रासि पढाए ।—तुलसी (शब्द०) ।

संयो० क्रि०—देना ।

४ सिखाना । समझाना । उ०—जेहि पिनाक विन नाव किए नृप नवति विपाद बढायो । मोइ प्रभु कर परगत दूटयो जनु हतो पुरारि पढ़ायो ।—तुलसी (शब्द०) ।

पढ़िना—सज्ञा पुं० [म० पाठीन] एक प्रकार की बिना सेहरे की मछली जो तालाब और समुद्र सभी स्थानों में पाई जाती है ।

विशेष—यह मछली प्रायः अन्य मछलियों से अधिक दीर्घ-जीवी और ठील डोलवाली होती है । किसी किसी पढ़िने का वजन दो मन से भी अधिक होता है । यह माँसाशी है और मछलियों के प्रतिरिक्त अन्य छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी निगल लिया करती है । इसके नारे शरीर के मांस में बारीक बारीक कण्टे होते हैं जिन्हें दाँत बहते हैं । वैद्यक में इसे कफ पित्तकारक, बलदायक, निद्राजनक, कोढ़ और रक्तदोष पैदा करनेवाला लिखा है ।

पर्या०—पाठीन । सहलदष्ट । बोदालक । वदालक । पढ़ना । पढ़िना ।

पढ़ैयाँ—सज्ञा पुं० [हि० पढ़ना + ऐया (प्रत्य०)] पढ़नेवाला । पढ़वैया । पाठक । वह जो पढ़ सके । उ०—घोपासा कुराना का पढ़ैया नै बुलाया ।—शिखर०, पृ० ६३ ।

पढ़ौनी—सज्ञा स्त्री० [हि० पढ़ाना] दे० 'पढ़ाई' । उ०—वाचो की अम्मा का पढ़ोस बी बस्ती में जाकर यह पढ़ौनी करना बड़ा ही असरग था ।—नई०, पृ० ११५ ।

पण—सज्ञा पुं० [स०] १ कोई मेल जिसमें हारनेवाले को कुछ परिमित धन अथवा कोई निदिष्ट वस्तु जीतनेवाले को देनी पड़े । कोई कार्य जिसमें बाजी बदी गई हो । जूआ । धूत । २ प्रतिज्ञा । शर्त । मुभाहिदा । कौल करार । सधि । उ०—मेरा स्वीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझनेवाला पुरुष उसके लिये प्राणों का पण लगा सके ।—ध्रुव०, पृ० २५ । ३ वह वस्तु जिसके देने का करार या शर्त हो । जैसे, किराया, भाड़ा, पारिश्रमिक आदि । ४ मोल । कीमत । मूल्य । ५ फीस । शुल्क । ६ धन । सपत्ति । जायदाद ।

७. ऋय विक्रय की वस्तु । सौदा । ८. व्यवहार । व्यापार । व्यवसाय । ९. स्तुति । प्रशंसा । १०. किसी के मत से ११ और किसी के मत से २० माशे के बराबर ताँवे का टुकड़ा जिसका व्यवहार सिक्के की भाँति किया जाता था । ११ मद्यविक्रेता । कलाल (को०) । १२ गृह । घर । वेश्य (को०) । १३ प्राचीन काल की एक विशेष नाप जो एक मुट्ठी अनाज के बराबर होती थी ।

पण्यग्रथि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पण्यग्रथि] बाजार । हाट ।

पण्यच्छेदन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अँगूठा काठने का दह ।

विशेष—चद्रगुप्त के समय में दूसरी बार गाँठ कतरने के अपराध में जो राजकर्मचारी पकड़े जाते थे, उनका अँगूठा काट दिया जाता था ।

पण्यजित दास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जो अपने को जूए के दाँव पर रखकर हारा और दास हुआ हो ।

पण्यता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कीमत । दाम । मूल्य [को०] ।

पण्यत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पण्यता' ।

पण्यन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ खरीदने की क्रिया या भाव । २ बेचने की क्रिया या भाव । ३ शर्त लगाने या बाजी बंदने की क्रिया या भाव । ४. व्यापार या व्यवहार करने की क्रिया या भाव ।

पण्यनीय—वि० [सं०] १. घन लेकर जिससे काम लिया जा सके । २ जिसे खरीदा या बेचा जा सके ।

पण्यफर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कुड़ली में लग्न से २रा, ३रा, ५वाँ षवाँ और ११वाँ घर ।

पण्यवध—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पण्यबन्ध] बाजी बंदना । शर्त लगाना । शर्तबंदी ।

पण्ययात्रा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सिक्के का चलाना (कोटि०) ।

पण्यव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ छोटा नगाडा । २ छोटा ढोल । ढोलकी । उ०—शख भेरी पण्यव मुरज ढक्का बाद घनित घटा नाद बीच विच गुजरत ।—भारतेदु ग्रं०, भा० २, पृ० ६०५ । ३. एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक मगण एक नगण, एक यगण और अत में एक गुरु होता है । प्रत्येक चरण में १६, १६ मात्राएँ होने के कारण यह चौपाई के भी अतगंत आता है । उ०—मानौ योग कथित तैं मोरा । जीतोगे अजुंन जी कोरा ।

पण्यवा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पण्यव' ।

पण्यवानक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नगाडा ।

पण्यवी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पण्यविन्] शिव का एक नाम [को०] ।

पण्यस—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ऋय विक्रय की वस्तु । सौदा ।

पण्यसुंदरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पण्यसुन्दरी] वारवनिता । बाजारी स्त्री । रही । वेश्या ।

पण्यस्त्री—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] रही । वेश्या ।

पण्यस्थि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कौडी । कपर्दक ।

'पण्यंगना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पण्यङ्गना] वेश्या [को०] ।

पण्यस—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रण्यस] विनाश । नाश ।

पण्यसो—वि० [सं० प्रण्यशी] विनाशक । नष्ट करनेवाला ।

पण्यया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ झूत । जूवा । २ व्यापार का लाभ । ३ स्तुति । ४ बाजार । ५ व्यापार [को०] ।

पण्ययित—वि० [सं०] १ खरीदा । बेचा हुआ । ३ जिसकी स्तुति की गई हो । स्तुत [को०] ।

पण्यर्षण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सधि । शर्तनामा [को०] ।

पण्यि^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वैदिक संहिता कालीन एक जाति और उस जाति का आदमी ।—प्रा० भा० प० (भू०), पृ० 'स' ।

पण्यि^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ बाजार । २ दूकान ।

पण्यि^३—वि० १ कपूस । २ पाप करनेवाला [को०] ।

पण्यिकता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दूकानदारी । मोलभाव । उ०—पण्यिकता जगदणिक की है, राणि जैसे कणिक की है ।—अर्चना, पृ० ६३ ।

पण्यिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक पण । (कोटि०) ।

पण्यित—वि० [सं०] जिसकी प्रशंसा की गई है । प्रशंसित । स्तुत । २ क्रीत । ३ विक्रीत । ४ बाजी । ५ जुआ ।

पण्यितव्य—वि० [सं०] १ खरीदने योग्य । २ बेचने योग्य । ३ व्यवहार करने योग्य । ४. प्रशंसा करने योग्य ।

पण्यिता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पण्यितृ] व्यापारी । सौदागर [को०] ।

पण्यिहार—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिहार] क्षत्रियो की एक जाति । उ०—तीन पुरुष उपजे तहाँ चालुक प्रथम पँवार । दूजै तीजै ऊपजे, छत्र जाति पण्यिहार ।—ह० रासो, पृ० १० ।

पण्यि^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पण्यिन्] ऋय विक्रय करनेवाला ।

पण्यि^२—सञ्ज्ञा पुं० एक ऋषि का नाम [को०] ।

पण्यि^३—वि० [सं०] १ खरीदने योग्य । २ बेचने योग्य । ३ व्यापार या व्यवहार करने योग्य । ४ प्रशंसा करने योग्य ।

पण्यि^४—सञ्ज्ञा पुं० १ सौदा । माल । २ व्यापार । व्यवसाय । रोजगार । ३ बाजार । हाट । ४ दूकान ।

पण्यदासो—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] घन लेकर सेवा करनेवाली स्त्री । लौंडी । मजदूरनी । वादी । सेविका ।

पण्यनिचय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विक्री का माल इकट्ठा करना ।

विशेष—इसमें भी चद्रगुप्त के समय में घान्य के एकत्र करने के सदृश ही नियम प्रचलित था ।

पण्यनिर्वाहण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विना चुंगी का महसूल दिए चोरी चोरी से माल निकाल ले जाना (कोटि०) ।

पण्यपति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ भारी व्यापारी । बहुत बड़ा रोजगारी । २ बहुत बड़ा साहूकार । नगरसेठ ।

पण्यपत्तन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के माल आकर विक्रते हो । मंडी । (कोटि०) ।

पण्यपत्तन चरित्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मंडी में प्रचलित नियम (कोटि०) ।

पर्यपत्तन चरित्रोपधानिका—वि० स्त्री० [सं०] (वह नाव) जिसने बदरगाह के नियमों का पालन न किया हो (कोटि०) ।

पर्यपरिणीता—सज्ञा स्त्री० [म०] सुरैतिन । रखेली [को०] ।

पर्यफल—सज्ञा पुं० [सं०] १ व्यापार में प्राप्त लाभ । मुनाफा । नफा ।

पर्यफलत्व—सज्ञा पुं० [सं०] मुनाफा [को०] ।

पर्यभूमि—सज्ञा स्त्री० [सं०] स्थान जहाँ माल या सीदा जमा किया जाता हो । कोठी । गोदाम । गोला ।

पर्ययोषित—सज्ञा स्त्री० [सं०] वेश्या । रडी [को०] ।

पर्यविलासिनी—सज्ञा स्त्री० [सं०] वेश्या । रडी ।

पर्यवोथी—सज्ञा स्त्री० [सं०] क्रय विक्रय का स्थान । बाजार । हाट ।

पर्यशाला—सज्ञा स्त्री० [सं०] दूकान । वह घर जिसमें चीजें विकती हो ।

पर्यसस्था—सज्ञा स्त्री० [सं०] माल रखने का गोदाम (कोटि०) ।

पर्यसमवाय—सज्ञा पुं० [सं०] थोक बेचा जानेवाला माल ।

पर्यस्त्री—सज्ञा स्त्री० [सं०] वेश्या । रडी ।

पर्यांगना—सज्ञा स्त्री० [सं० पर्याङ्गना] २० 'पर्यस्त्री' ।

पर्याधा—सज्ञा स्त्री० [सं० पर्याधान्य या पर्याम्नधान्य] कोंगी नाम का धान्य ।

पर्या—सज्ञा स्त्री० [सं०] मालकोंगी ।

पर्याजीव—सज्ञा पुं० [सं०] व्यापार से जीविका करनेवाला । रोजगारी । व्यापारी ।

पर्योपघात—सज्ञा पुं० [सं०] विक्री के माल का नुकसान ।

विशेष—कोटिल्य ने लिखा है कि व्यापारियों को चद्रगुप्त के राज्य से सहायता मिलती थी । जब उनके माल का नुकसान हो जाता था, तब उन्हें राज्य की ओर से सहायता मिलती थी ।

पतखा—सज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का बगला, जिसे 'पतोया' कहते हैं ।

पतंग^१—सज्ञा पुं० [म० पतङ्ग] १. पक्षी चिड़िया । २. शालभ । टिड्डी । ३. परवाना । पाँखी । मुनगा । फतिगा । ४. कोई परदार कीड़ा । उड़नेवाला कीड़ा । ५. सूर्य । ६. एक प्रकार का धान । जड़हन । ७. जलमहुआ । जलमधूक वृक्ष । ८. एक प्रकार का चदन । ९. कटुक । गेंद । उ०—कराहि गान बहु नान तरगा । बहु विधि श्रीडहि पानि पतगा ।—मानस, १।१२६ । १०. पारद । पारा । ११. जैनों के एक देवता जो वाणव्यतर नामक देवगण के अतर्गत हैं । १२. एक गधव का नाम । १३. एक पहाड़ का नाम । १४. तन । शरीर । जिस्म (अने०) । १५. नौका । नाव (अने०) । १६. चिनगारी । १७. कृष्ण या विष्णु (को०) । १८. अश्व । घोड़ा (को०) ।

पतंग^२—सज्ञा पुं० [सं० पतङ्ग] एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जिससे लाल रंग बनाते हैं ।

विशेष—यह वृक्ष मध्यभारत तथा कटक प्रांत में अधिकता से होता है । वैसाख जेठ में जमीन को अच्छी तरह जोतकर

इसके बीज रो दिए जाते हैं । प्राय २० वर्ष में जब उसके पेड़ चालीस फुट ऊँचे हो जाते हैं तब काट लिए जाते हैं । इसकी लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर प्राय दो पहर तक पानी में उबालते हैं, जिसमें एक प्रकार का बहुत बढ़िया लाल रंग निकलता है । पत्तने इस रंग की सपत बहुत होती थी और यह बहुत अधिक मान में भारत से विदेशों को भेजा जाता था, परन्तु जपसे विनायनी नरली रंग तैयार होने लगे तबसे इसकी माँग बहुत घट गई है । आजकल कई प्रकार के मिलायती 'लाल रंग भी 'पतंग' के नाम से ही विकते हैं । कुछ लोग इनको 'लालचंदन' ही मानते हैं, परन्तु यह बान ठीक नहीं है । इनको 'वक्त्रम' भी कहते हैं ।

पतंग^३—वि० उड़नेवाला ।

पतंग^४—सज्ञा पुं० [सं० पतङ्ग (= उड़नेवाला)] इसमें ऊपर उड़ाने का एक पिन्नीना जो बाँस की तीलियों के ढाँचे पर एक ओर चौकोना कागज और कभी कभी वायुगत बपटा मड़कर बनाया जाता है । गुड़ी । काकोरा । नग । तुम्कन । तिलगी ।

विशेष—इसका ढाँचा दो तीलियों में बनता है । एक बिनकुल सीधी रगी जाती है पर दूसरी को लताकर मिहगवदार कर देते हैं । तीरी तीली को 'ढड्डा' और मिहगवदार को 'कमाँच' या 'काप' कहते हैं । ढड्डे के एक निरे को 'पुछल्ला' और दूसरे को 'मुद्धा' कहते हैं । पुछल्ले पर एक तिकोना कागज और मड दिया जाता है । कमाँच के दोनो निरे 'कुच्चे' कहलाते हैं । ढड्डे पर कागज की दो छोटी चौकोर चकतियाँ मड़ी होती है । एक उन न्यान पर जहाँ ढड्डा और कमाँच एक दूसरे को काटते हैं, दूसरी पुछल्ले की ओर कुछ निश्चित अंतर पर । इन्हीं में मूराम करके 'कसा' अर्थात् वह डोरा बाँधा जाता है जिसमें चरखी या परेते की डोरी का निरा बाँधकर पतंग उड़ाया जाता है । यद्यपि देखने में पतंग के चारों पार्श्वों की नवाई बराबर जान पड़ती है, तथापि मुद्धे और कुच्चे का अंतर कुच्चे और पुछल्ले के अंतर से अधिक होता है । जिस डोरी से पतंग बढ़ाया जाता है वह नरा, वाना, रील आदि कई प्रकार की होती है । बाँस के जिस विशेष ढाँचे पर छोरी लपेटी रहती है । उसके भी दो प्रकार हैं—एक 'चरखी' और दूसरा 'परेता' । विस्तारभेद से पतंग कई प्रकार का होता है । बहुत बड़े पतंग को 'तुक्कल' कहते हैं । वनावट का दोष, हवा की तेजी आदि कारणों से अक्सर पतंग हवा में चक्कर खाने लगता है । इसे रोकने के लिये पुछल्ले में कपड़े की एक घञ्जी बाँध देते हैं, इसको भी 'पुछल्ला' कहते हैं । भारतवर्ष में केवल मनोरंजन के लिये पतंग उड़ाया जाता है परन्तु पार्श्वतः देशों में इसका कुछ व्यावहारिक उपयोग भी किया जाने लगा है ।

क्रि० प्र०—उड़ाना ।—लड़ाना ।

यौ०—पतंगवाज ।

मुहा०—पतग काटना = अपने पतंग की डोरी से दूसरे के पतंग की डोरी को रगड़कर काट देना। पतग उड़ाना = डोरी ढीली करके पतग को हवा में और ऊपर या आगे बढ़ाना।

पतंगछुरी—स्त्री० [स० पतङ्ग (= उड़ानेवाला अथवा चिनगारी) + हि० छुरी] पीठ पीछे बुराई करनेवाला। दो व्यक्तियों या दलों में झगडा करानेवाला। छुगुलखोर। पिशुन। चवाई।

पतंगवाज—सज्ञा पुं० [हि० पतंग + फा० वाज] १ वह जिसको पतग उड़ाने का व्यसन हो। वह जिसका प्रधान कार्य पतग उड़ाना हो। वह जिसका अधिकांश समय पतग उड़ाने में जाता हो। २ पतग से ऋडा करनेवाला। पतग उड़ाकर मनोरंजन करनेवाला। पतग का शौकीन।

पतंगवाजी—सज्ञा स्त्री० [हि० पतंगवाज] १. पतंगवाज होने का भाव। पतग उड़ाने की क्रिया या भाव। पतग उड़ाना। २ पतग उड़ाने की कला। जैसे,—पतंगवाजी में वह अपना जोड़ नहीं रखता।

पतंगम—सज्ञा पुं० [स० पतङ्गम] १ पक्षी। चिडिया। २ पतगा। सूर्य। ३. शलभ। पतगा।

पतंगसुत—सज्ञा पुं० [स० पतङ्ग (= सूर्य) + सुत] १ सूर्य के पुत्र अश्विनीकुमार। २ यम। ३ शनि। ४. सुग्रीव। ५. करण। राघेय। उ०—भजु पतंगसुत आदि कहें मृत्युजय अरि अंत। तुलसी पुष्कर जयकर चरन पासु इच्छत।—स० सप्तक, पृ० १६।

पतंगा—सज्ञा पुं० [स० पतङ्ग] १ पतग। कोई उड़नेवाला कीडा मकोडा। फतिंगा या पांखी आदि। २ परदार कीडों की जाति का एक विशेष कीडा जो प्राय घासों अथवा वृक्ष की पत्तियों पर रहता है। फतिंगा। ३ चिनगारी। स्फुलिंग। अग्निकरण। ४. दीए की बत्ती का वह अण जो जलकर उससे अलग हो जाता है। फूल। गुल।

पतंगिका—सज्ञा स्त्री० [स० पतङ्गिका] १ मधुमक्खियों का एक भेद। बड़ी मधुमक्खी। पुत्तिका। २ छोटी चिडिया (को०)। ३ दे० 'पतचिका' (को०)।

पतंगी—वि० स्त्री० [स० पतङ्ग] रंग विरगी या महीन। उ०—गोरे तन पहिरि पतंगी सारी भूपकि भूपकि गावै गारी, भिजावै आनदघन पिय इसरग।—घनानद, ४४२।

पतंगी—सज्ञा पुं० [स० पतङ्गिन्] पक्षी (को०)।

पतंगेन्द्र—सज्ञा पुं० [स० पतङ्गेन्द्र] पक्षिराज। गरुड।

पतञ्जलि—सज्ञा पुं० [स० पतञ्जलि] एक ऋषि का नाम (को०)।

पतञ्जिका—सज्ञा स्त्री० [स० पतञ्जिका] धनुष की डोरी। कमान की तांत। चिल्ला।

पतञ्जलि—सज्ञा पुं० [स० पतञ्जलि] १. एक प्रसिद्ध ऋषि जिन्होंने योग सूत्र की रचना की। २ एक प्रसिद्ध मुनि जिन्होंने पाणिनीय सूत्रों और कात्यायन कृत उनके वार्तिक पर 'महाभाष्य' नामक बृहद् भाष्य का निर्माण किया था। एक किंवदन्ती के अनुसार चरक संहिता के रचयिता और

सगृहीता के रूप में पतञ्जलि का नाम लिया जाता है, पर यह मत ऐतिहासिकों को मान्य नहीं है।

विशेष—इनकी माता का नाम गोणिका और जन्मस्थान गोनर्द था। डा० सर रामकृष्ण भाडारकर के मत से आधुनिक गोडा ही प्राचीन गोनर्द है। गोणिकापुत्र, गोनर्दीय आदि इनके नाम मिलते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि ये कुछ समय तक काशी में भी रहे थे। जिस स्थान पर इनका रहना माना जाता है उसे आजकल नागकुआँ कहते हैं। नागपंचमी के दिन वहाँ मेला होता है और बहुत से संस्कृत के पंडित और छात्र वहाँ एकत्र होकर व्याकरण पर शास्त्रार्थ करते हैं। ये अतन्त भगवाद् अथवा शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। अन्य सभी सूत्रग्रंथों की व्याख्याएँ भाष्य कही गई हैं, केवल पतञ्जलिकृत भाष्य को महाभाष्य की सज्ञा और प्रतिष्ठा मिली।

बहुत से लोग दर्शनकार पतञ्जलि और भाष्यकार पतञ्जलि को एक ही व्यक्ति मानते हैं। परंतु यह मत विवादास्पद और अनिर्णीत है। योग सूत्रकार पतञ्जलि भाष्यकार पतञ्जलि से बहुत पूर्व के माने गए हैं। महाभाष्य के रचनाकाल से सैकड़ों वर्ष पहले कात्यायन ने पाणिनीय सूत्रों पर अपना वार्तिक बनाया था। कहते हैं कि उसमें योगसूत्रकार पतञ्जलि का उल्लेख है। कात्यायन के वार्तिक पर पतञ्जलि का भाष्य है। इस आधार पर कहा जाता है कि योग सूत्रकार पतञ्जलि महाभाष्यकार पतञ्जलि से पहले के हैं। उनका समय भी निश्चित हो चुका है। वे शुंगवंश के सस्थापक पुष्यमित्र के समय में वर्तमान थे। मौर्य राजा को मारकर जब पुष्यमित्र राजा हुआ तब उसने पाटलिपुत्र में अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ में पतञ्जलि जी ने भी भाग लिया था।

पत०—सज्ञा पुं० [स० पति] १ पति। खसम। खारिद। ३. मालिक। स्वामी। प्रभु।

पत०—सज्ञा स्त्री० [स० प्रतिष्ठा] १. कानि। लज्जा। आवरु। विशेष—दे० 'पति'। उ०—मुख मेरा चूमत दिन रात। होठों लागत कहत न बात। जैसे मेरी जग में पत। ए सखी साजन ना सखी नथ।—खुसरौ (शब्द०)। २ प्रतिष्ठा। इज्जत। उ०—बोला है तुम्हें गम है ऊँटों का, कुछ गम नहीं पत रहमाँ का।—दक्खिनी०, पृ० २२३।

क्रि० प्र०—खोना।—गँवाना।—जाना।—रखना।

यौ०—पतपानी = लज्जा। आवरु।

मुहा०—पत उतारना = किसी की प्रतिष्ठा नष्ट करनेवाला काम करना। दस आदमियों के बीच में किसी का अपमान करना। वेइज्जती करना। आवरु लेना। पत रखना = प्रतिष्ठा भग्न न होने देना। इज्जत बनी रहने देना। इज्जत बचाना। पत खोना = दे० 'पत उतारना'।

पत०—सज्ञा पुं० [स० पत्र, प्रा० अप० पत्त, पत्त] पत्ता। पत्र। जैसे, पतभर।

पत०—सज्ञा स्त्री० [स० पत्र] पत्ती। पत्र।

पत०—सज्ञा पुं० [स० पत्र, प्रा० पत्त] पत्ता। पत्र। उ०—एक

वान वेग ही उड़ाने जातुघान जात, सूखि गए गात हैं पतञ्ज
भए वाय के ।—तुलसी (शब्द०) ।

पतञ्ज (५) —सञ्ज्ञा पुं० [सं० पति + उञ्ज] चंद्रमा ।—(हिं०) ।

पतखोपन—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पत+खोवन (= खोनेवाला)] वह जो
अपने या अन्य के मान सभ्रम की रक्षा न कर सके । वह जो
प्रायः ऐसे कार्य करता फिरे जिससे अपनी या दूसरे की
वेङ्जती हो ।

पतग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पक्षी । चिड़िया । पखेरू । उ०—द्विज, सकुत,
पक्षी, शकुनि, अडज, विहग, विहग । वियग, पतत्री, पत्ररथ,
पत्री, पतग, पतग ।—नद० अ०, पृ० १०१ ।

पतगेंद्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पतगेन्द्र] पक्षिराज । गरुड ।

पतचौली—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] एक प्रकार का पौधा ।

पतजिव—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] जिया पोता । पुत्रजीवक ।

पतम्ह—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पत (= पत्ता) + म्हना] १ वह ऋतु
जिसमें पेड़ों की पत्तियाँ म्ह जाती हैं । शिशिर ऋतु । माघ
और फाल्गुन के महीने । कुभ और मीन की सन्क्रातियाँ ।

विशेष—इस ऋतु में हवा अत्यंत खूबी और सरदि की हो जाती
है, जिससे वस्तुओं के रस और स्निग्धता का शोषण होता है
और वे अत्यंत खूबी हो जाती हैं । वृक्षों की पत्तियाँ रूखता
के कारण सूखकर म्ह जाती हैं और वे टूटें हो जाते हैं ।
सृष्टि का सौंदर्य और शोभा इस ऋतु में बहुत घट जाती है,
वह वैभवहीन हो जाती है । इसी से कवियों को यह अप्रिय है ।
वैद्यक के मतानुसार इस ऋतु में कफ का सचय होता है और
पाचकाग्नि प्रबल रहती है जिससे स्निग्ध और भारी आहार
इसमें सरलता से पचता है और पथ्य है । हलके, वातवर्धक
और तरल भोजनद्रव्य इसमें अपथ्य हैं ।

सुश्रुत के मत से माघ और फाल्गुन ही पतम्ह के महीने हैं, पर
अन्य अनेक वैद्यक ग्रंथों ने पूस और माघ को पतम्ह माना
है । वैद्यक के अतिरिक्त सवत्र माघ और फाल्गुन ही पतम्ह
माने गए हैं ।

२ अवनतिकाल । खराबी और तवाही का समय । वैभवहीनता
या कगाली का समय ।

पतम्हारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पतम्ह' ।

पतम्हारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पतम्ह' ।

पतम्हाड़—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पतम्ह] दे० 'पतम्ह' । उ०—पतम्हाड़
के पीछे नवल दल यथा देत वसत है ।—प्रेमघन०, भा० १,
पृ० १२२ ।

पतम्हारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पतम्ह] दे० 'पतम्ह' । उ०—ससार
वाटिका में जो बहार और पतम्हारी के अनुसार नाना प्रसूनो
के प्रस्फुटित और रहित होने के कारण शोभा का प्रकाश और
ह्रास होता है ।—प्रेमघन०, भा० २, पृ० ४६६ ।

पतङ्गो—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पत्र, हिं० पत्रा] पत्रा । पत्रांग । उ०—
पाठथा तोहि बोलावइ हो राय, ले पतङ्गो जोसी वेगो तु
झाइ ।—वी० रासो०, पृ० ६ ।

पतत्^१—वि० [सं०] १. गिरता हुआ । उतरता हुआ । नीचे को
जाता या आता हुआ । २ उड़ता हुआ ।

पतत्—सञ्ज्ञा पुं० पक्षी । चिड़िया ।

पतत्पतंग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पतत्पतङ्ग] ह्रवता हुआ सूर्य । वह सूर्य
जो अस्त हो रहा हो ।

यौ०—पतत्पतंगप्रतिम = नीचे की ओर गिरते हुए सूर्य के
समान ।

पतत्प्रकर्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] काव्य में एक प्रकार का रसदोष ।

पतत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पक्ष । पक्ष । डैना । २ पर । ३.
वाहन । सवारी ।

पतत्रि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पक्षी । चिड़िया ।

पतत्रिकेतन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विष्णु ।

पतत्रिराज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गरुड । पक्षिराज [को०] ।

पतत्री—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पतत्रिन्] पक्षी । उ०—वियग (= विहग)
पतत्री पत्ररथ पत्री पतग पतग ।—अनेकार्य०, पृ० २५ ।
२ वाण । तीर (को०) । ३ अश्व (को०) ।

पतद्ग्रह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रतिग्राह । पीकदान । २ वह
कमंडलु जिसमें भिक्षुक भिक्षान्न लेते हैं । भिक्षापात्र । कासा ।

पतद्भीरु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वाज पक्षी । श्येन ।

पतन्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पक्षी । चिड़िया ।

पतन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ गिरने या नीचे आने की क्रिया या
भाव । गिरना । २. नीचे जाने, घँसने या बैठने की क्रिया या
भाव । बैठना या हूवना । ३. अवनति । अघोगति । जवाल ।
तवाही । जैसे,—दुष्टों की सगति करने से पतन अनिवार्य हो
जाता है । ४ नाश । मृत्यु । जैसे,—अमुक युद्ध में कुल दो लाख
सैनिकों का पतन हुआ । ५ पाप । पातक । ६. जातिच्युति ।
पातित्य । जाति से वहिष्कृत होना । ७. उड़ने की क्रिया या
भाव । उड़ान । उड़ना । ८ किसी नक्षत्र का अक्षांश ।

पतन^२—वि० १. गिरता हुआ या गिरनेवाला । २. उड़ता हुआ या
उड़नेवाला ।

पतनधर्मी—वि० [सं० पतनधर्मिन्] गिरने के स्वभाववाला ।
नश्वर [को०] ।

पतनशील—वि० [सं०] जिसका पतन निश्चित हो । जो बिना
गिरे न रह सके । गिरनेवाला ।

पतना—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] योनि का तट भाग । योनि का किनारा ।

पतनारा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] परनाला । नावदान । मोरी ।

पतनाला—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पतनारा' । उ०—झर लगता था
और वही पर दूँदें नाचा करती थी । बाजे से बजते पत-
नाले, सडक लवालब भरती थी ।—मिट्टी०, पृ० ६८ ।

पतनी (५)^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पत्नी] दे० 'पत्नी' । उ०—गुरु पतनी
पठए तव कानन ।—नद० अ०, पृ० २१४ ।

पतनी^२—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] वह आदमी जो घाट पर की नाव इस पार
से उस पार ले जाता और उस पार से इस पार ले आता हो ।
घाट पर से पार उतारनेवाला घट्टा या माझी । (लश०) ।

पतनीय^१—वि० [सं०] १. जिसका गिरना अथवा अधोगत होना सम्भव हो। गिरने अथवा नष्ट, पतित या अधोगत होने के योग्य। गिरनेवाला। पतित होनेवाला। २. पतित करने वाला या अधोगत करनेवाला [को०]।

पतनीय^२—सञ्ज्ञा पुं० वह पाप जिसके करने से जाति से च्युत होना पड़े। पतित करनेवाला पाप।

पतनोन्मुख—वि० [सं०] जो गिरने की ओर प्रवृत्त हो। जो गिरने के मार्ग पर लग चुका हो या बढ रहा हो। जिसका पतन, अधोगति या विनाश निकट आता जाता हो।

पतपच्छी^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिपच्छी] विरोधी। शत्रु। उ०—पत-पच्छी जुग पाँण सरोरुह पल्लवाँ।—वाँकी०, प्र०, भा० ३, पृ० ३७।

पतपानी—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पत + पानी] १ प्रतिष्ठा। मान। इज्जत। २ लाज। आवरू।

पतम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ चद्र। २ पक्षी। ३ फनिगा।

पतयाना—क्रि० सं० [हि० पतियाना] दे० 'पतियाना' या 'पत्याना'। उ०—नेकि पठै गिरिधर को मैया। रही मिल-साई पतयाइ न श्रीरें, इनके हाँथ लगी मेरी गैया।—पोद्दार अभि० प्र०, पृ० २३४।

पतयालु—वि० [सं०] पतनशील। गिरनेवाला।

पतयिष्यु—वि० [सं०] पतनशील। पतयालु [को०]।

पतर^१—वि० [सं० पत्र] १. पतला। कृश। २. पत्ता। पर्ण। उ०—पेट पतर जनु चदन लावा। कुकुँह केसर वरन सुहावा।—जायसी (शब्द०)। (ख) घडा ज्यो नीर का फूटा। पतर जैसे डार से टूटा।—कबीर म०, पृ० १७३। ३. पत्तल। पनवारा।

पतरज—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पत्रज] तेजपात। पत्रज। उ०—अजमोदा चितकरना पतरज वायभिरग। सेंधा सोठ श्रीफला, नासहि मारुत अग।—इ द्रा०, पृ० १५१।

पतरा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पत्र] १ वह पत्तल जिसे तँबोली लोग पान रखने के टोकरे या डलिया में बिछाते हैं। २ सरसो का साग। सरसो का पत्ता।

पतरा^२—वि० सं० 'पतला'।

पतराई^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पतला + ई (प्रत्य०)] पतलापन। सूक्ष्मता। उ०—खाँडे चाहि पौनि पैनाई। वार चाहि पातरि पतराई।—पदमावत, पृ० १५०।

पतरिंग, पतरिंगा—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक पक्षी, जिसका सारा शरीर हरा और ठोर पतली तथा प्राय दो अंगुल लंबी होती है। यह मकड़ियों को पकड़कर खाता है। इसकी गणना गानेवाले पक्षियों में की जाती है।

पतरिा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पत्री] दे० 'पत्ता'। उ०—विरचत पतरिा अरु दोने अपने कर सु दर।—प्रेमघन०, भा० १, पृ० ४६।

पतरंगा—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] पतरिंगा पक्षी।

पतरोला—[अ० पेद्रौल] गश्त लगानेवाला सिपाही।

पतला—वि० [सं० पात्रट, प्रा० पात्रट, अथवा सं० पत्र, हि० पत्तर] [वि० स्त्री० पतली] १ जिसका धेरा, लपेट अथवा चौड़ाई कम हो। जो मोटा न हो। जैसे, पतली छड़ी, पतला बल्ला, पतला खभा, पतली रस्सी, पतली घञ्जी, पतली गोट, पतली गली, पतला नाला।

विशेष—बहुत पतली वस्तुओं को महीन, वागीक या सूक्ष्म, भी कह सकते हैं, जैसे, पतला तार, पतला सूत, पतली सुई। इसी प्रकार कम चौड़ी बड़ी वस्तुओं के लिये पतला के स्थान पर 'सकीर्ण' या 'सँकरा' भी कह सकते हैं, जैसे, सँकरी गली, सँकरा नाला प्रादि।

२ जिसके शरीर के इधर उधर का विस्तार कम हो। जिसकी देह का धेरा कम हो। जो स्थूल या मोटा न हो। कृश। जैसे, पतला श्रादमी।

यौ०—दुबला पतला = जो मोटा ताजा न हो। कृश शरीर का।

३ (पटरी, पत्तर या तह के आकार की वस्तु) जिसका दल मोटा न हो। दबीज का उलटा। भीना। हलका। जैसे, पतला कपडा या कागज। ४ गाढे का उलटा। अधिक सरल। जिसमें जलाश अधिक हो, जैसे, पतला दूध या रसा।

मुहा०—पतली चीज या पदार्थ = कोई तरल पदार्थ। कोई प्रवाही द्रव्य।

५ अशक्त। असमर्थ। कमजोर। निर्बल। हीन। जैसे,—भाई सभी मनुष्य मनुष्य ही हैं, किसी को इतना पतला क्यों समझते हो ?

मुहा०—पतला पढ़ना = दुर्दशाग्रस्त होना दैन्यप्राप्त होना। अशक्त या निर्बल पड जाना। पतला हाल = दुःख और कष्ट की अवस्था। शोचनीय या दयनीय दशा। करुणाजनक स्थिति। बुरा हाल। दुर्दशाकाल। दुःदिन।

पतलाई^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पतला + ई (प्रत्य०)] पतला होने का भाव। पतलापन।

पतलापन—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पतला + पन (प्रत्य०)] पतला होने का भाव।

पतली—सञ्ज्ञा स्त्री० [लश०] जूआ। द्यूत।

पतलून—सञ्ज्ञा पुं० [अ० पेंटलून] वह पाजामा जिसमें मियानी नहीं लगाई जाती और पावंचा सीधा गिरता है। अंग्रेजी पाजामा।

पतलूननुमा^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पतलून + फा० नुमा (= दर्शक)] वह पाजामा जो पतलून से मिलता जुलता होता है।

पतलूननुमा^२—वि० पतलून की तरह का। पतलून सा।

पतलो—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] १ मरकडे की पताई। सरपत की पताई। २ सरकडा। सरपत।

पतवर—क्रि० वि० [सं० पट्विक्त = पति = हि० पति + वार (प्रत्य०)] पंक्तिवार। पत्तिक्रम में। बराबर बराबर। उ०—'हीथोरन' की झाडी छाया जानु मनोहर। परी भई पीठिन की पगति पतवर पतवर।—श्रीधर (शब्द०)।

पतवा—सञ्ज्ञा पु० [हि० पत्ता + वा (प्रत्य०)] एक प्रकार का मचान, जिसपर बैठकर शिकार खेलते हैं।

विशेष—यह लकड़ी का बनाया जाता है और चार हाथ ऊँचा तथा उतना ही चौड़ा होता है। लंबा इतना होता है कि प आदमी रहकर निशाना मार सकें। चारों ओर पतली पतली लकड़ियों की टट्टियाँ लगी रहती हैं जिनमें निशाना मारने के लिये एक एक विज्ञा ऊँचे और चौड़े सुराख बने रहते हैं। टट्टियों के ऊपर हरी हरी पत्तियों समेत टहनियाँ रख दी जाती हैं जिसमें बाघ आदि शिकारियों को न देख सकें।

क्रि० प्र०—बाँधना।

पतवार—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पत्रवाल, पात्रपाल, प्रा० पात्तपाड] नाव का एक विशेष और मुख्य अंग जो पीछे की ओर होता है। इसी के द्वारा नाव मोड़ी या घुमाई जाती है। कन्हार। कर्ण पतवाल। सुकान।

विशेष—यह लकड़ी का और त्रिकोणाकार होता है। प्रायः आधा भाग इसका जल के नीचे रहता है और आधा जल के ऊपर। जो भाग जल के ऊपर रहता है उसमें एक चिपटा डडा जडा रहता है जिसपर एक मल्लाह बैठा रहता है। पतवार को घुमाने के लिये यह डडा मुठियों का काम देता है। यह डडा जिस ओर घुमाया जाता है उसके विपरीत ओर नाव घूम जाती है।

पतवारी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाता, पत्ता] ऊख का खेत।

पतवारी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पतवार] दे० 'पतवार'।

पतवाल—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पतवार] दे० 'पतवार'।

पतवास—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पतव या पतव्री (= चिड़िया) + वास] पक्षियों का झुंड। चिक्कस।

पतस—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पक्षी। २ फतिगा, टिट्टी आदि। ३ चंद्रमा।

पतसर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० शरपत्र] सरपत। उ०—चारों ओर फैले पतसर के जगल।—भस्मावृत०, पु० १०६।

पतसाही—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पादशाही] वादशाह का अधिकार। राज्य। उ०—कोटि करे वारे पतसाई।—राम० धर्म०, पु० १६६।

पतसाह—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पादशाह] सम्राट्। नृपति। उ०—इती जो न भव करूँ तो न पतसाह कहाऊँ।—ह० रासो, पु० ६४।

पतसाही—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पादशाही] दे० 'पादशाही'। उ०—सरू थया मारग सगला ही। सोच दलाई मितियो पतसाही।—रा० रू०, पु० २६२।

पतस्वाहा—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] अग्नि।

पता^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रत्यय, प्रा० पत्ता (= ख्याति), या सं० प्रत्यायक, प्रा० पत्ताअत्र > पत्ताअ > हि० पता] १ किसी विशेष स्थान का ऐसा परिचय जिसके सहारे उस तक पहुँचा अथवा उसकी स्थिति जानी जा सके। किसी वस्तु या व्यक्ति के स्थान का ज्ञान करानेवाली वस्तु, नाम या लक्षण आदि। किसी का स्थान सूचित करनेवाली बात जिससे उसको पा

सकें। किसी का अथवा किसी के स्थान का नाम और स्थिति परिचय जैसे,—(क) आप अपने मकान का पता बतावें तब तो कोई वहाँ आवे। (ख) आपका वर्तमान पता क्या है।

क्रि० प्र०—जानना।—देना।—यताना।—पूछना।

यौ०—पता ठिकाना = किसी वस्तु का स्थान और उसका परिचय।

२ चिट्ठी की पीठ पर लिखा हुआ वह लेख जिससे वह अभीष्ट स्थान को पहुँच जाती है। चिट्ठी की पीठ पर लिखी हुई पते की इवारत।

क्रि० प्र०—लिखना।

३ खोज। अनुसंधान। सुराग। टोह। जैसे,—आठ रोज से उसका लडका गायब है, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला।

क्रि० प्र०—चलना।—देना।—मिलना।—लगना।—लेना।

यौ०—पता निशान = (१) खोज की सामग्री। वे बातें जिनसे किसी के संबंध में कुछ जान सकें। जैसे,—अभी तक हमको अपनी किताब का कुछ भी पता निशान नहीं मिला। (२) अस्तित्वसूचक चिह्न। नामनिशान। जैसे,—अब इस इमारत का पता निशान तक नहीं रह गया।

४ अभिज्ञता। जानकारी। खबर। जैसे,—आप तो आठ रोज इलाहाबाद रहकर आ रहे हैं, आपको मेरे मुकदमे का अवश्य पता होगा।

क्रि० प्र०—चलना।—होना।

५ गूढ तत्व। रहस्य। भेद। जैसे,—इस मामले का पता पाना बड़ा कठिन है।

क्रि० प्र०—देना।—पाना।

मुहा०—पते की = भेद प्रकट करनेवाली बात। रहस्य खोलनेवाली बात। रहस्य की कुजी। जैसे,—वह बहुत पते की कहता है। पते की बात = भेद प्रकट करनेवाली बात। रहस्य खोलनेवाला कथन।

पता^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पत्र] दे० 'पत्ता'। उ०—(क) मजु वजुल की लता और नील निचुल के निकुज जिनके पता ऐसे सघन जो सूर्य की किरनो को भी नहीं निकलने देते।—श्यामा०, पु० ४१। (ख) आनंदधन अजजीवन जैवत हिलिमिलि ग्वार तोरि पतानि ढाक।—घनानंद, पु० ४७३।

पताई—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पत्र] किसी वृक्ष या पौधे की वे पत्तियाँ जो सूखकर झड गई हो। झडी हुई पत्तियों का ढेर।

मुहा०—पताई लगाना = दहकाने के लिये आग में सूखी पत्तियाँ भोकना। (किसी के) मुँह में पताई लगाना = (किसी का) मुँह फूँकना। (किसी के) मुँह में आग लगाना। (स्त्रियों की गाली)।

पताक—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पताक] दे० 'पताका'। उ०—नीच न सोहत मच पर महि में सोहत धी। काक न सोह पताक पै सजै हस सर तीर।—दीन ग्र०, पु० ७६।

ताकरा—सज्ञा पुं० [देश०] एक वृक्ष जो बंगाल आसाम और पश्चिमी घाट में होता है। इसकी लकड़ी सफेद रंग की और मजबूत होती है और गृहनिर्माण में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। इसके फल खाए जाते हैं।

ताकांक—सज्ञा पुं० [सं० पताकाङ्क] दे० 'पताकास्थान'।

ताकांशु, पताकांशुक—सज्ञा पुं० [सं०] झडा। झडी। पताका। पताका का कपडा।

ताका—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ लकड़ी आदि के डंडे के एक सिरे पर पहनाया हुआ तिकोना या चौकोना कपडा, जिसपर कभी कभी किसी राजा या सस्था का खास चिह्न या संकेत चित्रित रहता है। झडा। झडी। फरहरा। विशेष—दे० 'ध्वज'। उ०—धवल धाम चहुँ और फरहरत धुजा पताका।—भारतेन्दु ग्र०, भा० १, पृ० २२२।

विशेष—साधारणतः मंगल या शोभा प्रकट करने के लिये पताका का व्यवहार होता है। देवताओं के पूजन में भी लोग पताका खडी करते या चढाते हैं। युद्धयात्रा, मंगलयात्रा आदि में पताकाएँ साथ साथ चलती हैं। राजा लोगो के साथ उनके विशेष चिह्न से चित्रित पताकाएँ चलती हैं। कोई स्थान जीतने पर राजा लोग विजयचिह्न स्वरूप अपनी पताका वहाँ गाडते हैं।

पर्या०—कदुली। कदली। कदलिका। जयती। चिह्न। ध्वजा। वैजयंती।

क्रि० प्र०—उडना।—उडाना।—फहराना।

मुहा०—(किसी स्थान में अथवा किसी स्थान पर) पताका उडना = अधिकार होना। राज्य होना। जैसे,—कोई समय या जब इस सारे देश में राजपूतो की ही पताका उडा करती थी। समकक्षरहित होना। सर्वप्रधान होना। सबसे श्रेष्ठ माना जाना। जैसे,—आज व्याकरण शास्त्र में अमुक पंडित की पनाका उड रही है। (किसी वस्तु की) पताका उडना = प्रसिद्ध होना। धूम होना। जैसे,—(क) आपकी दानशीलता की पताका चारो ओर उड रही है। पताका उडाना = अधिकार करना। विजयी होना। जैसे,—धबराने की बात नहीं, आज नहीं तो कल आप अवश्य ही इस दुर्ग पर अपनी पताका उडावेंगे। पताका गिरना = हार होना। पराजय होना। जैसे,—दिन भर शत्रुओं के नाको चने चववाने के पीछे अत को सायकाल पराक्रमी राजपूतो की पताका गिर गई। पताकापतन या पताकापात = पताका गिरना। पताका फहराना = (१) पताका उडना। (२) पताका उडाना विजय की पताका = विजयी पक्ष की वह पताका जो विजित पक्ष की पताका गिराकर उसके स्थान पर उडाई जाय। विजयसूचक पताका।

२ वह डडा जिसमें पताका पहनाई हुई होती है। ध्वज। ३ सौभाग्य। ४ तीर चलाने में उँगलियों का एक विशेष न्यास या स्थिति। ५ दस खर्व की सख्या जो अको में इस प्रकार लिखी जायगी—१०,००,००,००,०००।

६ नाटक में वह स्थल जहाँ किसी पात्र के चितागत भाव या विषय का समर्थन या पोषण आगंतुक भाव से हो।

विशेष—जहाँ एक पात्र एक विषय में कोई बात सोच रहा हो और दूसरा पात्र आकर दूसरे सबध में कोई बात कहे, पर उसकी बात से प्रथम पात्र के चितागत विषय का मेल या पोषण होता हो वहाँ यह स्थल माना जाता है। विशेष दे० 'नाटक'।

७ पिंगल के ६ प्रत्ययो में से षष्ठी जिसके द्वारा किमी निश्चित गुरुलघु वर्ण के छंद अथवा छंदो का स्थान जाना जाय।

विशेष—उदाहरणार्थ, प्रस्तार द्वारा यह मालूम हुआ कि ष मात्राओं के कुल ३४ छंदमेद होते हैं और मेरु प्रत्यय द्वारा यह भी जाना गया कि इनमें से ७ छंद १ गुरु और ६ लघु वर्ण के होंगे। अब यह जानना रहा कि ये सातों छंद किस किस स्थान के होंगे। पताका की क्रिया से यह ज्ञात होगा कि १३वें, २१वें, २६वें, २९वें, ३१वें, ३२वें, ३३वें, स्थान के छंद १ गुरु और ६ लघु के होंगे।

८ नाट्यशास्त्र के अनुसार प्रासंगिक कथावस्तु के दो भेदों में से एक। वह कथावस्तु जो सानुबध हो और बराबर चलती रहे। प्रासंगिक कथावस्तु का दूसरा भेद 'प्रकरी' है।

पताकादड—सज्ञा पुं० [सं० पताकादण्ड] पताका का डडा। झडे का डडा। ध्वजदड।

पताकास्थान—सज्ञा पुं० [सं०] नाटक में वह स्थान जहाँ पताका हो। दे० 'पताका—६'।

पताकास्थानक—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पताकास्थान'।

पताकिक—सज्ञा पुं० [सं०] पताकाधारक। झडावरदार। झडी उठानेवाला।

पताकिनी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ सेना। ध्वजिनी। २ एक देवी।

पताकी—सज्ञा पुं० [सं० पताकिन्] [स्त्री० पताकिनी ?] १ पताका-धारी। झडी उठानेवाला। २. रथ। ३. एक योद्धा जो महाभारत में कौरवों की ओर से लडा था। ४ झडा। ध्वज। ५ फलित ज्योतिष में राशियों का एक विशेष वेध जिससे जातक के अरिष्ट काल की अवधि जानी जाती है।

पतापत—पि० [सं०] अतिशय पतनशील। बहुत गिरा हुआ [गे०]।

पतामी—सज्ञा स्त्री० [देश०] एक प्रकार की नाव।

पतार(पुं०)—सज्ञा पुं० [सं० पाताल] १ २० 'पाताल'। उ०—विक्रम घसाँ पेम के वाराँ। सपनावति कहेँ गएउ पतारँ।—पदमावन, पृ० २७६। २ जगल। सघन वन। उ०—निकमि ताडुका वन ते रघुपति निरस्यो दूरि पहारा। ताके निकट मेघ इव मडित देख्यो श्याम पतारा।—रघुराज (शब्द०)।

पतारी—सज्ञा स्त्री० [देश०] वत्तल की जाति का एक जलपक्षी।

विशेष—यह उत्तर भारत में जलाशयों के किनारे पाया जाता है। ऋतु के अनुसार यह अपने रहने के स्थान में परिवर्तन करता रहता है। इसका शिकार किया जाता है।

पतारी^२—सज्ञा स्त्री० [सं० पत्रावती] लताकुज । पत्रावली । उ०—
तैसी झुकी रही लतारी । तैसे सोभित नवल पतारी । तामे
अटक रहै सारी । तेहि आप छुडावत प्यारी ।—भारतेंदु
ग्र०, भा० २, पृ० १२४ ।

पताल—सज्ञा पुं० [सं० पाताल] दे० 'पाताल' । उ०—ल्यावै आसमान
तँ पताल तँ पकरि, पारावार तँ कढ़ावे थाह लेत न थकत
है ।—हम्मीर०, पृ० ११ ।

पताल आँबला—सज्ञा पुं० [सं० पातालश्यामलकी अथवा भूम्यामल-
की] शीषघ के काम में आनेवाला एक पौधा (क्षुप) ।

विशेष—यह बहुत बड़ा नहीं होता । पत्ते के नीचे पतली डडी
निकलती है । इसी में फल लगते हैं । वैद्यक के अनुसार यह
कड़वा, कपिला, मधुर, शीतल, वातकारक, प्यास, खाँसी,
रक्तपित्त, कफ, पादुरोग, क्षत और विष का नाशक तथा पुत्र-
प्रदायक है ।

पर्याय—भूम्यामलकी । शिवा । ताली । क्षेत्रामली । तामलकी ।
सुक्ष्मफला । अफला । अमला । बहुपुत्रिका । बहुवीर्या ।
भूधान्नी, आदि ।

पतालकुम्हड़ा—सज्ञा पुं० [हिं० पताल + कुम्हड़ा] एक प्रकार का
जगली पौधा जिसकी बेल शकरकद की लता की तरह
जमीन पर फैलती है और शकरकद ही की तरह जिसकी गाँठों
से कद फूटते हैं । कदों का परिमाण एक सा नहीं होता,
कोई छोटा और कोई बहुत बड़ा होता है । यह दवा के काम
में आता है ।

पतालदती—सज्ञा पुं० [सं० पातालदन्ती] वह हाथी जिसका दाँत नीचे
की ओर झुका हो । वह हाथी जिसके दाँत का मुकाब भूमि
की ओर हो । ऐसा हाथी ऐबी समझा जाता है ।

पतावर—सज्ञा पुं० [हिं० पत्ता] पेड़ के सूखे हुए पत्ते ।

पतासी—सज्ञा स्त्री० [देश०] बड़इयों का एक शौजार । छोटी
रुखानी ।

पतिंग—सज्ञा पुं० [सं० पतङ्ग] पतंग । पतिंगा । भुनगा । उ०—
इहाँ देवता अस गए हारी । तुम पतिंग को अही भिखारी ।
जायसी (शब्द०) ।

पतिंवरा—वि० [सं० पतिम्बरा] १ (स्त्री) जो अपना पति स्वयं
चुने । स्वेच्छा से पति का वरण करनेवाली (स्वयंवरा) । २
काला जीरा । कृष्णजीरक ।

पति^१—सज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० पत्नी] १ किसी वस्तु का मालिक ।
स्वामी । अधिपति । प्रभु । जैसे, भूमिपति, गृहपति आदि । २
स्त्री विशेष का विवाहित पुरुष । किसी स्त्री के सवध में वह
पुरुष जिसका उस स्त्री से व्याह हुआ हो । पाणिग्राहक ।
भर्ता । कात । हूल्हा । शौहर । खार्विद ।

विशेष—साहित्य में पति या नायक चार प्रकार के होते हैं—
अनुकूल, दक्षिण, घृष्ट और शठ । 'अनुकूल' वह पति है जो एक
ही स्त्री पर पूर्णरूप से अनुरक्त हो और दूसरी की आकांक्षा तक
न रखता हो । 'दक्षिण' वह है जिसके प्रणय का आघार अनेक
स्त्रियाँ हो, पर जिसकी उन सबपर समान प्रीति हो अथवा

जो अनेक स्त्रियों का समान प्रीतिपात्र हो । 'घृष्ट' वह है जो
तिरस्कार और अपमान सहकर भी अपना काम बनाता है,
जिसके लज्जा और मान नहीं होता । 'शठ' वह कहलाता
है जो छल कपट में निपुण हो, जो वचनचातुरी से या
भूठ बोलकर अपना काम निकाले । इनके प्रतिरक्त
किसी-किसी आचार्य ने 'अनभिज्ञ' नाम से पति का पाँचवाँ भेद
भी माना है । यह हाव भाव आदि शृंगार चेट्टाश्रो का अर्थ
समझने में असमर्थ होता है ।

३ पाण्डित दर्शन के अनुसार सृष्टि, स्थिति और संहार का वह
कारण जिसमें निरतिशय, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति हो
और ऐश्वर्य से जिसका नित्य सवध हो । शिव या ईश्वर ।
४ मर्यादा । प्रतिष्ठा । लज्जा । इज्जत । साख । दे० 'पत' ।
उ०—(क) अथ पति राखि लेहु भगवान ।—सूर (शब्द०)
(ख) तुम पति राखी प्रह्लाद दीन दुख टोरा ।—गणेश प्रसाद
(शब्द०) । ५ मूल । जड़ । ६ गति । गमन (को०) ।

पति^२—सज्ञा गी० [सं० प्रतिष्ठा] दे० 'पत' ।

पतिपानी—संज्ञा पुं० [सं० पतिपानी] उ०—सुमिरों मेहर के भवानी
हूँ पतिपानी राखऽ मोर ।—प्रेमघन०, भा० २, पृ० ४०१ ।

पतिश्रां—सज्ञा स्त्री० [सं० पन्निका] पत्र । चिट्ठी । उ०—के पतिश्रा
लए जाएत रे मोरा पियतम पाम ।—विद्यापति, पृ० ३६५ ।

पतिश्राना—क्रि० सं० [सं० प्रत्यय, प्रा० पत्त्य + हिं० श्राना
(प्रत्य०)] विश्वास करना । सच मानना । प्रतीत करना ।
एतवार करना । मानना ।

पतिश्रार—सज्ञा पुं० [हिं० पतिश्राना] पतिश्राने का भाव ।
विश्वास । खास । एतवार । मातवरी ।

पतिश्रार^२—वि० दे० 'पतियार' ।

पतिक—सज्ञा पुं० [सं० प्रतिक] कार्यापण नाम का एक प्राचीन
सिक्का ।

पतिकामा—सज्ञा स्त्री० [सं०] पति की अभिलाषा करनेवाली
(स्त्री) । पतिप्राप्ति की इच्छा रखनेवाली (स्त्री) ।

पतिखेचर—सज्ञा पुं० [सं०] शिव । महादेव (को०) ।

पतिंग—सज्ञा पुं० [सं० पातक] पाप । कल्मष । उ०—गगा गया
छै तीरथ योग, वाणारसी तिहाँ परसजे, तिरिण दरसण जाई
पतिंग न्हासि ।—श्री० रासो, पृ० ३५ ।

पतिघातिनी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ पति की हत्या करनेवाली
स्त्री । पति को मार डालनेवाली स्त्री । २ वह स्त्री,
जिसका ज्योतिष या सामुद्रिक के अनुसार विधवा हो जाना
समव हो । वैधव्य योग अथवा लक्षणवाली स्त्री ।

विशेष—कर्कट लग्न अथवा कर्कटस्थ चंद्रमा में मंगल के तीसवें
अंश में जन्म ग्रहण करनेवाली, जिसकी हथेली पर अंगूठे के
निचले भाग से छिगुनी के निचले भाग तक सीधी रेखा हो,
जिसकी श्रृंखलें लाल हो अथवा जिसकी नाक के सिरे पर
काला मसा हो, जिसकी छाती अधिक उभरी या फैली हुई
हो, जिसके ऊपर के ओठ पर रोएँ हो—ऐसी सब स्त्रियाँ
पतिघातिनी कही गई हैं ।

३ वैधव्यसूचक एक विशेष हस्तरेखा। स्त्री की हथेली पर वह रेखा जो अंगूठे की जड़ से छिगुनी की जड़ तक होती है।

पतिधन—वि० [सं०] वैधव्यसूचक लक्षण का योग।

पतिधनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पतिधन योग या लक्षणवाली स्त्री।

पतिजिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुत्रजीवा] जीयापोता नामक वृक्ष।

पतित—वि० [सं०] १ गिरा हुआ। ऊपर से नीचे आया हुआ। २ आचार, नीति या धर्म से गिरा हुआ। आचारच्युत। नीतिभ्रष्ट या धर्मत्यागी। २. महापापी। अतिपातकी। नरकदायक पाप का कर्ता। ४ जाति से निकाला हुआ। समाज द्वारा बहिष्कृत। जातिच्युत। जाति या समाज से स्वारिज।

विशेष—हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार आपद्काल न होने पर भी स्वधर्म के नियमों का उल्लंघन करनेवाला पतित होता है। आग लगानेवाला, विष देनेवाला, दूसरे का अपकार करने की नीयत से फांसी लगाकर, डूबकर या जलकर मर जानेवाला, ब्रह्महत्याकारी, सुरा पान करनेवाला, गुरुपत्नी-गामी, नास्तिक, चोर, मद्यप, चाडाल स्त्री में मैथुन करने अथवा चाडाल का दान लेने या अन्न खानेवाला ब्राह्मण तथा किसी अन्य महा या अतिपातक का कर्ता पतित माना जाता है। शुद्धित्व के अनुसार पतित का दाह, अत्येष्टिक्रिया, अस्थिसंचय, श्राद्ध यहाँ तक कि उसके लिये अर्घ्य वहाना तक अकर्तव्य है। पतित का ससर्ग, उसके साथ भोजन, शयन या वातचीत करनेवाला भी पतित होता है। पर पतितससर्ग के कारण पतित व्यक्ति का श्राद्ध, तर्पण आदि निषिद्ध नहीं है। माता के अतिरिक्त अन्य सब व्यक्ति पतित दशा में त्याज्य हैं। गर्भधारण और पोषण के कारण माता किसी दशा में त्याज्य नहीं है। प्रायश्चित्त करने से पतित व्यक्ति की शुद्धि होती है।

५ अत्यंत मलीन। महा अपावन। ६ युद्धादि में पराजित या हारा हुआ (को०)। ७ अति नीच। अधम।

यौ०—पतितउधारन। पतितपावन।

पतितउधारन(पु)¹—वि० [म० पतित + हि० उधारना (सं० उद्धरण)] जो पतित का उद्धार करे। पतितों को गति देनेवाला।

पतितउधारन²—सञ्ज्ञा पुं० १ ईश्वर। २ सगुण ईश्वर। पतित जनो के उद्धार के लिये अवतार लेनेवाला ईश्वर।

पतितता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पतित होने का भाव। जाति या धर्म से च्युत होने का भाव। २ अपवित्रता। ३ अधमता। नीचता।

पतितत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पतितत्व] पतित होने का भाव।

पतिवपावन¹—वि० [सं०] [वि० स्त्री० पतितपावनी] पतित को पवित्र करनेवाला। पतित को शुद्ध करनेवाला।

पतिवपावन²—सञ्ज्ञा पुं० १ ईश्वर। २ सगुण ईश्वर।

पतितवृत्त—वि० [सं०] पतित दशा में रहनेवाला। जातिच्युत होकर जीवन बितानेवाला।

पतितव्य—वि० [सं०] पतन के योग्य। गिरनेवाला।

पतितसावित्रीक¹—वि० [सं०] जिसका उपनयन सस्कार न हुआ हो या विधिपूर्वक न हुआ हो। सावित्रीभ्रष्ट (क्षत्रियादि)।

पतितसावित्रीक²—सञ्ज्ञा पुं० प्रथम तीन प्रकार के ब्राह्मणों में से एक।

पतिस्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ स्वामी, प्रभु या मालिक होने का भाव। स्वामित्व। प्रभुत्व। २ पाणिग्राहक या पति होने का भाव। पाणिग्राहकता। वरत्व।

पतिदेव(पु)¹—वि० स्त्री० [सं० पतिदेवा] दे० 'पतिदेवता'। उ०—तेरे सुसील सुभाव भद्र, कुल नारिन को कुलकानि सिखाई। तैही जनो पतिदेवत के गुन गौरि सदै गुनगौरि पढाई।—मति० ग्र०, पृ० २७५।

पतिदेवता—वि० [सं०] जिस (स्त्री) के लिये केवल पति ही देवता हो। जिस (स्त्री) का आराध्य या उपास्य एकमात्र पति हो। पतिव्रता। उ०—पतिदेवता सुतीय महँ मातु प्रथम तव रेख।—तुलसी (शब्द०)।

पतिदेवा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पतिदेवता'।

पतिधर्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पति का धर्म। स्वामी का कर्तव्य। २ पति के प्रति स्त्री का धर्म। पति के सबध में पत्नी के कर्तव्य।

पतिधर्मवती—वि० [सं०] पतिसवधी कर्तव्यों का भक्तिपूर्वक पालन करनेवाली (स्त्री)। पति की भरी भाँति सेवा शुश्रूषादि करनेवाली (स्त्री)। पतिव्रता।

पतिधृक—वि० [सं०] पति को न चाहनेवाली (स्त्री)।

पतिनी(पु)¹—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पत्नी] दे० 'पत्नी'। उ०—पट कुचैल, दुरवल द्विज देखत, ता के तदुल खाए हो। सपति दै वाकी पतिनी कौं मन अभिलाष पुराए हो।—सूर०, १।७।

पतिप्राण—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पतिव्रता स्त्री।

पतिव्रता¹—वि० [सं० पतिव्रता] दे० 'पतिव्रता'। उ०—सब समर्थ पतिव्रता नारी इन सम और न आन।—भारतेंदु ग्र०, भा० १, पृ० ६७६।

पतिव्रत(पु)¹—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पतिव्रत] दे० 'पतिव्रत'। उ०—रानी रमा को विसारि पातिव्रत दै मन गोपी सनेह विसाहो।—प्रेमघन०, भा० १, पृ० १६६।

पतिभक्ति—वि० स्त्री० [सं०] पति की सेवा करना।

पतिभरता(पु)¹—वि० स्त्री० [सं० पतिव्रता] दे० 'पतिव्रता'। उ०—हम पतिभरता पुरुष विन, कौन दिसा चित को धरै।—ह० रासो, पृ० १२०।

पतिमती—वि० स्त्री० [सं०] सधवा। पतिवती [को०]।

पतिर्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पत्रिका] पत्री। चिट्ठी। उ०—रानी पतिया पठाय, जीव जनि मारिया।—धरम०, पृ० ४।

पतियान—वि० [म०] पति का पदानुसरण करनेवाली। पति की अनुगामिनी।

पतियाना—क्रि० सं० [सं० प्रत्यय + हि० आना (प्रत्य०)]

विश्वास करना। सच मानना। प्रतीत करना। उ०—प्रिय विना प्रिया से रहा नहीं जाता था। पर उनको उसका हरिण न पतियाता था।—शकु०, पृ० १५।

पतियारा—पि [हि० पतियाना] विश्वास करने के योग्य। विश्व-सनीय। उ०—तीन लोग भरि पूरि रहो है नांही है पतियार।—कवीर (शब्द०)।

पतियारा(पु)—सज्ञा पुं० [हि० पतियाना] पतियाने का भाव। विश्वास। एतवार। उ०—तुमसो और पास नहिं कोऊ मानहु करि पतियारे। हरीचंद खोजत तुमही को वेद पुगन पुकारे।—भारतेंदु ग्र०, भा० २, पृ० १३३।

पतियारी(पु)—सज्ञा स्त्री० [हि० पतियारा] विश्वास। एतवार। उ०—वेद पुरान सिधारो तहाँ 'हरिचंद' जहाँ तुम्हारी पतियारी। मेरे तो साधन, एक ही हैं जग नदलला घृपमानु दुलारी।—भारतेंदु ग्र०, भा० २, पृ० ७६।

पतिरिपु—वि० [म०] पति से द्वेष करनेवाली (स्त्री)। पति से वैर रखनेवाली।

पतिलघन—सज्ञा पुं० [पुं० पतिलघन] १ पति को नांघना। पति के रहते अन्य से विवाह कर लेना। २ पति की आज्ञा वा उल्लघन करना [क्रो०]।

पतिलीन(पु)—वि० [हि० पति (= प्रतिष्ठा) + सं० लीन] समान-हीन। प्रतिष्ठाहीन। उ०—अति दीनन की गतिहीनन की पतिलीनन की रति के मन ही। सब ही विधि जान, करी सुखदान, जिवावत प्रान कृपातन ही।—घनानंद, पृ० ११०।

पतिलोक—सज्ञा पुं० [म०] पति को प्राप्त स्वर्ग जो पतिव्रता स्त्री को प्राप्त होता है। पतिव्रता स्त्री को मिलनेवाला वह स्वर्ग जिसमें उसका पति रहता है।

पतिवती—पि [सं० पतिवती] पतिवती। सधवा। मभृता।

पतिवती—वि० [सं० पति + हि० वती (प्रत्य०)] सधवा (स्त्री)। सौभाग्यवती।

पतिवन्नो—सज्ञा स्त्री० [म०] सौभाग्यवती स्त्री [क्रो०]।

पतिव्रत(पु)—सज्ञा पुं० [म० पतिव्रत] दे० 'पतिव्रत'। उ०—जलमा काज नरकी जादम। घुर ऊठी पतिव्रत तर्षां ध्रम।—रा० रू०, पृ० १७।

पतिव्रत(पु)—सज्ञा पुं० [म० पतिव्रत] दे० 'पतिव्रत'।

पतिव्रता(पु)—पि [सं० पतिव्रता] दे० 'पतिव्रता'।

पतिवेदन—पि [म०] जो पति को प्राप्त करावे। पति का लाभ करानेवाला।

पतिवेदन—सज्ञा पुं० महादेव। शिव।

पतिव्रत—सज्ञा पुं० [म०] पति मे (स्त्री की) अनन्य प्रीति और भक्ति। पति में निष्ठापूर्वक अनुराग। पातिव्रत्य।

पतिव्रता—वि० [म०] पति मे अनन्य अनुराग रखनेवाली और यथाविधि पतिसेवा करनेवाली (स्त्री)। जिस (स्त्री) का प्रेमपात्र और उपाम्य एकमात्र पति हो। सब प्रकार पति के अनुकूल आचरण करनेवाली (स्त्री)। सती।

साध्वी। सचचरित्रा। उ०—विमुग्य हृद्दी मोनव्रत सेवर उषे खल के प्रति पतिव्रता।—साकेत, पृ० ३८६।

विशेष—मन्वादि स्मृतियों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को प्राजन्म पति की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। कोई ऐसी बात न करनी चाहिए जो पति को अप्रिय हो। पति कितना ही दुश्मूल क्यों न हो, पतिव्रता को सदा सर्वदा उसे अपना देवता मानना चाहिए। जो बातें पति को अप्रिय हो उसकी मृत्यु के पश्चात् भी वे पतिव्रता के लिये आतंध्य हैं। पति की मृत्यु के अनंतर पतिव्रता स्त्री को फल, मूल आदि साकर पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। पति के विदेश होने की दशा में उसे श्रृ गार, हासपरिहास, गीत, मर तमाशे में वा दूसरे के घर जाना आदि कार्य त्याग देना चाहिए। सपूर्ण व्रत, पूजा, तपस्या और आराधना त्यागकर पतिसेवा में रत रहना ही पतिव्रता के लिये एकमात्र धर्म है। पुत्र की अपेक्षा पति को सौगुना अधिक प्यार करे। पति उगे सब पापों में छुड़ा देता है। पत्न्य पर प्रेम का पातिव्रत का उत्तम धन करनेवाला स्त्री भृगालयोनि में जन्म पाती है।

पतिष्ठ—पि [म०] अत्यंत पतनशील। गिरनेवाला।

पतिसेवा—सज्ञा स्त्री० [म०] पति की सेवा। पतिभक्ति [क्रो०]।

पतिस्याह(पु)—सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पातशाह'। उ०—वादिक्त खां पतिस्याह सो', करी सलाम सु आय।—ह० राधो पृ० ८१।

पतिहारी(पु)—सज्ञा स्त्री० [म० प्रतिहारी] दे० 'पटतर'। उ०—रगभूमि बहु भांति संचारी। ताल मिलाइ करे पतिहारी।—माधवानल०, पृ० १६४।

पती—सज्ञा म० [सं० पति] दे० 'पति'।

पतीजना(पु)—क्रि० अ० [हि० प्रतीत + ना (प्रत्य०)] पति-आना। एतवार करना। भरोसा करना। विश्वास करना। प्रतीत करना। उ० (क) तव देवकी दीन हूँ भाष्यो तुप को नाहिं पतीजं।—सूर (शब्द०)। (ख) दोत्यो विहंग विहंसि स्रुवर बलि कहो गुभाव पतीजं।—तुलसी (शब्द०)।

पतीनना(पु)—क्रि० सं० [हि० प्रतीत + ना (प्रत्य०)] विश्वास करना। सच मानना। यकीन करना। उ०—देवै गर्भ भई है कन्या राइ न वात पतीनी हो।—सूर (शब्द०)।

पतीरा—सज्ञा स्त्री० [सं० पति] पति। कतार। पक्ति।

पतीरो—सज्ञा स्त्री० [वंश०] एक प्रकार की चटाई।

पतीला—वि० [हि० पतला] दे० 'पतला'।

पतीला—पि [हि०] दे० 'पतला'।

पतीली—सज्ञा स्त्री० [सं० पतिली (= हांडी)] नाँवे या पीतल की एक प्रकार की बटलोई जिसका मुँह और पेंदी साधारण बटलोई की अपेक्षा अधिक चौड़ी और दल मोटा होता है। देगची।

पतुकी—सज्ञा स्त्री० [सं० पतिली] हांडी। उ०—पतुकी घरी स्याम

खिसाई रहे उत ग्वारि हँसी मुख आंचल के ।—केशव ग्र०, भा० १, पृ० ८३ ।

पतुरिया—सज्ञा स्त्री० [सं० पातिली (= स्त्री विशेष)] १ नाचने गाने का व्यवसाय करनेवाली स्त्री । वेश्या । रडी । २ व्यभिचारिणी स्त्री । छिनाल स्त्री ।

पतुली—सज्ञा स्त्री० [देश०] कलाई में पहनने का एक आभूषण जिसको श्रवण प्रात की स्त्रियाँ पहनती हैं ।

पतुही—सज्ञा स्त्री० [हि० पत्ता] मटर की वह फली जिसके दाने, रोग, आधिदैविक बाधा या समय से पहले तोड़ लिए जाने के कारण यथेष्ट पुष्ट न हो सके हो । नन्हे नन्हे दानोवाली छोटी ।

पतूख—सज्ञा स्त्री० [हि० पतोखा] दे० 'पतोखी' ।

पतूखी—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पतोखी' । उ०—श्रीखिया हरि दरसन की भूखी । बारक वह मुख आनि दिखावहु दुहि पय पियत पतूखी ।—सूर०, १० । ३५५७ ।

पतेना—सज्ञा स्त्री० [देश०] पक्षी विशेष । उ०—सुनाती है बोली, नहीं फूल सुँघनी, पतेना सहेली लगाती हैं फेरे ।—हरी घास०, पृ० १३६ ।

पतोई—सज्ञा स्त्री० [देश०] वह फेन जो गुड बनाने समय खीलते रस में उठता है ।

पतोखद^१—सज्ञा स्त्री० [सं० पत्रोषध] वह औषधि जो किसी वृक्ष, पौधे या वृण का पत्ता या फूल आदि हो । घासपात की दवाई । खरविरई ।

पतोखद^२—सज्ञा पुं० [सं० औषधिपति] चद्रमा । (डि०) ।

पतोखदी—सज्ञा स्त्री० [सं० पौत्रोषधि] दे० 'पतोखद^१' ।

पतोखा^१—सज्ञा पुं० [हि० पत्त] [अल्पा० पतोखी] पत्ते का बना पात्र । दोना ।

पतोखा^२—सज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का बगला जो मलंग बगले से छोटा और किलचिया में बड़ा होता है । इसका पर सूख सफेद, नरम, चिकना और चमकीला होता है । टोपियो आदि के बनाने में प्रायः इसी के पर काम में लाए जाते हैं । पतखा ।

पतोखी—सज्ञा स्त्री० [हि० पतोखा] १. एक पत्ते का दोना । छोटा दोना । २. पत्ते का बना छोटा छाता । घोषी ।

पतोरा—सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पत्योरा' ।

पतोही—सज्ञा स्त्री० [सं० पुत्रवधू] दे० 'पतोहू' ।

पतोहरी—सज्ञा स्त्री० [सं० पत्रोदरो] क्षीण कटिवाली स्त्री । उ०—सखिजन प्रेरते, हसि हेरते सत्रानी लारमी पातरी, पतोहरी, तरणी, तरहट्टी वन्ही विअण्णणी परिहास पेसणी चुदरी साथ जवे देखिअ ।—कीर्ति०, पृ० ४ । † पुत्रवधू ।

पतोही—सज्ञा स्त्री० [सं० पुत्रवधू प्रा० पुत्रवधू] बेटे की स्त्री । पुत्रवधू ।

पतौआ—सज्ञा पुं० [सं० पत्र, हि० पत्ता] पत्ता । पर्ण ।

पतौवा—सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पतोआ' । उ०—(क) जाने, विनु जाने, के रिसाने, केलि कवहुँक सिवाहि चढ़ाए ह्वै हैं बेल के

पतौवा द्वे ।—तुलसी ग्र०, पृ० २२८ । (स) आरि के पतौवा गए बाहिर ले डारिवे के देखी भीर भार, रहे बैठिये रसाल हैं ।—भक्तमाल (श्री०), पृ० ४५८ ।

पत्तग—सज्ञा पुं० [सं० पत्तद्र] पत्तग नामक लकड़ी । वक्कम ।

पत्तु†^१—सज्ञा पुं० [सं० पत्र, प्रा० पत्त] दे० 'पत्र' । उ०—पत्त पुगतन भरिग पत्त अकुरिग उट्ट तुछ । ज्यो मंसत्र उत्तरिय चढिय संसव किसोर कुछ ।—पृ० रा०, २५।६६ ।

पत्त^२—सज्ञा पुं० [सं० पट्ट या पत्र (= लेखाधार)] पट्ट । पटरी । उ०—सुनि हंस वैन उर लगी वत्त । त्रिधना लिपत बयो मिटै पत्त ।—पृ० रा०, २५।१२० ।

पत्तु^३—सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पति' । उ०—नाहीं ऋथ थपणो । यह नरनाहीं पत्त राह दुहें हृद रखणो अमसाह छतपत्त ।—रा० रू०, पृ० १० ।

पत्तन—सज्ञा पुं० [सं०] १. नगर । शहर ।

विशेष—प्राचीन समय में नगरों के नाम के साथ इस शब्द का प्रयोग होता था । जैसे, प्रभासपत्तन । अत्र इनका अपभ्रंश पाटन या पट्टन अनेक नगरों के नाम के साथ मयुक्त है । जैसे, भालरापाटन, विजगापट्टन, मुसलीपट्टन आदि । कभी कभी इस शब्द का प्रयोग उस नगर के लिये भी होता था जहाँ बंदरगाह होता था और जो समुद्री यात्रियों और व्यापारियों के कारण छोटा नगर हो जाता था ।

पौ०—पत्तनवणिक = नगर का वणिक । शहर का व्यापारी ।

२. मृदंग ।

पत्तनाध्यक्ष—सज्ञा पुं० [सं०] बंदरगाह का अध्यक्ष या प्रधान अधिकारी (कौटि०) ।

पत्तर—सज्ञा पुं० [सं० पत्र] १. धातु का ऐसा चिपटा लवोतरा टुकड़ा जो पीटकर तैयार किया गया हो और पत्ते की तरह पतला होने पर भी कड़ा हो तथा जिसकी तह या परत की जा सके । धातु की चादर । जैसे,—(क) मंदिर के शिखर पर मोने का पत्तर चढ़ा है । (स) यत्र बनाने के लिये तबिये का एक पत्तर ले आओ ।

विशेष—कागज की तरह महीन पत्तर जो भट मोटा और तह किया जा सके 'बक' कहलाता है ।

२. दे० 'पत्तल' ।

पत्तल—सज्ञा स्त्री० [सं० पत्र, हि० पत्ता] १. पत्ते को सीकों से जोड़कर बनाया हुआ एक पात्र जिससे थाली का काम लिया जाता है ।

विशेष—पत्तन प्रायः बरगद, महुए या पनाम आदि के पत्तों की बनाई जाती है । इसकी बनावट गोनाकार होती है । व्यास की लंबाई एक हाथ में कुछ कम वा अधिक होती है । हिंदुओं के यहाँ बड़े भोजों में इसी पर भोजन परना जाता है । अन्य श्रवणों पर भी इनका धात्री के स्थान पर उपयोग किया जाता है । जगली मनुष्य तो नदा स्त्री में खाना खाते हैं ।

मुद्दा—एक पत्तल के खानेवाले = परन्पर घनिष्ठ सामाजिक

सबध रखनेवाले । परस्पर रोटी वेटी का व्यवहार करनेवाले । अत्यंत सवर्गीय या सजातीय । किसी की पत्तल में खाना = किसी के साथ खानपान आदि का सबध करना या रखना । जैसे,—बला से वह बुरा है, पर किसी के पत्तल में खाने तो नहीं जाता । जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना = उपकारक का अपकार करना । जिससे लाभ उठाना उसी की हानि करना । कृतघ्नता करना । जैसे,—दुष्टों का यह स्वभाव ही है कि जिस पत्तल में खाएँ उसी में छेद करें । पत्तल पढ़ना = भोजन के लिये पत्तल विछना । भोजन के समय लोगों के सामने पत्तलो का रखा जाना । पत्तल पर-सना = (१) भोजन के सहित पत्तल सामने रखना । (२) पत्तल में भोजन की वस्तुएँ रखना । पत्तल में खाना परसना । पत्तल लगाना = दे० 'पत्तल परसना' ।

२ पत्तल में परसी हुई भोजन सामग्री । जैसे,—(क) उसने ऐसी बात कही कि सबके सब पत्तल छोड़कर उठ गए । (ख) पंडित जी तो आए नहीं, उनके घर पत्तल भेज दो ।

मुहा०—पत्तल खोलना = वह कार्य कर डालना जिसके करने के पहले भोजन न करने की शपथ हो । बँधी पत्तल खोलना । पत्तल बाँधना = कोई पहली कहकर उसके बूमने के पहले भोजन न करने की शपथ देना । ऊ०—बाँधी पत्तल जो कोई खावे । मूरख पचन माँह कहावे । (कहावत) ।

विशेष—कही कही विवाह में वरातियों के सामने पत्तल परस जाने के पीछे कन्या पक्ष की कोई स्त्री एक पहली कहती या प्रश्न करती है और जबतक वरातियों में से कोई एक उसको बूम न ले अथवा उसका उत्तर न दे दे तबतक उनको भोजन न करने की कसम देती है । इसी को पत्तल बाँधना कहते हैं ।

यौ०—जूठी पत्तल = उच्छिष्ट । जूठा ।

३ एक आदमी के खाने भर भोजन सामग्री जो किसी को दी जाय या कही भेजी जाय । पत्तल भर दाल, चावल या पूरी, लड्डू आदि । परोसा । जैसे,—अमुक मंदिर से उसे प्रतिदिन चार पत्तलें मिलती हैं ।

पत्ता^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पत्र, पत्रक] [स्त्री० पत्ती] १ पेड़ या पौधे के शरीर का वह हरे रंग का फैला हुआ अवयव जो काड़ या टहनियों से निकलता है और थोड़े दिनों के पीछे बदल जाता है । पलास । पत्रक । पर्ण । छदन । छादन । वर्ह । वर्हन ।

विशेष—पत्ते के बीच की जो मोटी नस होती है वह पीछे की ओर टहनियों से जुड़ी होती है । वह नस आगे की ओर उत्तरोत्तर पतली होती जाती है । इस नस के दोनों ओर अनेक पतली नसे निकलती हैं । ये खड़ी और आड़ी नसे ही पत्ते का ढाँचा होती हैं । नसों का यह जाल हरे आच्छादन से ढका होता है । बहुत से वृक्षों और पौधों के पत्तों का अंतिम भाग नोकदार अथवा कुछ कुछ गावदुम होता है, पर कुछ के पत्ते विलकुल गोल भी होते हैं । नया निकला हुआ पत्ता हरापन लिए हुए लाल होता है । इस अवस्था में उसे 'कोपल' कहते हैं । कुछ पेड़ों के पत्ते प्रतिवर्ष पतझड़

के दिनों में झड़ जाते हैं । इस समय वे प्रायः वर्णहीन होते हैं । इन दो अवस्थाओं के अतिरिक्त अन्य सब समय पत्ता हरा ही होता है । पत्ता वृक्ष या पौधे के लिये बड़े काम का अंग है । वायु में उसे जो आहार मिलता है । वह इसी के द्वारा मिलता है । निरिंद्रिय आहार को सेंद्रिय द्रव्य में परिवर्तित कर देना पत्ते ही का काम है । कुछ वृक्षों के पत्ते हाथ का भी काम देते हैं । इनके द्वारा पौधे वायु में उठनेवाले कीड़ों को पकड़कर उनका रक्त चूमते हैं ।

मुहा०—पत्ता खटका = किसी के पास आने की आहट मिलना । कुछ खटका या आशका होना । आशका की कोई बात होना । जैसे,—पत्ता खटका, बदा भटका ।—(कहावत) । पत्ता तोड़कर भागना = बड़े वेग से दौड़ते हुए भागना । सिर पर पैर रखकर भागना । पत्ता न हिलना = हवा में गति न होना । हवा का विलकुल बंद होना । ह्वस होना । जैसे,—आज सारे दिन पत्ता न हिला । पत्ता लगाना = पत्ते में सटे रहने के कारण फल में दाग पड़ जाना वा उमका कुछ अंश सड़ जाना । पत्ता हो जाना = इतनी तेजी से दौड़कर जाना कि लोग बाग देख न सकें । क्षणमात्र में अदृश्य हो जाना । उड़न छू हो जाना । काफूर हो जाना । उड़ जाना ।

२ कान में पहनने का एक गहना जो बालियों में लटकाया जाता है । ३ मोटे कागज का गोल या चौकोर खड । जैसे, ताश का पत्ता, गजीफे का पत्ता, तागे का पत्ता । ४ धातु की चादर । पत्तर । ५. नाव के डोंडे का वह अगला भाग जिसमें तख्ती जड़ी रहती है और जिसकी सहायता से पानी काटा जाता है । फन । (लश०) ।

पत्ता^२—वि० बहुत हलका ।

पत्ति^१—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १ पैदल सिपाही । प्यादा । २ पैदल चलनेवाला । पत्तिक । पदातिक । २ शूरवीर पुरुष । योद्धा । बहादुर ।

पत्ति^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. प्राचीन काल में सेना का सबसे छोटा विभाग जिसमें एक रथ, एक हाथी, तीन घोड़े और पाँच पैदल होते थे । किसी किसी के मत से पैदलों की संख्या ५५ होती थी । २ गति (को०) ।

पत्तिक^१—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १. प्राचीन काल में सेना का एक विशेष विभाग जिसमें १० घोड़े, १० हाथी, १० रथ और १० प्यादे होते थे । २ उपर्युक्त विभाग का अफसर ।

विशेष—प्राचीन काल में दस पत्तिक की सञ्ज्ञा 'मिना' थी जिसका नायक सेनापति कहाता था । ऐसी १० सेनाओं का नाम 'बल' था । इसके अधिकारी को 'बलाध्यक्ष' कहते थे ।

पत्तिक^२—वि० पैदल चलनेवाला ।

पत्तिकाय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पैदल सेना ।

पत्तिगणक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन सेना में एक विशेष अधिकारी जिसका कर्तव्य पैदल सैनिकों को गणना करना तथा उन्हें एकत्र करना होता था ।

पत्तिप—सज्ञा पु० [म०] पत्तिपाल ।

पत्तिपाल—सज्ञा पु० [सं०] पाँच या छह सिपाहियों के ऊपर का अफसर ।

विशेष—प्राचीन काल में सिपाहियों का पहरा बदलना इसी का काम होता था ।

पत्तिय—सज्ञा स्त्री० [म० पत्री] चिट्ठी । पत्रिका । उ—पत्तिय नहीं लिखि अल्ह कह, कहिय जुवानिय सक्त । म्हाँ पर सैन सु डारिया रीस नयन करि रक्त ।—प० रासो, पृ० १३६ ।

पत्तिव्यूह—सज्ञा पु० [सं०] वह व्यूह जिसमें आगे कवचधारी सैनिक और पीछे धनुर्धर हो । (कौटि०) ।

पत्ती^१—सज्ञा पुं० [म० पत्तिन्] १ पैदल चलनेवाला व्यक्ति । पैदल यात्री । २ पदाति सैनिक । पैदल सिपाही । प्यादा [को०] ।

पत्ती^२—सज्ञा स्त्री० [हि० पत्ता + ई (प्रत्य०) अल्पार्थक] १. छोटा पत्ता । २ भाग । हिस्सा । साभे का अश । जैसे,—इस दुकान में मेरी भी एक पत्ती है ।

पत्ती^३—पत्तीदार = साभीदार । हिस्सेदार ।

३ फूल की पंखड़ी । दल । ४ भाँग । ५ पत्ती के आकार की लकड़ी, धातु आदि का कटा हुआ कोई टुकड़ा जो प्राय किसी स्थान में जड़ने, लगाने या लटकाने आदि के काम में आता है । पट्टी । ६ दाढ़ी बनाने के काम में प्रयुक्त होने-वाला लोहे का छोटा धारदार पत्तर जिसे अग्नेजी में ब्लेड कहते हैं ।

पत्ती^४—सज्ञा पुं० [?] राजपूतो की एक जाति । उ०—पत्ती औ पंचनान वधेले । अग्ररवार चौहान चँदले ।—जायसी (शब्द०) ।

पत्तीदार—सज्ञा पुं० [हि० पत्ती + फा० दार (= रखनेवाला)] जिसका किसी व्यवसाय में किसी के साथ साझा हो । साझी-दार । हिस्सेदार ।

पत्तूर—सज्ञा पुं० [सं०] १ शाति नामक शाक । शालिच नामक शाक २ जलपीपल । ३ पाकड का वृक्ष । ५ पतंग की लकड़ी । ६ लाल चदन (को०) ।

पत्थ^①—सज्ञा पुं० [सं० पथ्य, प्रा० पत्थ] दे० 'पथ्य' ।

पत्थ^②—सज्ञा पुं० [सं० पार्थ] पृथा के पुत्र अर्जुन । उ०—हैमत हीत अग्गलौ पीथौ पत्थ प्रमाण—रा० रू०, पृ० २७७ ।

पत्थर—सज्ञा पुं० [सं० प्रस्तर, प्रा० पत्थर] [वि० पथरीला, क्रि० पथराना] १ पृथ्वी के कड़े स्तर का पिंड या खड । भ्रूव्य का कड़ा पिंड या खड ।

विशेष—भूगर्भ शास्त्र के अनुसार पृथ्वी की बनावट में अनेक स्तर या तहें हैं । इनमें से अधिक कड़ी कलेवरवाली तहों का नाम पत्थर है । पत्थरों के मुख्य दो भेद हैं—आग्नेय और जलज । आग्नेय पत्थरों की उत्पत्ति, भूगर्भस्थ ताप के उद्भेद से होती है । पृथ्वी के गर्भ से जो तरल पदार्थ अत्यंत उत्तम अवस्था में इस उद्भेद द्वारा ऊपर आता है वह कालांतर में सरदी से जमकर चट्टानों का रूप धारण करता है । इस रीति पर पत्थर बनने की क्रिया भूगर्भ के भीतर होती है । उपयुक्त

तरल पदार्थ भूगर्भ स्थित चट्टानों से टकराकर अथवा अन्य कारणों से भी अपनी गरमी खो देता और पत्थर के रूप में ठोस हो जाता है । जलज पत्थर जल के प्रवाह से बनते हैं । मार्ग में पड़नेवाले पत्थर आदि पदार्थों को घूर्ण करके जल-धारा कीचड़ के रूप में उन्हें अपने प्रवाह के साथ बहा ले जाती है । जिस कीचड़ के उपादान में कड़े परमाणु अधिक होते हैं वह जमने पर पत्थर का रूप धारण करता है । जलज पत्थरों की बनावट प्राय तह पर तह होती है पर आग्नेय पत्थरों की ऐसी नहीं होती ।

उपादान के भेद से भी पत्थरों के कई भेद होते हैं, जैसे आग्नेय में सगखरा, शालिग्रामी या सगमूसा आदि और जलज में बलुआ, दुधिया, स्लेट का पत्थर, सगमरमर, स्फटिक आदि । आग्नेय और जलज के अतिरिक्त अस्थिज पत्थर भी होता है । घोघे आदि सामुद्रिक जीवों की अस्थियाँ विश्लिष्ट होने के पश्चात् दबाव के कारण पुन घनीभूत होकर ऐसे पत्थर की रचना करती हैं । खडिया मिट्टी इसी प्रकार का पत्थर है । जिस प्रकार साधारण कीचड़ कठिन होकर पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाता है उसी प्रकार साधारण पत्थर भी दबाव की अधिकता और आसपास की वस्तुओं तथा जलवायु के विशेष प्रभाव के कारण रासायनिक अवस्थांतर प्राप्तकर स्फटिक अथवा पारदर्शी पत्थर या मणि का रूप धारण करता है ।

पत्थर मानव जाति के लिये अत्यंत उपयोगी पदार्थ है । आज जो काम विविध धातुओं से लिए जाते हैं आदिम अवस्था में वे सभी केवल पत्थर से लिए जाते थे । जबतक मनुष्यों ने धातुओं की प्राप्ति का उपाय और उनका उपयोग नहीं जाना था तबतक उनके हथियार, औजार, वस्तुएँ सब पत्थर के ही होते थे । आजकल पत्थर का सबसे अधिक उपयोग मकान बनाने के काम में किया जाता है । इससे वस्तुएँ, मूर्तियाँ, टेबुल, कुर्सी आदि भी बनती हैं । सगमरमर आदि मुलायम और चमकीले पत्थरों से अनेक प्रकार की सजावट की वस्तुएँ और आभूषण आदि भी बनाए जाते हैं । भारत-वासी बहुत प्राचीन काल से ही पत्थर पर अनेक प्रकार की कारीगरी करना सीख गए थे । बड़िया मूर्तियाँ, वारीक जालियाँ, अनेक प्रकार के फूल पत्तों आदि बनाने में वे अत्यंत कुशल थे ।

बौद्धों के समय में मूर्तितक्षण और मुगलों के समय में जाली, बेलवूटे आदि बनाने की कलाएँ विशेष उन्नत थीं । यद्यपि मुगल काल के बाद से भारत के इस शिल्प का बराबर ह्रास हो रहा है, फिर भी अभी जयपुर में सगमरमर के वस्तुएँ और आगरे में अलंकार आदि बड़े साफ और सुंदर बनाए जाते हैं । भारत के पहाड़ों में सब प्रकार के पत्थर मिलते हैं । विषय पर्वत इभारती पत्थरों के लिये और अरावली पर्वत सगमरमर के लिये प्रसिद्ध है । विशेष दे० 'सगमरमर' ।

बोलचाल में पत्थर शब्द का प्रयोग अत्यंत कड़ी अथवा भारी, गतिशून्य अथवा अनुभूतिशून्य वस्तु, दयाकरणाहीन, अत्यंत

जडबुद्धि अथवा परम कृपण व्यक्ति आदि के संबंध के होता है।

पर्या०—पापाण् । आवाञ् । उपल् । अश्मन् । दपत् । पादास्क काचक । शिला ।

शौ०—पत्यरकला । पत्यरचटा । पत्यरफोड़ा ।

मुहा०—पत्यर का कलेजा, दिल या हृदय = अत्यंत कठोर हृदय । वह हृदय जिसमें, दया, कृपा, आदि कोमल वृत्तियों का स्थान न हो । किसी के दुःख पर न पसीजनेवाला दिल या हृदय । पत्यर का छपा = (१) छपाई का वह प्रकार जिसमें ढले हुए अक्षरों से काम नहीं लिया जाता, बल्कि छापे जानेवाले लेख की एक पत्यर पर प्रतिलिपि उतारी जाती है और उसी पत्यर के ऊपर कागज रखकर छापते हैं । लीथोग्राफ । लीथो की छपाई । विशेष दे० 'प्रेस' । (२) पत्यर के छापे में छपा हुआ विषय या लेख । पत्यर के छापे का काम । पत्यर के छापे की छपाई । जैसे,—(किसी पुस्तक की छपाई के विषय में) यह तो पत्यर का छपा है । पत्यर की छाती = कभी न टूटनेवाली हिम्मत अथवा कभी न हारनेवाला दिल । असफलता या कष्ट से विचलित न होनेवाला हृदय । बलवान् और दृढ़ हृदय । मजबूत दिल । पक्की तबीयत । जैसे—सचमुच उस मनुष्य की पत्यर की छाती है, इतना भारी दुःख सह लिया, आह तक नहीं की । पत्यर की लकीर = सदा सर्वदा बनी रहनेवाली (वस्तु) । सर्वकालिक । अमिट । पक्की । स्थायी । जैसे,—ओछो की मित्रता पानी की लकीर और सज्जनों की मित्रता पत्यर की लकीर है । (कहावत) । पत्यर को जोंक लगाना = अनहोनी या असभव बात करना । वह कार्य करना जो औरों के लिये असाध्य हो । जैसे, अत्यंत कृपण से दान दिलाना, अत्यंत निर्दय के हृदय में दया उत्पन्न कर देना, वज्र मूर्ख को समझा देना, आदि । पत्यर चटाना = पत्यर पर घिसकर धार तेज करना । छुरी, कटार, आदि की धार पत्यर पर रगड़कर तेज करना । पत्यर तले हाथ आना = ऐसे सकट में फँस जाना जिससे छूटने का उपाय न दिखाई पड़ता हो । बुरी तरह फँस जाना । भारी सकट में फँस जाना । पत्यर तले हाथ दबना = दे० 'पत्यर तले हाथ आना' । पत्यर तले से हाथ निकालना = सकट या मुसीबत से छूटना । पत्यर निचोड़ना = (१) जो वस्तु जिससे मिलना असभव हो वह वस्तु उससे प्राप्त करना । किसी से उनके स्वभाव के अत्यंत विरुद्ध कार्य कराना । (२) अनहोनी बात या असभव कार्य करना । (विशेष—इस मुहावरे का प्रयोग विशेषतः कृपण के मन में दान की इच्छा या निर्दय के हृदय में दया का भाव उत्पन्न करने के अर्थ में होता है ।) पत्यर पर दूय जमना = अनहोनी बात या असभव काम होना । ऐसी बात होना जिसके होने की आशा सर्वथा छोड़ दी गई हो । जैसे, बध्या समझी जानेवाली के पुत्र होना आदि । पत्यर पसीजना = अनहोनी बात होना । अत्यंत कठोर चित्त में नरमी, कृपण के मन में दानेच्छा, अत्याचारी के मन में दया उत्पन्न होना, आदि । जैसे,—तीन वर्ष की तपस्या से

यह पत्यर पसीजा है । पत्यर पिघलना = दे० 'पत्यर पसीजना' । पत्यर मारे भी न मरना = मरने का कारण या सामान होने पर भी न मरना । बेहयाई से जीना । निहायत सख्त जान होना । पत्यर सा खींच या फेंक मारना = बहुत बड़ी बात कहना या उत्तर देना । ऐसी बात कहना जो सुननेवाले को असह्य हो । लड्डुमार बात कहना या उत्तर देना । पत्यर से सिर फोड़ना या मारना = असभव बात के लिये प्रयत्न करना । व्यर्थ सिर खपाना । अत्यंत मूर्ख को समझाने में श्रम करना ।

२ सड़क के किनारे गडा हुआ वह पत्यर जिसपर मील के सख्यासूचक अंक खुदे होते हैं । सड़क की नाप सूचित करनेवाला पत्यर । मील का पत्यर । जैसे,—तीन घंटे से हमलोग चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ चार पत्यर आए हैं ।

३. ओला । विनीली । इद्रोपल ।

क्रि० प्र०—गिरना ।—पड़ना ।

मुहा०—पत्यर पड़ना = (१) चौपट हो जाना । नष्ट हो जाना । जैसे,—तुम्हारी बुद्धि पर पत्यर पड़ गया है । (२) कुछ न पाना । मनोरथ भंग होने का सामान मिलना । सियापा पड़ जाना या पडा पाना । जैसे,—भाग्य की बात है कि जहाँ जहाँ जाता हूँ वही पत्यर पड़ जाते हैं । पत्यर पड़े = चौपट हो जाय । मारा जाय । ईश्वर का कोप पड़े । (अमिशाप और अक्सर तिरस्कार या निंदा के अर्थ में भी बोलते हैं । जैसे,—पत्यर पड़े ऐसी ओछी समझ पर ।) पत्यर पानी = महाभूतो की प्रतिकूलता अथवा प्रकोप का काल । श्रांघी पानी आदि का काल । तूफानी समय । जैसे,—भला इस पत्यर पानी में कौन जान देने जायगा ?

४ रत्न । जवाहिर । हीरा, लाल, पन्ना आदि । ५ पत्यर का का सा स्वभाव रखनेवाली वस्तु । पत्यर की तरह कठोर, भारी अथवा हटने गलने आदि के अयोग्य वस्तु । जैसे, अत्याचारी का हृदय, जडबुद्धि का मस्तिष्क, बडा ऋण, दुर्जर भोज्य, आदि ।

क्रि० प्र०—बनना ।—बन जाना ।—होना ।

३ कुछ नहीं । विलकुल नहीं । खाक । (तुच्छता या तिरस्कार के साथ अभाव सूचित करता है) । जैसे,—(क) तुम इस किताब को क्या पत्यर समझोगे । (ख) वहाँ क्या पत्यर रखा है ?

पत्यर कला—सज्ञा पुं० [हिं० + पत्यर कल] पुरानी चाल की बटूक जिसमें वारुद सुलगाने के लिये चकमक पत्यर लगा रहता था । तोडेदार या पलीतेदार बटूक । चाँपदार बटूक ।

विशेष—दे० 'बटूक' ।

पत्यरचटा—सज्ञा पुं० [हिं० पत्यर + अणु० चट चट या हिं० चाटना] १ एक प्रकार की घास जिसकी टहनियाँ नरम और पतली होती हैं । इसकी पत्ती को लडके मुट्टी के गड्डे के मुँह पर मारते हैं तो चट चट शब्द होता है । २ एक प्रकार का साँप जो पत्यर चाटता है । ३ एक प्रकार की

मछली जो सामुद्रिक चट्टानों से चिपटी रहती है। ४ कजूस।
मक्खीचूस।

त्थरचटा^२—वि० जो घर की चारदीवारी से बाहर न निकला
हो। कूपमडूक।

त्थरचूर—सञ्ज्ञा पु० [हि० पत्थर + चूर] एक प्रकार का पोषा।

त्थरपानी—सञ्ज्ञा पु० [हि० पत्थर + पानी] दुर्भिक्ष। विनाश।
मटियामेट।

त्थरफूल—सञ्ज्ञा पु० [हि० पत्थर + फूल] छरीला। शैलास्थ।

त्थरफोड़—सञ्ज्ञा पु० [हि० पत्थर + फोड़ना] १ हृदहृद पक्षी।
२ बहुत छोटी जाति की वनस्पति।

विशेष—यह प्राय वर्षा ऋतु में दीवारों या पत्थर के जोड़ों
के बीच से निकलती है। इसकी पत्तियाँ बहुत छोटी होती
हैं जो प्राय फोड़ों को पकाने के लिये उनपर बाँधी जाती
हैं। इसमें सफेद रंग के बहुत छोटे छोटे फूल भी लगते हैं।

त्थरफोड़ा—सञ्ज्ञा पु० [हि० पत्थर + फोड़ना] पत्थर तोड़ने का
पेशा करनेवाला। सगतराश।

त्थरबाज—सञ्ज्ञा पु० [हि० पत्थर + बाज (= खेलनेवाला)]
१ पत्थर फेंककर किसी को मारनेवाला। २ वह जो प्राय
पत्थर या डेला फेंका करे। ३ वह जिसे पत्थर फेंकने का
श्रम्यास हो। डेलवाह।

त्थरबाजी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पत्थरबाज] पत्थर फेंकने की क्रिया।
पत्थर फेंकाई। डेलवाही।

त्थरत्ती—सञ्ज्ञा पु० [सं० प्रस्तर] दे० 'पत्थर'।

पत्नी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] विविधपूर्वक विवाहिता स्त्री। वह स्त्री
जिसके साथ किसी पुरुष का शास्त्रानुसारी रीति से विवाह
हुआ हो।

पर्या०—जाया। भार्या। दयिता। कलत्र। वधू। सहधर्मिणी।
दारा। दार। गृहिणी। पाणिगृहीता। क्षेत्र। जनि।
सहचरी। गृह।

पत्नीमन्त्र—सञ्ज्ञा पु० [सं० पत्नीमन्त्र] एक वैदिक मन्त्र।

पत्नीयूप—सञ्ज्ञा पु० [सं०] यज्ञ में देवपत्नियों के लिये निश्चित
स्थान।

पत्नीव्रत—सञ्ज्ञा पु० [सं०] अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त
और किसी स्त्री से गमन न करने का सकल्प या नियम।

पत्नीशाला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] यज्ञ में वह गृह जो पत्नी के लिये
बनाया जाता है। यह यज्ञशाला के पश्चिम ओर होता है।

पत्नीसयाज, पत्नीसयाजन—सञ्ज्ञा पु० [सं०] विवाह के पश्चात्
होनेवाला एक वैदिक कर्म।

पत्न्याट—सञ्ज्ञा पु० [सं०] अत पुर। पत्नी का वासगृह [को०]।

पत्य—सञ्ज्ञा पु० [सं०] पति होने का भाव। जैसे, सैनापत्य।

पत्याना^७—क्रि० सं० [हि०] दे० 'पतिभाना'। उ०—दरसत

अति सुकुमार तन परसत मन न पत्यात।—बिहारी
(शब्द०)।

पत्यारा—सञ्ज्ञा पु० [सं०] दे० 'पतिभाना'। उ०—(क) नैनन ते
निचुरधो परे नेह रुखाई के बैनन कौन पत्यारो।—देव
(शब्द०)। (ख) पी को उठाय कह्यो हिय लाय कै है
कपटीन को कौन पत्यारो।—देव (शब्द०)।

पत्यारी^७—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पद् क्ति] पत्ति। कतार। उ०—
(क) धूनरी सी छिति मानो विछी इमि सोहति इद्र-
वधू की पत्यारी।—द्विजदेव (शब्द०)। (ख) भ्रवलो-
कति इद्रवधू की पत्यारी, विलोकति है खिन कारी घटा।
—द्विजदेव (शब्द०)।

पत्योरा—सञ्ज्ञा पु० [हि० पत्ता + औरा (प्रत्य०)] एक पकवान जो
अच्छ के पत्तों को पीठी में लपेटकर घी या तेल में तलने से
तैयार होता है। एक प्रकार का रिकवच।

पत्रंग—सञ्ज्ञा पु० [सं० पत्रङ्ग] पत्रग नाम की लकड़ी या पेड़।
बक्कम।

पत्र^१—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १. किसी वृक्ष का पत्ता। पत्ती। दल। पर्ण।
यौ०—पत्रपुष्प।

२. वह वस्तु जिसपर कुछ लिखा हो। लेखाधार। लिखा हुआ
कागज।

विशेष—कागज का आविष्कार होने के पहले बहुत दिनों तक
भारतवर्ष में ताड़ के पत्तों पर लेख, पुस्तकें आदि लिखी
जाती थी। इसी श्रम्यासवश लेखयुक्त कागज, ताम्रपत्र आदि
को भी लोग पत्र कहने लगे।

३. वह कागज या ताम्रपत्र आदि जिसपर किसी विशेष व्यवहार
के प्रमाणस्वरूप कुछ लिखा गया हो। वह कागज जिसपर
किसी खास मामले की सनद या सबूत के लिये कुछ लिखा
हो। जैसे, दानपत्र, प्रतिज्ञापत्र आदि।

क्रि० प्र०—लिखना।

४. वह लेख जो किसी व्यवहार या घटना के प्रमाण या सनद के
लिये लिखा गया हो। कोई वसीका, पट्टा या दस्तावेज।

क्रि० प्र०—लिखना।

५. चिट्ठी। पत्री। खत।

क्रि० प्र०—लिखना।

६. समाचारपत्र। खबर का कागज या श्रववार।

क्रि० प्र०—चलाना।—निकालना।

यौ०—पत्रसपादक।

७. पुस्तक या लेख का एक पन्ना। पृष्ठ। सफा। पन्ना। ८. धातु
की चहर। पत्तर। वरक। जैसे, स्वर्णपत्र। ९. तीर या
पक्षी के पख। पक्ष। १०. तेजपात। ११. चिड़िया। पखेह।
१२. कोई वाहन या सवारी। जैसे, रथ, बहल, घोड़ा, ऊँट
आदि। १३. कस्तूरी, केशर, चंदन आदि द्रव्यों से कपोल या
स्तनो की सजावट (को०)। १४. शस्त्र की धार। अस्ति या
कुठार आदि का फल (को०)। १५. कटार। छुरा (को०)।

पत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पत्रपुट] दे० पात्र । उ०—पत्र सुधारे जोगणी माल सुधारे रभ थम चलेवी सोमरवि देखे व्योम अचभ ।
—रा० रू०, पृ० ३६ ।

पत्रक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पत्ता । २ पत्तो की लडी । पत्रावली ।
३. शातिशाक । ४ तेजपत्ता । ५ दे० 'पत्रभग' ।

पत्रकार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह जो किसी सार्वजनिक समाचारपत्र या पत्रिका का संचालन करता हो । वह जो किसी अखबार को चलाता हो, सवाददाता हो, फीचर लिखता हो आदि पत्रसंचालक । पत्रसंपादक । अखबारनवीस । एडीटर । जरनलिस्ट । २ वह जो किसी समाचारपत्र या अखबार में नियमित रूप से लिखता हो । रिपोर्टर ।

पत्रकारिता, पत्रकारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] पत्रकार का काम या व्यवसाय ।

पत्रकाहला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पत्र फड़फड़ाने या पत्तों के फड़कने की ध्वनि [को०] ।

पत्रकृच्छ्र—सञ्ज्ञा [सं०] एक व्रत जिसमें पत्तों का काड़ा पीकर रखा जाता है ।

पत्रगान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पेड़ के पत्तों से उत्पन्न ध्वनि । मर्मर शब्द । उ०—कृष्णा के दान पान, फूटे नव पत्रगान ।
—अर्चना, पृ० ५६ ।

पत्रगुप्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] तिघारा । शूहर । त्रिकटक ।

पत्रघना, पत्रघना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सेहूँड । शूहर ।

पत्रज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] तेजपात ।

पत्रफकार—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पत्रफकार] नदी का वेग । नदी का प्रवाह [को०] ।

पत्रतंडुली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पत्रतण्डुली] यवतिवता लता ।

पत्रतरु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दुर्गंध खैर ।

पत्रता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पत्र + ता (प्रत्य०)] पत्तापन । उ०—
डालियाँ बहुत सी सूख गईं । उनकी न पत्रता हुई नई ।
—धाराधना, पृ० २२ ।

पत्रतालक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वसपत्र । हरताल ।

पत्रदारक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] लकड़ी चीरने का आरा [को०] ।

पत्रद्रुम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ताड़ का पेड़ ।

पत्रनाडिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पत्ते की नस ।

पत्रपार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] स्वर्णकार की छेनी [को०] ।

पत्रपा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] लज्जा । सकोच [को०] ।

पत्रपाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] लवा छुरा या कटार ।

पत्रपाली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ वाण का पिछला भाग । शरपुल ।
२ कैंची । कतरनी ।

पत्रपाश्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] माथे पर का एक आभूषण विशेष । टीका [को०] ।

पत्रपिशाचिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पत्तों से बनाई गई छतरी [को०] ।

पत्रपुट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पत्ते का पात्र । दोना [को०] ।

पत्रपुरा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] ६६ हाथ लंबी, ४८ हाथ चौड़ी और ४७ हाथ ऊँची नाव (युक्तिकल्पतरु) ।

पत्रपुष्प—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ लाल तुलसी । २. एक विशेष प्रकार की तुलसी । जिसकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं । ३ किसी के सत्कार या पूजा की बहुत मामूली सामग्री । लघु उपहार । छोटी भेंट । उ०—मेरा पत्रपुष्प स्वीकार कर मुझे कृतार्थ कीजिए (शब्द०) ।

पत्रपुष्पक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भोजपत्र ।

पत्रपुष्पा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. तुलसी । २ छोटे पत्ते की तुलसी ।

पत्रवेध—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पत्रवेध] फूलों का शृंगार ।

पत्रवाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] डाँडा [को०] ।

पत्रभंग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पत्रभङ्ग] १. वे चित्र या रेखाएँ जो सौंदर्य-वृद्धि के लिये स्त्रियाँ, कस्तूरी, केसर, आदि के लेप अथवा सुनहले, रंगहले पत्तों के टुकड़ों से भाल, कपोल, आदि पर बनाती हैं । माथे और गाल पर की जानेवाली चित्रकारी अथवा बेलचूटे । साटी । २ पत्रभंग बनाने की क्रिया ।

पत्रभंगि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पत्रभङ्गि] दे० 'पत्रभंग' ।

पत्रभंगी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पत्रभङ्गी] दे० 'पत्रभंग' ।

पत्रभद्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का पौधा ।

पत्रमंजरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पत्रमञ्जरी] एक प्रकार का तिलक जो पत्रयुक्त मजरी के आकार का होता है ।

पत्रमाल—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वेत । वेतस [को०] ।

पत्रयौवन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नया पत्ता । पल्लव । कोपल ।

पत्ररचना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पत्रभग ।

पत्ररथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पक्षी । चिडिया । उ०—वियग पतत्री पत्र-
रथ पत्री पतग पतग ।—अनेकार्य०, पृ० २५ ।

यौ०—पत्ररथेन्द्र = गरुड । पत्ररथेन्द्रकोटु = विष्णु ।

पत्ररेखा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पत्ररचना' ।

पत्रलता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ वह लता जिसमें प्रायः पत्ता ही पत्ता हो । २ पत्रभग । साटी । ३ लंबी छुरी [को०] ।

पत्रलवण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का नमक जो एरुड, मोरवी, भद्रसा, कंज, अमिलतास और चीते के हरे पत्तों से निकाला जाता है ।

विशेष—इन सब पत्तों को खरल में कूटकर घी या तेल के किसी बरतन में रखते हैं और ऊपर से गोबर लीपकर आग में जलाते हैं । यह नमक वात रोगों में लाभदायक होता है ।

पत्रल^१—वि० [सं०] पत्तोवाला । घने पत्तोवाला ।

पत्रल^२—सञ्ज्ञा पुं० हिली डूली या पतली दही [को०] ।

पत्रलेखा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पत्रभग । साटी ।

पत्रवल्लरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पत्रभग । साटी ।

पत्रवल्लरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ शकरजटा । २ पान । ३ पलसी लता । ४. परलता । ५. पत्रभग [को०] ।

त्रवाज—सज्ञा पुं० [सं०] १ पक्षी। चिडिया। २ वाण। तीर।
 त्रवाल—सज्ञा पुं० [सं०] डंडा। चप्पू [को०]।
 त्रवाह—सज्ञा पुं० [सं०] १ हरकारा। चिट्टीरसां। २ वाण। तीर।
 ३ पक्षी। चिडिया।
 त्रवाहक—सज्ञा पुं० [मं०] पत्र ले जानेवाला। चिट्टीरसां। हरकारा।
 त्रविशेषक—सज्ञा पुं० [सं०] १ तिलक। २ पत्रभग। साटी।
 त्रविष—सज्ञा स्त्री० [सं०] पत्रों से निकलनेवाला विष।
 त्रवृश्चिक—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का छोटा उड़नेवाला कीड़ा जिसके काटने से बड़ी जलन होती है। पतविच्छिया। पतविच्छिया।
 त्रवेष्ट—सज्ञा स्त्री० [मं०] १ तरकी। ताटक। २ करनफूल नाम का कान में पहनने का गहना।
 त्रव्यवहार—सज्ञा पुं० [सं०] चिट्टी लिखते और उधार पाते रहने की क्रिया या भाव। चिट्टी आने जाने का क्रम। पत्राचार। लिखापढी। खत किताबत। जैसे,—साल भर से मैं उनसे पत्रव्यवहार कर रहा हूँ।
 पत्रशवर—सज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन काल की एक अनार्य जाति।
 पत्रशाक—सज्ञा पुं० [सं०] पत्तो का साग। वह पौधा जिसके पत्तो का साग बनाकर खाया जाता हो। जैसे, पालक, चौलाई, आदि।
 पत्रशिरा—सज्ञा स्त्री० [सं०] पत्ते की नस।
 पत्रशृंगी—सज्ञा स्त्री० [मं० पत्रशृङ्गी] मुसाकानी नाम की लता।
 पत्रश्रेणी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ मुसाकानी। २ पत्तो की पक्ति। पत्रावली।
 पत्रश्रेष्ठ—सज्ञा पुं० [सं०] १ श्रेष्ठ हैं पत्ते जिसके अर्थात् वेल। विल्व। २ पत्तो में प्रधान। वेल का पत्ता। विन्वपत्र।
 पत्रसूची—सज्ञा स्त्री० [मं०] काँटा। कटक।
 पत्रांक—सज्ञा पुं० [सं० पत्र+अङ्क] पत्तो की गोदी। पल्लव का मध्यभाग। वृत्त। उ०—जूही की कली, दग बद किए, शिथिल पत्रांक में।—अपरा, पृ० ४।
 पत्रांग—सज्ञा पुं० [सं० पत्राङ्ग] १ लालचदन। २ पतंग। बकम। ३ भोजपत्र। ४ कमलगट्टा।
 पत्रागुलि—सज्ञा स्त्री० [सं० पत्राङ्गुलि] पत्रभग। पत्ररचना [को०]।
 पत्राञ्जन—सज्ञा पुं० [सं० पत्राञ्जन] १ स्याही। २ काजल [को०]।
 पत्रा—सज्ञा पुं० [सं० पत्रक, पत्रिका] १ तिथिपत्र। जत्री। पचाग। उ०—पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहुँ पास।—बिहारी (शब्द०)। २ पत्र। बर्क। पृष्ठ। सफहा।
 पत्रालय—सज्ञा पुं० [सं०] १ तेजपात। २ तालीसपत्र।
 पत्राचार—सज्ञा पुं० [सं०] पत्रव्यवहार।
 पत्राढ्य—सज्ञा पुं० [सं०] १ पीपलामूल। २ पर्वतवृण। ३, तुराख्य। ४ पतंग। बकम। ५ नरसल। ६ तालीसपत्र।
 पत्रान्य—सज्ञा पुं० [सं०] १ पतंग। २ लालचदन।

पत्रालु—सज्ञा पुं० [सं०] १, कासालु। २ इक्षुदर्भ।
 पत्रावलि—सज्ञा स्त्री० [मं०] १ पत्तो की श्रेणी या कतार। २ गेरू। ३ पत्ररचना, जो पुराने समय में नारियों के मुख पर मौदर्य-वृद्धि के लिये रची जाती थी। उ०—रचि पत्रावलि मांग सिदूरी। भरि मोतिन श्री मानिक पूरी।—जायसी (शब्द०)।
 पत्रावली—सज्ञा स्त्री० [मं०] १ पत्ररचना। साटी। ३ दुर्गापूजन में प्रयुक्त एक द्रव्य जो पीपल के नवीन कोपलो, मधु और यव से तैयार करते हैं। ३ गेरू। ४ पत्तो की पक्ति या श्रेणी।
 पत्राहार—सज्ञा पुं० [सं०] पत्तियों का आहार।
 पत्रिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ चिट्टी। खत। २ लिखने के लिये कागज का पत्रा (को०)। ३ कोई छोटा लेख या लिपि। जैसे, जन्मपत्रिका, लग्नपत्रिका आदि। ४ कोई सामयिक पत्र या पुस्तक। समाचारपत्र। अखबार। रिसाला। ५ जातिपत्री या जायपत्री (को०)। ६ एक प्रकार का कर्णभूषण (को०)।
 पत्रिकाख्य—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का कपूर। पर्याकपूर। पानकपूर।
 पत्रिणी—सज्ञा स्त्री० [सं०] बड़ा पत्ता। पल्लव। कोपल।
 पत्री^१—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ चिट्टी। खत। २ कोई छोटा लेख या लिपिपत्रिका। जैसे, जन्मपत्री, लग्नपत्री। ३ दोना। ४ धमासा। हिगुवा। जवासा। ५ खैर का पेड़। ६ ताड़। ७ महा तेजपत्र।
 पत्री^२—वि० [सं० पत्रिन्] जिसमें पत्ते हो। पत्रयुक्त। पत्रविशिष्ट।
 पत्री^३—सज्ञा पुं० १ वाण। तीर। उ०—लव के उर में उरभूयो वह पत्री। मुरझाइ गिरयो घरणी महँ छत्री।—रामचं० पृ० १७४। २ पक्षी। चिडिया। ३ श्येन। वाज। ४ वृक्ष। पेड़। ५ रथी। ६ पर्वत। पहाड़। ७ ताड़। ८ कमल। उ०—पत्री तरु पत्री कमल पत्री बहुरि विहग। पत्री सर कर चित्त जिमि, इमि सेवहु श्रीरग।—अनेकार्यं, पृ० १३६।
 पत्री^४—सज्ञा स्त्री० [हि० पत्तर] हाथ में पहनने का जहाँगीरी नाम का गहना।
 पत्रोपस्कर—सज्ञा पुं० [सं०] कसौदी।
 पत्रोर्ण—सज्ञा पुं० [सं०] सोनापाठा।
 पत्रोल्लास—सज्ञा पुं० [सं०] अँखुवा। अकुर [को०]।
 पत्सल—सज्ञा पुं० [सं०] पथ। मार्ग [को०]।
 पथ^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ मार्ग। रास्ता। राह। २ व्यवहार या कार्य आदि की रीति। विधान। उ०—व्यास सुमन पथ अनुसरे सोई भले पहिचानिहै।—नाभादास (शब्द०)।
 पथ^२—सज्ञा पुं० [सं० पथ्य] रोग के लिये उपयुक्त हलका आहार। पथ्य। जूस। उ०—मोहन जो दग जिहि मतन उक्काई दै जाय। ज्यों थोरी पथ देत हैं वैद रोगियै श्राय।—रमनिधि (शब्द०)।
 पथक—सज्ञा पुं० [सं०] १ पथ जानने या बतलानेवाला। २ प्रात।
 पथकल्पना—सज्ञा पुं० [सं०] इद्रजाल। जादू का खेल।
 पथगामी—सज्ञा पुं० [सं० पथगामिन्] रास्ता चलनेवाला। पथिक।

पथचारी—सञ्ज्ञा पु० [सं० पथचारिन्] रास्ता चलनेवाला ।

पथत्—सञ्ज्ञा पु० [सं०] मार्ग । पथ । रास्ता [को०] ।

पथदर्शक—सञ्ज्ञा पु० [सं०] राह दिखानेवाला । रास्ता बतलाने-वाला । उ०—जग के अनादि पथदर्शक वे, मानव पर उनकी लगी दृष्टि ।—युगात्, पृ० १३ ।

पथनारा—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाथना] १ गोबर के उपले बनाना या थापना । पाथना । २ पीटने या मारने की क्रिया ।

पथप्रदर्शक—सञ्ज्ञा पु० [सं०] मार्गदर्शक । रास्ता दिखानेवाला ।

पथप्रात—वि० [सं० पथप्रात] राह से भटका हुआ । भूला हुआ । उ०—ऐसी स्थिति में उसकी प्रवृत्ति कुछ तो पीछे की ओर मुड़ने की हुई और कुछ पथप्रात होने की ।—हि० का० प्र०, पृ० ३२ ।

पथरा—सञ्ज्ञा पु० [सं० अस्तर हि० पत्थर, पाथर] पत्थर । पाषाण । उ०—घरम दास के साहेब कबीरा, पथर पूजे तो पूजन दे ।—घरम०, पृ० ६८ ।

पथरकट—वि० [हि० पत्थर + काटना] पत्थर काटने का काम करनेवाला । उ०—कनेत का चस्मा गढ़े पत्थर का बंधा हुआ कुडला है, उससे नातिद्वार लोहार का चस्मा भी कुछ उसी तरह का है, इसमें लोहार का पथरकट होना भी सहायक हुआ ।—किन्नर०, पृ० ४७ ।

पथरकला—सञ्ज्ञा पु० [हि० पत्थर या पथरी + कल] एक प्रकार की बटुक या कडावीन जो चकमक पत्थर के द्वारा अग्नि उत्पन्न करके चलाई जाती थी । वह बटुक जिसकी कल वा घोड़े में पथरी लगी रहती हो । इस प्रकार की बटुक का व्यवहार पहले होता था ।

पथरघटा—सञ्ज्ञा पु० [हि० पत्थर + चाटना] १ पाषाणभेद या पखानभेद नाम की ओपधि । २. एक प्रकार की छोटी मछली जो भारत और लका बी नदियों में पाई जाती है । इसकी लवाई प्राय एक बालिष्ठ होती है ।

पथरना^१—क्रि० सं० [हि० पत्थर + ना (प्रत्य०)] श्रीजारो को पत्थर पर रगड़कर तेज करना ।

पथरना—सञ्ज्ञा पु० [देश० या सं० प्रस्तरण] विच्छीना । शय्या । उ०—अवर वोड़न भूमि पथरना । समुक्ति देखि निश्चै करि मरना ।—सु दर अ०, भा० १, पृ० ३३५ ।

पथराना—क्रि० अ० [हि० पत्थर से नामिक धातु] १ सूखकर पत्थर की तरह कडा हो जाना । २ ताजगी न रहना । नीरस और कठोर हो जाना । ३ स्तब्ध हो जाना । सजीव न रहना । जैसे, झाँखें पथराना ।

पथराव—सञ्ज्ञा पु० [हि० पथर + आव (प्रत्य०)] पत्थर के टुकड़े, ढेला आदि का फेंकना । ढेलवाही । पत्थरवाजी ।

पथरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पत्थर + ई (प्रत्य०)] १ कटोरे या कटोरी के आकार का पत्थर का बना हुआ कोई पात्र । २ एक प्रकार का रोग जिसमें मूत्राशय में पत्थर के छोटे बड़े कई टुकड़े उत्पन्न हो जाते हैं ।

विशेष—ये टुकड़े मूत्रोत्सर्ग में बाधक होते हैं जिसके कारण बहुत पीडा होती है और मूत्रोद्भय में कभी कभी घाव भी हो जाता है । मूत्राशय के अतिरिक्त यह रोग कभी कभी गले, फेफड़े और गुरदे में भी होता है ।

३ चकमक पत्थर जिसपर चोट पड़ने से तुरत आग निकल आती है । ४ पत्थर का वह टुकड़ा जिसपर रगड़कर उस्तरे आदि की धार तेज करते हैं । सिल्ली । ५ कुरड पत्थर जिसके तूर्ण को लाख आदि में मिलाकर श्रीजार तेज करने की मान बनाते हैं । ६ पक्षियों के पेट का वह पिछला भाग जिसमें अनाज आदि के बहुत कड़े दाने जा कर पचते हैं । पेट का यह भाग बहुत ही कडा होता है । ७ एक प्रकार की मछली । ८ जायफल की जाति का एक वृक्ष ।

विशेष—यह वृक्ष कोकण और उसके दक्षिण प्रात के जगलों में होता है । इस वृक्ष की लकड़ी साधारण कड़ी होती है और इमारत बनाने के काम में आती है । इसमें जायफल से मिलते जुलते फल लगते हैं जिन्हें उवालने या पेरने से पीले रंग का तेल निकलता है । यह तेल औषध के काम में भी आता है और जलाने के काम में भी ।

पथरोला—वि० [हि० पत्थर + ईला (प्रत्य०)] [वि० स्त्री० पथरीली] पत्थरो से युक्त । जिसमें पत्थर हों । जैसे, पथरीली जमीन ।

पथरीटा—सञ्ज्ञा पु० [हि० पत्थर + श्रौटा (प्रत्य०)] दे० 'पथरीटी' ।

पथरीटी—सञ्ज्ञा स्त्री० हि० पत्थर + श्रौटी (प्रत्य०)] पत्थर की कटोरी । पथरी । कुँडी ।

पथरीड़ा—सञ्ज्ञा पु० [हि० पाथना] दे० 'पथीरा' ।

पथल—सञ्ज्ञा पु० [हि० पत्थर, पथर] पत्थर । पाथर । पाषाण । उ०—महल के बीच अजब मूरति पथल पूजे सेमर सुभा ।—सं० दरिया, पृ० ६६ ।

पथसु दर—सञ्ज्ञा पु० [सं० पथसुन्दर] एक क्षुप ।

पथस्थ—वि० [सं०] राह में । मार्गस्थ ।

पथहारा—वि० [हि० पथ + हारना (= खोना)] भूला भटका । पथ-भ्रष्ट । जिसका सही पथ छूट गया हो । उ०—सबसे ऊपर निर्जन नम में अपलक सध्या तारा, नीरव श्री नि सग, खोजता सा कुछ, चिर पथहारा ।—ग्राम्या, पृ० ७२ ।

पथिक—सञ्ज्ञा पु० [सं०] मार्ग चलनेवाला । यात्री । मुसाफिर । राहगीर ।

यौ०—पथिकसतति, पथिकसहति, पथिकसार्थ = कारवाँ । काफिला । सार्थ । यात्रीदल ।

पथिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ मुनक्का । २ अगूर की मदिरा । एक प्रकार की अगूरी मदिरा (को०) ।

पथिकाश्रय—सञ्ज्ञा पु० [सं०] पथिकों के रहने का स्थान । घर्म-शाला । चट्टी ।

पथिकृत—सज्ञा पु० [सं०] १ पथप्रदर्शक । अग्नि [को०] ।

पथिचक्र—सज्ञा पु० [सं०] फलित ज्योतिष में एक चक्र जिससे यात्रा का शुभ और अशुभ फल जाना जाता है ।

पथिदेय—सज्ञा पु० [सं०] वह कर जो किसी विशिष्ट पथ पर चलनेवालो से लिया जाता है ।

पथिद्रुम—सज्ञा पु० [सं०] खैर का पेड़ ।

पथिन्—सज्ञा पु० [सं०] १ राह । मार्ग । २ यात्रा । ३ कार्य-पद्धति । कार्य की सरणि । ४ संप्रदाय । मत । ५ पहुँच । ६ एक नरक [को०] ।

विशेष—संस्कृत के प्रथमा एकवचन में इसका रूप पथा होता है और कर्मकारक बहुवचन में पथ । संस्कृत समाम में इसका रूप 'पथ' होता है, जैसे, दृष्टिपथ, सत्पथ, श्रुतिपथ, कर्मापथ आदि । हिंदी में यही रूप प्रचलित और मान्य है ।

पथिप्रज्ञ—वि० [सं०] पथ का ज्ञाता । मार्ग का जानकार [को०] ।

पथिप्रिय—सज्ञा पु० [सं०] राह का प्रिय साथी [को०] ।

पथिल—सज्ञा पु० [सं०] राही । वटोही ।

पथिवाहक^१—वि० [सं०] निर्दय । कठोरहृदय [को०] ।

पथिवाहक^२—सज्ञा पु० १ व्याघ्र । शिकारी । आखेटक । २ मोटिया । बोझा ढोनेवाला व्यक्ति [को०] ।

पथिस्थ—वि० [सं०] राह चलता हुआ । जो रास्ता तय कर रहा हो [को०] ।

पथी—सज्ञा पु० [सं० पथिन्] रास्ता चलनेवाला । मुसाफिर । यात्री । पथिक । इ०—(क) राम नाम अनुराग ही जिय जो रति-आतो । स्वारथ परमारथ पथी तोहि सब पतिआतो । —तुलसी ग्र०, पृ० ५३५ । (ख) पथी दग ए विसाल होय के बिहाल बाके रहे हैं दुकूलनि के कूलनि में जाई री ।—दीन० ग्र०, पृ० ११ ।

पथीय—वि० [सं०] १ पथ सबधी । २ संप्रदाय सबधी ।

पथु(१)—सज्ञा पु० [सं० पथ] पथ । मार्ग । रास्ता । राह । उ०—विधि करतब विपरीत वाम गति राम प्रेम पथु न्यारो । —तुलसी (शब्द०) ।

पथेय(२)—सज्ञा पु० [सं० पाथेय] १ 'पाथेय' ।

पथेरा—सज्ञा पु० [हि० पाथना+परा (प्रत्य०)] इटें पाथनेवाला कुम्हार ।

पथौरा—सज्ञा पु० [हि० पाथना+औरा (प्रत्य०)] वह स्थान जहाँ उपले पाथे जाते हो । गोबर पाथने की जगह ।

पथ्य^१—सज्ञा पु० [सं०] १ चिकित्सा के कार्य अथवा रोगी के लिये हितकर वस्तु, विशेषत आहार । वह हलका और जल्दी पचनेवाला खाना जो रोगी के लिये लाभदायक हो । उपयुक्त आहार । उचित आहार । उ०—करिके पथ्य विरोध इक रोगी त्यागत प्राण ।—भारतेंदु ग्र०, भा० १, पृ० २२७ ।

क्रि० प्र०—देना ।—लेना ।

मुहा०—पथ्य से रहना = समय से रहना । परहेज से रहना ।

२ सेंधा नमक । ३ छोटी हड का पेड़ । ४. हित । मंगल । कल्याण ।

पथ्य^२—वि० हितकर । अनुकूल । उचित । उ०—कौशल्या धरि धीरजु कहई । पूत पथ्य गुरु आयेसु अहई ।—मानस, २।१७६ ।

पथ्यका—सज्ञा स्त्री० [सं०] मेथी ।

पथ्यशाक—सज्ञा पु० [सं०] चौलाई का साग ।

पथ्या—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ हरीतकी । हड । उ०—अभया, पथ्या, अव्यथा, अमृता, चेतक होइ ।—नद० ग्र०, पृ० १०४ । २. वन ककोडा । ३ आर्या छद का एक भेद जिसके और कई अवातर भेद हैं । ४ सैधनी । ५ चिमिटा । ६ गगा । ७ सडक । रास्ता । राह (को०) ।

पथ्यादि ष्वाथ—सज्ञा पु० [सं०] वैद्यक में एक प्रकार का पाचक काढ़ा जो त्रिफला, गुडूच, हलदी, चिरायते और नीम आदि को उबालकर बनाया जाता है ।

पथ्यापंक्ति—सज्ञा पु० [सं० पथ्यापङ्क्ति] पाँच पदों का एक प्रकार का वैदिक छंद जिसके प्रत्येक पाद में आठ आठ वर्ण होते हैं ।

पथ्यापथ्य—सज्ञा पु० [सं०] पथ्य और अपथ्य । रोगी के लिये लाभकर और हानिकर वस्तु [को०] ।

पथ्याशन—सज्ञा पु० [सं०] पाथेय । सबल ।

पथ्याशी—वि० [सं० पथ्याशिन्] पथ्य वस्तु खानेवाला [को०] ।

पद—सज्ञा पु० [सं०] १ व्यवसाय । काम । २ त्राण । रक्षा ।

३ योग्यता के अनुसार नियत स्थान । दर्जा । ४ चिह्न । निशान । ५ पैर । पाँव । चरण । उ०—सो पद गहो जाहि से सदगति पार ब्रह्म से न्यारा ।—कवीर श०, भा० ३, पृ० ३ ।

यौ०—पदकज । पदपंकज । पदपद्म = दे० 'पदकमल' ।

६ वस्तु । चीज । ७. शब्द । ८ प्रदेश । ९ पैर का निशान ।

१० श्लोक वा किसी छंद का चतुर्थांश । श्लोकपाद । ११

उपाधि । १२ मोक्ष । निर्वाण । १३ ईश्वरभक्ति सबधी

गीत । भजन । १३ पुराणानुसार दान के लिये सूते,

छाते, कपड़े, अँगूठी, कमंडलु, आसन, बरतन, और भोजन

का समूह । जैसे,—पाँच ब्राह्मणों को पददान मिला है । १५

डग । कदम । पग । (को०) । १६ वैदिक मंत्रों के पाठ

करने का एक ढग । मंत्रों के शब्दों को अलग अलग

कहना । जैसे, पद पाठ । १७ विसात का कोठा या खाना ।

१८. किरण (को०) । १९ लवाई की एक माप (को०) ।

२० राह । मार्ग । ११ वर्गमूल (गणित) । २२ वहाना ।

हीला (को०) । २३ फल (को०) । २४ सिक्का (को०) ।

पदई(१)—सज्ञा स्त्री० [सं० पदवी] दे० 'पदवी' । उ०—छीर नीर

निरवारि पिवै जी । इहि मग प्रभु पदई पावै सो ।—नद

ग्र०, पृ० ११८ ।

पदक—सज्ञा पु० [सं०] १ एक प्रकार का गहना जिसमें किसी देवता के पैरों के चिह्न अंकित होते हैं और जो प्रायः बालकों की रक्षा के लिये पहनाया जाता है । ३. पूजन आदि के लिये किसी देवता के

पैरो के बनाए हुए चिह्न । ३ सोने चाँदी या किसी और धातु का बना हुआ सिक्के की तरह का गोल या चौकोर टुकड़ा जो किसी व्यक्ति अथवा जनसमूह को कोई विशेष श्रद्धा या श्रद्धुत कार्य करने के उपलक्ष्य में दिया जाता है ।

इसपर प्रायः दाता और गृहीता का नाम तथा दिए जाने का कारण और समय आदि अंकित रहता है । यह प्रशंसा सूचक और योग्यता का परिचायक होता है । ४ वह जो वेदों का पदपाठ करने में प्रवीण हो । ५ ढग । कदम । पग (को०) । ६ स्थान । पद । ओहदा (को०) । ७ एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि का नाम ।

पदकमल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कमल सदृश पाँव । कमलरूपी चरण । उ०—पदकमल घोड़ चढाइ नाव न नाथ उतराई चहाँ । —मानस, २ । १०० ।

पदक्रम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ गमन करना । चलना । २ वेदमंत्रों के पदों के पाठ की एक पद्धति । ३ वाक्यविन्यास । वाक्य में शब्दों या पदों के रखने का ढग ।

पदग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पैदल चलनेवाला । प्यादा ।

पदचतुर्ध—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पदचतुर्ध] विषम वृत्तों का एक भेद जिसके प्रथम चरण में ८, दूसरे में १२, तीसरे में १६ और चौथे में २० वर्ण होते हैं । इसमें गुरु लघु का नियम नहीं होता । इसके अपीड, प्रत्यापीड, मजरी, लवली, और अमृत-घारा ये पाँच श्रवातर भेद होते हैं ।

पदचर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पैदल । प्यादा । उ०—सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान । —मानस, १।३०४ ।

पदचार, पदचारण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पैदल चलना । उ०—देख चचल मृदु पटु पदचार लुटाता स्वर्ण राशि कवियार । —गुजन, पृ० ४६ ।

पदचारी—वि० [सं०] पैदल चलनेवाला । पैदल । उ०—ते श्रव फिरत विपिन पदचारी । कदमूल फल फूल अहारी । —मानस, २।४० ।

पदचिह्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह चिह्न जो चलने के समय पैरो से जमीन पर बन जाता है ।

पदच्छेद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सधि और समासयुक्त किसी वाक्य के प्रत्येक पद को व्याकरण के नियमों के अनुसार अलग अलग करने की क्रिया ।

पदच्युत—वि० [सं०] जो अपने पद या स्थान से हट गया हो । अपने स्थान से हटा या गिरा हुआ । जैसे, किसी राजकर्म-चारी का पदच्युत होना । उ०—अत में राव जी आपा परभू पुराने कारिदे ने प्रबल होकर उसको पदच्युत किया । —भारतेंदु ग्रं०, भा० १, पृ० ३६४ ।

पदच्युति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] अपने पद से हटने या गिरने की अवस्था ।

पदज^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पैर की उँगलियाँ । उ०—मृदुल चरन सुभ चिह्न पदज नख अति श्रद्धुत उपमाई । —तुलसी ग्रं०, पृ० ४६१ । २ शूद्र ।

पदज^२—वि० [सं०] जो पैर से उत्पन्न हो ।

पदतल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पैर का तलवा ।

पदत्याग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अपने पद या ओहदे को छोड़ने की क्रिया ।

पदत्राण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पैरो की रक्षा करनेवाला जूता ।

पदत्रान(^७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पदत्राण] दे० 'पदत्राण' । उ०—नहि पदत्रान सीस नहि छाया । पेमु नेमु ब्रतु घरमु श्रमाया । —मानस, २।२१५ ।

पदत्री—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पक्षी । चिड़िया । (अनेकार्थ०) ।

पददलित—वि० [सं०] १ पैरों से रौंदा हुआ । २ जो दवाकर बहुत हीन कर दिया गया हो ।

पददारिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] विवाई नाम का पैर का रोग ।

पददेश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] निचला भाग । तल भाग । उ०—वृत्र उसी जल के पददेश के नीचे सो गया । —प्रा० भा० प०, पृ० ८६ ।

पदनिक्षेप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चरणचिह्न । पैर की छाप । पदन्यास । उ०—इस दिशा में कामायनी प्रथम और अंतिम पदनिक्षेप है । —वी० श० म०, पृ० ३४८ ।

पदन्यास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पैर रखना । चलना । गमन करना । कदम रखना । उ०—मृदु पदन्यास मद मलयानिल विगलत शीश निचोल । —सूर (शब्द०) । २. पैर रखने की एक मुद्रा ३ पैर की छाप । चरणचिह्न । ४ चलन । ढग । ५ पद रचने का काम । ६ गोखरू ।

पदपंक्ति—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पदपङ्क्ति] एक वैदिक छंद जिसके पाँच पाद होते हैं और प्रत्येक पाद में पाँच वर्ण होते हैं ।

पदपद्धति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पैरो का चिह्न । अनेक पैरो के क्रमवद्ध चिह्न या कतार [को०] ।

पदपद्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पदकमल' ।

पदपलटी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पद+हिं० पलटना] एक प्रकार का नाच ।

पदपाठ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वेदमंत्रों का ऐसा पाठ जिसमें सभी पद अलग अलग करके कहे जायें । २ अथ जिससे पदपाठ हो [को०] ।

पदबंध—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पदबन्ध] कदम । ढग [को०] ।

पदभजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पदभञ्जन] शब्दों की निरुक्ति । शब्द-विश्लेषण [को०] ।

पदभञ्जिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पदभञ्जिका] टीका । टिप्पणी [को०] ।

पदभ्रंश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पदच्युति दोष [को०] ।

पदम^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पद्म] दे० 'पद्म' ।

पदम^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पद्मकाष्ठ] वादाम की जाति का एक जंगली पेड़ । अमलगुच्छ । पद्माख ।

विशेष—यह पेड़ सिंधु से आसाम तक २५०० से ७००० फुट की ऊँचाई तक तथा खासिया की पहाड़ियों और उत्तर बर्मा में अधिकता से पाया जाता है । कहीं कहीं यह पेड़ लगाया भी जाता है । इसमें से बहुत अधिक गोद निकलता है जो किसी काम में नहीं लाया जाता । इसमें एक प्रकार का फल होता है जिसमें से कड़ू वादाम के तेल की तरह का तेल निकलता है । इन फलों को लोग कहीं कहीं खाते और कहीं कहीं फकीर लोग उनकी मालाएँ बनाकर गले में पहनते हैं । यह फल शराब बनाने के लिये विलायत भी भेजा जाता है । इस वृक्ष की लकड़ी छड़ियाँ और आरायशी सामान बनाने के काम में आती है । कहते हैं, गर्म न रहता हो तो इसकी

लकड़ी घिसकर पीने से गर्भ रह जाता है, यदि गर्भ गिर जाता है तो स्थिर हो जाता है। वैद्यक के अनुसार इसकी लकड़ी ठंडी, कडवी, कसीली, हलकी, वादी, रक्तपित्तनाशक, दाह, ज्वर, कोढ़ और विस्फोटक आदि को दूर करनेवाली और रुचिकारक मानी गई है।

पर्या०—पद्मक । मलय । पीतरक्त । सुप्रभ । पीतक । शीतल । हिम । शुभ । केदारज । पद्मगधि । शीतवीर्य । अमलगुच्छ । पद्माख ।

पदमकाठ—सज्ञा पुं० [सं० पद्मकाष्ठ] दे० 'पदम' २ ।

पदमचल—सज्ञा पुं० [देश०] रेवद चीनी ।

पदमण—सज्ञा स्त्री० [सं० पद्मिनी] स्त्री (हि०) ।

पदमनाभ—सज्ञा पुं० [सं० पद्मनाभ] १ विष्णु । २ सूर्य (हि०) ।

पदमाकर—सज्ञा पुं० [सं० पद्माकर] तालाव (हि०) ।

पदमात्मा—सज्ञा स्त्री० [सं०] इद्रजाल । समोहनी विद्या [को०] ।

पदमिनी^(५)—सज्ञा स्त्री० [सं० पद्मिनी] दे० 'पद्मिनी' । उ०—क्यो चाहति तू पदमिनी करन पातकी मोहि ।—शकुंतला, पृ० ६३ ।

पदमूल—सज्ञा पुं० [सं०] १ पैर का तलवा । तलवा । २ (लाक्ष०) आश्रय । शरण ।

पदमैत्री—सज्ञा स्त्री० [सं०] किसी कविता में एक ही शब्द या अक्षर का इस प्रकार बार बार आना जिसमें उसमें एक प्रकार का चमत्कार आ जाय । अनुप्रास । वर्णमैत्री । वर्णमाम्य । जैसे, मल्लिकान मजुल मलिद मतवारे मिले मद मद मारुत मुहीम मनसा की है ।—(शब्द०) ।

पदस्मी—सज्ञा पुं० [सं० पद्मी] हाथी (हि०) ।

पदयात्रा—सज्ञा स्त्री० [सं०] वह भ्रमण या यात्रा जो पाँव प्यादे चलते हुए की जाय । पैदल की जानेवाली यात्रा ।

पदयोजना—सज्ञा स्त्री० [सं०] कविता के लिये पदों का जोड़ना । पद बनाने के लिये शब्दों को मिलाना ।

पदरी—सज्ञा पुं० [देश०] १ एक प्रकार का पेड़ । २ ढ्योढीदारो के बैठने का स्थान । (हि०) । उ०—पकरि पदर घरि सत पद जद्यपि सुरति विचार । लार लगन लागी रहे, तव उतरे भी पार ।—घट०, पृ० ३८१ ।

पदरिपु—सज्ञा पुं० [सं० पद + रिपु] कटक । काँटा । उ०—पदरिपु पर अटक्यो आतुर ज्यो उलटत पलट मरी ।—सूर (शब्द०) ।

पदवाद्य—सज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन काल का एक प्रकार का ढोल ।

पदवाना—क्रि० सं० [हि० पदाना का प्रेर०रूप] पदाना का प्रेर०रूप । पदाने का काम दूसरे से कराना ।

पदवि—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पदवी' ।

पदविज्ञेप—सज्ञा पुं० [सं०] कदम रखना । चलना [को०] ।

पदविच्छेद—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पदच्छेद' [को०] ।

पदविष्टम्भ—सज्ञा पुं० [सं० पदविष्टम्भ] पैर रखना । कदम रखना [को०] ।

पदवी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. पंथ । रास्ता । २. पद्धति । परिपाटी । तरीका । ३. वह प्रतिष्ठा या मानसूचक पद जो राज्य अथवा किसी सस्था आदि की ओर से किसी योग्य व्यक्ति को मिलता है । उपाधि । खिताब । जैसे, राजा, राय बहादुर, डाक्टर, महामहोपाध्याय, आदि । उ०—साँच कहे तो पनही खावै । भूठे बहु विधि पदवी पावै ।—भारतेंदु ग्र० भा० १, पृ० ६७० ।

विशेष—पदवी नाम के पहले अथवा पीछे लगाई जाती है ।

४. ओहदा । दरजा । ५. स्थान ।

पदवेदी—सज्ञा पुं० [सं० पदवेदिन्] पदो अर्थात् शब्दों का ज्ञाता । शब्दशास्त्री [को०] ।

पदसमय—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पदपाठ' [को०] ।

पदस्थ—वि० [सं०] १ जो अपने पैरों के बल खड़ा हो । २ जो पैरों के बल चल रहा हो । ३ किसी पद पर नियुक्त हो ।

पदस्थान—सज्ञा पुं० [सं०] पदाक । पदचिह्न [को०] ।

पदांक—सज्ञा पुं० [सं० पदाङ्क] पैरों का चिह्न जो प्राय चलने के कारण बालू या कीचड़ आदि पर बन जाता है ।

पदांगी—सज्ञा स्त्री० [सं० पदाङ्गी] लाल रंग का लजालू ।

पदांत—सज्ञा पुं० [सं० पदान्त] १ पद का, किसी श्लोक या पद्य का अंतिम भाग । २ तलवा । पैर [को०] ।

पदांतर—सज्ञा पुं० [सं० पदान्तर] १ दूसरा कदम । दूसरा डग । २. एक कदम लवाई । ३ कदम । डग । २ दूसरा पद या स्थान [को०] ।

पदांत्य—वि० [सं० पदान्त्य] पद के अंत में रहनेवाला । पदांत में स्थित । अंतिम [को०] ।

पदांभोज—सज्ञा पुं० [सं० पदांभोज] चरणकमल [को०] ।

पदाक्रांत—वि० [सं० पदाक्रान्त] पददलित । रौंदा हुआ । कुचला हुआ । विजित । उ०—नवागत म्लेच्छवाहिनी से सौराष्ट्र भी पदाक्रांत हो चुका है ।—मकद०, पृ० ७ ।

पदाघात—सज्ञा पुं० [सं०] पैर की मार । लातों की मार [को०] ।

पदाचार—सज्ञा पुं० [सं० पदचार] पैर रखना । पदसचार । गमन । उ०—चपल पवन के पदाचार से अहरह स्पदित । शात हास्य से अंतर को करते आह्लादित ।—ग्राम्या०, पृ० ७३ ।

पदाजि—सज्ञा पुं० [सं०] पैदल सैनिक [को०] ।

पदात^(५)—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पदाति' ।

पदाति—सज्ञा पुं० [सं०] १ वह जो पैदल चलता हो । प्यादा । २ पैदल सिपाही । ३ नौकर । सेवक । ४ जनमेजय के एक पुत्र का नाम ।

पदातिक—सज्ञा पुं० [सं०] १ वह जो पैदल चलता है । २ पैदल सिपाही । उ०—दयानदीय समाजियों की पदातिक सेना को उनपर ।—प्रेमघन० भा० २, पृ० २४२ ।

पदाती—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पदातिन्] पैदल सैनिक [को०] ।
पदातीय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पदाति' ।
पदादि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शब्द का प्रथमाक्षर । छंद का प्रारम्भ ।
पदादिका—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पदातिक] पैदल सेना । उ०—प्रभु कर
 सेन पदादिका बालक राज समाज ।—तुलसी (शब्द०) ।
पदाधिकारी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पदाधिकारिन्] वह जो किसी पद पर
 नियुक्त हो । श्रोहदेदार । अफसर ।
पदाध्ययन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पदपाठ के अनुसार वेद का पठन ।
पदाना—क्रि० सं० [हिं० पाठना का प्र०रूप] १ पादने का काम
 दूसरे से कराना । २. बहुत अधिक दिक करना । तग
 करना । छकाना । जैसे,—क्यों उसे बार बार पदाते हो ।
पदानुग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जो किसी का अनुगमन करता हो ।
 अनुकरण करनेवाला । अनुयायी । माथी ।
पदानुराग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ भृत्य । सेवक । २ सेना ।
 फौज [को०] ।
पदानुशासन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पदों का अनुशासन करनेवाला शास्त्र ।
 शब्दानुशासन । शब्दशास्त्र । व्याकरण [को०] ।
पदानुस्वार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] साम का एक भेद । एकार का
 साम [को०] ।
पदाब्ज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चरणकमल । पदकमल ।
पदायता—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पदश्राण । जूता [को०] ।
पदार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पैरो की धूल । उ०—आरद होत महारद
 पारस पारद पुण्य पदारन हूँ मे ।—देव (शब्द०) । २ नाव ।
 नौका [को०] । ३ पैर का ऊपरी हिस्सा [को०] ।
पदारथ (७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पदार्थ] दे० 'पदार्थ' । उ०—जानिकर
 एहने सोहागिनि सजनि गे पाभोल पदारथ चारि ।—विद्या-
 पति, पृ० १८० ।
पदारविद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पदारविन्द] दे० 'पदाब्ज' ।
पदार्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जल जो किसी अतिथि या पूज्य को
 पैर धोने के लिये दिया जाय ।
पदार्थ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पद का अर्थ । शब्द का विषय । वह
 जिसका कोई नाम हो और जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके ।
 २ उन विषयों में कोई विषय जिनका किसी दर्शन में प्रति-
 पादन हो और जिनके सबध में यह माना जाता हो कि उनके
 द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है ।
विशेष—वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य,
 विशेष और समवाय ये छह पदार्थ, हैं और इन्हीं छह पदार्थों
 का उसमें निरूपण है । कुल चोर्जे इन्हीं छह पदार्थों के
 अतर्गत मानी गई हैं । ये छह 'भाव' पदार्थ हैं और 'भाव'
 की विद्यमानता में 'अभाव' का होना भी स्वाभाविक है ।
 अत नवीन वैशेषिको ने इन सब पदार्थों के विपरीत एक नया
 और सातवाँ पदार्थ 'अभाव' भी मान लिया है । इसके
 अतिरिक्त कुछ और लोगो ने 'तम' अथवा अघकार को भी
 एक पदार्थ माना है । परंतु अघकार वास्तव में प्रकाश का

अभाव ही होता है, इसलिये स्वयं अघकार कोई स्वतंत्र
 पदार्थ नहीं हो सकता । विशेष—दे० 'वैशेषिक' ।

गौतम के न्यायसूत्र में सोलह पदार्थ कहे गए हैं जिनके नाम ये
 हैं—प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, दृष्टांत, मिद्धात, भवयव,
 तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितडा, हेत्वाभास, छल, जाति और
 निग्रहस्थान । नैयायिकों के अनुसार विचार के जितने विषय
 हैं वे सब इन्हीं सोलह पदार्थों के अतर्गत हैं । विशेष—
 दे० 'न्याय' । साध्यदर्शन में सख्या मे, पुरुष, प्रकृति और महत्
 आदि उमके विकारो को लेकर २५ पदार्थ हैं । दे० 'साध्य' ।
 वेदात दर्शन के अनुमार आत्मा और अनात्मा ये ही दो पदार्थ
 हैं । दे० 'वेदात' ।

इसके अतिरिक्त और भी अनेक विद्वानों और सांप्रदायिकों ने
 अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग पदार्थ माने
 हैं । जैसे 'रामानुजाचार्य के मत से चित्त, अचित्त और
 ईश्वर, शैव दर्शन के अनुमार पति, पशु और पाषा (यहाँ
 पति का तात्पर्य शिव, पशु का जीवात्मा और पाषा का
 मल, कर्म माया और रोष शक्ति है) । जैन दर्शनों में
 भी पदार्थ माने गए हैं परंतु उनकी सख्या आदि के सबध
 में बहुत मतभेद है । कोई दो पदार्थ मानता है, कोई तीन
 कोई पाँच, कोई सात और कोई नौ ।

३ पुराणानुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ।

४ वैद्यक में भावप्रकाश के अनुसार रस, गुण, वीर्य, विपाक
 और शक्ति । ५ चीज । वस्तु ।

पदार्थवाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह वाद या सिद्धांत जिसमें पदार्थ,
 विशेषत भौतिक पदार्थों को ही सब कुछ माना जाता हो
 और आत्मा अथवा ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार न
 होता हो ।

पदार्थवादी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पदार्थवादिन्] वह जो आत्मा या ईश्वर
 आदि का अस्तित्व न मानकर केवल भौतिक पदार्थों को ही
 सब कुछ मानता हो ।

पदार्थविज्ञान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह विद्या जिसके द्वारा भौतिक
 पदार्थों और व्यापारों का ज्ञान हो । विज्ञानशास्त्र ।

पदार्थविद्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह विद्या जिसमें विशिष्ट सज्ञाओं
 द्वारा सूचित पदार्थों का तत्त्व बतलाया गया हो । जैसे,
 वैशेषिक ।

पदार्पण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ किसी स्थान में पैर रखने या जाने की
 क्रिया । २ शुभागमन । आगमन ।

विशेष—इस शब्द का प्रयोग प्रायः प्रतिष्ठित व्यक्तियों के
 सबध में ही होता है । जैसे,—श्रीमान् के पदार्पण करते ही
 सब लोग उठ खड़े हुए ।

पदात्तिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चरण का ऊपर का भाग [को०] ।

पदावनत—वि० [सं०] १ जो पैरो पर झुका हो । २ जो प्रणाम
 कर रहा हो । ३ नम्र । विनीत ।

पदावली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ शब्दों या वाक्यों की श्रेणी । २
 भजनो का सग्रह । पदों का सग्रह ।

पदाश्रित—वि० [सं०] १ जिसने पैरो में आश्रय लिया हो। शरण में आया हुआ। २ जो आश्रय में रहता हो।

पदास—सज्ञा स्त्री० [हि० पादना + आस (प्रत्य०)] पादने का भाव। २. पादने की प्रवृत्ति।

पदासन—सज्ञा पुं० [सं०] पादपीठ। चरणपीठ [को०]।

पदासा—सज्ञा पुं० [हि० पदास] वह जिसकी पादने की इच्छा या प्रवृत्ति हो।

पदासीन—वि० [सं०] किसी विशेष पद पर प्रतिष्ठित [को०]।

पदिक^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ पैदल सेना। पदाति सेना। २ पैर का अगला भाग। ३ पैदल चलनेवाला व्यक्ति।

पदिक^२—सज्ञा पुं० [सं० पदिक] १ गले में पहनने का वह गहना जिसपर किसी देवता आदि के चरण अंकित हो। २ जुगनु नाम का गले में पहनने का गहना। ३ हीरा। ४ रत्न।

पदिक^३—पदिकहार = रत्नहार। मणिमाल। उ०—उर श्रीवत्स रश्चिर वनमाला। पदिकहार भूपन मनि जाला।—मानस, १।१४७।

५ दे० 'पदक'।

पदिक^४—सज्ञा पुं० [हि० पदिक] पदिक। हीरा। उ०—गुनिक्क कर्ण राजही। विसद् हार साजही। पदिकक सीस शोभय रिपीस पुज लोभय।—प० रासो, पृ० १०।

पदी^१—सज्ञा पुं० [सं० पद] पैदल। पदाति। प्यादा।

पदी^२—सज्ञा स्त्री० [सं०] पदों का समूह। जैसे, त्रिपदी, चतुष्पदी, सप्तपदी आदि [को०]।

पदु^१—सज्ञा पुं० [सं० पद] दे० 'पद'।

पदुम—सज्ञा पुं० [सं० पद्म] १ घोड़ों का एक चिह्न या लक्षण जो मोरवों के पास होता है। भारतवासी इसे दोष नहीं मानते, पर ईरान के लोग इसे दोष मानते हैं। २ दे० 'पद्म'। उ०—बदों गुरुपद पदुम परागा। सुसचि सुवास सरस अनुरागा।—मानस, १।१।

पदुमिनि, पदुमिनी—सज्ञा स्त्री० [सं० पद्मिनी] दे० 'पद्मिनी'। उ०—हों पदुमिनी मानसर केवा। भवर मराल करहि निति सेवा।—पदमावत, पृ० ४५१।

पदेक—सज्ञा पुं० [सं०] श्येन पक्षी। वाज [को०]।

पदेन—क्रि० वि० [सं० पद शब्द के तृतीया एक्यचन का रूप] पद पर प्रतिष्ठित होने से। अधिकार विशेष से [को०]।

पदोड़ा—सज्ञा पुं० [हि० पाद+ओड़ा (प्रत्य०)] १ जो बहुत पादता हो। अधिक पादनेवाला। २ कायर। डरपोक। (क्व०)।

पदोदक—सज्ञा पुं० [सं०] १. वह जल जिससे पैर धोया गया हो। २. चरणामृत।

पदौक—सज्ञा पुं० [सं०] एक वृक्ष जो वरमा में अधिकता से होता है—११

है। इसकी लकड़ी मजबूत और कुच्छ लाली लिए सफेद रंग की होती है।

पद्—सज्ञा पुं० [सं०] १ पद। पैर। २ पाद। अक्ष। चतुर्थांश [को०]।

पद्ग—सज्ञा पुं० [सं०] पैदल सैनिक। प्यादा। सिपाही [को०]।

पद्दू—सज्ञा पुं० [हि० पाद] दे० 'पदोड़ा'।

पद्दटिका—सज्ञा पुं० [सं०] एक मानक छद जिसके प्रत्येक चरण में ११ मात्राएँ होती हैं और अत में जगण होता है। जैसे,— श्री कृष्णचंद्र अरविद नैन। धरि अघर वजायत मधुर वैन। इसी को पद्दरि वा 'पद्दटिका' भी कहते हैं।

पद्दड़ी—सज्ञा स्त्री० [सं० पद्दटिका] दे० 'पद्दटिका'।

पद्दति—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ राह। पथ। मार्ग। सड़क। २ पक्ति। कतार। ३ रीति। रस्म। गिवाज। परिपाटी। चाल। ४ वह पुस्तक जिसमें किसी प्रकार की प्रथा या कार्य-प्रणाली लिखी हो। कर्म या सस्कारविधि की पोथी। जैसे, विवाह पद्दति। ५ वह पुस्तक जिसमें किसी दूसरी पुस्तक का अर्थ या तात्पर्य समझाया जाय। ६ ढग। तरीका। ७ कार्यप्रणाली। विधिविधान। ८ उपनाम। अल्ल। जैसे, त्रिपाठी, घोष, दत्त, वसु आदि।

पद्दती—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० पद्दति [को०]।

पद्दरि, पद्दरी—सज्ञा पुं० [सं० पद्दरिका] दे० 'पद्दटिका'।

पद्दिम—सज्ञा पुं० [सं० पद + हिम] पैर की शीतलता। पाँव ठंडा होना [को०]।

पद्दी—सज्ञा स्त्री० [सं०] खेल में किसी लडके का, जीतने पर, दाय लेने के लिये, हारनेवाले लडके की पीठ पर चढ़ना।

क्रि० प्र०—देना।—लेना।

पद्म—सज्ञा पुं० [सं०] १ कमल का फूल या पौधा। २ मामुद्रिक के अनुसार पैर में का एक विशेष आकार का चिह्न जो भाग्य-सूचक माना जाता है। ३ किसी स्तंभ के सातवें भाग का नाम (वास्तुविद्या)। ४ विष्णु के एक आयुष का नाम। ५ कुबेर की तीनों निधियों में से एक निधि। गले में पहनने का एक प्रकार का गहना। ७ शरीर पर का सफेद दाग। ८ हाथी के मस्तक या सूँठ पर बने हुए चित्रविचित्र चिह्न। ९ पद्म या पदमाक्ष वृक्ष। १० माँप के फन पर बने हुए चित्रविचित्र चिह्न। ११ एक ही कुन्सी पर बना हुआ, एक ही शिखर का आठ हाथ चौड़ा घर (वास्तुविद्या)। १२ एक नाग का नाम। १३ सीमा। १४ पुष्करमूल। १५ गणित में सोलहवें स्थान की नकशा (१०० नील) को दस प्रकार लिखी जाती है—१००,००,००,००,००,००,०००। १६ बौद्धों के अनुसार एक नक्षत्र का नाम। १७ पुराणानुसार एक कन्द का नाम। १८ तंत्र के अनुसार शरीर के भीतरी भाग का एक तन्त्रित मन्त्र जो सोने के रंग का और बहुत ही प्राशमान माना जाता है। १९ सोलह प्रकार के रतियघों में से एक। २० बरबरे का

एक नाम । २१ पुराणानुसार एक नरक का नाम । २२ एक प्राचीन नगर का नाम । २३ पुराणानुसार जबू द्वीप के दक्षिणपश्चिम का एक देश । २४ कार्तिकेय के एक अनुचर का नाम । २५ जैनो के अनुसार भारत के नवें चक्रवर्ती का नाम । २६ एक पुराण का नाम । दे० 'पुराण' । २७ एक वरुणवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक नगण, एक सगरा और अन मे लघु गुरु होते हैं । जैसे,—कव पहुँचे सस्य री । लखहुँ पद पद्य री । २८ दे० 'पद्मव्यूह' । २९ दे० 'पद्मासन' । ३० दे० 'पद्मा' (नदी) ।

पद्मकंद—सज्ञा पुं० [सं० पद्मकन्द] कमल की जड़ । मुरार । भिस्ता । भसीड ।

पद्मक—सज्ञा पुं० [सं०] १ पदम या पदमकाठ नाम का पेड़ । २. सेना का पद्मव्यूह । ३ सफेद कोड । ४ कुट नाम श्री भ्रूपधि ५ हाथी की सूँड पर के चित्र विचित्र दाग (को०) ।

पद्मकर—सज्ञा पुं० [सं०] १ विष्णु । २ सूर्य । ३ कमलकर । कमल के समान हाथ (को०) ।

पद्मकरा—सज्ञा स्त्री० [सं०] लक्ष्मी (को०) ।

पद्मकरिणिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ कमल का बीजकोश । पद्मकोश । २ पद्मव्यूह में स्थित सेना का मध्य या केंद्रभाग (को०) ।

पद्मकाष्ठ—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पदमकाठ' ।

पद्मकाह्वय—सज्ञा पुं० [सं०] पद्माख या पदम नाम का वृक्ष ।

पद्मकिजल्क—सज्ञा पुं० [सं० पद्मकिजल्क] कमल का केसर ।

पद्मकी—सज्ञा पुं० [सं० पद्मकिन्] १. भोजपत्र का पेड़ । २ गज । हाथी (को०) ।

पद्मकीट—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का जहरीला कीड़ा ।

पद्मकेतन—सज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार गरुड के एक पुत्र का नाम ।

पद्मकेतु—सज्ञा पुं० [सं०] बृहत्संहिता के अनुसार एक पुच्छल तारा जो मृगाल के आकार का होता है । यह केतु पश्चिम की ओर एक ही रात भर दिखलाई पड़ता है । गौर वर्ण का वह केतु जो पश्चिम दिशा में एक ही रात तक दिखाई देता है ।

पद्मकेशर—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पद्मकिजल्क' (को०) ।

पद्मकोश—सज्ञा पुं० [सं०] १ कमल का संयुट । २ कमल के बीज का छत्ता जिसमे बीज होते हैं । ३. हाथ की उँगलियों की एक मुद्रा जो कमल के आकार की होती है (को०) ।

पद्मक्षेत्र—सज्ञा पुं० [सं०] उड़ीसा प्रांत के एक तीर्थ का नाम ।

पद्मखंड—सज्ञा पुं० [सं० पद्मखण्ड] कमलराशि (को०) ।

पद्मगंध^१—वि० [सं० पद्मगन्ध] कमल के समान गंधवाला ।

पद्मगंध^२—सज्ञा पुं० दे० 'पद्मगंधि' (को०) ।

पद्मगंधि—सज्ञा पुं० [सं० पद्मगन्धि] पद्माख या पदम नाम का वृक्ष ।

पद्मगर्भ—सज्ञा पुं० [सं०] १ कमल का भीतरी भाग । २ ब्रह्मा ।

३ विष्णु (को०) । ४ शिव (को०) । ५ सूर्य । ६. बुद्ध । ७ एक बोधिसत्त्व ।

पद्मगुणा—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पद्मगुहा' (को०) ।

पद्मगुप्त—सज्ञा पुं० [सं०] मस्कृत महाकाव्य 'नवसाहस्राक्षरित' के रचयिता जो मुज और भोज की सभा में थे । इनका एक नाम परिमल भी है ।

पद्मगृहा—सज्ञा स्त्री० [सं०] लक्ष्मी का एक नाम ।

पद्मचारिणी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ गेंदा । २ शमी वृक्ष । ३ हल्दी । ४ लाख ।

पद्मचय—सज्ञा पुं० [सं०] कमलसमूह । कमलराशि । उ०—होती है प्रिय सस्य पद्मचय मे पद्मासना की प्रभा ।—पारिजात, पृ० ११० ।

पद्मज, पद्मजात—सज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मा ।

पद्मततु—सज्ञा पुं० [सं० पद्मतन्तु] मृगाल । कमल की नाल ।

पद्मदर्शन—सज्ञा पुं० [सं०] लोहवान ।

पद्मनाभ—सज्ञा पुं० [सं०] १ शत्रु के फेंके हुए अन्न को निष्फल करने का एक मंत्र या युक्ति । २ विष्णु । ३ घृतगण्ड के एक पुत्र का नाम । ४ जैनो के अनुसार भावी उत्सर्पिणी के पहले ब्रह्मत का नाम । ५ महादेव । शिव (को०) । ६ एक नाग (को०) ।

पद्मनाभि—सज्ञा पुं० [सं०] विष्णु ।

पद्मनाल—सज्ञा स्त्री० [सं०] कमलनाल । कमल की डडी (को०) ।

पद्मनिधि—सज्ञा स्त्री० [सं०] कुबेर की नौ निधियों में से एक निधि का नाम ।

पद्मनेत्र—सज्ञा पुं० [सं०] १ एक प्रकार का पक्षी । २ बौद्धो के अनुसार एक बुद्ध का नाम, जिनका अवतार अभी होने को है । ३ वह जिसकी आँख कमल के समान हो ।

पद्मपत्र—सज्ञा पुं० [सं०] १ पुहकरमूल । पुष्करमूल । २ कमल का पत्ता । पुरहन पात (को०) ।

पद्मपर्ण—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पद्मपत्र' ।

पद्मपाणि^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ ब्रह्मा । २ बुद्ध की एक विशेष मूर्ति । ३ एक बोधिसत्त्व, जो अमिताभ बुद्ध के देवपुत्र कहे गए हैं । इनकी उपासना नेपाल, तिब्बत चीन आदि देशों में होती है । ४ सूर्य ।

पद्मपाणि^२—वि० जिसके हाथ में कमल हो (को०) ।

पद्मपुराण—सज्ञा पुं० [सं०] अठारह पुराणों में से एक पुराण ।

पद्मपुष्प—सज्ञा पुं० [सं०] १. कनेर का पेड़ । २ एक प्रकार का पक्षी । ३ पद्म का फूल ।

पद्मप्रभ—सज्ञा पुं० [सं०] १ बौद्धो के अनुसार एक बुद्ध का नाम जिनका अवतार अभी होने को है । २. जैनो के अनुसार वर्तमान अवसर्पिणी के छठे ब्रह्मत (को०) ।

पद्मप्रिया—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ मनसा देवी जो जरत्कार मुनि की पत्नी थी । २ गायत्रीस्वरूपा महादेवी (को०) ।

पद्मवध—सज्ञा पुं० [सं० पद्मवन्ध] एक प्रकार का चित्रकाव्य

- जिसमें अक्षरो को ऐसे क्रम से लिखते हैं जिससे एक पद्म या कमल का आकार बन जाता है ।
- पद्मबंधु**—सज्ञा पुं० [सं० पद्मवन्धु] १. सूर्य जिनके उदय से कमल खिलता है । २. भौरा । अमर (को०) ।
- पद्मबीज**—सज्ञा पुं० [सं०] कमलगट्टा । कमल का बीज ।
- पद्मबीजाभ**—सज्ञा पुं० [सं०] मखाना ।
- पद्मबन्ध**—सज्ञा पुं० [सं०] पद्म से उत्पन्न-ब्रह्मा ।
- पद्मभास**—सज्ञा पुं० [सं०] १. विष्णु । २. शिव (को०) ।
- पद्मभू**—सज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मा ।
- पद्मभूषण**—सज्ञा पुं० [सं० पद्म + भूषण] एक पदवी या अलंकार जो भारत सरकार की ओर से प्रदान की जाती है । यह पद्मश्री से बड़ी होती है ।
- पद्मालिनी**—सज्ञा स्त्री० [सं०] लक्ष्मी (को०) ।
- पद्मामात्री**—सज्ञा पुं० [सं० पद्मामात्रिन्] एक राक्षस का नाम ।
- पद्ममुखी**—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. दुरालभा या घमासा नाम का कौटिली पौधा । २. दुर्वा । दूब ।
- पद्ममुद्रा**—सज्ञा स्त्री० [सं०] तान्त्रिकों की पूजा में एक मुद्रा जिसमें दोनों हथेलियों को सामने करके उँगलियाँ नीचे रखते हैं और अंगूठे मिला देते हैं ।
- पद्मयोनि**—सज्ञा पुं० [सं०] १. बुद्ध का एक नाम ।
- पद्मराग**—सज्ञा पुं० [सं०] मानिक या लाल नामक रत्न । उ०—सौगंधिक, गुरुविद और स्फटिक इन तीन भाँति के पत्थरों से पद्मराग (लाल) का जन्म होता है ।—बृहत्०, पृ० ३२५ ।
- पद्मरेखा**—सज्ञा स्त्री० [सं०] सामुद्रिक के अनुसार हथेली की एक प्रकार की प्राकृतिक रेखा जो बहुत भाग्यवान् होने का लक्षण मानी जाती है ।
- पद्मलाञ्छन**—सज्ञा पुं० [सं० पद्मलाञ्छन] १. ब्रह्मा । २. कुवेर । ३. सूर्य । ४. राजा (को०) । ५. एक बुद्ध (को०) ।
- पद्मलाञ्छना**—सज्ञा स्त्री० [सं० पद्मलाञ्छना] १. सरस्वती का एक नाम । २. लक्ष्मी का एक नाम (को०) । ३. तारा का एक नाम ।
- पद्मलोचन**—वि० [सं०] कमल सदृश नेत्र । कमलनेत्र (को०) ।
- पद्मवनवाधव**—सज्ञा पुं० [सं० पद्मवनवान्धव] सूर्य, जिनके उदय से कमल खिलते हैं (को०) ।
- पद्मवर्ण**—सज्ञा पुं० [सं०] १. पुराणानुसार यदु के एक पुत्र का नाम । २. दे० 'पद्मवर्णक' ।
- पद्मवर्णक**—सज्ञा पुं० [सं०] पुष्करमूल ।
- पद्मवासा**—सज्ञा स्त्री० [सं०] लक्ष्मी (को०) ।
- पद्मविभूषण**—सज्ञा पुं० [सं०] स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा दिया जानेवाला खिताब या अलंकार ।
- पद्मबीज**—सज्ञा पुं० [सं०] कमलगट्टा ।
- पद्मबीजाभ**—सज्ञा पुं० [सं०] मखाना ।
- पद्मवृक्ष**—सज्ञा पुं० [सं०] पद्मकाठ । पद्म । पद्माक्ष ।

- पद्मवेश**—सज्ञा पुं० [सं०] विद्याधरो का एक राजा (को०) ।
- पद्मव्याकोश**—सज्ञा पुं० [सं०] वह सेंध जो सकुचित या कोशवद्ध कमल के आकार की हो (को०) ।
- पद्मव्यूह**—सज्ञा पुं० [सं०] १. प्राचीन काल में युद्ध के समय किसी वस्तु या व्यक्ति की रक्षा के लिये सेना को रखने की एक विशेष स्थिति जिसमें सारी सेना कमल के आकार की हो जाती थी । २. एक प्रकार की समाधि ।
- पद्मश्री**—सज्ञा पुं० [सं०] एक बोधिसत्व का नाम । २. एक पदवी या अलंकार जो भारत सरकार की ओर से विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाती है ।
- पद्मपंड**—सज्ञा पुं० [सं० पद्मपण्ड] दे० 'पद्मपण्ड' (को०) ।
- पद्मसंकाश**—वि० [सं० पद्मसंकाश] कमल के समान । कमल के सदृश । कमलवत् (को०) ।
- पद्मसंभव**—सज्ञा पुं० [सं० पद्मसंभव] ब्रह्मा (को०) ।
- पद्मसद्मा**—सज्ञा पुं० [सं० पद्मसद्मन्] ब्रह्मा (को०) ।
- पद्मसमासन**—सज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मा (को०) ।
- पद्मस्तुपा**—सज्ञा स्त्री० [सं०] गंगा का एक नाम । २. दुर्गा का एक नाम । ३. लक्ष्मी का एक नाम (को०) ।
- पद्मस्वस्तिक**—सज्ञा पुं० [सं०] वह स्वस्तिक चिह्न जिसमें कमल भी बना हो ।
- पद्महस्त**—सज्ञा पुं० [सं०] १. प्राचीन काल की लवाई नापने की एक प्रकार की नाप । २. दे० पद्मपाणि ।
- पद्महस्ता**—सज्ञा स्त्री० [सं०] लक्ष्मी का एक नाम (को०) ।
- पद्महास**—सज्ञा पुं० [सं०] विष्णु ।
- पद्मांतर**—सज्ञा पुं० [सं० पद्मान्तर] कमल पत्र । कमल दल (को०) ।
- पद्मा**—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. लक्ष्मी । २. वगाल में बहनेवाली गंगा की पूर्वी शाखा । ३. भादो सुदी एकादशी तिथि । ४. गंदे का वृक्ष । ५. कुसुम का फूल । ६. लौंग । मनसा देवी का एक नाम । ७. बृहद्रथ की कन्या का नाम जो कल्कि देव के साथ व्याही गई थी । ८. पद्मचारिणी लता ।
- पद्माकर**—सज्ञा पुं० [सं०] १. बड़ा तालाव या झील जिसमें कमल पैदा होते हैं । २. तालाव । सरोवर (को०) । ३. पद्मपुष्पो की राशि या समूह । ४. हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि का नाम ।
- विशेष**—पद्माकर तैलग ग्राह्यण थे । इनका जन्मनमय मन् १८१० है । इनके पिता का नाम मोहनलाल मट्ट था और ये मध्यप्रदेशांतर्गत 'सागर' में निवास करते थे ।
- पद्माक्ष**—सज्ञा पुं० [सं०] १. कमलगट्टा । कमल के बीज । २. विष्णु ।
- पद्माख**—सज्ञा पुं० [सं० पद्मकाष्ठ] पद्मकाठ या पद्म नामक वृक्ष । विशेष—दे० 'पद्म' ।
- पद्माचल**—सज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वत का नाम ।
- पद्माट**—सज्ञा पुं० [सं०] चक्रवर्द्ध । चक्रमर्द ।
- पद्माधोश**—सज्ञा पुं० [सं०] विष्णु ।

पद्मालय—सञ्ज्ञा पुं० [म०] ब्रह्मा ।

पद्मालया—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] १ लक्ष्मी । २. लौंग ।

पद्मावती—पद्मा स्त्री० [सं०] १ पटना नगर का प्राचीन नाम । २ पद्मा नगर का प्राचीन नाम । ३ उज्जयिनी का एक प्राचीन नाम । ४ एक मात्रिक छंद का नाम जिसके प्रत्येक चरण में १०, ८, और १४ के विराम से ३० मात्राएँ होती हैं और अंत में दो गुरु होते हैं । जैसे,—यद्यपि जगकर्ता पालव हर्ता परि-पूरण वेदन गाए । अति तदपि कृपा करि मानुष वपु धरि थल पूँछन हम सो आए ।—केशव (शब्द०) । ५ गेंदे का वृक्ष । ६ लक्ष्मी (जरस्कार ऋषि की स्त्री का नाम) । ७ मनसा देवी का एक नाम । ८ पुराणानुसार स्वर्ग की एक अप्सरा का नाम । ९ पुराणानुसार राजा शृगाल की स्त्री का नाम । १० युधिष्ठिर की एक रानी का नाम । ११ प्राचीन काल की एक नदी का नाम । १२ लोक-प्रचलित कथा के अनुसार सिंहल की एक राजकुमारी जिसे चित्तौर के राजा रत्नसेन व्याहे थे । चित्तौर की रानी पद्मिनी का सिंहल से कोई सबंध नहीं था, और न उसके पति का नाम रत्नसेन था, जैसा जायसी ने लिखा है ।

पद्मासन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ योगसाधन का एक आसन जिसमें पालथी मारकर सीधे बैठते हैं । २ वह जो इस आसन में बैठा हो । ३ स्त्री के साथ प्रसंग करने का एक आसन । ४ ब्रह्मा । उ०—स्वास उदर उलसति यो मानो दुग्ध सिंधु छवि पावे । नाभि सरोज प्रकट पद्मासन उतरि नाल पछितावै ।— (शब्द०) । ५ शिव । ६ सूर्य ।

पद्मासनदंड—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पद्मासन+दंड] एक प्रकार का डंड (कसरत) जो पालथी मारकर और घुटने जमीन पर टेक कर किया जाता है । इससे दम सघता है और घुटने मजबूत होते हैं ।

पद्मासना—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] लक्ष्मी । उ०—शोभा है जलराशि में विलसती उत्फुल्ल अमोज की । होती है प्रिय सद्म पद्मचय मे पद्मासना की प्रभा ।—पारिजात, पृ० ११० ।

पद्माह्ला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ गेंदा । २ लवण (को०) ।

पद्मिनि(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पद्मिनी] कमलिनी । उ०—चंद जगा-वतु कुमुदनी पद्मिनी ही दिननाथ ।—शकुंतला, पृ० ६७ ।

पद्मिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] १. कमलिनी । छोटा कमल ।

यौ०—पद्मिनीखड, पद्मिनीपड = (१) कमलसमूह । (५) जहाँ - कमल अधिक हो । पद्मिनीवल्लभ = सूर्य ।

विशेष—'पद्मिनी' शब्द में पतिवाची शब्द लगाने से उसका अर्थ 'सूर्य' होता है ।

५ तानाव या जलाशय जिसमें कमल हो । ३ कोकशास्त्र के अनुसार स्त्रियों की चार जातियों में से सर्वोत्तम जाति । कहते हैं, इस जाति की स्त्री अत्यंत कोमलांगी, सुशीला, रूपवती और पतिव्रता होती है । ४. मादा हाथी । हृदिनी । ५. चित्तौर की इतिहासप्रसिद्ध रानी । ६. लक्ष्मी । उ०—

पद्म ऊपर पद्मिनि मानहु । रूपर ऊपर दीपति जानहु ।—केशव (शब्द०) । ७ कमल का पौधा (को०) । ८ कमलों का समूह (को०) । ९ कमल की नाल (को०) ।

पद्मिनीकटक—सञ्ज्ञा पुं० [मं० पद्मिनीकटक] एक प्रकार का क्षुद्र रोग जो कुष्ठ के अतर्गत माना जाता है । इसमें दानेदार चकत्ते पड़ जाते हैं ।

पद्मी—सञ्ज्ञा पुं० [मं० पद्मिन्] १ पद्मयुक्त देश । २ पद्मधारी विष्णु । ३ पद्मसमूह । ४ बौद्धों के अनुसार एक लोक का नाम । ५ उक्त लोक में रहनेवाले एक बुद्ध का नाम जिनका अवतार अभी इस ससार में होने को है ।

पद्मेशय—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] पद्म पर सोनेवाले, विष्णु ।

पद्मोत्तर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ कुसुम । २ एक बुद्ध का नाम ।

पद्मोद्भव—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] ब्रह्मा ।

पद्मोद्भवा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] मनसा देवी का एक नाम ।

पद्य^१—वि० [सं०] १ पद या पैर सबधी । जिसका सबंध पैरों से हो २ जिसमें कविता के पद या चरण हो ।

पद्य^२—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] १ पिंगल के नियमों के अनुसार नियमित मात्रा वा वर्णों का चार चरणोंवाला छंद । कविता । गद्य का उलटा । २ शूद्र, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से मानी जाती है । ३ शठता । ४ नातिशुष्क कर्दम । कीचड़ जो एकदम सूखा न हो (को०) ।

पद्यकार—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] पद्य रचनेवाला । तुक्कवी करनेवाला । तुक्कड । उ०—भोज ऐसे राजाओं के सामने बात बनानेवाले पद्यकार बातों की फुलझडी छोडकर लाखों रुपए पाने लगे ।—चित्तामणि, भा० २, पृ० ६१ ।

पद्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ शक्कर । २ पगडडी । पटरी । ३ लोगों के चलने से बनी हुई राह । दुरी (को०) ।

पद्मात्मक—वि० [सं०] जो पद्यमय हो । जो छंदोवद्ध हो ।

पद्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ गाँव । २ ग्रामपथ ।

पद्रक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह भूमि जो सारे समाज या समुदाय की हो पचायती जमीन ।

विशेष—महानदी के किनारे राजीय नगर के राजा तिवरदेव के ताम्रपट में यह शब्द प्राया है । कोशी में 'पद्र' का अर्थ ग्राम मिलता है । डा० वूलर ने इस शब्द से 'चरगाह' का अर्थ लिया है । विल्सन ने अपने कोश में इसका अर्थ समाज या समुदाय दिया है ।

पद्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ राजमार्ग । सडक । २ स्यदन । रथ । ३ मर्त्यलोक (को०) ।

पद्मा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पद्मन्] राह । रास्ता (को०) ।

पद्यति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पद्यति] दे० 'पद्यति' । उ०—तितनेई गु-देव पद्यति भई न्यारी ।—भक्तमाल (श्री०), पृ० ८१ ।

पधरना(७)—क्रि० अ० [हिं० पधारना] किसी वड़े प्रतिष्ठित या पूज्य का आगमन । आना । उ०—लाखभिलाषन साथ लिए जसवत तहाँ पधरे गिरधारी ।—जसवत (शब्द०) ।

पधराना—क्रि० स० [म० प्र + धारण] १ आदरपूर्वक ले जाना । झुजत से बैठाना । उ०—कुज महल पधराइ लाल को हटी सवे वृजवासिनि गोरी । —भारतेंदु ग्र०, भा० २, पृ० ६४१ । २ प्रतिष्ठित करना । स्थापित करना ।

पधरावना—क्रि० स० [हि० पधराना] दे० 'पधराना' । उ०—यह जेमल जी आपको पधरावन आयो है ।—दो सी वावन०, भा० १, पृ० २५१ ।

पधरावनी—सज्ञा स्त्री० [हि० पधराना] १ किसी देवता की स्थापना । २. किसी को आदरपूर्वक ले जाकर बैठाने की क्रिया या भाव । पधराने की क्रिया ।

पधारना^१—क्रि० अ० [हि० पग + धारना] १ जाना । चला जाना । गमन करना । उ०—हाय ! इन कुजन तें पलटि पधारे श्याम देखन न पाई वह मूरति सुधामई ।—द्विजदेव (शब्द०) । २ आ पहुँचना । आना । उ०—भले पधारे पाहुँने ह्वै गुडहल के फूल ।—विहारी (शब्द०) । ३ गमन करना । चलना ।

पधारना^२—क्रि० स० आदरपूर्वक बैठाना । पधराना । प्रतिष्ठित करना । उ०—(क) तिल पिंडिन में हरिहि पधारे । विविध भाति पूजा अनुसारे ।—रघुनाथ (शब्द०) (ख) एक दिन स्वप्न ही मे कह्यो भगवान हम कृप परे हमको पधारिए निकास के ।—रघुराज (शब्द०) ।

विशेष—इस शब्द का प्रयोग केवल बड़े या प्रतिष्ठित के आने अथवा जाने के अवध मे आदरार्थ होता है ।

पधियाई—सज्ञा स्त्री० [हि० पाधा तुल० स० उपाध्याय तथा पजावी 'पाधा'] पुरोहिताई । उ०—परदादा करते पधियाई । दादा ने पटवार सम्हाली । पिता बलक बने, फिर बढकर अपने ही दफ्तर के वाली ।—चाँदनी०, पृ० ६७ ।

पधरा—वि० [देशी] ऋजु । सरल । सीधा । उ०—मारु देस उपनिर्या सर ज्यउं पधरियाई ।—ढोला०, दू०, ४८४ ।

पनग^①—सज्ञा पुं० [म० पन्नग] सर्प । साँप । उ०—वार रवी तिथि सप्तमी चलि रथ सुतर मतग । तिहि बेरा आयो कहै डेरा माहि पनग ।—पृ० रा०, १।५०८ ।

पन^१—सज्ञा पुं० [सं० पण, या सं० प्रतिज्ञा, प्रा० पण्यणा] प्रतिज्ञा । सकल्प । अहद । उ०—(क) पन विदेह कर कहहि हम भुजा उठाइ बिसाल । —मानस, १।३४६ । (ख) सनमुख दियो सुरंग उठे पन पाहन आधे । निकसी खोलि किधारि रारि करिवै की राधे । —ब्रज० ग्र०, पृ० ४० ।

पन^२—सज्ञा पुं० [सं० पर्वन् (= विशेष अवस्था)] आयु के चार भागो मे से एक । उ०—सत कहहि अस नीति दसानन । चौथेपन जाईहि नृप कानन ।—तुलसी (शब्द०) ।

विशेष—साधारणतः लोग आयु के चार भाग अथवा अवस्थाएँ मानते हैं । पहली वाल्यावस्था, दूसरी युवावस्था, तीसरी प्रौढ़ावस्था, और चौथी वृद्धावस्था ।

पन^३—प्रत्य० हि० जिसे नामवाचक या गुणवाचक सज्ञाओं मे लगाकर भाववाचक सज्ञा बनाते हैं । जैसे, लडकपन, छिछोरापन ।

पन^४—सज्ञा पुं० [हि० पान] 'पान' शब्द का योगिक पद प्रयुक्त रूप । जैसे, पनडव्वा, पनकुट्टी ।

पन^५—सज्ञा पुं० [हि० पानी] 'पानी' शब्द का योगिक पद प्रयुक्त रूप । जैसे, पनचक्की, पनडुब्बी ।

पनकटा—सज्ञा पुं० [हि० पानी + कटना] वह मनुष्य जो गेतो मे इधर उधर पानी ले जाता या खीचता हो ।

पनकपड़ा—सज्ञा पुं० [हि० पानी + कपड़ा] १. वह गीला कपड़ा जो शरीर के किसी अंग पर चोट लगने या कटने या छिलने आदि पर बाँधा जाता है । २. वह कपड़ा जिससे तमोली पान की दूकान पर पान पोछता, ढँकता और लगाता है । इसे पनवसना भी कहते हैं । उ०—तमोली ने कत्या चूना से लाल पनकपड़े पर छोटे छोटे उजले पानो को नफासत से पोछते हुए कहा ।—शरावी, पृ० ४ ।

पनकाल—सज्ञा पुं० [हि० पानी + काल या अकाल] वह अकाल जो अतिवर्षा के कारण हो ।

पनकुकड़ी—सज्ञा स्त्री० [हि० पानी + कुकड़ी] दे० 'पनकौवा' ।

पनकुट्टी—सज्ञा स्त्री० [हि० पान + कूटना] वह छोटा खरल जिसमे प्राय वृद्ध या दूढ़े हुए दाँतवाले लोग खाने के लिये पान कूटते हैं ।

पनकौवा—सज्ञा पुं० [हि० पानी + कौवा] एक प्रकार का जल-पक्षी । जलकौवा । विशेष दे० 'जलकौवा' ।

पनखट—सज्ञा पुं० [हि० पनहा + काठ] जुलाहो की वह लचीली धुनकी जिसपर उनके सामने बुना हुआ कपड़ा फैना रहता है ।

पनग^②—सज्ञा पुं० [सं० पन्नग] सर्प । साँप । उ०—छुटि तिहि बेर मतग खेल देखन कौ धायो । एक मोजरी मद्धि पनग फन आनि लुकायो ।—पृ० रा०, १।५०६ ।

पनगाचा—सज्ञा पुं० [हि० पानी + गाछी (= वाग)] पानी से भरा या सीचा हुआ खेत ।

पनगोटी—सज्ञा स्त्री० [हि० पानी + गोटी] मोतिया शीतला ।

पनघट—सज्ञा पुं० [हि० पानी + घाट] पानी भरने का घाट । वह घाट जहाँ से लोग पानी भरते हो । उ०—निदई श्याम ने फोर दई पनघट पर मोरी मागरिया ।—गीत । (शब्द०) ।

पनच—सज्ञा स्त्री० [सं० पतञ्जिका] घनुष का रोदा या डोरी । प्रत्यचा । उ०—तीन पनच बुनही करन बडे कटन तडीर । सगुन बिना पग ना धरै निकट वन हडीर ।—पृ० रा०, ७।७६ ।

पनचक्की—सज्ञा स्त्री० [हि० पानी + चक्की] पानी के जोर से चलनेवाली चक्की या और कोई कल ।

विशेष—प्रायः लोग नदी या नहर आदि के किनारे जहाँ पानी का वेग कुछ अधिक होता है, कोई चक्की या दूसरी कल लगा देते हैं और उसका अवध एक ऐसे बड़े चक्कर के माप कर देते हैं जो बहते हुए जल मे प्रायः आधा घूमा रहता है ।

जब बहाव के कारण वह चक्कर घूमता है तब उसके साथ मवध करने के कारण वह चक्की या कल चलने लगती है । और इस प्रकार केवल पानी के बहाव के द्वारा ही सब काम होता है ।

पनची—सञ्ज्ञा स्त्री० [दश०] गेडी के खेल में खेलने के लिये पतली लकड़ी या गेडी ।

पनचोरा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पानी + चोर] वह वरतन जिसका पेट चौड़ा और मुँह बहुत छोटा हो ।

पनडब्बा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पान + डब्बा] वह डब्बा जिसमें पान और उसके लगाने का सामान सूना, सुपारी, कत्या आदि रहता हो । पानदान ।

पनडुब्बा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पानी + डूबना] पानी में गोता लगाने-वाला । गोताखोर ।

विशेष—पनडुब्बे प्रायः कुएँ या तालाब में गोता लगाकर गिरी हुई चीज ढूँढते अथवा समुद्र आदि में गोते लगाकर सीप और मोती आदि निकालते हैं ।

२. वह पक्षी जो पानी में गोता लगाकर मछलियाँ पकड़ता हो । ३. मुरगावी । ४. एक प्रकार का कल्पित भूत, जिसका निवास जलाशयो में माना जाता है और जिसके विषय में लोगो का यह विश्वास है कि वह नहानेवाले आदमियो को पकडकर डूबा देता है ।

पनडुब्बी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पानी + डूबना] १. वह जलपक्षी जो पानी में डूबकी लगाकर मछलियाँ आदि पकडता हो । २. मुरगावी । ३. एक प्रकार की नाव, जो प्रायः पानी के अंदर डूबकर चलती है । इसका अविष्कार अभी हाल में पाश्चात्य देशों में हुआ है । सवमेरीन ।

पनपथ—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पानी + पथना] वह रोटो जो बिना पर्यन के केवल पानी लगाकर बेली जाती है । पनेथी ।

पनपना—क्रि० अ० [सं० पर्या + पर्य (= परा) वा पर्याय (= हरा होना)] १. पानी पाने के कारण फिर से हरा हो जाना । पुनः अकुरित या पल्लवित होना । २. फिर से तदुरुस्त होना । रोगयुक्त होने के उपरांत स्वस्थ तथा हृष्ट पुष्ट होना ।

पनपनाना—क्रि० अ० [अनु० पनपन] साधारण सी बातों पर तेजी दिखाना, झल्ला उठना या आवेश में आना । जैसे,—मेरी बात पर वह पनपना उठा ।

पनपनाहट—सञ्ज्ञा स्त्री० [अनु०] 'पन' 'पन' होने का शब्द जो प्रायः वायु चलने के कारण होता है ।

पनपाना—क्रि० सं० [हि० पनपना] पनपने का सकर्मक रूप । ऐसा कार्य करना जिससे कोई पनपे ।

पनचट्टा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पान + चट्टा (= ढिब्या)] वह छोटा ढिब्या जिसमें पान के लगे हुए बीड़े रखे जाते हैं ।

पनविछिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पानी + छी] पानी में रहनेवाला एक प्रकार का कीड़ा जो डक मारता है ।

पनविच्छी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पनविछिया' ।

पनडुब्बा—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पनडुब्बा' ।

पनभता—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पानी + भात] केवल पानी में उवाले हुए चावल । साधारण भात ।

पनभरा, पनभरिया—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पानी + भरना] पानी भरने का काम करनेवाला । वह जो लोगों के आवश्यकतानुसार जल पहुँचाता हो ।

पनसड़ियाँ—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पानी + सँढ़ी] पतली माँड जो जुलाहे लोग बुनते समय टूटे तागों को जोड़ने के काम में लाते हैं ।

पनरः—वि० [सं० पञ्चदश] दे० 'पद्रह' । उ०—पु गल डोलो प्राँटुणो रहियो सासरवाडि । पनर दिहाडा पदमणी मारु मनहर हाडि ।—ढोला०, दू० ५६४ ।

पनरह—वि० [सं० पञ्चदश] दे० 'पद्रह' । उ०—पनरह दिनहँ जागती, प्रीसूँ प्रेम करत । एक दिवस निद्रा सवल सूती जाणि निचत ।—ढोला०, दू० ३४२ ।

पनलगवा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पानी + लगाना] वह मनुष्य जो खेत में पानी सींचता या लगाता हो । पनकटा ।

पनलगा—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पनलगवा' ।

पनलोहा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पानी + लोहा ?] एक प्रकार का जल-पक्षी जो ऋतु के अनुसार रंग बदलता है ।

पनव(पु)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रणव] दे० 'प्रणव' ।

पनवाँ—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पान + वाँ (प्रत्यय०)] हमेल आदि में लगी हुई बीचवाली चौकी जो पान के आकार की होती है । टिकड़ा । पान ।

पनवाड़ी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पान + वाड़ी] वह खेत जिससे पान पैदा होता है । बरेजा ।

पनवाड़ी^२—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पान + वाला] पान बेचनेवाला तमोली ।

पनवार(पु)—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पलवारा] दे० 'पनवारा' । उ०—कदली कर पनवार धराई । गज मुक्ताहल चौक पुराई ।

पनवारा—सञ्ज्ञा [हि० पान + वार (प्रत्यय०)] पत्तो की बनी हुई पत्तल जिसपर रखकर लोग भोजन करते हैं । उ०—अव केहि लाज कृपानिधान परसत पनवारो टारो ।—तुलसी । (शब्द०) ।

मुहा०—पनवारा पढ़ना = लोगों के खाने के लिये पत्तल बिछाई जाना । उ०—सादर लगे परन पनवारे ।—मानस, १।३३८ । पनवारा लगाना = पत्तल पर खाना सजाना ।

१. एक पत्तल भर भोजन जो एक मनुष्य के खाने भर को हो । ३. एक प्रकार का साँप ।

पनवाड़ी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पान + वाड़ी] दे० 'पनवाड़ी^१' ।

पनवाड़ी^२—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पान + वाला] दे० 'पनवाड़ी^२' ।

पनस—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. कटहल का वृक्ष । २. कटहल का फल । ३. रामदल का एक बंदर । ४. विभीषण के चार मंत्रियों में से एक । ५. काँटा । कटक ।

पनसखिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाँच + शाखा] १. एक प्रकार का फूल । २. इस फूल का वृक्ष ।

पनसतासिका—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कटहल ।

पनसनासका—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कटहल ।

पनसल्ला—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पानी + शाला] स्थान जहाँ पर राह-

चलतो को पानी पिलाया जाता हो। पौसरा। पनसाल।
प्याऊ।

पनसाखा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पाँच+शाखा] एक प्रकार की मशाल जिसमें तीन या पाँच वत्तियाँ साथ जलती हैं।

विशेष—इसमें वाँस के एक लंबे डंडे पर लोहे का एक पजा बँधा रहता है, जिसकी पाँचों शाखाओं को कपडा लपेटकर और तेल से चुपडकर मशाल की भाँति जलाते हैं।

पनसारा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पानी+स० आसार (= धार बाँधकर पानी गिराना)] पानी से किसी स्थान को सराबोर करने की क्रिया या भाव। भरपूर सिंचाई।

पनसारी—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पसारी'। उ०—यह तो हिंदुओं का शास्त्र पनसारी की दुकान है और अक्षर कल्पवृक्ष हैं।—भारतेंदु ग्र०, भा० ३, पृ० ८१६।

पनसाल^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पानी+शाला] वह स्थान जहाँ सर्व-साधारण को पानी पिलाया जाता है। पौसरा।

पनसाल^२—सञ्ज्ञा [दिश०] १ पानी की गहराई नापने का उपकरण। वह लकड़ी जिसमें छ च फुट आदि के सूचक अंक खुदे होते हैं और जिसको गाडकर पानी की गहराई अथवा उसका चढाव उतार देखते हैं। २ पानी की गहराई नापने की क्रिया या भाव।

पनसाला—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पानी+शाला] दे० 'पनसाल'।

पनसिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [स०] कान में होनेवाली एक प्रकार की फुसी जो कटहल के काँटे की तरह नोकदार होती है।

पनसी—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] १ कटहल का फल। २ दे० 'पनसिका'।

पनसुइया—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पानी+सुई] एक प्रकार की छोटी नाव जिस पर एक ही खेनेवाला दो डौंड चला सकता है।

पनसुही—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पानी+सुई [दे० 'पनसुइया']। उ० तो कोई एक पनसुही पर सवार। —प्रेमघन०, भा० २, पृ० ११३।

पनसूर—सञ्ज्ञा पुं० [दे०] एक प्रकार का बाजा।

पनसेरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाँच+सेर] दे० 'पसेरी'।

पनसोई—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पनसुइया'।

पनस्यु—वि० [सं०] प्रशसा या तारीफ सुनने का इच्छुक। जिसे प्रशसित होने की इच्छा हो।

पनह—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पनाह] शरण। रक्षा या शरण पाने का स्थान। मु० पनाह मागना। उ०—मालिक मेहरवान करीम गुनहगार हररोज हरदम, पनह राखि रहीम।—दादू०, पृ० ६२७।

पनहटा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पान+हाट] पान का हाट। पानदरीवा। उ०—घनहटा, सोनहटा, पनहटा, पक्वानहटा करेओ सुखरव-कथा कहते।—कीर्ति०, पृ० ३०।

पनहडा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पान+हाँडी [वह हाँडी, जिसमें तबोली पान अथवा हाथ घोने के लिए पानी रखते हैं]।

पनहरा^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पानी+हारा (प्रत्य०)] [स्त्री० पन-हारन, पनहारिन, पनहारी] वह जो पानी भरने पर नौकर हो या पानी भरने का काम करता हो। पनभरा।

पनहरा^२—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पानी+हरा (प्रत्य०)] वह अथरी जिसमें सोनार गहने घोने आदि के लिये रखते हैं।

पनहा^१—सञ्ज्ञा पुं० [म० परिग्राह (= विस्तार, चौड़ाई, आयाम)] १ कपडे या दीवार आदि की चौड़ाई। २. गूढ आशय या तात्पर्य। मर्म। भेद। जैसे,—तुम्हारी बात का पनहा मिले तब तो कोई जवाब दें।

पनहा^२—सञ्ज्ञा पुं० [म० पण (= रुपया पैसा)+हार] १. चोरी का पता लगानेवाला। उ०—सीस चढे पनहा प्रकट कहें, पुकारे नैन।—बिहारी (शब्द०)। २ वह पुरस्कार जो चुराई हुई वस्तु लौटा या दिला देने के लिये दिया जाय।

पनहारा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पानी+हारा (प्रत्य०)] [स्त्री० पनहारन, पनहारिन, पनहारी] वह जो पानी भरने पर नौकर हो। पानी भरनेवाला। पनभरा।

पनहारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पनहारा] पानी भरने का काम करने-वाली नौकरानी। उ०—एक गऊ कुछ दूर रँभाई, पनहारी पनघट से आई।—आराधना, पृ० ८५।

पनहि^(५)—सञ्ज्ञा स्त्री० [म० उपानह] दे० 'पनही'। उ०—मोचिनि वदन सँकोचिनि हीरा माँगन हो। पनहि लिहे कर सोभित सु दर आँगन हो।—तुलसी ग्र०, पृ० ४।

पनहियाँ—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पनही+इया (प्रत्य०)] दे० 'पनही'। उ०—जननी निरखति वान धनुहियाँ। बार बार उर नैननि लावति प्रभु जू की ललित पनहियाँ।—तुलसी ग्र०, पृ० ३५०।

पनहियाभद्र—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पनही+भद्र (= सुंढन)] सिर पर इतने जूते पडना कि बाल उड जायें। जूतो की वर्षा। जूतो द्वारा पिटाई।

पनही—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० उपानह] जूता। उ०—(क) राम लखन सिय विनुपग पनही। करि मुनि वेप फिरहि वन वनही।—मानस, २।२१०। (ख) और जब आपने मन की दुचित्ताई के भय से पनही कमर में बाँध ली थी उसको देख के पुजारी पडो ने आपका तिरस्कार किया।—भक्तमाल (स्त्री०), पृ० ४७२।

पनही^१—वि० स्त्री० [हि० पना+ही (प्रत्य०)] पना से युक्त। पना-वाली। जैसे, पनही भाँग।

पना—सञ्ज्ञा पुं० [म० प्रपानक या पानीय] आम, इमली आदि के रस से बनाया जानेवाला एक प्रकार का शरबत। पानक। प्रपानक। पन्ना। ड०—पन बहु जवुअ अतुअ मेलि। निचो-रिय दारिम दाख सुठेलि।—पृ० रा०, ६३। १०६।

विशेष—पना कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के फलों से तैयार किया जाता है। पक्के फल का रस या गूदा यो ही अलग कर दिया जाता है और कच्चे का गूदा अलग करने के पहले उसे भूना या उवाला जाता है। फिर उसको खूब मसलकर मीठा

मिला देते हैं। लौंग, कपूर और कमी कमी नमक तथा लालमिर्च भी पन्ने में मिलाई जाती है और हींग, जीरे, आदि का बघार दिया जाता है। वैद्यक के अनुसार पना रुचिकारक, तत्काल बलवर्धक और इद्रियो को तृप्ति देनेवाला है।

पनाती—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पनत्] [खी० पनातिन] पुत्र अथवा कन्या का नाती। पोते अथवा नाती का पुत्र।

पनार—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रणाली] दे० 'परनाला'।

पनारा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रणाली] दे० 'परनाला'। उ०—रहट चलत वा ग्राम तहँ, ठहरत प्रीति अपार। लगे पनारे रहट के, परत अखडित धार।—प० रासो, पृ० २३।

पनारि (पु)¹—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पर + नारी] परस्त्री। परकीया स्त्री या नायिका।

पनारि (पु)²—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रणाली] नाली। पनाली। मोरी। उ०—दई पनारि खुलाह, सरिता ज्यों विधि न गयो।—नद० ग्र०, पृ० ३३४।

पनारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रणाली] लंबी रेखा। उ०—सिर पर रोरी और सिंदूर की पनारी निकाल सुदर चुटिला देकर वह सुढार वेणी मूथू।—पोद्दार० ग्रंथि० ग्र०, पृ० १६३।

यौ०—पनारीदार = जिसमें नालियाँ बनी हो।

पनाला—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रणाली] [स्त्री० पनाली] दे० 'परनाला'।

पनासना—क्रि० सं० [सं० पनाशन] पोषण करना। पोसना। परवरिषा करना। उ०—कन्व जी इसके पिता इमलिये कहाते हैं कि पडी हुई को उठा लाए थे। और उन्होंने पाली पनासी है।—लक्ष्मणसिंह (शब्द०)।

पनाह—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] १ शत्रु से, सकट या कष्ट से बचाव या रक्षा पाने की क्रिया या भाव। त्राण। बचाव। उ०—महिमा भंगोल ताकी पनाह। वैद्यो अडोल तिन गही बाह।—हम्मीर०, पृ० १६।

क्रि० प्र०—पाना।—माँगना।

मुहा०—(किसी से) पनाह माँगना = किसी बहुत ही अप्रिय या अनिष्ट वस्तु अथवा व्यक्ति से दूर रहने की कामना करना। किसी से बहुत बचने की इच्छा करना। जैसे,—आप दूर रहिए, मैं आपसे पनाह माँगता हूँ।

२ रक्षा पाने का स्थान। बचाव का ठिकाना। शरण। आड। श्रोत।

क्रि० प्र०—डूँटना।—देना।—पाना।—माँगना।

मुहा०—पनाह लेना = विपत्ति से बचने के लिये रक्षित स्थान में पहुँचना। शरण लेना।

पनाही—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पनाह + ई (प्रत्य०)] एक प्रकार का अर्थदंड। उ०—'पनाही' दंडस्वरूप उस जुमाने को कहते हैं जो चोर को इसलिये बाध्य होकर देना पडता है जिससे चोर चोरी का माल वापस कर दे।—नेपाल०, पृ० १०५।

पनि¹—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रण, प्रा० पण] प्रतिज्ञा। प्रण। उ०—

याकी ही पनि पार तू छोडि जीय की गाँस।—अज० ग्र०, पृ० ५३।

पनि²—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पानी] पानी शब्द का योगिक पद प्रयुक्त रूप। जैसे, पनिगर, पनिघट, पनिहारी।

पनि³—क्रि० प्रि० [सं० पुन; हि० पुनि]। फिर। पुन उ०—ती पनि सुजन निमित्त गुन रचिए तन मन फूल। ज्ञ का भय जिय जानि के कयो डारिये दुकूल।—पृ० रा०, १।५४।

पनिका—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] १ जोलाहो का एक बँचीनुमा औजार जिस पर ताना फैलाकर पाई करते हैं। २ कडाल। विशेष—२० 'कडाल'।

पनिखा—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] २० 'पनिक'।

पनिगर—क्रि० [हि० पानी + फा गर] दे० 'पानीदार'।

पनिघट—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पानी + घाट] २० 'पनघट'। उ०—(क) पनिघट परम मनोहर नाना। तहाँ न पुरुष करहि भस्नाना।—मानस, ७।२६। (ख) पनिघारे घट में वसै पनिघटि और न जात।—स० सप्तक, पृ० १७४।

पनिच (पु)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पतञ्जिका] घनुप की ज्या। उ०—(क) खँचि पनिच भृकुटी घनुक बधिक समर तजि कानि। हनत तषन मृग तिलक सुर सुरक भाल भरि तानि।—विहारी (शब्द०)। (ख) पुहुप की चाप पनिच भलि किए। पच वान पाँचो कर लिए।—नद० ग्र०, पृ० १४०।

पनिडो—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पण्डरीक] पुडरिया। पडरीक वृक्ष।

पनियाँ¹—क्रि० प्रि० [हि० पानी + इया (प्रत्य०)] १ पानी के सबध का। २ पानी में उत्पन्न। ३ जिसमें पानी मिला हो। ४ पानी में रहनेवाला। ५ दे० 'पनिहा'।

पनियाँ²—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पानी] पानी। उ०—पहिल गवनवाँ ऐलू, पनियाँ के भोजलन हो।—घरम०, पृ० ६४।

पनियाना—क्रि० सं० [हि० पानी + आना (प्रत्य०)] १. पानी से सींचना या तर करना। २. तग करना। परेशान करना। दिक् करना। ३. पानी से युक्त होना। (वाजारू)।

पनियारा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पानी + चार (प्रत्य०)] वह स्थान जहाँ पानी ठहरता हो। २ वह दिशा जिसकी ओर पानी बहता हो।

पनियारा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पानी] बाढ।

पनियाला—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पानी + इयाल (प्रत्य०)] एक प्रकार का फल।

पनियासोत—क्रि० प्रि० [हि० पानी + सोत] (तालाब, खाई आदि) जिसमें पानी का सोता निकला हो। प्रत्यत गहरा। जैसे, पनियासोत खाई।

पनियाही—क्रि० प्रि० [हि०] पानी में भीगी। पानी से नम। उ०—पनियाही घासो की हाथ भर मोटी घनी तह छाई हुई थी।—नई०, पृ० ३१।

पनिवा—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पनुआ'।

पनिसिगा—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] जलपीपल।

पनिहा^१—वि० [हि० पानी + हा (प्रत्य०)] १ पानी में रहनेवाला जैसे, पनिहा साँप । २. जिसमें पानी मिला हो । पनमेल । जैसे, पनिहा दुग्ध । ३. पानी सबधी । जल सबधी ।

पनिहा^२—सञ्ज्ञा पुं० दे० 'पनुआ'^१ ।

पनिहा^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रणिधा] वह जो चोरी आदि का पता लगाता हो । जासूस । भेदिया । उ०—लालन लहि पाएँ दुरे चोरी सौह करै न । सीस चढ़े पनिहा प्रगट कहँ पुकारै नैन ।—बिहारी (शब्द०) ।

पनिहार—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पानी + हारा (प्रत्य०)] [स्त्री० पनिहारी] दे० 'पनहरा' । उ०—(क) आकाशे अँवदा कुआँ पाताले पनिहार ।—कवीर (शब्द०) । (ख) जस पनिहारी घरे सिर गागर सुणि न टरे बतरावत सबसे ।—धरम०, पृ० ७५ ।

पनी^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पणी] प्रण करनेवाला । प्रतिज्ञा करनेवाला । उ०—बाँह पगार उदार सिरोमनि नतपालक पावन पनी । सुमन वरपि रघुपति गुन गावत हरपि देव दुदुभि हनी ।—तुलसी (शब्द०) ।

पनीर—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] १ फाड़कर जमाया हुआ दूध । छेना ।

विशेष—इसे बनाने के लिये पहले दूध को फाड़ लेते हैं । फिर छेने में नमक और मिर्च मिलाकर साँचे में भर देते हैं जिससे उसकी चकत्तियाँ बन जाती हैं ।

मुहा०—**पनीर चटाना** = काम निकालने के लिये किसी की खुशामद करना । हृत्थे चटाने के लिये किसी को परचाना । **पनीर जमाना** = (१) ऐसी बात करना जिससे आगे चलकर बहुत से काम निकलें । (२) किसी वस्तु पर अधिकार करने के लिये कोई आरम्भिक कार्य करना ।

२ वह दही जिसका पानी निचोड़ लिया गया हो ।

पनीरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] १ फूल, पत्तों के वे छोटे पीवे जो दूसरी जगह ले जाकर रोपने के लिये लगाए गए हो । फूल पत्तों के वेहन ।

क्रि० प्र०—जमाना ।

२ वह क्यारी जिसमें पनीरी जमाई गई हो । वेहन की क्यारी ।

३ गलगल नीबू के फाँको के ऊपर का गूदा ।

पनीला—वि० [हि० पानी + हला (प्रत्य०)] [वि० स्त्री० पनीली] जिसमें पानी हो । पानी मिला हुआ । जलयुक्त ।

पनुआ^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पन (= पानी) + उआ (प्रत्य०)] वह शरवत जो गुड के कड़ाहे से पाग निकाल लेने के पीछे उसे धोकर तैयार किया जाता है । गुड के कड़ाहे की धोवन का शरवत । पनियाँ ।

विशेष—पाग निकाल लेने के पश्चात् कड़ाहे में तीन चार घड़े पानी छोड़ देते हैं । फिर कड़ाहे को उससे अच्छी तरह धोकर थोड़ी देर तक उसे गरमाते हैं । उबलना आरम्भ होने

पर प्रायः शरवत तैयार समझा जाता है । यह प्रायः सुबह पीया जाता है ।

पनुआ^२—वि० [हि० पानी] जिसमें अधिक पानी मिल गया हो । फीका ।

पनुवाँ—वि० [हि० पन (= पानी) + उवाँ (प्रत्य०)] फीका । पनुआँ । उ०—पनुवाँ रगन मेजि निवारे । गाढो रग अछत जिमि चोरै । रग देइ तुरतै न निचोरै । रस रसरी पर टाँग देरेरे ।—देवस्वामी (शब्द०) ।

पनेथी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पन (= पानी) + थ्यी] पानी लगाकर पोई हुई रोटी । मोटी रोटी ।

पनेरी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] दे० 'पनीरी' ।

पनेरी^२—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पन (पान =) + एरी (प्रत्य०)] पान बेचनेवाला तँवोली ।

पनेहड़ी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पनहड़ा' ।

पनेहरा—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पनहरा' ।

पनीला—सञ्ज्ञा पुं० [हि० मनीला (= एक प्रकार का सन)] एक प्रकार का गाढा, चिकना और चमकीला कपड़ा जो प्रायः गरम कपड़ों के नीचे अस्तर देने के काम आता है ।

विशेष—जिस पीवे के रेशे से यह कपड़ा बुना जाता है वह फिलीपाइन द्वीपसमूह में होता है । मनीला इस द्वीपसमूह की राजधानी है । संभवतः वहाँ से चालान किए जाने के कारण पहले रेशे ने और फिर उससे बुने जानेवाले कपड़े ने मनीला नाम पाया है ।

पनोती^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पर्वन् (= विशेष अवस्था), हि० पन + ओती (प्रत्य०)] अवस्था । जैसे, वालामन, युवापन । उ०—आयुष्य की चारो पनोतियों में प्रभु को भूलकर माया के जाल में फँस रहे तो क्या यही तुम्हारी बुद्धि है ।—सु दर श० (भू०), भा० १, पृ० ४६ ।

पनौआ^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पन (= पान) + ओआ (प्रत्य०)] एक पकवान जो पान के पत्ते को बेसन या चोरीठे में लपेटकर घी या तेल में तलने से बनता है ।

पनौटी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पन (= पान) + औटी (प्रत्य०)] पान रखने की पिटारी । बाँस की फट्टियों का बुना हुआ पानदान । बेलहरा ।

पन्न^१—वि० [सं०] १ गिरा हुआ । पटा हुआ । २ नष्ट । गत ।

पन्न^२—सञ्ज्ञा पुं० १ रेंगना । सरकते हुए चलना । २ नीचे की ओर जाना । अधोगमन ।

यौ०—पन्नग ।

पन्नई—वि० [हि० पन्ना + ई (प्रत्य०)] पन्ने के रंग का । जिसका रंग पन्ने का सा हो ।

पन्नग^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० पन्नगी] १ सर्प । साँप । २ पन्नाख । ३ एक वृटी ।

पन्नग^२—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पन्ना] पन्ना । मरकत ।

पन्नगकेसर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नागकेसर ।

पन्नगनाशन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गरुड [को०] ।

पन्नगपति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शेषनाग । उ०—पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन पर्वतारि पर्वत प्रभान मान पावई ।—केशव (शब्द०) ।

पन्नगारि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गरुड । उ०—पन्नगारि असि नीति श्रुति समत सज्जन कर्हिहि ।—मानस, ७।६५ ।

पन्नगाशन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गरुड [को०] ।

पन्नगिनि(पुं०)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पन्नग+हिं० इनी (प्रत्य०)] सर्पिणी । नागिन । उ०—इक इक अलक लटकि लोचन पर, यह उपमा इकआवति । मनहु पन्नगिनि उत्तरि गगन तै, दल पर फन परसावति ।—सुर०, १०।१८०६ ।

पन्नगी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ नागिन । सर्पिणी । साँपिन । उ०—मृगनैनी वेनी निरख छवि छहरत वरजोर । कनकलता जनु पन्नगी विलसत कला करोर ।—स० सप्तक, पृ० ३४६ । ४ एक बूटी । सर्पिणी ।

पन्नद्धा, पन्नध्री—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पदत्राय । जूता [को०] ।

पन्ना^१—सञ्ज्ञा पुं० [म० पर्य] पिरोजे की जाति का हरे रंग का एक रत्न जो प्राय स्लेट और ग्रेनाइट की खानों से निकलता है । मरकत । जमुरंत ।

विशेष—क्रोमियम नामक एक रगवर्धक तत्व के कारण अन्यसजातीय रत्नों की अपेक्षा इसका रंग अधिक गहरा और नेत्राकर्षक होता है । जो पन्ना जितना ही गहरा हरा और आभायुक्त और बेदाग होता है वह उतना ही मूल्यवान समझा जाता है । भूरे अथवा पीलापन या श्यामता लिए हुए टुकड़े अल्प मूल्य समझे जाते हैं । सर्वोत्तम पन्ना दक्षिण अमेरिका की कोलंबिया रियासत की खानों से निकलता है । भारत की पन्ना रियासत की खानों से भी प्राचीन काल से पन्ना निकलता है । भारतवासी बहुत प्राचीन काल से इसका व्यवहार करते आए हैं । अर्थात् प्राचीन पुस्तकों में मरकत शब्द और उसके पर्याय पाए जाते हैं । फलित ज्योतिष के अनुसार इसके अधिष्ठाता देवता बुध हैं । इसके धारण करने से उनकी कोपशांति होती है ।

वैद्यक में पन्ना शीतल, मधुर रसयुक्त, रुचिकारक, पुष्टिकर, वीर्यवर्धक और प्रेतवाधा, अम्लपित्त, ज्वर, वमन, श्वास, मदाग्नि, ववासीर, पाहुरोग और विशेष रूप से विष का नाश करनेवाला माना गया है ।

पर्या०—मरकत । मरक्त । गारुत्मक । गारुत्मत । गरुडाशय । गरुडांकित । राजनील । अशमगर्भ । हरित्मणि । रौहिण्येय । सौपर्य । गरुडोद्गीर्ण । बुधरत्न । अशमगर्भज । गरलारि । वापधोल । गरुड । गारुड । गारुडोत्तीर्ण । वाप्रबोल ।

पन्ना^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्य] १ पुस्तक आदि का पृष्ठ । वरक । पत्र । २ भेड़ों के कान का वह चौड़ा भाग जहाँ का ऊन काटा

जाता है । ३ देशी घूते के एक ऊपरी भाग का नाम जिसे पान भी कहते हैं । ४ आम आदि का पानक । पना ।

पन्निक—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] दे० 'पनिक' ।

पन्नी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पन्ना (=पत्रा)] १ रंगे या पीतल के कागज की तरह पतले पत्तर जिन्हें सौंदर्य और शोभा के लिये छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अन्य वस्तुओं पर चिपकाते हैं ।

यौ०—पन्नीसाज ।—पन्नीसाजी ।

२ वह कागज या चमड़ा जिसपर सोने या चाँदी का लेप किया हुआ रहता है । सोने या चाँदी के पानी में रंगा हुआ कागज या चमड़ा । सुनहला या रुपहला कागज ।

पन्नी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पना] एक भोज्य पदार्थ । उ०—पन्नी पूष पटकरी पापर पाक पिराक पनारी जी ।—रघुनाथ (शब्द०) ।

पन्नी^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] १ वारुद की एक तेल जो ग्राघ सेर के बराबर होती है । उ०—तफन तोप खाने पुनि भूषा । गए लेख युग तोय अनूषा । रहै अठोरै पन्नी केरी । तिनहि सराहत भी नृप डेरी ।—रघुराज (शब्द०) । २. एक लंबी घास जिसे प्राय छप्पर छाने के काम में लाते हैं ।

पन्नी^४—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] पठानों की एक जाति ।

पन्नीसाज—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पन्नी + फा० साज (= बनानेवाला)] वह मनुष्य जिसका व्यवसाय पन्नी बनाना हो । पन्नी बनाने का काम करनेवाला ।

पन्नीसाजी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पन्नी+साज] पन्नी बनाने का काम । पन्नी बनाने का घधा । पेशा ।

पन्नू—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक फूल का पौधा । एक पुष्पवृक्ष ।

पन्नारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] एक जगली वृक्ष जो मधोसे कद का होता है ।

विशेष—यह वृक्ष सदा हरा रहता है और मध्यप्रदेश में यह अधिकता से पाया जाता है । इसकी लकड़ी टिकाऊ और चमकदार होती है । उससे गाड़ियाँ, कुसियाँ और नावें बनती हैं ।

पन्हाना^१—क्रि० अ० [हिं०] दे० 'पिन्हाना' ।

पन्हाना^२—क्रि० स० १ दे० 'पिन्हाना' । २ दे० 'पहनाना' ।

पन्हारा^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पान + हारा] एक तृणधान्य जो गेहूँ के खेतों में आपसे आप होता है । अँकरा ।

पन्हियाँ^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पनही] जूता । उपानह । उ०—सत जन पन्हिया ले खडा राहूँ ठाकुर द्वार । चलत पाछे हूँ फिरों रज उडत लेऊँ सीर ।—दक्खिनी०, पृ० १०७ ।

पन्हैयाँ^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पनही] दे० 'पनही' । उ०—भाए प्रभु, टहलुवा रूप धरि द्वार पर, कटी एक कामरी पन्हैयाँ टूटी पाय हैं ।—भक्तमाल०, पृ० ५६० ।

पपची—सज्ञा स्त्री० [हि०] एक प्रकार का पक्वान्न। छोटा पपडा। उ०—माँ ने उस दिन कुछ पपची इत्यादि पक्वाभ बनाए थे।—श्यामा०, पृ० ६३।

पपटा—सज्ञा पुं० [देश०] १ दे० 'पपडा'। २ छिपकली।

पपड़ा—सज्ञा पुं० [सं० पर्पट] [स्त्री० अत्पा० पपड़ी] १ लकड़ी का छेला करकरा और पतला छिलका। चिप्पड।

क्रि० प्र०—छुड़ाना।

२ रोटी का छिलका।

क्रि० प्र०—छुड़ाना।

३ एक प्रकार का पक्वान्न जो मीठा और नमकीन दोनों होता है। मीठा पपडा मँदे को शरबत में धोलकर और नमकीन पपडा वेसन को पानी में धोलकर घी या तेल में तलकर बनाते हैं।

पपड़िया—वि० [हि० पपड़ी+इया (प्रत्य०)] पपड़ी सबधी। जिसमें पपड़ी हो। पपड़ीदार। पपड़ीवाला। जैसे, पपड़िया कत्था।

पपड़िया कत्था—सज्ञा पुं० [हि० पपड़ी+कत्था] सफेद कत्था। श्वेतसार।

विशेष—यह कत्था साधारण कत्थे से अच्छा समझा जाता है और खाने में अधिक स्वादु होता है। वैद्यक में इसको कडवा, कसैला और चरपरा तथा ब्रण, कफ, रुधिरदोष, मुखरोग, खुजली, विष, कृमि, कोढ़ और ग्रह तथा भूत की बाधा में लाभदायक लिखा है।

पपड़ियाना—क्रि० अ० [हि० पपड़ी+ना (प्रत्य०)] १ किसी चीज की परत का सूखकर सिकुड़ जाना। २ अत्यंत सूख जाना। इतना सूख जाना कि ऊपर पपड़ी की तरह तह जम जाय। तरी न रह जाना। जैसे,—क्यारियाँ पपड़िया गईं। ओठ पपड़िया गए।

पपड़ी—सज्ञा स्त्री० [हि० पपड़ा का अत्पा०] १ किसी वस्तु की ऊपरी परत जो तरी या चिकनाई के अभाव के कारण कड़ी और सिकुड़कर जगह जगह से चिटक गई हो और नीचे की सरस और स्निग्ध तह से अलग मालूम होती हो। ऊपर की सूखी और सिकुड़ी हुई परत।

विशेष—वृक्ष की छाल के अतिरिक्त मिट्टी या कीचड़ की परत और ओठ के लिये अधिकतर बोलते हैं।

क्रि० प्र०—पड़ना।

यौ०—पपड़ीदार।

मुहा०—पपड़ी छोड़ना=(१) मिट्टी की तह का सूख और सिकुड़कर चिटक जाना। पपड़ी पड़ना। (२) बिल्कुल सूख जाना। तरी न रह जाना। रस का अभाव हो जाना। जैसे,—चार दिन से पानी नहीं पडा है इतने ही में क्यारियो ने पपड़ी छोड़ दी।

२ धाव के ऊपर मवाद के सूख जाने से बना हुमा आवरण या परत। खुरड।

क्रि० प्र०—छुड़ाना।—पड़ना।

३. सोहन पपड़ी या अन्य कोई मिठाई जिसकी तह जमाई गई हो। ४. छोटा पपड। आटा या वेसन आदि का नमकीन और पकाया हुमा खाद्य। (यौ०)। ५. वृक्ष की छाल की ऊपरी परत जिसमें सूखने और चिटकने के कारण जगह जगह दरारें सी पडी हो। बना या घडा। त्वचा।

पपड़ीला—वि० [हि० पपड़ी+इला (प्रत्य०)] जिसमें पपड़ी हो। पपड़ीदार।

पपनी—सज्ञा स्त्री० [देश०] बरीनी। पलक के वाल।

पपरिया कत्था—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पपड़िया कत्था'।

पपरी—सज्ञा स्त्री० [सं० पर्पट] १ एक पीघा जिसकी जड दवा के काम में आती है। २ दे० 'पपड़ी'।

पपहा—सज्ञा पुं० [देश०] १ एक कीड़ा जो घान की फमल को हानि पहुंचाता है। २ एक प्रकार का धुन जो जौ गेहूँ आदि में घुसकर उनका सार खा जाता है और केवल ऊपर का छिलका ज्यो का त्यो रहने देता है।

पपि—सज्ञा पुं० [सं०] चद्रमा [को०]।

पपहिया—सज्ञा पुं० [देश०] दे० 'पपीहा'। उ०—घनघोर घटा के देखने से अभी तो प्यासे पपहिये के नयनों की प्यास भी न बुझने पाई थी।—श्रीनिवास ग्र०, पृ० ६४।

पपिहरा—सज्ञा पुं० [हि० पपीहा+रा (स्वा०प्रत्य०)] चातक। पपीहा। उ०—पिय पिय रटए पपिहरा रे, हिय दुख उपजाव।—विद्यापति, पृ० ३६४।

पपिहा—सज्ञा पुं० [देश०] दे० 'पपीहा'।

पपी—सज्ञा पुं० [देश०] दे० 'पपीहा'। उ०—ज्यों पपी की प्यास पीव रात भर रटी। अरी स्वाति विना बुद भोर भ्यान पी फटी।—तुरसी श०, पृ० ५।

पपी^२—सज्ञा पुं० [सं०] १. चद्रमा। २. सूर्य [को०]।

पपीता—सज्ञा पुं० [देश० या कन्नड पपाया] एक प्रसिद्ध वृक्ष जो बहुधा बगीचों में लगाया जाता है। पर्णया। अडखरवृजा। वातकुभ। एरडचिर्मिट। नलिकादल। मधुकर्कटी।

विशेष—इसका वृक्ष ताड़ की तरह सीधा बढ़ता है और प्रायः बिना डालियों का होता है। ऊँचाई २० फुट के लगभग होती है। पत्तियाँ इसकी अड़ी की पत्तियों की तरह कटावदार होती हैं। छाल का रंग सफेद होता है। इसका फल अधिकतर लंबोतरा और कोई कोई गोल भी होता है। फल के ऊपर मोटा हरा छिलका होता है। गुदा कच्चा होने की दशा में सफेद और पक जाने पर पीला होता है। बीचो बीच में काले काले बीज होते हैं। बीज और गूदे के बीच एक बहुत पतली झिल्ली होती है, जो बीजकोष या बीजाधार का काम देती है कच्चा और पक्का दोनों तरह का फल खाया जाता है। कच्चे फल की प्रायः तरकारी पकाते हैं। पक्का फल मीठा होता है और खरबूजे की तरह यो ही या शकर आदि के साथ खाया जाता है। इसके गूदे, छाल, फल और पत्तों में से भी एक प्रकार का लसदार दूध निकलता है जिसमें भोज्य द्रव्यों, विशेषतः मांस के गलाने का गुण माना जाता है। इसी

जाग्य उमंगो मान के नाच प्राय पकाते हैं। यहाँ तक माना जाता है कि यदि मांस छोड़ी देर तक इसके पत्ते में लपेटा गया रहे तो भी बहुत फुट गल जाता है। इसके श्व-पके फल में दूध एतन्न क- 'पपेन' नाम की एक औषध भी बनाई गई है जो मदाग्नि में उपचारक होती है। फल भी पाचन-गुण-विशिष्ट नमभा जाता है और अधिकतर इसी गुण के लिये उसे गाते हैं।

पपीते का देश दक्षिण अमेरिका है। अन्योन्य देशों में यह पुर्तगालियों के सगं से आया और कुछ ही वरसों में भारत के अधिकांश में फैलकर चान पहुँच गया। इस समय विपुवत् रेखा के समीपस्थ सभी देशों में इसके वृक्ष अधिकता से पाए जाते हैं। भारत में इसके दो भेद दिखाई पड़ते हैं। एक का फल अधिक बड़ा और मीठा होता है, दूसरे का छोटा और तम मीठा। पहले प्रकार का पपीता प्राय आनाम के गोहाटी और छोटा नागपुर विभाग के हजागीवाग स्थानों में होता है। वैद्यक में इसका मधुर, स्निग्ध, वातनाशक, वीर्य और वफ का बढ़ानेवाला हृदय को हितकर और उन्माद तथा वर्ध्म रोगों का नाशक लिखा है।

पपील—उच्चा पुं० [सं० पिपीलक] चीटी। उ०—गुनत खवन पपील की बानी, तिनतें का गोहाई।—जग० बानी, पृ० १११।

पपीलि—उच्चा स्त्री० [सं० पिपीलिका] चीटी। पिपीलिका।

पपीलिका—उच्चा स्त्री० [सं० पिपीलिका] 'पिपीलिका'। उ०—रावीर का घर सितार पर, जहाँ सिलहली गैल। पाँव न टिके पपीलिका पड़ित लाई बैल।—सतवानी०, पृ० ३४।

पपीहरा—उच्चा पुं० [हिं०] 'पपीहा'।

पपीहा—उच्चा पुं० [हिं० अनु०] कीड़े खानेवाला एक पक्षी जो बसत और वर्षा में प्राय ग्राम के पेड़ों पर बैठकर बड़ी सुगीली ध्वनि में बोलता है। चातक।

विशेष—देशभद से यह पक्षी कई रंग, रूप और आकार का पाया जाता है। उत्तर भारत में इसका डील प्राय श्यामा पक्षी के बराबर और रंग हलका काला या मटमैला होता है। दक्षिण भारत का पपीहा डील में इसमें कुछ बड़ा और रंग में चित्रविचित्र होता है। अन्योन्य स्थानों में और भी कई प्रकार के पपीहे मिलते हैं, जो कदाचित् उत्तर और दक्षिण के पपीहे ही सबर सताने हैं। मादा का रंगरूप प्राय मयत्रण ही ना होता है। पपीहा पेड़ से नीचे प्राय बहुत कम उतरता है और उमंग भी इस प्रकार छिपकर बैठा रहता है कि मनुष्य की दृष्टि कदाचित् ही उसपर पड़ती है। उसकी बोली बहुत ही रसमय होती है और उसमें कई ध्वनों का समावेश होता है। किसी किसी के मत से इसकी बोली में 'गोल' की बोली से भी अधिक मिठाव है। हिंदी कवियों ने माना गया है कि वह अपनी बोली में 'पी कहीं ? पी कहीं ?' अर्थात् 'प्रियतम कहीं हैं ?' बोलता है। जाम्बव में ध्यान देने में इसी रागमय बोली में इस वाक्य के उच्चारण के समान ही ध्वनि निकलती जान पड़ती है। यह भी प्रवाद है कि यह केवल वर्षा की बूँद का ही जल

पीता है, प्यास से मर जाने पर भी नदी, तालाव आदि के जल में चोच नहीं डुबोता। जब आकाश में मेघ छा रहे हों, उस समय यह माना जाता है कि यह इस आशा से कि कदाचित् कोई बूँद मेरे मुँह में पड़ जाय, बराबर चोच खोले उनकी ओर टक लगाए रहता है। बहुतों ने तो यहाँ तक मान रखा है कि यह केवल स्वाती नक्षत्र में होनेवाली वर्षा का ही जल पीता है, और यदि यह नक्षत्र न बरसे तो साल भर प्यासा रह जाता है। इसकी बोली कामोद्दीपक मानी गई है। इसके अटल नियम, मेघ पर अनन्य प्रेम और इसकी बोली की कामोद्दीपकता को लेकर संस्कृत और भाषा के कवियों ने कितनी ही अच्छी अच्छी उक्तियाँ की हैं। यद्यपि इसकी बोली चैत से भादो तक बराबर सुनाई पड़ती रहती है, परंतु कवियों ने इसका वर्णन केवल वर्षा के उद्दीपन में ही किया है।

वैद्यक में इसके मांस को मधुर, कपाय, लघु, शीतल, कफ, पित्त, और रक्त का नाशक तथा अग्नि की वृद्धि करनेवाला लिखा है।

पर्या०—चातक। नोकक। मेघजीवन। शारंग। सारग। स्रोतक।

२ सितार के छह तारों में से एक जो लोहे का होता है।

३ आल्हा के बाप का घोड़ा जिसे माँडा के राजा ने हर लिया था। ४ दे० 'पपैया'।

पपु—सज्ञा स्त्री० [सं०] दूध पिलानेवाली गाय।

पपु—वि० रक्षा करनेवाला। राता। पालक [को०]।

पपैया^१—सज्ञा पुं० [अनु०] १ सीटी। २ वह सीटी जिसे लडके ग्राम की अकुरित गुठली को घिसकर बनाते हैं। ३ ग्राम का नया पीघा। अमौला।

पपैया^२—सज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पपीहा'। उ०—अति विचित्र कियो साज तो सो रंग रहेगो आज। दादुर, मोर, पपैया बोलत फूले फूल द्रुम वाग।—नद० प्र०, पृ० ३५८।

पपोटन—सज्ञा स्त्री० [दे०] एक पीघा जिसके पत्ते बाँधने से फोड़ा पकता है। इसका फल मकोय की तरह होता है।

पपोटा—सज्ञा पुं० [सं० प्र+पट] आँख के ऊपर का चमड़े का वह पर्दा जो ढेले को ढके रहता है और जिसके गिरने से आँख बंद होती है और उठने से खुलती है।

पपोरना—क्रि० सं० [देश०] अपनी बाँहें ऐँठना और उनका भराव या पुष्टता देखना। (इस क्रिया से बलाभिमान सूचित होता है)। उ०—कस लाज भय गर्वजुत चल्थो पपोरत बाँह।—व्यास (शब्द०)।

पपोलना—क्रि० अ० [हिं० पोपला] पोपले का चुभलाना, चवाना या मुँह चलाना। बिना दाँत का चुभलाना या मुँह चलाना।

पपता—सज्ञा स्त्री० [दे०] वाम मछली। गु गवहरी।

पवई—सज्ञा स्त्री० [दे०] मैना की जाति का एक पक्षी, जिसका बोली बहुत ही मीठी होती है।

पवना—क्रि० सं० [हिं० पाना] प्राप्त करना ।

पवमान(पु)—सज्ञा पुं० [म० पवमान] वायु । पवन ।

पबलिक^१—सज्ञा स्त्री० [अ०] सर्वसाधारण । जनता । आम लोग । जैसे,—अब पबलिक को यह बात अच्छी तरह मालूम हो गई है ।

पबलिक^२—वि० सर्वसाधारण सबधी । सार्वजनिक । जैसे,—कल टाउनहाल मे एक पबलिक मीटिंग होनेवाली है ।

पबलिक वर्क्स—सज्ञा पुं० [अ०] १ निर्माण सबधी वे कार्य जो सर्वसाधारण के लाभ के लिये सरकार की ओर से किए जायें । पुल नहर आदि बनाने का कार्य । २ इजीनियरी का मुहकमा ।

पब्लिगर्ज़—सज्ञा स्त्री० [अ० पब्लिक] दे० 'पबलिक' ।

पवारना—क्रि० सं० [सं० प्रवारण ?] फेकना । उ०—जोगी मर्नहि ओहि रिस मारहि । दरब हाथ के समुद पवारहि ।—जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० २२३ ।

पवि—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पवि' । उ०—(क) देखिनि आवत पवि सम बाना । तुरत भएउ खल अतरधाना ।—मानस ६।७५ । (ख) असनि कुलिस निर्घात पवि वज्र सु तेरे नाहि ।—अनेकाथ०, पृ० ६० ।

यौ०—पविपात = वज्रपात । उ०—घहरात जिमि पविपात गर्जंत जनु प्रलय के बादले ।—मानस, ६।४८ ।

पर्वो—सज्ञा पुं० [सं० पर्वत, प्रा० पर्वथ, पर्वथ] पर्वत । उ०—पवे सिखर इम गुपत किता गुण ओगुण कारक ।—रा० रू०, पृ० ६ ।

पर्वय(पु)^१—सज्ञा पुं० [सं० पर्वत, प्रा० पर्वथ] १ पहाड । उ०—कमठ कसकि घसि मसकि घसय पर्वय पनाल कह ।—प० रासो, पृ० १६८ । २ पत्थर ।

पर्वय^२—सज्ञा पुं० [देश०] एक चिडिया का नाम ।

पर्वि(पु)—सज्ञा पुं० [सं० पवि] वज्र । पवि ।

पर्वीन(पु)—वि० [म० प्रवीण] दे० 'प्रवीण' । उ०—सुने वीन पर्वीन सुर नाम रागै । रहे मोहि के माल डारे न भाग ।—ह० रासो, पृ० ३७ ।

पर्वै—सज्ञा पुं० [म० पर्वत, प्रा० पर्वथ] १ पर्वत । पहाड । २ पत्थर । उ०—तिमि उखत कोट पर्वै सहित दल दवै तलछत परे । हम्मीर०, पृ० ४३ ।

पब्लिक—सज्ञा पुं० [अ०] दे० 'पबलिक' ।

पब्लिक प्रासिक्चूटर—सज्ञा पुं० [अ०] पुलिस का वह अफसर या वकील जो सरकार की ओर से फौजदारी मुकदमो की पैरवी करता है ।

पब्लिशर—सज्ञा पुं० [अ०] वह जो पुस्तक, समाचारपत्र आदि छपवाकर प्रकट या प्रकाशित करे । प्रकट करनेवाला । प्रकाशित करनेवाला । पुस्तक प्रकाशक । प्रकाशक ।

विशेष—कोई आपत्तिजनक चीज प्रकाशित करने के अभियोग पर प्रिंटर और पब्लिशर दोनो गिरफ्तार किए जाते हैं ।

पर्मंग(पु)—सज्ञा पुं० [म० प्लवङ्ग] घोडा । अश्व । उ०—पमग अग पाखरौ परौ गिरा कि पजरौ ।—रा० रू०, पृ० २६६ ।

पमरा—सज्ञा स्त्री० [देश०] शल्लुकी नामक सुगन्धित पदार्थ ।

पमार^१—सज्ञा पुं० [सं० प्रमार] अग्निकुल के क्षत्रियो की एक शाखा । प्रमार । पवार । दे० 'परमार' ।

पमार^२—सज्ञा पुं० [म० पामारि] चकवेंड । चक्रमर्दक । चकौडा ।

पम्मन—सज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का गेहूँ जो बडा और बढिया होता है । कठिया गेहूँ ।

पयवरी—सज्ञा पुं० [फ्रा० पैगम्बर] दे० 'पैगवर' । उ०—तपाके दिल से कीता अर्ज आकर । के ऐ सरदपतर आल पयवर ।—दक्खिनी०, पृ० १६० ।

पयः—सज्ञा पुं० [म०] पयस् शब्द का वह रूप जो व्याकरण के नियमानुसार कुछ अक्षरो के पूर्व आता है ।

पयःकंदा—सज्ञा स्त्री० [सं० पय कन्दा] क्षीरविदारी । कुम्हडा ।

पय.पयोष्णी—सज्ञा स्त्री० [सं०] एक नदी का नाम ।

पय.पान—सज्ञा पुं० [सं०] दुग्धपान । दूध पीना ।

पयःपूर—सज्ञा पुं० [सं०] पुष्करिणी । छोटा तालाब ।

पयःपेटी—सज्ञा स्त्री० [सं०] नारियल ।

पयःफेनी—सज्ञा स्त्री० [सं०] दुग्धफेनी ।

पय^१—सज्ञा पुं० [सं० पयस्] १ दूध । उ०—सत हस गुन गहहि पय परिहरि वारि विकार ।—मानस, १।६ ।

यौ०—पयनिधि । पयपयोधि = क्षीरसागर । दुग्धसमुद्र । उ०—पयपयोधि तजि अवध विहाई । जहँ सिय लखनु रामु रहे आई ।—मानस०, २।१३० । पयसुल । २ जल । पानी । ३ अन्न ।

पय^२—सज्ञा पुं० [म० पद, प्रा० पय] पैर । चरण । उ०—जाल जलाखो गोरही । सोवन पायल पय भलकति ।—वी० रासो, पृ० ५४ ।

पयच(पु)—सज्ञा पुं० [सं० प्रत्यञ्चा] दे० 'प्रत्यचा' । उ०—जानहु काल जगत कहँ कडा । निसदिन रहे पयच जनु चढा ।—चित्रा०, पृ० ७० ।

पयजा—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिज्जा, प्रा० पइज्जा, पइज्ज] दे० 'पैज' । उ०—परखत प्रीति प्रतीति पयज पनु रहे काज ठट्टु ठानि है ।—तुलसी ग्र०, पृ० ३०६ ।

पयद(पु)—सज्ञा पुं० [सं० पयोद] वादल । पयोद । उ०—नीच निरावहि निरस तरु तुलसी सीचहि ऊख । पोपत पयद समान सब विष पियूष के रूख ।—तुलसी ग्र०, पृ० १३४ । २, जिससे पय अर्थात् दूध प्राप्त हो । स्तन । उ०—गोद राखि पुनि हृदय लगाए । सवत प्रेमरस पयद सुहाए ।—मानस, २।५२ ।

पयदल—सज्ञा पुं० [सं० पदाति दल] दे० 'पैदल' । उ०—चले ह्यदल पयदल सथ्य रथ्य ।—ह० रासो, पृ० ३५ ।

पयदा—सज्ञा पुं० [देश०] दे० 'प्यादा' । उ०—लक्षावधि पयदा क शब्दवाच ।—कीर्ति०, पृ० ८४ ।

पयधि(पु)—सज्ञा पुं० [सं० पयोधि] दे० 'पयोधि' ।

पयना^१—वि० [हिं०] दे० 'पैना' ।

पयना^२—सञ्ज्ञा पुं० दे० 'पैना' ।

पयनिधि^(५)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पयोनिधि] दे० 'पयोनिधि' । उ०—
कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई ।—मानस, १ । १८५ ।

पयमुख—वि० [म० पय + मुख] दे० 'दूधमुख' । उ०—गौर सरीर
स्यामु मन माही । कालकूट मुख पयमुख नाही ।—मानस,
१ । २७७ ।

पयश्चय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भोल या कोई बड़ा जलाशय [को०] ।

पयस्य^१—वि० [सं०] दूध से निकला या बना हुआ ।

पयस्य^२—सञ्ज्ञा पुं० १ दूध से निकली या प्राप्त वस्तु । दुग्धविकार ।
जैसे, घी, मट्ठा, दही आदि । उ०—जय पयस्य परिपूर्णं
सुघोषित घोष हमारे ।—साकेत, पृ० ४२१ । २. विलार ।
मार्जार (को०) ।

पयस्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ दुग्धिका । दुधिया घास । २ क्षीरका-
कोली । अर्कपुष्पी । ३ सत्यानासी । स्वर्णक्षीरी (को०) ।

पयस्वती—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ नदी । २ अधिक दूध देनेवाली
गौ (को०) ।

पयस्वत्^१—वि० [सं०] १ जलयुक्त । २ जिसमें दूध हो ।

पयस्वत्^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बकरा । छाग [को०] ।

पयस्वान्—वि० [सं० पयस्वत्] [वि० स्त्री० पयस्वती] पानीवाला ।

पयस्विनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. गाय । दूध देती हुई गाय । २
बकरी । ३ नदी । ४ चित्रकूट की एक नदी । ५ क्षीरका-
कोली । ६ दूधकेनी । दूधविदारी । ७ जीवती ।

पयस्वी—वि० [म० पयस्विन्] [वि० स्त्री० पयस्विनी] पानीवाला ।

पयहारी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पयस् + अहारी] दूध पीकर रह जानेवाला
तपस्वी या साधु ।

पर्या—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक तौल करने का पात्र जो दस सेर का
होता है । (बु देल०) ।

पयाग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रयाग] दे० 'प्रयाग' ।

पयाद^(५)—क्रि० वि० [हिं०] पाँव पाँव । पैदल । बिना सवारी के ।
उ०—सवार एक आप ही सबै पयाद चल्लिय ।—ह० रासो०,
पृ० ५१ ।

पयादा^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'प्यादा' ।

पयादा^२—वि० पैदल । प्यादा ।

पयान—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रयाण] गमन । जाना । यात्रा । रवानगी ।
उ०—अधर लगे हैं आनि करिके पयान प्रान चाहत चलन
ये सदेसो लै सुजान को ।—घनानंद, पृ० १९ ।

क्रि० प्र०—करना ।—होना ।

पयाम—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] दे० 'पैगाम' । उ०—आपही अपना जो
ले आया पयाम । पाक नबी का है मुकद्दम कलाम ।—कबीर
म०, पृ० ४६ ।

पयारं—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पलाल] दे० 'पयाल' । उ०—ज्ञान को
गाँव पयार ते जानौ ज्ञान विषय रस भोरे ।—सूर
(शब्द०) ।

पयाल^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाताल, प्रा० पयाल] दे० 'पाताल' । उ०—

सब सुख सरग पयाल के, तौल तराजू बाहि । हरि सुख एक
पलक्क का, ता सम कह्या न जाइ ।—सतवानी०, पृ० ७८६ ।

पयाल^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पलाल] घान, कोदो, आदि के सूखे डठल
जिसके दाने भाड लिए गए हो । पुराल ।

मुहा०—पयाल गाहना या भाड़ना = (१) ऐसा श्रम करना
जिसका कुछ फल न हो । व्यर्थ मिहनत करना । उ०—
फिरि फिरि कहा पयारहि गाहे ।—सूर (शब्द०) । (२)
ऐसे की सेवा करना या ऐसे को धरना जिससे कुछ मिलने
की आशा न हो ।

पयोगह—सञ्ज्ञा पुं० [म०] दे० 'पयोगल' ।

पयोगल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ ओला । २ द्वीप ।

पयोत्रह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक यज्ञपात्र ।

पयोघन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ओला ।

पयोज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कमल । उ०—गिरीश के सीस पयोज चढ़े
जगमोहन पावन ती सब भ्रग ।—श्यामा०, पृ० १२६ ।

पयोजन्मा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मेघ । बादल । २ मोथा ।

पयोत्र^(५)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पौत्र] पौत्र । पोता । पुत्र का पुत्र ।
उ०—प्रजा पुन्य प्रगट्यो पुहुमि छहु दरसन की लाज । पेपत
पुत्र पयोत्र मुख करौ कोटि जुग राज ।—रसरतन,
पृ० १२ ।

पयोद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. बादल । मेघ ।

यौ०—पयोदसुहृद् = मयूर । मोर ।

२ मोथा । मुस्तक । ३ एक यदुवशी राजा ।

पयोदन—सञ्ज्ञा पुं० [पयस् + ओदन] दूधभात ।

पयोदा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कुमार की अनुचरी, एक मातृका ।

पयोदेव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वरुण ।

पयोध^(५)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पयोधस्] दे० 'पयोधि' । उ०—परै
पयोध जु अलप बुद जल, सो कही को पहचाने ।—पोद्दार
अभि० ग्र०, पृ० ३३६ ।

पयोधर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ स्तन । २ बादल । ३ नागरमोथा ।
४ कसेरू । ५ तालाव । तडाग । ६ गाय का आयन ।
७, नारियल । ८ मदार । अकौवा । ९ एक प्रकार की
कल । १० पर्वत । पहाड । ११ कोई दुग्धवृक्ष । १२ दोहा
छद का ११वाँ भेद । १३ समुद्र । (हिं०) । १४ छप्पय
छद का २७वाँ भेद ।

पयोधा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पयोधस्] १ जलाधार । २ समुद्र ।

पयोधारागृह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] स्नानागार जिसमें नहाने के लिये
धारा यत्र (फीवारे) सगे हों [को०] ।

पयोधि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] समुद्र ।

पयोधिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] समुद्रफेन ।

पयोनिधि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] समुद्र ।

पयोमुक्क—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पयोमुक्' ।

पयोमुख—वि० [सं०] दूधपीता । दूधमुँहाँ (बच्चा) ।

- पयोमुष्**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ बादल । २ मोथा ।
पयोर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] खैर का पेड़ ।
पयोरय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जल की धारा । जल का वेग [को०] ।
पयोराशि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जलराशि । समुद्र [को०] ।
पयोत्तता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दूधविदारी कंद ।
पयोवाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मेघ । बादल । २ मोथा ।
पयोव्रत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मत्स्यपुराण के अनुसार एक व्रत जिसमें एक दिन रात या तीन रात केवल जल पीकर रहना पड़ता है । २ भागवत के अनुसार कृष्ण का एक व्रत जिसमें बारह दिन दूध पीकर रहना और कृष्ण का स्मरण और पूजन करना होता है ।
पयोष्णी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] विंध्याचल से निकलकर दक्षिण की ओर को बहनेवाली एक नदी ।
पयोष्णीजाता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सरस्वती नदी ।
परंच—अव्य० [सं० परञ्च] १ और भी । २ तो भी । परंतु । लेकिन ।
परंज—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परञ्ज] १ तेल पेरने का कोल्हू । २ छूरी का फल । ३. फेन । ४ शक्र का खड्ग [को०] ।
परजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परञ्जन] (पश्चिम दिशा के स्वामी) वरुण ।
परंजय—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परञ्जय] १ शत्रु को जीतनेवाला । २ वरुण का एक नाम ।
परंजा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परञ्जा] उत्सवादि में उपकरणों की ध्वनि [को०] ।
परंतप^१—वि० [सं० परन्तप] १ शत्रुओं को ताप देनेवाला । वैरियों को दुःख देनेवाला । २ जितेंद्रिय ।
परंतप^२—सञ्ज्ञा पुं० १ चिंतामणि । २ तामस मनु के एक पुत्र ।
परतु—अव्य० [सं० पर + तु] एक शब्द जो किसी वाक्य के साथ उससे कुछ अन्यथा स्थिति सूचित करनेवाला दूसरा वाक्य कहने के पहले लाया जाता है । पर । तो भी । किंतु । लेकिन । मगर । जैसे,—(क) वह इतना कहा जाता है परतु नहीं मानता । (ख) जी तो नहीं चाहता है परतु जाना पड़ेगा ।
परंद—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] दे० 'परिदा' [को०] ।
परंदा—सञ्ज्ञा पुं० [फा० परद (= चिड़िया)] १ चिड़िया । पक्षी । २ एक प्रकार की हवादार नाव जो काश्मीर की भीली में चलती है ।
परद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परम्पद] १ वैकुण्ठ । २ मोक्ष । ३ उच्च स्थान (को०) ।
परंपर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परम्पर] एक के पीछे दूसरा ऐसा क्रम । अनुक्रम । चला जाता हुआ सिलसिला । २ पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि । बेटा, पोता, परपोता आदि । वंश । सतति । ३ मृगमद । कस्तूरी ।
परपरया—क्रि०^३ [सं० परम्परया] परंपरा द्वारा । परंपरा से । अनुक्रम से [को०] ।

- परंपरा**—संज्ञा स्त्री० [सं० परम्परा] १ एक के पीछे दूसरा ऐसा क्रम (विशेषतः कालक्रम) । अनुक्रम । पूर्वापर क्रम । चला आता हुआ सिलसिला । जैसे,—परंपरा से ऐसा होता आ रहा है ।
यौ०—वंशपरंपरा । शिष्यपरंपरा ।
 २ वंशपरंपरा । सतति । श्रौलाद । ३ बराबर चली आती हुई रीति । प्रथा । परिपाटी । जैसे,—हमारे यहाँ इसकी परंपरा नहीं है । ४ हिंसा । वध ।
परंपराक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परम्पराक] यज्ञार्थ पशुहवन । यज्ञ के लिये पशुओं का वध ।
परंपरागत—वि० [सं० परम्परागत] परंपरा से चला आता हुआ । जो सब दिन से होता आता हो । जिसे एक के पीछे दूसरा बराबर करता आया हो । जैसे, परंपरागत नियम ।
परंपरित—वि० [सं० परम्परित] परंपरायुक्त । परंपरागत । परंपरा पर आश्रित ।
परंपरित रूपक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] रूपक अलंकार का एक भेद जिसमें किसी का आरोप दूसरे के आरोप का कारण होता है ।
परंपरीण—वि० [सं० परम्परीण] परंपरा से प्राप्त । परंपरागत [को०] ।
पर^१—वि० [सं०] १ दूसरा । अन्य । और । अपने को छोड़ शेष । स्वातिरिक्त । गैर । परलोक । उ०—पर उपदेश कुसल बहु-तेरे । जे आचरहि ते नर न घनेरे ।—तुलसी (शब्द०) ।
यौ०—परपीड़न । परोपकार ।
 २ पराया । दूसरे का । जो अपना न हो । जैसे, पर द्रव्य, पर पुरुष, पर पीडा । ३. भिन्न । जुदा । अतिरिक्त । ४ पीछे का । उत्तर । बाद का । जैसे, पूर्व और पर । ५ जो सीमा के बाहर हो ।
यौ०—परब्रह्म ।
 ६ आगे बढ़ा हुआ । सबके ऊपर । श्रेष्ठ । ७ प्रवृत्त । लीन । तत्पर । जैसे, स्वार्थपर (केवल समास में) ।
पर^२—प्रत्य० [सं० उपरि] सप्तमी या अधिकरण कारक का चिह्न । जैसे—(क) वह घर पर नहीं है । (ख) कुरसी पर बैठो ।
पर^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर] १ शत्रु । वैरी । दुश्मन ।
यौ०—परंतप ।
 २ शिव । ३ ब्रह्मा । ४ ब्रह्मा । ५ मोक्ष । ६ न्याय में जाति या सामान्य के दो भेदों में से एक । द्रव्य । गुण और कर्म की वृत्ति या सत्ता । ७ ब्रह्मा की आयु (को०) ।
पर^४—अव्य० [सं० परम्] १ पश्चात् । पीछे । जैसे,—इसपर वे उठकर चले गए । ४ एक शब्द जो किसी वाक्य के साथ उससे अन्यथा स्थिति सूचित करनेवाला वाक्य के कहने के पहले लाया जाता है । परतु । किंतु । लेकिन । तो भी । जैसे,—(क) मैंने उसे बहुत सम्झाया पर वह नहीं मानता । (ख) तवीयत तो नहीं अच्छी है पर जायेंगे ।
पर^५—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] चिड़ियों का डैना और उसपर के घुए या रोएँ । पक्ष । पक्ष ।
मुहा०—पर कट जाना = शक्ति या बल का आधार न रह जाना । अशक्त हो जाना । कुछ करने धरने लायक न रह जाना ।

पर काट देना = अशक्त कर देना । कुछ करने धरने लायक न रखना । पर कैंच करना = पख कतरना । (कबूतरवाज) । पर जमना = (१) पर निकलना । (२) जो पहले सीधा सादा रहा हो उसे शरारत सूझना । धृतता, चालाकी, दुष्टता आदि पहले पहल आना । (कहीं जाते हुए) पर जलना = (१) हिम्मत न होना । साहस न होना । (२) गति न होना । पहुँच न होना । जैसे,—वहाँ जाते वडे वडो के पर जलते हैं, तुम्हारी क्या गिनती है ? पर झाड़ना = (१) पुराने परो का गिराना । (२) पख फटफटाना । डैनी को हिलाना । पर टूटना = दे० 'पर जलना' । पर टूट जाना = दे० 'पर कट जाना' । पर न मारना = पैर न रख सकना । जा न सकना । फटक न सकना । चिड़िया पर नहीं मार सकती = कोई जा नहीं सकता । किसी की पहुँच नहीं हो सकती । पर निकालना = (१) पखो से युक्त होना । उडने योग्य होना । (२) बढ़कर चलना । इतराना । अपने को कुछ प्रकट करना । पर और चाल निकलना = (१) सीधा सादा न रहना । बहुत सी बातों को समझने बूझने लगना । कुछ कुछ चालाक होना । (२) उपद्रव करना । ऊधम मचाना । पर बाँध देना = उडने की शक्ति न रहने देना । बेवस कर देना ।

परई—सज्ञा स्त्री० [स० पार(= कटोरा, प्याला)] दीए के आकार का पर उससे बड़ा एक मिट्टी का बरतन । पारा । सराव ।

परकटा—वि० [म० प्रकट] दे० 'प्रकट' । उ०—अपनयें घन हे घनिक धर गोए । परक रतन परकट कर कोए ।—विद्यापति, पृ० १४४ ।

परकटा—वि० [फा० पर + हि० कटना] जिसके पर या पख कटे हों । जैसे, परकटा कबूतर ।

परकना^(५)—क्रि० अ० [हि० परचना] १ परचना । हिलना । मिलना । २ जो बात दो एक बार अपने अनुकूल हो गई हो या जिस बात को कई बार वे रोकटोक कर पाए हो उसकी ओर प्रवृत्त होना । घडक खुलना । अभ्यास पडना । चसका लगना । उ०—माखन चोरी सों अरी परकि रह्यो नंदलाल । चोरन लाग्यो अब लखी नेहिन को मनमाल ।—रसनिधि (शब्द०) ।

परकर्षण—सज्ञा पुं० [मं०] शत्रु की सपत्ति आदि लूटना ।

परकलत्र—सज्ञा पुं० [सं०] अन्य व्यक्ति की स्त्री । दूसरे की पत्नी [को०] ।

परकसना^(५)—क्रि० अ० [हि० परकासना] १ प्रकाशित होना । जगमगाना । २ प्रकट होना ।

परकाज—सज्ञा पुं० [हि० पर+काज (= काम करनेवाला)] दूसरे का काम । परकारज ।

परकाजी—वि० [हि० पर+काज] दूसरों का कार्यसाधन करनेवाला । परोपकारी ।

परकान—सज्ञा पुं० [हि० पर+कान] तोप का कान या मूठ । तोप

का वह स्थान जहाँ रजक रखी जाती है या बत्ती दी जाती है । (लश०) ।

परकाना^(५)—क्रि० स० [हि० परकना] १ परचाना । हिलाना । मिलाना । २, (किसी को) कोई लाम पहुँचाकर या कोई बात बेरोकटोक करने देकर उसकी ओर प्रवृत्त करना । घडक खोलना । अभ्यास डालना । चसका लगाना ।

परकाय—सज्ञा पुं० [सं०] अन्य का शरीर । दूसरे का शरीर [को०] ।

परकायप्रवेश—सज्ञा पुं० [म०] अपनी आत्मा को दूसरे के शरीर में डालने की क्रिया, जो योग की एक सिद्धि समझी जाती है ।

परकार^(५)—सज्ञा पुं० [फा०] वृत्त या गोलाई खींचने का औजार जो पिछले सिरो पर परस्पर जुड़ी हुई दो शलाकाओं के रूप में होता है ।

परकार^(५)—सज्ञा पुं० [म० प्रकार] १ 'प्रकार' । उ०—(क) अपना वचन नहीं परकार जे अगिरिअ से देलहि नितार । विद्यापति, पृ० २०६ । (ख) चपरि चखनि ते जो जल आवै । इहि परकारि तिया जु जनावै ।—नद० ग्र०, पृ० १५१ ।

परकारना^(५)—क्रि० स० [हि० परकार+ना (प्रत्य०)] १ परकार से वृत्त आदि बनाना । २ चाने और फेरना । आवेष्टित करना । उ०—दसहूँ दिसति गई परकारी । देख्यो समे भयानक भारी ।—द्वयप्रकाश (शब्द०) ।

परकाल—सज्ञा पुं० [फा० परकार] दे० 'परकार' ।

परकाला^(५)—सज्ञा पुं० [म० प्राकार या प्रकोष्ठ] १ सीढी । जीना । २. चौखट । देहली । दहलीज ।

परकाला^(५)—सज्ञा पुं० [फा० परगालह] १ टुकड़ा । खड । उ०—मु दर जीव दया करै न्योता मानै नाहि । माया छुवै न हाथ सों परकाला ले जाहि ।—सुंदर ग्र०, भा० २, पृ० ७३५ । २ शीशे का टुकड़ा । ३. चिनगारी । अग्निकण ।

मुहा०—आफत का परकाला = गजब करनेवाला । अद्भुत शक्तिवाला । प्रचंड या भयकर मनुष्य ।

परकास^(५)—सज्ञा पुं० [सं० प्रकाश] दे० 'प्रकाश' । उ—गुर आए घन गरज कर शब्द किया परकास । वीज पडा था भूमि में अब भई फूल फल आस ।—दरिया० वानी, पृ० १ ।

परकासक^(५)—वि० [सं० प्रकाशक] दे० 'प्रकाशक' । उ०—अस अध्यातम दीप जु कोई । बुध्यादिक परकासक सोई ।—नद० ग्र०, पृ० २२६ ।

परकासना^(५)—क्रि० स० [सं० प्रकाशन] १ प्रकाशित करना । उ०—जो कछु ब्रह्म ब्रह्म सुख आहि । विदुपनि कौ परकासत ताहि ।—नद० ग्र०, पृ० २६० । २ प्रकट करना ।

परकासिक^(५)—वि० [सं० प्रकाशक] दे० 'प्रकाशक' । उ—सवन के नैना प्रान परकासिक ताके ढिग, रच्यो चखोडा छाजै, छवि कही न जाई ।—नद० ग्र०, पृ० ३४० ।

परकिति^(५)—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रकृति] दे० 'प्रकृति' ।

परकिय^(५)—सज्ञा स्त्री० [सं० परकीया] दे० 'परकीया' । उ०—दीपग फीके फूल ऐलाने । परकिय तियनि के हिय

अकुलाने ।—नंद० ग्रं०, पृ० १४२ ।

परकिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परकीय] दे० 'परकीया' । उ०—निघरक भई कहति इमि लहिये । सा परकिया लच्छिता कहिए ।
—नंद० ग्रं०, पृ० १४६ ।

परकीय—वि० [सं०] पराया । दूसरे का । बेगाना ।

परकीया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पति के अतिरिक्त परपुरुष की प्रेमपात्रा या पर पुरुष से प्रीति सबधरखनेवाली स्त्री । नायिकाश्रो के दो प्रधान भेदों में से एक ।

विशेष—परकीया दो प्रकार की कही गई हैं । अनूढा (अविवाहित) और ऊढा (विवाहित) । स्वेच्छापूर्वक परपुरुष से प्रेम करनेवाली परकीया को 'उद्वुद्धा' और परपुरुष की चतुराई या प्रयत्न से उसके प्रेम में फँसनेवाली को 'उद्वो-धिता' कहते हैं । परकीया के छह और भेद किए गए हैं— गुप्ता, विदग्धा, लक्षिता, कुलटा, अनुशयाना और मुदिता । (इनके विवरण प्रत्येक शब्द के अंतर्गत देखो ।)

परकीरति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रकृति] दे० 'प्रकृति' ।

परकीर्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दूसरे का यश । उ०—हमारा उच्चपद का श्रादरणीय स्वभाव उस परकीर्ति को सहन न कर सका ।
—भारतेंदु ग्रं०, भा० १, पृ० २६८ ।

परकृति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ दूसरे की कृति । दूसरे का किया हुआ काम । २ दूसरे की कृति का वर्णन । ३ कर्मकांड में दो परस्पर विरुद्ध वाक्यों की स्थिति ।

परकाटा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिकोट] १ किसी गढ या स्थान की रक्षा के लिये चारों ओर उठाई हुई दीवार । बचाव या सुरक्षा के लिये मिट्टी या पत्थर आदि की दीवार । ५ पानी आदि की रोक के लिये खडा किया हुआ घुस । बाँध । चह ।

परक्खना—क्रि० सं० [हिं० परखना] दे० 'परखना' । उ०—गुणी परक्खवा गया उचार बाँण ओपमा । प्रलै क ज्वाल पस्सरे, अनत जीम आतरे ।—रा० रू०, पृ० ८४ ।

परक्रमण—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिक्रमण] परिक्रमा । प्रदक्षिणा । उ०—परक्रमण तिण दे पग परसे, जस यम जीह अपार जपे ।—रघु० रू०, पृ० १४१ ।

परत्तेज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पराया खेत । २ दूसरे का शरीर । ३ पराई स्त्री । दूसरे की भार्या ।

परख—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परीक्षा, प्रा० परिकख] १ गुणदोष स्थिर करने के लिये अच्छी तरह देखभाल । जाँच । परीक्षा । जैसे,—अभी उस सोने की परख हो रही है । २ गुणदोष का ठीक ठीक पता लगानेवाली दृष्टि । गुणदोष का विवेचन करनेवाली अतःकरण वृत्ति । कोई वस्तु भली है या बुरी यह जान लेने की शक्ति । पहचान । जैसे,—(क) तुम्हें सोने की परख नहीं है । (ख) उसे आदमी की परख नहीं है ।

क्रि० प्र०—होना ।

परखचा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] खड । दुकडा । विभाग । जैसे, परखचे उढाना = धज्जिया उढाना ।

परखना^१—क्रि० सं० [सं० परीक्षण, प्रा० परीक्खण] १ गुणदोष स्थिर करने के लिये अच्छी तरह देखना भालना । परीक्षा करना । जाँच करना । जैसे, रत्न परखना, सोना परखना ।
सयो० क्रि०—देना ।—लेना ।

२ अच्छी तरह देख भालकर गुणदोष का पता लगाना । भला और बुरा पहचानना । कौन वस्तु कैसी है यह ताडना । जैसे,—मैं देखते ही परख लेता हूँ कि कौन कैसा है ।

परखना^२—क्रि० सं० [म० पर+इच्छण, हिं० परेखना] प्रतीक्षा करना । इतजार करना । आसरा देखना ।

परखवाना—क्रि० सं० [हिं०] दे० 'परखाना' ।

परखवैया—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० परख+वैया (प्रत्य०)] परखनेवाला । जाँचनेवाला । पहचाननेवाला ।

परखाई—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० परख+आई (प्रत्य०)] १ परखने का काम । २ परखने की मजदूरी ।

परखाना, परखावना—क्रि० सं० [हिं० परखना का प्र०रूप] परखने का काम दूसरे से कराना । परीक्षा कराना । जँचवाना । उ०—कहि ठाकुर औगुन छोडि सवै परवीनन कै परखावने हैं ।—ठाकुर०, पृ० २५ । २ कोई वस्तु देते या सौंपते समय उसे गिनकर या उलट पलटकर दिखा देना । सहेजवाना । सँभलवाना ।

परखी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० परख+ई (प्रत्यय०)] लोहे का बना हुआ नालीदार और नुकीला एक उपकरण जिससे बढ बोरो में से गेहूँ, चावल आदि परखने के लिये निकाला जाता है ।

परखुरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] दे० 'पखड़ी' ।

परखैया—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० परख+ऐया (प्रत्य०)] परखनेवाला । उ०—विन परखैया चतुरजीहरी किसको इते दिखाऊँ ।—प्रेमघन०, भा० १, पृ० १८६ ।

परग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पदक] पग । डग । कदम । उ०—तीनि परग तीनो पुर भयऊ ।—कवीर सा० पृ० ४०८ ।

परगट—वि० [सं० प्रकट] दे० 'प्रगट' ।

परगटना^१—क्रि० प्र० [हिं० परगट] प्रगट होना । खुलना । जाहिर होना ।

परगटना^२—क्रि० सं० प्रकट करना । जाहिर करना ।

परगन्—सञ्ज्ञा पुं० [फा० परगनह] दे० 'परगना' । उ०—त्रज परगन सरदार महरि तू ताकी करत नन्हाई ।—सूर (शब्द०) ।

परगना—सञ्ज्ञा पुं० [फा० । मि० सं० परिगण (= घर)] एक भू-भाग जिसके अंतर्गत बहुत से ग्राम हो । जमीन का वह हिस्सा जिसमें कई गाँव हो ।

विशेष—आजकल एक तहसील के अंतर्गत कई परगने होते हैं । बडे परगने कई टप्पों में बँटे होते हैं ।

यौ०—परगनाधीश । परगनाहाकिम = परगनेकी देखभाल करनेवाला प्रधान अधिकारी । परगनेदार = परगने का अधिकारी ।

परगनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रग्रहण] दे० 'परगहनी' ।

परगसना^७—क्रि० अ० [सं० प्रकाशन] प्रकाशित होना । प्रकट होना ।

परगह—सज्ञा पुं० [सं० परिग्रह] दे० 'परिग्रह' । उ०—परगह सह परिवार अरी सहमार उढायू ।—रघु० रू०, पृ० ४८ ।

परगहनी—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रग्रहण] नली के आकार का सुनारों का एक औजार जिसमें करछी की सी ड़ाँडी लगी होती है । इस नली में तेल देकर उसमें चाँदी या सोने की गुल्लियाँ ढालते हैं । परगनी ।

परगाछा—सज्ञा पुं० [हि० पर (= दूसरा) + गाछ (= पेड़)] एक प्रकार के पौधे जो प्रायः गरम देशों में दूसरे पेड़ों पर उगते हैं ।

विशेष—इनकी पत्तियाँ लची और खड़ी नसों की होती हैं । फूल सुंदर तथा अद्भुत वर्ण और आकृति के होते हैं । एक ही फूल में गर्भकोण और परागकेसर दोनों होते हैं । परगाछे की जाति के वृक्ष से पौधे जमीन पर भी होते हैं और फूलों की सुंदरता के लिये बगीचों में प्रायः लगाए जाते हैं । ऐसे पौधे दूसरे पेड़ों की ढालियों आदि पर उगते अवश्य हैं, पर सब परपुष्ट (दूसरे पेड़ों के रस घातु से पलनेवाले) नहीं होते । परगाछे की कोई टहनी या गाँठ भी बीज का काम देती है, उससे भी नया पौधा अकुर फोड़कर (गन्ने की तरह) निकल आता है । परगाछे को संस्कृत में वदाक और हिंदी में बाँदा भी कहते हैं ।

परगाछी—सज्ञा स्त्री० [हि० परगाछा] अमरवेल । आकाशवीर ।

परगाढ़^७—वि० [सं० प्रगाढ़] दे० 'प्रगाढ़' ।

परगामी—वि० [सं० परगामिन्] [वि० स्त्री० परगामिनी] १ अन्य के साथ गमन करनेवाला । २ दूसरे के लिये हितकर [को०] ।

परगास^७—सज्ञा पुं० [सं० प्रकाश] दे० 'प्रकाश' । उ०—भला है अस्थान अम्मर, जोति है परगास ।—जग० बानी, पृ० ४ ।

परगासना^१—क्रि० अ० [सं० प्रकाशन] प्रकाशित होना ।

परगासना^२—क्रि० स० प्रकाशित करना ।

परगुण—सज्ञा पुं० [सं०] दूसरे के लिये हित [को०] ।

परघट^७—वि० [हि० परगट, प्रगट] दे० 'प्रगट', 'प्रकट' । उ०—दरिया परघट नाम दिन, कहौ कौन आयो देख ।—दरिया० बानी, पृ० ७ ।

परघनी—सज्ञा स्त्री० [हि० परगनी] दे० 'परगहनी' ।

परचंड^७—वि० [सं० प्रचण्ड] दे० 'प्रचंड' ।

परचई^७—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'परचै' ।

परचक्र—सज्ञा पुं० [सं०] १ शत्रु की सेना । २. शत्रु का राज्य और वर्ग । ३ शत्रु द्वारा चढ़ाई [को०] ।

परचत^७—सज्ञा स्त्री० [सं० परिचित] जान पहचान । जानकारी । उ०—कब लगी फिरिहै दीन भयो । सुरत सरित भ्रम भँवर परथो तन मन परचत न लह्यो ।—सूर (शब्द०) ।

परचना—क्रि० अ० [सं० परिचयन] १ किसी को इतना अधिक जानबूझ लेना कि उससे व्यवहार करने में कोई सकोच या खटका न रहे । हिलाना मिलाना । घनिष्टता प्राप्त करना ।

जैसे,—(क) बच्चा जब परच जायगा तब तुम्हारे पास रहने लगेगा । (ख) परच जाने पर यह तुम्हारे साथ साथ फिरेगा । २ जो बात दो एक बार अपने अनुकूल हो गई हो या जिस बात को दो एक बार वे रोकटोक मनमाना करने पाए हों उसकी ओर प्रवृत्त रहना । चसका लगना । घडक खुलना । टेव पडना । जैसे,—इसे कुछ न दो, परच जायगा तो नित्य आया करेगा ।

संयो० क्रि०—जाना ।

३ व्यक्त होना । प्रगट होना । पहचाने जाना ।

परचर—सज्ञा पुं० [दिश०] वेलों की एक जाति, जो अंधध के खीरी जिसे के आसपास पाई जाती है ।

परचा^१—सज्ञा पुं० [का० परचद्] १ कागज का टुकड़ा । चिट । कागज । पत्र । १ पुरजा । सत । रुक्का । चिट्टी । ३ परीक्षा में आनेवाला प्रश्नपत्र । जैसे,—इम्तहान में हिसाब का परचा विगड़ गया ।

परचा^२—सज्ञा पुं० [सं० परिचय] १ परिचय । जानकारी । उ०—कहा हाल तेरो दास का निस दिन दुख में जोय । पिव सेती परचो नहीं विरह सतावे भोय ।—दरिया० बानी, पृ० ६३ ।

मुहा०—परचा देना = ऐसा लक्षण या चिह्न बताना जिससे लोग जान जायें । नाम ग्राम बताना ।

२ परख । परीक्षा । जाँच । ३ प्रमाण । सबूत ।

मुहा०—परचा मँगाना । (१) प्रमाण या सबूत देने के लिये कहना । (२) किसी देवी देवता से अपनी शक्ति दिखाने को बहना । (ओभा) ।

परचा^३—सज्ञा पुं० [देश०] जगन्नाथ जी के मंदिर का वह प्रधान पुजारी जो मंदिर की आमदनी और खर्च का प्रबंध करता और पूजासेवा आदि की देखरेख रखता है ।

परचाधारी—वि० [सं० प्रत्ययधारिन्] प्रधान । श्रेष्ठ । परचावाले । उ०—नारायण दास जी तपस्वी और परचाधारी महात्मा थे ।—सुंदर ग्र० (जी०), भा० १, पृ० ७४ ।

परचाना—क्रि० स० [हि० परचना] किसी से इतना अधिक लगाव पैदा करना कि उससे व्यवहार करने में कोई सकोच या खटका न रहे । हिलाना । मिलाना । आकर्षित करना । जैसे, बच्चे को परचाना, कृत्ता परचाना ।

संयो० क्रि०—लेना ।

२. दो एक बार किसी के अनुकूल कोई बात करके या होने देकर उसको इस बात की ओर प्रवृत्त करना । घडक खोलना । चसका लगाना । टेव डालना । जैसे,—इन्हें कुछ देकर परचाओ मत, नहीं तो बराबर तग करते रहेंगे ।

संयो० क्रि०—देना ।

परचाना^७—क्रि० स० [सं० प्रज्वलन] प्रज्वलित करना । जलाना । उ०—चिनगि जोति करसी ते भागै । परम तसु परचावै लागै ।—जायसी (शब्द०) ।

परचार^७—सज्ञा पुं० [सं० प्रचार] दे० 'प्रचार' ।

परचारगी—सज्ञा स्त्री० [सं० परिचर्या, हि० परिचार, परचार + गी

(प्रत्य०)] सेवा । परिचर्या उ०—सो श्री गुसाई जी की परचारणी और टहल करती ।—दो सौ बावन०, भा० १, पृ० ३१५ ।

परचारना (७)—क्रि० सं० [सं० प्रचार] दे० 'प्रचारना' । उ०—कपि बलु देख सकल हिय हारे । उठा आपु कपि के परचारे ।—मानस, ६।३४ ।

परचित्तपर्यायज्ञान—सज्ञा पुं० [सं०] अपने चित्त में दूसरे के चित्त का भाव जानना (बौद्ध) ।

परची—सज्ञा स्त्री० [हिं० परचा] दे० 'परचा' ।

परचून—सज्ञा पुं० [सं० पर (=अन्य, और) + चूर्ण (=आटा)] आटा, चावल, दाल, नमक, मसाला आदि भोजन का फुटकर सामान । जैसे, परचून की दुकान । उ०—नीनीले पन्ने दस हून । चारि गांठि चुनी परचून ।—अर्घ०, पृ० २७ ।

परचूनी^१—सज्ञा पुं० [हिं० परचून] परचूनवाला । आटा, दाल, नमक, आदि बेचनेवाला बनिया । मोदी ।

परचूनी^२—सज्ञा स्त्री० परचून या परचूनी की काम या भाव ।

परचे (७)—सज्ञा पुं० [सं० परिचय] दे० 'परिचय' ।

परचै—सज्ञा पुं० [सं० परिचय] दे० 'परिचय', 'परचा' । उ०—परचै चक्र काया में सोई । जो ऊँगे तो सब सुख होई ।—कवीर सा०, पृ० ८७६ ।

परची^१—सज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'परिचय' ।

परच्छद्—वि० [सं० परच्छद्] पराधीन ।

परच्छदानुवर्ती—वि० [सं० परच्छदानुवर्तिन्] परतत्र । अस्वाधीन । पराधीन [क्रि०] ।

परछत्तो—सज्ञा स्त्री० [सं० परि (=अधिक, ऊपर) + छत्त (=पटाव)] १ घर या कोठरी के भीतर दीवार से लगाकर कुछ दूर तक बनाई हुई पाटन जिसपर सामान रखते हैं । टाँड । पाटा । २ हलका छप्पर जो दीवारों पर रख दिया जाता है । फूस आदि की छाजन ।

परछन—सज्ञा स्त्री० [सं० परि+अर्चन] विवाह की एक रीति जिसमें वारात द्वार पर आने पर कन्या पक्ष की स्त्रियाँ वर के पास जाती हैं और उसे दही, अक्षत का टीका लगाती, उसकी आरती करती तथा उसके ऊपर से मूसल, बट्टा आदि धुमाती हैं ।

परछना—क्रि० सं० [हिं० परछन] द्वार पर वारात लगने पर कन्या पक्ष की स्त्रियों का वर की आरती आदि करना परछन करना । उ०—निगम नीति कुछ रीति करि अरथ पाँवठे देत । बधुन सहित सुत परछि सब चली लिवाइ निकेत ।—तुलसी (शब्द०) ।

परछहियाँ^१—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिच्छाया] छाया । परछाई । उ०—खेलत ललित खेल वन महियाँ । चलत चहन लागे परछहियाँ ।—नद० अ०, पृ० २७५ ।

परछाई—सज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'परछाई' उ०—सखियन में अति हितु विसाखा जनु तन की परछाई ।—नद० अ०, पृ० ३६० ।

परछा^१—सज्ञा पुं० [सं० प्रशिच्छद्] १ वह कपडा जिससे तेली कोलू के बेल की आँखों में अँधोटी बाँधते हैं । २ जुलाहों की नली जिसपर वे सूत लपेटते हैं । सूत की फिरकी । घिरनी ।

परछा^२—सज्ञा पुं० [?] [स्त्री० अल्पा० परछी] १ बड़ी बटलोई । बडा देग । २. कड़ाई । कड़ाई । ३ मिट्टी का मझोला बरतन ।

परछा^३—सज्ञा पुं० [सं० परिच्छेद] बहुत सी वस्तुओं के घने समूह में से कुछ के निकल जाने से पडा हुआ अवकाश । विरलता । छीड़ । २ घनेपन या भीड़ की कमी । भीड़ का छटाव ।

क्रि० प्र०—करना ।—होना ।

३ समाप्ति । निवटेरा । चुकाव । फैसला ।

क्रि० प्र०—करना ।—होना ।

परछाई—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिच्छाया] १ प्रकाश के मार्ग में पडनेवाले किसी पिंड का आकार जो प्रकाश से भिन्न दिशा की ओर छाया या अंधकार के रूप में पडना है । किसी वस्तु की आकृति के अनुरूप छाया जो प्रकाश के अवरोध के कारण पडती है । छायाकृति । जैसे,—लडका दीवार पर अपनी परछाई देखकर डर गया ।

क्रि० प्र०—पडना ।

मुहा०—परछाई से डरना या भागना = (१) बहुत डरना । अत्यंत भयभीत होना । (२) पास तक आने से डरना । (३) दूर रहने की इच्छा करना । कोई लगाव रखना न चाहना (घृणा या आशंका से) ।

२ जल, दर्पण आदि पर पडा हुआ किसी पदार्थ का पूरा प्रतिरूप । प्रतिविब । अक्स ।

क्रि० प्र०—पडना ।

परछालना (७)—क्रि० सं० [सं० प्रचालन] जल से धोना । पखारना ।

परछाहीं (७)—सज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'परछाई' । उ०—उन्होंने कृष्ण के हृदय में अपनी परछाहीं देखकर यह समझ लिया कि इनके हृदय में कोई दूसरी गोपी बसती है ।—पोद्दार अभि० अ०, पृ० ११२ ।

परछे^१—सज्ञा पुं० [देश०] दे० 'परचे', 'परचै' । उ०—दरिया परछे नाम के, दूजा दिया न जाय ।—दरिया० वानी, पृ० ३६ ।

परजंक—सज्ञा पुं० [सं० पर्यङ्क] उ०—उतरत कहूँ परजक तै पग द्वै घरत ससक । कुम्हलान्यों अति ही परत आतप बदन मयक ।—स० सप्तक, पृ० ३५४ ।

परजत (७)—अव्य० [सं० पर्यन्त] १ पर्यंत । तक । उ०—ब्रह्मलोक परजत फिरथी तहँ देव मुनीजन साखी ।—सूर०, १।१० ।

परज^१—सज्ञा स्त्री० [सं० पराजिका] एक रागिनी जो गाधार, घनाश्री और मारु के मेल से बनी हुई मानी जाती है । इसके गाने का समय रात ११ बजे से १५ बजे तक है । स्वर इसमें ऋषभ और धैवत कोमल, तथा मध्यम तीव्र लगता है । यह हिंदोल राग की सहचरी मानी जाती है ।

परज^२—वि० [सं०] परजात । दूसरे से उत्पन्न ।

परज^२—सञ्ज्ञा पुं० कोकिल ।

परजन^(१)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिजन] दे० 'परिजन' । उ०—पाग मिरजई पहिनि, टेकि मसनद परजन पर।—प्रेमघन० भा० १, पृ० १४ ।

परजन^२—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] डेढ दो हाथ ऊंचा एक प्रकार का पोधा जो राजपूताने, पजाव और अफगानिस्तान की जोती बोई हुई भूमि में प्रायः पाया जाता है । इसमें पीले रंग के बहुत छोटे छोटे फूल लगते हैं ।

परजन^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] स्वजन का उलटा । जो आत्मिय न हो ।

परजरना^(१)—क्रि० अ० [सं० प्रज्वलन] १ जलना । दहकना । सुलगना । २ क्रुद्ध होना । कुढ़ना । उ०—सुनत वचन रावन परजरा । जरत महानल जन् पृत परा।—तुलसी (शब्द०) । ३ ईर्ष्या द्वेष से सतप्त होना । डाह करना ।

परजन्य^(१)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्जन्य] दे० 'पर्जन्य' । उ०—पर कारज देह को घारे फिरी परजन्य जयार्थ ह्वै दरसी।—घनानद, पृ०

परजवट—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] १ 'परजौट' ।

परजस्तापहनुति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पर्यस्तापहनुति] दे० पर्यस्तापहनुति । उ०—घर्म और में राखिए घर्मी साँधु छपाय । परजस्तापहनुति कहत ताहि बुद्धि सरसाय ।—मति० अ०, पृ० ३८० ।

परजा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रजा] १ प्रजा । रैयत । २ आश्रित जन । काम घधा करनेवाला । जैसे, नाई, वारी, घोड़ी इत्यादि । ३ जमींदार की जमीन पर बसनेवाला या खेती आदि करनेवाला । असामी ।

परजात^१—वि० [सं०] दूसरे से उत्पन्न । परज ।

परजात^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ कोकिल । कोयल । २ दूसरी जाति का मनुष्य । दूसरी विरादरी का आदमी । जैसे,—परजात को न्योता देने का क्या काम ?

परजाता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिजात] मझोले आकार का एक पेड़ जो भारतवर्ष में प्रायः सर्वत्र होता है । हरसिगार ।

विशेष—इसकी पत्तियाँ पाँच छह अंगुल लंबी और चार अंगुल चौड़ी होती हैं । ये आगे की ओर बहुत नुकीली होती हैं और इनके किनारे नीम की पत्ती के किनारों की तरह कुछ कुछ कटावदार होते हैं । यह पेड़ फूलों के लिये लगाया जाता है जो गुच्छों में लगते हैं । फूल छोटे छोटे और डंढीदार होते हैं । डंढी का रंग लाल या नारंगी और दलों का रंग सफेद होता है । सूखी हुई डंढियों को उबालकर पीला रंग निकाला जाता है । परजाता शरद ऋतु में फूलता है । फूल बराबर ऋतु रहते हैं, पेड़ में कम ठहरते हैं । पत्तियाँ दवा के काम आती हैं और बहुत गरम होती हैं । ज्वर में प्रायः लोग परजात की पत्ती देते हैं । इसे हरसिगार भी कहते हैं ।

परजाति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दूसरी जाति ।

परजापति, परजापती—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रजापति] १ राजा । नृपति । २ कुम्भकार । उ०—गुरु ज्ञाता परजापती सेवक माँटी रूप । रज्जव रज सूँ फेरि करि घडिले कुम्भ अनूप ।—रज्जव०, पृ० १६ ।

परजाय^(१)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्याय] दे० 'पर्याय' ।

परजौट—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० परजा + औट या औत (प्रत्य०)] १ घर बनाने के लिये सालाना किराए पर जमीन लेने देने का नियम । जैसे,—यह जमीन मैंने परजौट पर ली है । २ वह सालाना कर जो मकान बनाने के लिये ली हुई जमीन पर लगे

परठना^(१)—क्रि० अ० [सं० प्र + स्थापन] बनना । निर्मित होना । स्थापित होना । उ०—साल्ह चलतइ परठिया आगिन वीखडियाह । मो मई हियइ लगाडिया, भरि भरि मूठडियाह ।—ढोला०, दू० ३६६ ।

परणना^(१)—क्रि० सं० [सं० परिणय] व्याहना । विवाह करना । परिणय करना । उ०—परण पघारे राम जीत दुजराजन । तुरत करीजे त्यार साँमिलो साजन ।—रघु० क०, पृ० ६३ ।

परणाना^(१)—क्रि० सं० [सं० परिणय] विवाह कराना । व्याह कराना । उ०—वारइ बहतई आपणइ, कुँवर परणावो, सोऊ वीद ।—वी० रासो, पृ० ६ ।

परतगण—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परतङ्गण] महाभारत में वर्णित एक देश का प्राचीन नाम ।

परतंगी^(१)—वि० [सं० प्रतिज्ञा] प्रतिज्ञावाला । उ०—वहा कहीं हरि केतिक तारे, पावन पद परतंगी ।—सूर०, १।२१ ।

परतचा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रत्यञ्चा] दे० 'प्रत्यचा' । उ०—इसका दुबला शरीर काम की परतचा उत्तारी हुई बमान है ।—भारतेंदु अ०, भा० १, पृ० ३८१ ।

परततर^(१)—वि० [सं० परतन्त्र] पराधीन । परतत्र । उ०—श्रीरु सबै दुख भरे सरे अतर ही अतर । कालकूट से करे परे छिन छिन परततर ।—नद० अ०, पृ० २०५ ।

परतत्र^१—वि० [सं० परतन्त्र] पराधीन । परवश ।

परतत्र^२—सञ्ज्ञा पुं० १ उत्तम शास्त्र । २ उत्तम वस्त्र ।

परतत्र द्वैधीभाव—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परतन्त्र द्वैधीभाव] कामदक के अनुसार दो प्रवल और परस्पर विरोधी राज्यो के बीच में रहकर और किसी एक राज्य से कुछ धन या वापिक वृत्ति पाकर दोनों में मेल बनाए रखना जैसे, युरोपीय महायुद्ध के पहले अफगानिस्तान की स्थिति परतत्र द्वैधीभाव की थी, पर युद्ध के पीछे अब स्वतंत्र द्वैधीभाव की स्थिति है ।

परत—अव्य० [सं० परतस्] १. दूसरे से । अन्य से । २ पर से । शत्रु से । पश्चात् । पीछे । ४ परे । आगे ।

परत प्रमाण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जो स्वतः प्रमाण न हो । जिसे दूसरे प्रमाणों की अपेक्षा हो । जो दूसरे प्रमाणों के अनुकूल होने पर ही सबूत में कहा जा सके ।

परत—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पत्र, हिं० पत्र वा सं० पटल] १, मोटाई का फैलाव जो किसी सतह के ऊपर हो । स्तर । तह । जैसे,—

इसपर गीली मिट्टी की एक परत चढा दो। उ०—वाल्मीकी की परत पर परत जमने से ये चट्टानें चनी हैं।—शिवप्रसाद (शब्द०)। २. लपेटी जा सकनेवाली फैलाद की वस्तुओं (जैसे, कागज, कपडा, चमडा, इत्यादि) का इस प्रकार का मोड जिससे उनके भिन्न भिन्न भाग ऊपर नीचे हो जायें। तह। जैसे,—इस कपडे को परत लगाकर रख दो।

क्रि० प्र०—लगाना।

३ कपडे, कागज आदि के भिन्न भिन्न भाग जो जोड़ने से नीचे ऊपर हो गए हों। तह।

परतका—क्रि० वि० [सं० प्रत्यक्ष, हिं० परतच्छ, परतछ, परतख] सामने। प्रत्यक्ष। समक्ष। उ०—चापि परतक कटक चलाया, ऊपरि खान तराँ फिर आया।—रा० रू०, पृ० २८६।

परतख—क्रि० वि० [सं० प्रत्यक्ष] प्रत्यक्ष। खबरू। उ०—जिम सुपनतर पामियउ तिम परतख पामेसि। सज्जन मोती हार ज्यूँ कठा ग्रहण करेसि।—ढोला०, पृ० ५१३।

परतच्छ—क्रि० वि० [सं० प्रत्यक्ष] दे० 'प्रत्यक्ष'। उ०—अनुमान साक्षी रहित होत नही परमान। कह तुलसी परतच्छ जो सो कहु अमर को आन।—स० सप्तक, पृ० ४०।

परतछ—क्रि० वि० [सं० प्रत्यक्ष] दे० 'प्रत्यक्ष'। उ०—ताके आगे कहा मिसिर का अरवी को बल। इन सो सपनहुँ वैर किए पाए परतछ फल।—भारतेंदु ग्र०, भा० २, पृ० ८०६।

परतछि—क्रि० वि० [सं० प्रत्यक्ष] दे० 'प्रत्यक्ष'। उ०—परतछि आनि कै उपा मिलाई।—नद ग्र०, पृ० १२८।

परतल—सज्ञा पुं० [सं० पट (= वस्त्र) + तल (= नीचे)] लादनेवाले घोडे की पीठ पर रखने का बोरा या गून।

यौ०—परतल का टट्टू = लट्टू घोडा।

परतला—सज्ञा पुं० [सं० परितन (= चारों ओर खींचा हुआ)] चमड़े या मोटे कपडे की चौड़ी पट्टी जो कंधे से लेकर कमर तक छाती और पीठ पर से तिरछी होती हुई आती है और जिसमे तलवार लटकाई जाती है तथा कारतूस आदि रखे जाते हैं। उ०—दूजे पैसावरी परतला परि मन मोहत।—प्रमथन०, भा० १, पृ० १३।

परतली, परतल्ली—सज्ञा स्त्री० [हिं० परतल] दे० 'परतला'। उ०—कारतूसो की परतली उनके कंधो पर थी।—इंद्र०, पृ० २३।

परतषा—क्रि० वि० [हिं०] दे० 'प्रत्यक्ष'। उ०—ओ दरपन चित्रा-वलि केरा। परतष देख कुँअर जेहि हेरा।—चित्रा०, पृ० ११०।

परता—सज्ञा पुं० [हिं० परना] दे० 'पडता'।

परताजना—सज्ञा पुं० [देश०] सोनारो का एक औजार जिससे वे गहनो पर मछली के सेहरे का आकार बनाते हैं।

परताप—सज्ञा पुं० [सं० प्रताप] दे० 'प्रताप'। उ०—सुवा असीस दीन्ह बड साहू। बड परताप अखडित राजू।—जायसी ग्र०, पृ० ३२।

परताल—सज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पडताल'।

परतिचा—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रत्यञ्चा] दे० 'पतचिका'।

परतिग्या—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिज्ञा] दे० 'प्रतिज्ञा'। उ०—तुम सतत पालहु मम नेहू। आज मोर परतिग्या लेहू।

परतिच्छ—क्रि० वि० [सं० प्रत्यक्ष] दे० 'प्रत्यक्ष'। उ०—काम कहै सुनु सु दरी दरसन तीन प्रकार। स्वप्न चित्र परतिच्छ प्रिय प्रगट प्रेम विस्तार।—रसरतन, पृ० ३०।

परतिज्ञा—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिज्ञा] दे० 'प्रतिज्ञा'। उ०—हम भक्तनि के, भक्त हमारे। सुनि अर्जुन परतिज्ञा मेरी यह व्रत टरत न टारे।—सूर०, १।२७२।

परतिषा—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रत्यक्ष] दे० 'प्रत्यक्ष'। उ०—पाड्यो कहू कहू परतिष (इ) भाँड। झूठ कथइ छइ नै बोलइ छइ भाँण।—वी० रासो०, पृ० ४१।

परतिसठा—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिष्ठा] समान। प्रतिष्ठा। उ०—हमको कुल परतिसठा इतनी प्यारी नही है।—गोदान, पृ० १०२।

परतिहार—सज्ञा पुं० [सं० प्रतिहार] दे० 'प्रतिहार'। उ०—परतिहार सो कहा हकारी। अब जनि जान देहू कहूँ कारी।—चित्रा०, पृ० १२४।

परती—सज्ञा स्त्री० [हिं० परना (= पडना)] १ वह खेत या जमीन जो बिना जोती हुई छोड दी गई हो।

क्रि० प्र०—छोडना।—डालना।—पडना।

२ वह चद्दर जिससे हवा करके भूसा उडाते हैं।

मुहा०—परती लेना = चद्दर से हवा करके भूसा उडाना। बरसाना। शोसाना।

परतीक—क्रि० वि० [सं० प्रत्यक्ष, हिं० परतिप] दे० 'प्रत्यक्ष'। उ०—सखि तू कहै आन बहू के अधीन हैं सो परतीक किधौ सपनै।—केशव ग्र०, भा० १, पृ० ६।

परतीत, परतीति—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रतीति] दे० 'प्रतीति'। उ०—(क) जानतो जो इतनी परतीति ती प्रीति की रीति कौ नाम न लेती।—ठाकुर०, पृ० १७। (ख) खर बवार कन विदेश छाए, कनक ही के वश हुए। कह कौन सो परतीति जो कि शपथ, कर मेरे हुए।—आराधना, पृ० ६६।

परतेजना—क्रि० सं० [सं० परित्यजन] परित्याग करना। छोडना। उ०—जैसे उन मोको परतेजा कवहें फिर न निहारत है।—सूर (शब्द०)।

परतेला—क्रि० वि० [हिं० पडना] वह (रग) जो तैयार होने के लिये कुछ समय तक घोल या उवालकर रखा जाय। (रगरेज)।

परतोखा—सज्ञा पुं० [सं० परितोष] आश्वासन। परितोष। प्रमाण। उ०—इसी गाँव मे एक दो नही, दस बीस परतोख दे दूँ।—गोदान०, पृ० २१३।

परतोली—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रतोली] गली।—(हिं०)।

परत्र—क्रि० वि० [सं०] १ और जगह। अन्यत्र। २ पर काल मे। ३ परलोक मे। उ०—सो परत्र दुख पावे सिर धुनि धुनि पछिताइ। कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोम लगाइ।—मानस, ७।४३।

परत्रभीरु—वि० [सं०] जिसे परलोक का भय हो। धार्मिक।

परत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पर होने का भाव। पहले या पूर्व होने का भाव।

यौ०—परत्व अपरत्व = पहले पीछे का भाव।

विशेष—वैशेषिक में द्रव्य के जो २४ गुण माने गए हैं उनमें 'परत्व' 'अपरत्व' भी है। 'परत्व' 'अपरत्व' देश और काल के भेद से दो प्रकार के होते हैं—कालिक और देशिक। जैसे, 'उसका जन्म तुमसे पहले का है'। यह कालसवधी 'परत्व' हुआ। 'उसका घर पहले पढता है', यह देशसवधी 'परत्व' हुआ। देशसवधी परत्व अपरत्व का विपर्यय हो सकता है, पर कालसवधी परत्व अपरत्व का नहीं।

परथना—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पलेथन'।

परथम—क्रि० वि० [सं० प्रथम] पहले। उ०—(क) भक्ति मुक्ति सनेही सजन, लियो परथम चीन्ह हो।—धरम०, पृ० ३। (ख) सब ससार परथमै आए सातो दीप। एक दीप नहि उत्तम सिंहलद्वीप समीप।—जायसी ग्रं०, पृ० १०।

परधिर—वि० [सं० परम + स्थिर] गतिरहित। गतिहीन। निश्चल। उ०—गावहि गीत वजावहि वाजा। परधिर वाव भेद उपराजा।—चित्रा०, पृ० २६।

परथोका—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परितोप] दे० 'परतोख'।

परदक्षणा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रदक्षिणा] दे० 'प्रदक्षिणा'। उ०—दक्ष त्रयो रहै पुनि दक्ष प्रजापति जैसे। देत परदक्षणा न दक्षणा दे आप को।—सु दर ग्रं०, भा० २, पृ० ४८१।

परदक्षिणा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रदक्षिण] दे० 'प्रदक्षिणा'। उ०—करि प्रणाम परदक्षिण कीन्हा।—कवीर सा०, पृ० ५७८।

परदखना, परदखिना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रदक्षिणा] दे० 'प्रदक्षिणा'। उ०—(क) तन मन धन करौ वारनै परदखना दीजे। सीस हमारा जीव ले नौछावर कीजे।—दादू०, पृ० ५५६। (ख) परदखिना करि करहि प्रनामा।—मानस, २।२०१।

परदच्छिन्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रदक्षिण] दे० 'प्रदक्षिणा'। उ०—पाँव परसि परदच्छिन्न दिनिय।—प० रासो, पृ० ६१।

परदच्छिना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रदक्षिणा] दे० 'प्रदक्षिणा'।

परदक्षिना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रदक्षिणा] दे० 'प्रदक्षिणा'।

परदा—सञ्ज्ञा पुं० [फ्रा० परदह] वह कपडा, टट्टी आदि जिसके सामने पढने से कोई स्थान या वस्तु लोगों की दृष्टि से छिपी रहे। झाड करने के काम में आनेवाला कपडा, टाट, चिक आदि। पट। जैसे,—खिडकी में जो परदा लटक रहा है उसपर बहुत अच्छा काम है।

क्रि० प्र०—उठाना।—खड़ा करना।—गिराना।—हालना।

मुहा०—परदा उठाना = दे० 'परदा खोलना'। परदा खोलना = छिपी बात प्रगट करना। भेद का उद्घाटन करना। परदा हालना = छिपाना। प्रकट न होने देना। जैसे,—किसी के ऐदों पर परदा हालना। आँख पर परदा पढना = बुद्धि मंद होना। समझ में न आना। ढँका परदा = (१) छिपा हुआ

दोप या कलंक। (२) बनी हुई प्रतिष्ठा या मर्यादा। जैसे,—ढँका परदा रह जाय तो अच्छी बात है। (किसी का) परदा रखना = किसी की बुराई आदि लोगों पर प्रकट न होने देना। किसी की प्रतिष्ठा बनी रहने देना। उ०—मधुकर जाहि कहो सुन मेरो। पीत वसन तन श्याम जानि के राखत परदा तेरो।—दूर (शब्द०)।

२ झाड करनेवाली कोई वस्तु। बीच में इस प्रकार पढनेवाली वस्तु कि उसके इस पार से उस पार तक आना जाना, देखना आदि न हो सके। दृष्टि या गति का अवरोध करनेवाली वस्तु। व्यवधान। ३. रोक जिससे सामने की वस्तु कोई देख न सके या उसके पास तक पहुँच न सके। आट। श्रोट। ओम्हल। ४ लोगों की दृष्टि के सामने न होने की स्थिति। आड। श्रोट। छिपाव।

क्रि० प्र०—करना।—होना।

यौ०—परदानशीन।

मुहा०—परदा रखना = (१) परदे के भीतर रहना। सामने न होना। जैसे,—स्त्रियों मरदो से परदा रखती हैं। (२) छिपाव रखना। दुराव रखना। (किसी को) परदा लगाना = परदे में रहने की स्थिति प्राप्त होना। किसी के सामने न होने का नियम होना। जैसे,—(क) पहले तो मारी मारी फिरती थी अब इसे परदा लगा है। (ख) सामने आकर बयो नही कहते, क्या तुम्हें परदा लगा है? परदा होना = (१) परदा रखे जाने का नियम होना। स्त्रियों का सामने न होने देने का नियम होना। जैसे,—तुम देघडक भीतर चले जाओ तुम्हारे लिये यहाँ परदा नहीं है। (२) छिपाव होना। दुराव होना। जैसे,—तुमसे क्या परदा है, तुम सब हाल जानते ही हो। परदे बिठाना = (स्त्री को) परदे के भीतर रखना। परदे में रखना = (१) स्त्रियों को घर के भीतर रखना, बाहर लोगों के सामने न होने देना। (२) छिपा रखना। प्रकट न होने देना। परदे में रहना = (१) स्त्रियों का घर के भीतर ही रहना, लोगों के सामने न होना। अत पुर में रहना। जनानखाने में रहना। (२) छिपा रहना। प्रकट न होना। परदे परदे = छिपे छिपे। चुप चाप। गुप्त रूप से। परदे में छेद होना = परदे के भीतर भीतर व्यभिचार होना।

५ स्त्रियों के घर के भीतर रखने का नियम। स्त्रियों को बाहर निकलकर लोगों के सामने न होने देने की चाल। जैसे,—हिंदुस्तान में जबतक परदा नहीं उठेगा, स्त्रीशिक्षा का प्रचार अच्छी तरह नहीं हो सकता। ६ वह दीवार जो विभाग करने या श्रोट करने के लिये उठाई जाय। ७ तह। परत। तल। जैसे, जमीन का परदा, दुनिया का परदा। ८ वह झिल्ली, चमड़ा आदि जो कहीं पर झाड या व्यवधान के रूप में हो। जैसे, आँख का परदा, कान का परदा। ९ आँगरखे का वह भाग जो छाती के ऊपर रहता है। १० फारसी के वारह रागों में से प्रत्येक। ११ सितार, हारमोनियम आदि बाजों में वह स्थान

जहाँ से स्वर निकाला जाता है। १२ नाव की पाल।
१३ जवनिका। रगमच का पर्दा।

परदाज^१—वि० [फा० परदाज] १ सुसज्जित करनेवाला।
२ पोषक [को०]।

परदाज^२—सञ्ज्ञा पुं० १ सज्जा। सजावट। २. ढग। ३ सलग्नता।
तल्लीनता। ४ चित्र की बारीक रेखाएँ [को०]।

परदादा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्र+हिं० दादा] [स्त्री० परदादी]
पितामह। दादा का बाप। पढदादा।

परदानशील—वि० [फा०] परदे मे रहनेवाली। अत पुरवासिनी।
जैसे, परदानशील औरत।

परदार^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पर + दार] १ लक्ष्मी। २ पृथ्वी।
उ०—आनंद के कद सुरपालक से बालक ये, परदार प्रिय
साधु मन वच काय के।—रामच०, पृ० २१। ३. दूसरे
की स्त्री। पराई औरत। जैसे, परदाररत = पराई स्त्री पर
अनुरक्त।

परदार^२—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पहरेदार] पहरा देनेवाला। पहरेदार।
पौरिया। उ०—परदार पौरि दस दस प्रमान। राजत अनेक
भर सुभि थांन।—पृ० रा०, १६।६३।

परदारिक—वि० [सं०] परस्त्री लपट। परस्त्रीगामी [को०]।

परदारी—वि० [सं० परदारिन्] दे० 'परदारिक' [को०]।

परदुम्म^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रद्युम्न] दे० 'प्रद्युम्न'। उ०—तुम
परदुम्म और अनरुघ दोऊ। तुम अभिमन्यु बोल सब कोऊ।—
जायसी (शब्द०)।

परदूषण संधि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परदूषण सन्धि] सपूर्ण राज्य की
उत्पत्ति तथा फल देने की प्रतिज्ञा करके संधि करना (का-
मदक)।

परदेवता—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] परब्रह्म [को०]।

परदेश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विदेश। दूसरा देश। पराया शहर।

मुहा०—परदेश में छाना = दूसरे देश मे निवास करना। घर
पर न रहना (गीत)।

परदेशापवाहन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विदेशियों को बुलाकर उपनिवेश
बसाना (कौटिल्य)।

परदेशी—वि० [सं०] विदेशी। दूसरे देश का। अन्य देश निवासी।

परदेस—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परदेश] दे० 'परदेश'। उ०—ता पाछे
केतेक दिन को चाचा हरिवस जी गुजरात के परदेस को
गए।—दो सौ वावन०, भा० १, पृ० २८६।

परदोष—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रदोष] दे० 'प्रदोष'। उ०—जेठ सुदी सातै
परदोष की घरी घरी।—श्यामा०, पृ० १२६।

परदोस^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रदोष] दे० 'प्रदोष'।

परद्रोही—वि० [सं० परद्रोहिन्] दूसरे से दुश्मनी रखनेवाला।
उ०—परद्रोही की होइ निसका। कामी पुनि कि रहहि
अकलका।—मानस, ७।११२।

परद्वेषी—वि० [सं० परद्वेषिन्] दे० 'परद्रोही'।

परधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दूसरे की संपत्ति।

परधर^१—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पर + हिं० धरना] परो को धारण

करनेवाला पक्षी। उ०—वर लोहा दीठो अँग रघुवर, परधर
पडियो धरण पर।—रघु० रू०, पृ० १४०।

परधर्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दूसरे का धर्म [को०]।

परधान^१—वि० [सं० प्रधान] दे० 'प्रधान'।

परधान^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिधान] दे० 'परिधान'। उ०—मधि
मृगमद मलय कपूर सवनि के तिलक किए। उर मणिमाला
पहिराय सब विचित्र ठए। दान मान परधान पूरण काम
किए।—सूर (शब्द०)।

परधाम—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परधामन्] १. वैकुण्ठ धाम। परलोक।
२ ईश्वर। ३. विष्णु। उ०—अज सन्निदानद परधामा।—
तुलसी (शब्द०)।

परध्यान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ध्यान का वह स्वरूप जिसमे ध्येय के
अतिरिक्त और कोई भी नहीं रहता [को०]।

परन^१—सञ्ज्ञा पुं० [?] मृदग आदि बाजो को बजाते समय मुख्य
बोलों के बीच बीच से बजाए जानेवाले बोलों के खड।
उ०—आनंदधन रस रग धमड सो ललिता मृदग बजावति,
परन भरनि सी परति आवै गौहन।—धनानद, पृ० ३४५।

परन^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिज्ञा, प्रा० पडिण्या, अथवा सं० प्रण या
पण (= बाजी, शर्त)] प्रतिज्ञा। टेक। प्रण। वायदा।
दड सकल्प। उ०—जब रहली जननी के ओदर, परन
सम्हारल हो।—धरम०, पृ० ३५।

क्रि० प्र०—करना।—बाँधना।—होना।

परन^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पड़ना, पड़न] पड़ी हुई। वान। आदत।
उ०—राखो हटकि उतै को धावे उनकी वैसिय परन परी
री।—सूर (शब्द०)।

परन^४—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्य] दे० 'पर्य'। उ०—(क) पुनि
परिहरे सुखानेउ परना।—मानस, १।७४। (ख) सो
उपजे हैं आय ये परन कुटी के द्वार।—शकुतला, पृ० ७६।

यौ०—परनकुटी। परनगृह = दे० 'परनकुटी'।

परनकुटी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पर्याकुटी] दे० 'पर्याकुटी'। उ०—
परनकुटी छावन चहौ महि देव तुम बलराई हो।—कवीर
सा०, पृ० २७।

परनाम^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रणाम] दे० 'प्रणाम'। उ०—करि ऊघो
परनाम आए जसुमति नद पै।—पोहार अभि० ग्र०, पृ० ३५०।

परना^२—क्रि० अ० [हिं०] दे० 'पड़ना'।

परनाना^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर + हिं० नाना] [स्त्री० परनानी]
नाना का बाप।

परनाना^२—क्रि० सं० [सं० परिणयन] विवाह करना। व्याहना।
उ०—पुत्रन सँग पुत्री परनाई।—कवीर श०, भा० १,
पृ० ६१।

परनानी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० परनाना] नानी की माँ।

परनाम—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रणाम] दे० 'प्रणाम'। उ०—पर छूकर
जब परनाम करने लगा था तो माँ जी एकदम फूट फूटकर
रो पड़ी थी।—मैला०, पृ० ३८।

परनामी—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० परनाम] प्राणनाथ के संप्रदाय का व्यक्ति।

दे० 'प्रागुनायी' । उ०—घामी एक दूसरे के अभिवादन में परनाम कहते हैं—इसी कारण ये लोग परनामी भी कहलाते हैं ।—शुक्ल अभि० प्र०, पृ० ६६ ।

परनाल—सज्ञा पुं० [हि० परनाला] जहाज में पेशाव करने की मोरी (लश०) ।

परनाला—सज्ञा पुं० [सं० प्रणाली] [स्त्री० अल्पा० परनाली] वह मार्ग जिससे घर में का मल या पानी बहकर बाहर निकलता है । पनाला । नावदान । मोरी ।

परनाली—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रणाली] १ छोटा परनाला । मोरी । उ०—आली तो कुच सैल तें नाभिकुड को जाय । रोमाली न सिंगार की परनाली दरसाय ।—स० सप्तक, पृ० २५५ । २ अच्छे घोड़ों की पीठ का (पुट्टों और कर्धों की प्रपेक्षा) नीचापन जो उनकी तेजी प्रकट करता है ।

क्रि० प्र०—करना ।

परनि①—सज्ञा स्त्री० [हि० पदना, पदन] पढी हुई वान । श्रावत । टेव । उ०—(क) सूरदास तैसहि ये लोचन का घों परनि परी री ।—सूर (शब्द०) । (ख) ऐसी परनि परी री जाको लाज कहा हूँ है तिनको ? —सूर (शब्द०) ।

परनिपात—सज्ञा पुं० [सं०] समास में वह शब्द जो पहले आने योग्य हो पर वाद में रखा जाय । पहले आने योग्य शब्द का वाद में रखना । जैसे, भूतपूर्व में 'पूर्व' शब्द [को०] ।

परनी①—सज्ञा स्त्री० [सं० परिणीया, परिणिया] कन्या जो विवाह योग्य हो ।

परनी—सज्ञा स्त्री० [सं० पर्या, हि० परन] रंगी का महीन पत्तर जिसमें सुनहली या रुपहली चमक होती है और जिसे सजावट के लिये चिपकाते हैं । पन्नी ।

परनीत①—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रनमन, हि० परनचना] प्रणति । प्रणाम । नमस्कार । उ०—ताते तुमको करत दहौत । अरु सब नरहूँ को परनीत ।—सूर (शब्द०) ।

परपच①—सज्ञा पुं० [सं० प्रपच] दे० 'प्रपच' । उ०—सुखदायक हूती चतुर करि परपच बनाय । छरि जु निसातम सुवसु करि नवलहि दई मिलाय ।—स० सप्तक, पृ० २४० ।

परपंचक①—वि० [सं० प्रपञ्चक] बखेडिया । फसादी । जालिया । मायावी ।

परपचिनि①—वि० [हि० परपची] परपच करनेवाली । उ०—परपचिनि तुम ग्वालि झूठ ही मोहि बुलायो ।—नद० प्र०, पृ० १६८ ।

परपंची①—वि० [सं० प्रपञ्ची] १ बखेडिया । फसादी । २. भूर्त । मायावी । उ०—सब दल होइ हृष्यार चलहु अब धेरहि जाई । परपची हैं कान्ह कछु मति करे छिटाई ।—सूर (शब्द०) ।

परपक्ष—सज्ञा पुं० [सं०] १ विरुद्ध पक्ष । विरोधियों का दल । २. विपक्षी की बात । मत का विरोध करनेवाले की बात ।

परपट—सज्ञा पुं० [हि० पर + पट (= चादर)] चौरस मैदान । समतल भूमि ।

परपटी—सज्ञा स्त्री० [सं० परपटी] दे० 'परपटी' ।

परपद्—सज्ञा पुं० [म०] १ दे० 'परमपद' । २. पर अर्थात् शत्रु का स्थान । परराष्ट्र (को०) ।

परपरा—वि० [अनु०] चरपरा ।

परपराना—क्रि० प्र० [अ०] मित्र आदि कडवी चीजों का जीभ या शरीर के और किसी भाग में एक विशेष प्रकार का उग्र संवेदन उत्पन्न करना । तीक्ष्ण लगना । चुनचुनाना ।

परपराहट—सज्ञा स्त्री० [हि० परपराना + आहट (प्रत्य०)] परपराने का भाव । चुनचुनाहट ।

परपाकनिवृत्त—वि० [म०] जो दूसरे के उद्देश्य से भोजन न निवाले । पचयज्ञ न करनेवाला (गृहस्थ) ।

विशेष—मिताक्षरा में कहा है कि ऐसे मनुष्य का अन्न भोजन करनेवाले ब्राह्मण को प्रायश्चित्त करना चाहिए ।

परपाकरत—वि० [सं०] जो स्वयं पंचयज्ञ करके दूसरे का दिया अन्न भोजन करके रहे ।

विशेष—मिताक्षरा के अनुसार ऐसे का अन्न भोजन करनेवाले ब्राह्मण को प्रायश्चित्त करना चाहिए ।

परपाजा—सज्ञा पुं० [सं० पर + पर + हि० आज्ञा] [स्त्री० परपाजी] आज्ञा या दादा का बाप । पितामह का पिता । प्रपितामह ।

परपार—सज्ञा पुं० [सं०] उस ओर का तट । दूसरी तरफ का किनारा । उ०—सील सुधा के अगार सुखमा के पारावार पावत न परपार पैरि पैरि थाके हैं ।—तुलसी (शब्द०) ।

परपिंड—सज्ञा पुं० [सं० परपिण्ड] पराया अन्न । परान्न (को०) ।

परपिंडाद्—सज्ञा पुं० [सं० परपिण्डाद्] १ परान्नोपजीवी । दूसरे का अन्न खाकर जीनेवाला । २ सेवक । नौकर (को०) ।

परपीडक—वि० [सं०] १ दूसरे को पीडा या दुख पहुँचानेवाला । २ पराई पीडा को समझनेवाला । दूसरे की दुख की ओर ध्यान देनेवाला ।

परपीरक①—वि० [सं० परपीडक] दे० 'परपीडक'—२ । उ०—मागध हति राजा सब छोरे ऐसे प्रभु परपीरक ।—सूर (शब्द०) ।

परपुरजय—सज्ञा पुं० [म० परपुरञ्जय] शत्रु के नगर को जीतनेवाला । वीर । विजेता (को०) ।

परपुरप्रवेश—सज्ञा पुं० [सं०] १ शत्रु के नगर में प्रवेश करना । २ भाव को चुरानेवाले कवियों की एक रीति । उ०—भावापहरण की एक अन्य 'परपुरप्रवेश' नामक रीति है, जिसके भेद निम्नलिखित हैं ।—संपूर्णनिद अभि० प्र०, पृ० १६४ ।

परपुरुष—सज्ञा पुं० [सं०] १ पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष । २ परम पुरुष । विष्णु । ३ अज्ञाना व्यक्ति । अजनवी ।

परपुष्ट^१—वि० [सं०] अन्य द्वारा पोषित । जिसका दूसरे ने पोषण किया हो ।

परपुष्ट^२—सज्ञा पुं० [सं०] कोकिल । कोयल ।

विशेष—कहते हैं, कोयल कीए के अड़े को हटाकर अपना अड़ा

उसके नीड में रख देती है। कोयल के उस बच्चे को कौआ अपना बच्चा समझ पालता है।

परपुष्टमहोत्सव—सज्ञा पुं [सं०] आम का पेड़ (जिससे कोयल को बड़ा आनंद होता है)।

परपुष्टा—सज्ञा स्त्री [सं०] १ पराश्रया। वेश्या। २ परगाद्या। वांदा। वदाक।

परपूठा—वि० [सं० परिपुष्ट, प्रा० परिपुट्ठ] पक्का। उ०—कविरा तहाँ न जाइए जहाँ कपट को चित्त। परपूठा भवगुन घना मुँहड़े ऊपर मित्त।—कवीर (शब्द०)।

परपूर्वा—सज्ञा स्त्री [सं०] वह स्त्री जो अपने पहले पति को छोड़ दूसरा पति करे।

विशेष—क्षता और अक्षता दो प्रकार की परपूर्वा कही गई हैं। नारद ने सात भेद बतलाए हैं—तीन प्रकार की पुनर्भू और चार प्रकार की स्वरिणी।

परपैठ—सज्ञा स्त्री [हिं० पर (= दूसरा) + पैठ (= बाजार)] हुडी की तीसरी नकल। हुडी की तीसरी प्रतिलिपि।

परपोता—सज्ञा पुं [सं० प्रपौत्र] पोते का वेटा। पुत्र के पुत्र का पुत्र।

परपौत्र—सज्ञा पुं [सं०] प्रपौत्र का पुत्र। पोते के वेटे का वेटा।

परप्रपौत्र—सज्ञा पुं [सं०] दे० 'परपौत्र'।

परप्रेष्य—सज्ञा पुं [सं०] [स्त्री० परप्रेष्या] दास। सेवक। नौकर।

परप्रेष्या—सज्ञा स्त्री [सं०] दासी। नौकरानी। सेविका [को०]।

परफुल्ल—वि० [सं० प्रफुल्ल] दे० 'प्रफुल्ल'।

परफुल्लित—वि० [सं० प्रफुल्ल + इत (प्रत्य०)] दे० 'प्रफुल्ल'।

परवचन—सज्ञा स्त्री [सं० प्रवञ्चना] दे० 'प्रवचना'।

परवन्द—सज्ञा पुं [सं० परवन्ध] नाच की एक गत जिसमें दोनों पैर इस प्रकार खड़े रखते हैं कि कमर पर दोनों कुहनियाँ सटी रहती है।

परवंध—सज्ञा पुं [सं० प्रवन्ध] दे० 'प्रवध'।

परव—सज्ञा पुं [सं० पर्वन्] दे० 'पर्व'। उ०—राम तिलक हित मंगल साजा। परव जोग जनु जुरेउ समाजा।—मानस, १।४१।

परव^२—सज्ञा स्त्री [सं० पर्व (= पोर, खड)] किसी रत्न वा जवाहिर का छोटा टुकड़ा।

परवत—सज्ञा पुं [सं० पर्वत] दे० 'पर्वत'। उ०—परवत मे कदरा, तहाँ किन्नर सु विराजै।—पृ० रा०, १।३८६।

परवता—सज्ञा पुं [सं० पर्वत] दे० 'परवत्ता'। पर्वती सुग्गा। उ०—राजा चला सँवरि सो लता। परवत कहँ जो चला परवता।—जायसी ग्र०, पृ० ६६।

परवत्ता—सज्ञा पुं [सं० पर्वत] पहाड़ी तोता या सुग्गा जो देशी तोते से बड़ा होता है और जिसके दोनों डैनों पर लाल दाग होते हैं। करमेल।

परवल—वि० [सं० प्रवल] दे० 'प्रवल'। उ०—पाँच जने परवल परपची उलटि परे बदीखाने।—घरनी०, पृ० १४।

परवला—सज्ञा पुं [हिं०] दे० 'परवल'।

परवस—सज्ञा पुं, वि० [सं० परवश] दे० 'परवश'। उ०—मन ही मन मुरभाय रहति ही तन परवस गुरजन की घेरी।—घनानंद, पृ० ४२८।

परवसताई—सज्ञा स्त्री [सं० परवश्यता + ई (प्रत्य०)] पराधीनता। परतत्रता। उ०—हरि विरचि हर हेरि राम प्रेम परवसताई। सुख समाज रघुराज के वरनत विसुद्ध मन मुरनि सुमन भरि लाई।—तुलसी (शब्द०)।

परवाज—सज्ञा स्त्री [फा० परवाज] दे० 'परवाज'। उ०—देखो उस बादशाह के नयन के वाज। मोहन के रूप के तोती पर परवाज।—दक्खिनी०, पृ० ३१४।

परवाल^१—सज्ञा पुं [हिं० पर (= दूसरा) + बाल (= रोयाँ)] आँख की पलक पर वह फालतू निकला हुआ बाल या विरनी जिसके कारण बहुत पीडा होती है।

परवाल^२—सज्ञा पुं [सं० प्रवाल] दे० 'प्रवाल'।

परवाल^३—सज्ञा स्त्री [सं० परवाला] परस्त्री। परकीया नायिका। उ०—पी चूमे परवाल लखि बालहि गुरुजन साथ। कचनि परसि, बाहँ धरे कुचनि खरे पर हाथ।—स० सप्तक, पृ० २७४।

परवास—सज्ञा पुं [सं० प्रवास] दे० 'प्रवास'।

परवी—सज्ञा स्त्री [सं० पर्वन्] १ पर्व का दिन। उत्सव का दिन। पुरयकाल। उ०—ऐसी परवी पाय नही तुम महिमा जानी।—पलद्व०, पृ० १६। ३ त्यौहारी। पर्व पर प्राप्त धन आदि।

परवीन—वि० [सं० प्रवीण] दे० 'प्रवीण'। उ०—सदा रूप गुन रीमि पिय जाके रहे अचीन। स्वाधीन पतिका तिय वरनत कवि परवीन।—मति ग्र०, पृ० ३०६।

परवेश—सज्ञा पुं [सं० परिवेष] दे० 'परिवेष'। उ०—पूरन चद पियूष मयूष मनो, परवेश की रेख विराजै।—मति० ग्र०, पृ० ३४६।

परवेश—सज्ञा पुं [सं० प्रवेश] दे० 'प्रवेश'।

परवोध—सज्ञा पुं [सं० प्रवोध] दे० 'प्रवोध'।

परवोधना—क्रि० सं [सं० प्रवोधन] १ जगाना। २ ज्ञानोपदेश करना। ३. प्रवोध देना। दिलासा देना। तसल्ली देना। ढाढ़स बँधाना। ममभाना। उ०—पुनि यह कहा मोहि परवोधत धरनि गिरी मुरझैया।—सूर। (शब्द०)।

परव्यत—सज्ञा पुं [सं० पर्वत] दे० 'पर्वत'। उ०—मानो प्रतच्छ परव्यत की नभ लीक लसी कपि यो धुकि घायो।—तुलसी ग्र०, पृ० १६६।

परब्रह्म—सज्ञा पुं [सं०] ब्रह्म जो जगत से परे है। निर्गुण निरुपाधि ब्रह्म।

परभजन—सज्ञा पुं [सं० प्रभञ्जन] दे० 'प्रभजन'। उ०—सहित परभजन की गति धरे अवर विराजै प्रगटावै तिथ तन काम।—पोद्दार अभि० ग्र०, पृ० ४८८।

परभव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जन्मांतर । दूसरा जन्म ।

परभा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रभा] दे० 'प्रभा' ।

परभाइ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रभाव] दे० 'प्रभाव' ।

परभाग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ दूसरी ओर का भाग । २ पश्चिम भाग । ३ शेष भाग । बचा हुआ भाग । ४ गुणोत्कर्ष । उत्कृष्टता । अच्छापन । ५, सुसपदा । ६ प्रचुरता । आधिक्य (को०) ।

परभाग्योपजीवी—वि० [सं० परभाग्योपजीविन्] दूसरे की कमाई खाकर रहनेवाला ।

परभात—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रभात] दे० 'प्रभात' । उ०—(क) हरष हृदय परभात पयाना ।—मानस, १ । (ख) कहीं सुनी ब्रज ही के बात । ब्रज बसि लखीं साँझ परभात ।—घनागद, पृ० ३२४ ।

परभाती—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रभाती] दे० 'प्रभाती' । उ०—इतने ही में किसी महात्मा ने ऐसी परभाती गाई कि फिर वह आकाश सपत्ति हाथ न आई ।—श्यामा० पृ० ५ ।

परभाव—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रभाव] दे० 'प्रभाव' । उ०—यह सब कलयुग को परभाव । जो नृप के मन भयो कुठाव ।—सूर (शब्द०) ।

परभास—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रभास] प्रभास तीर्थ । उ०—श्लोघ काल प्रत्यक्ष ही कियो सकल कौ नास । सुंदर कौरव पाडुवा छपन कोटि परभास ।—सुंदर ग्रं०, भा० २, पृ० ७०६ ।

परभुक्त—वि० [सं०] वि० [वि० स्त्री० परभुक्ता] अन्य द्वारा उपभुक्त [को०] ।

परभुक्ता—वि० स्त्री० [सं०] दूसरे की भोगी हुई । (स्त्री) जिसके साथ पहले दूसरा समागम कर चुका हो ।

परभुमि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पर + भूमि] दे० 'परदेश' । उ०—गुनी पुरिष जो परभुमि आई । त्यो त्यो महँग मोल विकार्य ।—माघवानल०, पृ० १६३ ।

परभूसा—वि० [सं० प्रभूत] प्रचुर । प्रभूत । उ०—रूप सुवरन देखें परभूता । करै घनी उपजावै दूता ।—इद्रा०, पृ० १६३ ।

परभृत्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] काक । कौआ [को०] ।

परभृत्^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कोयल । कोकिल (जो कौए के द्वारा पाली जाती है) ।

परभृत्^२—वि० अन्य द्वारा पालित या पोषित [को०] ।

परम^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ शिव । २ विष्णु । ३ अकार । प्रणव (को०) । ४ वह व्यक्ति या वस्तु जो सर्वोच्च हो (को०) ।

परम^२—वि० १ सबसे बड़ा चढ़ा । अत्यंत । हृद से ज्यादा । २ जो बढ़ चढकर हो । उत्कृष्ट । ३ प्रधान । मुख्य । ४ आद्य । आदिम । ५. बहुत अधिक अत्यधिक (को०) । ६. सबसे निकृष्ट या खराब (को०) ।

परमक—वि० [सं०] सर्वोच्च । सर्वोत्तम । सर्वोत्कृष्ट (को०) ।

परमकांड—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परमकाण्ड] अत्यंत शुभ या आनंददायक समय [को०] ।

परमक्रांति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परमक्रान्ति] सूर्य की 'शेष क्रान्ति [को०] ।

परमक्खर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परमाक्षर] ओकार । ब्रह्म । सत्य । उ०—जपै चद विरह मोहि परमक्खर सुभक्त ।—पृ० रा० ।

परमगति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] उत्तम गति । मोक्ष । मुक्ति ।

परमगव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] उत्कृष्ट गाय या दैल [को०] ।

परमगहन—वि० [सं०] अत्यंत गूढ़ । अतीव क्लिष्ट । अति जटिल [को०] ।

परमगूढ—वि० [सं०] परम गहन ।

परमजा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रकृति ।

परमज्या—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] इद्र ।

परमट^१—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] संगीत में एक ताल ।

परमट^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परमिट] २ वह कर या महसूल जो विदेश से आने जानेवाले माल पर लगता है । कर । महसूल । चुगी ।

परमट हाउस—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० परमट + अ० हाउस] दे० 'कस्टम हाउस' ।

परमतत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मूल तत्व जिससे सपूर्ण विश्व का विकास है । मूल सत्ता । २ ब्रह्म । ईश्वर ।

परमद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अत्यंत मद्य पीने से होनेवाला एक रोग, जिसमें शरीर भारी रहता है, मुँह का स्वाद विगड़ता रहता है, प्यास अधिक लगती है, माथे शरीर शरीर के जोड़ों में दर्द होता है । उ०—है विस मो प्यारी मन माहीं । परमद छवि मुख ऊपर नाहीं ।—इद्रा०, पृ० ३७ ।

परमदेवी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] महासामंत की स्त्री की उपाधि ।

विशेष—सतलज नदी तटस्थ मर्मद ग्राम में महासामंत शब्द तथा महाराज समुद्रसेन के लेख में महासामंत की स्त्री के लिये परमदेवी शब्द का प्रयोग किया गया है ।

परमधाम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वैकुण्ठ ।

परमनेट—वि० [अ०] स्थायी । स्थिर । कायम । जैसे,—परमनेट अडर सेक्रेटरी ।

परमन्यु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] यदुवशी कक्षेयु के पुत्र का नाम ।

परमपद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सबसे श्रेष्ठ पद । सर्वोच्च स्थान । २, मोक्ष । मुक्ति । उ०—लीजै साहिव का नाम, परम पद पाइए ।—कवीर श०, पृ० ४१ ।

परमपिता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परमपितृ] परमेश्वर ।

परमपुरुष, परमपूरुष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. परमात्मा । २. विष्णु ।

परमप्रख्य—वि० [सं०] बहुत प्रसिद्ध [को०] ।

परमफल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सबसे उत्तम फल या परिणाम । २ मोक्ष । मुक्ति ।

परमब्रह्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ परब्रह्म । २ ईश्वर ।

परमब्रह्मचारिणी—सच्चा स्त्री [सं०] दुर्गा ।

परममट्टारक—सच्चा पुं० [सं०] एकच्छत्र राजाओं की एक प्राचीन उपाधि ।

परममट्टारिका—सच्चा स्त्री [सं०] १ प्राचीन काल में प्रयुक्त साम्राज्ञी की उपाधि । २ रानियों की एक सम्मानसूचक उपाधि ।

परममहत्—वि० [सं०] सबसे बड़ा और व्यापक ।

विशेष—काल, आत्मा, आकाश और दिक् ये सर्वगत होने के कारण परम महत् कहलाते हैं ।

परममहाभट्टारक—सच्चा पुं० [सं०] प्राचीन काल में महाराजाधिराजों की उपाधि ।

परमरस—सच्चा पुं० [सं०] पानी मिला हुआ मट्टा । जलमिश्रित तक्र ।

परमर्हिदेव—सच्चा पुं० [सं०] महोदे के एक चदेलवशी राजा जो आल्हा में राजा परमाल के नाम से प्रसिद्ध हैं । पृथ्वीराज ने इनपर चढ़ाई करके इनको अधीन किया था ।

परमर्मज्ञ—वि० [सं०] परकीय मन का ज्ञाता । दूसरे के भेद को जाननेवाला [को०] ।

परमर्षि—सच्चा पुं० [सं०] महान ऋषि [को०] ।

परमल^१—सच्चा पुं० [सं० परिमल (= फूटा हुआ, मला हुआ ?)] ज्वार या गेहूँ का एक प्रकार का भुना हुआ दाना या चबेना ।

विशेष—इसे बनाने के लिये पहले ज्वार को भिगोकर कूटते हैं और फिर भाँड में भून लेते हैं ।

परमल^२—सच्चा पुं० [सं० परिमल] दे० 'परिमल' । उ०—अरुँड बस लागें नही गुरु चदन की बास । रीते रहे गठीले पोले रज्जव परमल पास ।—रज्जव०, पृ० १२ ।

परमली, परमल—वि० [हि० परिमल + ई] १ परिमल सबधी । पुष्पपराग का । जिसमें परिमल हो । उ०—(क) सहस गुजार में परमली झाल है, झिलमिली उलटि के पौन भरना ।—पलदू०, पृ० ३० । (ख) राधे उषटत परमल प्रगटत अद्भुत शोप । मैन, फिरंगी की मनी छूटन लागी तोप ।—भ्रज० प्र०, पृ० १६ ।

परमहस—सच्चा पुं० [सं०] १ संन्यासियों का एक भेद । वह संन्यासी जो ज्ञान की परमावस्था को पहुँच गया हो अर्थात् 'सच्चिदानन्द ब्रह्म में ही हूँ' इसका पूर्ण रूप से अनुभव जिसे हो गया हो । उ०—संन्यासी कहावै तो तू तीन्यो लोक न्यास करि सुंदर परमहस होइ या सिधत है ।—सुंदर श०, भा० २, पृ० ६१२ ।

विशेष—कुटीचक, बहूदक, हस और परमहस जो चार प्रकार के अवधूत कहे गए हैं उनमें परमहस सबसे श्रेष्ठ है । जिस प्रकार संन्यासी होने पर शिखासूत्र का त्याग कर दंड ग्रहण करते हैं उसी प्रकार परमहस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर दंड की भी आवश्यकता नहीं रह जाती । निर्यासिंधु में लिखा है कि जो परमहस विद्वान् न हो उन्हें एक दंड धारण करना चाहिए पर जो विद्वान् हो उन्हें दंड की कोई आव-

श्यकता नहीं । परमहस आश्रम में प्रवेश करने पर मनुष्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्त समझा जाता है । उसके लिये श्राद्ध, सव्या, तर्पण आदि आवश्यक नहीं । देवाचंन आदि भी उसके लिये नहीं हैं, किसी को नमस्कार आदि करने से उसे कोई प्रयोजन नहीं । उसे अघ्यात्मनिष्ठ होकर निदं द्व और निराग्रह भाव से ब्रह्म में स्थित रहना चाहिए । पर आजकल कुछ परमहस देवमूर्तियों का पूजन आदि करते हैं, पर नमस्कार नहीं करते ।

२ परमात्मा । उ०—परमहस तुम सबके ईस । बचन तुम्हारी श्रुति जगदीस ।—सूर (शब्द०) ।

परभांगना—सच्चा स्त्री [सं० परमाङ्गना] श्रेष्ठ महिला । अच्छी स्त्री [को०] ।

परमा^१—सच्चा स्त्री [सं०] चव्य ।

परमा^२—सच्चा स्त्री शोभा । छवि । खूबसूरती । उ०—बानी मधुरी बास बन परमा परम विसाल ।—दीनदयाल (शब्द०) ।

विशेष—यह प्रयोग 'अमरकोश' के 'सुषमा परमा शोभा' में 'परमा' विशेषण को पर्याय समझने के कारण चल पडा है ।

परमा^३—सच्चा पुं० [सं० प्रमेह] प्रमेह रोग ।

परमात्तर—सच्चा पुं० [सं०] अकार । ब्रह्म [को०] ।

परमाटा^१—सच्चा पुं० [देश०] सगीत में एक ताल ।

परमाटा^२—सच्चा पुं० [अ० परमटा] एक प्रकार का चिकना, चमकीला और दबीज कपडा ।

विशेष—परमाटा आस्ट्रेलिया में एक स्थान है । वहाँ से जो ऊन आता था उससे एक प्रकार का कपडा बनता था जिसका ताना सूत का और बाना ऊन का होता था । उसी को परमाटा कहते थे । पर अब परमाटा सूत का ही बनता है ।

परमाटिक—सच्चा पुं० [सं०] यजुर्वेद की एक शाखा का नाम [को०] ।

परमाणु^१—सच्चा पुं० [सं० प्रमाण] दे० 'प्रमाण' । उ०—चरण देखाड तो परमाणु । स्वामी माहुरे नैणो निरखू माँगू ये ज मान ।—दादू०, पृ० ५६१ ।

परमाणु^२—सच्चा पुं० [सं०] अत्यंत सूक्ष्म अणु । पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चार भूतों का वह छोटे से छोटा भाग जिसके फिर विभाग नहीं हो सकते ।

विशेष—वैशेषिक में चार भूतों के चार तरह के परमाणु माने हैं—पृथ्वी परमाणु, जल परमाणु, तेज परमाणु और वायु-परमाणु । पाँचवाँ भूत आकाश विभु है । इससे उसके टुकड़े नहीं हो सकते । परमाणु इसलिये मानने पडे हैं कि जितने पदार्थ देखने में आते हैं सब छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं । इन टुकड़ों में से किसी एक को लेकर हम बराबर टुकड़े करते जायें तो अंत में ऐसे टुकड़े होंगे जो हमें दिखाई न पड़ेंगे । किसी छेद से आती हुई सूर्य की किरणों में जो छोटे छोटे कण दिखाई पडते हैं उनके टुकड़े करने से अणु होंगे । ये अणु भी जिन सूक्ष्मति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होंगे उन्ही

का नाम परमाणु रखा गया है। न्याय और वैशेषिक के मत से इन्हीं परमाणुओं के संयोग से पृथ्वी आदि द्रव्यों की उत्पत्ति हुई है जिसका क्रम प्रशस्तपाद भाष्य में इस प्रकार लिखा गया है।

जब जीवों के बर्मकाल के भोग का समय आता है तब महेश्वर की उस भोग के अनुकूल सृष्टि करने की इच्छा होती है। इस इच्छा के अनुसार जीवों के अदृष्ट के बल से वायु परमाणुओं में चलन उत्पन्न होता है। इस चलन से उन परमाणुओं में परस्पर संयोग होता है। दो दो परमाणुओं के मिलने से द्व्यणुक उत्पन्न होते हैं। तीन द्व्यणुक मिलने से 'त्रसरेणु'। चार द्व्यणुक मिलने से 'चतुरणुक' इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार एक महान् वायु उत्पन्न होता है। उसी वायु में जल परमाणुओं के परस्पर संयोग से जलद्व्यणुक जलत्रसरेणु आदि की योजना होते होते महान् जलनिधि उत्पन्न होता है। इस जलनिधि में पृथ्वी परमाणुओं के संयोग से द्व्यणुकादि क्रम से महापृथ्वी उत्पन्न होती है। उसी जलनिधि में तेजस् परमाणुओं के परस्पर संयोग से महान् तेजोराशि की उत्पत्ति होती है। इसी क्रम से चारों महाभूत उत्पन्न होते हैं। यही संक्षेप में वैशेषिकों का परमाणुवाद है।

परमाणु अत्यंत सूक्ष्म और केवल अनुमेय है। अतः 'तर्कामृत' नाम के एक नवीन ग्रन्थ में जो यह लिखा गया है कि सूय की आती हुई किरणों की बीच जो धूल के कण दिखाई पड़ते हैं उनके छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, वह प्रामाणिक नहीं है। वैशेषिकों का सिद्धांत है कि कारण गुणपूर्वक ही कार्य के गुण होते हैं, अतः जैसे गुण परमाणु में होंगे वैसे ही गुण उनसे बनी हुई वस्तुओं में होंगे। जैसे, गंध, गुरुत्व आदि जिस प्रकार पृथ्वी परमाणु में रहते हैं उसी प्रकार सब पार्थिव वस्तुओं में होते हैं।

आधुनिक रसायन और भौतिक वा भूत विज्ञान द्वारा प्राचीनों की मूलभूत और परमाणुसंबन्धी धारणा का बहुत कुछ निराकरण हो गया है। प्राचीन लोग पञ्चमहाभूत मानते थे, जिनमें से आकाश को छोड़ शेष चार भूतों के अनुसार चार प्रकार के परमाणु भी उन्हें मानने पड़े थे। पर इन चार भूतों में से अब तीन तो बड़े मूल भूतों के योग से बने पाए गए हैं। जैसे, जल दो गैसों (वायु से भी सूक्ष्म भूत) के योग से बना सिद्ध हुआ। इसी प्रकार वायु में भी भिन्न गैसों का संयोग विश्लेषण द्वारा पाया गया। रहा तेज, उसे विज्ञान भूत नहीं मानता केवल भूत की शक्ति (गति शक्ति) का एक रूप मानता है। ताप से परिमाण (तौल) की वृद्धि नहीं होती। ठंडे लोहे का जो वजन रहेगा वही उसे तपाने पर भी रहेगा। अस्तु, आधुनिक रसायनशास्त्र में शताधिक मूल भूत माने गए हैं, जिनमें से कुछ तो धातुएँ हैं जैसे ताँबा, सोना, लोहा, सीसा, चाँदी, रौंदा, जस्ता, कुछ और खनिज हैं, जैसे, गंधक, फासफरस,

पोटासियम, अजन, पारा, हृहत्ताल, तथा कुछ गैस हैं, जैसे, आक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि। इन्हीं मूल भूतों के अनुसार परमाणु आधुनिक रसायन में माने जाते हैं। पहले समझा जाता था कि ये अविभाज्य हैं। अब इनके भी टुकड़े कर दिए गए हैं।

परमाणुबम—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परमाणु + अ० बम] यूरेनियम तथा और परमाणुओं को तोड़कर बनाया गया एक महाविध्वंसक बम जिसका निर्माण सबसे पहले अमेरिका ने द्वितीय महायुद्ध के समय किया जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अमेरिका ने इसे छोड़ा जिससे पूरा नगर और आवादी समाप्त हो गई।

परमाणुवाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] न्याय और वैशेषिक का यह सिद्धांत कि परमाणुओं से जगत् की सृष्टि हुई है।

विशेष—वैशेषिक और न्याय दोनों पृथ्वी आदि चार महाभूतों की उत्पत्ति चार प्रकार के परमाणुओं के योग से मानते हैं (दे० परमाणु)। जिस परमाणु में जो गुण होते हैं वे उससे बने हुए पदार्थों में भी होते हैं। पृथ्वी, वायु इत्यादि के परमाणुओं के योग से बने हुए पदार्थ जो नाना रूप रंग और आकृति के होते हैं, वह इस कारण कि भिन्न भिन्न भूतों द्व्यणुकों या त्रसरेणुकों का सन्निवेश और सघटन तरह तरह का होता है। दूसरी बात यह है कि तेज के सवध से वस्तुओं के गुणों में फेरफार हो जाता है। जैसे, कच्चा घड़ा पकाए जाने पर लाल हो जाता है। इसके संबंध में वैशेषिकों की यह धारणा है कि अग्नि में जाकर अग्नि के प्रभाव से घड़े के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, अर्थात् उसके परमाणु अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने पर प्रत्येक परमाणु तेज के योग से रंग बदलकर लाल हो जाता है। फिर जब सब अणु जुड़कर फिर घड़े के रूप में हो जाते हैं तब घड़े का रंग लाल निकल आता है। वैशेषिक कहते हैं कि अग्नि में जाकर घड़े का एक वार नष्ट होकर फिर बन जाना इतने सूक्ष्म काल में होता है कि हम लोग देख नहीं सकते। इसी त्रिलक्षण मत को 'पीलुपाक मत' कहते हैं। नैयायिकों का मत इस विषय में ऐसा नहीं है। वे कहते हैं कि इस प्रकार अदृश्य नाश और उत्पत्ति मानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब वस्तुओं में परमाणुओं या द्व्यणुकों का संयोग इस प्रकार का रहता है कि उनके बीच बीच में कुछ अवकाश रह जाता है। इसी अवकाश में भरकर अग्नि का तेज अणुओं का रंग बदलता है। वेदांत में नैयायिकों और वैशेषिकों के परमाणुवाद का खंडन किया गया है।

परमाणुवादी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परमाणुवादिन्] परमाणुओं के योग से सृष्टि की उत्पत्ति माननेवाला। सृष्टि की उत्पत्ति के सवध में न्याय और वैशेषिक का मत माननेवाला।

परमात्मता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परमात्मा] दे० 'परमात्मा'। उ०—(क) काटि कै ब्राह्मण मस्तक की, यह आपने की परमात्मता माने।—पोद्दार अभि० ग्र०, पृ० ४६१। (ख) करत फिरत

मन बावरे आपन ही पहचान । तो ही में परमात्मा लेत नही पहिचान ।—स० सप्तक, पु० १७६ ।

परमात्मा—सञ्ज्ञा पुं० [पु० परमात्मन्] ब्रह्म । परब्रह्म । ईश्वर ।

परमाद्वैत—सञ्ज्ञा पुं० [पु०] १ सर्वभेदरहित परमात्मा । २ विष्णु ।

परमानन्द—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परमानन्द] १ बहुत बड़ा सुख । ब्रह्म के अनुभव का सुख । ब्रह्मानन्द । ३ आनन्दस्वरूप ब्रह्म ।

परमानु†—सञ्ज्ञा पुं० [म० प्रमाण] १ प्रमाण । सबूत । २ यथार्थ वात । सत्य वात । ३ सीमा । मिति । अवधि । हद । उ०—तप बल तेहि करि आपु समाना । रखिहौं इहाँ वरप परमाना ।—तुलसी (शब्द०) ।

विशेष—इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग प्रायः अव्ययवत् रहता है ।

परमानना†—क्रि० सं० [सं० प्रमाण] १ प्रमाण मानना । ठीक समझना । २ स्वीकार करना । सकारना ।

परमान्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] खीर । पायस ।

विशेष—देवताओं को अधिक प्रिय होने के कारण यह नाम पडा ।

परमामुद्रा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] त्रिपुरा देवी की पूजा के समय करणीय एक प्रकार की मुद्रा [को०] ।

परमायु—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परमायुस्] अधिक से अधिक आयु । जीवित काल की सीमा ।

विशेष—मनुष्य की परमायु १२० वर्ष की मानी जाती है । फलित ज्योतिष में मनुष्य की परमायु चार प्रकार से निकाली जाती है जिसे क्रमशः अशायु, पिंडायु, निसर्गायु और जीवायु कहते हैं । लग्न बलवान् हो तो निसर्गायु और यदि तीनों दुर्बल हो तो जीवायु निकालनी चाहिए ।

परमायुष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वियजसाल का पेड़ ।


परमार—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर (= शत्रु) + हि० भारना] राजपूतो का एक कुल जो अग्निकुल के अंतर्गत है । पँवार ।

विशेष—परमारों की उत्पत्ति शिलालेखों तथा पद्मगुप्त-रचित 'नवसाहसकचरित' नामक ग्रंथ में इस प्रकार मिलती है । महर्षि वशिष्ठ अर्बुदगिरि (आबू पहाड़) पर निवास करते थे । विश्वामित्र उनकी गाय वहाँ से छीन ले गए । वशिष्ठ ने यज्ञ किया और अग्निकुंड से एक वीर पुरुष उत्पन्न हुआ जिसने वात की वात में विश्वामित्र की सारी सेना नष्ट करके गाय लाकर वशिष्ठ के आश्रम के पर वधि दी । वशिष्ठ ने प्रसन्न होकर कहा 'तुम परमार (शत्रुओं को मारनेवाले) हो और तुम्हारा राज्य चलेगा' । इसी परमार के वंश के लोग परमार कहलाए । पृथ्वीराज रासो (आदि पर्व) के अनुसार उपद्रवी दानवों से आबू के ऋषियों की रक्षा करने के लिये वशिष्ठ ने अग्निकुंड से परमार की उत्पत्ति की ।

टाह साहब ने परमारों की अनेक शाखाएँ गिनाई हैं, जैसे, मोरी (जो गहलोतो के पहले चित्तौर के राजा थे), सोडा, या सोडा, सकल, खैर, उमरा सुमरा (जो आजकल मुसलमान हैं), विहिल, महीपावत, बलहार, कावा, श्रोमता, इत्यादि ।

इनके अतिरिक्त चाँवड, खेजर, सगरा, बरकोटा, संपाल, भीवा, कोहिला, घद, देवा, बरहर, निकुभ, टीका, इत्यादि और भी कुल हैं जिनमें से कुछ सिंध पार रहते हैं और पठान मुसलमान हो गए हैं ।

परमारों का राज्य मालवा में था । यह तो प्रसिद्ध ही है कि अनेक स्थानों पर मिले हुए शिलालेखों तथा पद्मगुप्त के नवसाहसकचरित से मालवा के परमार राजाओं की वंशावली इस प्रकार निकलती है—



ईसा की आठवीं शताब्दी में कृष्ण उर्पेद्र ने मालवा का राज्य प्राप्त किया । सीयक (द्वितीय) या श्रीहर्षदेव के संबंध में पद्मगुप्त ने लिखा है कि उसने एक हूण राजा को पराजित किया । उदयपुर की प्रशस्ति से यह भी जाना जाता है कि उसने राष्ट्रकूट वंशीय मान्यखेट (मानखेडा) के राजा खेट्टिग-देव का राज्य ले लिया । 'पाइअलच्छ्री नाममाला' नाम का 'धनपाल' का लिखा एक प्राकृत कोश है जिसमें लिखा है कि 'विक्रम सवत् १०२६ में मालवा के राजा ने मान्यखेट पर चढ़ाई की और उसे लूटा । उसी समय में यह ग्रंथ लिखा गया । श्रीहर्षदेव या सीयक (द्वितीय) के पुत्र वाक्पतिराज (द्वितीय) का पहला ताम्रपत्र १०३१ वि० सवत् का मिलता है । ताम्रपत्रों, शिलालेखों और नवसाहसकचरित में वाक्पतिराज के कई नाम मिलते हैं, जैसे, मुज, उत्पलराज, अमोघवर्ष, पुषिवीवल्लभ, श्रीवल्लभ आदि । यह बड़ा विद्वान् और कवि था । मुज वाक्पतिराज के अनेक श्लोक प्रवर्धचितामणि, भोजप्रवध तथा अलकार ग्रंथों में मिलते हैं । इसकी सभा में कवि घनजय, पिंगल टीकाकार हलायुध, कोशकार घनपाल और पद्मगुप्त परिमल आदि

अनेक पद्धति थे। इसने दक्षिण के कर्णाट, लाट, केरल, चोल आदि अनेक देशों को जय किया। प्रवर्धचिंतामणि में लिखा है कि वाक्पतिराज ने चालुक्यराज द्वितीय तैलप को सोलह वार हराया, पर अंत में एक चढ़ाई में उसके यहाँ बंदी हो गया और वही उसकी मृत्यु हुई। चालुक्य राजाओं के शिलालेखों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है।

मुज के उपरांत उसका छोटा भाई सिधुराज या सिधूल गद्दी पर बैठा। इसकी एक उपाधि 'नवसाहसाक' भी थी। 'नवसाहसाकचरित' में 'पद्मगुप्त' ने इसी का वृत्तान्त लिखा है। सिधुराज का पुत्र महाप्रतापी विद्वान् और दानी भोज हुआ, जिसका नाम भारत में घर घर प्रसिद्ध है। उदयपुर प्रशास्ति में लिखा है कि भोज ने गुर्जर, लाट, कर्णाट, तुर्कक आदि अनेक देशों पर चढ़ाई की। भोज ने कल्याण के चालुक्य राजा तृतीय जयसिंह पर भी चढ़ाई की थी। पर जान पड़ता है कि इसमें उसे सफलता नहीं हुई। 'विलहण' के विक्रमांकदेव-चरित' में लिखा है कि जयसिंह के उत्तराधिकारी चालुक्यराज सोमेश्वर (द्वितीय) ने भोज की राजधानी घारा नगरी पर चढ़ाई की और भोज को भागना पड़ा। 'प्रवर्धचिंतामणि' तथा नागपुर की प्रशास्ति में भी लिखा है कि चेदिराज कर्ण और गुर्जरराज चालुक्य भीम ने मिलकर भोज पर चढ़ाई की, जिससे भोज का अग्रपतन हुआ। भोज की मृत्यु कब हुई, यह ठीक नहीं मालूम। पर इतना अवश्य पता चलता है कि ६६४ शक (सन् १०४२-४३ ई०) तक वह विद्यमान था। राजतरंगिणी में लिखा है कि काश्मीरपति 'कलस' और मालवाधिप 'भोज' दोनों कवि थे और एक ही समय में वर्तमान थे। इससे जान पड़ता है कि सन् १०६२ ई० के कुछ काल पीछे ही उसकी मृत्यु हुई होगी। भोज के पीछे उदयादित्य का नाम मिलता है, जिसने घारा नगरी को शत्रुओं के हाथ से निकाला और घराणीवराह के मंदिर की मरम्मत कराई। इससे अधिक और कुछ ज्ञात नहीं।

भूपाल (भोपाल) में प्राप्त उदयवर्म के ताम्रपत्र तथा पिपलिया के ताम्रपत्र में ये नाम और मिलते हैं—भोजवशीय महाराज यशोवर्मदेव, उसका पुत्र जयधर्मदेव, उसके पीछे महाकुमार लक्ष्मीवर्मदेव, उसके पीछे हरिश्चंद्र का पुत्र उदयवर्मदेव पीछले दोनों कुमार भोजवशीय थे या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। जान पड़ता है, ये सामंत राजा थे जो जयवर्मदेव के बहुत पीछे हुए।

प्रवर्ध में 'भुक्सा' नाम के कुछ क्षत्रिय हैं जो अपने को भोजवशीय बतलाते हैं। उनका कहना है कि भोज के पीछे उदयादित्य निर्विघ्न राज नहीं कर पाया। उसके भाई जगत्तराव ने उसे निकाल दिया और वह कुछ अनुचरो और पुरोहितों के साथ वनवास नाम के गाँव में आ बसा। उसी के वंश के ये भुक्सा क्षत्रिय हैं।

परमारथ—संज्ञा पुं० [सं० परमार्थ] दे० 'परमार्थ'। उ०—

परमारथ स्वान्य सुप्त सारे। भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे।
—मानस, २।२८८।

परमारथवादी—[हि०] दे० 'परमार्थवादी'। उ०—प्रभु जे मुनि पर मारथवादी। कहहि राम कहूँ ब्रह्म अनदी।—मानस, १।१०८।

परमारथी—वि० [सं० परमार्थी] दे० 'परमार्थी'। उ०—(क) एहि जग जाभिनि जागहि जोगी। परमारथी प्रपच वियोगी।—मानस, २।६३। (ख) नमो प्रेम परमारथी इह जाचन हैं तोहि। नदलाल के चरन कौं दे मिलाइ किन मोहि।—स० सप्तक, पृ० १७३।

परमार्थ—पञ्चा पुं० [सं०] १ उत्कृष्ट पदार्थ। सबसे बढ़कर वस्तु। २ सार वस्तु। वास्तव सत्ता। नाम रूपादि से परे यथार्थ तत्त्व। ३ मोक्ष। ४ दुःख का सर्वथा अभावरूप सुख (न्याय)। ५ सत्य (ज्ञे०) दे०। ६ वह्य (ज्ञे०)।

परमार्थता—संज्ञा स्त्री० [सं०] सत्य भाव। यापार्थ्यं।

परमार्थवादी—संज्ञा पुं० [सं० परमार्थवादिन्] ज्ञानी। वेदाती। तत्त्वज्ञ।

परमार्थविद्—वि० [सं०] ब्रह्मज्ञानसंपन्न। जिसे परमार्थ का ज्ञान हो [ज्ञे०]।

परमार्थी—वि० [सं० परमार्थिन्] १ यथार्थ तत्त्व को हुँदनेवाला। तत्त्वज्ञानसु। २ मोक्ष चाहनेवाला। मुमुक्षु।

परमाह—संज्ञा पुं० [सं०] शुभ दिन। पुण्य दिवस। अच्छा दिन। उ०—मरन ठानि परमाह मरजी वाली धारि मत।—नट०, पृ० १००।

परमिति—संज्ञा स्त्री० [सं० परिमिति] दे० 'परिमिति'। उ०—सतगुन सुर गन भव भद्रिति सी। रघुवर भगति प्रेम परमिति सी।—मानस, १।३१।

परमिश्रा—संज्ञा स्त्री० [सं०] कीटित्य के अनुसार वह भुक्ति या राज्य जिसमें मिश्र और शत्रु दोनों समान रूप से हो।

परमीकरणमुद्रा—संज्ञा स्त्री० [सं०] तंत्र के अनुसार देवताओं के आह्वान की एक मुद्रा, जिसमें हाथ के दोनों अंगूठों की एक में गाँठकर उँगलियों को फैलाते हैं। इसे महामुद्रा भी कहते हैं।

परमुख—वि० [सं० पराङ्मुख] १. विमुख। पीछे फिरा हुआ। २. जो ध्यान न दे। जो प्रतिकूल आचरण करे।

परमुखा—संज्ञा पुं० [सं० पर + मुख] एक प्रकार की काव्य उक्ति जिसमें वर्णनीय का ग्रन्थ पुरुष के वचनों से वर्णन कराया जाय।—रघु० रू०, पृ० ३८।

परमुखापेक्षिता—संज्ञा स्त्री० [सं०] दूसरे का मुँह देखने की वृत्ति। किसी अन्य के भरोसे रहने का स्वभाव। उ०—आचरणात्मक जगत् की परमुखापेक्षिता वाली प्रवृत्ति को प्रेमचंद जी की प्रतिभा ने मोठ अवश्य दिया है।—प्रेम० और गोर्की, पृ० १६७।

परमृत्यु—संज्ञा पुं० [सं०] काक। कौआ।

विशेष—प्रवाद है कि कौए आपसे आप नहीं मरते।

परमेश—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परमेश्वर' ।

परमेश्वर—सज्ञा पुं० [सं०] १ ससार का कर्ता और परिचालक समुद्युत ब्रह्म । २ विष्णु । ३ शिव । ४ ब्रह्मा (को०) । ५ इन्द्र का नाम (को०) । ६ चक्रवर्ती नरेश (को०) ।

परमेश्वरी—सज्ञा स्त्री० [सं०] दुर्गा या देवी का नाम ।

परमेष्ठ—सज्ञा पुं० [सं०] चतुर्मुख ब्रह्मा । प्रजापति (शुक्ल यजु०) ।

परमेष्ठिनी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ परमेष्ठी की शक्ति । देवी । २ श्री । ३, वाग्देवी । ४, ब्राह्मी जड़ी ।

परमेष्ठी—सज्ञा पुं० [सं० परमेष्ठिन्] १, ब्रह्मा, अग्नि, आदि देवता । २ विष्णु । ३ शिव । ४ एक जिन का नाम । ५, शालग्राम का एक विशेष भेद । ६ विराट् पुरुष । ७ चाक्षुष मनु । ८, गरुड । ९ आध्यात्मिक शिक्षक । गुरु (को०) ।

परमेस्वर—सज्ञा पुं० [सं० परमेश्वर] दे० 'परमेश्वर' ।

परमेसरी—सज्ञा स्त्री० [सं० परमेश्वरी] दे० 'परमेश्वरी' । उ०—एड कविलास इद्र के अइरी । की कहुँ ते आई परमेसरी । —जायसी ग्रं०, पृ० ८२ ।

परमेसुर—सज्ञा पुं० [सं० परमेश्वर] दे० 'परमेश्वर' । उ०—बहुरघो आनि सिला पर नाख्यो । तब यह सिसु परमेसुर राख्यो । —नद० ग्रं०, पृ० २५६ ।

परमेस्वर—सज्ञा पुं० [सं० परमेश्वर] दे० 'परमेश्वर' । उ०—जज्ञ दान अर्बुद अवनि परमेस्वर पावन सुधुव । —प० रासो, पृ० १३ ।

परमोद—सज्ञा पुं० [सं० प्रमोद] दे० 'प्रमोद' ।

परमोध—सज्ञा पुं० [सं० प्रबोध] दे० 'प्रबोध' ।

परमोधना—क्रि० सं० [सं० प्रबोधन] दे० 'प्रबोधना' । उ०—सहज धार हरिध्यान ज्ञान से मन परमोध । —पलटू०, पृ० १०० ।

परयंक—सज्ञा पुं० [सं० पर्यङ्क] दे० 'पर्यङ्क' ।

परयंत—अव्य० [सं० पर्यन्त] दे० 'पर्यंत' । उ०—पकड़ समसेर सग्राम मे पैसिदे, देह परयत कर जुद्ध भाई । —कबीर शं०, पृ० ६८ ।

परयस्तापहृति—सज्ञा स्त्री० [सं० पर्यस्तापहृति] दे० 'पर्यस्तापहृति' ।

परयाय—सज्ञा पुं० [सं० पर्याय] दे० 'पर्याय' (अलकार) । उ०—ताहि कहत परयाय हैं भूपन सुकवि विवेक । —भूषण ग्रं०, पृ० ५३ ।

परयुग—सज्ञा पुं० [सं०] परवर्ती युग । परवर्ती काल (को०) ।

पररमण—सज्ञा पुं० [सं०] परकीया स्त्री के साथ रमण करनेवाला । जार । उपपत्ति (को०) ।

परराष्ट्र—सज्ञा पुं० [सं०] १ शत्रु का राज्य । २, स्वराष्ट्र के अतिरिक्त अन्य राष्ट्र जिसमें मित्र, शत्रु और तटस्थ राष्ट्र आते हैं । स्वराष्ट्र का उलटा ।

यौ०—परराष्ट्रमंत्री—शासनविधान में वह सर्वोच्च अधिकारी

जो विदेशी मामलो की देखरेख करता है । परराष्ट्र विभाग = वह विभाग जो परराष्ट्र सबंधी मामलो की देखरेख करता है ।

पररु—सज्ञा पुं० [सं०] नील भृगराज । नीली भंगरैया ।

पररु—सज्ञा पुं० [देश०] एक जगली पेड़ जिसकी जड़ और छाल दवा के काम में आती है और लकड़ी इमारतों में लगती है । परताल ।

पररु—सज्ञा पुं० [सं० प्रलय] दे० 'प्रलय' ।

पररु—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रलय] प्रलय । सृष्टि का नाश वा अंत । उ०—पल में परलय होयगी बहुरि करोगे कव्व ? —कवीर (शब्द०) ।

पररु—वि० [सं० पर (= उधर का, दूसरा) + ला (प्रत्य०)] [वि० स्त्री० पररु] उस ओर का । दूसरी तरफ का । उररु का उलटा । उ०—आंगन के सामने कमरे के पररु ओर बरामदे से भाँककर मिसेज शुक्ला ने उत्तर दिया । —अभिषाप्त, पृ० २१ ।

मुहा०—पररु दरजे का = दे० 'पररु सिरे का' । पररु सिरे का = हृदय दरजे का । अत्यंत । बहुत अधिक । पररु पार होना = (१) अत तक पहुँचना । बहुत दूर तक जाना । (२) समाप्त होना ।

पररु—सज्ञा पुं० [सं० प्रलाप] दे० 'प्रलाप' । उ०—भीखा मन पररु बड़ा कहि साँच बजावत गाला की । —भीखा० शं०, पृ० २८ ।

पररु—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रलय] दे० 'प्रलय' । उ०—मरजाद छोड़ि सागर चले कहि हमीर पररु करन । —हम्मिर०, पृ० १३ ।

पररु—सज्ञा पुं० [सं०] १ दूसरा लोक । वह स्थान जो शरीर छोड़ने पर आत्मा को प्राप्त होता है । जैसे, स्वर्ग, वैकुण्ठ आदि ।

यौ०—पररुकगमन, पररुकप्राप्ति, पररुकयान, पररुकवास = मृत्यु । मोत । पररुकवासी = मृत । मरा हुआ (आदरार्थ) ।

मुहा०—पररुकगामी होना = मरना । पररुक बनाना = मरने के बाद अच्छा लोक प्राप्त करना । सद्गति होना । पररुक धिगड़ना = मृत्यु के अनंतर अच्छे लोक का न मिलना । पररुक सँवारना = जीवन में उस प्रकार के काम करना जिससे मृत्यु के अनंतर अच्छे लोकप्राप्ति की संभावना हो । उ०—पाह न जेहि पररुक सँवारा । —मानस, ७।२७ । पररुक सिधारना = मरना ।

२ मृत्यु के उपरांत आत्मा की दूसरी स्थिति की प्राप्ति । जैसे, जो ईश्वर और पररुक में विश्वास नहीं करते वे नास्तिक कहलाते हैं । (शब्द) ।

पररुकगमन—सज्ञा पुं० [सं०] मृत्यु ।

पररुकप्राप्ति—सज्ञा स्त्री० [सं०] मृत्यु ।

पररु—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रलय, हि० पररु] दे० 'प्रलय' । उ०—भा पररु निन्नराएन्हि जवही । मरै सो ताकर पररु तबही । —जायसी ग्रं० (गुप्त), पृ० २२५ ।

परवंचना—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रवञ्चना] दे० 'प्रवंचना' । उ०—
विद्या लोँ सीख्यो भलो जिन परवचन ज्ञान ।—शकु तला,
पृ० १६ ।

परवक्तव्यपथ—सज्ञा पुं० [सं०] वह माल जिसका सौदा दूसरे
के साथ हो चुका हो ।

विशेष—ऐसा सौदा किसी दूसरे ग्राहक के हाथ बेचनेवालों
के लिये कौटिल्य और स्मृतिकारों ने दंड का विधान
किया है ।

परवर—सज्ञा पुं० [सं० पटोल] परवल ।

परवर^२—सज्ञा पुं० [सं०] आँस का एक रोग ।

परवर^३—सज्ञा पुं० [सं० प्रवर] दे० 'प्रवर' ।

परवर^४—वि० [फा०] पालन करनेवाला । पोषण करनेवाला । जैसे,
परवरदिगार, गरीबपरवर आदि [को०] ।

परवरदा—वि० [फा० परवर्दाह] पालित । पोषित । उ०—झाँव सूँ
मेरे हुए हैं वादशाह, साया परवरदा हैं मेरे सब मुलुक ।
—दक्खिनो, पृ० १८६ ।

परवरदिगार—सज्ञा पुं० [फा०] १ पालन करनेवाला । पोषण
करनेवाला । २ ईश्वर ।

परवरिश—सज्ञा स्त्री० [फा०] पालन । पोषण ।

परवर्त—वि० [सं० प्रवर्तित] प्रतिष्ठित [को०] ।

परवर्ती—वि० [सं० परवर्तिन्] वाद में होनेवाला । पश्चाद्वर्ती ।
उ०—यदि मैंने अतिम बार माँ का मुख न देखा होता तो
संभवत मेरा परवर्ती जीवन ऐसा विपाक न हुआ होता ।—
पदो, पृ० ३१ ।

परवल—सज्ञा पुं० [सं० पटोल] १. एक लता जो टट्टियों पर चढ़ाई
जाती है और जिसके फलों की तरकारी होती है ।

विशेष—यह सारे उत्तरीय भारत में पंजाब से लेकर बंगाल
आसाम तक होती है । पूरव में पान के भीटो पर परवल
की बेलें चढ़ाई जाती हैं । फल चार पाँच अंगुल लंबे और
दोनों सिरों की ओर पतले या नुकीले होते हैं । फलों के भीतर
गूदे के बीच गोल बीजों की कई पत्तियाँ होती हैं । परवल
की तरकारी पथ्य मानी जाती है और ज्वर के रोगियों को
दी जाती है । वैद्यक में परवल के फल कटु, तिक्त, पाचन,
दीपन, हृद्य, वृष्य, उष्ण, सारक तथा, कफ, पित्त, ज्वर,
वाह को हटानेवाले माने जाते हैं । जड विरेचक और
पित्त और पित्तनाशक कहे गए हैं ।

पर्या०—कुलक । तिक्तक । पट्ट । कर्कशफल । कुलज । वाजि
मान । लताफल । राजफल । वरतिक्त । अमृताफल । कटु-
फल । राजनाम । बीजगर्भ । नागफल । कुष्ठारि । कासमर्दन ।
ज्योत्स्नी । कच्छुधनी ।

२. चिचडा जिसके फलों की तरकारी होती है ।

परवश—वि० [सं०] जो दूसरे वश में हो । पराधीन ।

परवश्य—वि० [सं०] जो दूसरे के वश में हो । पराधीन ।

परवश्यता—सज्ञा स्त्री० [सं०] पराधीनता ।

परवस्ती—सज्ञा स्त्री० [फा० परवरिज] दे० 'परवरिज' ।

परवा^१—सज्ञा पुं० [सं० पुट वा पूर, हि० पुर, पुरवा] [स्त्री० अल्पा०
परई] मिट्टी का बना हुआ कटोरे के आकार का बरतन ।
कोमा ।

परवा^२—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिपदा, प्रा० पडिवा] पक्ष की पहली
तिथि । पडवा । पडिवा ।

परवा^३—सज्ञा स्त्री० [फा०] १ चिता । व्यग्रता । रटका । आशका ।
जैसे, (क) उाकी घमकी की मुझे पत्वा नहीं है ।
(ख) तुम मेरा नाथ न दोगे तो कुछ परवा नहीं । २
ध्यान । ख्याल । किसी बात की ओर दत्तचित्त होने का भाव ।
जैसे—(क) तुम उस लडके की पढाई लिगाई की कुछ परवा
नहीं रखते । (ख) उसे इतना लोग समझाते हैं पर वह कुछ
परवा नहीं करता । ३ आसरा । नरोसा । जैसे,—जिसके
घर में सब कुछ है उसे दूसरे की क्या परवा ।

फि० प्र०—करना ।—होना ।

परवा^४—सज्ञा स्त्री० [दे०] एक प्रकार की घान ।

परवाई—सज्ञा स्त्री० [फा० परवाह] दे० 'परवा' या 'परवाह' ।

परवाच्य—वि० [सं०] जिसे दूसरे बुरा कहते हों । निन्दित ।

परवाज^१—सज्ञा स्त्री० [फा० परवाज] उडान । उ०—सतलोक
सिधार साथ सतसाज । उस वक्त करे बुलद परवाज ।—
कवीर म०, पृ० १४६ । २ नाज । घमड (को०) ।

परवाज^२—वि० १ उडनेवाला । २ घमडी । मिट्टू । (समासात्
में प्रयुक्त) ।

परवाजी—सज्ञा स्त्री० [फा०] उडान [को०] ।

परवाणि^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ घमाँवक्ष । २ बत्सर । ३, कार्तिकेय
का वाहन, मयूर ।

परवाणि^२—सज्ञा पुं० [सं० प्रमाण] दे० 'प्रमाण' । उ०—
एकै अखर पीव का, सोई नत करि जाणि । राम नाम
सतगुरु कहा, दाढ़ सो परवाणि ।—दाढ़, पृ० ३२ ।

परवाद—सज्ञा पुं० [सं०] १ विरोधात्मक उत्तर । २ परनिंदा ।
३ प्रवाद । ऋषवाह [को०] ।

परवादी—सज्ञा पुं० [सं० परवादिन्] वह जो परवाद करे [को०] ।

परवान—सज्ञा पुं० [सं० प्रमाण] १ प्रमाण । नवृत । उ०—
हमारे कहत रहे नहि मानू । जो वह बहै सोइ परवानू ।—
पदमावत, पृ० २५६ । २ यथार्थ बात । सत्य बात । ३.
सीमा । मिति । अवधि । हद । उ०—(क) तपवल तेहि
करि आपु समाना । रखिहीं इहाँ बरस परवाना ।—
तुलसी (शब्द०) । (ख) नौ लख जल के जीव बखानी ।
चतुर लक्ष पक्षी परवानी ।—कवीर सा०, पृ० ३७ ।

विशेष—इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग प्रायः अव्ययवत्
रहता है ।

मुहा०—परवान चढ़ना = (१) पूरी आयु तक पहुँचना। सब सुखों का पूरा भोग करना। जैसे, फले फूले परवान चढ़े (स्त्रि० आशीर्वाद)। २ विवाहित होना। व्याहने जाना (स्त्रि०)।

परवान^२—सज्ञा पुं० [हिं० पाल, फा० बादवान] जहाज का पाल। बादवान।

परवानगी—सज्ञा स्त्री० [फा०] इजाजत। आज्ञा। अनुमति। उ०—तब वा लाछावाई ने वाजवहादुर को परवानगी दीनी।—दो सौ वावन०, भा० १, पृ० १५६।

परवानना^(३)—क्रि० अ० [सं० प्रमाण] प्रमाण मानना। ठीक समझना। उ०—हमरे कहत न जो तुम मानहु। जो वह कहै सोइ परवानहु।—जायसी (शब्द०)।

परवाना—सज्ञा पुं० [फा० परवान] १ आज्ञापत्र।

यौ०—परवाने नवीस = परवाना लेखक।

२ फतिगा। पखी। पतंग। ३ वह जो आसक्त हो। आशिक (को०)। ४-कुत्ते के बराबर एक जंतु जो सिंह के आगे आगे चलता है (को०)।

परवान्—वि० [सं० परवत्] १ दूसरे के आश्रित। पराधीन। २ निस्सहाय। असहाय। निराश्रित [को०]।

परवाया—सज्ञा पुं० [हिं० पैर+पाया] चारपाई के पायों के नीचे रखने की चीज।

परवार^(३)—सज्ञा पुं० [सं० परिवार] दे० 'परिवार'। उ०—परगह सह परवार अरी सहभार उडाणू। सुरगण ब्रह्म सुपह डहै बंध तासु छुडाणू।—रघु० रू०, पृ० ४८।

परवास^१—सज्ञा पुं० [सं० प्रवास] दे० 'प्रवास'। उ०—सब परवास निरतर खेलहि, जहँ जस तहाँ समाया।—जग० बानी, पृ० १७।

परवास^२—सज्ञा पुं० [सं० वास] आच्छादन। उ०—कपडसार सूची सहस वांधि बचन परवास। किय दुराठ यह चतुरी गो सठ तुलसीदास।—तुलसी (शब्द०)।

परवाल^(३)—सज्ञा पुं० [सं० प्रवाल] दे० 'प्रवाल'।

परवासिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] बाँदा। बदाक। परगाछा।

परवासिनी—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'परवासिका'।

परवाह—सज्ञा स्त्री० [फा० परवा] १ चिंता। व्यग्रता खटका। आशका। उ०—चित्र के से लिखे दोऊ ठाढे रहे कासीराम, नाही परवाह लोग लाख करो लरिवो।—काशीराम (शब्द०)। २ ध्यान। स्याल। किसी बात की ओर चित्त देना। ३ आसरा। भरोसा। उ०—जग में गति जाहि जगत्पति की परवाह सो ताहि कहा नर की।—तुलसी (शब्द०)।

परवाह^२—संज्ञा पुं० [सं० प्रवाह] बहने का भाव।

मुहा०—परवाह करना = बहाना। धारा में छोड़ना। जैसे,—इन मुद्दों को परवाह कर दो।

परवाहना—क्रि० सं० [हिं० परवाह] प्रवाह करना। बहाना। उ०—या महारंगी उच्चरे, सुहृद तजो सचीत। परवाही खगधार दे जमणा धार प्रवीत।—रा० रू०, पृ० ३०।

परवीं—सज्ञा स्त्री० [सं० पर्विणी] पर्व काल। पुण्य काल। पर्विणी। उ०—परवी परे वरत वा होई। तेहि दिन मथुन करै जो कोई।—विश्राम० (शब्द०)।

परवीन^(३)—वि० [सं० प्रवीण] दे० 'प्रवीण'। उ०—पहुपावति परवीन अति वचनु मानि मनु लीन।—रसरत्न, पृ० ५६।

परवृढ—सज्ञा पुं० [सं० परिवृढ] स्वामी। सरदार। उ०—नर नामन तैं पति जुरे, परवृढ इन ईसान। भू भुज, धरनीकत, विभु, नरपति, ईस, सुजान।—नद, प्र०, पृ० १०८।

परवेख^(३)—सज्ञा पुं० [सं० परिवेप] बहुत हलकी बदली के बीच दिखाई पड़नेवाला चंद्रमा के चारों ओर पडा हुआ धेरा। मडल। चाँद की अथाई। उ०—सारी सहित किनारी मुख छवि देख। मनहुँ शरद निशि चहुँ दिशि दुति परवेख।—रहीम (शब्द०)।

परवेश^(३)—सज्ञा पुं० [सं० प्रवेश] दे० 'प्रवेश'।

परवेशम—सज्ञा पुं० [सं०] स्वर्ग।

परवेस—सज्ञा पुं० [सं० प्रवेश, हिं० परवेश] दे० 'प्रवेश'। उ०—वहँ नहि चद वहाँ नहि सूरज, नाहि पवन परवेस।—कवीर श०, भा० ३, पृ० ४।

परव्रत—सज्ञा पुं० [सं०] घृतराष्ट्र।

परश^१—सज्ञा पुं० [सं०] स्पर्शमणि। पारस पत्थर।

परश^२—सज्ञा पुं० [सं० स्पर्श] स्पर्श। छूना।

परशाला—सज्ञा पुं० [सं०] परगाछा। बाँदा।

परशु—सज्ञा पुं० [सं०] एक अस्त्र जिसमें एक डंडे के सिरे पर एक अर्धचंद्राकार लोहे का फल लगा रहता है। एक प्रकार की कुल्हाड़ी जो पहले लडाई में काम आती थी। तबर। भलुवा।

परशुधर—सज्ञा पुं० [सं०] १ परशु धारण करनेवाला। २ परशुराम। ३ गणेश। गणपति (को०)।

परशुपलाश—सज्ञा पुं० [सं०] फरसे का फल या अगला हिरमा। परशु की धार [को०]।

परशुमुद्रा—सज्ञा स्त्री० [सं०] उँगलियों की एक मुद्रा।

परशुराम—सज्ञा पुं० [सं०] जमदग्नि ऋषि के एक पुत्र जिन्होंने २१ बार क्षत्रियों का नाश किया था। ये ईश्वर के छठे अवतार माने जाते हैं। 'परशु' इनका मुख्य अस्त्र था, इसी से यह नाम पडा।

विशेष—महाभारत के शांतिपर्व में इनकी उत्पत्ति के संबंध में यह कथा लिखी है,—कुशिक पर प्रमत्त होकर इंद्र उनके यहाँ गांधि नाम से उत्पन्न हुए। गांधि की सत्यवती नाम की एक कन्या हुई जिसे उन्होंने भृगु के पुत्र ऋचीर को व्याहा।

ऋचीक ने एक चार प्रसन्न होकर अपनी स्त्री और सास के लिये दो चर प्रस्तुत किए और सत्यवती ने कहा कि 'इस चर को तुम खाना । इससे तुम्हें परम शांत और तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा । इस दूसरे चर को अपनी माता को दे देना । इससे उन्हें अत्यंत वीर और प्रबल पुत्र उत्पन्न होगा जो तब राजाओं को जीतेगा । पर भूल से सत्यवती ने अपनी माता-वाला चर खा लिया और गांधि की स्त्री, सत्यवती की माता ने सत्यवती का चर खाया । जब ऋचीक को यह पता चला तब उन्होंने सत्यवती से कहा—'यह तो उलटा ही गया । तुम्हारे गर्भ से भ्रूज जो बालक उत्पन्न होगा वह बड़ा क्रूर और प्रचंड क्षात्रतेज से युक्त होगा और तुम्हारी माता के गर्भ से जो पुत्र होगा वह प्ररम शांत, तपस्वी और ब्राह्मण के गुणों से युक्त होगा' । सत्यवती ने बहुत विनती की कि मेरा पुत्र ऐसा न हो, मेरा पौत्र हो तो हो । महाभारत के वनपर्व में यही कथा कुछ दूसरे प्रकार से है ।

कुछ दिनों में सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि की उत्पत्ति हुई जो रूप और स्वाध्याय में अद्वितीय हुए और जिन्होंने समस्त वेद, वेदांग का तथा धनुर्वेद का अध्यायन किया । प्रसेनजित् राजा की कन्या रेणुका ने उनका विवाह हुआ । रेणुका के गर्भ से पाँच पुत्र हुए—गमन्वाय, सुपेण, वसु, विश्वावसु और राम या परशुराम । इसके प्रागे वनपर्व में कथा इस प्रकार है । एक दिन रेणुका स्नान करने के लिये नदी में गई थी । वहाँ उसने राजा चित्ररथ को अपनी स्त्री के साथ जलप्रीडा करते देखा और कामवासना में उद्विग्न होकर घर आई । जमदग्नि उसकी यह दशा देख बहुत क्रुपित हुए और उन्होंने अपने चार पुत्रों को एक एक करके रेणुका के वध की आज्ञा दी, पर स्नेहवश किसी से ऐसा न हो सका । इतने में परशुराम आए । परशुराम ने आज्ञा पाते ही माता का सिर काट डाला । इसपर जमदग्नि ने प्रसन्न होकर वर माँगने के लिये कहा । परशुराम बोले—'पहले तो मेरी माता को जिला दीजिए और फिर यह वर दीजिए कि मैं परमायु प्राप्त करूँ और युद्ध में मेरे नामने कोई न ठहर सके' । जमदग्नि ने ऐसा ही किया । एक दिन राजा कार्तवीर्य सहस्राजुंन जमदग्नि के आश्रम पर आया । आश्रम पर रेणुका की छोड़ और कोई न था । कार्तवीर्य आश्रम के पेट पीघो को उजाड़ होमधेनु का बछड़ा लेकर चल दिया । परशुराम ने आकर जब यह सुना तब वे तुरत दौड़े और जाकर कार्तवीर्य की सहस्र भुजाओं को फरसे से काट डाला । सहस्राजुंन के कुट्टु बियो और माथियों ने एक दिन आकर जमदग्नि से बदला लिया और उन्हें बाणों से मार डाला । परशुराम ने आश्रम पर आकर जब यह देखा तब पहले तो बहुत विलाप किया, फिर संपूर्ण क्षत्रियों के नाश की प्रतिज्ञा की । उन्होंने शस्त्र लेकर सहस्राजुंन के पुत्र पीत्रादि का वध करके क्रमशः सारे क्षत्रियों का नाश किया । परशुराम की इस क्रूरता पर ब्राह्मण समाज में उनकी निंदा होने लगी और परशुराम दया से विभ्र हो वन में चले गए । एक दिन विश्वामित्र

के पौत्र परायण ने परशुराम से कहा कि 'अनो जो यज्ञ हुआ था उसमें न जाने गित्तो प्रतापी राजा घाए थे, आपने पृथ्वी को जो क्षत्रियविहीन करने की प्रतिज्ञा की थी वह सब व्यर्थ थी' । परशुराम इनपर क्रुद्ध होकर फिर निकले और जो क्षत्रिय बचे थे उन गवरा बाल बच्चों के सहित उहाँ गिया । गभरती स्त्रियो ने की गठिनता से घर उपर ध्रुपकर घपती रखा की । क्षत्रियों का नाश करके परशुराम ने अरजमेव यज्ञ किया और उममे गारी पृथ्वी तप्य को दान दे दी । पृथ्वी क्षत्रियों में तरंगा रहित न हो जाय इस अभि-प्राय में कश्यप ने परशुराम से कहा 'अब यह पृथ्वी हमारी हो चुकी अब तुम दक्षिण समुद्र की ओर चले जाओ' । परशुराम ने ऐसा ही किया ।

वाल्मीकि रामायण में निम्ना है कि जब रामचन्द्र शिव का धनुष तोड़ नीता तो व्याहकर लौट रहे थे तब परशुराम ने उनका गन्ता रोता और वेष्टव धनु उनमें हाथ में लेकर कहा कि 'अब धनुष तो तुमने तोड़ा अब इस वेष्टव धनुष को लडाओ । यदि इनका बाण चला सकोगे तो मैं तुम्हारे नाश मुक्त करूँगा' । राम धनुष पर बाण चलाकर बोले 'बोसो अब इन बाण से मैं तुम्हारी गति का अवरोध करूँ या तप में अजित तुम्हारे लोको का हण करूँ' । परशुराम ने हततेज और चकित होकर कहा 'मैंने सारी पृथ्वी कश्यप को दान में दे दी है, इनसे मैं रात को पृथ्वी पर नहीं सोता । मेरी गति का अवरोध न करो, लोको का हरण कर लो' ।

परशुवन—मन्त्र पुं० [मं०] एक नरक का नाम जिसके पेटों के पत्ते परशु का भी तीली धार के हैं ।

परश्वध—मन्त्र पुं० [मं०] परशु । तत्पर । कुठार । कुल्हाडी ।

परसगु—मन्त्र पुं० [मं० प्रसङ्ग] स्त्री-पुरुष-सवोग । मेघुन । दे० 'प्रसग' । उ०—दास विन सिंग चानरहित निरसग भयो, जा भयो दासन दुके के परसग में ।—हम्मीर०, पृ० ५४ ।

परसङ्क—मन्त्र पुं० [मं०] आत्मा [कि०] ।

परससा—मन्त्र स्त्री० [मं० प्रससा] दे० 'प्रससा' ।

परस^१—मन्त्र पुं० [मं० स्पर्श] चूना । छूने की क्रिया या भाव । स्पर्श । उ०—दरस परस मजन अरु पाना । हरे पाप कह वेद पुराना ।—सुलमी (शब्द०) ।

परस^२—मन्त्र पुं० [मं० परस] परस पत्पर । स्पर्श मणि । उ०—उ०—गु जा गृहे परस मनि सोई ।—मानस, ७ । ४४ ।

यौ०—परसपखान । परसमनि ।

परस^३—मन्त्र पुं० [मं० परशु, हिं० फरसा] फरसा । परशु । जैसे, परसधर, परसराम ।

परसधर—मन्त्र पुं० [मं० परशुधर, हिं० परसुधर] दे० 'परशुराम' । उ०—विधि करी परसधर, बोलि ठौर । जजमान कियउ भृगुकुल सुमीर ।—हं० रासो, पृ० ११ ।

परसन—मन्त्र पुं० [मं० स्पर्शन] १ छूना । छूने का काम । २ छूने का भाव ।

परसन^२—वि० [सं० प्रसन्न] प्रसन्न । खुश । आनन्दित । उ०—
तर्बाहिं श्रीसीस दई परसन ह्वै सकल होहु तुव कामा ।—सूर
(शब्द०) ।

परसना^१—क्रि० सं० [सं० स्पर्शन] १ छूना । स्पर्श करना ।
२ छुलाना । स्पर्श कराना । उ०—साधन हीन दीन निज
भ्रम बस शिला भई मुनि नारी । गृह ते गवनि परसि पद
पावन घोर ताप तें तारी ।—तुलसी (शब्द०) ।

परसना^२—क्रि० सं० [सं० परिवेक्षण] भोज्य पदार्थ किसी के
सामने रखना । परोसना ।

विशेष—इस क्रिया का प्रयोग भोजन और भोजन करनेवाले दोनों
के लिये होता है । जैसे, खाना परसना, किसी को परसना ।

संयो० क्रि०—देना ।—लेना ।

परसनि^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० स्पर्शन] स्पर्श का भाव या स्थिति ।
उ०—कुचन की परसनि नीवी करसनि । सुखन की वरसनि
मन की सरसनि ।—नद० ग्र०, पृ० ३२२ ।

परसन्न^१—वि० [सं० प्रसन्न] दे० 'प्रसन्न' । उ०—पाहन पखान
जे करहि सेव । परसन्न होहि मन चाहि देव ।—रसरतन,
पृ० ५५ ।

परसन्नता^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रसन्नता] दे० 'प्रसन्नता' ।

परसपखान^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० स्पर्श + पापाण] पारस पत्थर ।
स्पर्श मणि । उ०—रूपवत घनवत सभागे । परसपखान
पौरि तिन्ह लागे ।—जायसी (शब्द०) ।

परसपर—क्रि० वि० [सं० परस्पर] दे० 'परस्पर' । उ०—(क)
मुनि रघुवीर परसपर नवही ।—मानस, २ । १०८ । (ख)
मोहन लखि छवि परसपर चचल चख चित चोर । मजु
मालती कुज में विहरत नदकिसोर ।—स० सप्तक, पृ० ३४३ ।

परसराम—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परशुराम] दे० 'परशुराम' । उ०—
ऋषि जामदग्नि सुत परसराम, हनि क्षत्रि सकल द्विज तेज
धाम ।—ह० रासो, पृ० ७ ।

परसर्ग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] किसी शब्द के आगे जुड़नेवाला प्रत्यय ।

परसवर्ण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पर या उत्तरवर्ती वर्ण के समान वर्ण ।

परसा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परशु] फरसा । परशु । तब्वर । कुल्हाडा ।
कुठार ।

परसा^२—सञ्ज्ञा पुं० [हि० परसना] एक मनुष्य के खाने भर का
भोजन जो पात्र में रखकर दिया जाय । पत्तल ।

परसादा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसाद] दे० 'प्रसाद' । उ०—तुभ्र
परसाद विखाद नयन जल काजरे मोर उपकारे ।—
विद्यापति, पृ० १११ ।

परसादी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० परसाद+ई (प्रत्य०)] दे० 'प्रसाद' ।
उ०—उन भाखा कडिया परसादी । इन कढाव हलुवे की
बाँधी ।—घट०, पृ० २६० ।

परसाना^१—क्रि० सं० [हि० परसना] छुलाना । स्पर्श
कराना । उ०—सुरसरि जब भुव ऊपर आवै । उनको अपनो
जब परसावै ।—सूर (शब्द०) ।

परसाना^२—क्रि० सं० [हि० परसना] भोजन आदि बँटवाना ।
भोजन का सामान सामने रखवाना । उ०—महर गोप सब
ही मिल बैठे पनवारे परसाए ।—सूर (शब्द०) ।

परसामान्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गुण-कर्म-समवेत सत्ता (जैनदर्शन) ।

परसाल^१—अव्य० [सं० पर+फा० साल] १ गत वर्ष । पिछले
साल । २ आगामी वर्ष । अगले साल ।

परसाल^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पानी+सार] एक प्रकार की घास
जो पानी में पैदा होती है । इसे पससारी भी कहते हैं ।

परसिद्ध^१—वि० [सं० प्रसिद्ध] दे० 'प्रसिद्ध' ।

परसिद्धि^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रसिद्धि] दे० 'प्रसिद्धि' ।

परसिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परशु, हिं परसा] हँसिया ।

परसी—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] एक प्रकार की छोटी मछली जो नदियों
में होती है ।

परसीया—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक पेड़ जिसकी लकड़ी से मेज, कुरसी
इत्यादि बनाई जाती है और जो मदरास और गुजरात में
बहुतायत से होता है । इसकी लकड़ी स्याह सरस और
मजबूत होती है ।

परसु^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परशु] दे० 'परशु' ।

यौ०—परसुधर = परशुधर । उ०—पथ परशुधर आगमनु समय
सोच सब काहु । दे०—तुलसी ग्र०, पृ० ७१ । परसुराम =
'परशुराम' । उ०—परसुराम पितृ अग्या राखी ।
—मानस, २।१७४ ।

परसूक्ष्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक सूक्ष्म परिमाण जो आठ परमाणुओं
के बराबर माना गया है ।

परसूत^१—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसूत] दे० 'प्रसूत' ।

परसेद^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रस्वेद] दे० 'प्रस्वेद' । उ०—घटि घटि
गोपी घटि घटि कान्ह । घटि घटि राम अमर अस्थान ।
गगा जमना अतर वेद । सुरसती नीर बहै परसेद ।—दादू,
पृ० ६७६ ।

परसों—अव्य० [सं० परश्व] १. गत दिन से पहले दिन । बीते
हुए कल से एक दिन पहले । जैसे,—मैं परसों वहाँ गया था ।
२ आगामी दिन से आगे के दिन । आनेवाले कल से एक
दिन आगे । जैसे,—वह परसों जायगा ।

परसोत्तम^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरुषोत्तम] दे० 'पुरुषोत्तम' ।

परसोत्तमा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरुषोत्तम] दे० 'पुरुषोत्तम' । उ०—
प्रात समें श्रीवल्लभ सुत के बदन कमल को दरसन कीजै ।
तीन लोक बँदित, परसोत्तम, उपमा कहा जो पटतर दीजै ।
—नद० ग्र०, पृ० ३२५ ।

परसोर—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का धान जो अग्रहन में तैयार
होता है ।

परसौहाँ^१—वि० [सं० स्पर्श, हिं परस + औहाँ (प्रत्य०)]
स्पर्श करनेवाला । छूनेवाला । उ०—तिथ तरसौहैं मुनि किए
करि सरसौहैं नेह । घर परसौहैं ह्वै रहे कर वरसौहैं मेह ।
—विहारी (शब्द०) ।

परस्त्री—नशा स्त्री० [सं०] पराई स्त्री । परकीया ।

परस्त्रीगमन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पराई स्त्री से साथ सभोग ।

परस्पर—क्रि० वि० [सं०] एक दूसरे के साथ । आपस में । जैसे—
(क), उनमें परस्पर बड़ी प्रीति है । (ख) यह तो परस्पर
का व्यवहार है ।

परस्परज्ञ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक दूसरे को जाननेवाला । मित्र ।
सखा [को०] ।

परस्परापेक्ष—क्रि० [सं०] एक दूसरे की अपेक्षा रखनेवाला ।
अन्योन्याश्रित । उ०—कितु बहुत से परस्परापेक्ष और इद्रिय-
ग्राह्य होते हैं ।—संपूर्णानन्द अभि० ग्र०, पृ० ३३२ ।

परस्परोपमा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक अर्थालंकार जिसमें उपमान
की उपमा उपमेय को और उपमेय की उपमा उपमान को
दी जाती है । इसे 'उपमेयोपमा' भी कहते हैं ।

परस्वघ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परस्वघ' [को०] ।

परहरना^७—क्रि० सं० [सं० परि + हरण] परित्याग करना ।
छोड़ना । उ०—(क) घट की मानि अनीति सब मन की
मेदि उपाधि । दादू परहर पचकी, राम कहैं ते साथ ।—
दादू०, पृ० ४१० । (ख) भक्ति छुड़ावे निगुरा करई । कहे
कहाए जो परहरई ।—विश्राम (शब्द०) ।

परहार—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] १ दे० 'प्रहार' । २. दे० 'परिहार' ।

परहारना^७—क्रि० सं० [हि० परिहार] दे० 'परहरना' । उ०—
हरष शोक दोऊ परहारै । होय मगन गुरु चरण धारै ।—
कवीर सा०, पृ० ८७४ ।

परहारी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रहारी] जगन्नाथ जी के मंदिर के पुजारी
जो मंदिर ही में रहते हैं ।

परहास^७—सञ्ज्ञा पुं० [व्यं०] डिगल के साणोर गीत का एक भेद ।
इसे प्रहास भी कहते हैं ।—रघु० ६०, पृ० ५१ ।

परहेज—सञ्ज्ञा पुं० [फ़ा० परहेज] १ स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने-
वाली बातों से बचना । रोग उत्पन्न करनेवाली या बढ़ानेवाली
वस्तुओं का त्याग । खाने पीने आदि का सयम । जैसे,—वह
परहेज नहीं करता, दवा क्या फायदा करे ? २. बुरी बातों
से बचने का नियम । दोषों और बुराइयों से दूर रहना ।

क्रि० प्र०—करना ।—से रहना ।—होना ।

परहेजगार—सञ्ज्ञा पुं० [फ़ा० परहेजगार] १ परहेज करनेवाला ।
सयमी । कुपथ्य न करनेवाला । २ बुराइयों से बचनेवाला ।
दोषों से दूर रहनेवाला ।

परहेजगारी—नशा स्त्री० [फ़ा० परहेजगारी] १ परहेज करने का
काम । सयम । २ दोषों और बुराइयों का त्याग ।

परहेलना^७—क्रि० सं० [म० प्रहेलन] निरादर करना । तिरस्कार
करना । उ०—मैं पिउ प्रीति भरोसे परब किन्हू जिय माँह ।
तेहि रिस हों परहेली हूसेउ नागर नाह ।—जायसी
(शब्द०) ।

परहोंकः—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] पहली विक्री । बोहनी । उ०—जइसन
परहोंक तइसन वीक ।—विद्यापति, पृ० २७३ ।

परांगद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पराङ्गद] शिव ।

परांगव—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पराङ्गव] समुद्र ।

परांवा—सञ्ज्ञा पुं० [फ़ा० प्राँव] १ तम्ना । पट्टरी । २ तम्नो की
पाटन जो आसपास के तल में ऊँचाई पर हो और जिमपर
उठ बैठ सकते हों । पाटन । ३ देहा ।

परांज—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पराञ्ज] १ तेल निमानने या मत्र । कोल्हू ।
२ फेन । ३ छुरी का फल ।

परांजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पराञ्जन] दे० 'परांज' ।

पराँवा—सञ्ज्ञा पुं० [लश० ?] एक प्रकार की कम चौड़ी और
लंबी नाव ।

पराँठा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पलटना] घी लगाकर तवे पर सेंकी हुई
चपाती ।

परा^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] १ चार प्रकार की वाणियों में पहली वाणी
जो नादस्वरूपा और मूलाधार से निकली हुई मानी जाती
है । २ वह विद्या जो ऐसी वस्तु का ज्ञान कराती है जो सब
गोचर पदार्थों से परे हो । ब्रह्मविद्या । उपनिषद् विद्या । ३
एक प्रकार का सामगान । ४ एक नदी का नाम । ५ गंगा ।
६ वाँक कपोटा । बघ्या कफोटवी ।

परा^२—क्रि० स्त्री० [म०] १ जो सबसे परे हो । २ श्रेष्ठ । उत्तम ।

परा^३—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पारना] रेशम मोलनेवालों वा लकड़ी का
वारह चौदह अंगुल लंबा एक औजार ।

परा^४—सञ्ज्ञा पुं० [फ़ा० परह ?] पक्ति । कतार । दे० 'परा' ।
उ०—राजकुमार कला दरसावत पावत परम प्रसमा । मखा
प्रमोदित परा मिलावत जहँ रघुकुल भवतसा ।—रघुराज
(शब्द०) ।

परा^५—उप० [म०] संस्कृत का एक उपनगं जो अर्थ में प्रातिलोम्य,
आभिमुख्य, धर्षण, प्राधान्य, विक्रम, स्वातंत्र्य, गमन, घातन
आदि विशेषताएँ व्यक्त करती है । जैसे, पराहत, परागत,
पराधीन, पराक्रांत, पराजित आदि [को०] ।

पराअर्णा—क्रि० [म० परायण] दे० 'परायण' । उ०—कित्ति सद्ध
सूर सगाम, धम्म पराअरण हिअप्र, विपअम्म नहु वीन
जपइ ।—कीर्ति०, पृ० ६ ।

पराइण—क्रि० [सं० परायण] लीन । निमग्न । परायण । उ०—
दादू जुरा काल जम्मण मरण, जहाँ जहाँ जिव जाइ ।
भगति पराइण लीन मन, ताकी काल न छाइ ।—दादू०,
पृ० ४०४ ।

पराई—क्रि० स्त्री० [हि० पराया] अन्य की । दूसरे की । उ०—(क)
विनु जोवन भइ आस पराई । कहा सो पूत खभ होय
आई ।—जायसी (शब्द०) । (ख) तोहि कौन मति रावन
आई । आजु कालि दिन चारि पाँच में लका होत पराई ।—
सूर (शब्द०) । २ जो आत्मीय न हो । दूसरा । विराना ।
उ०—मैंने फिर लिखवाया कि तू आ जा, घर में बसना ठीक
है । पराई जगह के पैर नहीं होते ।—पिंजरे०, पृ० ६३ ।

पराक^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मनु आदि स्मृतियों के अनुसार एक

प्रकार का कृच्छ्र व्रत जो यतात्मा और प्रमादरहित होकर और चार दिनों तक निराहार रहकर किया जाता था। इसका विधान धर्मशास्त्रों में प्रायश्चित्त के प्रकरण में है। २ खड्ग। ३ एक रोग का नाम। ४ एक क्षुद्र जंतु।

पराक^२—वि० लघु। छोट्टा [को०]।

पराकरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ अपेक्षा करना। २ दूर करना। ३, अस्वीकार करना [को०]।

पराकाश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शतपथ ब्राह्मण के अनुसार दूरदक्षिणा।

पराकाष्ठा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ चरम सीमा। सीमात। हृद। अंत। २ गायत्री का एक भेद। ३ ब्रह्मा की आधी आयु।

पराकोटि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पराकाष्ठा। २ ब्रह्मा की आधी आयु।

पराक्—वि० [सं०] दे० 'पराक्'।

पराक्पुष्पी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] अपामार्ग। चिचडी। चिरचिटा।

पराक्रम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० पराक्रमी] १ बल। शक्ति। सामर्थ्य। २ अभियान। आक्रमण (को०)। ३ विष्णु (को०)। ४ पुरुषार्थ। पौरुष। उद्योग।

मुहा०—पराक्रम चलना = पुरुषार्थ या उद्योग हो सकना।

पराक्रमी—वि० [सं० पराक्रमिन्] १ बलवान्। वलिष्ठ। २ वीर। बहादुर। ३, पुरुषार्थी। ४, उद्योगी। उद्यमी।

पराक्रान्त—वि० [सं० पराक्रान्त] दे० 'पराक्रमी'। २ दूसरे द्वारा आक्रान्त या पराजित। ३ जिसका मुख मोड़ दिया गया हो [को०]।

पराग^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह रज या धूलि जो फूलों के बीच लवे केसरो पर जमा रहती है। पुष्परज।

विशेष—इसी पराग-के फूलों के बीच के गर्भकोशों में पड़ने से गर्भाधान होता और बीज पड़ते हैं।

२ धूलि। रज। ३ एक प्रकार का सुगन्धित चूर्ण जिसे लगाकर स्नान किया जाता है। ४ चदन। ५ उपराग। ग्रहण। ६ कपूर रज। कपूर की धूल या चूर्ण। ७ विख्याति। ८ एक पर्वत। ९ स्वच्छद गति वा गमन।

पराग^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रयाग] दे० 'प्रयाग'। उ०—गया गोमती काशि पराग। होइ पुष्य जन्म शुद्धि अनुराग।—कवीर सा०, पृ० ४०२।

परागकेसर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] फूलों के बीच में वे पतले लवे सूत जिनकी नोक पर पराग लगा रहता है। इन्हें पीधों की पुं जननेन्द्रिय समझना चाहिए।

परागत—वि० [सं०] १ घिरा हुआ। आवृत। २ मरा हुआ। मृत। ३ विस्तृत [को०]।

परागति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] गायत्री।

परागता^१—क्रि० सं० [सं० उपराग] अनुरक्त होना। उ०—ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। अपरस रहत सनेह तगा ते नाहिन मन अनुरागी। पुरइन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। ज्यो जल माह तेल की गागरि बूँद न ताकी

लागी। प्रीति नदी महेँ पाँव न बोरयो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अवला हम भोरी गुर चींटी ज्यो पागी।—सूर (शब्द०)।

परागराजा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रयागराज] दे० 'प्रयाग'। उ०—महाराज, अस्थान तो परागराज है।—रगभूमि, भा० २, पृ० ४६६।

पराङ्मुख—वि० [सं०] १. मुँह फेरे हुए। विमुख। २ जो ध्यान न दे। उदासीन। ३ विरुद्ध।

पराच्—वि० [सं०] १ प्रतिलोमगामी। उलटा चलनेवाला। २ उद्धवगामी। ३ अप्रत्यक्षगम्य। परोक्षगम्य। ४ बाह्योन्मुख।

पराचित^१—वि० [सं०] दूसरे द्वारा प्रतिपालित। परपोषित [को०]।

पराचित^२—सञ्ज्ञा पुं० दास। गुलाम [को०]।

पराचितः—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रायश्चित्त] दे० 'प्रायश्चित्त'।

पराचीन^१—वि० [सं० प्राचीन] दे० 'प्राचीन'। उ०—तब तुव अत्हन जल आनहि पराचीन यह व्रत्ता।—प० रासो, पृ० ११३।

पराचीन^२—वि० [सं०] १ पराङ्मुख। २ अनुपयुक्त। ३ बहिर्मुख [को०]।

पराछिता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रायश्चित्त] दे० 'प्रायश्चित्त'। उ०—याको धूर गुनोरे डारो। दूत पराछित या विधि मारो।—कवीर सा०, पृ० ५३६।

पराजय—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] विजय का उलटा। हार। शिकस्त।
क्रि० प्र०—करना।—होना।

पराजिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० उपराजिका या हिं० परज] परज नाम की रागिनी।

पराजित—वि० [सं०] परास्त। पराभूत। हारा हुआ।

पराजिष्णु—वि० [सं०] १ पराजय योग्य। जिसे परास्त किया जा सके। २ पराजित। परास्त [को०]।

पराजै^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पराजय] दे० 'पराजय'। उ०—जीत लीधी जमी कठैथी जेगारी, पराजै हुई नैह फतै पाई।—रघु० रू०, पृ० ३१।

पराडीन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पश्चाद्गति। पीछे चलना या उडना [को०]।

पराण^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राण] दे० 'प्राण'। उ०—साँई तेरे नाँव परि सिर जीव कहेँ कुरवान। तन मन तुम परि वारणै, दाहू पिड पराण।—दाहू०, पृ० ३८१।

पराणसा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] उपचार। चिकित्सा। दवा करना। [को०]।

परात—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पात्र, तुल० पुर्वा० प्राट] थाली के आकार का एक बड़ा बरतन जिसका किनारा थाली के किनारे से ऊँचा होता है। यह आटा गूँधने, हाथ पैर धोने आदि के काम आता है। उ०—कोउ परात कोउ लोटा लाई। साहू सभा सब हाथ धोवाई।—जायसी (शब्द०)।

परातपर^१—वि० सञ्ज्ञा पुं० [सं० परात्पर] दे० 'परात्पर'। उ०—

महतत्व परे मूल माया परे ब्रह्म, ताहि तै परातपर सुदर कहतु है ।—सुदर० प्र० भा० २, पृ० ५६५ ।

परात्पर^१—वि० [सं०] जिसके परे कोई दूसरा न हो । सर्वश्रेष्ठ ।

परात्पर^२—सञ्ज्ञा पुं० १ परमात्मा । २ विष्णु ।

परात्परिय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] उलप नाम का तृण । एक घास जो कुशा की तरह की होती है और जिसमें जो या गेहूँ के से दाने पडते हैं । इसकी वाली में दूँड नहीं होते ।

परात्मा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परात्मन्] परमात्मा । परब्रह्म ।

परादन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] फारस का घोडा ।

पराधि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. तीव्र मानसिक पीडा । २ मृगया । श्राखेट [को०] ।

पराधीन—वि० [मं०] परवश । जो दूसरे के अधीन हो । जो दूसरे के तावे हो । उ०—पराधीन सुख सपनेहु नाही ।—तुलसी (शब्द०) ।

पर्या०—परतत्र । परवश ।

पराधीनता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] परतत्रता । दूसरे की अधीनता ।

परान^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राण, हिं० परात्मा] १० 'प्राण' । उ०—
(क) वाणी विमल पच पराना । पहिली सीस मिले अगवाना ।—दादू०, पृ० ६३८ । (ख) आजु कया पिजर-
बंध दूटा । आजु परान परेवा दूटा ।—पदमावत, पृ० २४६ ।

पराना^२—क्रि० अ० [सं० पलायन] भागना । उ०—(क) आज जो तरवर चलमल नाही । आवहु यहि वन छाँडि पराही ।—जायसी (शब्द०) । (ख) भाई रे गया एक विरचि दियो है भार अमर भो भाई । नी नारी को पानी पियत है तृषा तक न बुझाई । कोठा बहतरि श्री लो लावे बज्ज केवार लगाई । खूँटा गाडि डोर छड़ बाँधो तउ वह तोरि पराई ।—कवीर (शब्द०) । (ग) देखि विकट भट बडि कटकाई । जच्छ जीव लइ गए पराई ।—मानस, ११७६ । (घ) जामु देस नृप लीन्ह छोडाई । समर सेन तजि गयउ पराई ।—तुलसी (शब्द०) ।

परानी^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणी] दे० 'प्राणी' । उ०—बूभोरे नर परानी क्या सुपचे अधिकार । गण गधर्व मुनि देव ऋषि सव मिलि कीन्ह अहार ।—कवीर सा०, पृ० ५१ ।

परान्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पराया धान्य । दूसरे का दिया हुआ भोजन ।

परान्नभोजी—वि० [सं० परान्नभोजिन्] दूसरे का दिया अन्न खाकर जीवनयापन करनेवाला [को०] ।

परापति^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्राप्ति] दे० 'प्राप्ति' । उ०—जन रज्जव गुहकी दया उष्टि परापति होय । प्रगट गुपत पिछानिए जिसहि न दीखै कोय ।—रज्जव०, पृ० ५ ।

परापर^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] फालसा ।

परापर^२—वि० [सं० परात्पर] दे० 'परात्पर' । उ०—अहसास निराकार परापर नूर पियारो । बसो सर्वे जहँ वास नाथ निज आप नियारो ।—राम० धर्म०, पृ० १७३ ।

परापर^३—वि० [सं०] वैशेषिक के अनुसार परत्व और अपरत्व गुणों से युक्त [को०] ।

परापरी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परा+अपरा] परत्व और अपरत्व । विद्या और अविद्या । ज्ञान और अज्ञान । उ०—परापरी पावे रहे, कोई न जाणै ताहि । सतगुरु दिया दिखाइ करि, दादुरखा ल्यो लाइ ।—दादू०, पृ० ८ ।

परापिता^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्राप्ति' । उ०—धरम पंथ छाढो जनि कोई । धरमहि सिद्धि परापित होई ।—चित्रा०, पृ० ४४ ।

पराभव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पराजय । हार ।

क्रि० प्र०—करना ।—होना ।

२. तिरस्कार । मानघ्यस । ३ विनाश । ४ वैश्य युग के अतर्गत पाँचवा वर्ष ।

विशेष—बृहत्सहिता के अनुसार इस वर्ष अग्नि, पक्ष पीडा, रोग, आदि होते हैं और गो ब्राह्मण को विशेष भय होता है ।

पराभिन्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार के वानप्रस्थ जो गृहस्थों के घर से थोड़ी भिक्षा लेकर वन में अपना कालक्षेप करते हैं ।

पराभूत—वि० [सं०] १ पराजित । हारा हुआ । २ अस्त । नष्ट । ३ अनादत । तिरस्कृत [को०] ।

पराभूति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पराभव' [को०] ।

पराभौ^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पराभव] १ तिरस्कार । घनादर । उ०—
तव लीं उवेने पाय फिरत पेटै सलाय वाये मुह सहत पराभौ
देस देस को ।—तुलसी प्र०, पृ० २२८ । २. दे० 'पराभव' ।

परामर्श—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पकडना । खींचना । जैसे, केश परामर्श । २ विवेचन । विचार । ३. निर्णय । ४ अनुमान । ५ स्मृति । याद । ६ युक्ति । ७ सलाह । मयणा । उ०—
तुम्हारा चित्त कुछ और ही परामर्श देता है ।—अयोध्या (शब्द०) ।

क्रि० प्र०—करना ।—देना ।—लेना ।—मिलना ।—होना ।

८ व्याधिग्रस्त होना [को०] । ९ आक्रमण [को०] । १० स्पर्शन । ११ न्याय में व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्म का होना । अनुमिति [को०] ।

परामर्शन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ खींचना । २ स्मरण । चिंतन । ३ विचार करना । ४ सलाह करना । मशवरा करना ।

परामृत^१—वि० [सं०] जो मृत्यु आदि के बंधन से छूट गया हो । मुक्त ।

परामृत^२—सञ्ज्ञा पुं० वर्षा । वर्षण [को०] ।

परामृष्ट—वि० [सं०] १ पकडकर खींचा हुआ । २ पीडित । ३. विचारा हुआ । निर्णय किया हुआ । ४ जिसकी सलाह दी गई हो । ५ सबधयुक्त । सबद्ध [को०] । ६ धृमा हुआ । स्पृष्ट [को०] ।

परायचा—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पारचह् (=कपडा)] १ पडों के कटे टुकड़ों की टोपियाँ इत्यादि बनाकर बेचनेवाला । २ सिद्धे सिलाए कपड़े बेचनेवाला ।

परायण—वि० [सं०] १. गत । गया हुआ । २. निम्न । प्रकृत । तत्त्व । गया हुआ । शैवे, परमपरायण, नीतिपरायण । ३. धारिण । धर्मधिया (के०) । ४. श्राप । रक्षक (के०) ।

परायण—संज्ञा पुं० १ भाग्यकर जन्म भोग का मया । धारण । २. विष्णु । ३. अतिम सद्यः । प्रदान या उत्कृष्ट मदन (के०) । ४. शार । नन्द (के०) ।

परायण—वि० [सं०] परायण ।

परायण—वि० [सं० परायण] १. निरत । प्रकृत । गत । उ०—
गाम श्रौच मद सोज परायण । निर्दय पपटी कृष्टिन मनायन ।
—मानस, ७६६ । २. २० 'परायण' ।

पराया—वि० पुं० [सं० परकीय > परईय > पराया, या सं० पर + हिं०
जाया (प्राय०)] [हिं० पराई] १. दूरने का । प्रत्य
त । जैसे, पराया मान, पराया पन, पराई स्त्री । उ०—
(क) श्री जाहि तन होइहि नासू । पोरने मान पराये मासू ।
—जायसी (महर्ष०) । (ख) मुनिहि मोह मन हाथ पराये ।
हैबहि मनु गत प्रति सनुपाये ।—गुनगी (महर्ष०) । २. जो
घातनीय न हो । जो स्वजनो मे न हो । गैर । विराना । उ०—
विगरत धपनो काज है हेमत पराये योग ।—(महर्ष०) ।

मुद्रा—सपना पराया समझना = (१) यह जान होना कि
गौन विराना है । शत्रु, मित्र, भना मुग पहचानना । (२)
भेदभाव रहना । पराया मुँह साधना—श्रीगो का भगोसा
करना । दूरने का मुँह जाहना । उ०—जो नरे सावते पराया
मुँह, तो दुगो से न विगनिये जगटे ।—पुनते०, पु० १० ।

परायु—संज्ञा पुं० [सं० परायुस्] काल ।

परायु—वि० [सं० पर + चार(प्राय०)] [हिं० पराई] दूरने का ।
पराया । विराना । उ०—बादर की लारी शैवे जीवत जगं
माँही, उठि देगु नाही वीन धायगी परार है ।—(महर्ष०) ।

परायुधि—संज्ञा पुं० [सं० परार्थ] १. मोक्ष । परार्थ । मुक्ति । उ०—
पपनोत कृप मोक्ष स्वारथ परारथ वी जाकि धाय धायने
मुदास वाम दिवो है ।—गुनगी प्र०, पु० ३४१ । २.
२० 'परार्थ' ।

परायुधि—संज्ञा पुं० [सं० परार्थ] २० 'परार्थ' ।

परायुध, परावध;—संज्ञा पुं० [सं० प्रावध] नाथ । विरगण ।

परायु—संज्ञा पुं० [सं०] परिजन नाथ । पर माप के पहने का चाद के
रूप में (के०) ।

परायु—संज्ञा पुं० [सं०] श्रेयस ।

परायु—संज्ञा पुं० [सं०] १. माया । परस्पर । पट्टा । (के०) ।

परार्थ—संज्ञा पुं० [सं०] १. दाने का नाम । दूर का उतराग ।
परार्थ का उतराग । उ०—हमद मदा यथा परार्थ दूर, जोर
करी परार्थ श्री है ।—धरना, पु० १३५ । २. सर्वोद्दष्ट
भाग (के०) । ३. भाग । धर्म (के०) ।

परार्थ—वि० १. जो दूरने के समे जो । परविधायक । २. पर
परमायस । सत्यार्थ (के०) ।

परार्थ—संज्ञा पुं० [सं०] १. दूरने की संज्ञा । २. दूरता जिसे

सिगने में बढाया संज्ञा नि० पदे । १,००,००,००,००,००,
००,००,००० । दूर दूर । २. यथा ही धनु का धारण
नाम । ३. परार्थ भाषण । दूरार्थ का उतराग (के०) ।

परार्थि—संज्ञा पुं० [सं०] विष्णु ।

परार्थि—संज्ञा पुं० [सं०] २० 'परार्थ' ।

परावध—संज्ञा पुं० [सं० प्रावध] २० 'प्रावध' । उ०—
यह एक है परावध है जोर ।—धरना, पु० २० ।

परावधिय—संज्ञा पुं० [सं० प्रावध, हिं० परावध-ई (प्राय०)]
भाग्य । निम्नता । श्रावण । उ०—सारा विषय साधनी
पाये । परावधिय नर नाम हार्य ।—धरनी, पु० ३० ।

परावधि—वि० [सं० पर] २० 'परार्थ' । उ०—
जानी मन जानहि पर जाने । धनु परार विष में विष भागे ।—
मानस, २१३० । (ख) विर विरक सत्यकुल मद्रागी । विरु
प्राय नहि हृदय मद्रागी ।—समानस (महर्ष०) ।

परावधि—संज्ञा पुं० [हिं० पराई] २० 'पराई' । उ०—
गनसाहिय शैवीजग नदके ही परावधि सोन पन माण ।—
विगण, पु० ५ ।

परावध—संज्ञा पुं० [सं०] परावध ।

परावधि—संज्ञा पुं० [सं० परावध, हिं० परावध] एक भाग्य कृत्य
से लोभो का भावना । भगवद । भावद । परावध । उ०—
(क) विरग शोभ जो लहू विरगसो । को है सरो जो
विरगो । ग्याम मद्र से धनु परावध । विरै परावो वा मद्रि
परावध ।—धर (महर्ष०) । (ख) विरि म जोर न मनसुम
कोई । मुरपुर निहि परावध होई ।—गुनगी (महर्ष०) ।

परावधि—संज्ञा पुं० [हिं० परावध, परावध] जीव के मोक्षो का पर के
बाहर देना जामकर पूरा सोन उतरा करव को नीति ।
उ०—नरे धंसागी देव में जगी कपारम राज । दुरे पूरा
पूरा से परयो परावध साय ।—मनिस ५०, पु० ४४६ ।

परावधि—वि० [सं०] [हिं० परावध] १. परार्थेय । २. कदव
विद्वान् । ३. विरगता दूर का । ४. दूर का उतरा का ।

परावधि—संज्ञा पुं० १. समकर्म । अधिपत्य । सूर्यमण । २.
विद्व । ३. श्रावण धीन शार्थ वि० ।

परावधि—संज्ञा पुं० [सं०] परावधि विद्वान् (के०) ।

परावधि—संज्ञा पुं० [सं०] १. परावधि । २. परावधि का उतरा ।
परीटा । परावधि । ३. परावधि का उतरा । ३. परावधि
का उतरा । विरगि न उतरा । ४. परावधि का उतरा ।
उतरागी (के०) ।

परावधि—संज्ञा पुं० [सं०] १. परावधि । परावधि । परीटा ।
परीटा विरग । २. जो परावधि का उतरा । उतरा का उतरा ।
उतरागी । परावधि । ३. परावधि ।

परावधि—संज्ञा पुं० [सं०] परावधि का उतरा । उतरा ।
उतरा का उतरा । उतरा ।

परावधि—संज्ञा पुं० [सं०] परावधि का उतरा । उतरा ।

परावधि—संज्ञा पुं० [सं० परावधि] परावधि का उतरा । उतरा ।

परावर्त्य—वि० [सं०] जो परावर्तित किया जा सके। पलटने के योग्य [को०]।

यौ०—परावर्त्य व्यवहार = दे० 'परावर्त्तं व्यवहार'।

परावसु—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] १ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार असुरों के पुरोहित का नाम। २ महाभारत के अनुसार रेभ्य मुनि के एक पुत्र का नाम। ३ एक गधर्व का नाम। ४ विश्वामित्र के एक पौत्र का नाम। ५ सवत्सर के साठ चक्रों में से ४०वें सवत्सर का नाम (को०)।

परावह—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] वायु के सात भेदों में से एक।

परावा(०)†—वि० [सं०] दे० 'पराया'। उ०—करहि मोहवस द्रोह परावा। सत सग हरि कथा न भावा।—मानस, ७। ४०।

पराविद्ध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कुवेर। यक्षपति [को०]।

परावृत्त—वि० [सं०] १ पलटा हुआ या पलटाया हुआ। फेरा हुआ। २ बदला हुआ।

परावृत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं०] १ पलटने या पलटाने का भाव। पलटाव। २ मुकदमे का फिर में विचार या फैसला।

परावेदी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कटाई। भटकटैया।

पराव्याघ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पत्थर को फेंकना। हाथ से प्रस्तर के फेंके जाने पर उसकी गिरने की दूरी या फासला [को०]।

पराशर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ एक गोत्रकार ऋषि जो पुराणानुसार वसिष्ठ और शक्ति के पुत्र थे।

विशेष—इनके पिता का देहात इनके जन्म के पूर्व हो चुका था अतः इनका पालन पोषण इनके पितामह वसिष्ठ जी ने किया था। यही व्यास ऋषण द्वैपायन के पिता थे।

२ चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद के एक आचार्य का नाम। ३ एक प्रसिद्ध स्मृतिकार। इनकी स्मृति पराशर स्मृति के नाम से प्रख्यात है और कलियुग के लिये प्रमाणभूत मानी जाती है। ४ एक नाम का नाम। ५ ज्योतिष शास्त्र के एक आचार्य जिनकी रची पराशरी संहिता है। ६ गृह्य सूत्रों में से एक।

पराशरी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पराशरिन्] १ मिथुन। २ सन्यासी [को०]।

पराश्रय^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ दूसरे का सहारा। पराया भरोसा। दूसरे का अवलंब। २ पराधीनता।

पराश्रय^२—सञ्ज्ञा पुं० पराश्रित। पराधीन [को०]।

पराश्रया—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं०] बाँदा। बदाक। परगाछा।

पराश्रित—वि० [सं०] १ जिसे दूसरे का ही आसरा हो। जिसका काम दूसरे से चलता हो। २ दूसरे के अधीन।

परासग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परासङ्ग] अन्य का आश्रय। पराश्रय [को०]।

परास^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ किसी स्थान से उतनी दूरी जितनी दूरी पर उस स्थान से फेंकी हुई वस्तु गिरे। २ टीन।

परास(०)^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पलास] दे० 'पलास'। उ०—जर परास कोइला के भेसू। तव फूल राता होइ टेसू।—जायसी ग्रं० (गुप्त), पृ० ३३०।

परासक्त—वि० [सं०] दूसरे पर आसक्त। दूसरे से बँधा हुआ। किसी अन्य के वशीभूत। उ०—योग युक्ति करि याको पावे। परासक्त अपने वश लावे।—अष्टाग०, पृ० ८१।

परासचिर्ता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रायश्चित्त] दे० 'प्रायश्चित्त'। उ०—कुकर्म का परासचित्त तो करना ही पडता है।—गोदान, पृ० २२१।

परासन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हत्या। वध। हनन [को०]।

परासी—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं०] एक रागिनी का नाम। दे० 'पलाश्री'।

परासु—वि० [मं०] जिमका प्राण निकल गया हो। मरा हुआ। मृत।

परास्कदी—वि० [सं० परास्कन्दिन्] चोर। स्तेन। चोर [को०]।

परास्त—वि० [सं०] १, पराजित। हारा हुआ। २ विजित। ध्वस्त। ३ प्रभावहीन। दबा हुआ। से, ज्ञान अज्ञान जैसे परास्त हो गया। ४ जो स्वीकृत न हो। अस्वीकृत [को०]। ५ क्षिप्त। फेंका हुआ [को०]।

परास्तता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परास्त + ता] पराजय। हार। उ०—आई परास्तता कर्म भोग में जिसके।—साकेत, पृ० २१८।

पराह—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] दूसरा दिन। वर्तमान के आगे या पीछे का दिवस [को०]।

पराहत—वि० [सं०] १ प्राकृत। ध्वस्त। २ मिटाया हुआ। दूर किया हुआ। ३ निराकृत। खंडित। ४ जीता हुआ।

पराहति—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं०] प्रत्याख्यान। खडन [को०]।

पराहृति—वि० [सं०] दूर किया या हटाया हुआ [को०]।

पराह्—वि० [सं०] अपराह्। दोपहर के बाद का समय। तीसरा पहर।

परिद, परिदा—सञ्ज्ञा पुं० [फ्रा० परिन्दह्] पक्षी। चिडिया। उ०—(क) हवा जो पधारी सनकती, वहकती परिदों की टोली जो आई चहकती।—अपलक, पृ० ६२। (ख) मेरे प्राण परिदों से ही हूँ हूँ जाते रगों में, सध्या के सौ रग सौ तरह भर जाते मेरे अगों में।—मिट्टी०, पृ० ७७। (ग) ऐसी जगह ले चलो जहाँ परिदा पर न मारता हो। फिसा०, भा० ३, पृ० ५४।

परि^१—उप० [सं०] एक संस्कृत उपसर्ग जिमके लगने से शब्द में इन अर्थों की वृद्धि होती है।

१ चारों ओर। जैसे, परिक्रमण, परिवेष्टन, परिभ्रमण, परिधि।

२ सर्वतोभाव। अच्छी तरह। जैसे, परिकल्पन, परिपूर्ण।

३ अतिशय। जैसे, परिवर्द्धन।

४ पूर्णता। जैसे, परित्याग, परिताप।

५ दोषाख्यान। जैसे, परिहास, परिवाद।

६ नियम। क्रम। जैसे, परिच्छेद।

परि^२—अव्य० [हिं०] प्रकार। भाँति। तरह। उ०—(क) जब सोऊँ तब जागवइ, जब जागूँ तब जाइ। मारूँ ढोलउ धमरइ, इण्डि परि रथण विहाइ।—ढोला०, दू० ७६। (ख) सग सखी मील कुल वेस समाणी पेखि कली पदमिणी परि।—वैलि०, दू० १४।

परि(७)^३—प्रत्यय [हि०] दे० 'पर' । उ०—बदन कमल परि घुँघर
केस । देखि कै गोरज छुभित सुवेस ।—नद० ग्र०, पृ० ३२१ ।

परिकंप—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिकम्प] १. भय । डर । २. कपन ।
कंपकंपी [को०] ।

परिक—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] खराब चाँदी । खोटी चाँदी । (सुनार) ।

परिकथा—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] एक कहानी के अंतर्गत उसी के सबष की
दूसरी कहानी । अंतर्कथा ।

परिकर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पर्यंक । पलंग । २. परिवार । उ०—
भव भवा सबै परिकर समेत ।—ह० रासो, पृ० ६१ । ३.
वृद्ध । समूह । ४. धरनेवालो का समूह । अनुयायियों का
दल । अनुचर वर्ग । लवाजमा । उ०—श्री वृदावन राज है,
जुगल केलि रस घाम । तहँ के परिकर आदि को, वरनत या
थल नाम ।—भारतेंदु ग्रं०, भा० ३, पृ० ६४७ । ५. समारम्भ ।
तैयारी । ६. कमरबंद । पटुका । उ०—मृग विलोकि कटि
परिकर बाँधा । करतर चाप रुचिर सर साँधा ।—मानस,
३।२७ । ७. विवेक । ५. एक अर्थालंकार जिसमें अभिप्राय
भरे हुए विशेषणों के साथ विशेष्य आता है । जैसे—
हिमकरवदनी त्रिय निरखि पिय दग शीतल होय । ६.
नाटक में भात्री घटनाओं का संक्षेप में सूचन जिसे बीज
कहते हैं (को०) । १०. कार्य में सहायक । सहकर्मी (को०) ।
११. फैसला । निर्णय (को०) ।

परिकरमा(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परिक्रमा] दे० 'परिक्रमा' । उ०—
जप जोग दान विधान बहु विधि करे कर्म अनेक हो । सत
कोटि तीरथ भूमि परिकरमा करि न पावै थक हो ।—कबीर
सा०, पृ० ४११ ।

परिकरांकुर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिकराङ्कुर] एक अर्थालंकार जिसमें
किसी विशेष्य या शब्द का प्रयोग विशेष अभिप्राय लिए हो ।
जैसे,—वामा, भामा, कामिनी कहि बोली प्रानेस । प्यारी
कहत लजात नहि पावस चलत विदेस ।—बिहारी । यहाँ वामा
(जो वाम हो) आदि शब्द विशेष अभिप्राय लिए हुए हैं ।
नायिका कहती है कि जब आप मुझे छोड़ विदेश जा रहे हैं
तब इन्हीं नामों से पुकारिए, प्यारी कहकर न पुकारिए ।

परिकर्तन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. काटना । कर्तन । २. शूल । पीडा ।
३. गोलाकार कर्तन । वृत्ताकार काटना [को०] ।

परिकर्ता—सञ्ज्ञा पुं० [म० परिकर्ता] वह याजक या पुरोहित जो ज्येष्ठ
के अविवाहित रहने पर कनिष्ठ का विवाह कराए [को०] ।

परिकर्तिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] तीखा दंड़ । चुभनेवाला तीक्ष्ण
शूल [को०] ।

परिकर्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिकर्मन्] १. देह में चदन, केसर, उबटन
आदि लगाना । शरीरसंस्कार । २. पैर में महावर आदि
रचना (को०) । ३. गणित के आठ अंग या विभाग (को०) ।
४. पूजन । अर्चन (को०) ।

परिकर्मा—सञ्ज्ञा पुं० [म० परिकर्मन्] परिचारक । सेवक ।

परिकर्मा(७)^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिक्रमा] दे० 'परिक्रमा' । उ०—
वार वार परिकर्मा दै कै सुदर बदन बिलोकन कै कै ।
—नद० ग्र०, पृ० २७४ ।

परिकर्मी—वि० [सं० परिकर्मिन्] दास । सेवक [को०] ।

परिकर्ष, परिकर्षण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. वृत्त । धेरा । २. बाहर
निकालना । बाहर खीचना [को०] ।

परिकर्षित—वि० [सं०] १. प्रीणित । उत्पीडित । २. खीचा हुआ ।
कर्षित [को०] ।

परिकल्पित^१—वि० [सं०] आकल्पित । भूषित । अलंकृत । उ०—जब
तक काव्य भावना-परिकल्पित सहृदय सामाजिक का हृदय
स्वाभिमान की वासना से वासित नहीं होगा तब तक वह भाव
भाव मात्र रह जाएगा ।—सपूर्णां अभि० ग्र०, पृ० ३११ ।

परिकल्पित^२—सञ्ज्ञा पुं० अनुमान । आकलन [को०] ।

परिकल्पन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रवचना । दगावाजी ।

परिकल्पन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिकल्पित] १. मनन । चिंतन ।
२. वनावट । रचना । ३. बटन । वाँटना (को०) । ४. निश्चय
करना । निश्चयन (को०) ।

परिकल्पना—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] दे० 'परिवल्पन' । उ०—अब पुरा-
तत्ववेत्ताओं ने तदनुरूप स्थानों की खोज एव परिकल्पनाएँ
कर ली हैं ।—आधुनिक० (भू०)—क ।

परिकल्पित—वि० [सं०] १. कल्पना किया हुआ । सोचा हुआ ।
२. मन में गढ़ा हुआ । मनगढ़त । ३. निश्चित । ठहराया
हुआ । ४. मन में सोचकर बनाया हुआ । रचित । ५.
विभक्त । अंशों में बाँटा हुआ । ६. बाँटा हुआ (को०) ।

परिकाक्षित—सञ्ज्ञा पुं० [म० परिकाक्षित] तपसी । भक्त [को०] ।

परिकीर्ण—वि० [सं०] १. व्यास । विस्तृत । फैला हुआ । २. सम-
पित । ३. परिवेष्टित (को०) ।

परिकीर्तन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. ऊँचे स्वर से कीर्तन । खूब गाना ।
२. गुणों का विस्तृत वर्णन । अधिक प्रशंसा । ३. घोषित
करना । घोषणा करना (को०) ।

परिकीर्तित—वि० [सं०] परिकीर्तन किया हुआ [को०] ।

परिकूट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. नगर या दुर्ग के फाटक पर की खाई ।
२. एक नागराज ।

परिकूल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] किनारे की भूमि । तटवर्ती भूमि [को०] ।

परिकृश—वि० [सं०] अत्यंत कृश या क्षीण । अत्यंत दुबला
पतला [को०] ।

परिकोप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अत्यंत क्रोध । तीव्रतर कोप [को०] ।

परिक्रम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. टहलना । घूमना । २. चारों ओर
घूमना । फेरी देना । परिक्रमा । ३. क्रम । श्रेणी । ४. प्रवेश ।

परिक्रमण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. टहलना । मन बहलाने के लिये
घूमना । चारों ओर घूमना । फेरी देना । दे० 'परिक्रम' ।

परिक्रमसह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] छाया । बकरा [को०] ।

परिक्रमा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परिक्रम] १ चारो ओर घूमना । फेरी । चक्कर । प्रदक्षिणा ।

क्रि० प्र०—करना ।—होना ।

विशेष—किसी तीर्थस्थान या मंदिर के चारो ओर जो घूमते हैं उसे परिक्रमा कहते हैं ।

२ किसी तीर्थ या मंदिर के चारो ओर घूमने के लिये बना हुआ माग ।

परिक्रमित—वि० [सं० परिक्रम + इत (प्रत्य०)] परिक्रमा की हुई । जिसकी परिक्रमा की गई हो । ड०—स्वर्ग खड पद् ऋतु परिक्रमित, भ्रात्र मजरित, मधुप गु जरित । कुमुमित फल-द्रुम पिक कल कुजित, उर्वर अभिमत हे ।—ग्राम्या, पृ० ५५ ।

परिक्रय, परिक्रयण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मोल । खरीद । २ किराया । भाड़ा (को०) । ३ मजदूरी पर काम करना (को०) । ४ द्रव्य देकर कोई चीज खरीदना (को०) । ५ वह खरीद जिसके क्रयवस्तु के परिवर्तन में कोई वस्तु दी जाय (को०) ।

परिक्रय सधि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परिक्रय सन्धि] वह सधि जो जगली पदार्थ, धन या कोश का कुछ भाग या सपूर्ण कोश देकर की जाय । (कामदक) ।

परिक्रात^१—वि० [सं० परिक्रान्त] जिसकी परिक्रमा की गई हो [को०] ।

परिक्रात^२—सञ्ज्ञा पुं० १ वह स्थान जिसपर क्रमण या गमन किया गया हो । २ कदम । डग [को०] ।

परिक्रिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ खाई आदि से घेरने की क्रिया । २ एक प्रकार का एकाह यज्ञ जो स्वर्ग की कामना से किया जाता है । ३ घेरना । आवेष्टित करना (को०) । ४ दे० 'परिकर' (को०) । ५ मनोयोग (को०) ।

परिक्रान्त—वि० [सं० परिक्रान्त] जो थककर चूर हो गया हो । बहुत आत [को०] ।

परिक्रिल्लट^१—वि० [सं०] १ नष्ट । भ्रष्ट । परिक्षत । २ अतिविल्लट । अतिगूढ़ ।

परिक्रिल्लट^२—सञ्ज्ञा पुं० परेशानी । क्लेश । तकलीफ [को०] ।

परिक्लेश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] तरी । आर्द्रता [को०] ।

परिक्लणन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मेघ । बादल ।

परिचत—वि० [सं०] नष्ट । भ्रष्ट ।

परिचति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पीड़ा । कष्ट । क्षति [को०] ।

परिचय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नाश । विनाश । बरबादी [को०] ।

परिचष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] छींक । छिक्का ।

परिचक्षा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कीचड़ । कर्दम ।

परिचक्षा^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परीक्षा] दे० 'परीक्षा' ।

परिचक्षाम—वि० [सं०] अत्यंत दुर्बल । कमजोर [को०] ।

परिचालन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ भली भाँति धोना । अच्छी तरह पखारना । २ वह पानी जो धोने के काम आए [को०] ।

परिचित्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ एक राजा जो अभिमन्यु का पुत्र था । पि० दे० 'परीक्षित' । ३ अग्नि का एक नाम (को०) ।

परिचित्त—पि० [सं०] १ खाई आदि से घेरा हुआ । २ सब ओर से घिरी हुई (सेना) । पि० दे० 'उपरुद्ध' । ३ इतस्तत क्षिप्त । विषीण (को०) । ४ छोटा हुआ । त्यक्त (को०) ।

परिचीय—वि० [सं०] १ निर्वन । २ दुर्बल और अशक्त (सेना) । ३ अत्यंत कृश (को०) । ४ लुप्त । नष्ट (को०) ।

परिचीव—वि० [सं०] मतवाला । उन्मत्त [को०] ।

परिचेष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. परित्याग । २ टहलना । ३ फैलाना । ४ घेरना । ५ घेरनेवाली वस्तु । ५ ज्ञानेंद्रिय [को०] ।

परिखन—वि० [हिं० परखना] निगहवानी करनेवाला । देख रेख करनेवाला । अगोरिया । उ०—गरभ माहि रक्षा करी जहाँ हित नहि कोइ । अरु का परिखव पालिहैं विपिन गए मँह सोइ ।—विश्राम (शब्द०) ।

परिखना^१—क्रि० म० [सं० परीक्षा] पहचानना । जाँचना । परीक्षा करना । इम्तहान करना ।

परिखना^२—क्रि० सं० [सं० प्रतीक्षण] इतजार करना । गह देयना मार्ग प्रतीक्षा करना । आसरा देखना । उ०—परिखेसि मोहि एक पखवाग । नहि आवउ तव जानेसि मारा ।—तुलसी (शब्द०) ।

परिखा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ वह गहरा गढ़ा जो किसी नगर या दुर्ग के चारो ओर इसलिये खोदा जाता था कि शत्रु उसमें सहज में न घुस सकें । किसी नगर या दुर्ग को घेरनेवाली खाई । खदक । खाई । ३ तन या मूल (साक्ष०) ।

परिखात—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ दे० 'परिखा' । २ खाई खोदने का कार्य । ३ हल से जोतने की क्रिया । हराई । वाह [को०] ।

परिखान—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परिखात] गाड़ी के पहिए की लीक ।

परिखिन्न—वि० [सं०] अत्यंत खिन्न । कष्टग्रस्त । पीडित [को०] ।

परिखेद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अत्यंत खेद । अत्यधिक धकान [को०] ।

परिख्यात—वि० [सं०] विख्यात । प्रसिद्ध । मशहूर ।

परिख्याति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रसिद्धि [को०] ।

परिगणन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [पि० परिगणित, परिगणनीय, परिगण्य] १ भली भाँति गिनना । सम्यक् रीति से गिनना । २ गिनना । गणना करना । शुमार करना ।

परिगणना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'परिगणन' ।

परिगणनीय—वि० [सं०] परिगणना के योग्य [को०] ।

परिगणित—वि० [सं०] गिना हुआ । जिसकी गिनती हो चुकी हो । उ०—वग देश में जिस चाल के घट्ट से नाटक घन भी बूके हैं वह सब नवीन भेद में परिगणित हैं ।—भारतेंदु प्र०, भा० १, पृ० ७१६ ।

परिगण्य—वि० [सं०] दे० 'परिगणित' ।

परिगत—वि० [सं०] १ गत । वीता हुआ । गया गुजरा । २ मरा हुआ । मृत । ३ विस्मृत । जिसे भूल गए हों । ४ ज्ञात । जाना हुआ । ५. प्राप्त । मिला हुआ । ६ वेष्टित । घेरा हुआ ७ स्मृत । स्मरण किया हुआ (को०) । ८ बाधित । बाधा-युक्त (को०) । ९ पीडित । पीडायुक्त (को०) ।

परिगम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. घेरना । आवेष्टित करना । २ जानना । ३ प्राप्त करना । ४ व्याप्त होना या करना [को०] ।

परिगमन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिगम' [को०] ।

परिगर्भिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वैद्यक के अनुसार बालको का एक रोग जो गर्भिणी माता का दूध पीने से होता है ।

विशेष—इसमें बालक को खाँसी, कै, अरुचि और तन्द्रा होती है, उसका शरीर दुबला हो जाता है, भोजन नहीं पचता, और पेट बढ जाता है । वैद्यक में इस रोग में अग्निदीपक औषधों के सेवन का विधान है ।

परिगर्हित—वि० [सं०] बहुत गर्दवाला । भारी धमंडी ।

परिगर्हण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अत्यंत निंदा । विशेष गर्हण [को०] ।

परिगक्षित—वि० [सं०] १ गला हुआ । गलित । २ तरल । पिघला हुआ । ३ च्युत । नीचे गिरा हुआ । ४. गायब । लुप्त [को०] ।

परिगह (७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिग्रह] कुटुंबी । सगी साथी या आश्रित जन । उ०—राजपाट दर परिगह तुमही सर्वे उँजियार । वड्ठि भोग रस मानहु कइ न चलहु औषियार । —जायसी (शब्द०) ।

परिगहन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अत्यंत घना । अत्यंत गहन [को०] ।

परिगहना (७)—क्रि० सं० [सं० परिग्रहण] ग्रहण या स्वीकार करना । आसरा देना । सहारा देना । उ०—तेरे मुह फेरे मोसे कायर कपूत कुर लटे लटपटेनि को कौन परिगहैगो ।—तुलसी भ०, पृ० ५८७ ।

परिगाढ—वि० [सं०] अत्यधिक । बहुत ज्यादा [को०] ।

परिगोत—वि० [सं०] बहुत अधिक वर्णित [को०] ।

परिगीति—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] एक प्रकार का वृत्त । एक छंद [को०] ।

परिगुठित—वि० [सं० परिगुठित] छिनाया हुआ । ढका हुआ ।

परिगुडित—वि० [सं० परिगुडित] घूल से छिपा हुआ । गर्द से ढका हुआ ।

परिगूढ—वि० [सं०] जो समझ में कठिनता से आए । अत्यंत गूढ़ [को०]

परिगूढ—वि० [सं०] अत्यंत लालची । विशेष लालचवाला [को०] ।

परिगृहीत—वि० [सं०] १ स्वीकृत । मञ्जर किया हुआ । २ मिला हुआ । शामिल । ३. चारों ओर से घेरा हुआ । चारों ओर से आवृत (को०) । ४ घारण या ग्रहण किया हुआ (को०) । ५ अनुगमित । अनुसृत (को०) । ६ पकडा हुआ (को०) । ७. सरक्षित । सुरक्षित (को०) ।

परिगृहीता^१—वि० [सं०] विवाहिता । परिणीता [को०] ।

परिगृहीता^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिगृहीत] १ पति । २ सहयोगी । सहायक । ३ वह व्यक्ति जो गोद ले [को०] ।

परिगृह्या—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] विवाहिता स्त्री । धर्मपत्नी ।

परिग्रह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रतिग्रह । ग्रहण । लेना । दान लेना । ३ पाना । ३. घनादि का सग्रह । ४. स्वीकार । अंगीकार । आदरपूर्वक कोई वस्तु लेना । ५ स्त्री को अंगीकार करना । विवाह । ६ पत्नी । स्त्री । भार्या । ७ सेना का पिछला भाग ८. परिजन । परिवार । स्त्री पुत्र आदि । ९ राहुग्रस्त सूर्य । १०. मुलकद । ११ शाप । १२. शपथ । कसम । १३ विष्णु । १४ अनुग्रह । मिहरबानी । १५ जैन शास्त्रों के अनुसार तीन प्रकार के गतिनिवधन कर्म—द्रव्य-परिग्रह, भावपरिग्रह और द्रव्यभावपरिग्रह । १६. कुछ विशिष्ट वस्तुएँ सग्रह न करने का व्रत । १७ राष्ट्र । राज्य (को०) । १८ दंड (को०) । १९ गृह । मकान । घर (को०) ।

परिग्रहण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सब प्रकार से ग्रहण । पूर्ण रूप से ग्रहण करना । २ कपड़े पहनना ।

परिग्राम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गाँव के सामने का भाग ।

परिग्राह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक विशेष प्रकार की यज्ञवेदी ।

परिग्राह्य—वि० [सं०] ग्रहण करने योग्य । जो ग्रहण किया जा सके ।

परिघ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ लोहांगी । गंडासा । २ ज्योतिष में एक योग । २७ योगों के अंतर्गत १६वाँ योग ।

विशेष—इस योग को आधा छोड़कर शुभ कर्म करने चाहिए । जन्मकाल में यह योग पडने से मनुष्य बशकुठार, असत्य-साक्षी, क्षमाहीन, स्वल्पानुभोक्ता और शत्रुदल को जीतनेवाला होता है ।

३ अर्गला । अगडी । ४ मुद्गर । ५ शूल । माला । बर्छी । ६ कलस । ७ घोडा । ८ गोपुर । फाटक । ९. घर । १० स्वामिकार्तिक का एक अनुचर । ११ तीर । १२ पर्वत । १३. वज्र । १४ शेषनाग । १५ जल । १६. चंद्र । १७. सूर्य । १८ नदी । १९ स्थल । २० आनंद और सुख की निवारक अविद्या । २१. बाधा । प्रतिवध । २२ महाभारत के अनुसार एक षाडाल का नाम । २३ सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का मूढ़ गर्भ । २४ वे बादल जो सूर्य के उदय या अस्त होने के समय उसके सामने आ जाय । २५ शीशे का घडा या जलपात्र (को०) ।

परिघट्टन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] (कलछी से) चारों ओर से घर्षण करना । दर्वी आदि से चलाना [को०] ।

परिघट्टित—वि० [सं०] घर्षण किया हुआ । चलाया या मथा हुआ [को०] ।

परिघमूढगर्भ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिघमूढगर्भ] वह बालक जो प्रसव के समय योनि के द्वार पर आकर अगडी की तरह अटक जाय ।

परिघर्म, परिघर्म्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] यज्ञ में काम आनेवाला एक विशेष पात्र ।

परिघह (७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिग्रह] दे० 'परिग्रह' या 'परिग्रह' । उ०—राम दे राव जालीर घर गोइद गड्ड घामनि त्रसे । दाहिम्म बयाने उप्पनी पृथीराज परिघह वसे । —पृ० रा०, १।५८४ ।

परिघात—उच्चा पुं० [त्रि०] १ हत्या । हनन । मार डालना । २ वह अस्त्र जिसमें किसी की हत्या की जा सकती हो । ३ उल्लघन करना (को०) । ४ लोहे की गदा या मुद्गर (को०) । ५ नष्ट करना (को०) ।

परिघातन—उच्चा पुं० [म०] 'परिघात' (को०) ।

परिघातो—वि० [म० परिघातिन्] १ परिघात करनेवाला । हत्याकारी । मार डालनेवाला । २ उल्लघन करनेवाला (को०) । ३ नष्ट करनेवाला (को०) ।

परिघृष्ट—वि० [स०] अत्यन्त घर्षित । अच्छी तरह घृष्ट (को०) ।

परिघृष्टिक—सञ्ज्ञा पुं० [स०] एक प्रकार का वानप्रस्थ (को०) ।

परिघोष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मेघगर्जन । बादल का गरजना । २ शब्द । आवाज । ३ अनुचित कथन । अनुपयुक्त वात (को०) ।

परिचक्रा—सञ्ज्ञा स्त्री० [स०] एक प्राचीन नगरी का नाम ।

परिचङ्गा(७)—वि० [सं० प्रचण्ड] दे० 'प्रचण्ड' । उ०—अजरां परि अजमेर माल वधव परिचङ्ग । अस्त वस्त अरु चर्म टक लम्भं नन हङ्ग ।—पृ० रा०, १।६६८।

परिचरना—क्रि० प्र० [हि० परचना] दे० 'परचना' ।

परिचपल—वि० [म०] अति चंचल । जो किसी समय स्थिर न रहे । जो हर समय हिलता हुलता या घूमता फिरता रहे ।

परिचय—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १ किसी विषय या वस्तु के सबंध की प्राप्त की हुई अथवा मिली हुई जानकारी । ज्ञान । अभिज्ञता । विशेष जानकारी । जैसे—थोड़े दिनों से मुझे भी उनके स्वभाव का परिचय हो गया है । २ प्रमाण । लक्षण । जैसे,—उस पद पर थोड़े ही दिनों तक रहकर उन्होंने अपनी योग्यता का अच्छा परिचय दिया था । ३ किसी व्यक्ति के नामधाम या गुणकर्म आदि के सबंध की जानकारी । जैसे,—मुझे आपका परिचय नहीं मिला ।

क्रि० प्र०—कराना । देना ।—दिलाना ।—पाना ।—मिलना ।—होना ।

४ जान पहचान । जैसे,—यहाँ तो बहुत से आदमियों के साथ आपका परिचय है । ५ अभ्यास । मशक । ६ हठयोग में नाद की चार अवस्थाओं में से तीसरी अवस्था । ७ इकट्ठा करना । एकत्र करना । जमा करना (को०) ।

परिचय करणा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] बढना हुआ प्रेम । प्रवर्धित करणा (को०) ।

परिचयपत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] किसी की पूरी जानकारी देनेवाला पत्र ।

परिचर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. सेवक । खिदमतगार । टहलुआ । २ रोगी की सेवा करनेवाला । शुश्रूपाकारी । ३ वह सैनिक जो रथ पर शत्रु के प्रहार से उसकी रक्षा करने के लिये बैठाया जाता था । ४ दंडनायक । नेनापति । परिधिस्थ । ५ अग-रक्षक सैनिक (को०) । ६ आदर । अभ्यर्थना । सत्कार (को०) ।

परिचर—वि० अमराशील । चल । गतिशील (को०) ।

परिचरजा(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परिचर्या] दे० 'परिचर्या' । उ०—

निज कर गृह परिचरजा करई । रामचंद्र आश्रम अनुसरई ।
—मानस, ७।२४।

परिचरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिचरणीय, परिचरितव्य] १ सेवा करना या सेवा । परिचर्या । खिदमत । टहल । २ भ्रमण । चक्रमण (को०) ।

परिचरणीय—वि० [म०] १ परिचरण के योग्य । भ्रमण के योग्य । २ सेवा के योग्य (को०) ।

परिचरत—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] प्रलय । कयामत ।

परिचरितव्य—वि० [सं०] दे० 'परिचरणीय' (को०) ।

परिचरिता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिचरितृ] सेवक । सेवा करनेवाला । शुश्रूपाकारी ।

परिचरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] दासी । सेविका । लौंडी ।

परिचर्या(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परिचर्या] दे० 'परिचर्या' ।

परिचर्मण्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चमड़े का बना हुआ फीता (को०) ।

परिचर्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ सेवा । टहल । खिदमत । २ रोगी की सेवा शुश्रूपा ।

परिचायक—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १ परिचय करानेवाला । जान पहचान करानेवाला । २ सूचित करनेवाला । जतानेवाला ।

परिचार्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ यज्ञ की अग्नि । २ यज्ञकुंड ।

परिचार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मेवा । टहल । खिदमत । २ सेवक । टहलुआ । उ०—तजि कुलगामि को निसक होय क्यों न करे वेगि मृगनैनी अनुकपा परिचार पै । —मोहन०, पृ० १०३ । ३ वह स्थान जो टहलने या घूमने फिरने के लिये निर्दिष्ट हो ।

परिचारक—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १ सेवक । नौकर । भृत्य । टहलुआ । २. वह जो किसी रोगी की सेवा करने पर नियुक्त हो । शुश्रूपाकारी । ३ वह जो देवमंदिर आदि का कार्य अथवा प्रबंध करता हो ।

परिचारण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिचारी, परिचार्य] १ सेवा करना । टहल या खिदमत करना । सेवकाई । खिदमतगारी । २ सहवास करना । सग करना या रहना ।

परिचारना(७)—क्रि० स० [सं० परिचारण] सेवा करना । खिदमत करना ।

परिचारि(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परिचारिका] सेविका । टहलुवी । उ०—हौ भई तुम परिचारि, नाथ तुम भए हमारे ।—नद० ग्र०, पृ० २७५ ।

परिचारिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० परिचारिका] सेवक । खिदमत-गार । दे० 'परिचारक' ।

परिचारिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दासी । सेविका । मजदूरनी । उ०—जेहि सहसन परिचारिका राखत हाथहि हाथ ।—भारतेंदु ग्र०, भा० १, पृ० ३०७ ।

परिचारिणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'परिचारिका' । उ०—माँ से पूछने पर उसने यही कहा कि अपने जीवन में परिचारिणी के रूप में मैं बहुत स्थानों में विचरी ।—स० दरिया, पृ० ६० ।

- परिचारित**—सञ्ज्ञा पु० [सं०] खेल । क्रीडा । मनोरजन ।
- परिचारो**—वि० [सं० परिचारिन्] १ टहलनेवाला । वह जो भ्रमण करता हो । २ सेवा करनेवाला । टहलू । चाकर ।
- परिचार्य**—वि० [सं०] सेव्य । सेवा करने योग्य । जिसकी सेवा करना उचित हो ।
- परिचालक**—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १ चलानेवाला । चलने के लिये प्रेरित करनेवाला । २ किसी काम को जारी रखने तथा आगे बढ़ानेवाला । संचालक । ३. गति देनेवाला । हिलानेवाला ।
- परिचालकता**—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं०] परिचालन करने की क्रिया, भाव अथवा शक्ति ।
- परिचालन**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिचालित] १. चलाना । चलने के लिये प्रेरित करना । चलने में लगाना । २ कार्य का निर्वाह करना । कार्यक्रम को जारी रखना । जैसे,—इस पत्र का परिचालन उन्होंने बड़ी ही उत्तमता के साथ किया । ३. हिलाना । गति देना । हरकत देना ।
- परिचालित**—वि० [सं०] १ चलाया हुआ । चलने में लगाया हुआ । २ निर्वाह किया हुआ । बराबर जारी रखा हुआ । ३ हिलाया हुआ । जिसे गति दी गई हो ।
- परिचितन**—सञ्ज्ञा पु० [सं० परिचिन्तन] १ स्मरण करना । २. चिन्तन करना । विचार करना [को०] ।
- परिचित**—वि० [सं०] १. जिसका परिचय हो चुका हो । जाना हुआ । ज्ञात । मालूम । जैसे,—इस पुस्तक का विषय मेरा परिचित नहीं है । २ जिसको परिचय हो चुका हो । वह जो किसी को जान चुका हो । अभिज्ञ । वाकिफ । जैसे,—मैं उनके स्वभाव से बिलकुल परिचित नहीं हूँ । ३ जान पहचान रखने वाला । मिलने जुलनेवाला । मुलाकाती । जैसे,—मेरी परिचित मडली श्रव इतनी बड़ी हो गई है कि मिलने जुलने में ही प्रायः मेरा सारा समय लग जाता है । ४ जैन दर्शन के अनुसार वह स्वर्गीय आत्मा जो दो बार किसी चक्र में आ चुकी हो । ५ इकट्ठा किया हुआ । ढेर लगा हुआ । संचित । ६ किसी काम को बार बार करना । अभ्यास । मशक (को०) ।
- परिचिति**—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] परिचय । ज्ञान । अभिज्ञता । जानकारी ।
- परिचिह्नित**—वि० [सं०] हस्ताक्षरयुक्त [को०] ।
- परिचीर्ण**—वि० [सं०] सेवित । जिसकी सेवा की गई हो [को०] ।
- परिचुबन**—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिचुम्बन] [वि० परिचु वित] प्रेमपूर्वक घुबन । भरपूर प्रेम या स्नेह से घुबन करना ।
- परिचुंबित**—वि० [सं० परिचुंबित] अतिशय प्रेम के साथ घुमा गया [को०] ।
- परिचय**—वि० [सं०] १ परिचय योग्य । जान पहचान करने योग्य । साहब सलामत या राहोरस्म रखने योग्य । २. एकत्र करने योग्य । ढेर लगाने योग्य । सचय करने योग्य ।
- परिचो**—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिचय] दे० 'परिचय' । उ०—जल जैसे तूँवा तिरै, परिचै पिढ जीव नहि मरै।—रे० बानी, पृ० २ ।

- परिचो**—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परिचय] ज्ञान । उ०—करतल निरखि कहत सब गुन गन बहुतनि परिचो पाई।—तुलसी (शब्द०) ।
- परिच्छद**—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिच्छन्द] वस्त्र । पहरावा । पोशाक ।
- परिच्छद**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ कपडा जो किसी वस्तु को ढक या छिपा सके । आच्छादन । ढाकनेवाली वस्तु । पट । जैसे, लिहाफ खोल, मूल आदि । २ वस्त्र । पहनावा । पोशाक । उ०—आपने जो मूल्यवान् परिच्छद मुझे पहनाया है।—प्रेमघन०, भा० २, पृ० ३६८ । ३ राजचिह्न । ४. राजा आदि के सब समय साथ रहनेवाले नौकर । अनुचर । ५. परिजन । परिवार । कुटुंब । ५ असवाव । सामान । ७. प्रात । प्रदेश ।
- विशेष**—नागोद रियासत के खोह नामक गाँव में जो ताम्रपत्र मिला है, उसमें इस शब्द का प्रयोग पाया गया है । वहाँ लिखा है—दक्षिणोन् बलवर्मा परिच्छद ।
- परिच्छन्त**—वि० [सं०] १. ढका हुआ । छिपा हुआ । ३ जो कपड़े पहने हो । वस्त्रयुक्त । वस्त्रादि से सज्जित । ३. जो साफ किया हुआ हो । ४. परिच्छद (सेवक, अनुचर आदि) से युक्त (को०) ।
- परिच्छा**—सञ्ज्ञा स्त्री [सं० परीक्षा] दे० परीक्षा ।
- परिच्छत्ति**—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ सीमा । अवधि । इयत्ता । हद । ३. दो पदार्थों को बिलकुल अलग अलग कर देना । सीमा द्वारा दो वस्तुओं को एक दूसरी से बिलकुल जुदा कर देना । ३ विभाग । बाँट । ४. यथार्थ व्याख्या । सूक्ष्म व्याख्या (को०) ।
- परिच्छन्न**—वि० [मं०] १ परिच्छेदविशिष्ट । सीमायुक्त । परिमित । मर्यादित । २. विभक्त । विभाजित । अलग अलग किया हुआ । ३ चारों ओर से कुछ कटा हुआ (को०) । ४. जिसका उपचार किया गया हो (को०) ।
- परिच्छेद**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ काटकर विभक्त करने का भाव । खड या टुकड़े करना । विभाजन । २ ग्रथ या पुस्तक का ऐसा विभाग या खड जिसमें प्रधान विषय के अग्रभूत पर स्वतंत्र विषय का वर्णन या विवेचन होता है । ग्रथ का कोई स्वतंत्र विभाग । ग्रथविच्छेद । ग्रथसधि । अध्याय । जैसे,—अमुक पुस्तक में कुल १० परिच्छेद हैं ।
- विशेष**—ग्रथ के विषय के अनुसार उसके विभागों के नाम भी भिन्न भिन्न होते हैं । काव्य में प्रत्येक को सर्ग, कोष में वर्ग, अलंकार में परिच्छेद तथा उच्छ्वास, कथा में उद्घात, पुराण और संहिता आदि में अध्याय, नाटक में अंक, तत्र में पटल, ब्राह्मण में कांड, संगीत में प्रकरण और भाष्य में आह्निक कहते हैं । इसके अतिरिक्त पाद, तरंग, स्तवक, प्रपाठक, स्कंध, मजरी, लहरी, शाखा आदि भी परिच्छेद के स्थानापन्न हुआ करते हैं । परिच्छेद का नाम विषय के अनुसार नहीं किंतु सख्या के अनुसार होता है, जैसे, नवौं परिच्छेद, दसवाँ परिच्छेद ।
३. सीमा । इयत्ता । अवधि । हद । दो वस्तुओं को स्पष्ट रूप से अलग अलग कर देना । सीमानिर्धारण द्वारा दो वस्तुओं को

विलगाना । परिभाषा द्वारा दो वस्तुओं या भावों का अंतर स्पष्ट कर देना । जैसे, सत्यासत्य का परिच्छेद, धर्माधर्म का परिच्छेद । ५. निर्णय । निश्चय । फैसला । ६. विभाग । बँटवारा ।

परिच्छेदक—सज्ञा पुं० [सं०] १ सीमा या ह्यत्ता निर्धारित करनेवाला । हृद मुकरंर करनेवाला । २ विलगानेवाला । पृथक् करनेवाला । ३. सीमा । हृद । ४ परिमाण, गिनती, नाप या तोल ।

परिच्छेदकर—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार की समाधि ।

परिच्छेदन—सज्ञा पुं० [सं०] १ विभाजन । बँटवारा । २ पुस्तक का अध्याय । ३ अवधारण । विवेचन [को०] ।

परिच्छेदातीत—वि० [सं०] जिसका परिच्छेद न हो सके । जिसकी सीमा, विभाग, ह्यत्ता, अवधि आदि की परिभाषा या निर्धारण न हो सके ।

परिच्छेद्य—वि० [सं०] १ गिनने, नापने या तोलने योग्य । परिमेय । २ अलग करने योग्य । विलगाने योग्य । विभाज्य ।

परिच्युत—वि० [सं०] १ सब भाँति गिरा हुआ । सर्वथा भ्रष्ट या पतित । ३ जाति या पक्षि से बहिष्कृत । विरादरी से निकाला हुआ ।

परिच्युति—सज्ञा स्त्री० [सं०] गिरना । पतन । स्वलान । भ्रंश ।

परिच्युत—सज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'परछुत' । उ०—(क) कचन धार सोह वर पानी । परिच्युत चली हरहि हरपानी ।—मानस, १।६६ । (ख) को जान केहि आनंद वस सब ब्रह्म वर परिच्युत चली ।—मानस, १।३१८ ।

परिच्युता^१—क्रि० सं० [हिं०] दे० 'परछुता' उ०—बधुन्ह सहित सुत परिच्युत सब चली लवाइ निकेत ।—मानस, १।३४६ ।

परिच्युता^२—क्रि० सं० [सं० परीक्षा, हिं० परिच्छा, परीक्षा] परीक्षा लेना । परखना । जाँचना । उ०—कहिए अब लौ ठहरयो कौन । सोई भाग्यो तुव साम्हे सो गयो परिच्युतौ जौन ।—भारतेंदु ग्र०, भा० २, पृ० २६८ ।

परिच्छाही—सज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'परछाही' । उ०—मन धिर करहु देव डर नाहीं । भरतहि जान राम परिच्छाही ।—तुलसी (शब्द०) ।

परिच्छिन्न—वि० [सं० परिच्छिन्न] दे० 'परिच्छिन्न' ।

परिजक—सज्ञा पुं० [सं० पर्यङ्क] दे० 'पर्यङ्क' ।

परिजटन—सज्ञा पुं० [सं० परिघटन > पर्यटन] दे० 'पर्यटन' ।

परिजन—सज्ञा पुं० [सं०] १ परिवार । आश्रित या पोष्य वर्ग । वे लोग जो अपने भरण पोषण के लिये किसी एक व्यक्ति पर अवलंबित हों, जैसे, स्त्री, पुत्र, सेवक आदि । २ सदा साथ रहनेवाले सेवक । अनुचरवर्ग ।

परिजनता—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ परिजन होने का भाव । २. अधीनता ।

परिजन्मा—सज्ञा पुं० [सं० परिजन्म] १ चंद्रमा । २ अग्नि ।

परिजपित—वि० [सं०] (पार्थना, जप आदि) जो मंद स्वर से उच्चरित हो [को०] ।

परिजप्त—वि० [सं०] १ मुग्ध । मोहित । २ दे० 'परिजपित' ।

परिजटय—सज्ञा पुं० [सं०] वह जो चारो ओर जय करने में नमर्थ हो । सब ओर जीत सकनेवाला ।

परिजल्पित—सज्ञा पुं० [सं०] १ चित्रजल्प का दूसरा भेद । दे० 'चित्रजल्प' । २. अपने मालिक के दुर्गुणों का कथन करते हुए सेवक द्वारा अव्यक्त रूप में अपने कौशल, उत्कर्ष आदि की अभिव्यक्ति [को०] ।

परिजा—सज्ञा स्त्री० [सं०] आदि जन्मभूमि । उद्गम । निकास ।

परिजात—वि० [सं०] १ उत्पन्न । जन्मा हुआ । २ पूर्ण विकसित ।

परिज्ञप्ति—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. वातचीत । कथोपकथन । २ पहचान या पहचानना ।

परिज्ञा—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ ज्ञान । २ सूक्ष्म ज्ञान । निश्चयात्मक ज्ञान । सशयरहित ज्ञान ।

परिज्ञात—वि० [सं०] १. जाना हुआ । विशेष या सम्यक् रूप से जाना हुआ । २ निश्चित रूप से जाना हुआ ।

परिज्ञाता—वि०, सज्ञा पुं० [सं० परिज्ञात] अच्छी तरह जानने बुझने और पहचाननेवाला [को०] ।

परिज्ञान—सज्ञा पुं० [सं०] १ किसी वस्तु का भली भाँति ज्ञान । पूर्ण ज्ञान । सम्यक् ज्ञान । २ निश्चयात्मक ज्ञान । ऐसा ज्ञान जिसपर पूरा भरोसा हो । उ०—तुम्हे इतनी भी समझ या परिज्ञान नहीं ।—प्रेमघन०, भा० २, पृ० ४६ । ३ सूक्ष्म ज्ञान । भेद अथवा अंतर का ज्ञान । किसी वस्तु के सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण दोषों का ज्ञान ।

परिष्ठा—सज्ञा पुं० [सं० परिष्ठा] १ चंद्रमा । २ अग्नि । ३ सेवक । ४ यज्ञ करनेवाला । ५ इद्र ।

परिठना—वि० [सं० परिठिति, प्रा० परिठित्थ, अथवा सं० प्रतिष्ठित, प्रा० परिठिष्ठ] पूर्णतः स्थित या स्थापित होना । उ०—भुमुर्हा ऊपर सोहली परिठित जाँणिक चग । डोला एही मारुवी नव नेही नव रग ।—डोला०, पृ० ४६५ ।

परिठीन—देश० पुं० [सं०] किसी पक्षी की वृत्ताकार गति में उड़ान । किसी पक्षी का चक्कर काटते हुए उड़ना ।

परिणत—वि० [सं०] [स्त्री० परिणति] १ विलकुल या बहुत भुका हुआ । अति नम्र या नत । २ जिसका परिणाम हुआ हो । जो बदलकर और का और हो गया हो । बदला हुआ । विकारयुक्त । रूपांतरित । अवस्थांतरित । जैसे, दूध का दही के रूप में परिणत होना । ३ पका हुआ । पक्का । जैसे, परिणत फल । ४ पचा हुआ । रसादि में परिवर्तित (भोजन) । ५ प्रौढ़ । पुष्ट । बढ़ा हुआ । पक्का । कच्चा का उलटा (बुद्धि या वय) । ६ समाप्त । अवसित [को०] ।

परिणति—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. भुकाव । नीचे की ओर झुकना । अवनति । २ बदलना । रूपांतर होना । अवस्थांतर प्राप्ति । परिणयन । विकृति । ३ पकना या पचना । परिपाक । ४.

प्रौढ़ावस्था । प्रौढ़ता । पक्वता । पुष्टि । पुस्तगी । ५
वृद्धता । बुढ़ाई । ६ अत । अवसान ।

परिणद्ध—वि० [म०] १. लपेटा हुआ । मढा हुआ । आवृत्त । २
वाँधा हुआ । जकड़ा हुआ । ३ विरतीर्ण । चौड़ा । विशाल ।

परिणमन—सञ्ज्ञा पुं० [म०] परिणत होने की क्रिया । परिणाम को
प्राप्त करना । रूपांतरण होना (को०) ।

परिणामयिता—वि० [स० परिणामयितृ] परिणत करनेवाला ।
परिणाम को पहुँचा देनेवाला (को०) ।

परिणय—सञ्ज्ञा पुं० [स०] ब्याह । विवाह । उद्वाह । दारपरिग्रह ।
शादी ।

परिणयन—सञ्ज्ञा पुं० [स०] ब्याहना । विवाह करने की क्रिया ।
दारपरिग्रह । उ०—आनदित जनपद सवै पुरत्तिय मंगल
गाय । चद ब्रह्म परिणयन करि सुर अप धामनि जाय ।
—प० रासो, पृ० १५ ।

परिणहन—सञ्ज्ञा पुं० [स०] १ चारो ओर से बाँधने का भाव ।
२ लपेटने या आवृत्त करने का भाव ।

परिणाम—सञ्ज्ञा पुं० [स०] १ बदलने का भाव या कार्य । बदलना ।
एक रूप या अवस्था को छोड़कर दूसरे रूप या अवस्था को
प्राप्त होना । रूपांतरप्राप्ति । २ प्राकृतिक नियमानुसार
वस्तुओं का रूपांतरित या अवस्थांतरित होना । स्वाभाविक
रीति से रूपपरिवर्तन या अवस्थांतरप्राप्ति । मूल प्रकृति
का उलटा । विकृति । विकारप्राप्ति (साख्य) ।

विशेष—साख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति का स्वभाव ही परिणाम
अर्थात् एक रूप या अवस्था से च्युत होकर दूसरे रूप या
अवस्था को प्राप्त होते रहना है, और उसका यह स्वभाव
ही जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और नाश का कारण है । जिस
परिणाम के कारण जगत् की रचना होती है उसे 'विरूप'
अथवा 'विसदृश परिणाम' और जिसके कारण उसका अभाव
या प्रलय होता है उसे 'स्वरूप' अथवा 'सदृश परिणाम'
कहते हैं । सत्व, रज, तम की साम्यावस्था भंग होकर उनके
परस्पर विषम परिणाम में संयुक्त होने से क्रमशः असख्य
कार्यों अथवा जगत् के पदार्थों का उत्पन्न होना 'विरूप
परिणाम' है और फिर इसी कार्यशृंखला का अपने अपने
कारण में लीन होते हुए व्यक्त जगत् का अभाव प्रस्तुत करना
'स्वरूप परिणाम' है । 'विरूप परिणाम' से त्रिगुणों की
साम्यावस्था विनष्ट होती है और वे स्वरूप से च्युत होते
हैं और 'स्वरूप परिणाम' से उन्हें पुन साम्यावस्था तथा
स्वरूपस्थिति प्राप्त होती है । पुरुष अथवा आत्मा के अतिरिक्त
ससार में और जो कुछ है सब परिणामी है अर्थात् रूपांतरित
होता रहता है तथापि कुछ पदार्थों का परिणाम शीघ्र
दिखाई पड जाता है । कुछ का बहुत समय में भी दृष्टिगोचर
नहीं होता । जो परिणाम शीघ्र उपलब्ध होता है उसे 'तीव्र
परिणाम' और जिसकी उपलब्धि बहुत देर में होती है उसे
'मृदु परिणाम' कहते हैं । सदृश अथवा विसदृश परिणाम में

से जब एक की मृदुता चरम अवस्था को पहुँच जाती है,
तब दूसरा परिणाम आरंभ होता है ।

३ प्रथम या प्रकृत रूप या अवस्था से च्युत होने के उपरांत
प्राप्त हुआ दूसरा रूप या अवस्था । किसी वस्तु का कार्यरूप
या कार्यावस्था । विकृति । विकार । रूपांतर । अवस्थांतर ।
जैसे, दूध का परिणाम दही, लकड़ी का राख आदि । ४
किसी वस्तु के एक धर्म के निवृत्त होने पर दूसरे धर्म की
प्राप्ति । एक धर्म या समुदाय का तिरोभाव या क्षय होकर
दूसरे धर्म या सकारो का प्रादुर्भाव या उदय । एक स्थिति
से दूसरी स्थिति में प्राप्ति (योग) ।

विशेष—पातजल दर्शन में चित्त के निरोध, समाधि और एका-
ग्रता नाम से तीन परिणाम माने हैं । व्युत्थान अर्थात् राजस
भूमियों के संस्कारों का प्रतिक्षण अधिकधिक अभिभूत,
लुप्त या निरुद्ध अथवा 'परवैराग्य' अर्थात् शुद्ध सात्त्विक
संस्कारों का उदित और वर्धित होते जाना चित्त का
'निरोध' परिणाम' है । चित्त की सर्वार्थता या विक्षेप-
रूप धर्म का क्षय और एकाग्रता रूप धर्म का उदय होना
अर्थात् उसकी चंचलता का सर्वांश में लोप होकर एका-
ग्रता धर्म का पूर्णरूप से प्रकाश होना, 'समाधि परिणाम'
है । एक ही विषय में चित्त के शांत और उदित दोनो
धर्म अर्थात् भूत और वर्तमान दोनो वृत्तियाँ 'एकाग्रता
परिणाम' हैं । समाधि परिणाम में चित्त का विक्षेप धर्म शांत
हो जाता है अर्थात् अपना व्यापार समाप्त करके भूत काल में
प्रविष्ट हो जाता है और केवल एकाग्रता धर्म उदित रहता
है अर्थात् व्यापार करनेवाले धर्म की अवस्था में रहता है ।
परंतु एकाग्रता परिणाम की अवस्था में चित्त एक ही विषय
में इन दोनो प्रकार के धर्मों या वृत्तियों से सबंध रखता हुआ
स्थित होता है । चित्त के परिणामों की तरह स्थूल सूक्ष्म
भूतों तथा इंद्रियों के भी उक्त दर्शन में तीन परिणाम बताए
गए हैं—धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, और अवस्था
परिणाम । द्रव्य अथवा धर्मों का एक धर्म को छोड़कर दूसरा
धर्म स्वीकार करना धर्म परिणाम है, जैसे, मृत्तिकारूप धर्मों
का पिंडरूप धर्म को छोड़कर घटरूप धर्म को स्वीकार करना ।
एक काल या सोपान में स्थित धर्म का दूसरे काल या सोपान
में आना लक्षण परिणाम है, जैसे, पिंडरूप में रहने के समय
मृत्तिका का घटरूप धर्म भविष्यत् या अनागत सोपान में
था, परंतु उसके घटाकार हो जाने पर वह तो वर्तमान सोपान
में आ गया और उसका पिंडताधर्म भूत सोपान में स्थित
हो गया । किसी धर्म का नवीन या प्राचीन होना अवस्था
परिणाम है । जैसे, घड़े का नया या पुराना होना । इसी
प्रकार दृष्टि, श्रवण आदि इंद्रियों का एक रूप या शब्द का
ग्रहण छोड़कर दूसरे रूप या शब्द का ग्रहण करना उसका
'धर्म परिणाम' है । दर्शन, श्रवण आदि धर्म का वर्तमान,
भूत आदि होकर स्थित होना 'लक्षण परिणाम' है और
उनमें अस्पष्टता स्पष्टता होना 'अवस्था परिणाम' है ।

५ एक अर्थालंकार जिसमें उपमेय के कार्य का उपमान द्वारा किया जाना अथवा अप्रकृत (उपमान) का प्रकृत (उपमेय) से एकरूप होकर कोई कार्य करना कहा जाता है। जैसे, 'कर कमलन घनु सायक फेरत' अथवा 'हरे हरे पद कमल तें फूलन वीनति वाल । इन उदाहरणों में 'घनुसायक फेरना' और 'फूल चुनना' वस्तुतः कर के कार्य हैं, पर कवि ने उसके उपमान कमल द्वारा इनका किया जाना कहा है।

विशेष—रूपक अलंकार से इसमें यह भेद है कि इसके उपमान से कोई विशेष कार्य कराकर अर्थ में चमत्कार पैदा किया जाता है परंतु रूपक के उपमान से कोई कार्य कराने की ओर लक्ष्य ही नहीं होता। केवल उपमेय पर उसका आरोप भर कर दिया जाता है। 'कर कमलन घनुसायक फेरत' 'अपने करकज लिखी यह पाती,' 'मुख शशि हरत अंधार' आदि परिणाम के उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

६. पकने या पचने का भाव । पाक । ७ बाढ । विकास । वृद्धि । परिपुष्टि । ८ वृद्ध होना । बूढ़ा होना । ९ वीतना । समाप्त होना । अवसान । १० नतीजा । फल ।

परिणामक—वि० [म०] परिणाम लानेवाला । रूपांतर या अवस्थांतर लानेवाला [को०] ।

परिणामदर्शी—वि० [स० परिणामदर्शिन्] जिसे काम करने के पहले उसका नतीजा मालूम हो जाय । फल को सोचकर कार्य करनेवाला । सोच समझकर कार्य करनेवाला । भविष्य या होनहार को जान सकनेवाला सूक्ष्मदर्शी । दूरदर्शी ।

परिणामदृष्टि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] किसी कार्य के परिणाम को जान लेने की शक्ति । आगामी फल की ओर दृष्टि ।

परिणामन—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १ परिणत करना । पूर्ण पुष्ट तथा वर्धित करना । २ परिणाम को प्राप्त कराना । ३ जाति या सघ का उद्दिष्ट वस्तु को अपने काम में लाना (बौद्ध) ।

परिणामपथ्य—वि० [सं०] अच्छे परिणामवाला । उत्तम फल-दायक [को०] ।

परिणामवाद—सञ्ज्ञा पुं० [म०] वह सिद्धांत जिसमें जगत् की उत्पत्ति नाश आदि नित्य परिणाम के रूप में माने जाते हैं । (सांख्य मत) ।

परिणामवादी—वि० [सं० परिणामवादिन्] परिणामवाद को माननेवाला । सांख्य मतानुयायी [को०] ।

परिणामशूल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक रोग जिसमें भोजन पचने के समय पेट में पीडा होती है ।

परिणामिक—वि० [मं०] सुपाच्य । सरलता से पच जानेवाला [को०] ।

परिणामित्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बदलने का स्वभाव या धर्म । परिवर्तन-शीलता ।

परिणामिनित्य—वि० [सं०] जो नित्य हो, पर बदलता रहे । जो परिणामशील होकर नित्य या अविनाशी हो । जिसकी सत्ता

स्थिर रहे पर रूप, आकार आदि बदलता रहे । जो एकरस न होकर भी अविनाशी हो ।

विशेष—सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति परिणामिनित्य है और पुरुष अथवा आत्मा अपरिणामिनित्य ।

परिणामी—वि० [सं० परिणामिन्] [वि० स्त्री० परिणामिनी] १ जो बराबर बदलता रहे । जिसका बदलने का स्वभाव हो । रूपांतरित होने या रहनेवाला । परिवर्तनधर्मी । २. जो परिवर्तन स्वीकार करे । बदलनेवाला ।

परिणाय—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १ किसी वस्तु को जिस दिशा में चाहे चलाना । सब ओर चलाना । २ चौसर, शतरज आदि के गोटों को चलाना । ३ विवाह । व्याह ।

परिणायक—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १ नेता । चलानेवाला । पथप्रदर्शक । २ सेनापति । ३ स्वामी । पति । भर्ता ।

परिणयकरत्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बौद्ध चक्रवर्ती । राजाओं के सप्तवन अथवा सात कोपों में से एक ।

परिणयह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ विस्तार । फैलाव । २ विशालता । चौड़ाई । ३ लंबी सांस । दीर्घ श्वास ।

परिणयह्वान्—वि० [म० परिणयह्वत्] विस्तारयुक्त । फैला हुआ । प्रशस्त ।

परिणयही—वि० [म० परिणयहिन्] विस्तारयुक्त । फैला हुआ । विस्तृत ।

परिणिसक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ चूमनेवाला । चुवनकारी । २ खानेवाला । भक्षणकारी ।

परिणिसा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. चूमना । चुवन । २ खाना । भक्षण ।

परिणीत—वि० [सं०] १. विवाहित । जिसका व्याह हो चुका हो । २ समाप्त । संपन्नकृत । पूर्ण ।

परिणीतरत्न—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] दे० 'परिणयकरत्न' ।

परिणीता—वि० [सं०] विवाहिता । विवाह की हुई (स्त्री) ।

परिणीता—सञ्ज्ञा स्त्री० विवाहिता स्त्री । पत्नी । [को०] ।

परिणेतव्या—वि० स्त्री० [सं०] परिणय के योग्य (कुमारी) । विवाह के योग्य [को०] ।

परिणेत्या—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिणेतृ] स्वामी । पति । भर्ता ।

परिणेष—वि० [सं०] चारों ओर घुमाया जानेवाला [को०] ।

परिणेष्या—वि० [मं०] व्याहने योग्य (स्त्री) । पत्नी या भार्या बनाने के उपयुक्त ।

परितः—अव्य० [सं० परितस्] १ सब ओर । चारों ओर । २ सब प्रकार । संपूर्ण रूप से । सर्वतोभाव से ।

परितच्छु^१—सञ्ज्ञा पुं० [मं० प्रत्यक्ष] 'प्रत्यक्ष' ।

परितच्छु^२—क्रि० वि० सामने से । देखते देखते ।

परितत्तु—वि० [मं०] सब कहीं फैला हुआ । सर्वत्र व्याप्त । सर्वतो-व्याप्त (अथर्ववेद) ।

परितप्त—वि० [सं०] १ तपा हुआ। अत्यत गरम। जलता हुआ।
२ क्लेश का अनुभव करता हुआ। दुःखित। सतप्त।

परितप्त—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ तपन। जलन। दाह। गरमी। २,
दुःख। क्लेश। व्यथा। मनस्ताप।

परितर्कण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मनोयोगपूर्वक विचार। विशेष रूप से
विमर्श करना [को०]।

परितर्कित—वि० [सं०] १ सभावित। सभावनायुक्त। २ परीक्षित।
निर्णीत [को०]।

परितर्पण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सतुष्ट करना। प्रसन्न करना। तृप्त
करना [को०]।

परिताप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ अत्यत जलन। गरमी। आँच। ताव।
२ दुःख। क्लेश। पीडा। व्यथा। दर्द। तकलीफ। ३ मान-
सिक दुःख या क्लेश। सताप। मनस्ताप। क्षोभ। उद्वेग।
रज। ४ पश्चात्ताप। पछतावा। उ०—अपने समय के नष्ट
होने का परिताप होता है।—प्रेमघन०, भा० २, पृ० ४४६।
५ भय। डर। ६ कप। कैंपकैंपी। ७ एक विशेष नरक
का नाम।

परितापक—वि० [सं०] क्षोभक। तापक। कष्टदायी। दुःखद।
उ०—वेदना का स्वभाव विषय के आह्लादक, परितापक
और इन दोनों आकारों से विविध स्वरूप का अनुभव करना
है।—सपूर्णा० अमि० ग्र०, पृ० ३४७।

परितापित—वि० [सं०] सतापित। परितप्त। पीडित। तपाया
हुआ। उ०—अब भी चेत ले तू नीच। दुःख परितापित घरा
का म्नेह जल से सींच।—राज्यश्री, पृ० ४८।

परितापी^१—वि० [सं० परितापिन्] १ जिसको परिताप हो। परि-
तापयुक्त। दुःखित या व्यथित। २ जलता हुआ। अत्यत ताप-
युक्त। ३ परितापकर्ता। पीडा देनेवाला। सतानेवाला।
उ०—कृपारहित हिसक सब पापी। बरनि न जाइ विश्व
परितापी।—मानस, १।१७६।

परितापी^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] परितापकर्ता या पीडा देनेवाला व्यक्ति।
उत्पीडक। सतानेवाला।

परितिक्त^१—वि० [सं०] अत्यत तीता। बहुत तित्त।

परितिक्त^२—सञ्ज्ञा पुं० नीम। निव।

परितुष्ट—वि० [सं०] १ खूब सतुष्ट। जिसका पूर्ण रीति से सतोष
हो गया हो। २ प्रसन्न। खुश।

परितुष्टि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ परितुष्ट होने का भाव। सतुष्टता।
सतोष। परितोष। २ प्रसन्नता। खुशी।

परितृप्त—वि० [सं०] अधाया हुआ। सतुष्ट। तृप्त।

परितृप्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] अधाना। सतुष्टि। तृप्ति।

परितोष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ संतोष। तृप्ति। उ०—ब्रजप्रसाद को
पूरन पोष। रसवस लह्यो प्रान परितोष।—घनानन्द, पृ०
३०६। २ प्रसन्नता। खुशी। वह प्रसन्नता जो किसी विशेष
अभिलाषा या इच्छा के पूर्ण होने में उत्पन्न हो।

परितोषक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] परितोष करनेवाला। सतुष्ट करनेवाला।
प्रसन्न या खुश करनेवाला।

परितोषण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] परितुष्टि। सतोष।

परितोषवान्—वि० [सं० परितोषवत्] परितोषयुक्त। सतुष्ट।
परितुष्ट।

परितोषी—वि० [सं० परितोषिन्] सतोषशील। सतोषी।

परितोष(^३)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परितोष] दे० 'परितोष'।

परित्यक्त—वि० [सं०] १ जो त्याग दिया गया हो। जो छोड़ दिया
गया हो। २ छोड़ा, फेंका, निकाला या दूर किया हुआ।

परित्यक्ता^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परित्यक्त्] परित्याग करनेवाला।
त्यागने, छोड़ने या फेंकनेवाला।

परित्यक्ता^२—वि० स्त्री० [परित्यक्त का स्त्री०] त्यागी हुई। छोड़ी हुई।

परित्यजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] परित्याग की क्रिया। त्यागना।
छोड़ना। फेंकना। निकालना।

परित्यज्य—वि० [सं०] परित्याग के योग्य। फेंकने, छोड़ने या
निकालने योग्य।

परित्याग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ त्यागने का भाव। त्याग। २
निकालना। अलग कर देना। छोड़ना। ३ यज्ञ। याग
(को०)। ४ अलगवाव। जुदाई (को०)। ५ श्रीदार्य। उदा-
रता (को०)।

परित्यागना(^३)—क्रि० सं० [सं० परित्यजन] छोड़ देना। त्याग देना।

परित्यागी—वि० [सं० परित्यागिन्] परित्यागशील। त्याग करने-
वाला। छोड़नेवाला।

परित्याजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] परित्याग की क्रिया। छोड़ना।
निकालना।

परित्याज्य—वि० [सं०] परित्यागयोग्य। त्यागने या छोड़ देने के
योग्य। खारिज करने के काबिल।

परित्रस्त—वि० [सं०] अधिक भयभीत। अत्यत त्रस्त। विशेष
डरा हुआ [को०]।

परित्राण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ किसी की रक्षा करना, विशेषतः ऐसे
समय में जब कोई उसे मार डालने को उद्यत हो। वचाव।
हिफाजत। रक्षा। २ आत्मरक्षण। अपनी रक्षा। ३ शरीर
के बाल। रोगटे। ४ पूर्णतः रक्षण या वचाव (को०)। ५
पनाह। शरण। आश्रय (को०)।

परित्रात—वि० [सं०] जिसकी रक्षा की गई हो। रक्षाप्राप्त।

परित्रातव्य—वि० [सं०] रक्षा करने योग्य। परिरक्षितव्य [को०]।

परित्राता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परित्रात्] परित्राणकर्ता। रक्षक। रक्षा
करनेवाला। वचानेवाला।

परित्रायक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] परित्राता। रक्षक। रक्षा करनेवाला।

परित्रास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विशेष भय। बहुत डर [को०]।

परिदशित—वि० [सं०] वक्त्र से भली भाँति ढँका हुआ। जिरहपोष।

परिदग्ध—वि० [सं०] अत्यत जला हुआ। झुलसा हुआ [को०]।

परिद्धर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दाँतो का एक रोग जिसमें मसूड़े दाँतों से अलग हो जाते हैं और थूक के साथ रक्त निकलता है। वैद्यक के अनुसार यह रोग पित्त, रुधिर और कफ के प्रकोप से होता है।

परिदर्शन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सम्यक् रूप से अवलोकन। भली-भाँति देखना। २ दर्शन। अवलोकन। देखना।

परिदलन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नष्ट करना। रौंदना [को०]।

परिदलित—वि० [सं०] दलित। दमित। कुठित। उ०—अज्ञात मन क्षेत्र से कोई परिदलित ग्रथि उसी प्रकार प्रस्फुटित हो जाती है जैसे बच्चे अपने मन की बातें बाह्य जगत् में देखने लग जाते हैं।—सपूर्णां अभि० प्र०, पु० २६४।

परिदृष्ट—वि० [सं०] १ जो काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया हो। २ काटा हुआ। दक्षित।

परिदहन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अच्छी तरह जलाना। दग्ध करना। कुलसाना [को०]।

परिदान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ लौटा देना। वापस कर देना। फिर दे देना। फेर देना। २ विनिमय। परिवर्तन। अठला बदली।

परिदाय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सुगंध। परिमोद। सुशब्द।

परिदायी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिदायिन्] वह व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति को अपनी कन्या दान करे जिसका बड़ा भाई अविवाहित हो। परिवेत्ता का ससुर।

परिदाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ अत्यंत दाह या जलन। २ मानसिक पीड़ा या व्यथा। शोक। संताप।

परिदिग्ध^१—वि० [सं०] १ जो किसी अन्य वस्तु के आधरण से ढक दिया गया हो। किसी वस्तु से लिप्त या पुता हुआ [को०]।

परिदिग्ध^२—सञ्ज्ञा पुं० मास का वह टुकड़ा जिसपर अन्न की तह या लेप चढ़ाकर पकाया गया हो [को०]।

परिदीन—वि० [सं०] जिसको अतिशय मानसिक दुःख हो। अत्यंत खिन्नचित्त।

परिदृढ—वि० [सं०] बहुत मजबूत। नितात छद् [को०]।

परिदेव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विलाप। रोना घोना।

परिदेवन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विलाप करना। कल्पना। रोकर आतंरिक दुःख जताना। अनुशोचन। अनुतापन।

परिदेवना—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] दे० 'परिदेवन' [को०]।

परिधून—वि० [सं०] दुःखयुक्त। पीडायुक्त। शोक या वेदनामय [को०]।

परिद्रष्टा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिद्रष्ट] परिदर्शनकारी। दर्शन करनेवाला। देखनेवाला। अवलोकन करनेवाला।

परिद्वीप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गरुड के एक पुत्र का नाम।

परिध—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिधि] दे० 'परिधि'।

परिधन(७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिधान] नीचे पहनने का कपड़ा। घोंती आदि। उ०—(क) कुद इद्रु दर गौर सरीरा। भुज प्रलव परिधन मुनि चीरा।—तुलसी (शब्द०)। (ख)

सीस जटा सरसीरुह लोचन, बने परिधन मुनि चीर।— तुलसी (शब्द०)।

परिधान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ किसी वस्तु से अपने शरीर को चारों ओर से छिपाना। कपड़े लपेटना। २ कपड़ा पहनना। ३ वह जो पहना जाय। वस्त्र, कपड़ा, पोशाक। पहनावा। ४ घोती आदि नीचे पहनने के वस्त्र। ५ स्तुति, प्रार्थना, गायन आदि का समाप्त करना।

परिधानीय—वि० [सं०] [वि० स्त्री परिधानीया] परिधान योग्य। पहनने योग्य। २ जो पहना जाय। वस्त्र। परिधेय।

परिधायन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वस्त्र। पहनावा [को०]।

परिधाय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पहनावा। परिधेय। वस्त्र। २ जलस्थान। ३ नितव (को०)। ४ जनस्थान। जनपद (को०)।

परिधायक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ ढकने, लपेटने या चारों ओर से घेरनेवाला। २ बाड़ा। रंधान। ३ चहारदीवारी।

परिधारण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिधार्य, परिधृत] १ उठाना। सहारना। धारण करना। २ बचा रखना। रक्षा करना।

परिधावन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पहनने की प्रेरणा करना। २ पहनवाना।

परिधावन^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ दौडना। भागना। २ पीछे पीछे दौडना [को०]।

परिधावी^१—वि० [सं० परिधाविम्] १ दौडनेवाला। २ द्रवण-शील। वहनेवाला (को०)।

परिधावी^२—सञ्ज्ञा पुं० बृहस्पति के ६० वर्ष के युगचक्र या फेरे में से ४६ वाँ या २० वाँ वर्ष।

परिधि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह रेखा जो किसी गोल पदार्थ के चारों ओर खींचने से बने। गोल वस्तु की चौहद्दी बनानेवाली रेखा। गोल पदार्थ का विस्तार नियमित करनेवाली रेखा। घेरा। २ रेखागणित में वह रेखा जो किसी वृत्त के चारों ओर खिंची हुई हो। वृत्त की चतुःसीमा प्रस्तुत करनेवाली रेखा। दायरे की शकल या चौहद्दी बनानेवाली रेखा। घेरा। ३ सूर्य चंद्र आदि के आस पास देख पडनेवाला घेरा। परिवेश। मंडल। ४ किसी प्रकार का, विशेषतः किसी वस्तु की रक्षा के लिये बनाया हुआ, घेरा। बाड़ा, रंधान या चहारदीवारी। ५. घेरा। सीमा। वृत्त। दायरा। उ०—में किसी उचित रीति से उसकी शत्रुता की परिधि के बाहर जा सकता हूँ।—भारतेंदु० प्र०, भा० २, पृ०, ६२३। ६ यज्ञकुंड के आसपास गाड़े जानेवाले तीन खूँटे।

विशेष—इन खूँटों के नाम दक्षिण, उत्तर और मध्यम होते थे।

६. कक्षा। नियत या नियमित मार्ग। ७ परिधेय। कपड़ा। वस्त्र। पोशाक। ८ प्रकाशमंडल। ज्योतिर्वृत्त (को०)। ९ आवरण (को०)। १० पहिए का घेरा (को०)। ११. क्षितिज (को०)। १२ समिधा (को०)।

परिधिपतिखेचर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शिव [को०]।

परिधिस्थ—सज्ञा पुं० [सं०] १ परिचारक। परिचर। सेवक। खिद-
मतगार। २. वे सैनिक जो रथ के चारो ओर इसलिये खड़े
कराए जाते थे कि शत्रु के प्रहार से रथ और रथी की रक्षा
करते रहें। रथ और रथी की रक्षक सेना।

परिधीर—वि० [सं०] अनिशय धीर। गभीर।

परिधूपित—वि० [सं०] पूर्णतः धूप से वासित। पूर्णतः सुगन्धयुक्त
किया हुआ [को०]।

परिधूमन—सज्ञा पुं० [सं०] सुश्रुत के अनुसार तृष्णा रोग का एक
उपद्रव जिसमें एक विशेष प्रकार की कै आती है।

परिधूमायन—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिधूमन'।

परिधूसर—वि० [सं०] अत्यधिक धूलियुक्त। धूल से भरा हुआ [को०]

परिधेय^१—वि० [सं०] पहनने के योग्य। परिधान के उपयुक्त।

परिधेय^२—सज्ञा पुं० वस्त्र। पोशाक। विशेषतः वह वस्त्र जो
नीचे या भीतर पहना जाय।

परिध्वंस—सज्ञा पुं० [सं०] १ अत्यंत नाश। विलकुल मिट जाना।
२ नाश। मिटना। ३ जातिच्युत होना (को०)। ४ वर्ण-
संस्कार्य। वर्णसंकरता (को०)। ५ उपप्लव (को०)।

परिनय^१—सज्ञा पुं० [सं० परिणय] दे० 'परिणय'।

परिनयन^१—सज्ञा पुं० [सं० परिणयन] दे० 'परिणयन'। उ०—
पहुँचि नहिंय परिनयन कहँ जुग भाइन सुधि भुल्लि।—प०
रासो, पृ० ६०।

परिनाम^१—सज्ञा पुं० [सं० प्रणाम] दे० 'प्रणाम'। उ०—परसे वीर
सु सव्व करी प्रथिराज पाइ परिनाम।

परिनाम^२—सज्ञा पुं० [सं० परिणाम] नतीजा। फल। परिणाम
उ०—दिनँ दिन वाढ़त आनद को प्रवाह महा जाके परिनाम
न मिले दु ख सोग है।—दीन, प्र०, पृ० १४१।

परिनामी^१—वि० [सं० परिणामी] दे० 'परिणामी'।

परिनिर्वपण—सज्ञा पुं० [सं०] प्रदान करना। देना। वांटना (को०)।

परिनिर्वाण—सज्ञा पुं० [सं०] अति निर्वाण। पूर्ण निर्वाण।
पूर्ण मोक्ष।

परिनिर्वाति—सज्ञा स्त्री० [सं०] निर्वाण मुक्ति। निर्वाण गति।

परिनिर्वृत्त—वि० [सं०] जिसको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ हो। परि-
मुक्त। मुक्त।

परिनिर्वृत्ति—सज्ञा स्त्री० [सं०] परिमुक्ति। मोक्ष। मुक्ति।

परिनिष्ठा—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ चरम सीमा या अवस्था। अंतिम
सीमा। पराकाष्ठा। २. पूर्णता। ३ अभ्यास अथवा ज्ञान
की पूर्णता।

परिनिष्ठित—वि० [सं०] १. पूर्ण। संपन्न। नमाप्त। २. पूर्ण।
अभ्यस्त। पूर्ण कुशल।

परिनिष्पन्न—वि० [सं०] १. भली भाँति पूरा किया हुआ। २. सुख
दुःख तथा भाव अभाव की चिन्ता से मुक्त। उ०—स्वभाव

तीन है—परिकल्पित, परतंत्र, परिनिष्पन्न।—संपूर्ण० श्रमि०
प्र०, पृ० ३८०।

परिनेष्टिक—वि० [सं०] सर्वश्रेष्ठ। सर्वोच्च। सर्वोत्कृष्ट।

परिन्यास—सज्ञा पुं० [सं०] १ काव्य में यह स्थल जहाँ कोई विशेष
अर्थ पूरा हो। २ नाटक में आख्यानवीज अर्थात् मुख्य कथा
की मूलभूत घटना की संकेत से सूचना करना।

परिपंच^१—सज्ञा पुं० [सं० प्रपञ्च] दे० 'प्रपञ्च'।

परिपथ—सज्ञा पुं० [सं० परिपथ] वह जो रास्ता रोके हुए हो।

परिपथक—सज्ञा पुं० [सं० परिपथक] शत्रु। दुश्मन।

परिपथिक—वि० [सं० परिपथिक] दे० 'परिपथक'।

परिपंथी—सज्ञा पुं० [सं० परिपथिक] १ शत्रु। दुश्मन। उ०—
आज बने मेरे परिपथी, मुझ देवस के सकल उपकरण। मुझसे
ही विद्रोह कर चले मेरे ये लालिन इंद्रिय गण।—अपलक,
पृ० ७६। २ विरुद्ध कार्य करनेवाला। प्रतिकूल आचरण
करनेवाला (वैदिक)।

परिपक्व—वि० [सं०] १ अच्छी तरह पका हुआ। पूर्ण पक्व।
सम्यक् रीति से पक्व। खूब पका हुआ। जैसे, ईंट, फल,
अन्न आदि। २ अच्छी तरह पचा हुआ। सम्यक् रीति से
जीर्ण। जो विलकुल हजम हो गया हो। ३ पूर्ण विकसित।
परिणत। प्रौढ़। पका। पुस्ता। जैसे, परिपक्व बुद्धि या
ज्ञान। ४ जो बहुत कुछ देख सुन चुका हो। बहुदर्शी।
तजुबेकार। ५ निपुण। कुशल। प्रवीण। उस्ताद। पूरा।

परिपक्वता—सज्ञा स्त्री० [सं०] परिपक्व होने की क्रिया या भाव।

परिपक्वावस्था—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ परिपक्व होने की दशा या
स्थिति। २ प्रौढता। प्रौढावस्था।

परिपण—सज्ञा पुं० [सं०] मूल धन। पूँजी।

परिपणन—सज्ञा पुं० [सं०] १ वाजी लगाना। शर्त बंदना। २
वचन देना। वादा करना (को०)।

परिपणितकाल संधि—सज्ञा स्त्री० [सं० परिपणितकाल सन्धि] आप
इतने समय तक लड़िए और मैं इतने समय तक लड़ूँगा
इस प्रकार की समय सबधी संधि।

परिपणितदेश संधि—सज्ञा स्त्री० [सं० परिपणितदेश सन्धि] आप
इस देश पर चढ़ाई करिए और हम इस देश पर चढ़ाई करते
हैं, इस ढंग की देश विषयक संधि।

परिपणितसंधि—सज्ञा स्त्री० [सं० परिपणितसन्धि] कुछ शर्तों के
माथ की गई संधि। इसके तीन भेद हैं—परिपणितदेश संधि,
परिपणितकाल संधि, और परिपणितार्थ संधि।

परिपणितार्थ संधि—सज्ञा स्त्री० [सं० परिपणितार्थ सन्धि] आप
इतना काम करें और मैं इतना काम करूँगा, ऐसी कार्य
विषयक संधि।

परिपति—सज्ञा पुं० [सं०] सर्वव्यापी। वह जो हर न्यान में
उपस्थित हो।

परिपन—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिपण' [को०]।

परिपर—सञ्ज्ञा पु० [म०] टेढ़ा मेढ़ा चक्करदार रास्ता [को०] ।
परिपरी—सञ्ज्ञा पु० [म० परिपरिन्] शत्रु । विपक्ष । प्रतिद्वंद्वी [को०] ।
परिपवन—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १ अनाज ओसाना । भूसे और अन्न को अलग करने की क्रिया । ओसाई । २ अन्न ओसाने की खँचिया । डलिया [को०] ।
परिपाडिमा—सञ्ज्ञा स्त्री० [म० परिपाडिमन्] अधिक श्वेतता या पीलापन [को०] ।
परिपाडु—वि० [म० परिपाडु] १ बहुत हलका पीला । सफेदी लिए हुए पीला । २ दुर्बल । कृश । क्षीण ।
परिपाडुर—वि० [म० परिपाडुर] दे० 'परिपाडु' [को०] ।
परिपाक—सञ्ज्ञा पु० [म०] १ पकने का भाव । पकना या पकाया जाना । २ पचने का भाव । पचना । पचाया जाना । ३ प्रोढता । पूराता । परिणति (बुद्धि अनुभव आदि के लिये) । ४ बहुदक्षिता । तजुबेकारी । ५ कुशलता । निपुणता । प्रवीणता । उस्तादी । ६ कर्मफल । विपाक । परिणाम । फल । नतीजा ।
परिपाकिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] निसोथ ।
परिपाचन—सञ्ज्ञा पु० [म०] १ अच्छी तरह पचना । भली भाँति पचना । २ वह जो पूरी तरह से पच जाय ।
परिपाचना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] किसी पदार्थ को पूर्ण पक्व अवस्था में लाना ।
परिपाचित—वि० [सं०] १ पूर्णतः पकाया हुआ । २ भूना हुआ ।
परिपाटल—वि० [सं०] जिसका रंग पीलापन लिए लाल हो । जर्दी लिए हुए लाल रंग का ।
परिपाटलित—वि० [सं०] पीले और लाल रंग में रंगा हुआ । जो पीला और लाल रंग मिलाकर रंगा गया हो ।
परिपाटी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'परिपाटी' ।
परिपाटी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ क्रम । श्रेणी । सिलसिला । २ प्रणाली । रीति । शैली । तरीका । चाल । ढंग । ३ अक-गणित । ४, पद्धति । रीति । चाल । नियम । सप्रदाय । उ०—(क) जैतिक हरि अवतार सबै पूरण करि जाने । परिपाटी छवज विजय सदृश भागवत बखाने ।—नामाजी (शब्द०) । (ख) पाटी सी है परिपाटी कवित्त की ताकौं त्रिधा विधि बुद्धि बनाई ।—भिखारी० ग्र०, भा० २, पु० २५० ।
परिपाठ—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १ बार बार सविस्तार (वेद) पाठ करना । २ विशद या विस्तृत उल्लेख [को०] ।
परिपार—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पाक्षि या परिपाटी मर्यादा । उ०—अरे परेखी को करै तुँहीं विलोकि विचारि । किहि नर किहि सर रागियै खरै बढ़ै परिपारि ।—विहारी (शब्द०) ।
परिपारना—क्रि० सं० [सं० परिपालना] प्रतिपालन करना । निर्वाह करना । उ०—भूल्यो ब्रह्मयो होहुँ सो, लीज्यो सत सत्रारि । गीति राधिका रमन की प्रीति रीति परिपारि ।—ब्रज० ग्र०, पु० ११ ।

परिपार्श्व—सञ्ज्ञा पु० [सं०] पाश्र्व वगल ।
परिपालक—वि० [म०] परिपालन करनेवाला [को०] ।
परिपालन—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १ रक्षा करना । बचाना । २ रक्षा । बचाव ।
परिपालना—क्रि० सं० [म० परिपालन] रक्षा करना । बचाना । उ०—वससि सदा हम कहँ परिपालय ।—मानस, ७।३४ ।
परिपालना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'परिपालन' [को०] ।
परिपालनीय—वि० [म०] परिपालन या रक्षण के योग्य [को०] ।
परिपालयिता—सञ्ज्ञा पु० [म० परिपालयितृ] वह जो परिपालन करे [को०] ।
परिपालयिषा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] परिपालन की इच्छा [को०] ।
परिपाल्य—वि० [सं०] जो रक्षा या पालन करने के योग्य हो ।
परिपिग—वि० [सं० परिपिङ्ग] लाली से युक्त भूरा । अत्यंत पिग वर्ण का [को०] ।
परिपिंजर—वि० [सं० परिपिञ्जर] हलके लाल रंग का । पिगलवर्ण ।
परिपिच्छ—सञ्ज्ञा पु० [म०] प्राचीन काल का एक भ्राभूषण जो मोर की पूँछ के पंखों से बनता था ।
परिपिष्टक—सञ्ज्ञा पु० [सं०] सीसा ।
परिपीडन—सञ्ज्ञा पु० [सं० परिपीडन] [वि० परिपीडित] १ अत्यंत पीडा पहुँचाना या देना । २ पीसना । ३ अनिष्ट करना ।
परिपीवर—वि० [सं०] अति मोटा । बहुत मोटा या तगड़ा ।
परिपुटन—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १ छिनका या बोकला अलग करना । २ सपुटन [को०] ।
परिपुष्करा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] गोंडुव ककडी । गोडुवा ।
परिपुष्ट—वि० [म०] १ जिसका पोषण भली भाँति किया गया हो । सम्यक् रीति से पोषित । २ जिसकी बुद्धि पूर्ण रीति से पुष्ट हुई हो । खूब हृष्ट पुष्ट । पूर्ण पुष्ट ।
परिपूजन—सञ्ज्ञा पु० [मं०] सम्यक् प्रकार से पूजन या उपासना ।
परिपूजा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] विधिवत् पूजन [को०] ।
परिपूजित—वि० [म०] विधिवत् पूजित । सविधि पूजाप्राप्त [को०] ।
परिपूत—वि० [म०] अति पवित्र ।
परिपूत—सञ्ज्ञा पु० ऐसा अन्न जिसकी भूसी या छिलका अलग कर लिया गया हो । छाँटा हुआ अन्न ।
परिपूरक—वि० [सं०] १ परिपूर्ण कर देनेवाला । भर देनेवाला । लबालब कर देनेवाला । २ समृद्धिकर्ता । धनधान्य से भरनेवाला । ३ सपूर्ण ।
परिपूरण—सञ्ज्ञा पु० [म०] परिपूर्ण करना । भरना । २ पूर्ण या पूरा करना [को०] ।
परिपूरण—वि० [सं० परिपूर्ण] दे० 'परिपूर्ण' । उ०—खुल खुल नव इच्छाएँ, फैलाती जीवन के दल । गा गा प्राणों का मधुकर, पीता मधुरस परिपूरण ।—गुजन, पु० १६ ।
परिपूरणीय—वि० [मं०] परिपूर्ण करने योग्य । परिपूरित करने लायक [को०] ।

परिपूरन—वि० [सं० परिपूर्णा] दे० 'परिपूर्णा' । उ०—प्रेम भरे जग प्रगटिहैं, हरि परिपूरन रूप ।—नद० ग्र०, पृ० २२७ ।

परिपूरित—वि० [सं०] १ परिपूर्णा । खूब भरा हुआ । लबालब । २ सपूर्णा । समाप्त किया हुआ । पूरा किया हुआ ।

परिपूर्णा—वि० [सं०] १ खूब भरा हुआ । सम्यक् रीति से व्याप्त । २ पूर्णा तृप्त । अघाया हुआ । ३ समाप्त किया हुआ । सपूर्णा । पूरा किया हुआ ।

परिपूर्णाचंद्रविमलप्रभ—सज्ञा पुं० [सं० परिपूर्णाचंद्रविमलप्रभ] एक प्रकार की समाधि-जिसका वर्णन बौद्ध शास्त्रों में मिलता है ।

परिपूर्णदु—सज्ञा पुं० [सं० परिपूर्णदु] पूर्णमा का चंद्रमा । षोडश कलायुक्त चंद्रमा [को०] ।

परिपूर्ति—सज्ञा स्त्री० [सं०] परिपूर्ण होने की क्रिया या भाव परिपूर्णता ।

परिपृच्छ—सज्ञा पुं० [सं०] जिज्ञासा । प्रश्न [को०] ।

परिपृच्छक^१—सज्ञा पुं० [सं०] प्रश्नकर्ता । वह जो पूछे । पूछनेवाला । जिज्ञासा करनेवाला ।

परिपृच्छक^२—वि० पूछनेवाला । जिज्ञासा करनेवाला ।

परिपृच्छनिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] वह बात जिसको लेकर वादविवाद किया जाय । वाद का विषय ।

परिपृच्छा—सज्ञा स्त्री० [सं०] जिज्ञासा । पूछना । प्रश्न करना ।

परिपेल—सज्ञा पुं० [सं०] केवटी मोथा । केवर्त मुस्तक ।

परिपेलव^१—वि० [सं०] अति सुकुमार या कोमल ।

परिपेलव^२—सज्ञा पुं० केवटी मोथा ।

परिपोट—सज्ञा पुं० [सं०] कान का एक रोग जिसमें लौक का चमड़ा सूजकर स्याही लिए हुए लाल रंग का हो जाता है और उसमें पीडा होती है । प्रायः कान में भारी वाली आदि पहनने से यह रोग होता है ।

परिपोटक—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिपोट' ।

परिपोटन—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिपोट' ।

परिपोटिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'परिपोट' ।

परिपोष—सज्ञा पुं० [सं०] पूर्ण पुष्टि या वृद्धि ।

परिपोषण—सज्ञा पुं० [सं०] १. पालन । परवरिषा करना । २ पुष्ट या वर्धित करना ।

परिप्रश्न—सज्ञा पुं० [सं०] जिज्ञासा । प्रश्न [को०] ।

परिप्राप्ति—सज्ञा स्त्री० [सं०] प्राप्ति । मिलना ।

परिप्रेक्ष—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिप्रेक्ष्य' ।

परिप्रेक्षा—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'परिप्रेक्ष्य' ।

परिप्रेक्ष्य—सज्ञा पुं० [सं०] धर्मो वस्तुओं या व्यक्तियों का ऐसा चित्रण जिसमें प्रत्येक का अंतर स्पष्ट हो जाय ।

परिप्रेषण—सज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिप्रेषित, परिप्रेष्य] १ चारो ओर भेजना । जिधर इच्छा हो उधर भेजना । दूत या हरकारा वनाकर भेजना । २ निर्वासन । किसी विशेष स्थान या देश से निकाल देना । ३ त्याग देना । परित्याग करना ।

परिप्रेषित—वि० [सं०] १ भेजा हुआ । प्रेरित । २ निर्वासित । निकाला हुआ । ३ त्याग हुआ । परित्यक्त ।

परिप्रेष्य^१—वि० [सं०] भेजने योग्य । प्रेरणा करने योग्य ।

परिप्रेष्य^२—सज्ञा पुं० नौकर । दास । टहलुआ । अनुचर ।

परिप्रोत—वि० [सं० परि + प्रोत] चारो ओर से गुथा हुआ या छिपा हुआ । उ०—उमड पडा पावस परिप्रोत । फूट रहे नव नव जलस्रोत ।—गु जन, पृ० ६८ ।

परिप्लव^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ तैरना । २ बाढ प्लावन । ३. अत्याचार । जुलम । ४ नौका । नाव । जहाज । ५ पुराणानुसार एक राजकुमार का नाम जो सुखीनल राजा का लडका था ।

परिप्लव^२—वि० [सं०] १ हिलता हुआ । काँपता हुआ । चंचल । अस्थिर । २ बहता हुआ । चलता हुआ । गतियुक्त ।

परिप्लवा—सज्ञा स्त्री० [सं०] यज्ञ में काम आनेवाली एक प्रकार की करछी या चिमचा । एक प्रकार की दर्वी ।

परिप्लावित—वि० [सं०] दे० 'परिप्लुत' [को०] ।

परिप्लुत^१—वि० [सं०] १ जिसके चारो ओर जल ही जल हो । प्लावित । डूबा हुआ । २ गीला । भीगा हुआ । तरावोर । आर्द्र । स्नात । ३ काँपना हुआ । कपित ।

परिप्लुत^२—सज्ञा पुं० फलाँग । छलाँग ।

परिप्लुता—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ मदिरा । शराब । २ वह योनि जिसमें मैथुन या मासिक रज स्राव के समय पीडा हो ।

परिप्लुष्ट—वि० [सं०] जला हुआ । भुना हुआ ।

परिप्लोष—सज्ञा पुं० [सं०] १ जलन । दाह । २ जलना । भुनना । तपना । ३ शरीर के भीतर की गरमी ।

परिफुल्ल—वि० [सं०] १ अच्छी तरह खिला हुआ । सम्यक् विकसित । खूब खिला हुआ । २ खूब खुला हुआ । अच्छी तरह खुला हुआ । जैसे, परिफुल्ल नेत्र । ३ जिसके रोगटे खडे हो । रोमाचयुक्त ।

परिवंध—वि० [सं० परिवन्ध] अच्छी तरह बँधा हुआ । सुगठित । उ०—परिवन्ध निबन्ध में आकार की लघुता रहती है ।—स० शास्त्र, पृ० १७८ ।

परिवन्धन—सज्ञा पुं० [सं० परिवन्धन] [वि० परिवन्ध] चारो ओर से बाँधना । अच्छी तरह बाँधना । जकडकर बाँधना ।

परिवर्ह—सज्ञा पुं० [सं०] १. राजाओं के हाथी घोडो पर डाली जानेवाली झूल । २ राजा के छत्र, चँवर आदि । राजविह्व या राजा का साज सामान । ३ नित्य के व्यवहार की वस्तुएँ । घर में नित्य काम आनेवाली चीजें । वे चीजें जिनकी गृहस्थी में अत्यावश्यकता हो । ४ सपत्ति । दौलत । माल असवाव ।

परिवर्हण—सज्ञा पुं० [सं०] १ पूजा । उपासना । २ बढ़ती । समृद्धि । परिवृद्धि ।

परिर्वा—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'प्रतिपदा' । उ०—परिर्वा की रे माँझी ।—पोद्दार अभि० ग्र०, पृ० ६३२ ।

परिबाधा—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ पीडा। कष्ट। बाधा। २. भ्रम। श्रांति। मिहनत।

परिवृंहण—सज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिवृंहित] १ समृद्धि उन्नति। बढ़ती। २. वढना। अभिवर्धन। ३. वह प्रथ प्रथवा शास्त्र जो किसी अन्य ग्रथ या शास्त्र के विषय की पूर्ति या पुष्टि करता हो। किसी ग्रथ के अंगस्वरूप अन्य ग्रथ। जैसे—ब्राह्मण आदि ग्रथ वेद के परिवृंहण हैं।

परिवृंहित—वि० [सं०] १ समृद्ध। उन्नत। २ किसी से जुडा या मिला हुआ। युक्त। अगुभीत। ३ बढ़ाया हुआ। अभिवर्धित।

परिवृंहित—सज्ञा पुं० हाथी की चिंगाड। हाथी का चिल्लाना [को०]।

परिवृत्ति—सज्ञा पुं० [सं० परिवृत्ति] एक अर्थालंकार। दे० 'परिवृत्ति'। उ०—घाटि वाढ़ि दे बात को जहाँ पलिटवो होय। तहाँ कहत परिवृत्ति है कवि कोविद सब कोय।—मति० ग्र०, पृ० ४१६।

परिवेख—सज्ञा पुं० [सं० परिवेप] दे० 'परिवेप'। उ०—तन नील सारी में किनारी चदमुख परिवेख। सिद्धर सिर दोउ नैन काजर पान की मुख रेख।—भारतेंदु ग्र०, भा० २, पृ० १२०।

परिवोध—सज्ञा पुं० [सं०] ज्ञान।

परिवोधन—सज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिवोधनीय] १ दख की धमकी देकर या कुफलभोग का भय दिखा कर कोई विशेष कार्य करने से रोकना। चिंताना। २ ऐसी धमकी या भय प्रदर्शन। चेतावनी।

परिवोधना—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'परिवोधन'।

परिभंग—सज्ञा पुं० [सं० परिभङ्ग] खड खड करना। टुकड़े टुकड़े करना [को०]।

परिभङ्ग—वि० [सं०] दूसरो का माल खानेवाला।

परिभङ्गण—सज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिभङ्गित] बिलकुल खा डालना। खूब खा जाना। सफाचट कर देना।

परिभङ्गा—सज्ञा स्त्री० [सं०] आपस्तव सूत्र के अनुसार एक विशेष विधान।

परिभङ्गित—वि० [सं०] पूर्ण रूप से खाया हुआ।

परिभर्त्सन—सज्ञा पुं० [सं०] डाँटना फटकारना। धमकाना [को०]।

परिभव—सज्ञा पुं० [सं०] १ अनादर। तिरस्कार। अपमान। हतक। २ हार। पराजय [को०]।

परिभवन—सज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिभवनीय] अनादर या तिरस्कार करना। अपमान करना। हतक या तौहीन करना।

परिभवनीय—वि० [सं०] १ तिरस्करणीय। अनादर योग्य। २ पराभव योग्य [को०]।

परिभवपद—सज्ञा पुं० [सं०] उपेक्षणीय पदार्थ। [को०]।

परिभवविधि—सज्ञा स्त्री० [सं०] तिरस्कार। उपेक्षा [को०]।

परिभवी—वि० [सं० परिभवित्] अपमानकारी। तिरस्कार करनेवाला।

परिभाव—सज्ञा पुं० [सं०] १. परिभव। अनादर। तिरस्कार। अपमान। २ (नाटक मे) कोई आश्चर्यजनक दृश्य देखकर कुतूहलपूर्ण वार्ते कहना।

परिभावन—सज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिभावित] १. मिलाप। मिलन। सयोग। २ चिंता। फिक्र। विचारणा।

परिभावना—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ चिंता। सोच। फिक्र। २ साहित्य में वह वाक्य या पद जिससे कुतूहल या अतिशय उत्सुकता सूचित अथवा उत्पन्न हो।

विशेष—नाटक में ऐसे वाक्य जितने अधिक हों उतना ही अच्छा समझा जाता है।

परिभावित—वि० [सं०] १ चिंतित। विचारित। २ सयुक्त। ३ परिव्याप्त [को०]।

परिभावो—वि० [सं० परिभाविनी] परिभावकारी। तिरस्कार या अपमान करनेवाला।

परिभावो—सज्ञा पुं० वह जो तिरस्कार या अपमान करे। तिरस्कार या अपमान करनेवाला।

परिभावुक—वि० [सं०] तिरस्कार करनेवाला। अनादर या अपमान करनेवाला।

परिभाषक—सज्ञा पुं० [सं०] निदक। बदगोई करनेवाला। निदा द्वारा किसी का अपमान करनेवाला।

परिभाषण—सज्ञा पुं० [सं०] १ निदा करते हुए उलाहना देना। निदा के सहित उपालम देना। किसी को दोष देते या लानत मलामत करते हुए उसके कार्य पर असतोप प्रकट करना। २. ऐसा उलाहना जिसके साथ निदा भी हो। निदा सहित उपालम। लानत मलामत। फटकार।

विशेष—मनुस्मृति के अनुसार गर्भिणी, आपद्ग्रस्त, वृद्ध और बालक को और किसी प्रकार का दंड न देकर केवल परिभाषण का दंड देना चाहिए।

३ बोलना चालना या बातचीत करना। भाषण। घालाप। ४. नियम। दस्तूर। कायदा।

परिभाषा—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. परिष्कृत भाषण। स्पष्ट कथन। सशयरहित कथन या बात। २ पदार्थ-विवेचना-युक्त अर्थ-कथन। किसी शब्द का इस प्रकार अर्थ करना जिसमें उसकी विशेषता और व्याप्ति पूर्ण रीति से निश्चित हो जाय। ऐसा अर्थनिरूपण जिसमें किसी अर्थकार या वक्ता द्वारा प्रयुक्त किसी विशेष शब्द या वाक्य का ठीक ठीक लक्ष्य प्रकट हो जाय। किसी शब्द के वाक्य का इस रीति से वर्णन जिसमें उसके समझने में किसी प्रकार का भ्रम या सदेह न हो सके। लक्षण। तारीफ। जैसे,—तुम उदारता उदारता तो बीस बार कह गए, पर जबतक तुम अपनी उदारता की परिभाषा न कर दो मैं उससे कुछ भी नहीं समझ सकता।

विशेष—परिभाषा सक्षिप्त और अतिव्याप्ति, अन्व्याप्ति से रहित होनी चाहिए। जिस शब्द की परिभाषा हो वह उसमें न आना चाहिए। जिस परिभाषा में ये दोष हों वह शुद्ध परिभाषा नहीं होगी वल्कि दुष्ट परिभाषा कहलाएगी।

क्रि० प्र०—कहना ।— करना ।

३ किसी शास्त्र, ग्रन्थ, व्यवहार आदि की विशिष्ट सज्ञा । ऐसा शब्द जो शास्त्रविशेष में किसी निर्दिष्ट अर्थ या भाव का संकेत मान लिया गया हो । ऐसा शब्द जो स्थान-विशेष में ऐसे अर्थ में प्रयुक्त हुआ या होता हो जो उसके अवयवों या व्युत्पत्ति से भली भाँति न निकलता हो । पदार्थविवेचकों या शास्त्रकारों की बनाई हुई सज्ञा । जैसे, गणित की परिभाषा, वैद्यक की परिभाषा, जुलाहों की परिभाषा । ४ ऐसे शब्द का अर्थनिर्देश करनेवाला वाक्य या रूप । ५ ऐसी बोलचाल जिसमें वक्ता अपना आशय पारिभाषिक शब्दों में प्रकट करे । ऐसी बोलचाल जिसमें शास्त्र या व्यवसाय की विशेष संज्ञाएँ काम में लाई गई हों । जैसे— यदि यही बात विज्ञान की परिभाषा में कही जाय तो इस प्रकार होगी । ६. सूत्र के ६ लक्षणों में से एक । ७ निंदा । परिवाद । शिकायत । बदनामी ।

परिभाषित—वि० [सं०] १. जो अच्छी तरह कहा गया हो । जिसका स्पष्टीकरण किया गया हो । २. (वह शब्द) जिसकी परिभाषा की गई हो । जिसका अर्थ किसी विशेष सूत्र या नियम द्वारा निर्दिष्ट तथा परिमित कर दिया गया हो ।

परिभाषी^१—वि० [सं० परिभाषिन्] बोलनेवाला । भाषणकारी ।

परिभाषी^२—सज्ञा पुं० बोलनेवाला । भाषणकारी । वह व्यक्ति जो बोले या कहे ।

परिभाष्य—वि० [सं०] कहने योग्य । बताने योग्य ।

परिभिन्न—वि० [सं०] १ विकृत आकृति का । जिसका आकार विकृत हो । २ क्षत । ३ फटा हुआ । चिरा हुआ । विदीर्ण [को०] ।

परिभुक्त—वि० [सं०] जिसका भोग किया जा चुका हो । जो काम में आ चुका हो । उपभुक्त ।

परिभुग्न—वि० [सं०] झुका हुआ । टेढा मेढा [को०] ।

परिभू—वि० [सं०] १ जो चारों ओर से घेरे या आच्छादित किए हो । २ नियामक । ३ परिचालक ।

विशेष—यह शब्द ईश्वर का विशेषण है ।

परिभूत—वि० [सं०] १ हारा या हराया हुआ । पराजित । २ जिसका अनादर या अपमान किया गया हो । तिरस्कृत । अपमानित ।

परिभूति—सज्ञा स्त्री [सं०] १ निरादर । तिरस्कार । अपमान । २ श्रेष्ठता ।

परिभूषण—सज्ञा पुं० [सं०] १ सजाने की क्रिया या भाव । सजावट या सजाना । बनाव सँवार या बनाना सँवारना । २ कामदकीय नीति के अनुसार वह शांति जो किसी विशेष प्रदेश या भूखंड का राजस्व किसी को देकर स्थापित की जाय । वह सधि जो किसी विशेष प्रांत या प्रदेश की सारी मालगुजारी किसी शत्रु राजा आदि को देकर की जाय ।

३ ऐसी शांति या सधि की स्थापना । पूर्वोक्त प्रकार की शांति या सधि स्थापित करने का कार्य ।

परिभूषित—सज्ञा पुं० [सं०] सजाया हुआ । बनाया या सँवार हुआ । शृंगार सहित ।

परिभेद—सज्ञा पुं० [सं०] शस्त्रादि का आघात । तलवार तीर आदि का घाव । जर्म ।

परिभेदक^१—सज्ञा पुं० [सं०] फाड़ने या छेदनेवाला व्यक्ति या शस्त्र । खूब गहरा घाव करनेवाला मनुष्य या हथियार ।

परिभेदक^२—वि० काटने फाड़ने या छेदनेवाला । आघातकारी ।

परिभोक्ता—सज्ञा पुं० [सं० परिभोक्तृ] १. वह मनुष्य जो दूसरे के धन का उपभोग करे । २ वह मनुष्य जो गु के धन का उपभोग करे ।

परिभोग—सज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिभोग्य] १ बिना अधिकार के परकीय वस्तु का उपभोग । २. भोग । उपभोग । ३ मैथुन । स्त्रीप्रसंग ।

परिभ्रंश—सज्ञा पुं० [सं०] १ गिराव या गिराना । पतन । च्युति । स्वलन । २ भगदड़ । भागना । पलानय ।

परिभ्रम—सज्ञा पुं० [सं०] १ इधर उधर टहलना । घूमना । भटकना पर्यटन । भ्रमण । २. घुमा फिराकर कहना । सीधे सीधे न कहकर और प्रकार से कहना । किसी वस्तु के प्रसिद्ध नाम को छिपाकर उपयोग, गुण, सबब आदि से उसका संकेत करना । जैसे, पत्र (चिट्ठी) को 'बकरी का भोज्य' या 'माता' को पिता की 'पत्नी' कहना । ३ भ्रम । भ्रांति । प्रमाद ।

परिभ्रमण—सज्ञा पुं० [सं०] १. घूमना । (पहिए आदि का) चक्कर खाना । २. परिधि । घेरा । ३. टहलना । घूमना । फिरना । ४ इधर उधर मटरगश्ती करना । भटकना ।

परिभ्रष्ट—वि० [सं०] गिरा हुआ । पतित । च्युत । स्वलित । २. भागा हुआ । पलायित । ३ किसी वस्तु या व्यक्ति से रहित [को०] ।

परिभ्रामण—सज्ञा पुं० [सं०] १ इतस्तत घुमाना । परिभ्रमण कराना । २. (गाड़ी के पहिए आदि को) घुमाना या चक्कर देना [को०] ।

परिभ्रामी—वि० [सं० परिभ्रामिन्] परिभ्रमण करनेवाला । भटकनेवाला । टहलने या घूमनेवाला ।

परिमंडल^१—सज्ञा पुं० [सं० परिमण्डल] १ चक्कर । घेरा । दायरा । परिधि । २ एक प्रकार का विपैला मच्छर । ३ गोलक । पिंड [को०] ।

परिमंडल^२—वि० १ गोल । वर्तुलाकार । २ जिसका मान परमाणु के बराबर हो ।

परिमंडलकुण्ड—सज्ञा पुं० [सं० परिमण्डलकुण्ड] एक प्रकार का महाकुण्ड । मंडलकुण्ड ।

विशेष—२० 'मंडल' ।

परिमंडलता—सज्ञा स्त्री [सं० परिमण्डलता] गोलाई ।

परिमंडलित—वि० [सं० परिमण्डलित] जो गोल बिया गया हो । वर्तुलाकार बनाया हुआ । मंडलीकृत ।

परिमथर—वि० [सं० परिमन्थर] अत्यंत मद, घीरा या धीमा । जैसे, परिमथर गति ।

परिमद—वि० [सं० परिमन्द] १ अत्यत श्रात या थकित । २. अत्यत शिथिल या सुस्त । अत्यत क्लान्त । ३. अत्यल्प । अत्यत कम । बहुत थोडा (को०) ।

परिमन्थु—वि० [सं०] क्रोध से भरा हुआ । अत्यत कोपयुक्त ।

परिमर—पञ्चा पुं० [सं०] शत्रु के नाश के लिये किया जानेवाला तांत्रिक प्रयोग । २ विनाश । सहार । ३ पवन । वायु [को०] ।

परिमर्द्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पूर्णनया मर्दन । रगडना । धर्षण । २ मीजना । ममलना । ३ विनाश [को०] ।

परिमर्श—पञ्चा पुं० [सं०] [वि० परिमृष्ट] १ छू जाना । लग जाना । लगाव होना । स्पर्श होना । २ अच्छी तरह विचार करना । सोचना । किसी बात के सब पक्षों पर विचार करना ।

परिमर्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ ईर्ष्या । कुढ़न । चिढ़ । २ क्रोध ।

परिमल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिमलित] १ सुवास । उत्तम गंध । खुशबू । उ०—परिमल अग्र गुलाब की भरि हस सो सुख पावहीं—दरिया० बानी, पृ० ७ । २ वह सुगंध जो कुमकुम आदि सुगंधित पदार्थों के मले जाने से उत्पन्न हो । ३ मलने का कार्य । मलना । उवटना । ४ कुमकुम आदि का मलना या उवटना । ५ मैथुन । सहवास । सभोग । ६ दाग । घब्बा । चिह्न । ७ पड़ितो का समुदाय ।

परिमलज—वि० [सं०] (सुख) जो मैथुन से प्राप्त हो । सभोग-जनित (सुख) ।

परिमलामोद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिमल + आमोद] अत्यत सुगंध । परिमल का सुवास ।

परिमलित—वि० [सं०] १ परिमलयुक्त । सुवासित । २ मसला हुआ । मीजा हुआ [को०] ।

परिमा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परिमिति या सं० परि + √मा (= मान)] सीमा । इयत्ता । उ०—जग की विभूतियो को छानकर, एक तीक्ष्ण घूंट ही मे पानकर, लाख लाख प्राणियों के जीवन की गरिमा, हाय उस सुमन की छोटी सी परिमा ।—चिंता, पृ० २६ ।

परिमाण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिमित, परिमेय] १ वह मान जो नाप या तोल के द्वारा जाना जाय । वह विस्तार, भार या मात्रा जो नापने या तोलने से जानी जाय ।

विशेष—वैशेषिक के अनुसार मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार के द्रव्यों के सख्यादि पाँच गुणों में से परिमाण भी एक है ।

२ घेरा । चारों ओर का विस्तार ।

परिमाणक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मात्रा । २ तोल [को०] ।

परिमाणवत्—वि० [सं० परिमाणवत्] परिमाणयुक्त । परिमाण-विशिष्ट ।

परिमाणी—वि० [सं० परिमाणिन्] परिमाणयुक्त । परिमाणविशिष्ट ।

परिमाता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिमातृ] १ नापनेवाला । नापने का

काम करनेवाला । पैमाइश करनेवाला । २ वजन करने या तोलनेवाला ।

परिमाथी—वि० [परिमाथिन्] वष्टदायक । कष्टप्रद । कष्टकर [को०] ।

परिमान—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिमाण] १ 'परिमाण' ।

परिमाण—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रमाण] २ 'प्रमाण' ।

परिमार्ग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] २ 'परिमार्गण' ।

परिमार्गण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिमार्गित, परिमार्गित्य] १. खोजने या ढूँढने का कार्य । खोजना । ढूँढना । अन्वेषण । अनुसंधान । २ स्वच्छ या साफ करना (को०) । ३ सर्क या स्पर्श (को०) ।

परिमार्गी—वि० [सं० परिमार्गिन्] खोजने या खोज में विसी के पीछे जानेवाला । अनुसंधानकारी । अनुसरणकर्ता ।

परिमार्जक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] धोने या माँजनेवाला । परिशोधक या परिष्कारक ।

परिमार्जन—पञ्चा पुं० [सं०] [वि० परिमार्जित, परिमृज्य, परिमृष्ट] १ धोने या माँजने का कार्य । अच्छी तरह धोना । माँजना । परिशोधन । परिष्करण । २ एक विशेष मिठाई जो घी मिले हुए शहद के शीरे में डुवाई हुई होती है ।

परिमार्जित—वि० [सं०] धोया या माँजा हुआ । २ साफ किया हुआ । परिष्कृत ।

परिमित—वि० [सं०] १ जिसका परिमाण हो या ज्ञात हो । जिसकी नाप तोल की गई हो या माप्य हो । सीमा, सख्या आदि से बद्ध । नपा तुला हुआ । २ न अधिक न कम । जितने की आवश्यकता हो उतना ही । हिसाब या अंदाज से । उचित मात्रा या परिमाण में । जैसे,—वे सदा परिमित भोजन करते हैं । ३ कम । थोडा । अल्प । जैसे,—उनका वैद्यक ज्ञान बहुत ही परिमित है ।

परिमितकथा—वि० [सं०] १ जो उचित से अधिक न बोलता हो । नपे तुले शब्द बोलकर काम चलानेवाला । २ कम बोलनेवाला । अल्पभाषी ।

परिमितभुक्—वि० [सं० परिमितभुज] कम खानेवाला । अल्पभोजी [को०] ।

परिमितायु—वि० [सं० परिमितायुस्] स्वल्पायु । कम उम्र पानेवाला । अल्पजीवी [को०] ।

परिमिताहार—वि० [सं०] अल्पभोजी [को०] ।

परिमिति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] नाप, तोल, सीमा, आदि ।

परिमिति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परिमिति (= सीमा, अत)] मर्यादा । इज्जत । उ०—परिमिति गए लाज तुमही को हंसिनि व्याहि काग ले जाइ ।—सूर (शब्द०) ।

परिमितान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ स्पर्श । छूना । २ अच्छी तरह मिलना । आलिंगन [को०] ।

परिमिलित—वि० [सं०] १ मिश्रित । मिला हुआ । २ आपूरण । भरा हुआ [को०] ।

परिमोढ—वि० [सं०] मूत्रसिक्त । मूत्र से सना हुआ [को०] ।

- परिसुक्त**—वि० [सं०] पूर्ण रूप से स्वाधीन। सम्यक् रूप से मुक्त।
- परिसुक्ति**—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] बंधन से छुटकारा। पूर्णतः मुक्ति [को०]।
- परिसुग्ध**—वि० [सं०] १ सुंदर। आकर्षक। २ सुंदर पर मूर्ख। आकर्षक किंतु भ्रष्ट [को०]।
- परिसूद**—वि० [सं० परिसूद] १ ध्याकुल। २ विचलित। मथित। ३ क्षोभित।
- परिसृष्ट**—वि० [सं०] १ धोया या साफ किया हुआ। परिमार्जित। २ जिसको छुपा गया हो। स्पष्ट। ३ पकड़ा हुआ। प्रधिकृत। ४ जिससे परामर्श किया गया हो। ५ व्याप्त। परिपूर्ण [को०]।
- परिसृष्टि**—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] धोना। मर्जना। परिष्करण। परिमार्जन।
- परिमेय**—वि० [सं०] १ जो नापा या तोला जा सके। नापने या तोलने के योग्य। २ थोड़ा। ससीम। सकुचित। ३, जिसके नापने या तोलने का प्रयोजन हो। जिसे नापना या तोलना हो।
- परिमोक्ष**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पूर्ण मोक्ष। सम्यक् मुक्ति। निर्वाण। २ विष्णु। ३ परित्याग। छोड़ना। ४ मलपरित्याग। हगना।
- परिमोक्षण**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. मुक्त करना या होना। २. परित्याग करना या किया जाना। ३ मलत्याग करना। ४ घाति क्रिया द्वारा घातियों का घोकर साफ करना। ५ निर्वाण। मुक्ति [को०]।
- परिमोष**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चोरी। स्तेय।
- परिमोषक**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चोर।
- परिमोषण**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चुराना। स्तेय। चोरी।
- परिमोषी**—वि० [सं० परिमोषिन्] जिसकी स्वभाव से चोरी करने की प्रवृत्ति हो। चोर। तस्कर।
- परिमोहन**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिमोहित] किसी की बुद्धि या मन को पूर्ण रूप से अपने अधिकार में कर लेना। सम्यक् वशीकरण।
- परिम्लान^१**—वि० [सं०] १ मुरझाया हुआ। कुम्हलाया हुआ। २. मलिन। उदास। निस्तेज। हतप्रभ। ३ दागदार। जिसपर दाग या धब्बा हो।
- परिम्लान^२**—सञ्ज्ञा पुं० १. मय या दुःख से मलिन होना। २ धब्बा। दाग।
- परिम्लायी^१**—वि० [सं० परिम्लायिन्] १. मलिनतायुक्त। उदास। २ कुम्हलाया या मुरझाया हुआ।
- परिम्लायी^२**—सञ्ज्ञा पुं० विमिर रोग का एक भेद। इसका कारण रुधिर में मूर्च्छित पित्त होता है इसमें रोगी को सभी दिशाएँ पीली या प्रज्वलित दिखाई पड़ती हैं।
- परियंक्त**—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्यंक्त] दे० 'पर्यंत'।

परियंत—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्यंत] दे० 'पर्यंत'।

परियज्ञ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह छोटा यज्ञ या विधान जिसको अकेले करने की विधि न हो, किंतु जो किसी अन्य यज्ञ के साथ उसके पहले या पीछे किया जाय।

परियत्त—वि० [सं०] चारो ओर से घिरा हुआ। परिवेष्टित।

परियष्टा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परियष्ट] वह मनुष्य जो अपने बड़े भाई से पहले सोम याग करे।

परियाण^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परियाण (= अमण), या पर्याण (= काठी); या प्रयाण (= युद्धयात्रा)] १ आक्रमणार्थ यात्रा। २ काठी। घोड़े की जीन। ३ वण। उ०—पुर-जोषाण उदपुर जैपुर पट्टांरा खूटा परियाण —वांकी० ग्र०, भा० ३, पु० १०५।

परिया^१—सञ्ज्ञा पुं० [तमिल परैयाच] दक्षिण भारत की एक प्राचीन जाति जो अस्पृश्य मानी जाती है।

विशेष—इस जाति के लोग अधिकतर चौकीदारी, भगी या मेहतर का काम अथवा शूद्र किसान के खेत में मजदूरी करते हैं। स्वभाव से ये शांत, नम्र और परिश्रमी होते हैं। ये देवी के उपासक होते और अधिकतर पार्वती या काली की मूर्तियों की पूजा करते हैं। सामाजिक सबंध में ये बड़े रक्षणशील हैं, अपने से उच्च भिन्न जाति से भी किसी प्रकार का सामाजिक सबंध नहीं रखना चाहते। कई दक्षिणी राज्यों में इनको ब्राह्मणों के सामने से निकलने तक का निषेध है। कहते हैं, इनका सामना हो जाने से ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है और उसे स्नान करना पड़ता है। जिस गाँव में ब्राह्मणों की बस्ती हो उसमें जाना भी परिया के लिये निषिद्ध है।

परिया लोगों का कहना है कि हमारी उत्पत्ति ब्राह्मणों के गर्भ से है और हम ब्राह्मणों के बड़े भाई होते हैं। वैकटाचार्य ने कुलशंकरमाला में लिखा है कि उर्वशी के पुत्र वशिष्ठ ने अरुंधती नाम की एक चांडाली से विवाह किया था। इस चांडाली के गर्भ से १०० पुत्र जन्मे। इनमें से पिता का आदेश मान लेनेवाले चार पुत्र तो चार वरुणों के मूल पुरुष हुए और पिता की आज्ञा की अवज्ञा करनेवाले ९६ पुत्रों को पंचमवरुण या परिया की संज्ञा मिली।

परिया^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] ताना तानने की लकड़ियाँ (जुलाहा)।

परियाण—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रयाण] दे० 'प्रयाण'। उ०—वेनी परियाण घट अनुरागा, पाइ न्हाइ अज अमर भए।—घट०, पु० २६४।

परियाण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] घुमाई फिराई। भ्रमण। पर्यटन।

परियाणिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] यात्रा की गाड़ी। चलती हुई गाड़ी।

परियात—वि० [सं०] १ जो भ्रमण या पर्यटन कर चुका हो। २. भ्रया हुआ। कहीं से लौटा हुआ।

परियार^१—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] १ बिहार में शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का एक उपभेद। २. मदरास में बसनेवाली एक नीच जाति।

परियार^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिवार, प्रा० परिआल] म्यान। कोप।

उ०—बहु लोह कददि परियार ते सार धार में श्रम्मि भर ।
—पृ० रा०, २५ । ४५६ ।

परियारा^३—वि० [सं० परारि] पूर्वतर वर्ष । वर्तमान से तीसरा पूर्व या बाद का वर्ष । जैसे,—(क) परियार साल चुनाव हुआ था । (ख) परियार माल फिर सूर्यग्रहण लगेगा ।

यौ०—पर परियार ।

परियोग्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वेद की एक शाखा ।

परिरंघित—वि० [सं० परिरन्धित] १ नष्ट किया हुआ । २. चुटैल । चोट पहुँचाया हुआ (को०) ।

परिरंभ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिरम्भ] [वि० परिरंभित, परिरंभी] गले से गला या छाती से छाती लगाकर मिलना । आलिंगन ।

परिरंभण—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिरंभण] दे० 'परिरंभ' ।

परिरंभन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिरंभण] दे० 'परिरंभण' । उ०—सकल सुगंध भ्रंग भ्रंग भरि भोरी, पीय नृतत भुसकेन मुख मोरी, परिरंभन रस रोरी।—पोद्दार अभि० ग्र०, पृ० १८६ ।

परिरंभना—क्रि० सं० [सं० परिरंभ + हिं० ना (प्रत्य०)] परिरंभण करना । आलिंगन करना । गले लगाना । उ०—तुव तन परिरंभल परसि जव गवनत धीर समीर । तावहँ बहु सन मान करि परिरंभत वलबीर ।—नददास (शब्द०) ।

परिरक्षण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सब प्रकार या सब ओर से रक्षा करना । २ पालन । रक्षण । निभाना (को०) । ३ देखभाल या बचाव (को०) ।

परिरक्षणीय—वि० [सं०] अच्छी तरह रक्षा करने के योग्य (को०) ।

परिरक्ष्य—वि० [सं०] दे० 'परिरक्षणीय' (को०) ।

परिरक्षित—वि० [सं०] १ जिसकी पूर्णत रक्षा या देखभाल की गई हो । २ पूरी तरह निभाया हुआ या पालन किया हुआ (को०) ।

परिरक्षिता—वि० [सं० परिरक्षित] पूरी तरह से देखभाल या रक्षा करनेवाला (को०) ।

परिरक्षी—वि० [सं० परिरक्षित] दे० 'परिरक्षिता' ।

परिरक्ष्य—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] रथ का एक अंग ।

परिरक्ष्या—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चौड़ा रास्ता । सड़क ।

परिरन्ध—वि० [सं०] आलिंगित (को०) ।

परिराटी—वि० [सं० परिराटिन्] चिल्लातेवाला या रट लगानेवाला (को०) ।

परिरोध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] रुकावट । अड़गा । अवरोध ।

परिलक्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिलक्ष्] फलांग या छलांग मारना । कुद या उछलकर लौंघ जाना ।

परिलक्षन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिलक्ष्] दे० 'परिलक्ष' ।

परिलक्षन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिलक्ष्] भाचक्र का २७° विपुवद् रेखा से एक ओर हिंडोले की तरह जाकर फिर लौट आना और इसी प्रकार दूसरी ओर २७° तक की पैंग लेकर पुनः

अपने स्थान पर चला आना । इसे अंग्रेजी में लाइब्रेशन (Libration) कहते हैं ।

परिलक्षु—वि० [सं०] १ अत्यंत छोटा या हलका । २, अत्यंत शीघ्र पचने के कारण प्रति लघु पाक ।

परिलिखन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १, रगड़ या घिसकर किसी चीज का खुरदरापन दूर करना । २ चिकना और चमकदार करना । पालिश करना ।

परिलिखित—वि० [सं०] रेखा से घिरा हुआ । जो किसी धरे या दायरे के बीच में हो । रेखा या वृत्त से परिवेष्टित ।

परिलिख—वि० [सं० परिलिखित] भली भाँति चाटा हुआ (को०) ।

परिलुप्त—वि० [सं०] १ नाशप्राप्त । नष्ट । विनष्ट । २ जिसकी क्षति या अपकार किया गया हो । क्षतिग्रस्त । अपहृत । ३ लुप्त ।

यौ०—परिलुप्तसञ्ज्ञ = चेतनारहित । सज्ञाहीन । अचेत ।

परिलून—वि० [सं०] पूर्णत छिन्न या काटा हुआ (को०) ।

परिलेख—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. चित्र का स्थूल रूप जिसमें केवल रेखाएँ हो, रंग न भरा गया हो । ढाँचा । खाका । २ चित्र । तस्वीर । ३ कूची या कलम जिससे रेखा या चित्र खींचा जाय ।

परिलेख—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] उल्लेख । शब्दों द्वारा अंकन या वर्णन । उ०—तेरे प्रेम को परिलेख तो प्रेम की टकसार होयगो और उत्तम प्रेमिन को छोड़ि और काहू की समझ ही में न पावैगो।—भारतेंदु ग्र०, भा० १, पृ० ४६५ ।

परिलेखन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] किसी वस्तु के चारों ओर रेखाएँ बनाना ।

परिलेखना—क्रि० सं० [सं० परिलेख + हिं० ना (प्रत्य०)] समझना । मानना । खयाल करना । उ०—प्री जेइ समुद प्रेम कर देखा । तेइ यह समुद बुद परिलेखा।—आयसी (शब्द०) ।

परिलेही—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिलेहिन्] कान का एक रोग, जिसमें कफ और रंधर के प्रकोप से कान की सोलक पर छोटी छोटी फुसियाँ निकल आती हैं और उनमें जलन होती है ।

परिलोप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ क्षति । हानि । २ उपेक्ष्य । उपेक्षा । ३ विलोप । नाश ।

परिलोलित—वि० [सं०] हिलता हुआ । कपित ।

परिवचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिवचन] घोखा देना । छलना ।

परिवचना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परिवचन] दे० 'परिवचन' (को०) ।

परिवश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] घोखा । छल । प्रतारण ।

परिवक्रता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. गोलाकार वेदी या गर्त । २ एक स्थान का नाम (को०) ।

परिवत्सर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ ज्योतिष के पाँच विशेष सवत्सरों में से एक । इसका अधिपति सूर्य होता है । २ एक समस्त वर्ष । एक पूरा साल ।

परिवत्सरीण—वि० [सं०] जिसका सबस सारे वर्ष से हो । जो पूरे वर्ष भर रहे । समस्त वर्षव्यापी । समस्त वर्षसवधी ।

परिवत्सरीय—वि० [सं०] दे० 'परिवत्सरीय' ।

परिवदन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] किसी के दोष का वर्णन या कथन । निंदा । बदगोई ।

परिवपन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कतरना या मूँडना [को०] ।

परिवर्जन, परिवर्ज्जन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ परित्याग करना । त्यागना । छोड़ना । तजना । २ मारण । मार डालना । हत्या करना ।

परिवर्जनीय—वि० [सं०] त्यागने योग्य । परित्याज्य ।

परिवर्जित—वि० [सं०] त्यागा हुआ । परित्यक्त ।

परिवर्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ फिराव । फेरा । घुमाव । चक्कर । विवर्तन । २ आवृत्ति । ३ अदल बदल । बदला । विनिमय । ४ जो बदले में लिया या दिया जाय । बदल । ५ किसी काल या युग का अन्त । किसी काल या युग का बीत जाना । ६ (ग्रथ का) परिच्छेद । अन्वयाय । बयान । ७ पुराणानुसार मृत्यु के पुत्र दुस्सह के पुत्रों में से एक ।

विशेष—मार्कण्डेय पुराण में लिखा है कि मृत्यु के दुस्सह नाम का एक पुत्र था जिसका विवाह कलि की कन्या निर्माण्डि के साथ हुआ था । निर्माण्डि के गर्भ से अनेक पुत्र जन्मे, परिवर्त इनमें तीसरा था । यह एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ से बदल दिया करता था, किसी वाक्य का भी वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध या भिन्न अर्थ कर दिया करता था । इसी से इसे परिवर्त कहने लगे । इसके उपद्रव से गर्भ की रक्षा करने के लिये सफेद सरसों और रक्षोघ्न मन्त्र से इसकी शांति की जाती है । इसके पुत्र विरूप और विकृति भी उपद्रव करके गर्भपात कराते हैं । इनके रहने के स्थान डालियों के सिरे, चहारदीवारी, खाई और समुद्र हैं । जब गर्भिणी स्त्री इनमें से किसी के पास पहुँचती है तब ये उसके गर्भ में घुस जाते हैं और फिर बराबर एक से दूसरे गर्भ में जाया करते हैं । इनके बार बार जाने आने से गर्भ गिर जाता है । इसी कारण गर्भावस्था में स्त्री को वृक्ष, पर्वत, प्राचीर, खाई और समुद्र आदि के पास घूमने फिरने का निषेध है ।

८ स्वरसाधन की एक प्रणाली जो इस प्रकार है

आरोही—सा ग म रे, रे म प ग, ग प घ म, म घ नि प, प नि सा घ, घ सा रे नि, नि रे ग सा । **अवरोही**—सा घ प नि, नि प सा घ, घ म ग प, प ग रे म, म रे सा ग, ग सा नि रे, रे नि घ सा ।

९ गृह । आलय । निवासस्थान (को०) । १० पुनर्जन्म । फिर फिर जन्म लेना (को०) ।

परिवर्तक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ घूमनेवाला । फिरनेवाला । चक्कर खानेवाला । २ घुमानेवाला । फिरानेवाला । चक्कर देनेवाला । उलटने पलटनेवाला । ३ बदलनेवाला । विनिमय करनेवाला । ४ जो बदला जा सके । परिवर्तन योग्य । ५ युग का अन्त करनेवाला । ६ मृत्यु के पुत्र दुस्सह का एक पुत्र । ७ अनाज आदि देकर दूसरी वस्तुएँ बदले में लेना । विनिमय ।

परिवर्तन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिवर्तनीय, परिवर्तित, परिवर्ती] १. घुमाव । फेरा । चक्कर । आवर्तन । २ दो वस्तुओं का परस्पर अदल बदल । अदला बदली । हेरफेर । विनिमय । तवादला । ३ जो किसी वस्तु के बदले में लिया या दिया जाय । बदल । ४ बदलने या बदल जाने की क्रिया या भाव । दशातर । विषयातर । रूपातर । तबदीली । उ०—परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं ।—पञ्चवटी, पृ० ८ । ५ किसी काल या युग की समाप्ति ।

यौ०—परिवर्तनवादी = वर्तमान स्थिति को बदलने की कामना रखनेवाला । परिवर्तन द्वारा समाज की उन्नति में विश्वास रखनेवाला । उ०—स्वतन्त्रता के उन्नत उपासक, घोर परिवर्तनवादी शैली के महाकाव्य, 'द रिबोल्ट आफ इस्लाम' के नायक नायिका शांत वृत्ति या चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन करनेवाले नहीं हैं ।—आचार्य०, पृ० १८ । परिवर्तनशील = परिवर्तित होनेवाला । जिसमें निरंतर परिवर्तन हो । परिवर्तनशीला = निरतन बदलनेवाली ।—उ०—देखेंगे परिवर्तनशीला प्रकृति को, घूमेगे वस देश देश स्वाधीन हो ।—कल्या०, पृ० ७ ।

परिवर्तनीय—वि० [सं०] घूमने, बदलने या बदले जाने के योग्य । परिवर्तन योग्य ।

परिवर्तिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] लिंगेन्द्रिय का एक क्षुद्र रोग ।

विशेष—अधिक खुजलाने, दवाने या चोट लगने के कारण इसमें लिंगचर्म उलटकर सूज जाता है । कभी कभी यह सूजन गाँठ की तरह हो जाती है और पक जाती है । यह रोग वायु के कोप से होता है । कफ अथवा पित्त का भी सबब होने से त्वचा में क्रम से अधिक खुजली या जलन होती है ।

परिवर्तित—वि० [सं०] १ जिसका आकार या रूप बदल गया हो । बदला हुआ । रूपांतरित । २ जो बदले में मिला हुआ हो । ३ जिसका परिवर्तन हुआ हो ।

परिवर्तिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] भादों शुक्ल पक्ष की एकादशी ।

परिवर्ती—वि० [सं० परिवर्तित] १ परिवर्तन स्वभाववाला । परिवर्तनशील । बार बार बदलनेवाला । २ किसी चीज का बदलनेवाला । विनिमय करनेवाला । ३ जिसका घूमने का स्वभाव हो । जो बराबर घूमता रहता हो ।

परिवर्तुल—वि० [सं०] खूब गोल । पूर्ण गोलाकार ।

परिवर्तमन्—वि० [सं०] जो किसी वस्तु के चारों ओर घूम रहा हो । प्रदक्षिणा करता हुआ ।

परिवर्द्धन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिवर्द्धित] सख्या, गुण आदि में किसी वस्तु की खूब बढ़ती होना । सम्यक् प्रकार से वृद्धि । खूब या खासी बढ़ती । परिवृद्धि ।

परिवर्द्धित—वि० [सं०] १. बढ़ा हुआ । २. बढ़ाया हुआ ।

परिवर्धमान—वि० [सं० परिवर्धवत्] बढ़ता हुआ । चारों ओर से बढ़नेवाला । जो बढ़ रहा हो । उ०—वेला की आँखों में गोली का और उसके परिवर्धमान प्रेमाकुर का चित्र था ।

जो उसके हट जाने पर विरहजल से हराभरा हो उठा था ।
—इद्र०, पृ० ७ ।

परिवर्त—वि० [सं०] वर्त से ढका हुआ । वक्तर से ढका हुआ ।
जिरहपोश ।

परिवर्त—सज्ञा पुं० [सं०] चेंबर, छत्र आदि राजत्व की सूचक
वस्तुएँ । राजचिह्न । शाही लवाजमा । २ घन । सपत्ति
(को०) । ३ गृह की वस्तुएँ (को०) ।

परिवसथ—सज्ञा पुं० [सं०] ग्राम । गाँव ।

परिवह—सज्ञा पुं० [सं०] सात पवनो में से छठा पवन ।

विशेष—कहते हैं, यह सुबह पवन के ऊपर रहता है और
आकाशगंगा को बहाता तथा शुक्र तारे को घुमाता है ।
उ०—है याकी वह पवन जो परिवह जाति कहाय । वही
पवन नभगग को नितप्रति रही बहाय । —शकुतला,
पृ० १३३ ।

२ अग्नि की सात जीभों में से एक ।

परिवहन—सज्ञा पुं० [सं०] यात्रियों तथा माल को एक स्थान से
दूसरे स्थान पर ले जाना । ढोना । उ०—व्यापारी अपना
माल एक राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य में परिवहन
करने के इच्छुक होंगे ।—नेपाल०, २४० ।

परिवर्ण—सज्ञा पुं० [सं० प्रमाण] इयत्ता । सीमा । अवधि ।
उ०—तुँही ज सज्जण मित्त तूँ प्रीतम तूँ परिवर्ण । हियड्ड
भीतर तूँ बसइ भावइ जाँण म जाँण ।—ढोला०, दू० १७५ ।

परिवर्ण—सज्ञा पुं० [सं० परिमाण] घेरा । विस्तार । परिमाण ।
उ०—प्रथम हुने रणधीर ने बहुरि सेन परिवर्ण ।—ह०
रासो, पृ० १६२ ।

परिवा—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिपदा, प्रा० पङ्क्ति] किसी पक्ष की
पहली तिथि । द्वितीया के पहले पडनेवाली तिथि । अभावस्था
या पूर्णिमा के दूसरे दिन की तिथि । पडिवा ।

परिषाद—सज्ञा पुं० [सं०] १. निंदा । दोषकथन । अपवाद । बुराई
करना । २. मनुस्मृति के अनुसार ऐसी निंदा जिसकी
आधारभूत घटना या तथ्य सत्य न हो । झूठी निंदा । ३.
लोहे के तारों का वह छल्ला जिससे वीणा या सितार बजाया
जाता है । मिजराव ।

परिवादक^१—सज्ञा पुं० [सं०] १. परिवाद करनेवाला मनुष्य । निंदा
करनेवाला व्यक्ति । २. वीनकार । ३. वीन बजानेवाला ।

परिवादक^२—वि० परिवाद करनेवाला । निंदक ।

परिवादिनी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. वह वीन जिसमें सात तार होते
हैं । २. परिवाद करनेवाली स्त्री (को०) ।

परिवादी^१—वि० [सं० परिवादिन्] [वि० स्त्री० परिवादिनी] निंदा
करनेवाला । परिवाद करनेवाला ।

परिवादी^२—सज्ञा पुं० निंदक व्यक्ति । परिवादक । अपवाद या परि-
वाद करनेवाला ।

परिवान^१—सज्ञा पुं० [सं० प्रमाण, हिं० परवान] दे० 'प्रमाण' ।

उ०—चलु हँसा तहँ चरण समान । तहँ दाहू पहुँचे
परिवान ।—दाहू०, पृ० ६७५ ।

परिवानना^१—क्रि० सं० [सं० प्रमाण] दे० 'प्रमाणना' । उ०—
भ्यानी पुनि यह सुख नहि जानै । नीरस निराकार
परिवानै ।—नद० प्र०, पृ० २५१ ।

परिवाप—सज्ञा पुं० [सं०] १. वपन । बोना । २. मुडन । ३. स्थान ।
जगह । ४. फरही । भुना हुआ चावल । लावा । खील । ५.
घनीभूत दूध । जमाया हुआ दूध या छेना । ६. परिच्छद ।
उपयोग की सामग्री । ७. जलाशय । ८. अनुचर वर्ग (को०) ।

परिवापन—सज्ञा पुं० [सं०] मुडन । मूँडना (को०) ।

परिषापित्त—वि० [सं०] मुडित । मूड़ा हुआ (को०) ।

परिवार—सज्ञा पुं० [सं०] १. कोई ढकनेवाली चीज । परिच्छद ।
आवरण । २. म्यान । नियाम । कोप । तलवार की खोली ।
३. वे लोग जो किसी राजा या रईस की सवारी में उसके
पीछे उसे घेरे हुए चलते हैं । परिपद । ४. वे लोग जो अपने
भरण पोषण के लिये किसी विशेष व्यक्ति के आश्रित हो ।
आश्रित वर्ग । पोष्य जन । ५. एक ही कुल में उत्पन्न और
परस्पर घनिष्ठ संबन्ध रखनेवाले मनुष्यों का समुदाय । भाई,
बेटे आदि और सगे सबधियों का समुदाय । स्वजनो या
आत्मीयो का समुदाय । परिजनसमूह । कुटुंब । कुनवा ।
खानदान । ६. एक स्वभाव या धर्म की वस्तुओं का समूह ।
कुल । उ०—अभिय मूरिमय चूरन चारू । समन सकल भवरुज
परिवारू ।—तुलसी (शब्द०) ।

परिवारण—सज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिवारित] १. ढकने या छिपाने
की क्रिया । आवरण । आच्छादन । २. कोप । खोल । म्यान ।

परिवारता—सज्ञा स्त्री० [सं०] अधीनता । अवलंबन । आश्रय (को०) ।

परिवारवान्—वि० [सं० परिवारवत्] जिसके परिवार हो । परिवार-
वाला । जिसके बहुत से परिपद, कुटुंबी या आश्रित हों ।

परिवारित—वि० [सं०] घेरा हुआ । आवृत (को०) ।

परिवारी—सज्ञा पुं० [सं० परिवार] परिवार में रहनेवाला । कुटुंबी ।
परिवार का सेवक । अनुचर । उ०—जिस दिन सुना अकिचन
परिवारी ने आजीवन दास ने रक्त से रंगे हुए अपने ही हाथों
पहना है राज्य का मुकुट ।—लहर पृ० ८५ ।

परिवास—सज्ञा पुं० [सं०] १. ठहरना । टिकना । टिकाव । अव-
स्थान । २. घर । गृह । मकान । ३. सुवास । सुगंध । ४.
बौद्ध संध में से किसी अपराधी भिक्षु का बाहर किया जाना
या वहिष्करण ।

परिवासन—सज्ञा पुं० [सं०] खड । डुकड़ा ।

परिबाह—सज्ञा पुं० [सं०] १. ऐसा प्रवाह या बहाव जिसके कारण
पानी ताल तलाव आदि की समाई से अधिक हो जाता हो ।
उतराकर बहना । बाँध, मेंड़ या दीवार के ऊपर से छलक-
कर बहना । २. [वि० परिबाहित] वह नाली या प्रवाह-
मार्ग जिससे किसी स्थान का आवश्यकता से अधिक जल

निकाला जाय । फालतू पानी निकालने का मार्ग । अतिरिक्त पानी का निकास ।

परिवाही—वि० [सं० परिवाहिन्] [वि० स्त्री० परिवाहिनी] उत्तरा-
कर वहनेवाला । बांध, मेंड आदि से छलककर वहनेवाला ।
उबल या उफनकर वहनेवाला ।

परिविदक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिविन्दक] वह व्यक्ति जो जेठे भाई से
पहले अपना विवाह कर ले । परिवेत्ता ।

परिविन्दन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिविन्दन] परिवेत्ता । परिविदक ।

परिविणय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिवित्त' [को०] ।

परिवित्तक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रश्न । जिज्ञासा । परीक्षा ।

परिवित्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह मनुष्य जिसका छोटा भाई, उससे
पहले अपना विवाह कर ले ।

परिवित्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिवित्त' ।

परिविद्ध^१—वि० [सं०] भली भाँति या सम्यक् रीति से विद्ध । सब
ओर या सब प्रकार से विद्या हुआ ।

परिविद्ध^२—सञ्ज्ञा पुं० कुबेर (देवता) ।

परिविन्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिवित्त' [को०] ।

परिविदिदान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बड़े भाई से पहले विवाह करनेवाला
छोटा भाई । परिवेत्ता ।

परिविष्ट—वि० [सं०] १ घेरा हुआ । परिवेष्टित । २. परोसा
हुआ (भोजन) । ३. प्रकाशमण्डल से आवृत (सूर्य
या चंद्र) ।

परिविष्टि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ सेवा । टहल । परिचर्या । २
घेरा । वेष्टन ।

परिविहार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] आनंद से घूमना । जी भरकर
घूमना [को०] ।

परिवीक्षण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ घिरा हुआ । लपेटा हुआ । २.
ढका हुआ । छिपाया हुआ । आच्छादित । आवृत्त ।

परिवीजित—वि० [सं० परिवीजन] जिसे पखे से हवा की गई हो ।
पखा किया हुआ । उ०—उच्च प्रसारो में लेटा छाया मर्मर
परिवीजित । श्रात पाथ सा ग्रीष्म ऊँघता भरी दुपहरी में
नित ।—अतिमा, पृ० १३७ ।

परिवीत^१—वि० [सं०] १ घिरा हुआ । लपेटा हुआ । छिपाया हुआ ।
आच्छादित । आवृत्त ।

परिवीत^२—सञ्ज्ञा पुं० ब्रह्मा का धनुष [को०] ।

परिवृंहित^१—वि० [सं०] दे० 'परिवृंहित' ।

परिवृंहित^२—सञ्ज्ञा पुं० हाथी की चिगघाड । हस्तिगर्जन [को०] ।

परिवृढ^१—वि० [सं०] दृढ़ । मजबूत [को०] ।

परिवृढ^२—सञ्ज्ञा पुं० मालिक । स्वामी । नेता ।

परिवृत्त^१—वि० [सं०] १ ढका, छिपाया या घिरा हुआ । वेष्टित ।
आवृत्त । २ पूर्णत प्राप्त [को०] । ३. जाना हुआ ।
परिचित । ज्ञात [को०] ।

परिवृत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] ढकने, घेरने या छिपानेवाली वस्तु ।
वेष्टन ।

परिवृत्त^१—वि० [सं०] १ घुमाया या लौटाया हुआ । २ उलटा-
पलटा हुआ । ३. घेरा हुआ । वेष्टित । ४ समाप्त । ५. परि-
वर्तित । बदला हुआ [को०] ।

परिवृत्त^२—सञ्ज्ञा पुं० आलिगन । अंकवार [को०] ।

परिवृत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. घुमाव । चक्कर । गरदिश । २.
घेरा । वेष्टन । ३. बदला बदला । विनिमय । तवादला ।
४. समाप्ति । अंत । ५. एक शब्द या पद को दूसरे ऐसे शब्द
या पद से बदलना जिससे अर्थ वही बना रहे । ऐसा शब्द-
परिवर्तन जिसमें अर्थ में कोई अंतर न आने पावे । जैसे,—
'कमललोचन' के 'कमल' अथवा 'लोचन' को 'पद्म' या 'नयन'
से बदलना (व्याकरण) ।

परिवृत्ति—सञ्ज्ञा पुं० एक अर्थालंकार जिसमें एक वस्तु को देकर दूसरी
वस्तु लेने अर्थात् लेनदेन या अदल बदल का कथन होता है ।

विशेष—इस अलंकार के दो प्रधान भेद हैं—एक सम परिवृत्ति,
दूसरा विषम परिवृत्ति । पहले में समान गुण या मूल्य की
और दूसरे में असमान गुण या मूल्य की वस्तुओं के अदल-
बदल का वर्णन होता है । इन दोनों के दो दो अवातर भेद
होते हैं । सम के अतर्गत एक उत्तम वस्तु का उत्तम से विनि-
मय, दूसरा न्यून वस्तु का न्यून से विनिमय है । इसी प्रकार
विषम के अतर्गत उत्तम वस्तु का न्यून से और न्यून का उत्तम
से विनिमय होता है । जैसे,—(क) मन मानिक दीन्हो तुम्हे
लीन्हो विरह बलाय । (वि० परि०—उत्तम का न्यून से
विनिमय) (ख) तीन मुठी भरि आज देकर अनाज आपु
लीन्हो जडुपति जू सो राज तीनों लोक को (वि० परि०-
न्यून का उत्तम से विनिमय) ।

हिंदी कविता में प्रायः विषम परिवृत्ति के ही उदाहरण मिलते
हैं । कई आचार्यों ने इसी कारण न्यून या थोड़ा देकर उत्तम
या अधिक लेने के कथन को ही इस अलंकार का लक्षण
माना है, सम का सम के साथ विनिमय के कथन को नहीं ।
परंतु अन्य कई आचार्यों तथा विशेषतः साहित्यदर्पण आदि
साहित्य ग्रंथों ने देनलेन या अदल बदल के कथन मात्र को इस
अलंकार का लक्षण प्रतिपादित किया है ।

परिवृत्तिकाव्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिवृत्ति+काव्य] दूसरे की कविता
को आधार बनाकर उसी शैली पर प्रस्तुत की गई हास्यप्रधान
कविता जिसे अंग्रेजी में पैरोडी कहते हैं । व०—परिहास
करने के लिये इसी शैली पर जो रचना की जाती है उसे
परिवृत्तिकाव्य कहते हैं ।—स० शास्त्र, पृ० ८१ ।

परिवृद्ध—वि० [सं०] खूब बढ़ा हुआ । सब प्रकार वर्धित । परिवर्धित ।

परिवृद्धि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सब प्रकार से वृद्धि । परिवर्धन । खूब
बढ़ती या वृद्धि ।

परिवेण—सञ्ज्ञा पुं० [पाली] १ बौद्ध विहार के भीतर बना हुआ
भिक्षुओं का कुटीर या भवन । उ०—(क) अनाथ पिंडिल
ने जैतवन में विहार बनवाए, परिवेण बनवाए ।—वै० न०,

पु० ३१२ । (ख) एक परिवेण से दूसरे परिवेण जाकर पूछने लगा ।—वै० न०, पु० १०० ।

परिवेत्ता—सञ्ज्ञा पु० [सं० परिवेत्] वह व्यक्ति जो बड़े भाई से पहले अपना विवाह कर ले या अग्निहोत्र ले ले ।

विशेष—बड़े भाई के अविवाहित रहते छोटे का विवाह होना धर्मशास्त्रों से निषिद्ध और निन्दित है परन्तु नीचे लिखी हुई अवस्थाएँ अपवाद हैं । इनमें बड़े भाई से पहले विवाह करनेवाले छोटे भाई को दोष नहीं लगता । बड़ा भाई देशांतर या परदेश में हो (शास्त्रों ने देशांतर उस देश को माना है जहाँ कोई और भाषा बोली जाती हो, जहाँ जाने के लिये नदी या पहाड़ लांघना पड़े, जहाँ का खवाद दस दिन के पहले न सुन सकें अथवा जो साठ, चालीस या तीस योजन दूर हो), नपुंसक हो, एक ही अङ्गकोष रखता हो, वेश्यासक्त हो, (शास्त्रपरिभाषा के अनुसार) शूद्रतुल्य या पतित हो, अति रोगी हो, जड़, भूंगा, अघा, बहरा, कुबवा, बौना या कोढ़ी हो, अति वृद्ध हो गया हो, उसने ऐसी स्त्री से सबध कर लिया हो जो शास्त्रनिषिद्ध हो, जो शास्त्र की विधियों को न मानता हो, अपने पिता का औरस पुत्र न हो, चोर हो या विवाह करना ही न चाहता हो और छोटे भाई को विवाह करने की उसने अनुमति दे दी हो । बड़े भाई के देशांतरस्थ होने की दशा में तीन वर्ष, अथवा विशेष अवस्थाओं में कुछ अधिक वर्षों तक प्रतीक्षा करने की शास्त्रों की आज्ञा है, पर कोढ़ी, पतित, आदि होने की दशा में नहीं ।

परिवेद—सञ्ज्ञा पु० [सं०] पूरा ज्ञान । सम्यक् ज्ञान । परिज्ञान ।

परिवेदन—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १ पूरा ज्ञान । सम्यक् ज्ञान । परिज्ञान । २ विचरण । ३ लाभ । प्राप्ति । ४ विद्यमानता । मौजूदगी । ५ वादविवाद बहस । ६ भारी दुःख या कष्ट । ७ बड़े भाई के पहले छोटे भाई का ब्याह होना । ८ अग्निहोत्र के लिये अग्नि की स्थापना । अन्याधान ।

परिवेदना—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] १ तीक्ष्णबुद्धिता । विचक्षणता । विदग्धता । चतुराई । २ भारी दुःख या पीडा ।

परिवेदनीया—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] परिवेत्ता की स्त्री । परिवेदिनी [को०] ।

परिवेदिनी—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] उस मनुष्य की स्त्री जिसने बड़े भाई से पहले अपना ब्याह कर लिया हो । परिवेत्ता की स्त्री ।

परिवेश—सञ्ज्ञा पु० [सं०] वेष्टन । परिधि । घेरा । उ०—परिवेशों के सतत बदलते मूल्यों पर ही, अवलंबित रहते अपने हैं मान न मौलिक ।—रजत०, १०३१ । दे० 'परिवेष' ।

परिवेष—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १ परसना या परोसना । परिवेषण । २ घेरा । परिधि । उ०—रूप तिलक, कच कुटिल; किरनि छवि कुडल कल विस्तार । पत्रावलि परिवेष सुमन सरि मिल्यो मनहु उड दार ।—सूर०, १० । १७६६ । ३. हलकी सफेद बदली का वह घेरा जो कभी चंद्रमा या सूर्य के इर्द गिर्द बन जाता है । मडल । ४ कोई ऐसी वस्तु जो चारों ओर से घेरकर किसी वस्तु की रक्षा करती हो । ५. गहर-

पनाह की दीवार । परकोटा । कोट । ६ प्रकाश या किरणों का मडल ।

परिवेषक—सञ्ज्ञा पु० [सं०] [स्त्री० परिवेषिका] परसनेवाला । परिवेषण करनेवाला ।

परिवेषण—सञ्ज्ञा पु० [सं०] [वि० परिवेषण्य, परिवेष्य] १. (खाना) परसना । परोसना । २ घेरा । परिधि । वेष्टन । ३. सूर्य या चंद्र आदि के चारों ओर का मडल ।

परिवेष्टन—सञ्ज्ञा पु० [सं०] [वि० परिवेष्टित] १ चारों ओर से घेरना या वेष्टन करना । २ छिपाने, ढकने या लपेटनेवाली चीज । आच्छादन । आवरण । ३ परिधि । घेरा । दायरा ।

परिवेष्टा—सञ्ज्ञा पु० [सं० परिवेष्ट] परसनेवाला । परिवेषक ।

परिवेष्य—वि० [सं०] परिवेषण के योग्य । परसने लायक [को०] ।

परिव्यक्त—वि० [सं०] खूब स्पष्ट या प्रकट । सम्यक् रूप से प्रकाशित ।

परिव्यय—सञ्ज्ञा पु० [सं०] खर्च । संपूर्ण व्यय ।

परिव्याध—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १ चारों ओर से घेरेने या छेदनेवाला । २ जलवेत । ३ कनेर । द्रुमोत्पल । ४. एक ऋषि का नाम ।

परिव्याप्त—वि० [सं०] छाया हुआ । चतुर्दिक् फैला हुआ ।

परिव्रज्या—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] १ इधर उधर भ्रमण । २. तपस्या । ३ भिक्षु की भाँति जीवन बिताना । लोहे की चूड़ी आदि धारण करना और सदा भ्रमण करते रहना । भिक्षु वृत्ति से जीवन निर्वाह ।

परिव्राज—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १ वह सन्यासी जो सदा भ्रमण करता रहे । २ सन्यासी । यती । परमहंस ।

परिव्राजक—सञ्ज्ञा पु० [सं०] दे० 'परिव्राज' ।

परिव्राजी—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] गोरखमुंडी । मुंडी ।

परिव्राट—सञ्ज्ञा पु० [सं० परिव्राज्] परिव्राज । परिव्राजक ।

परिशकी—वि० [सं० परिशक्चिन्] आशंका या भय करनेवाला । आशंकी [को०] ।

परिशाश्वत—वि० [सं०] सर्वदा एक ही रूप का । सदा एक समान रहनेवाला [को०] ।

परिशिष्ट^१—वि० [सं०] बचा हुआ । छूटा हुआ । अवशिष्ट । समाप्त ।

परिशिष्ट^२—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १ किसी पुस्तक या लेख का वह भाग जिसमें वे बातें दी गई हों जो किसी कारण यथास्थान नहीं जा सकी हों और जिनके पुस्तक में न माने से वह अपूर्ण रह जाती हो । पुस्तक या लेख का वह अंश जिसमें ऐसी बातें लिखी गई हो जो यथास्थान देने से छूट गई हो और जिनके देने से पुस्तक के विषय की पूर्ति होती हो । जैसे, छांदोग्य-परिशिष्ट, गृह्यपरिशिष्ट आदि । उ०—कुछ अन्य निबध भी हैं जो कल्पसूत्रों के सहायक अथवा पूरक कहे जाते हैं । इन निबधों को 'परिशिष्ट' कहते हैं ।—आधुनिक०, पु० ६७ । २ किसी पुस्तक के अंत में जोड़ा हुआ वह लेख जिसमें ऐसे अंक,

व्याख्याएँ, कथाएँ, हवाले अथवा अन्य कोई बात दी गई हो जिससे पुस्तक का विषय समझने में सहायता मिलती हो किसी पुस्तक का वह अतिरिक्त अंश जिसमें कुछ ऐसी बातें दी गई हो जिनसे उसकी उपयोगिता या महत्व बढ़ता हो। जमीमा।

परिशीलन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिशीलित] १ विषय को खूब सोचते हुए पढ़ना। सब बातों या अंगों को सोच समझकर पढ़ना। मननपूर्वक अध्ययन। २ स्पर्श। लग जाना या छू जाना।

परिशीलित—वि० [सं०] परिशीलन किया हुआ। जिसका परिशीलन किया गया हो [कौ०]।

परिशुद्ध—वि० [सं०] १. पूर्णतः शुद्ध। विशुद्ध। निर्मल। निर्दोष। २.—इस प्रकार अपने जीवन को परिशुद्ध बनाकर उसने जनता के जीवन में से हिंसा के दोष को मिटाने का निश्चय किया।—सपूर्णां अभि० अ०, पु० २५। २ मुक्त। छुटा हुआ। बरी किया हुआ (कौ०)। ३ जो चुका दिया गया हो। चुकता किया हुआ (कौ०)।

परिशुद्धि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पूर्ण शुद्धि। सम्यक् शुद्धि। २ छुटकारा। रिहाई।

परिशुष्क^१—वि० [मं०] १. बिलकुल सूखा हुआ। २ अत्यंत रसहीन।

परिशुष्क^२—सञ्ज्ञा पुं० तला हुआ मास।

परिशून्य—वि० [सं०] एकदम शून्य। रिक्त [कौ०]।

परिश्रुत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जोश। उत्साह। उमग [कौ०]।

परिशेष^१—वि० [सं०] बाकी बचा हुआ। अवशिष्ट।

परिशेष^२—सञ्ज्ञा पुं० १. जो कुछ बच रहा हो। बच रहनेवाला। २. परिशिष्ट। ३ समाप्ति। अंत।

परिशेषण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जो बाकी बच रहा हो।

परिशोध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पूर्ण शुद्धि। पूरी सफाई। २ ऋण की वेवकी। चुकता। ऋणशुद्धि।

परिशोधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिशुद्ध, परिशोधनीय, परिशोधित] १ पूरी तरह साफ या शुद्ध करना। पूर्ण रीति से शुद्धि करना। अंग प्रत्यंग की सफाई करना। सर्वतोभाव से शोधन। २ ऋण का दाम दे डालना। कर्ज की वेवकी। चुकता।

परिशोभमान—वि० [सं० परि+शोभायमान] चारों ओर से सुशोभित होनेवाला। ३.—पुष्पो से परिशोभमान बहुधा जो वृक्ष अकस्थ थे, वे उद्धोषित थे सदर्प करते उत्फुल्लता मेरु की।—प्रिय०, पु० ६८।

परिशोष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शुष्क हो जाना। सूखने की क्रिया या भाव [कौ०]।

परिश्रम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ उद्यम। आयास। श्रम। क्लेश। मेहनत। मशक्कत। २ थकावट। श्रांति। मांदगी।

परिश्रमी—वि० [सं० परिश्रमिन्] जो बहुत श्रम करे। उद्यमी। श्रमशील। मेहनती।

परिश्रय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. आश्रय। रक्षा का स्थान। पनाह की जगह। २ सभा। परिपद।

परिश्रयण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] घेरना। परिवेष्टित करना [कौ०]।

परिश्रांत—वि० [सं० परिश्रान्त] थका हुआ। श्रमित। क्लान्तियुक्त। थका माँदा।

परिश्रांति—स्त्री० सञ्ज्ञा [सं० परिश्रान्ति] थकावट। क्लान्ति। माँदगी।

परिश्रित—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ कपड़े की दीवार या चिक आदि का घेरा। कनात। २ यज्ञ में काम आनेवाला पत्थर का एक विशिष्ट टुकड़ा।

परिश्रित^१—वि० [सं०] १ आवेष्टित। घिरा हुआ। २ आश्रय-प्राप्त। आश्रित [कौ०]।

परिश्रित^२—सञ्ज्ञा पुं० १ आश्रय। पनाह। २ आवेष्टित करना। चारों ओर से घेरना [कौ०]।

परिश्रुत—वि० [सं०] जिसके विषय में यथेष्ट सुना या जाना जा चुका हो। विश्रुत। विख्यात। प्रसिद्ध। मशहूर।

परिश्लेष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] आलिंगन। गले मिलना।

परिषत्—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'परिषद्'।

परिषत्त्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] परिषद् का भाव या धर्म।

परिषद्—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] १ प्राचीन काल की विद्वान् ब्राह्मणों की वह सभा जिसे राजा समय समय पर राजनीति, धर्मशास्त्र आदि के किसी विषय पर व्यवस्था देने के लिये आवाहित किया करता था और जिसका निर्णय सर्वमान्य होता था। २. सभा। मजलिस। ३ समूह। समाज। भीड़। ४. विद्याप्राप्ति का केंद्र। ५.—वृहदारण्यक उपनिषद् के परिषदों का उल्लेख है जो विद्यापीठ थे और जिनमें बहुत से छात्र इकट्ठे होते थे।—हिंदु० सभ्यता, पु० १३१।

परिषद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सवारी या जुलूस में चलनेवाले वे अनुचर जो स्वामी को घेरकर चलते हैं। पारिषद्। २. सदस्य सभासद। ३ मुसाहब। दरवारी।

परिषद्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सभासद। सदस्य। २ दशक। प्रेक्षक।

परिषद्वत्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सभासद। सदस्य। परिषद।

परिषिक्त—वि० [सं०] १ जो सीचा गया हो। सिंचित। २ जिसपर छिड़काव किया गया हो।

परिषीचण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ गोठ देना। २ सीना।

परिषेक—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] १ सिंचाई। तर करना। २ छिड़काव। ३ स्नान।

परिषेचक—वि० [सं०] १ सिंचनेवाला। २. छिड़कनेवाला।

परिषेचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिषिक्त] १ तर करना। सिंचना। २ छिड़कना।

परिष्कंद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिष्कन्द] १ वह सतति जिसको उसके माता पिता के अतिरिक्त किसी और ने पाला पोसा हो।

परपोषित सतति । २. सेवक । नौकर (को०) । ३. पार्श्व-
रक्षक (को०) ।

परिष्करण^१—वि० [सं०] परपोषित । जो दूसरे के द्वारा पालित
पोषित हुआ हो [को०] ।

परिष्करण^२—सञ्ज्ञा पुं० दे० 'परिष्कार—१' ।

परिष्करण—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिष्करण' ।

परिष्कर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सजावट । शृंगार [को०] ।

परिष्करण—सञ्ज्ञा पुं० [पुं०] सस्कार । परिष्कार । शुद्धि [को०] ।

परिष्कार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सस्कार । शुद्धि । सफाई । २.
स्वच्छता । निर्मलता । ३. अलकार । आभूषण । गहना ।
जेवर । ४. शोभा । ५. सजावट । वनाव । सिंगार । ६.
सयम (बौद्ध दर्शन) । ७. भोजनादि पकाना । सिद्ध करना
(को०) । ८. उपकरण । सामान (को०) ।

परिष्कारण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह जो पाला पोसा गया हो । २.
दत्तक पुत्र ।

परिष्कृत—वि० [सं०] [वि० स्त्री० परिष्कृता] १ साफ किया हुआ ।
शुद्ध किया हुआ । २. माँजा या घोया हुआ । ३. सँवारा या
सजाया हुआ । ४. सिद्ध किया हुआ । (भोजन) स्वादिष्ट
बनाया हुआ (को०) ।

परिष्कृता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह भूमि जो यज्ञ के लिये शुद्ध की
गई हो [को०] ।

परिष्कृति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] परिष्कार [को०] ।

परिष्क्रिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ शुद्ध करना । शोधन । २. माँजना ।
घोना । ३. सँवारना । सजाना ।

परिष्कृत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भली भाँति प्रशंसा करना । खूब तारीफ
करना । सम्यक् प्रकार से स्तुति करना ।

परिष्तोम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ एक प्रकार का स्तुतियुक्त सामगान ।
२. वह कपडा जिसे हाथी आदि की पीठ पर शोभा के लिये
डाल देते हैं । मूल । परिस्तोम । ३. आच्छादन । आवरण
(को०) । ४. उपधान, गद्दा आदि (को०) ।

परिष्कृत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चारो ओर की भूमि । पार्श्वस्थ
भूमि [को०] ।

परिष्पद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिष्पन्द] स्पदन । हिलना डुलना ।
काँपना । दे० 'परिष्पद' [को०] ।

परिष्पद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिष्पन्द] १ प्रवाह । धारा । २. नदी ।
दरिया । ३. द्वीप । टापू ।

परिष्पदी—वि० [सं० परिष्पन्दिन्] बहता हुआ । जिसका प्रवाह हो ।

परिष्पद्ग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिष्पद्ग] आलिंगन । उ०—ओर-उस
सुनसान में नि सग, खोजने सञ्छाति का परिष्पद्ग ।—साम०,
पृ० ४२ ।

परिष्पद्जन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिष्पद्जन] [वि० परिष्पक्त, परिष्पाय
आदि] आलिंगन । गले मिलना या गले से लगाना । छाती
से लगना या लगाना ।

परिष्पक्त—वि० [सं०] जिमका आलिंगन किया गया हो ।
आलिंगित ।

परिसख्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परिसख्या] १ गणना । गिनती । २.
एक अर्थालंकार जिसमें पूछी या बिना पूछी हुई बात उमी के
सदृश दूसरी बात को व्यंग्य या चाञ्च मे बजित करने के
अभिप्राय से कही जाय । यह कही हुई बात और प्रमाणों से
सिद्ध विख्यात होती है ।

विशेष—परिसख्या प्रलकार दो प्रकार का होता है—प्रश्नपूर्वक
और त्रिना प्रश्न का । उ०—(१) मेव्य कहा ? तट
सुरसंगित, वहा छेय ? हृग्पाद । कान उचित कह धर्म नित
चित तजि मकल विपाद । (प्रश्नपूर्वक) । उ०में 'सेव्य बना
हे' ? आदि प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए हैं उनमें व्यंग्य से
'स्त्री आदि सेव्य नहीं' यह बात भी सूचित होनी है । (२)
इतनी ही स्वारथ बढी लहि नरतनु जग माहि । भक्ति अनन्य
गोविंद पद लखहि चगचर ताहि ।

३. भीमांसा दर्शन मे वह विधान जिसे विहित के अतिरिक्त
अन्य का निषेध हो ।

परिसख्यात—वि० [सं० परिसख्यात] १ जिमकी परिसख्या
अर्थात् गणना हुई हो । २. परिसख्या के योग्य । उल्लेख के
योग्य । गिनती करने लायक [को०] ।

परिस्ख्यान—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिस्ख्यान] १ गिनती । गणना ।
परिसख्या । २. विशेष वस्तु का निर्देश । ३. ठीक अनुमान ।
सही निर्णय [को०] ।

परिसंचर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिसंचर] सृष्टि के प्रलय का काल ।

परिसंचित—वि० [सं० परिसंचित] एकत्र किया हुआ । जिसका
संचय किया गया हो [को०] ।

परिसंतान—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिसन्तान] तार । तंत्री ।

परिसंवाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विचार विमर्श । प्रश्नोत्तर ।

परिसंभ्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सभासद । सदस्य ।

परिसमत—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिसमन्त] किन्नी वृक्ष के चारो ओर
की सीमा ।

परिसमापन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] किसी कार्य या वस्तु का पूर्णतः समाप्त
होना । पूर्ण समाप्ति । परिसमाप्ति [को०] ।

परिसमाप्त—वि० [सं०] विलकुल समाप्त । निश्चेष ।

परिसमाप्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'परिसमापन' ।

परिसम्हन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ तृण आदि को आग मे भोकना ।
२. यज्ञ की अग्नि में समिधा डालना । ३. यज्ञादि मे अग्नि के
चारो ओर जलादि से मार्जन (को०) । ४. एकत्रीकरण ।
इकट्ठा करना (को०) ।

परिसर^१—वि० [सं०] मिला हुआ । जुड़ा या लगा हुआ ।

परिसर^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ किसी स्थान के आस पास की भूमि ।
किसी घर के निकट वा खुला मैदान । प्रांतभूमि । नदी या
पहाड के आस पास की भूमि । २. मृत्पु । ३. विधि । ४.

शिरा या नाड़ी । ५. भ्रवसर । स्थिति । मोका (को०) । ६. एक देवता (को०) । ७. विस्तार । व्यास (को०) ।

परिसरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिसारी, परिसृत] १. चलना । टहलना । पर्यटन । २. पराभव । हार । ३. मृत्यु । मौत ।

परिसर्प—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. किसी के चारों ओर घूमना । परिक्रिया । परिक्रमण । २. टहलना । चलना । घूमना । फिरना । ३. किसी की खोज में जाना । किसी के पीछे उसे ढूँढते हुए जाना । ४. साहित्यक्षपण के अनुसार नाटक में किसी का किसी की खोज में भटकना जब कि खोजी जानेवाली वस्तु के जाने की दिशा या अवस्थिति का स्थान अज्ञात हो, केवल मार्ग के चिह्नो आदि के सहारे उसका अनुमान किया जाय, जैसे शकुंतला नाटक के तीसरे अंक में दुष्यत का शकुंतला की खोज करना और निम्नलिखित दोहों में वर्णित चिह्नो से उसके जाने के रास्ते और ठहरने के स्थान का निश्चय करना । उ०—(क) जिन डारन ने मम प्रिया लुने फूल भर पात । सूख्यो दूध न छन भरघो तिनकों अर्जों लखात । (ख) लिए कमल रज गधि अस कर मालिनी तरंग । आय पवन लागत भली मदन देत मम अंग । (ग) दीखत पहर रेत मे नए खोज या द्वार । आगे उठि, पाछे घसकि रहे नितवन भार ।—शकुंतला नाटक ५ एक प्रकार का साँप । ६. घेरना । आवेष्टित करना (को०) ७. सुश्रुत के अनुसार ११ क्षुद्र कुण्डों में से एक । इसमें छोटी छोटी फुसियाँ निकलती हैं जो फूटकर फैलती जाती हैं । फुसियों से पछा या पीव भी निकलता है ।

परिसर्पण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. चलना । टहलना । घूमना । २. रेंगना । ३. इधर उधर आना जाना । आवागमन । इतस्तत चक्रमण (को०) ।

परिसर्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. टहलना । भ्रमण करना । २. एक रोग (को०) ।

परिसांतवन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिसान्वन] ढाढस बँधाना । तसल्ली देवा (को०) ।

परिसाम—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिसामन्] एक विशेष साम ।

परिसार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] घूमना । परिसरण करना (को०) ।

परिसारक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चलनेवाला । घूमनेवाला । भटकनेवाला ।

परिसारी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिसारिन्] दे० 'परिसारक' ।

परिसिद्धिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वैद्यक में एक प्रकार की चावल की लपसी ।

परिसीमा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. चारों ओर की सीमा । चौहद्दी । चतुःसीमा । २. सीमा । हद्द । काण्डा । अवधि । उ०—तुम मेरी परिसीमा, तुम मम, दिक् काल रूप, तुम ही घर आए हो यह जग जजाल रूप ।—धवासि, पृ० ६१ ।

परिसूना—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बूछडखाने के बाहर मारा हुआ पशु (कौटि०) ।

परिसृप्त—वि० [सं०] लडाई से भागा हुआ (सैनिक) ।

परिसेवना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] विशेष रूप से की गई सेवा (को०) ।

परिस्कंद—वि० [सं०] दूसरे के द्वारा पालित (व्यक्ति) । जिसका पालन पोषण उसके माता पिता के अतिरिक्त किसी और ने किया हो । परपुष्ट ।

परिस्कंध—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिस्कन्ध] राशि । समूह (को०) ।

परिस्कन्न—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिष्करण' ।

परिस्तर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिस्तरण' (को०) ।

परिस्तरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. छितराना । फेंकना या डालना । (जैसे, आग पर फूस का) । फैलाना । तानना । ३. लपेटना । आवरण करना ।

परिस्तान—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] १. वह कल्पित लोक या स्थान जहाँ परियाँ रहती हों । परियों का लोक । वह स्थान जहाँ सुंदर मनुष्यों विशेषत स्त्रियों का जमघटा हो । सौंदर्य का अखाड़ा ।

विशेष—यह शब्द 'परी' और 'स्तान' शब्दों का समास है । ये दोनों ही शब्द फारसी के हैं तथापि 'परिस्तान' शब्द फारसी किताबों में नहीं मिलता । अतएव यह समास उर्दू वालों का ही रचा जान पड़ता है । अर्थात् यह शब्द फारस में नहीं किन्तु भारत में बना है ।

परिस्तीर्ण—वि० [सं०] १. बिखराया हुआ । फैलाया हुआ । २. आवरित । आच्छादित (को०) ।

परिस्त्वत्—वि० [सं०] दे० 'परिस्तीर्ण' (को०) ।

परिस्वोम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हाथी आदि की पीठ पर डाला जानेवाला चित्रित वस्त्र । झूल । २. यज्ञ में प्रयुक्त एक पात्र (को०) ।

परिस्थान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. आलय । ग्रह । वेषम । २. दृढ़ता । स्थिरता । ३. ठोसपन । मजबूती (को०) ।

परिस्थिति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] स्थिति । अवस्था । हालत ।

परिस्पद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिस्पन्द] कर्पण का भाव । कर्प । कर्प-कर्पी । बहुत जल्दी जल्दी हिलना । २. दबाना । मर्दन । ३. सजाव । सिंगार (को०) । ४. परिजन । परिवार । (को०) । ५. सेवक । अनुगामी । अनुचर वर्ग (को०) । ६. पुष्पादि द्वारा केश का शृंगार (को०) ।

परिस्पंदन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिस्पन्दन] १. बहुत अधिक हिलना । खूब कर्पण । सम्यक् कर्पण । २. कर्पण । कर्पण ।

परिस्पर्द्धा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] घन, बल, यश आदि में किसी के बराबर होने की इच्छा । प्रतिस्पर्धा । प्रतियोगिता । मुकाबिला । लागडाट ।

परिस्पर्द्धी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिस्पर्द्धिन्] परिस्पर्धा करनेवाला । प्रतियोगिता करनेवाला । मुकाबला या लागडाट करनेवाला ।

परिस्पर्धा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'परिस्पर्द्धा' ।

परिस्पर्धी—वि० [सं० परिस्पर्द्धिन्] दे० 'परिस्पर्द्धी' ।

परिस्फुट—वि० [सं०] १. भली भाँति व्यक्त । सम्यक् प्रकार से प्रकाशित । विलकुल प्रकट या खुला हुआ । २. व्यक्त । प्रका-

शित । प्रकट । ३ खूब खिला हुआ । सम्यक् रूप से विकसित । ४ विकसित । खिला हुआ ।

परिस्फुरण—सज्ञा पुं० [सं०] १ कपना । हिलना । कपन । २ कलिकायुक्त होना । ३ सूझ जाना । मन में एक व एक आना । चमकना [को०] ।

परिस्फूर्ति—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ स्पष्टता । २ चमक [को०] ।

परिस्मापन—सज्ञा पुं० [सं०] आश्चर्य, विस्मय या कुतूहल उत्पन्न करना ।

परिस्थंद—सज्ञा पुं० [सं० परिस्थंद] झरना । क्षरण । जैसे, हाथी के मस्तक से मद का परिस्पद ।

परिस्त्रव—सज्ञा पुं० [सं०] १ टपकना । चूना या रसना । २ घीरे घीरे बहना । मद प्रवाह । झिरझिराकर बहना या झिरझिरा बहाव । मथर प्रवाह । ३ गर्भ का बाहर आना । बच्चा पैदा होना । जैसे, गर्भ परिस्त्रव [को०] ।

परिस्त्राव—सज्ञा पुं० [सं०] १ सुश्रुत के अनुसार एक रोग जिसमें गुदा से पित्त और कफ मिला हुआ पतला मल निकलता रहता है ।

विशेष—कड़े कोठेवाले को मृदु विरेचन देने से जब उभरा हुआ सारा दोष शरीर के बाहर नहीं हो सकता तब वही दोष उपयुक्त रीति से निकलने लगता है । दस्त में कुछ कुछ मरोड़ भी होता है । इससे अरुचि और सब भगो में थकावट होती है । कहते हैं, यह रोग वैद्य अथवा रोगी की अज्ञता के कारण होता है ।

२ चूना । टपकना या बहना ।

परिस्त्रावण—सज्ञा पुं० [सं०] वह बरतन जिसमें से साफ करने के लिये पानी टपकाया जाय । वह बरतन जिससे पानी टपकाकर साफ किया जाय ।

परिस्त्रावी^१—वि० [सं० परिस्त्राविन्] १ चूने, रसने या टपकनेवाला । क्षरणशील । बहनेवाला । स्रावशील ।

परिस्त्रावी^२—सज्ञा पुं० एक प्रकार का भगदर, जिसमें फोड़े से हर समय गाढ़ा मवाद बहता रहता है ।

विशेष—कहते हैं, यह कफ के प्रकोप से होता है । फोड़ा कुछ कुछ सफेद और बहुत कड़ा होता है । इसमें पीडा बहुत नहीं होती । दे० 'भगदर' ।

परिस्त्रुत्^१—वि० [सं०] जिससे कुछ टपक या चू रहा हो । स्रावयुक्त ।

परिस्त्रुत्^२—सज्ञा स्त्री० मदिरा । मद्य । शराव । (वैदिक) ।

परिस्त्रुत्^३—वि० [सं०] १ जो चू या टपक रहा हो । स्रावयुक्त । २ टपकाया हुआ । निचोड़ा हुआ । जिसमें से जल का अश्रु अलग कर लिया गया हो ।

परिस्त्रुत्^४—सज्ञा पुं० फूलों का सार । पुष्पसार । इत्र (वैदिक) ।

परिस्त्रुत् दधि—सज्ञा पुं० [सं०] ऐसा दही जिसका पानी निचोड़ लिया गया हो । निचोड़ा हुआ दही । वैद्यक में ऐसे दही को वातपित्तनाशक, कफकारी और पोषक लिखा है ।

परिस्त्रुत्^५—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ मद्य । शराव । २ अंगूरी शराव । द्राक्षामद्य ।

परिस्त्र्वंजन—सज्ञा पुं० [सं० परिस्त्र्वञ्जन] श्रांतिगन । परिष्वग [को०] ।

परिहंस^१—सज्ञा पुं० [सं० परिहास] ईर्ष्या । डाह । उ०—(क) परिहंस पिश्रु भए तेहि घसा । लिए डक लोगन्ह जहें डंसा । —जायसी ग्र०, पृ० ४७ । (ख) परिहंस मरसि कि कौनउ लाजा । आपन जीउ देसि केहि काजा । —जायसी ग्र०, पृ० १८१ ।

परिहण^१—सज्ञा पुं० [सं० परिधान, प्रा० परिहाण, देगी परिहण] वस्त्र । पहनावा । पोशाक ।

परिहत^१—सज्ञा स्त्री० [सं० मि० (वैदिक) पराहत (= छुटा हुआ)] १ हल के अंतिम और मुख्य भाग की वह मीठी खड़ी लकड़ी जिसमें ऊपर की ओर मुठिया होती है और नीचे की ओर हरिम तथा तरेली या चौभी टुंकी रहती है । नगरा । २ वह नगरा जिसमें तरेली की लकड़ी अलग से नहीं लगानी पड़ती किंतु जिमका निचला भाग स्वयं ही इस प्रकार टेढ़ा होता है कि उसी को नोकदार बनाकर उसमें फाल ठोक दिया जाता है ।

परिहत^२—वि० [सं०] १ मृत । मुग्दा । नष्ट । मरा हुआ । २ शिथिल । अस्तव्यस्त । ढीला ढाला । उ०—कौन कौन तुम परिहतवमना म्लानमना, भूपतिता सी, । —पल्लव, पृ० ६६ ।

परिहरण—सज्ञा पुं० [सं०] [वि० परिहरणीय, परिहर्तव्य, परिहृत] १ किसी के बिना पूछे अपने अधिकार में कर लेना । खबर-दस्ती ले लेना । छीन लेना । २ त्याग । परित्याग । छोड़ना । तजना । ३ दोष अनिष्टादि का उपचार या सपाप करना । किसी प्रकार के ऐव, खराबी या बुराई को दूर करना, छुड़ाना या हटाना । निवारण । निराकरण ।

परिहरणीय—वि० [सं०] १ हरण के योग्य । छीन लेने योग्य । हरणीय । २ त्याग के योग्य । त्याज्य । छोड़ या तज देने योग्य । ३ उपचारयोग्य । निवार्य । हटाने योग्य या दूर करने योग्य ।

परिहरना^१—क्रि० सं० [सं० परिहरण] १ त्यागना । छोड़ना । तज देना । उ०—(क) विद्युरन दीनदयाल, प्रिय तनु वृन इव परिहरेउ ।—तुलसी (शब्द०) (ख) परिहरि सोच रही तुम सोई । विनु ओपधिहि व्याधि विधि खोई ।—तुलसी (शब्द०) २ छीन लेना । ३ नष्ट करना । उ०—का करिकें तुव सैन सनु को बल परिहरई ?—भारतेंदु ग्र०, भा०, २, पृ० ६२३ ।

परिहस^१—सज्ञा पुं० [सं० परिहास] १ परिहास । हँसी दिल्ली । मसखरी । २ रज । खेद । दुःख । उ०—कठ धचन न बोजि आवै, हृदय परिहस भीन । नैन जल भरि रोइ दीन्हो, असित आपद दीन ।—सूर (शब्द०) ।

परिहसित—वि० [सं०] जिसका परिहास किया गया हो [को०] ।

परिहस्त—सज्ञा पुं० [सं०] अंगूठी । मुद्रिका । मुँदरी [को०] ।

परिहा—सञ्ज्ञा पुं० [?] एक प्रकार का छद। जैसे,—सुनत दूत के बचन चतुर चित में हँसे। लेहिताक्ष हँ करन वात में हम फँसे। बल ते सवै उपाय और तव कीजिए। नहि दैहों भेंट कुठार प्राण को लीजिए।—हनुमन्नाटक (शब्द०)।

परिहाण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हानि। नुकसान [को०]।

परिहाणि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ घाटा। हानि। २ ह्रास। भ्रव-नति। ३ परित्याग। उपेक्षा [को०]।

परिहानि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'परिहाणि' [को०]।

परिहार^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १। दोष, अनिष्ट, खराबी आदि का निवारण या निराकरण। दोषादि के दूर करने या छुड़ाने का कार्य। २। दोषादि के दूर करने की युक्ति या उपाय। इलाज। उपचार। ३। त्याग। परित्याग। तजने या त्यागने का कार्य। ४। गाँव के चारो ओर परती छोड़ी हुई वह भूमि जिसमें प्रत्येक ग्रामवासी को अपना पशु चराने का अधिकार होता था और जिसमें खेती करने की मनाही होती थी। पशुओं को चरने के लिये परती छोड़ी हुई सार्वजनिक भूमि। चरहा। ५। लडाई में जीता हुआ घनादि। शत्रु से छीन ली हुई वस्तुएँ। विजित द्रव्य। ६। कर या लगान की माफी। छूट। ७। खडन। तरदीद। ८। नाटक में किसी अनुचित या अविधेय कर्म का प्रायश्चित्त करना (साहित्यदर्पण)। ९। अवज्ञा। तिरस्कार। १०। उपेक्षा। ११। मनु के अनुसार एक स्थान का नाम।

परिहार^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] राजपूतो का एक वंश जो अग्निकुल के अतर्गत माना जाता है।

विशेष—इस वंश के राजपूतो द्वारा कोई बड़ा राज्य हस्तगत या स्थापित किए जाने का प्रमाण अबतक नहीं मिला है, तथापि छोटे छोटे अनेक राज्यों पर इनका आधिपत्य रह चुका है। २४६ ई० में कालिंजर का राज्य इसी वंशवालों के हाथ में था जिसको कलचुरि वंश के किसी राज्य ने जीतकर छीन लिया। सन् ११२६ से १२११ तक इस वंश के ७ राजाओं ने ग्वालियर पर राज्य किया था। कर्नल टाड ने अपने राजस्थान के इतिहास में जोधपुर के समीपवर्ती मदारव (मद्रोद्री) स्थान के विषय में वहाँ मिले हुए चिह्नो आदि के आधार पर निश्चित किया है कि वह किसी समय इस वंश के राजाओं की राजधानी था। आजकल इस वंश के राजपूत अधिकतर बुंदेलखंड, अवध आदि प्रदेशों में बसे हैं और उनमें अनेक बड़े जमींदार हैं।

परिहार^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रहार] दे० 'प्रहार'। उ०—वचन बान सम श्रवन सुनि सहत कौन रिंस त्यागि। सूरज पद परिहार तै पाहन उगलत आगि।—भ्रज० ग्र०, पृ० ८३।

परिहारक—वि० [सं०] परिहार करनेवाला।

परिहारक ग्राम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] राजकर से मुक्त ग्राम। मुआफी गाँव। लाखिराज गाँव।

विशेष—कौटिल्य ने कहा है कि समाहर्ता के खेवट में ग्रामो या भूमि का जो वर्गीकरण है, उसमें परिहारक भी है।

परिहारना^४—क्रि० सं० [सं० प्रहार, हिं० परहार, परिहार + ना (प्रत्य०)] (शस्त्र आदि) प्रहार करना। चलाना। उ०—पारथ देखि बाण परिहारा। पंख काटि पावक मँह डारा।—सबल० (शब्द०)।

परिहारी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिहारिन्] १ परिहरण करनेवाला। हरणकारी। २ निवारण, त्याग, दोषक्षालन, हरण या गोपन करनेवाला।

परिहार्य—वि० [सं०] १ जिसका परिहार किया जा सके। जिससे बचा जा सके। जिसका त्याग किया जा सके। जो दूर किया जा सके। २ परिहार योग्य। जिसका निवारण, त्याग या उपचार करना उचित हो।

परिहास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. हँसी। दिल्लगी। मजाक। ठट्टा। उ०—क्या आप उसका परिहास करते हैं? किसी बड़े के विषय में ऐसी शका ही उसकी निंदा है।—भारतेंदु ग्र०, भा० १, पृ० २६६। २. मीड़ा। खेल।

परिहासकथा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] हास्ययुक्त कहानी। परिहासयुक्त कथा [को०]।

परिहासपेसणी—वि० [सं० परिहास+पेशल] परिहासकुशल। हास परिहास में दक्ष। उ०—विभ्रक्खणी परिहासपेसणी सुदरी सार्थं जवे देखिअ तवे मन कर तेसरा लागि तीनु उपेक्खिअ।—कीर्त्ति०, ४।

परिहासवेदी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिहासवेदिन्] मजाकिया। मसखरा [को०]।

परिहासशील—वि० [सं०] मजाकिया। हँसी दिल्लगी करनेवाला। परिहास से भरा हुआ। उ०—कैसा वह तेरा व्यंग्य परिहासशील था।—लहर, पृ० ७४।

परिहास्य—वि० [सं०] परिहास योग्य।

परिहित—वि० [सं०] १ चारो ओर से छिपाया हुआ। ढंका हुआ। आवृन्ध। आच्छादित। २ पहना हुआ (वस्त्र)। ऊपर डाला हुआ (कपडा)।

परिहीण—वि० [सं०] १ अत्यंत हीन। सब प्रकार से हीन। दीन हीन। दुखी और दरिद्र। फटेहालवाला। २ हीन। रहित [को०]। ३ त्यागा हुआ। फेंका, ढकेला या निकाला हुआ। परित्यक्त।

परिहृत—वि० [सं०] १ पतित। भ्रष्ट। गिरा हुआ। भ्रवन्त। पामाल। २ नष्ट। ध्वस्त। तबाह। वरवाद। ३ जिसका परिहरण किया गया हो [को०]।

परिहृति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ नाश। क्षय। ध्वंस। मिटना। जवाल। २ त्याग देना। छोड़ना [को०]।

परीन्दन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परीन्दन] १ प्रसादन। आराधना। तोपण। २ भेंट, उपहार आदि देना [को०]।

परी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] १. फारसी की प्राचीन कथाओं के अनुसार कोहकाफ पहाड़ पर बसनेवाली कल्पित स्त्रियाँ जो अंग्रेज नाम की कल्पित सृष्टि के अतर्गत मानी गई हैं। उ०—हेरि हिंडोरे

गगन तै, परी परी सी दृष्टि । वरी घाय पिय बीच ही, करी खरी रस लृष्टि ।—विहारी (शब्द०) ।

विशेष—इनका सारा शरीर तो मानव स्त्री का सा ही माना गया है पर विलक्षणता यह बताई गई है कि इनके दोनों कंधों पर पर होते हैं जिनके सहारे ये गगनपथ में विचरती फिरती हैं । इनकी सु दरता, फारसी, उर्दू साहित्य में आदर्श मानी गई है, केवल बहिष्तवासिनी हूरो को ही सौंदर्य की तुलना में इनसे ऊँचा स्थान दिया गया है । फारसी, उर्दू की कविता में ये सुंदर रमणियों का उपमान बनाई गई हैं ।

यौ०—परीजमाल । परीजाद । परीपैकर । परीवद । परीरू = परी की तरह । अत्यंत सु दर ।

२ परी सी सु दर स्त्री । परम सु दरी । अत्यंत रूपवती । निहायत खूबसूरत औरत । जैसे,—उसकी सु दरता का क्या कहना, खासी परी है ।

परी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पल्लि, हि० पल्ली] दे० 'पली' ।

परीक्षक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० परीक्षिका] परीक्षा करने या लेनेवाला । आजमाइश, जाँच या समीक्षा करनेवाला । इस्तहान करने या लेनेवाला । परखने या जाँचनेवाला ।

परीक्षण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० परीक्षित, परीक्ष्य] परीक्षा की क्रिया या कार्य । देख भाल, जाँच, पड़ताल आजमाइश या इस्तहान लेने की क्रिया या कार्य । निरीक्षण, समीक्षण अथवा आलोचना ।

परीक्षणा—क्रि० सं० [सं० परीक्षण] परीक्षा करना । परीक्षा लेना ।

परीक्षा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ किसी के गुण दोष आदि जानने के लिये उसे अच्छी तरह से देखने भालने का कार्य । निरीक्षा । समीक्षा । समालोचना । २ वह कार्य जिससे किसी की योग्यता, सामर्थ्य आदि जाने जायें । इस्तहान ।

क्रि० प्र०—करना ।—देना ।—लेना ।

३ वह कार्य जो किसी वस्तु के सबंध में कोई विशेष बात निश्चित करने के लिये किया जाय । आजमाइश । अनुभवार्थ प्रयोग । ४ मुआयना । निरीक्षण । जाँच पड़ताल । ५ किसी वस्तु के जो लक्षण माने या जो गुण कहे गए हों उनके ठीक होने न होने का प्रमाण द्वारा निश्चय करने का कार्य । ६ वह विधान जिससे प्राचीन न्यायालय किसी विशेष अभियुक्त के अपराधी या निरपराध अथवा विशेष साक्षी के सच्चे या झूठे होने का निश्चय करते थे ।

विशेष—अभियुक्त की परीक्षा को दिव्य और साक्षी की परीक्षा को लौकिक परीक्षा कहते थे । दिव्य परीक्षाएँ कुल नौ प्रकार की होती थी । दे० 'दिव्य' । इनमें से अभियुक्त को उसकी अवस्था, ऋतु आदि के अनुसार कोई एक देनी होती थी । लौकिक परीक्षा में गवाह से कई प्रकार के प्रश्न किए जाते थे ।

रोक्षार्थ—अन्य० [सं०] परीक्षा के निमित्त । परीक्षा के लिये [को०]

परीक्षार्थी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परीक्षार्थिन्] १ परीक्षा देनेवाला । २ विद्यार्थी । परीक्षा देने के लिये विद्याध्ययन करनेवाला छात्र [को०] ।

परीक्षित^१—वि० [सं०] १ जिसकी जाँच की गई हो । जिसका इस्तहान लिया गया हो । कसा, तपाया हुआ । २ जिसकी आजमाइश की गई हो । प्रयोग द्वारा जिसकी जाँच की गई हो । ममीक्षित । समालोचित । जिसके गुण आदि का अनुभव किया गया हो । जैसे, परीक्षित श्रौषध ।

परीक्षित^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परीक्षित] १ भ्रजुंन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र पांडुकुल के एक प्रसिद्ध राजा ।

विशेष—इनकी कथा अनेक पुराणों में है । महाभारत में इनके विषय में लिखा है कि जिस समय ये अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में थे, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने गर्भ में ही इनकी हत्या कर पांडुकुल का नाश करने के अभिप्राय से ऐषीक नाम के अस्र को उत्तरा के गर्भ में प्रेरित किया जिसका फल यह हुआ कि उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का मुलसा हुआ मृत पिंड बाहर निकला । भगवान् कृष्णचंद्र को पांडुकुल का नामशेष हो जाना मजूर न था, इसलिये उन्होंने अपने योगबल से मृत भ्रूण को जीवित कर दिया । परिक्षीण या विनष्ट होने से बचाए जाने के कारण इस बालक का नाम परीक्षित रखा गया । परीक्षित ने महामारत युद्ध में कुरुदल के प्रसिद्ध महारथी कृपाचार्य से अस्त्रविद्या सीखी थी । युधिष्ठिरादि पांडव सप्ताह से भली भाँति उदासीन हो चुके थे और तपस्या के अभिलाषी थे । अत वे शीघ्र ही उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर विठा द्रोपदी समेत तपस्या करने चले गए । राज्यप्राप्ति के अनंतर कहते हैं कि गगातट पर उन्होंने तीन अश्वमेध यज्ञ किए जिनमें अतिम बार देवताओं ने प्रत्यक्ष आकर बलि ग्रहण किया था ।

इनके विषय में सबसे मुख्य बात यह है कि इन्हीं के राज्यकाल में द्वारका का अत और कलियुग का आरंभ होना माना जाता है । इस सबंध में भागवत में यह कथा है—एक दिन राजा परीक्षित ने सुना कि कलियुग उनके राज्य में घुस आया है और अधिकार जमाने का मौका ढूँढ रहा है । ये उसे अपने राज्य से निकाल बाहर करने के लिये ढूँढने निकले । एक दिन इन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल अपना और कातर भाव से खड़े हैं और एक शूद्र जिसका वेष, भूषण और ठाट बाट राजा के समान था, डंडे से उनको मार रहा है । बैल के केवल एक पैर था, पूछने पर परीक्षित को बैल, गाय और राजवेषधारी शूद्र तीनों ने अपना अपना परिचय दिया । गाय पृथ्वी थी, बैल धर्म था और शूद्र कलिराज । धर्मरूपी बैल के सत्य, तप और दयारूपी तीन पैर कलियुग ने मारकर तोड़ डाले थे, केवल एक पैर दान के सहारे वह भाग रहा था, उसको भी तोड़ डालने के लिये कलियुग बराबर उसका पीछा कर रहा था । यह वृत्तान्त जानकर परीक्षित को कलियुग पर बड़ा क्रोध हुआ और वे उसको मार डालने को उद्यत

हुए। पीछे उनके मिटगिठाने पर उन्हें उसपर दया आ गई और उन्होंने उसके रहने के लिये ये स्थान बता दिए—जूआ, खी, मध, हिंसा और सोना। इन पाँच स्थानों को छोड़कर अन्यत्र न रहने की कलि ने प्रतिज्ञा की। राजा ने पाँच स्थानों के साथ साथ ये पाँच वस्तुएँ भी उसे दे डाली—मिथ्या, मद, काम, हिंसा और वैर।

इस घटना के कुछ समय बाद महाराज परीक्षित एक दिन घामेट करने निकले। कलियुग बराबर इस ताक में था कि किसी प्रकार परीक्षित का खटका मिटाकर एकटक राज करें। राजा के मुकूट में सोना था ही, कलियुग उसमें घुस गया। राजा ने एक हिरन के पीछे घोड़ा डाला। बहुत दूर तक पीछा करने पर भी वह न मिला। थकावट के कारण उन्हें प्यास लग गई थी। एक वृद्ध मुनि मार्ग में मिले। राजा ने उनसे पूछा कि बताओ, हिरन किधर गया है। मुनि मौनी थे, इसलिये राजा की जिज्ञासा का कुछ उत्तर न दे सके। थके और प्यासे परीक्षित को मुनि के इस व्यवहार से बड़ा क्रोध हुआ। कलियुग सिर पर सवार था ही, परीक्षित ने निश्चय कर लिया कि मुनि ने घमड़ के मारे हमारी बात का जवाब नहीं दिया है और इस अपराध का उन्हें कुछ दंड होना चाहिए। पास ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा ने क्रमान की नोक से उसे उठाकर मुनि के गले में डाल दिया और अपनी राह ली। मुनि के श्रुगी नाम का एक महातेजस्वी पुत्र था। वह किसी काम से बाहर गया था। लौटते समय रास्ते में उसने सुना कि कोई आदमी उसके पिता के गले में मृत सर्प की माला पहना गया है। कोपशील श्रुगी ने पिता के इस अपमान की बात सुनते ही हाथ में जल लेकर शाप दिया कि जिस पापात्मा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प की माला पहनाया है, आज से सात दिन के भीतर तक्षक नाम का सर्प उसे डस ले। आश्रम में पहुँचकर श्रुगी ने पिता से अपमान करनेवाले को उपर्युक्त उग्र शाप देने की बात कही। ऋषि को पुत्र के अविवेक पर दुःख हुआ और उन्होंने एक शिष्य द्वारा परीक्षित को शाप का समाचार कहला भेजा जिसमें वे सतर्क रहे।

परीक्षित ने ऋषि के शाप को झटल समझकर अपने लड़के जनमेजय को राज पर बिठा दिया और सब प्रकार मरने के लिये तैयार होकर अनशन ग्रह करते हुए श्रीशुकदेव जी से श्रीमद् भागवत की पद्या सुनी। सातवें दिन तक्षक ने आकर उन्हें डस लिया और विष की भयंकर ज्वाला से उनका शरीर भस्म हो गया। वहुते हैं, तक्षक जब परीक्षित को डसने चला तब मार्ग में उसे कश्यप ऋषि मिले। पूछने पर मानुष हुमा कि ये उसके विष से परीक्षित की रक्षा करने जा रहे हैं। तक्षक ने एक पृक्ष पर दंत मारा, वह तत्प्राप्त जलकर भस्म हो गया। कश्यप ने अपनी बिद्या से फिर उसे हरा कर दिया। इसपर तक्षक ने बहुत सा पन देकर उन्हें लौटा दिया।

देवी भागवत में लिखा है, शाप का समाचार पाकर परीक्षित ने तक्षक से अपनी रक्षा करने के लिये एक सप्त मंडिष उँवा

मवान बनवाया और उसके चारों ओर अच्छे अच्छे गर्प-मंत्र-ज्ञाता और मुहरा रगनेवालों को तैनात कर दिया। तक्षक को जब यह मानुष हुमा नब वह पवगया। मन की परीक्षित तक पहुँचने का उसे एक उपाय सूझ पड़ा। उसने एक भपने सजातीय सर्प को तपस्वी का रूप देकर उसके हाथ में कुछ फल दे दिए और एक फल में एक प्रति छोटे कीड़े का रूप धरकर घ्राप जा बैठा। तपस्वी बना हुआ गर्प तक्षक के आदेश के अनुसार परीक्षित के उपर्युक्त सुरक्षित प्रामाद तक पहुँचा। पहरेदारों ने इसे अदर जाने में रोका, पर राजा को खबर होने पर उन्होंने उसे अपने पास बुनवा लिया और फल लेकर उसे विदा कर दिया। एक तपस्वी मेरे लिये यह फल दे गया है अतः इसके गाने से भवभय उपकार होगा, यह सोचकर उन्होंने और फल तो मंत्रियों में बाँट दिए, पर उसको अपने खाने के लिये पाटा। उसमें से एक छोटा कीड़ा निकला जिसका रंग तामटा और आँखें काली थीं। परीक्षित ने मंत्रियों ने कहा—सूर्य प्रस्त हो रहा है, भय तक्षक से मुझे कोई भय नहीं। परंतु ब्राह्मण के शाप की मानरक्षा करनी चाहिए। इनलिये इस कीड़े से डसने की विधि पूरी करा लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने उस कीड़े को गले से लगा लिया। परीक्षित के गले से स्पश होते ही वह नन्हा सा कीड़ा भयंकर सर्प हो गया और उसके डगन के साथ परीक्षित का शरीर भस्मसात् हो गया।

परीक्षित की मृत्यु के बाद, कहते हैं, फिर कलियुग की रोक टोक करनेवाला कोई न रहा और वह उमी दिन में एकटक भाव से शासन करने लगा। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिये जनमेजय ने सर्पसत्र किया जिसमें सारे समार के सप्त मंत्रवत् से खिच आए और यज्ञ की अग्नि में उनकी प्राहुति हुई।

२ कन का एक पुत्र। ३ अयोध्या का एक राजा। ४ अनभव का एक पुत्र।

परीक्षितव्य—वि० [सं०] १. परीक्षा करने योग्य। जिसका इमत्तान या आजमाइश या जाँच की जा सके। २ जिसकी परीक्षा करना उचित या कर्तव्य हो।

परीक्ष्य—वि० [सं०] १ जिनकी परीक्षा की जा सके। परीक्षा करने योग्य। २ जिसकी परीक्षा करना उचित या कर्तव्य हो।

परीखाना—क्रि० न० [सं० परीक्षा, प्रा० परिष्कार] परगना। जाँचना। परीक्षा लेना। उ०—रत्न दियाए ना दिने पारति होइ सो परगत। घाति मनोटी दीजिए तनक बंधोरी नीत।—पद्ममायत, पृ० २५६।

परीखाना—सक्र ५० [क्रा० परिष्कार] मंत्रियों के रहने का स्थान। हर्मान लोगो का नामरदान [सं०]।

परीखत—सक्र ५० [सं० परीक्षित] १. 'परीक्षा'। उ०—श्री सुगदेव नही हर्गिनीता। मुनी पनेप्राप्त मध पुत्र मोना।—पोद्दार अभि० प्र०, पृ० ३५२।

परीखान—सक्र ५० [सं० परीखान] जंत्र मंत्र करनेवाला [सं०]।

परीच्छित्त^१—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं० परीक्षित] दे० 'परीक्षित' ।
 परीच्छित्त^२—क्रि० वि० अवश्य ही । निश्चित रूप से । उ०—सकर कोप सो पाप को दास परीच्छित्त जाहिगो जारि कै हीयो ।— तुलसी (शब्द०) ।
 परीच्छित्त^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परीक्षित] दे० 'परीक्षित' ।
 परीक्षम—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० परी+क्षम छम (अनु०) चाँदी का एक गहना जिसे स्त्रियाँ पैर में पहनती हैं ।
 परीक्षा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परीक्षा प्रा० परिच्छा] दे० 'परीक्षा' ।
 उ०—जो तुम्हरे मन अति सवेह । तो किन जाइ परीक्षा तेह ।—मानस, १ । ५२ ।
 परीक्षित^४—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं० परीक्षित] दे० 'परीक्षित' ।
 उ०—परम भागवत रतन रसिक जु परीक्षित राजा । प्रश्न करयो रस पुष्ट करन निज सुख के काजा ।—नद० प्र०, पृ० ६ ।
 परीक्षित^५—क्रि० वि० दे० 'परीच्छित्त^२' ।
 परीजमाल—वि० [फ्रा०] हसीन । खूबसूरत [को०] ।
 परीजाद—वि० [फ्रा० परीजाद] अत्यंत सुंदर । अत्यंत रूपवान् ।
 परीजादी—वि० स्त्री० [फ्रा० परीजादी] परी के समान सुंदरी । परी कन्या सी सुंदरी ।
 परीज्य—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] यज्ञाग । परीयज्ञ ।
 परीणाम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिणाम' [को०] ।
 परीणाय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गाँव के चारो ओर की वह भूमि जो गाँव के सब लोगो की संपत्ति समझी जाती थी (याज्ञवल्क्य स्मृति) ।
 परीणह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ दे० 'परिणह' । २ शिव । ३ दे० 'परीणाय' । ४ चौपड़ की गोट को इधर उधर दाएँ बाएँ चलाना [को०] ।
 परीता^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रेत, परेत] दे० 'प्रेत' । उ०—कीन्हेसि राकस भूत परीता । कीन्हेसि भोकस देव दर्शता ।—जायसी (शब्द०) ।
 परीत^२—वि० [सं०] १ परिवेष्टित । घेरा हुआ । २ व्यतीत । गत । ३ घुमानेवाला । चक्कर देनेवाला । ४ विपरीत । उलटा [को०] ।
 परीताप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिताप' ।
 परीति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] फूलों से बनाया हुआ सुरमा । पुष्पाजन ।
 परीतोष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] परितोष ।
 परीत्त—वि० [सं०] १ सीमावद्ध । मर्यादित । महदूद । २ सकीर्ण । सकुचित । तग ।
 परीदाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिदाह' ।
 परीपैकर—वि० [फ्रा० परी+पैकर (= आकृति)] परी के समान सुंदर । परी की आकृति का । उ०—उस परीपैकर को मत इसान बूझ । शक मे क्यो पढता है ऐ दिल ! जान बूझ ।—कविता कौ०, भा० ४, पृ० २६ ।
 परीघान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिघान' [को०] ।

परीप्सा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पाने की इच्छा । २ जल्दवाजी । शीघ्रता । त्वरा [को०] ।
 परीषद्—सञ्ज्ञा पुं० [फ्रा] १ स्त्रियो का एक गहना जो कलाई पर पहना जाता है । २ वचो के पाँच में पहनाने का एक आभूषण जिसमें घुंघरू होते हैं । ३ कुश्ती का एक पेंच ।
 परीभव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिभव' [को०] ।
 परीभाव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] परिभाव । तिरस्कार ।
 परीमाण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिमाण' [को०] ।
 परीरभ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परीरम्भ] दे० 'परिरंभ' ।
 परीर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] फल [को०] ।
 परीरणा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वस्त्र । परिधान । कपडा । २. कच्छप । कछुआ । ३ छडी । डडा [को०] ।
 परीरू—वि० [फ्रा० परी+रू (= मुख)] अति सुंदर । बहुत रूपवान् । खूबसूरत । उ०—मत तमव्युर करो मुझ दिल को कि हरजाई है । चमन हुस्ने परीरू का तमाशाई है ।—कविता कौ०, भा० ४, पृ० ६ ।
 परीवर्त्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिवर्त्त' ।
 परीवाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिवाद' ।
 परीवाप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिवाप' [को०] ।
 परीवार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ खड्गकोप । म्यान । २ परिवार । परिजन । ३ छत्र, चेंबर आदि सामग्री ।
 परीवाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिवाह' ।
 परीशान—वि० [फ्रा०] परेशान । हैरान । उ०—हैरान परीशान, तग और तवाह न कर ।—प्रेमघन०, भा० २, पृ० ३१ ।
 परीशानो—सञ्ज्ञा स्त्री० [फ्रा०] परेशानी ।
 परीशेष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परिशेष' [को०] ।
 परीषह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जैन शास्त्रो के अनुसार त्याग या सहन ।
 विशेष—ये नीचे लिखे २२ प्रकार के हैं,—(१) क्षुवापरीषह या क्षुत्परीषह । (२) पिपासापरीषह । (३) शीतपरीषह । (४) उष्णपरीषह । (५) दशमशकपरीषह । (६) अचेलपरीषह या चेलपरीषह । (७) अरतिपरीषह । (८) स्त्रीपरीषह । (९) चर्यापरीषह । (१०) निषयापरीषह या नैषधिका परीषह । (११) जय्यापरीषह । (१२) आक्रोशपरीषह । (१३) वधपरीषह । (१४) याचना परीषह वा याचापरीषह । (१५) अलाभपरीषह । (१६) रोगपरीषह । (१७) तृणपरीषह । (१८) मलपरीषह । (१९) सत्कारपरीषह । (२०) प्रज्ञापरीषह । (२१) अज्ञानपरीषह । (२२) दर्शनपरीषह या सपत्तपरीषह ।
 परीषट—वि० [सं०] इच्छित्त । जिसकी कामना हो । ईप्सित [को०] ।
 परिषिट—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ खोज । अन्वेषण । २ सेवा । परिचर्या । ३ इज्जत । आदर । ४ इच्छुक होने का भाव । चाह [को०] ।
 परीसर्था—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'परिसर्था' [को०] ।

लेइ पित्र को छोड़ पानी । करे पित्र से भूत बढ़ो, मूरख अज्ञानी।—पलट्ट०, भा० १, ८६ ।

परूंगा—सञ्ज्ञा पुं० [दि०] एक प्रकार का शाहबलूत जो हिमालय पर होता है ।

परूष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] फालसा ।

परूसक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'परूष' ।

परे—अव्य० [सं० पर] १ दूर । उस ओर । उधर । २ अतीत । बाहर । अलग । जैसे,—ब्रह्म जगत् से परे है ।

क्रि० प्र०—करना ।—रहना ।—होना ।
३ ऊपर । ऊँचे । बढ़कर । उत्तर । ४ बाद । पीछे ।

मुहा०—परे परे करना = दूर हटाना । हट जाने के लिये कहना ।
परे बैठाना = मात करना । बाजी लेना । तुच्छ या छोटा साबित करना । जैसे,—उसने ऐसा भोजन पकाया कि रसोइए को भी परे बिठा दिया ।

परेई—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० परेवा] १ पड़की । फाखता । डोकी ।—उ०—पट पंखे भख कंकिरे, सदा परेई सग । सुखी परेवा जगत में तूही एक बिहग ।—विहारी (शब्द०) । २ मादा कबूतर । कबूतरी ।

परेखना—क्रि० सं० [सं० परीपण या प्रेक्षण] १ सब ओर या सब पक्षलुओं से देखना । परखना । जाँचना । परीक्षा करना । २ प्रतीक्षा करना । आसरा देखना । उ०—तव लागि मोहि परेखहु भाई ।—तुलसी (शब्द०) ।

परेखा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परीक्षा] १ परीक्षा । जाँच । २ विश्वास । प्रतीति । उ०—(क) समुक्ति सो प्रीति कि रीति श्याम की सोइ बावर जो परेखो उर आनै ।—तुलसी (शब्द०) । (ख) दूत हाथ उन लिखि जो पठयो ज्ञान कह्यो गीता को । तिनको कहा परेखो कीर्ज कृविजा के भीता को ।—सूर (शब्द०) । ३ पछतावा । अफसोस । खेद । विषाद । उ०—(क) दग रिक्तवार न हिय रहै, यहै परेखो एक । वारन को मन एक इत उत है अदा अनेक ।—रसनिधि (शब्द०) । (ख) इतनो परेखो समरथ सब भति आजु कपिराज साँची कही को तिलोक तोसो है ।—तुलसी (शब्द०) । (ग) अरे परेखो को करे तूही विलोकि विचार । केहि नर केहि सर राखियो खरे बडे पर पार ।—विहारी (शब्द०) ।

परेग—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ० पेग] लोहे की कील । छोटा काँटा ।

परेट—सञ्ज्ञा पुं० [अ० परेड] दे० 'परेड' ।

परेड—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] १ वह मैदान जहाँ सैनिकों को युद्धशिक्षा दी जाती है । २ सैनिक शिक्षा । कवायद । युद्धशिक्षा का अभ्यास ।

परेत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ एक भूत योनि का नाम । २ प्रेत । ३ मुरदा । मृतक ।

परेतकल्प—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मृतप्राय [को०] ।

परेतकाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मृत्यु का समय । मृत्युकाल [को०] ।

परेतभूमि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] शमशान । मरघट [को०] ।

परेतभर्ता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परेतभर्तृ] यम [को०] ।

परेतराज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] यमराज [को०] ।

परेतवास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शमशान । मरघट [को०] ।

परेता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परित (= चारो ओर)] १ जुलाहों का एक औजार जिसपर वे सूत लपेटते हैं । २ पतंग की छोर लपेटने का बेलन जो वाँस की गोल छोर पतली चिपटी तीलियों से बनता है ।

विशेष—इसके बीचो बीच एक लंबी छोर कुछ मोटी वाँस की छड़ होती है जिसके दोनो किनारों पर गोल चक्कर होते हैं । इन चक्करो के बीच पतली पतली तीलियों का ढाँचा होता है । इसी ढाँचे पर छोरी लपटी जाती है । परेता दो प्रकार का होता है । एक का ढाँचा सादा और खुला होता है और दूसरे का ढाँचा पतली चिपटी तीलियों से ढँका रहता है । पहले को चरखी और दूसरे को परेता कहते हैं ।

परेद्यवि—अव्य० [सं०] दे० 'परेद्यु' ।

परेद्यु—अव्य० [सं० परेद्युस्] दूसरे दिन । आनेवाला दिन । कल का दिन [को०] ।

परेमां—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रेम] दे० 'प्रेम' । उ०—मुहमद मद जो परेम था किए दीप तेहि राख । सीस न देइ पतंग होइ तव लग जाइ न चाखि ।—जायसी प्र० (गुप्त), पृ० २२५ ।

परेरां—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर (= दूर, ऊँचा) + पर] आकाश । आसमान । उ०—(क) सूर ज्यों सुमेरु को, नक्षत्र ध्रुव फेर को, ज्यों पारद परेर को ज्यों सागर मयक को । (शब्द०) कागा कर कगन चूषि रे उड़ि रे परेरो जाय । मैं दुख दाषी विरह की तू दाषा माँस न खाय ।—कवीर (शब्द०) ।

परेरा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० फरहरा] छोटी मंडी जो किसी किसी जहाज के मस्तूल के सिरे पर लगी रहती है । फरेरा । फरहरा । (लश०) ।

परेस्त्री—सञ्ज्ञा पुं० [?] ताडव नृत्य का प्रथम भेद, जिसमें अगसचालन अधिक और अभिनय थोड़ा होता है । इसका एक नाम देसी भी है ।

परेवा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पारावत] [स्त्री० परेई] १ पड़क पक्षी । पेड़की । फाखता । २ कबूतर । उ०—हारिल भई पय मैं सेवा । श्रव तोहि पठयो कौन परेवा ।—जायसी (शब्द०) । ३ कोई तेज उड़नेवाला पक्षी । ४ तेज चलनेवाला पत्रवाहक । दूत । चिट्ठीरस । हरकारा ।

परेश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ ईश्वर । उ०—परमानद परेश पुराना ।—तुलसी (शब्द०) । २ विष्णु । ३ ब्रह्मा ।

परेशान—वि० [फा०] [सञ्ज्ञा परेशानी] दुःख या सताप के कारण व्यग्र । व्याकुल । उद्विग्न ।

परेशानी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] व्याकुलता । उद्विग्नता । व्यग्रता । बहुत अधिक घबराहट । हैरानी ।

परेष्टि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मा का नाम [को०]

परेष्टुका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह गाय जो कई बार व्याई हो [को०] ।

परेस—सञ्ज्ञा पु० [सं० परेश] दे० 'परेश' ।

परेह—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार की कढ़ी जो बेसन को खूब पतला घोलकर घौर घी या तेल में पकाकर बनाई जाती है ।

परेहान—सञ्ज्ञा पु० [देश०] वह जमीन जो हल चलाने के बाद सीची गई हो ।

परैधित^१—वि० [म०] अन्य द्वारा पालित । दूसरे के द्वारा पोषित [को०] ।

परैधित^२—सञ्ज्ञा पु० १ सेवक । नौकर । २ कोयल । कोकिल [को०] ।

परैना—सञ्ज्ञा पु० [देश०] दे० 'पैना' ।

परो^१—क्रि० वि० [सं० परेश्व] दे० 'परसो' । उ०—काल्हि परो फिर साजनी स्थानु सु ध्राजु तो नैन सो नैन मिलाय ले । —पद्माकर (शब्द०) ।

परोक्त दोष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अदालत के सामने ठीक रीति से बयान न करने का अपराध ।

विशेष—जो प्रकरण में आई हुई बात छोड़कर दूसरी बात कहने लगे, पहले कुछ कहे पीछे कुछ, प्रश्न किए जाने पर उत्तर न दे या दूसरे से पूछने को कहे, प्रश्न कुछ किया जाय और उत्तर कुछ दे, पहले कोई बात कहकर फिर निकल जाय, साधियों के द्वारा कही बात स्वीकार न करे तथा अनुचित स्थान में साधियों के साथ कानाफूसी करे, वह इस अपराध का दोषी कहा गया है ।

परोक्ष^१—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १ अनुपस्थिति । अभाव । गैर हाजिरी । उ०—सब सह सकता है, परोक्ष ही कभी नहीं मह सकता प्रम ।—पचवटी, पृ० १० । २ वह जो तीनों काल की बातें जानता हो । परम ज्ञानी । ३ व्याकरण में पूर्ण भूतकाल ।

परोक्ष^२—वि० [सं०] १ जो देख न पड़े । जो प्रत्यक्ष न हो । जो सामने न हो । २. गुप्त । छिपा हुआ । ३ गैरहाजिर । अनुपस्थित ।

यौ०—परोक्ष वृद्धि । परोक्ष भोग । परोक्ष वृत्ति ।

परोक्षत्व—सञ्ज्ञा पु० [सं०] अदृश्य होने की क्रिया या भाव । परोक्ष में होने की क्रिया या भाव ।

परोक्षभोग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] किसी वस्तु का उपभोग जो उसके स्वामी की अनुपस्थिति में किया जाय [को०] ।

परोक्षवाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] परोक्ष सत्ता के प्रति विश्वास का सिद्धांत । मनुष्य की स्मृति और मन के पीछे छिपी हुई किसी महास्मृति या महामन को माननेवाला मत जिसके अनुसार काव्य का लक्ष्य जगत् और जीवन से अलग हो जाता है । (अ० ऑकलिट्ज्म) ।

परोक्षवृत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] अज्ञात जीवन । अप्रसिद्ध या गूढ़ जीवन [को०] ।

परोक्षी—वि० [सं० परोक्ष, प्रा० परोषख] दे० 'परोक्ष' । उ०—साजनि की कहव कान्ह परोख । बोलि न करिअ बडा का दोख ।—विद्यापति, पृ० २६१ ।

परोक्ष^२—अव्य० [सं० परोक्ष] दे० 'परोक्ष' । उ०—गीतम विहारी प्यारी पेखे में परोक्ष दीक, प्रीति नाहि जाहिर सजागा छये छये ।—नट०, पृ० ६७ ।

परोजना—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रयोजन] दे० 'प्रयोजन' ।

यौ०—काम परोजन = मंगल कार्य । उत्सव ।

परोटी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परावर्तित या देश०] परावर्तित करने की चेष्टा । समझाना । उ०—मोटा वाली धीरज मोटी, खावेंद । कीध इती तै खोटी । पैली अगद कीध परोटी, ताण पछे किय तेह ।—रघु० रू०, पृ० २११ ।

परोढा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] अन्य की विवाहिता स्त्री [को०] ।

परोता^१—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] १ एक प्रकार का टोकरा जो गेहूँ के पयाल से पजाव के हजारा जिले में बहुत बनता है । २. आटा, गुड, हल्दी, पान आदि जो किसी शुभ कार्य में हजाम, भाट आदि को दिए जाते हैं ।

परोता^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रपौत्र] दे० 'पढपोता' ।

परोत्कर्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दूसरे की वृद्धि । पर वा अन्य की बढ़ती [को०] ।

परोद्धह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कोकिल [को०] ।

परोना—क्रि० सं० [हि० परोना] दे० 'परोना' ।

परोपकार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह काम जिससे दूसरों का भला हो । वह उपकार जो दूसरों के साथ किया जाय । दूसरों के हित का काम ।

परोपकारक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दूसरों की भलाई करनेवाला । वह जो दूसरों का हित करे ।

परोपकारी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परोपकारिन्] [वि० स्त्री० परोपकारिणी] दूसरों की भलाई करनेवाला । औरों का हित करनेवाला ।

परोपकृत—वि० [सं०] दूसरे का भला करनेवाला । जो दूसरे की भलाई करे ।

परोपदेश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पर उपदेश । दूसरे को समझाना [को०] ।

परोपसर्पण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अन्य के पास जाना । भिक्षाटन । भीख माँगना [को०] ।

परोमात्र—वि० [सं०] अति विशाल । विस्तृत [को०] ।

परोरजस्—वि० [सं०] शुद्ध । अन्य से निर्लिप्त या रहित [को०] ।

परोरना—क्रि० सं० [?] अभिमंत्रित करना । मंत्र पढ़कर फूँकना । जैसे,—पानी परोरकर पिलाने से शीघ्र ही गर्भमोचन होता है ।

परोरा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पटोल] दे० 'परवल' ।

परोल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परोल] वह सकेत का शब्द जिसे सेना का अफसर अपने सिपाहियों को बतला देता है और जिसके बोलने से चौकी या पहरे पर के सिपाही बोलनेवाले को अपने दल का समझकर आने या जाने से नहीं रोकते ।

मुद्गा०—परोलक्ष मिलाना = भेदिया बनाना । अपनी तरफ मिलाना ।

परोलक्ष—वि० [म०] लाख से अधिक । लक्षाधिक ।

परोवर—क्रि० वि० [सं०] १ ऊपर से नीचे तक । २ हाथोहाथ । एक हाथ से दूसरे हाथ में । ३ परपरया । लगातार [क्रि०] ।

परोवरीण—वि० [सं०] श्रेष्ठ तथा साधारण से युक्त । अच्छा बुरा [क्रि०] ।

परोवरीयस्—सज्ञा पुं० [सं०] १ ईश्वर । परमात्मा । २ परमानन्द [क्रि०] ।

परोष्टि—सज्ञा स्त्री० [सं०] तेलचट्टा नाम का कीड़ा [क्रि०] ।

परोष्णी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ तेलचट्टा नाम का कीड़ा । २ पुगणा नुसार काश्मीर देश की एक नदी । रावी नदी का एक नाम । परोष्णी ।

परोस—सज्ञा पुं० [हि० पड़ोस] दे० 'पड़ोस' । उ०—पिय मोर आएल आन परोस ।—विद्यापति, पृ० ५५३ ।

परोसना—क्रि० सं० [सं० परिवेषण] खाने के लिये किसी के सामने तरह तरह के भोजन रखना । परसना । दे० 'परसना' ।

परोसा—सज्ञा पुं० [हि० परोसना] एक मनुष्य के खाने भर का भोजन जो थाली या पत्तल पर लगाकर कहीं भेजा जाता है ।

परोसनी—सज्ञा स्त्री० [हि० पड़ोस] दे० 'पड़ोसिन' । उ०—तब बहू की सास को परोसिनिन वही, जो तुम्हारी बहू को पाँव आछी नाही ।—दो सी वावन०, भा० २, पृ० ३ ।

परोसी—सज्ञा पुं० [हि० पड़ोसी] दे० 'पड़ोसी' ।

परोसैया—सज्ञा पुं० [हि० परोसना + ऐया (प्रत्य०)] खाने के लिये भोजन सामने रखनेवाला । वह जो भोजन परसता हो ।

परोहन—सज्ञा पुं० [सं० प्ररोहण] वह जिसपर सवार होकर यात्रा की जाय । वह जिसपर कोई सवार हो, या कोई चीज लादी जाय । जैसे, घोड़ा, बैल, रथ, गाड़ी आदि । उ०—पार परोहन तो चलै, तुम खेवहु सिरजनहार । भवसागर में डूबिहै तुम्ह विन प्राण अघार ।—दादू०, पृ० ४७१ ।

परोहा—सज्ञा पुं० [देश०] चमड़े का घड़ा पैला जिससे किसान कुम्रो से पानी निकालकर खेत सिंचते हैं । पुर । मोट । चरस ।

परोँ—सज्ञा पुं० [हि० परसों] दे० 'परसो' ।

परोँठा—सज्ञा पुं० [हि०] [स्त्री० परोँठी] दे० 'परौँठा' ।

परोँका—सज्ञा स्त्री० [देश०] वह भेड़ जो पूरी जवान होने पर भी बच्चा न दे । वाँझ भेड़ ।

परोँता—सज्ञा स्त्री० [देश०] वह चादर या कपड़ा जिससे अनाज बरसाते समय हवा करते हैं । इसे 'परती' भी कहते हैं ।

क्रि० प्र०—खेना ।

परोँती—सज्ञा स्त्री० [हि० पड़ती] दे० 'पड़ती' ।

परोँसा—सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पड़ोस' । उ०—सुनि सुनि रे ममरथ साहिव नैनद परोँसि न राखिए । सोई, सोई देखै, सोई सोई

माँगे निन उठि कोसै राजा वीर ।—पोहार अभि० प्र०, पृ० ९३० ।

परोँसिन—सज्ञा स्त्री० [हि० पड़ोसिन] दे० 'पड़ोसिन' । उ०—औरन सो बतरावत, मो तन चितवत, चतुर परोँसिन देखि देखि मुसिक्वयात ।—नद प्र०, पृ० ३५८ ।

पर्कट—सज्ञा पुं० [सं०] १ एक प्रकार का वगला । २ अनुताप । परिताप । पश्चात्ताप [क्रि०] ।

पर्कटी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ पाकर वृक्ष । प्लक्ष । २ ताजी मुगारी [क्रि०] ।

पर्कटी^२—सज्ञा स्त्री० [सं० पर्कट] पर्कट वगले की मादा ।

पर्कार—सज्ञा पुं० [फा० परकार] दे० 'परकार' ।

पर्काल—सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'परकार' ।

पर्काला—सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'परकाला' ।

पर्गना—सज्ञा पुं० [फा० परगना] दे० 'परगना' ।

पर्चा—सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'परचा' ।

पर्चाना—क्रि० सं० [हि० परचना] दे० 'परचाना' ।

पर्चून—सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'परचून' ।

पर्चूनिया—सज्ञा पुं० [हि० पर्चून + इया (प्रत्य०)] दे० 'परचूनी' ।

पर्चूनी—सज्ञा स्त्री० [हि० पर्चून + ई (प्रत्य०)] दे० 'परचूनी' ।

पर्छा—सज्ञा पुं० [हि० परछा] दे० 'परछा' ।

पर्ज—सज्ञा स्त्री० [हि० परज] दे० 'परज' ।

पर्जक(पुं०)—सज्ञा पुं० [सं० पर्यङ्क] दे० 'पर्यङ्क' ।

पर्जनी—सज्ञा स्त्री० [सं०] दारुहल्दी ।

पर्जन्य—सज्ञा पुं० [सं०] १ वादन । मेघ । २ विष्णु । ३ इन्द्र । ४ सूर्य (क्रि०) । ५ मेघगर्जन (क्रि०) । ६ वर्षा (क्रि०) । ७ कश्यप ऋषि की स्त्री के एक पुत्र का नाम जिसकी गिनती गधवों में होती है ।

यौ०—पर्जन्यपत्नी = जिसका पति पर्जन्य हो । शची । पर्जन्य-सूक्त = ऋग्वेदोक्त एक सूक्त जिसमें पर्जन्य का वरण है ।

पर्जन्या—सज्ञा स्त्री० [सं०] दारुहल्दी ।

पर्ण—सज्ञा पुं० [सं०] १ पत्ता । पत्र ।

यौ०—पर्णकुटी । पर्णशाला ।

२ तावूल । पान ।

यौ०—पर्णलता । पर्णवीटिका ।

३ पलास का पेड़ । ४. पक्ष । पाँख । हैंना । पख (क्रि०) । ५ बाण का पख । तीर का पख (क्रि०) ।

पर्णक—सज्ञा पुं० [सं०] एक ऋषि का नाम जो पाण्डुकि गोत्र के प्रवर्तक थे ।

पर्णकपूर—सज्ञा पुं० [सं० पर्णकपूर] पान कपूर ।

पर्णकार—सज्ञा पुं० [सं०] पान बेचनेवाली एक जाति जो तबोली या बरई कहलाती है ।

पर्याकुटिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पर्याकुटी । पर्याशाला । पत्तो की भोपडी [को०] ।

पर्याकुटी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] केवल पत्तो की बनी हुई कुटी । पर्याशाला ।

पर्याकुटीर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पत्तो की कुटिया । पर्याकुटी । उ०—पचवटी की छाया मे है सु दर पर्याकुटीर बना ।—पचवटी, पृ० ५ ।

पर्याकूर्च—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक व्रत जिसमे तीन दिन तक ढाक, गूलर, कमल और वेल के पत्तो का क्वाथ पीना होता है ।

पर्याकृच्छ्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. एक व्रत जिसमें पहले दिन ढाक के पत्तो का, दूसरे दिन गूलर के पत्तो का, तीसरे दिन कमल के पत्तो का और चौथे दिन वेल के पत्तो का क्वाथ पीकर पाँचवें दिन कुश का जल पिया जाता है । २. प्राचीन काल का एक प्रकार का व्रत जो गूलर, वेल, कुश आदि के पत्ते खाकर या इनके काढे पीकर रहने से होता था ।

पर्याखड—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्याखण्ड] १. वह वनस्पति जिसमे फूल न लगते हो । २. पत्तो का ढेर ।

पर्याचीर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वल्कल । वृक्ष की छाल ।

पर्याचीरपट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शिव । महादेव [को०] ।

पर्याचोरक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चोरक नाम का गधद्रव्य । भटेउर ।

पर्यानर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पलास के पत्तो का किसी मृत व्यक्ति का वह पुतला जो उसकी अस्थियाँ न मिलने की दशा मे दाहकर्म आदि के लिये बनवाया जाता है ।

पर्याभेदिनी—सञ्ज्ञा पुं० स्त्री० [सं०] प्रियगु लता [को०] ।

पर्याभोजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. वह जो केवल पत्ते खाकर रहता हो । २. वकरा । छाग ।

पर्याभोजनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वकरी [को०] ।

पर्यामणि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. पन्ना । २. एक प्रकार का अस्त्र ।

पर्यामाचल, पर्यामाचाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कमरख का पेड़ ।

पर्यामुक्—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्यामुक्] शिशिर ऋतु । पतझड का मौसम [को०] ।

पर्यामृग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पेड़ो पर रहनेवाले पशु । जैसे वदर आदि ।

पर्याय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक असुर का नाम जिसे इंद्र ने मारा था ।

पर्यारुह—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्यारुह] वसत ऋतु ।

पर्याल—वि० [सं०] पत्तो से भरा हुआ । पत्तोवाला [को०] ।

पर्यालवा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पान की वेल ।

पर्यावृक्क—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक ऋषि का नाम ।

पर्याबल्ली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पलाशी नाम की लता ।

पर्यावाद्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पत्तो का बना हुआ वाद्य या पत्तो की आवाज [को०] ।

पर्याबोटिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पान की गिलौरी । पान का बीडा [को०] ।

पर्याशय्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पत्तो का बिछावन । पत्तो की सेज [को०] ।

पर्याशवर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पुराणानुसार एक देश का नाम । २. इस देश की रहनेवाली आदिम अनार्य जाति जो कदाचित् अब नष्ट हो गई है ।

पर्याशाला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पत्तो की बनी हुई कुटी । पर्याकुटी ।

पर्याशालाम्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार भद्राश्व वर्ष के एक पर्वत का नाम ।

पर्यासि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. कमल । २. पानी मे बना हुआ घर । ३. साग । ४. बनाव सिंगार । आभरण क्रिया [को०] ।

पर्याटक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक ऋषि का नाम ।

पर्याद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. वह जो किसी व्रत के उद्देश्य से पत्ते खाकर रहता हो । २. एक ऋषि का नाम ।

पर्याल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. नाव । नौका । २. खनित्र । खती । कुदाल । ३. द्रव्य युद्ध [को०] ।

पर्याशन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. मेघ । बादल । २. वह जो केवल पत्ते खाकर रहता हो ।

पर्यास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] तुलसी ।

पर्याहार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जो व्रत के उद्देश्य से पत्ते खाकर रहता हो ।

पर्याक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पत्ते बेचनेवाला ।

पर्याका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. मानकद । शालपर्या । सरिवन । २. पिठवन नाम की लता । ३. अग्निमथ । अरणी ।

पर्यािनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. माषपर्या । मषवन । २. एक अप्सरा [को०] ।

पर्यािल—वि० [सं०] पत्तो से भरा हुआ । पर्याल [को०] ।

पर्याि—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्यािन्] १. वृक्ष । पेड़ । २. शालपर्या । सरिवन । ३. पिठवन । ४. तेजपत्ता । ५. पलाश वृक्ष [को०] ।

पर्याि—सञ्ज्ञा स्त्री० एक प्रकार की अप्सराएँ ।

पर्यारि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सुगंधवाला ।

पर्याटिज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पर्याशाला । पर्याकुटी [को०] ।

पर्य—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'परत' ।

पर्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पर्य' [को०] ।

पर्यनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परिधानी, या फा० परदा] घोती ।

पर्य—सञ्ज्ञा पुं० [फा० परदह] दे० 'परदा' ।

पर्यनशीन—वि० [हि० पर्या + फा० नशीन] दे० 'परदानशीन' । उ०—दिलदार है वाजार में जो पर्यानशी है ।—कवीर म०, पृ० ४६६ ।

पर्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. सिर के बाल । २. अघोवायु । पाद ।

पर्यन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अघोवायु छोड़ना । पादना ।

पर्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्य] प्रतिज्ञा । प्रण ।

पर्न

- पर्न^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्य] पत्ता । परां । पत्र ।
- पर्नन^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परिणयन (= विवाह), प्रा० परिण] विवाह । उ०—पढेन वेद वामन सव, वर कन्या के नाउँ । रहेउ पर्नने रिक्त जो, भएउ सकल तेहि ठाउँ ।—इंद्रा०, पृ० १७४ ।
- पर्नसालिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पर्यशांलिका] पर्यशाला । पत्तो से बनाई कुटिया । उ०—निपट गहन गहवर तर छाँही । पर्न-सालिका जहाँ तहाँ ही ।—घनानंद, पृ० २६० ।
- पर्निया—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पर्नियाँ, परनियाँ] एक प्रकार का चित्रित रेशमी वस्त्र । उ०—जिसे तूने अजर जामा पिन्हाना । हवस उसको न पोशिश पर्निया पर ।—कवीर म०, पृ० ४४४ ।
- पर्पचा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रपञ्च, पुं० हिं० परपच] दे० 'प्रपच' । उ०—तुम्हें इसमें पर्पच की गंध तो नहीं लग रही है ।—नई०, पृ० १०४ ।
- पर्पा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ नई घास । हरी घास । २ पशुपीठ । पशु के बैठने का स्थान । ३ एक प्रकार की छोटी गाड़ी जिसपर बैठकर पशु इधर उधर जाते हैं । ४ भवन । घर [को०] ।
- पर्पाट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पित्तपापहा । २ पापघ ।
- पर्पाटहुम—सञ्ज्ञा पुं० [म०] जलकुम्भी ।
- पर्पाटी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ सौराष्ट्र देश की मिट्टी । गोपीचदन । २ पानडी । ३ पपडी । ४ पर्पाटी रस ।
- पर्पाटीरस—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वैद्यक में एक प्रकार का रस जो पारे और गंधक को भंगरेया के रस में खरल करके और तबि तथा लोहे की भस्म मिलाकर बनाते हैं ।
- पर्पारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] केशगुच्छ । वेणी । कवरी [को०] ।
- पर्पारीक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सूर्य । २ अग्नि । ३ जलाशय ।
- पर्पारीण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सधि । पर्व । २ पान के पत्तो के नाल का रस । ३ पान की नस । पान के पत्तो की नसें । ४ उत्तरायण में घृत द्वारा शिव का पूजन [को०] ।
- पर्पारी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रवन्ध] दे० 'प्रवध' । उ०—शादी तो होकर रहेगी या माहुर का पर्वध करूँ कहीं से और खिला दूँ छोकरी को ।—नई०, पृ० ७ ।
- पर्पा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्व] दे० 'पर्व' ।
- पर्वत—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्वत] दे० 'पर्वत' ।
- पर्वतो—वि० [सं० पर्वतीय] पहाड़ी । पहाड़ सबधी ।
- पर्वतो—वि० [सं० प्रबल] दे० 'प्रबल' । उ०—कवीर माया पर्वल, निबल हऊँ, क्यो मन इस्थिर होय ।—प्राण०, पृ० १६७ ।
- पर्मा—वि० [सं० परम] दे० 'परम' । उ०—दशवें भेद परम धाम की बानी, साख हमारी निरुण्य ठानी ।—कवीर सा०, पृ० ६३४ ।
- पर्यक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्यङ्क] १ पलंग । २ शिबिका । पालकी [को०] । ३. योग का एक आसन । ४ एक प्रकार का वीरासन । ५. नर्मदा नदी के उत्तर और के एक पर्वत का नाम जो विध्य पर्वत का पुत्र माना जाता है ।
- पर्यकग्रथि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पर्यङ्कग्रथि] अरवसन्धिकका । पर्यक-वध [को०] ।

- पर्यकपादिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पर्यङ्कपादिका] सुभ्ररा सेम । काले रंग की सेम ।
- पर्यकवध—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्यङ्कवन्ध] दे० 'अरवसन्धिकका' [को०] ।
- पर्यकवधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्यङ्कवन्ध] जघा जानु और पीठ का वस्त्र से बांधना [को०] ।
- पर्यकभोगी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्यङ्कभोगिन्] सर्प की एक जाति । एक प्रकार का साँप [को०] ।
- पर्यत^१—अव्य० [सं० पर्यन्त] तक । लो ।
- पर्यत^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ अन्तिम सीमा । २ समीप । पास । ३. पार्वं । बगल ।
- यौ०—पर्यतदेश = दे० 'पर्यंतभू' । पर्यत पर्वत = समीपस्थ पहाड़ । पर्यंतभू, पर्यंतभूमि = समीप का भूभाग । पास की जमीन ।
- पर्यतिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पर्यन्तिका] नैतिक पतन । सदाचार-हीनता । गुणों का विनाश [को०] ।
- पर्यग्नि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ यज्ञ के लिये छोड़े हुए पशु की अग्नि लेकर परिक्रमा करना । २ वह अग्नि जो हाथ में लेकर यज्ञ की परिक्रमा की जाती है ।
- पर्यटक—वि० [सं०] पर्यटन करनेवाला । भ्रमण करनेवाला । घुम-वकड । उ०—कल्पना में निरवलव, पर्यटक एक अटवी का अज्ञात, पाया किरण प्रभात ।—अनामिका, पृ० ७६ ।
- पर्यटन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भ्रमण । घूमना फिरना ।
- पर्यनुयोग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ चारों ओर से वा सभी प्रकार से पूछना । २ उपालभ । ३ जिज्ञासा [को०] ।
- पर्यन्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ इद्र । २ गरजता हुआ वादल । ३ वादल की गरज ।
- पर्यय—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १ शास्त्र अथवा लोकाचारविहित । किसी नियम या क्रम का उल्लंघन । विपर्यय । गडबडी । २. व्यतीत होना । बीतना । नष्ट होना (समय के लिये) । ३ विनाश । नाश [को०] ।
- पर्ययण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ चारों ओर घूमना । परिभ्रमण । २ घोड़े की काठी । जीन [को०] ।
- पर्यवदात—वि० [सं०] १ विशुद्ध । निर्मल । अति स्वच्छ । उ०—इस प्रकार समाहित, परिशुद्ध, पर्यवदात, निर्मल, विगत उपक्लेश चित्त से पूर्वभव की अनुसृष्टि का ज्ञान प्राप्त किया ।—हिंदु० सभ्यता, पृ० २४० । २ सुज्ञात । सुविदित । सुपरि-चित्त [को०] ।
- पर्यवरोध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बाधा । विघ्न ।
- पर्यवलोकन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] निरीक्षण । चारों ओर देखना । उ०—पर्यवलोकन करके भुवन फिर वही का वही आ गया था ।—नदी०, पृ० ४० ।
- पर्यवशेष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] समाप्ति । अंत । अरवसान [को०] ।
- पर्यवष्ट भन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्यवष्टम्भन] धेरना । आवृत्त करना [को०] ।
- पर्यवसान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० पर्यवसित] १ अंत । समाप्ति ।

खातमा । २ अतर्भाव । अतर्गत हो जाना । शामिल हो जाना । स्वतंत्र सत्ता का न रहना । ३ रोग । क्रोध । ४ ठीक ठीक अर्थ निश्चित करना ।

पर्यवसित—वि० [सं०] १ समाप्त । खत्म । उ०—सेवा ही नहीं चूड़ीवाली । उसमें विलास का अनंत यौवन है, क्योंकि केवल स्त्री पुरुष के शारीरिक वधन में वह पर्यवसित नहीं है । —आकाश०, पृ० १२२ । २ निर्णीत । निश्चित (को०) । २ ध्वस्त । नष्ट [को०] ।

पर्यवस्था—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] विरोध । विरोध करना । खडन । प्रतिवाद [को०] ।

पर्यवस्थाता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्यवस्थान्] १ प्रतिवादी । प्रतिपक्षी । २ विरोधी [को०] ।

पर्यवस्थान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रतिवाद । खडन । २ विरोध । ३ अच्छी अवस्थिति । सर्वतोभावेन अवस्थान [को०] ।

पर्यवेक्षण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चतुर्दिक् देखना । समीक्षण । अवलोकन । उ०—शेक्सपीयर को इसका पता भी न था, छपाई के पर्यवेक्षण की तो बात ही क्या ।—पा० सा० सि०, पृ० १२ ।

पर्युश्र—वि० [सं०] आंसू से पूर्ण । अश्रुपूर्ण । आंसुओं से नहाया हुआ [को०] ।

श्री०—पर्यश्रुनयन, पर्यश्रुनेत्र = आंसू भरी आंखवाला । जिसकी आंखें आंसू भरी हो ।

पर्यसन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. निकालना । २. फेंकना । क्षेपण । ३ दूर करना (को०) ।

पर्यस्त—वि० [सं०] १ बाहर किया हुआ । २ दूरीकृत । ३ चारों ओर फैला हुआ । विस्तृत । ४ फेंका हुआ । क्षिप्त । ५. मारा हुआ । हत [को०] ।

पर्यस्तापह्वृत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह अर्थालंकार जिसमें वस्तु का गुण गोपन करके उस गुण का किसी दूसरे में आरोपित किया जाना वर्णन किया जाय । जैसे,—नहीं शक्र सुरपति अहै सुरपति नदकुमार । रतनाकर सागर न है, मथुरा नगर बाजार । दे० 'अपह्वृत्ति' ।

पर्यस्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ वीरासन में बैठना । २. फेंकना [को०] ।

पर्यस्तिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ वीरासन । २ पर्यंक । पलंग ।

पर्याकुल—वि० [सं०] १ बहुत अधिक व्याकुल । बहुत घबराया हुआ । २. भरा हुआ । पूरित । जैसे, अश्रुपर्याकुल (को०) । ३ अव्यवस्थित । बेतरतीब (को०) । ४ उत्तेजित (को०) । ५. पकिल । मलिन । आविल । यथा, जल (को०) ।

पर्याकुलता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पर्याकुल होने का भाव । व्याकुलता । व्यग्रता [को०] ।

पर्याकुलत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पर्याकुलता' [को०] ।

पर्यागत—वि० [सं०] जिसका सासारिक महत्व या जीवन खत्म हो चुका हो । जो अपना चक्कर पूर्ण कर चुका हो [को०] ।

पर्यावांत—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्यावान्त] भोजन के समय पत्तलों आदि पर रखा हुआ भोजन जो एक पक्ति में बैठकर खानेवालों में से

किसी एक व्यक्ति के बीच में ही आचमन कर लेने अथवा उठ खड़े होने के बाद बच रहता है ।

विशेष—ऐसा अन्न जूठा और दूषित समझा जाता है और खाने योग्य नहीं माना जाता ।

पर्याण—स्त्री० पुं० [सं०] घोड़े की पीठ पर का पलान ।

पर्याप्त^१—वि० [सं०] १. पूरा । काफी । यथेष्ट । २ प्राप्त । मिला हुआ । ३ जिसमें शक्ति हो । शक्तिसंपन्न । ४. जिसमें सामर्थ्य हो । समर्थ । ५. परिमित । ६. समग्र । पूर्ण (को०) । ७ उचित । योग्य । लायक (को०) । ८. समाप्त । अवसित (को०) । ९. विस्तीर्ण । विस्तृत (को०) ।

पर्याप्त^२—सञ्ज्ञा पुं० १ तृप्ति । सतोष । २ शक्ति । ३. सामर्थ्य । ४. योग्यता । ५. यथेष्ट होने का भाव । प्रचुरता ।

पर्याप्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ अत । समाप्ति । २ प्राप्ति । तृप्ति । सन्तुष्टि । सतोष । ३ गुणानुसार वस्तुओं का भेद । ४. निवारण । ५ रक्षा । ६ इच्छा । ७ योग्यता । क्षमता । ८ यथेष्टता । प्रचुरता (को०) ।

पर्याय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ समानार्थवाची शब्द । समानार्थक शब्द । जैसे, 'इंद्र' का पर्याय 'पाकशासन' और 'विष' का पर्याय 'हलाहल' । २ क्रम । सिलसिला । परपरा । ३ वह अर्थालंकार जिसमें एक वस्तु का क्रम से अनेक आश्रय लेना वर्णित हो या अनेक वस्तुओं का एक ही के आश्रित होने का वर्णन हो । जैसे,—(क) हालाहल तोहि नित नए, किन सिखए ये ऐन । हिय अघुधि हरगर लग्यो, वसन अवे खल बैन । (ख) हुती देह में लरिकई, बहुरि तरुणई जोर । विरघाई आई अर्बो भजत न नदकिशोर । ४ प्रकार । तरह । ५. अवसर । मौका । ६ बनाने का काम । निर्माण । ७ द्रव्य का धर्म । ७. दो व्यक्तियों का वह पारस्परिक संबन्ध जो दोनों के एक ही कुल में उत्पन्न होने के कारण होता है ।

श्री०—पर्यायक्रम । पर्यायच्युत = क्रम से भग्न । स्थान से च्युत । पर्यायवचन = समान अर्थबोधक शब्द । पर्यायवाचक, पर्यायवाची = समानार्थक । तुल्यार्थक । पर्यायशब्द = दे० 'पर्यायवचन' । पर्यायशयन । पर्यायसेवा ।

पर्यायक्रम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मान या पद आदि के विचार से क्रम । बड़ाई छोटाई आदि के विचार से सिलसिला । २ क्रम से बढ़ती । उत्तरोत्तर वृद्धि का विधान ।

पर्यायवृत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक को त्यागकर दूसरे को ग्रहण करने की वृत्ति । एक को छोड़कर दूसरे को ग्रहण करना ।

पर्यायशः—क्रि० वि० [सं०] १ समय समय पर । नियत समय पर । २. क्रमानुसार । क्रमशः । यथाक्रम [को०] ।

पर्यायशयन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पहरेदारों आदि का क्रम से अपनी अपनी बारी से सोना ।

पर्यायसेवा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] क्रम से की जानेवाली सेवा [को०] ।

पर्यायान्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पर्याचात' ।

पर्यायिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सगीत या नृत्य का एक अंग ।

पर्यायोक्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक शब्दालंकार । दे० 'पर्यायोक्ति' [को०] ।

पर्यायोक्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] वह शब्दालंकार जिसमें कोई बात साफ साफ न कहकर कुछ दूसरी वचनरचना या धुमाव फिगव से कही जाय, अथवा जिसमें किसी रमणीय भिस या व्याज से कार्यसाधन किए जाने का वर्णन हो। जैसे, (क) लोभ लगे हरि रूप के करो साँट जु रि जाय। हौं इन बेची बीचही लोयन वुरी बलाय।—विहारी (शब्द०)। यहाँ यह न कहकर कि मैं कृष्ण के प्रेम से फँसी हूँ यह कहा गया है कि इन आँखों ने मुझे कृष्ण के हाथ बेच दिया। (ख) भ्रमर कोकिल माल रसाल पै, करत मजुल शब्द रसाल हैं। वन प्रभा वह देखन जात हौं, तुम दोऊ तब लौं इत ही रही। यहाँ नायक और नायिका को अवसर देने के लिये सखी बहाने से टल जाती है।

पर्यारिणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] रोगग्रस्त गाय। वह गौ जो व्याधिग्रस्त हो [को०]।

पर्यालो—अव्य० [म०] हिमन। हिंसा [को०]।

विशेष—संस्कृत की कृ, भू और अस् धातु के साथ यह व्यवहृत होती है। जैसे, पर्यालो कृत्य अर्थात् हिंसा करके।

पर्यालोचन—सञ्ज्ञा पुं० [म०] अच्छी तरह देखभाल। समीक्षा। सम्यक् विवेचन।

पर्यालोचना—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] किसी वस्तु की पूरी देखभाल। समीक्षा। पूरी जाँच पड़ताल।

पर्यालोचित—वि० [म०] जिसका पर्यालोचन किया गया हो। विवेचित। समीक्षित [को०]।

पर्यावर्त—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १ आना। लौटना। वापस आना। २. सप्ताह में विचारपूर्वक जन्मग्रहण। सप्ताह में फिर से आकर जनमना।

पर्यावर्तन—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १ एक नरक का नाम। २ दे० 'पर्यावर्त' [को०]।

पर्यावलोकन—सञ्ज्ञा पुं० [म०] पूर्ण रूप से निरीक्षण। अच्छी तरह से देखना भालना। पूर्णतः समझना या जानना। उ०—अबवर ने तत्कालीन परिस्थितियों का भली प्रकार पर्यावलोकन कर लिया था।—अकवरी०, पृ० १२।

पर्याविल—वि० [म०] अत्यंत आविल। गंदला। कीचड़ भरा [को०]।

पर्यावृत्त—वि० [सं०] आच्छादित। ढँका हुआ [को०]।

पर्यास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पतन। गिरना। २. मार डालना। वध। ३. नाश। ४. चारों ओर घूमना। चक्कर देना। परिक्रमण [को०]। ५. विपरीत क्रम। विपरीत स्थिति [को०]।

पर्यासन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. किसी को घेरकर बैठना। चारों ओर बैठना। २. चारों ओर घूमना। परिक्रमा करना। दे० 'पर्यास'। ३. नाश। ध्वंस [को०]।

पर्याहार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. घट। घड़ा। २. काँवर। वहँगी। जूझा। ३. वहन करना। ढोना। ४. बोझ। भार। ५. अन्न-संग्रह [को०]।

पर्युक्षण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] श्राद्ध, होम या पूजा आदि के समय यों ही अथवा कोई मन्त्र पढ़कर चारों ओर जल छिड़कना।

पर्युक्षणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह पात्र जिससे पर्युक्षण का जल छिड़का जाय।

पर्युत्थान—सञ्ज्ञा पुं० [म०] उठना। उत्थान। खड़ा होना [को०]।

पर्युत्सुक—वि० [सं०] १. व्याकुल। उद्विग्न। २. दुःखयुक्त। दुःखी। खिन्न। ३. बहुत उत्सुक। अत्यंत उत्कण्ठित [को०]।

पर्युत्सुकत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पर्युत्सुक होने का भाव। दुःख [को०]।

पर्युदचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्युदञ्चन] १. उद्धार। युक्ति। २. कर्ज। ऋण [को०]।

पर्युदय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सूर्योदय समीप होने का समय।

पर्युदस्त—वि० [सं०] १. निपिद्ध। २. चारों ओर फँका हुआ। ३. अलग किया हुआ [को०]।

पर्युदास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. अपवाद। २. निषेध [को०]।

पर्युपस्थान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सेवा। अर्चा। सुश्रूषा। टहल [को०]।

पर्युपासक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पर्युपासन करनेवाला। सेवा करनेवाला। उपासक। सेवक।

पर्युपासन—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १. सेवा। उपासना। अर्चना। २. प्रतिमुख सधि के तरह अगो मे से एक। किसी को ऋद्ध देखकर उसे पसन्न करने के लिये अनुनय विनय करना। (नाट्यशास्त्र)।

पर्युषण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जैनियों के अनुसार तीर्थंकरों की सेवा या पूजा।

पर्युषित—वि० [सं०] १. एक दिन पहले का। जो ताजा न हो। बासी (फूल या भोजन के लिये)। २. नीरस। विरस [को०]। ३. मूर्ख। अज्ञ। मूढ़ [को०]। ४. व्यर्थ। निरर्थक। निःसार [को०]।

यौ०—पर्युषितभोजी = पर्युषित भोजन करनेवाला। बासी या नीरस अन्न खानेवाला। पर्युषितवाक्य = शब्द या वाक्य जो अनियत या शिथिल हो।

पर्युहण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अग्नि के चारों ओर जल का मार्जन [को०]।

पर्येषण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. अन्वेषण। छानबीन। खोज। २. उपासना। सेवा। पूजा [को०]। ३. वर्षाकाल व्यतीत करना। वर्षाऋतु बिताना (वोद्ध)।

पर्येषि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] अन्वेषण। खोज। तलाश। पूछताछ [को०]।

पर्व—सञ्ज्ञा [सं० पर्वन्] १. धर्म, पुण्यकार्य अथवा उत्सव आदि करने का समय। पुण्यकाल।

विशेष—पुराणानुसार चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा और सक्रांति ये सब पर्व हैं। पर्व के दिन स्त्रीप्रसंग करना अथवा माम, मछली आदि खाना निषिद्ध है। जो ये सब काम करता है, कहते हैं, वह विसमूत्रभोजन नामक नरक में जाता है। पर्व के दिन उपवास, नदीस्नान, श्राद्ध, दान और जप आदि करना चाहिए।

२ चातुर्मास्य । ३ प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा अथवा अमावास्या तक का समय । पक्ष । ४ दिन । ५ क्षण । ६. श्रवसर । मौका । ७ उत्सव । ८ सधिस्यान । वह स्थान जहाँ दो चीजें, विशेषत दो ग्रह जुड़े हो । जैसे, कुहनी अथवा गन्ने में की गाँठ । ९ यज्ञ आदि के समय होनेवाला उत्सव अथवा कार्य । १० अक्ष । खड । भाग । टुकड़ा । हिस्सा । जैसे महा-भारत के अठारह पर्व, उगली के पर्व (पोर) आदि । ११ सूर्य अथवा चंद्रमा का ग्रहण ।

पर्वक—सञ्ज्ञा पु० [स०] पैर का घुटना ।

पर्वकार—सञ्ज्ञा पु० [स०] वह ब्राह्मण जो घन के लोभ से पर्व के दिन का काम और दिनों में करे । धनार्थ अन्य वेश धारण करनेवाला । वेशांतरधारी ।

पर्वकारी—सञ्ज्ञा पु० [स० पर्वकारिन्] दे० 'पर्वकार' ।

पर्वकाल—सञ्ज्ञा पु० [स०] १ पर्व का समय । वह समय जब कोई पर्व हो । पुण्यकाल । २ चंद्रमा के क्षय का समय । जैसे, अमावास्या आदि ।

पर्वगामी—सञ्ज्ञा पु० [स० पर्वगामिन्] वह जो किसी पर्व के दिन स्त्री के साथ भोग करे । ऐसा मनुष्य नरक का अधिकारी होता है ।

पर्वण—सञ्ज्ञा पु० [स०] १ पूरा करने की क्रिया या भाव । २. एक राक्षस का नाम ।

पर्वणिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पर्वणी नाम का आँख का रोग ।

पर्वणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ सुश्रुत के अनुसार आँख की सधि में होनेवाला एक प्रकार का रोग जिसमें आँख की सधि में जलन और कुछ सूजन होती है । २. पूर्णिमा । पौर्णमासी । ३ प्रतिपदा । परिववा । प्रतिपदा (को०) । ४. समारोह । उत्सव (को०) ।

पर्वत—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १ जमीन के ऊपर वह बहुत अधिक उठा हुआ प्राकृतिक भाग जो आस पास की जमीन से बहुत अधिक ऊँचा होता है और जो प्राय पत्थर ही पत्थर होता है । पहाड़ ।

विशेष—वहुत अधिक ऊँची सम भूमि पर्वत नहीं कहलाती । पर्वत उसी को कहते हैं जो आस पास की भूमि को देखते हुए बहुत अधिक ऊँचा हो । कई देशों में अनेक ऐसी अधित्यकाएँ या ऊँची समतल भूमियाँ हैं जो दूसरे देशों के पहाड़ों से कम ऊँची नहीं हैं, परंतु न तो वे आस पास की भूमि से ऊँची हैं और न कोणाकार, अत वे पर्वत के अंतर्गत नहीं हैं । साधारण पर्वतों पर प्राय अनेक प्रकार की घातुएँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष आदि होते हैं और बहुत ऊँचे पर्वतों का ऊपरी भाग, जिसे पर्वत की चोटी या शिखर कहते हैं, बहुधा बरफ से ढँका रहता है । कुछ पर्वत ऐसे भी होते हैं जिनपर वनस्पतियाँ तो बिलकुल नहीं या बहुत कम होती हैं परंतु जिनकी चोटी पर गड्ढा होता है, जिसमें से सदा अथवा कभी कभी आग निकला करती है, ऐसे पर्वत ज्वालामुखी कहलाते हैं । (दे० 'ज्वालामुखी पर्वत') । पर्वत प्राय श्रेणी के रूप में बहुत दूर तक गए हुए मिलते हैं ।

पुराणों में पर्वतों के सबध में अनेक कथाएँ हैं । सबसे अधिक प्रसिद्ध कथा यह है कि पहले पर्वतों के पख होते थे । अग्नि-पुराण में लिखा है कि एक बार सब पर्वत उडकर असुरों के निवासस्थान समुद्र में पहुँचकर उपद्रव करने लगे, जिसके कारण असुरों ने देवताओं से युद्ध ठान दिया । युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत देवताओं ने पर्वतों के पर काट दिए और उन्हें यथास्थान बैठा दिया । कालिका पुराण में लिखा है कि जगत् की स्थिति के लिये विष्णु ने पर्वतों को कामरूपी बनाया था—वे जब जैसा रूप चाहते थे, तब वैसा रूप धारण कर लेते थे । पौराणिक भूगोल में अनेक पर्वतों के नाम आए हैं और उनके विस्तार आदि का भी उनमें बहुत कुछ वर्णन है । उनके 'वर्षपर्वत' और 'कुलपर्वत' आदि कुछ भेद भी हैं । बराह पुराण में लिखा है कि श्रेष्ठ पर्वतों पर देवता लोग और दूसरे पर्वतों पर दानव आदि निवास करते हैं । इसके अतिरिक्त किसी पर्वत पर नागों का, किसी पर सप्तर्षियों का, किसी पर ब्रह्मा का, किसी पर अग्नि का, किसी पर इद्र का निवास माना गया है । पर्वत कही कही पृथ्वी को धारण करनेवाले और कही कही उसके पति भी माने गए हैं ।

पर्या०—महीन्द्र । शिखरी । धर । अद्रि । गोत्र । गिरि । आवा । अचल । शैल । स्थावर । पृथुशेखर । धरणीकीलक । कुहार जीमूत । भूधर । स्थिर । कटकी । शृंगी । अग । नग । भूमृत । अरुनीधर । कुधर । धराधर । वृत्तवान् ।

२ पर्वत की तरह किसी चीज का लगा हुआ बहुत ऊँचा ढेर । जैसे,—देखते देखते उन्होंने पुस्तकों का पर्वत लगा दिया । ३ पुराणानुसार एक देवर्षि का नाम जिनकी नारद ऋषि के साथ बहुत मित्रता थी । ४ एक प्रकार की मछली जिसका मांस वायुनाशक, स्निग्ध, बलवर्धक और शुक्रकारक माना जाता है । ५ वृक्ष । पेड़ । ६. एक प्रकार का साग । ७ दशनामी सप्रदाय के अंतर्गत एक प्रकार के सन्यासी । ऐसे सन्यासी पुराने जमाने में ध्यान और धारणा करके पर्वतों के नीचे रहा करते थे । ८ महाभारत के अनुसार एक गधर्व का नाम । ९ सभूति के गर्भ से उत्पन्न मरीचि के एक पुत्र का नाम । १० सात की सख्या का वाचक शब्द (को०) ।

पर्वतकाक—सञ्ज्ञा पु० [स०] द्रोणकाक । डोम कोप्रा ।

पर्वतकीला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] धरित्री । पृथिवी (को०) ।

पर्वतज—वि० [स०] जो पर्वत से उत्पन्न हुआ हो ।

पर्वतजा—सञ्ज्ञा स्त्री० [स०] १ पार्वती । गिरिजा । २. नदी (को०) ।

पर्वतजाल—सञ्ज्ञा पु० [सं०] पहाड़ों का सिलसिला । पर्वतश्रेणी (को०) ।

पर्वततृण—सञ्ज्ञा पु० [सं०] एक प्रकार का तृण जो पशु बड़े चाव से खाते हैं और जो पशुओं के लिये बहुत बलकारक होता है । तृणाम्य ।

पर्वत दुर्ग—सञ्ज्ञा पु० [सं०] पहाड़ी किला ।

विशेष—चाणक्य के मत से पर्वतदुर्ग सब दुर्गों से उत्तम होता है ।

पर्वतनदिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पर्वतनन्दिनी] पार्वती । उ०—सुत मैं न जायो राम सो यह कह्यो पर्वतनदिनी । — केशव (शब्द०) ।

पर्वतपति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हिमालय । पर्वतराज [को०] ।

पर्वतपाटी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पर्वत श्रेणी । गिरिश्रेणी । पर्वत-शृङ्खला । उ०—यह है अलमोडे का वसत खिल पही निखिल पर्वतपाटी । — युगात, पृ० ६ ।

पर्वतमाला—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] पर्वतों की शृङ्खला । पहाड़ों का सिलसिला जो दूर तक फैला रहता है । उ०—हिंदुस्तान के उत्तर में, उत्तरपच्छिम और उत्तरपूरव में, मध्य हिंद में और पच्छिम में तमाम कोकन और मलावार तट पर जो पर्वतमालाएँ हैं, उन्होंने सम्यता पर एक और प्रभाव डाला है ।—हिंदु० सम्यता, पृ० १४ ।

पर्वतमोचा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पहाड़ी केला ।

पर्वतराज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ बहुत बड़ा पहाड़ । २ हिमालय पर्वत ।

पर्वतवासिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ छोटी जटामासी । २ काली का एक नाम । ३ गायत्री ।

पर्वतवासी—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [म० पर्वतवासिन्] पर्वत पर रहनेवाला पर्वतीय [को०] ।

पर्वतश्रेणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] दे० 'पर्वतमाला' [को०] ।

पर्वतस्थ—वि० [म०] पहाड़ पर स्थित [को०] ।

पर्वतात्मज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पर्वत का पुत्र । मैनाक [को०] ।

पर्वतात्मजा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दुर्गा ।

पर्वताधारा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पृथ्वी ।

पर्वतारि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] इंद्र ।

विशेष—कहते हैं, इंद्र ने एक बार पहाड़ों के पर काट डाले थे । इसी से उनका यह नाम पड़ा । दे० 'पर्वत' शब्द का विशेष ।

पर्वतारोही—वि० [सं० पर्वतारोहिन्] पहाड़ पर चढ़नेवाला । किसी कार्य से पर्वत पर चढ़नेवाला ।

यौ०—पर्वतारोही दल ।

पर्वताशय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मेघ । बादल ।

पर्वताश्रय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ शरभ नाम का एक जानवर । २ वह जो पर्वत पर रहता हो । पर्वतीय [को०] ।

पर्वताश्रयी—वि० [म० पर्वताश्रयिन्] पहाड़ पर रहनेवाला । पहाड़ी [को०] ।

पर्वतासन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का आसन । बैठने की एक मुद्रा [को०] ।

पर्वतास्त्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन काल का एक अस्त्र जिसके फेंकते ही शत्रु की सेना पर बड़े बड़े पत्थर बरसने लगते थे, अथवा

अपनी सेना के चारों ओर पहाड़ खड़े हो जाते थे । जिससे शत्रु का प्रभजनास्त्र रुक जाता था ।

पर्वति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] चट्टान । पर्वत की शिला [को०]

पर्वतिया^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्वत + हिं० इया (प्रत्य०)] नेपालियों की एक जाति ।

पर्वतिया^२—सञ्ज्ञा पुं० १ एक प्रकार का कद्दू । २ एक प्रकार का तिल ।

पर्वती—वि० [सं० पर्वत + ई (प्रत्य०)] १ पहाड़ी । पहाड़-सबधी । २ पहाड़ों पर रहनेवाला । ३. पहाड़ों पर पैदा होनेवाला ।

पर्वतीय—वि० [सं०] १ पहाड़ी । पहाड़ सबधी । २ पहाड़ पर रहने या बसनेवाला । ३ पहाड़ पर पैदा होनेवाला ।

पर्वतृण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का तृण जो औषध के काम में आता है । तृणाद्य ।

पर्वतेश्वर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हिमालय ।

पर्वतोद्भव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पारा । २ शिगरफ ।

पर्वतोद्भूत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अवरक ।

पर्वतोर्भि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार की मछली ।

पर्वधि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चंद्रमा ।

पर्वपुष्पिका, पर्वपुष्पी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ नागदती नामक क्षुप । २ रामदूता तुलसी ।

पर्वपूर्णता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ किसी उत्सव या त्यौहार का संपन्न होना । २ उत्सव या त्यौहार की तैयारी [को०] ।

पर्वभाग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मणिबध । कलाई [को०] ।

पर्वभेद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सधिभग नामक रोग का एक भेद ।

पर्वमूल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चतुर्दशी और अमावस्या तथा चतुर्दशी और पूर्णिमा का संधिकाल [को०] ।

पर्वमूला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सफेद दूब ।

पर्वयोनि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह वनस्पति आदि जिसमें गाँठ हो । जैसे, ऊँख, नरसल ।

पर्वर—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'परवल' ।

पर्वरिश—सञ्ज्ञा स्त्री० [फ्रा०] पालन पोषण । पालना पोसना ।

पर्वरीण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पर्व । २ मृतक । मुर्दा । ३ अभिमान । घमंड । ४ वायु [को०] । ५ दे० 'पर्वरीण' [को०] ।

पर्वरुह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अनार ।

पर्ववल्ली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दूब । दूर्वा ।

पर्वसंधि—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्वसन्धि] १ पूर्णिमा अथवा अमावस्या और प्रतिपदा के बीच का समय । वह समय जब पूर्णिमा अथवा अमावस्या का अंत हो चुका हो और प्रतिपदा का आरंभ होता हो । २ सूर्य अथवा चंद्रमा को ग्रहण लगने का समय । वह समय जब सूर्य अथवा चंद्रमा ग्रस्त हो । ३ घुटने पर का जोड़ ।

- पर्वा^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० परवा] १ दे० 'परवाह' ।
- पर्वा^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [म० प्रतिपदा, प्रा० पद्विवा, हि० परवा] दे० 'प्रतिपदा' ।
- पर्वानगी—सञ्ज्ञा पुं० [फा० परवानगी] दे० 'परवाना' ।
- पर्वाना—सञ्ज्ञा पुं० [फा० परवाना] दे० 'परवाना' । उ०—पान पर्वाना पाय, तो नाम सुनावही । सनगुरु कहँ कवीर अमर सुख पावही ।—कवीर० श०, भा० ४, पृ० ६ ।
- पर्वावधि—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] गाँठ । ग्रथि । जोड़ । २ पर्वकाल या उसकी अवधि [को०] ।
- पर्वास्फोट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] उँगलियों को चटकाना । उँगली चटकाने की ध्वनि [को०] ।
- पर्वाह^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पर्व का दिन । वह दिन जिसमें कोई पर्व हो ।
- पर्वाह^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० परवा] दे० 'परवाह' ।
- पर्विणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पर्व' ।
- पर्वित—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार की मछली ।
- पर्वेश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] फलित ज्योतिष के अनुसार कालभेद से ग्रहण समय के अधिपति देवता ।
- विशेष—बृहत्संहिता के अनुसार ब्रह्मा, चंद्र, इन्द्र, कुबेर, वरुण, अग्नि और यम ये सात देवता क्रमशः छह छह महीने के ग्रहण के अधिपति देवता हूँ करते हैं । ये ही सातों देवता 'पर्वेश' कहलाते हैं । भिन्न भिन्न पर्वेश के समय ग्रहण होने का भिन्न भिन्न फल होता है । ग्रहण के समय ब्रह्मा अधिपति हो तो द्विज और पशुओं की वृद्धि, मंगल, आरोग्य और धन संपत्ति की वृद्धि, चंद्रमा हो तो आरोग्य और धनसंपत्ति की वृद्धि के साथ साथ पंडितों को पीडा और अनावृष्टि, इन्द्र हो तो राजाओं में विरोध, शरद ऋतु के धान्य का नाश और अमंगल, कुबेर हो तो धनियों के धन का नाश और दुर्भिक्ष, वरुण हो तो राजाओं का अशुभ, प्रजा का मंगल और धान्य की वृद्धि, अग्नि हो तो धान्य, आरोग्य, अमय और अच्छी वर्षा, और यम हो तो अनावृष्टि, दुर्भिक्ष और धान्य की हानि होती है । इसके प्रतिशक्ति यदि और समय में ग्रहण हो तो धुषा, महामारी और अनावृष्टि होती है ।
- पर्श—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्राचीन योद्धा जाति का नाम जो वर्तमान अफगानिस्तान के एक प्रदेश में रहती थी ।
- पर्शनीया—वि० [सं० पर्शनीया] छूने योग्य । स्पर्श करने योग्य ।
- पर्शु—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १ फरसा । परशु । २ पमली । पाँजर । ३ अस्त्र । हथियार [को०] ।
- पर्शुका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] छाती पर की हड्डियाँ । पिंजर ।
- पर्शुपाणि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ गणेश । २ परशुराम ।
- पर्शुराम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] परशुराम ।
- पर्शुस्थान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्राचीन देश का नाम जिसमें पर्शु जाति के लोग रहा करते थे । आजकल यह प्रांत वर्तमान अफगानिस्तान के अंतर्गत है ।

- पर्श्वध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कुठार ।
- पर्ष^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गुच्छ । स्तवक [को०] ।
- पर्ष^२—वि० कठोर । उग्र । तीक्ष्ण । जैसे, वायु [को०] ।
- पर्षद्—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ परिषद् । २ चारों वेद के ज्ञाताओं की सभा या समाज [को०] ।
- पर्षद्वल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] परिषद् का सदस्य । पारिषद् ।
- पर्सराम(पु)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्शुराम] दे० 'परशुराम' । उ०—न, छत्री छितान, दई विप्र दान । सुरान प्रमान, नमो पर्सराम ।—पृ० रा०, २ । १७ ।
- पर्सादा—सञ्ज्ञा पुं० [म० प्रसाद] दे० 'प्रसाद' । उ०—अमरित साहु जाकर भाभी का प्रसाद पा आते ।—नई०, पृ० ८२ ।
- पर्हेज—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पर्हेज] १ राग आदि के समय अपय्य वस्तु का त्याग । रोग के समय सयम । जैसे,—दवा तो, खाते ही हो पर साथ में पर्हेज भी किया करो । २ वचना । अनग रहना । दूर गहना । जैसे,—दूरे कामों से हमेशा पर्हेज करना चाहिए ।
- पर्हेजगार—वि० [फा० पर्हेजगार] पर्हेज करनेवाला ।
- पलंकट—वि० [सं० पलङ्कट] डरपोक । भीरु । भयशील ।
- पलंकर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पलङ्कर] पित्त ।
- पलंकष—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पलङ्कष] गुग्गुलु । गूगल ।
- पलंकपा—सञ्ज्ञा स्त्री० [म० पलङ्कपा] १ गोखरु । २ रास्ना । ३ गुग्गुलु । ४ टेसू । पलास । ५ लाख । ६ गोरखमुड़ी । ७ मक्खी ।
- पलंकषी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पलङ्कषी] दे० 'पलंकपा' ।
- पलंका^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पर + लका] बहुत दूर का स्थान । अति दूरवर्ती स्थान । उ०—तेहि की आग ओहू पुनि जरा । लका छोडि पलका परा ।—जायसी (शब्द०) ।
- विशेष—प्राचीन भारतवासी लका को बहुत दूर समझते थे इस कारण अत्यंत दूर के स्थान को पलका (परलका) जिसका अर्थ है 'लका से दूर या दूर का देश' बोलने लगे । अब भी गाँवों में इस शब्द का इसी अर्थ में व्यवहार होता है ।
- पलंका^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पल्यङ्क] पल्यक । पलंग । उ०—चारिउ पवन झकोरे आगी । लका दाहे पलका लागी ।—जायसी ग्र०, पृ० १५६ ।
- पलंग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पल्यङ्क] १ अच्छी चारपाई । अच्छे गोडे, पाटी और बुनावट की चारपाई । अधिक लंबी चौड़ी चारपाई । पर्यक । पल्यक । खाट ।
- क्रि० प्र०—विछाना ।
- मुहा०—पलंग को लात मारकर खड़ा होना = (१) छठी, वरही आदि के उपरांत सीरी से किसी स्त्री का भली चगी बाहर आना । निरोग और भली चगी सीरी से बाहर आना । सीरी काल समाप्त कर बाहर निकलना (बोलचाल) ।

(२) कोई बड़ी बीमारी फेलकर अच्छा होना। बीमारी से उठना। खाट भेकर उठना (बोलचाल)। पलंग तोड़ना = बिना कोई काम किए सोया या पड़ा रहना। कुछ काम न करते हुए समय काटना। निठल्ला रहना। खाट तोड़ना। पलंग लगाना = विछौना विछाना। किसी के सोने के लिये पलंग पर विछौना विछाना और तकिया आदि को यथास्थान रखना। बिस्तर दुस्त करना।

पलंगड़ी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पलंग+ड़ी (प्रत्य०)] पलंग। उ०— और श्री आचार्य जी महाप्रभुन की पलगड़ी के सानिध्य निवेदन की क्यो कहे ? यह तो रीति नाही।—दो सौ बावन, भा० २, पृ० १६। २ छोटा पलंग।

पलंगतोड़ी—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पलंग+तोड़ना] एक श्रोत्रविध जिसका मुख्य गुण स्तम्भन है। यह वीर्यवृद्धि के लिये भी खाई जाती है।

पलंगतोड़ी—वि० निठल्ला। आलसी। निकम्मा।

पलंगदक्ष—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पलंग (= चीता) + हि० दक्ष] वह जिसके दाँत चीते के दाँतों की तरह कुछ कुछ टेढ़े होते हैं।

पलंगपोश—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पलंग + फा० पोश] पलंग पर विछाने की चादर।

पलंगी—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] १. एक प्रकार की बरसाती घास जो उत्तरी भारत के मैदानों में अधिकता से होती है। भूसा। गुलगुला। बड़ा मुरमुरा। वि० दे० 'भूसा'।

पलंगी—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] नाव में का वह बाँस जिससे पाल खड़ी की जाती है। (मल्लाह)।

पलंग, पलंगा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पलंग] दे० 'पलंग'। उ०—सद्गुरु को पलंगा बैठाई। सब मिलि पाँव पखारो आई।—कबीर सा०, पृ० ५४७।

पलंगरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पलंग + री (प्रत्य०)] पलंग। माचा।

पलंगिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पलंग + इया (प्रत्य०)] पलंग। खाट। उ०—पौढहु पीय पलंगिया मीजेंहें पाय। रैन जगे की निदिया सब मिटि जाय।—रहीम (शब्द०)।

पल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ समय का एक बहुत प्राचीन विभाग जो ६ मिनट या २४ सेकंड के बराबर होता है। घड़ी या दंड का ६० वाँ भाग। ६० विपल के बराबर समयमान। २ एक तौल जो ४ कर्ष के बराबर होती है।

विशेष—कर्ष प्रायः एक तोले के बराबर होता है, पर यह मान इसका बिल्कुल निश्चित नहीं है। इसी कारण पल के मान में भी मतभेद है। वैद्यक में इसका मान आठ तोला और अन्यत्र चार तोला या तीन तोला चार माषा भी माना जाता है। ३ चार तोले की एक माप।

तेल आदि निकालने के लिये लोहे का डंडीदार पात्र। इसमें करीब चार तोले तेल आता है। परी। पैरी। पला। पली। उ०—अवतक कई गावों में प्रत्येक घानी से प्रतिदिन एक एक 'पल' तेल मदिरों के निमित्त लिए जाने की प्रथा चली आती है।—राज० इति०, पृ० ४२७।

४ मास। उ०—पल आमिप को कहत कवि, पट उसास पल होय। पल जु पलक हरि विष परे गं पिन जुग सत सोय।—अनेकार्थ०, पृ० १४०। ५ घान का सूखा डठल जिससे दाने अलग कर लिए गए हों। बवाल। ६ घोड़ेवाजी। प्रतारणा। ७ चलने की क्रिया। गति। ८ मूर्ख। ९ तगजू। तुला। १० कीचड़। गिलाव या गाव। पलल (को०)।

पल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पलक] १. पलक। द्यगचल। उ०—भुक्ति भुक्ति भूपकौहें पलनु फिरि फिरि जुति, जमुहाइ। बीदि पियागम नोद मिसि दी मव सखी उठाय।—विहागी २०, दो० ५८६।

विशेष—पहले साधारण लोग पल और निमेष के कालमान में कोई अंतर नहीं समझते थे। अतः आँग के परदे का प्रत्येक पल में एक बार गिरना मानकर उसे भी पल या पलक कहने लगे।

मुहा०—पल मारते या पल मारने में = बहुत ही जल्दी। आँख भपकते। लुरत। जैसे,—पल मारते वह अदृश्य हो गया।

२ समय का अत्यंत छोटा विभाग। क्षण। आन। लहजा। दम।

विशेष—वही इसे स्त्रीलिंग भी बोलते हैं।

मुहा०—पल के पल या पल की पल में = बहुत ही अल्प काल में। बात की बात में। क्षण भर में।

पलई—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० कोपल या पल्लव] १ पेड़ की नरम डाली या टहनी। २ पेड़ के ऊपर का भाग। मिरा। नोक।

पलउसिनि—सञ्ज्ञा स्त्री० [म० प्रतिवेशिनी] पडोसिन। उ०—तोरार करम धरम पए साखि, मदि उवाए पलउसिनि राखि।—विद्यापति, पृ० २६०।

पलक—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पल + क] १ क्षण पल। लहमा। दम। उ०—कोटि कर्म फिरे पलक में जो रेचक आए नाँव। अनेक जन्म जो पुन्य करे नहीं नाम विनु ठाँव।—कबीर (शब्द०)। २ आँख के ऊपर का चमड़े का परदा जिसके गिरने से आँख बंद होती और उठने से खुलती है। पपोटा तथा बरोनी। उ०—लोचन मगु रामहि उर आनी। दी हे पलक कपाट सयानी।—तुलसी (शब्द०)।

क्रि० प्र०—गिरना। भपकना।

मुहा०—पलक खोलना = आँख खोलना। उ०—इन दिनों तो है विपत खुल खेलती। तू भला अब भी पलक तो खोल दे।—चुभते०, पृ० १। पलक भपकते = अत्यंत अल्प समय में। बात कहते। एक निमेष मात्र में। जैसे,—पलक भपकते पुस्तक गांधव हो गई। पलक पर लेना = जी खोलकर समान करना। अत्यंत प्रेम से सम्मान करना। उ०—लालसा लाल वार होती है। हम पलक पर उन्हें ललक ले लें।—चुभते०, पृ० ७। पलक पसीजना = (१) आँखों में आँसू आना। (२) दया या करुणा उत्पन्न होना। द्रवित होना। आर्द्र होना। पलक पाँवड़े विछाना = हादिक स्वागत करना। उ०—आइए ऐ मिलाप के पुतले, हम पलक पाँवड़े विछा

देंगे।—चुभते०, पृ० ६। (किसी के रास्ते में या किसी के लिये पलक धिछाना = किसी का अत्यंत प्रेम से स्वागत करना पूर्ण योग से किसी का स्वागत तथा सत्कार करना। उ०—ऊबता हूँ उबारनेवाले। आइए हैं विछी हुई पलकों।—चुभते०, पृ० १। पलक भँजना = (१) पलक का गिरना या हिलना। (२) पलक का इस प्रकार हिलना कि उससे कोई सकेत सूचित हो। इशारा या सकेत होना। जैसे,—उनकी पलक भँजते ही वह नौ दो ग्यारह हो गया। पलक भँजना = (२) पलक से कोई इशारा करना। पलक मारना = (१) आँखों से सकेत या इशारा करना। (२) पलक झुकाना या गिराना। (३) तद्रालु होना। झपकी लेना। पलक लगना = (१) आँखें मुँदना। पलक झपकना। पलक गिरना। उ०—पलक नहीं कहुँ नेकु लागति रहति इक टक हेरि। तऊ कहुँ त्रिपितात नाही रूप रस के ढेरि।—सूर (शब्द०)। (२) नींद आना। झपकी लगना। जैसे,—आज तीन दिन से एक छन के लिये भी पलक न लगी। पलक लगाना = (१) आँख झपकाना। आँखें मुँदना। (२) सोने के लिये आँखें बंद करना। सोने की इच्छा से आँखें मुँदना। पलक से पलक न लगना = (१) पलक न झपकना। टकटकी बँधी रहना। (२) आँख न लगना। नींद न आना। पलक से पलक न लगाना = (१) टकटकी बाँधे रहना। पलक न झपकाना। (२) सोने के लिये आँखें बंद न करना। पलकों से तिनके चुनना = अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति से किसी की सेवा करना। किसी को सुख पहुँचाने के लिये पूर्ण मनोयोग से प्रयत्न करना। जैसे,—मैं आपके लिये पलकों से तिनके चुनूँगा। पलकों से जमीन झाड़ना = पलकों से तिनके चुनना।

पलकर्ण—सज्ञा पुं० [सं०] घूपघड़ी के शकु की उस समय की छाया की लवाई जब मेष सन्क्रांति के मध्याह्नकाल में सूर्य ठीक विपु-वत् रेखा पर होता है।

पलकदरिया—वि० [हि० पलक + फा० दरिया] बड़ा दानी। अति उदार।

पलकदरियावः—वि० [हि० पलक + फा० दरियावः] दे० 'पलकदरिया'।

पलकनेवाजा—वि० [हि० पलक + फा० नेवाज] छन में निहाल कर देनेवाला। बड़ा दानी। पलकदरिया।

पलकपीटा—सज्ञा पुं० [हि० पलक + पीटना] १ आँख का एक रोग।

विशेष—इसमें वरौनिया प्रायः झड़ जाती है, आँखें वरावर झपकती रहती हैं और रोगी घूप या रोगनी की ओर नहीं देख सकता। २ वह मनुष्य जिसे पलकपीटा रोग हुआ हो। पलकपीटे का रोगी।

पलकांतर—सज्ञा पुं० [सं० पलक + अन्तर] पलकों के गिरने के कारण होनेवाला व्यवधान। पलक गिरने से दृष्टि का व्यवधान या अंतर। उ०—प्रथम प्रतच्छ विरह तू गुनि लै। ताते पुनि पलकांतर सुनि लै।—नद० अ०, पृ० १६२।

विशेष—नददास ने इसे एक प्रकार का विरह माना है।

पलका—सज्ञा पुं० [सं० पर्यङ्क या पत्यङ्क] [स्त्री० पलकी] पलंग। चारपाई। उ०—(क) अजिर प्रभा तेहि श्याम को पलका पीढायो। आप चली गृह काज को तँह नद बुलायो।—सूर (शब्द०)। (ख) और जो कहो तो तेरो हूँ कै सेवो गाढ़ो बन जो कहो तो चेरी हूँ कै पलकी उसाई दो।—हनुमान (शब्द०)।

पलका—वि० [देश०] चंचल। उ०—भाव भगत नाना विधि कीन्हीं पलका कोन करी।—दक्खिनी०, पृ० २५।

पलक्क—सज्ञा पुं० [हि० पलक] दे० 'पलक'। उ०—हरि सुख एक पलक्क का ता सम कह्या न जाइ।—संतवानी०, पृ० ७६।

पलक्या—सज्ञा पुं० [सं०] पालक का साग। पालक शाक।

पलक—सज्ञा पुं० [सं०] सफेद रंग। श्वेत वर्ण।

पलक—वि० जिसका रंग सफेद हो। श्वेतवर्ण युक्त।

पलकार—सज्ञा पुं० [सं०] रक्त। खून। लहू।

पलखन—सज्ञा पुं० [सं० पलक, प्रा० पलकख] पाकर का पेड़।

पलगंड—सज्ञा पुं० [सं० पलगण्ड] कच्ची दीवार में मिट्टी का लेप करनेवाला। लेपक।

पलचर—सज्ञा पुं० [सं० पल (= मास) + चर (= भक्षण)] १ एक उपदेवता जिसका वर्णन राजपूतों की कथाओं में है। उ०—मिली परस्पर डीठ वीर पगिय रिस अगिय। जगिय जुद्ध विरुद्ध उद्ध पलचर खग खगिय। भगिय सद्य शृगाल काल दै ताल उमगिय। लगिय प्रेत पिशाच पत्र जुगिन लै नगिय। रगिय सुररभादि गण रुद्र रहस आवज घमिय। सन्नाह करहि उच्छाह भट दुहुँ सिरपरह जब भमभमिय।—सूदन (शब्द०)।

विशेष—इसके सबंध में लोगो का विश्वास है कि यह युद्ध में मरे हुए लोगो का रक्त पीता और आनंद से नाचता कूदता है। २ मासभक्षी पक्षी। मास खानेवाले पक्षी।

पलचर—सज्ञा पुं० [सं० पल (= मास) + चर (= भक्षण)] उ०—घरनि घर धुकि घरनि भिरन इद्राजित सरभर। मुक्कि वान रुकि भान परिय सरगन पलचर।—पृ० रा०, २। २८२।

पलटन—सज्ञा स्त्री० [प० बटालियन, फा० घटेलन या अ० प्लैटून] १ अंगरेजी पैदल सेना का एक विभाग जिसमें दो या अधिक कपनियाँ अर्थात् २०० के लगभग सैनिक होते हैं। २ सैनिकों अथवा अन्य लोगो का समूह जो एक उद्देश्य या निमित्त से एकत्र हो। दल। समुदाय। फुड। जैसे, वहाँ की भीड़ भाड़ का क्या कहना पलटन की पलटन खड़ी मालूम होती थी।

पलटना—क्रि० अ० [सं० प्रलोठन अथवा प्रा० पलोठन] किसी वस्तु की स्थिति उलटना। ऊपर के भाग का नीचे या नीचे के भाग का ऊपर हो जाना। उलट जाना। (क्व०)। २ अवस्था या दशा बदलना। किसी दशा की ठीक उलटी या विरुद्ध दशा उपस्थित होना। बुरी दशा का अच्छी में या अच्छी का बुरी में बदल जाना। आमूल परिवर्तन हो जाना।

वायापलट हो जाना। जैसे,—दो साल हुए मैंने तुमको कितना मुझ देना था, पर अग तो तुम्हारी हालत ही पलट गई है।

विरोध—इस अर्थ में यह क्रिया 'जाना' के साथ सदा सयुक्त रहती है, अकेले नहीं प्रयुक्त होती है।

३ अच्छी स्थिति या दशा प्राप्त होना। इष्ट या वाञ्छित दशा आना या मिलना। किसी के दिन फिरना या लौटना। जैसे,—(क) धैर्य रखो, तुम्हारे भी दिन अवश्य पलटेंगे। (ख) वरमो वाद इस घर के दिन पलटे हैं। (ग) आधी रात तक तो उनका पाना बराबर पट रहा इसके बाद जो पलटा तो सारी कसर निकल आई। ४ मुडना। घूमना। पीछे फिरना। जैसे,—मैंने पलटकर देखा तो तुम भी पर पीछे आ रहे थे। ५ लौटना। वापस होना। जैसे,—तुम कलकत्ते से कवतक पलटागे। (कव०)।

पलटना^१—क्रि० स० १ किसी वस्तु की स्थिति को उलटना। किसी वस्तु के निचले भाग को ऊपर या ऊपर के भाग को नीचे करना। उलटी वस्तु को सीधी या सीधी को उलटी करना। उलटना। झीघाना। जैसे,—(किसी वस्तु आदि के लिये) अच्छी तरह तो रखा था, तुमने व्यर्थ ही पलट दिया।

सयो० क्रि०—देना।

२ किसी वस्तु की अवस्था उलट देना। किसी वस्तु को ठीक उसकी उलटी दशा में पहुँचा देना। अवनत को उन्नत या उन्नत को अवनत करना। काया पलट देना। जैसे,—दो ही वर्ष में तुम्हारी प्रवृत्तिलता ने इस गाँव की दशा पलट दी।

विरोध—इस अर्थ में यह क्रिया सदा 'देना' या 'डालना' के साथ मयुक्त होती है, अकेले नहीं आती।

३ फेरना। बार बार उलटना। उ०—देव तेऽत्र गोरों के विलात गात वात लग्, ज्यो ज्यो सीरे पानी पीरे पान नो पलटियत।—देव (शब्द०)। ४ बदलना। एक वस्तु को त्याग कर दूसरी को ग्रहण करना। एक को हटाकर दूसरी को स्थापित करना। उ०—मृगनैनी दग की फरक कर दछाह तन फूल। बिन ही प्रिय आगमन के पलटन लगी दुएन।—विहारी (शब्द०)। ५ बदलना। एक चीज देकर दूसरी लेना। बदले में लेना। बदला करना। (अप्रयुक्त)। उ०—(ब) नरतनु पार विषय मन देही। पलटि सुधा ते सठ विष लेही।—तुलसी (शब्द०)। (ख) ब्रजजन दुखित अति तन छीन। गट इटक चित्र चातक श्यामपन तनु सोन। नाहि पलटत बसन भूपन रगन दीपक तात। मलिन बदन बिनवि रहत जिमि तरनि हीन जल जात।—सूर (शब्द०)। ६ नहीं हुई बात को अस्वीकार कर दूसरी बात कहना। एक बात को प्रत्यक्ष बरके दूसरी कहना। एक बात में मुझकर दूसरी कहना। जैसे,—तुम्हारा क्या ठिकाना, तुम तो रोज ही बहुर पलटा करते हो। ७ लौटना। फेरना। वापस करना। उ०—फिरि फिरि नृपति चलावत बात। नहो मुमत नहीं तोहि पलटी प्राण जीवन कैसे वन जात।—सूर (शब्द०)।

पलटनिया^१—सज्ञा पु० [हि० पलटन + इया (प्रत्य०)]। वह जो पलटन में काम करता हो। सेना का सिपाही। सैनिक। जैसे,—नगर में गोरे पलटनियों का पहरा था।

पलटनिया^२—वि० पलटन में काम करनेवाला। पलटन का। जैसे,—सन् १८६३ के पहले सुपरिस्टेड और प्रसिस्टेड पलटनिये अफसर होते थे।

पलटा—सज्ञा पु० [हि० पलटना] १ पलटने की क्रिया या भाव। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे होने की क्रिया या भाव। घूमने, उलटने या चक्कर खाने की क्रिया या भाव। परिवर्तन।

क्रि० प्र०—देना।—पाना।

मुहा०—पलटा खाना = दशा या स्थिति का उलट जाना। घूमकर या बदलकर विपरीत स्थिति या दशा में पहुँच जाना। चक्कर खाना। उ०—उसके बाद ही न जाने प्रहृचक्र ने कैसा पलटा खाया।—दुर्गाप्रसाद (शब्द०)।

२ बदला। प्रतिफल। जैसे,—उसने अपनी करनी का पलटा पा लिया।

क्रि० प्र०—देना।—पाना।

३ नाव में वह पटरी जिसपर नाव का खेनेवाला बैठता है। ४ गान में जल्दी जल्दी थोड़े से स्वरों पर चक्कर लगाना। गाते समय ऊँचे स्वर तक पहुँचकर खूबसूरती के साथ फिर नीचे स्वरों की तरफ मुडना। ५ लोहे या पीतल की बड़ी खुरचनी जिसका फल चौकोर न होकर गोलाकार होता है। इससे बटलोही में से चावल निकालते और पूरी आदि उलटते हैं। ६ कुशती का एक पेंच।

विशेष—इसमें जब ऊपरवाला पहलवान नीचे पड़े हुए पहलवान की कमर पकड़ता है तब नीचेवाला पट्टा अपने दाहिने पैर के पजे ऊपरवाले की टाँगों के बीच से डालकर उसकी बाईं टाँग को फँसा लेता है और दाहिने हाथ से उसकी बाईं कलाई पकड़कर भटके के साथ अपने दाहिनी ओर मुड जाता है और ऊपर का पहलवान चित्त गिर जाता है।

पलटाना—क्रि० स० [हि० पलटना] १ लौटना। फेरना। वापस करना। उ०—(क) तब सारथि स्यदन पलटावा। लै नरेश के आगे आवा।—सवल (शब्द०)। २ बदलना (अप्रयुक्त)। उ०—काया कचन जतन कराया। बहुत भाँति के मन पलटाया।—कवीर (शब्द०)।

पलटाव—सज्ञा पु० [हि० पलटना] पलटने की क्रिया।

पलटावना^१—क्रि० स० [हि० पलटाना] दे० 'पलटाना'।

पलटी^१—मज्ञा मज्ञा [हि०] १ 'पलटा'।

पलटे^१—क्रि० वि० [हि० पलटा] बदले में। एवज में। प्रतिफल स्वरूप।—उ०—(क) आपु दयो मन फेरि लै, पलटे दीनी पीठ। कौन वानि वह रावरी लाल लुकावत दीठ।—विहारी (शब्द०)। (ख) जे सुर सिद्ध मुनीस योगि बुध वेद पुरान

वखाने । पूजा लेत देत पलटे सुख हानि लाभ अनुमाने ।—
तुलसी (शब्द०) ।

विशेष—असल में यह अव्यय नहीं है बल्कि 'पलटा' सज्ञा का सप्तमी विभक्तियुक्त रूप है । परंतु अन्य बहुत से सप्तम्यत पदों की भाँति इसका भी विना विभक्ति के व्यवहार होने लगा है, इस कारण

पलड़ा^१—सज्ञा पुं० [सं० पटल] तराजू का पल्ला । तुलापट ।

पलथा^१—सज्ञा पुं० [हिं० पलटना] १ कलावाजी । विशेषतः पानी में कलैया मारने की क्रिया या भाव । कलैया मारने की क्रिया या भाव ।

क्रि० प्र०—मारना ।

पलथा^२—सज्ञा पुं० [सं० पर्यस्त, प्रा० पल्लथ] २. द० 'पलथी' ।

पलथी^१—सज्ञा स्त्री० [सं० पर्यस्त, प्रा० पल्लथ] एक आसन जिसमें दाहिने पैर का पजा बाएँ और बाएँ पैर का पजा दाहिने पट्टे के नीचे दबाकर बैठते हैं और दोनों टाँगे ऊपर नीचे होकर दोनों जाँघों से दो त्रिकोण बना देती हैं । स्वस्तिकासन । पालती ।

क्रि० प्र०—मारना ।—लगाना ।

विशेष—जिस आसन में पजों की स्थापना उपर्युक्त प्रकार से न होकर दोनों जाँघों के ऊपर अथवा एक के ऊपर दूसरे के नीचे हो उसे भी पलथी ही कहते हैं ।

पलद—वि० [सं०] मासवर्धक । मास बढ़ानेवाला ।

पलना^१—क्रि० अ० [सं० पालन] १ पालने का अकर्मक रूप । ऐसी स्थिति में रहना जिसमें भोजन वस्त्र आदि आवश्यकताएँ दूसरे की सहायता या कृपा से पूरी हो रही हों । दूसरे का दिया भोजन वस्त्रादि पाकर रहना । भरित पोषित होना । परवरिश पाना । पाला या पोसा जाना । जैसे,—(क) उसी अकेले की कमाई पर सारा कुनवा पलता था । (ख) यह शरीर आपही के नमक से पला है । २ खा पी करके हूँट पुँट होना । मोटा ताजा होना । तैयार होना । जैसे,—(क) आजकल तो तुम खूब पले हुए हो । (ख) यह बकरा खूब पला हुआ है ।

पलना^२—क्रि० सं० [देश०] कोई पदार्थ किसी को देना । (दलाल) ।

पलना^३—सज्ञा पुं० [सं० पल्लव] २० पालना । उ०—एक बार जननी अन्हवाए । करि सिंगार पलना पोडाए ।—मानस, १।२०।१ ।

पलनाना^१—क्रि० सं० [हिं० पलान (= जीन)+ना (प्रत्य०)] घोड़े पर जीन कसकर उसे चलने के लिये तैयार करना । घोड़े को जोतने या चलाने के लिये तैयार करना । कसना । उ०—भोर भयो ब्रज ब्रज लोगन को । ग्वाल सखा सखि व्याकुल सुनि के श्याम चलत हैं मधुवन को । सुफलकसुत स्यदन पलनावत देखें तहँ बल मोहन को ।—सूर (शब्द०) (ख) गहर जनि लावहु गोकुल आइ । अपनोई रथ तुरत मँगायो दियो तुरत पलनाइ ।—सूर (शब्द०) ।

पलप्रिय^१—वि० [सं०] मांसभक्षी । मांस खाकर रहनेवाला ।

पलप्रिय^२—सज्ञा पुं० १ डोम कौआ । द्रोण काक । २ दानव । राक्षस (को०) ।

पलभक्षी—वि० [सं० पलभक्षिन्] [वि० स्त्री० पलभक्षिणी] मासाहारी । मांसभक्षी ।

पलभच्छ^१—सज्ञा पुं० [सं० पल = (मांस) + भक्ष, प्रा० भच्छ] वह जिसका भक्ष्य पल हो, सिंह । उ०—मृगपति द्वीपी व्याघ्र पुनि पचानन पलभच्छ ।—अनेकार्थ०, पृ० ६६ ।

पलभच्छ^२—सज्ञा पुं० [सं० पलभक्ष] सिंह ।

पलभा—सज्ञा स्त्री० [सं०] घूपघड़ी के शकु की उस समय की छाया की चौड़ाई जब मेष संक्राति के मध्याह्न में सूर्य ठीक विपुवत् रेखा पर होता है । पलविभा । विपुवत्प्रभा ।

पलरा—सज्ञा पुं० [सं० पटल] दे० 'पलडा' । उ०—पत्र एक पर राम लिखाना । पलरा माहि घरा तेहि नाना ।—घट०, पृ० २२७ ।

पल्ल^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ मांस । २ कीचड़, गिलावा या गाव । ३. तिल का घूर्ण । ४ तिल और गुड़ अथवा चीनी के योग से बनाया हुआ लड्डू, कतरा आदि । तिलकुट । ५ तिल का फूल । ६ राक्षस । ७ सिवार । शौवाल । ८ पत्थर । ९. मल । मँल । गदगी । १० दूध । ११ वल । १२ शव । लाश ।

पल्ल^२—वि० पुलपुला या पिलपिला । गीला और मुलायम ।

पल्लञ्जर—सज्ञा पुं० [सं०] पित्त ।

पल्लप्रिय^१—वि० [सं०] मांसभक्षी । मांस खाकर रहनेवाला ।

पल्लप्रिय^२—सज्ञा पुं० द्रोण काक । डोम कौआ । २ राक्षस । दानव (को०) ।

पल्लाशय—सज्ञा पुं० [सं०] १ कोडा । गडरोग । २ अजीर्ण । बदहजमी ।

पलव^१—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का भाव जिसमें मछलियाँ फँसाई जाती हैं ।

पलव^२—सज्ञा पुं० [सं० प्लव] दे० 'प्लव' । उ०—उडप पोत नौका पलव तरि वहिन्न जलजान —अनेकार्थ०, पृ० ५१ ।

पलवल—सज्ञा पुं० [देश०] दे० 'परवल' ।

पलवा^१—सज्ञा पुं० [सं० पल्लव] १ ऊख के ऊपर का नीरस भाग जिसमें गाँठें पास पास होती हैं । अगौरा । कौवा । २ ऊख के गाँठे जो बोलने के लिये पाल में लगाए जाते हैं । ३ एक घास जिसको भैंस बड़े चाव से खाती है । यह हिसार के आस पास पजाव में होती है । पलवान ।

पलवा^२—सज्ञा पुं० [सं० पल्लव] अजुली । चुल्हा । उ०—पीवत नहीं अघात छिन नहीं कहत वने न । पलवो के वाँधे रहै छवि रस प्यासे नैन ।—रसनिधि (शब्द०) ।

पलवान—सज्ञा पुं० [सं० पल्लव] दे० 'पलवा' ।

पलवाना—क्रि० सं० [हिं० पालना का प्रे० रूप] किसी से पालन

कराना । पालन मे किसी को प्रवृत्त करना । उ०—(क) बड़े यत्न से उन्हें पलवावे ।—लल्लू (शब्द०) । (ख) लेति पखेरु आन ते कोइलिया पलवाय ।—शकुतला, पृ० ६४ ।

पलवार^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पल्लव] ईख बोने का एक ढग जिसमें श्लेषुए निकलने के बाद खेत को रूखे पत्तों, रहट्टों आदि से अच्छी तरह ढक देते हैं । नगरवा ।

विशेष—इस तरह ढकने से खेत की तरी बनी रहती है जिससे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती । करेली या काली मिट्टी में यही ढग बरता जाता है । अन्यत्र भी यदि सींचने का सुभीता या आवश्यकता न हो तो इसी ढग को काम मे लाते हैं ।

पलवार^२—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पाल + वार (प्रत्य०)] एक प्रकार की बड़ी नाव जिसपर माल असवाव लादकर भेजते हैं । पटैला ।

पलवारी^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पलवार + ई (प्रत्य०)] नाव खेनेवाला मल्लाह ।

पलवाला^१—वि० [सं० पल (= मास) + वाल (प्रत्य०)] हूष्ट पुष्ट । बलवान् ।

पलवैया^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पालना + वैया (प्रत्य०)] पालन करनेवाला । भरण पोषण करनेवाला । खिलाने पिलानेवाला । पालक ।

पलस—सञ्ज्ञा पुं० [म०] दे० 'पनस' [को०] ।

पलस्तर—सञ्ज्ञा पुं० [अ० प्लास्टर मि० सं० पल (= कीचड़ या गिलावा) + स्तर (= तह)] मिट्टी, चूने आदि के गारे का लेप जो दीवार आदि पर उसे बराबर सीधी और सुडोल करने के लिये किया जाता है ।

क्रि० प्र०—करना ।

मुहा०—पलस्तर ढीला करना = (१) तग करना । नसँ ढीली कर देना । (२) गिलावा को अधिक पतला कर देना । पलस्तर बिगाड़ना या बिगाड़ जाना = दे० 'पलस्तर ढीला होना । पलस्तर बिगाड़ना या बिगाड़ देना = दे० 'पलस्तर ढीला करना' । पलस्तर ढीला होना = तग होना । नसँ ढीली हो जाना ।

पलस्तरकारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पलस्तर + कारी] पलस्तर करने या किए जाने की क्रिया या भाव । पलस्तर करने या होने का काम ।

पलहना^१—क्रि० अ० [सं० पल्लवन] पल्लवित होना । पल्लव फूटना । पनपना । लहलहाना । उ०—(क) प्रीति बेल ऐसे तन ढाड़ा । पलहत सुख बाढत दुख बाड़ा ।—जायसी (शब्द०) । (ख) वही भाँति पलही सुखवारी । उठी करलि नइ कोप सँवारी ।—जायसी (शब्द०) ।

पलहलना—क्रि० अ० [हि० पल्लहना] प्रफुल्ल होना । प्रसन्न होना । उ०—मलहलत मुकट भृकुटी कखर । पलहलत नेत्र आरक्त मूर ।—ह० रासो, पृ० ११ ।

पलहा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पल्लव] पल्लव । कोमल पत्त । कोंपल ।

उ०—पियर पात दुप भरे निपाते । सुख पलहा उपने होय राते ।—जायसी । (शब्द०) ।

पलांग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पलाङ्ग] सूँस । शिशुमार ।

पलांडु—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पलाण्डु] प्याज ।

पलाँण—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पलान] दे० 'पलान' । उ०—सहज पलाँण पवन करि घोडा लँ लगाम चित्त चवका । चेतनि असवार ग्यान गुरू करि और तजी सब ढवका ।—गोरख०, पृ० १०३ ।

पला^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पल] पल । निमिप ।

पला^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पटल] १ तराजू का पलडा । पल्ला । उ०—वरुनी जोती पल पला, डाँडी भौँह श्रमूप । मन पसग तोले सुदग, हरुवी गरुवी रूप ।—रसनिधि (शब्द०) । २. पल्ला । आँचल । उ०—समुक्ति वृक्ति दृढ़ हँ रहै, बल तजि निर्बल होय । कह कवीर ता सत को पला न पकडै कोय ।—कवीर (शब्द०) । ३. पार्श्व । किनारा । उ०—नासिक पुल सरात पथ चला । तेहि कर भौँहँ है दुइ पला ।—जायसी (शब्द०) ।

पला^३—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पली] तेल की पली ।

पलाग्नि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पित्त ।

पलाणि—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पलयाण] दे० 'पलान' । उ०—दादू करह पलाणि करि को चेतन चढि जाइ । मिलि साहिब दिन देवता, साँभ पडेँ जनि आइ ।—दादू०, पृ० ३६२ ।

पलातक—वि० [सं० पलायक] भडोगा । भागनेवाला । दौडता हुप्रा । उ०—मोटर की मुडती रोशनी के पलातक आलोक मे उसने चाँककर और लजाकर देखा ।—नदी०, पृ० १६५५ ।

विशेष—व्याकरण की दृष्टि से यह शब्द अग्युत्पन्न है ।

पलाद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पल (= मांस) + थद्] राक्षस ।

पलादन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ उह जो मांसभक्षी हो । २ राक्षस ।

पलान—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पलयाण या पलययन मि० फा० पालान] गद्दी या चारजामा जो जानवरों की पीठ पर लादने या चढ़ाने के लिये कसा जाता है । उ०—(क) हरि घोडा भ्रहा कडो, वासुकि पीठ पलान । चाँद सुरज दोउ पायडा चढसी सत सुजान ।—कवीर (शब्द०) । (ख) वर्षा गयो अगस्त्य की डीठी । परे पलान तुरगन पीठी ।—जायसी (शब्द०) ।

क्रि० प्र०—कसना ।—बाँधना ।

पलानना^१—क्रि० सं० [हि० पलान + ना (प्रत्य०)] १ घोड़े आदि पर पलान कसना । गद्दी या चारजामा कसना या बाँधना । उ०—उए अगस्त हस्ति तन गाजा । तुरत पलान चढै रन राजा ।—जायसी (शब्द०) । २ चढाई की तैयारी करना । धावा करने के लिये तैयार या सन्नद्ध होना । उ०—(क) मो पर पलानत है बल को न जानत है, अगद । बिना ही आग या ही ते जरत हँ ।—हनुमान (शब्द०) (ख) भव मोहि कछू समझो न परे भई काहे को काल पलानत है ।—हनुमान (शब्द०) ।

- पलाना^१—क्रि० अ० [सं० पलायन] भागना । पलायन करना ।
- पलाना^२—क्रि० सं० पलायन कराना । भगाना । उ०—जरासघ इन बहुत वारही करि सग्राम पलायो । ताको पल कछु नहि मान्यो मथुरा मे चलि आयो ।—सूर (शब्द०) ।
- पलानि^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पलान] दे० 'पलान' ।
- पलानी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पलान] १ छप्पर । २ पान के आकार का एक गहना जिसे स्त्रियाँ पैर मे पजे के ऊपर पहनती हैं । ३ दे० 'पलान' ।
- पलान्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चावल और मांस के मेल से बना हुआ भोजन । पुलाव ।
- पलाप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ हाथी का गडस्थल । हाथी का कपोल, कनपटी आदि । २ वधन । पगहा (को०) ।
- पलायक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भागनेवाला । भगू ।
- पलायन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भागने की क्रिया या भाव । भागना ।
यौ०—पलायनवाद = जीवन की कठिनाइयो से भागने की प्रवृत्ति । पलायनवादी = पलायनवाद को प्रश्रय देनेवाला ।
- पलायमान - वि० [सं०] भागता हुआ । पलायन करता हुआ ।
- पलायित—वि० [सं०] भागा हुआ ।
- पलायी—वि० [सं० पलायिन्] दे० 'पलायक' ।
- पलाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ धान का खूना डठल । पयाल । पुआल । २ अन्य किसी धान्य या पौधे का खूना डठल । तृण । तिनका ।
- पलालदोहद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] आम का पेड़ ।
- पलाला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] उन सात राक्षसियो मे से एक जो लडको को बीमार करनेवाली मानी जाती हैं ।
- पलालि, पलाली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] मांसराशि । गोष्ठ की ढेरी (को०) ।
- पलाव—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पूला] पूला नामक वृक्ष जिसके रेशों से रस्से बनते हैं । वि० दे० 'पूला' ।
- पलाश^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पलास । ढाक । टेसू । २ पत्र । पत्ता । ३ राक्षस । ४ कचूर । ५ मगध देश । ६ शासन । ७ परिभाषण ८ एक पक्षी । ९ विदारी कद । १० पलाश का पुष्प (को०) । ११ हरा रंग (को०) । १२ किसी तेज शस्त्र का फल (को०) ।
- पलाश^२—वि० १ मांसाहारी । २ निर्दय । ३ हरित । हरा ।
- पलाशक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पलाश । ढाक । २ टेसू । किसुक । पलास का फूल । ३ कपूर । ४ लाख । लाक्षा ।
- पलाशगधञ्जा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पलाशगन्धञ्जा] एक प्रकार का वशलोचन ।
- पलाशच्छदन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] तमालपत्र ।
- पलाशतरुज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पलास का कोमल पत्ता । पलास की कोपल ।
- पलाशन्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मैना । सारिका ।

- पलाशपर्णी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] अश्र्वगघा । असगघ ।
- पलाशपुट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पलाश के पत्ते का बना दोना (को०) ।
- पलाशांवा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पलाशान्ता] वनकचूर । गधपत्रा ।
- पलाशाख्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नाडी हीग ।
- पलाशिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] विदारी कद ।
- पलाशिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ शुक्तिमान् पर्वत से निकली हुई एक नदी । २ रेवतक पर्वत से निकली हुई एक नदी ।
- पलाशी^१—वि० [सं० पलाशिन्] १ मासाहारी । मास खानेवाला । २ पत्र विशिष्ट । पत्रयुक्त ।
- पलाशी^२—सञ्ज्ञा पुं० १ राक्षस । २ एक फल । क्षीरिका । खिरनी । ३ कचूर । शठी ।
- पलाशी^३—सञ्ज्ञा स्त्री० १ कचरी । २ लाख ।
- पलाशीय—वि० [सं०] पत्रयुक्त । पत्र विशिष्ट ।
- पलास—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पलाश] प्रसिद्ध वृक्ष जो भारतवर्ष के सभी प्रदेशों और सभी स्थानों में पाया जाता है । पलाश । ढाक । टेसू । केसू । धारा । काँवरिया । उ०—प्रफुलित भए पलास दसौं दिंसि दव सी दहकत ।—ब्रज० ग्र०, पृ० १०१ ।
- विशेष—पलास का वृक्ष मैदानों और जगलो ही मे नही, ४००० फुट ऊँची पहाडियों की चोटियों तक पर किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है । यह तीन रूपों में पाया जाता है—वृक्ष रूप मे, क्षुप रूप मे और लता रूप में । बगीचों मे यह वृक्ष रूप में और जगलों और पहाडों में अधिकतर क्षुप रूप मे पाया जाता है । लता रूप मे यह कम मिलता है । पत्ते, फूल और फल तीनों भेदों के समान ही होते हैं । वृक्ष बहुत ऊँचा नहीं होता, मझोले आकार का होता है । क्षुप झाडियों के रूप मे अर्थात् एक स्थान पर पास पास बहुत से उगते हैं । पत्ते इसके गोल और बीच में कुछ नुकीले होते हैं जिनका रंग पीठ की ओर सफेद और सामने की ओर हरा होता है । पत्ते सीकों मे निकलते है और एक मे तीन तीन होते हैं । इसकी छाल मोटी और रेशेदार होती है । लकडी बडी टेढ़ी भेडी होती है । कठिनाई से चार पाँच हाथ सीधी मिलती है । इसका फूल छोटा, अर्धचन्द्राकार और गहरा लाल होता है । फूल को प्राय टेसू कहते हैं और उसके गहरे लाल होने के कारण अन्य गहरी लाल वस्तुओं को 'लाल टेसू' कह देते हैं । फूल फागुन के अंत और चैत के आरंभ में लगते हैं । उस समय पत्ते तो सबके सब झड जाते हैं और पेड़ फूलों से लद जाता है जो देखने में बहुत ही भला मालूम होता है । फूल झड जाने पर चौडी चौडी फलियाँ लगती हैं जिनमें गोल और चिपटे बीज होते हैं । फलियों को 'पलास पापडा' या 'पलास पापडी' और बीजों को 'पलास-बीज' कहते हैं । इसके पत्ते प्राय पत्तल और दोने आदि के बनाने के काम आते हैं । राजपूताने और बगाल में इनसे तवाकू की बीडियाँ भी बनाते हैं । फूल और बीज औषधिरूप मे व्यवहृत होते हैं । बीज मे पेट के कीड़े मारने का गुण

विशेष रूप से है। फूल को उवालने से एक प्रकार का ललाई लिए हुए पीला रंग भी निकलता है जिसका खासकर होली के अवसर पर व्यवहार किया जाता है। फली की बुकनी कर लेने से वह भी अवीर का काम देती है। छाल से एक प्रकार का रेशा निकलता है जिसको जहाज के पटरो की दरारों में भरकर भीतर पानी आने की रोक की जाती है। जड़ की छाल से जो रेशा निकलता है उसकी रस्सियाँ बटी जाती हैं। दरी और कागज भी इसमें बनाया जाता है। इसकी पतली डालियों को उवालकर एक प्रकार का कत्था तैयार किया जाता है जो कुछ घटिया होना है और बगाल में अधिक खाया जाता है। मोटी डालियों और तनों को जलाकर कांयला तैयार करते हैं। छाल पर बछने लगाने से एक प्रकार का गोद भी निकलता है जिसको 'चुनियाँ गोद' या पलास का गोद कहते हैं। वैद्यक में इसके फूल को स्वादु, कडवा, गरम, कसीला, वानवर्धक, शीतज, चरपरा, मलरोधक, तृषा, दाह, पित्त, कफ, रुधिरविकार, कुष्ठ और मूत्रकृच्छ्र का नाशक, फल को रुखा, हलका, गरम, पाक में चरपरा, कफ, वात, उदररोग, कृमि, कुष्ठ, गुल्म, प्रमेह, वनामीर और शूल का नाशक, बीज को म्लिग्ध, चरपरा, गरम, कफ और कृमि का नाशक और गोंद को मलरोधक, ग्रहणी, मुखरोग, खाँसी और पसीने को दूर करनेवाला लिखा है।

यह वृक्ष हिंदुओं के पवित्र माने हुए वृक्षों में से है। इसका उल्लेख वेदों तक में मिलता है। श्रौतसूत्रों में कई यज्ञ-पात्रों के इसी की लकड़ी से बनाने की विधि है। गृह्यसूत्र के अनुसार उपनयन के समय में ब्राह्मणकुमार को इसी की लकड़ी का दंड ग्रहण करने की विधि है। वसत में इसका पत्रहीन पर लाल फूलों से लदा हुआ वृक्ष अत्यंत नेत्रसुखद होता है। संस्कृत और हिंदी के कवियों ने इस समय के इसके सौंदर्य पर कितनी ही उत्तम उत्तम कल्पनाएँ की हैं। इनका फूल अत्यंत सुंदर तो होता है पर उसमें गंध नहीं होती। इस विशेषता पर भी बहुत सी उक्तियाँ कही गई हैं।

पर्याय—किसुक। पर्या। याज्ञिक। रक्तपुष्पक। चारश्रेष्ठ। वात-पोथ। ब्रह्मवृक्ष। ब्रह्मवृक्षक। ब्रह्मोपनेता। समिद्धर। करक। त्रिपत्रक। ब्रह्मपादप। पलाशक। त्रिपर्या। रक्तपुष्प। पुतद्रु। काष्ठद्रु। बीजस्नेह। कृमिघ्न। वक्रपुष्पक। सुपर्णी।
२ एक मात्साहारी पक्षी जो गीघ की जाति का होता है।

पलास^२—सज्ञा पुं० [अ० स्फ्लाइस] वह गाँठ जो दो रस्सियों या एक ही रस्सी के दो छोरों या भागों को परस्पर जोड़ने के लिये दी जाय। (लश०)।

फि० प्र०—करना।

पलास^३—सज्ञा पुं० [?] कनवास नाम का एक मोटा कपड़ा। वि० दे० 'कनवास'।

पलासना—प्रि० सं० [दे०] सिल जाने के बाद जूते को षाट

छाँटकर ठीक करना। जूते का फालतू चमड़ा आदि काटना।

पलास पापड़ा—सज्ञा पुं० [हिं० पलास+पापड़ा] १ पलास की फली जो श्रौपघ के काम में आती है। पलास पापड़ी। ढकपन्ना। वि० दे० 'पलास'।

पलास पापड़ी—सज्ञा स्त्री० [हिं० पलास+पापड़ी] दे० 'पलास पापड़ा'।

पलाहना†—सज्ञा पुं० [सं० पलायन] पीछे की ओर हटना। भय, आकस्मिक आघात से पीछे भागना। पलायन करना।
उ०—मुख जोधइ दीवाचरी पाछउ करइ पलाह। मारू दीठी सास विण मोटी मेल्हइ घाह।—ढोला०, दू० ६०६।

पलिंजी—सज्ञा स्त्री० [दे०] एक घास जिसके दानों को दुग्ध के दिनों में अकसर गरीब लोग खाते हैं।

पलिक—वि० [सं०] जो तोल में एक पल हो। एक पल या पल भर (कोई पदार्थ)।

पलिका^१—सज्ञा पुं० [सं० पर्यङ्क, पत्यङ्क, प्रा० पलिश्रक, पल्लक] दे० 'पलका'। उ०—नवल वाल पलिका परी, पलक न लागन नैन।—मति० प्र०, पृ० ३०४।

पलिका^२—सज्ञा स्त्री० [सं०] तेल निकालने की डाँडीदार बेलिया। पली।

विशेष—सम्बत् १००३ के सियादानी शिलालेख में यह शब्द आया है। वि० दे० 'घ्राणक'।

पलिकनी^१—सज्ञा स्त्री० [म०] वह गाय जो पहली ही बार गामिन हुई हो।

पलिकनी^२—वि० (स्त्री) जिसके बाल पक गए हो। बुढ़ी (वैदिक)।

पलिघ—सज्ञा पुं० [सं०] १ काँच का घड़ा। करावा। २. घड़ा। ३ प्रकार। चारदीवारी। ४ गोपुर। फाटक। ५ अगरी या ब्योँडा। अर्गल। ६ 'परिघ'। ६ गोशाला। गोगृह (को०)।

पलितंकरण—सज्ञा पुं० [सं० पलितङ्करण] पलित करनेवाला। श्वेत बनानेवाला [स्त्री०]।

पलित^१—वि० [म०] [प्रि० स्त्री० पलिता] २ वृद्ध। बुढ़ा। २ पका हुआ (केश)। सफेद (वाल)। उ०—पलित वृद्ध के शीश पर सो तो पलित न पेख। गई जवानी भजन विन वानी परी विशेष।—राम० धर्म०, पृ० ७७।

पलित^२—सज्ञा पुं० १ सिर के बालों का उजला होना। बाल पकना। २ वैद्यक के अनुसार एक क्षुद्र रोग जिसमें क्रोध, शोक और श्रम के कारण शारीरिक अग्नि और पित्त सिग् पर पहुँचकर वहाँ के बालों को वृद्ध होने के पहले उजला कर देते हैं। ३ शूलज। भूरि छरीसा। ४ ताप। गरमी। ५ कर्दम। कीचड। ६ गुग्गुलु। ७ मिर्च। ८ केश पाश (को०)।

पलितग्रह—सज्ञा पुं० [मं०] तगर। गुलचाँदनी।

पलितो—वि० [सं० पलित्तिन्] जिसको पलित रोग हुआ हो। पलित रोगयुक्त। पके बालोवाला।

पल्लिया—सज्ञा पुं० [देश०] पशुओं का एक रोग जिसमें उनका गला फूल जाता है। घटेरुआ।

पल्लिहरा—सज्ञा पुं० [सं० परिहर (= छोड़ देना, बचा देना, बचा रखना)] वह खेत जिसमें चैती फसल में कोई जिस बोने के लिये अगहनी या भदई फसल में कुछ न बोया जाय और जो केवल जोतकर छोड़ दिया जाय। वह खेत जो बरसात में बिना कुछ बोए केवल जोतकर छोड़ दिया गया हो। चौमासा।

क्रि० प्र०—छोड़ना।—रखना।

विशेष—ईख, शकरकंद, गेहूँ, अफीम, आदि बोने के लिये प्रायः ऐसा करते हैं। अन्य धान्यों के लिये बहुत कम पल्लिहर छोड़ते हैं।

पली—सज्ञा स्त्री० [सं० पल्लिघ] तेल, घी, आदि द्रव पदार्थों को बड़े बरतन से निकालने का लोहे का उपकरण। इसमें छोटी करछी के बराबर एक कटोरी होती है जो एक खड़ी घुडी से जुड़ी होती है।

मुहा०—पली पली जोड़ना = थोड़ा थोड़ा करके सचय या सग्रह करना। पैसा पैसा जोड़कर धन एकत्र करना। उ०—मिर्यां जोड़े पली पली खुदा ७ ढावें कुप्पा।—(कहावत)।

पलीत^१—सज्ञा पुं० [सं० प्रेत। मि०फा० पलीद] भूत। प्रेत। शैतान।

पलीत^२—वि० [फा० पलीद] १ दुष्ट। पाजी। २ धूर्त। चालाक। काइयाँ। ३ घृणास्पद। गदा। अपवित्र। निम्न। उ०—देव पितर इन सूँ डरै, रसक तरै किरा रीत। हेम रजत पातर हरै, पातर करै पलीत।—वांकी० ग्र०, भा० २, पृ० ४।

पलीता^१—सज्ञा पुं० [फा० पलीतह] १ बत्ती के आकार में लपेटा हुआ वह कागज जिसपर कोई मन्त्र लिखा हो।

विशेष—इस बत्ती की धूनी प्रंतग्रन्थ लोगों को दी जाती है।

क्रि० प्र०—जलाना।—सुँघाना।—सुलगाना।

२ बरगेह (वगेह) को कूट और बटकर बनाई हुई वह बत्ती जिससे बूक या तोप के रजक में आग लगाई जाती है। उ०—(क) काल तोपची, तुपक महि दारु अनय कराल। पाय पलीता कठिन गुच गोला पुहमी पाल।—तुलसी (शब्द०)। (ख) जलधि कामना वारि दास भरि तडित पलीता देत। गर्जन श्री तर्जन मानो जो पहरक में गड लेत। सूर (शब्द०)।

क्रि० प्र०—दागना।—देना।

मुहा०—पलीता चाटना = भडककर बल उठाना। जल उठाना। (कव०)।

यौ०—पलीता दानी = पलीता देने या रखनेवाला। बंदूक या तोप के रजक की बत्ती में आग लगानेवाला। उ०—रजक-६-२२

दानी, सिंगहा, तुलि पलीतादानी।—प्रेमघन०, भा० १, पृ० १३।

३. एक विशेष प्रकार की कपड़े की बत्ती, जिसे कही कहीं पन-शाखे पर रखकर जलाते हैं।

क्रि० प्र०—जलाना।

पलीता^२—वि० १ बहुत क्रुद्ध। क्रोध से लाल। आग बबूला।

क्रि० प्र०—करना।—होना।

२ तेज दौड़ने या भागनेवाला। द्रुतगामी।

पलीती^१—सज्ञा स्त्री० [हि० पलीता] बत्ती। छोटा पलीता।

पलीती^२—सज्ञा स्त्री० [फा० पलीद] गदगी। बुराई। अपवित्रता। उ०—बाहरो पाक कीते की होदा, जो अदरो न गई पलीती।—सतवानी०, पृ० १५३।

पलीद^१—वि० [फा०] १ अशुचि। अपवित्र। गदा।

मुहा०—(किसी की) मिट्टी पलीद करना = किसी का सम्मान नष्ट करना। किसी की इज्जत उतारना।

२ घृणास्पद। ३. नीच। दुष्ट। उ०—इस पलीद से बिना छेड़े कब रहा जाता था।—शिवप्रसाद (शब्द०)।

पलीद^२—सज्ञा पुं० [सं० प्रेत, परेत हि० परीत, पलीत] भूत। प्रेत।

पलुआ^१—सज्ञा पुं० [देश०] सन की जाति का एक पौधा।

पलुआ^२—सज्ञा पुं० [हि० पल्लना+उआ (प्रत्य०)] पालतू। पाला हुआ।

पलुहना (पु)†—क्रि० अ० [सं० पल्लव] पल्लवित होना। पत्रयुक्त होना। हरा भरा होना। उ०—(क) भोर होत तब पलुह सरीरु। पाय घुमरहा सीतल नीरु।—जायसी (शब्द०)। (ख) पुनि ममता जवास बहुताई। पलुहइ नारि सिसिर ऋतु पाई।—तुलसी (शब्द०)।

पलुहाना (पु)†^१—क्रि० अ० [हि० पलुहना] पल्लवित होना। पलुहना। उ०—जस मुई बहि असाढ़ पलुहाई। परहि बूँद श्री सोधि बसाई।—जायसी ग्र०, पृ० १८७।

पलुहाना (पु)†^२—क्रि० अ० [हि० पलुहना] पल्लवित करना। हरा भरा करना। उ०—कवहुँक कपि राघव आर्वाहिगे। विरह अग्नि जरि रही लता ज्यो कृपादृष्टि जल पलुहावहिगे।—तुलसी (शब्द०)। (ख) फठ लाइ कै नारि मनाई। जरी जो वेलि सीचि पलुहाई।—जायसी ग्र०, पृ० १८६।

पल्लचना—क्रि० स० [हि० पल्लना] देना। (दल्लाल)।

पलेक—क्रि० वि० [सं० पल + हि० एक] एक पल। क्षण भर। जरा सी देर। उ०—भारे दुख सारे ये बिलावेंगे पलेक माँझ प्यारी कहि मोको प्यार करिके बुलावेंगे।—नट०, पृ० ६८।

पलेट—सज्ञा स्त्री० [अ० प्लेट] १ लची पट्टी। पटरी। २ कपड़े की वह पट्टी जो कोट, कुरते आदि में नीचे की ओर

उनके किसी विशेष अणु को बड़ा या सुंदर बनाने के लिये लगाई जाय। पट्टी। जैसे, कुरते का पलेट, कमीज का पलेट।

पलेटन—सज्ञा पुं० [अ० प्लेटन] छापे के यंत्र में लोहे का वह चिपटा भाग जिसके दबाव से कागज आदि पर अक्षर छपते हैं।

पलेटनारी—क्रि० सं० [देश०] पहनाना। उ०—जूटे खेटी मोख पद, माल पलेटा रभ।—रा० रू०, पृ० ४३।

पलेड़ना—क्रि० सं० [सं० प्रेरणा] ढकेलना। धक्का देना। उ०—तू अलि कहा परचो केहि पैडे। या आदर पर भ्रजहूँ वैठो टरत न सूर पलेडे।—सूर (शब्द०)।

पलेथन—सज्ञा पुं० [सं० परिस्तरण (= लपेटना)] १ वह सूखा आटा जिसे रोटी बेलने के समय इसलिये लोई पर लपेटते और पाटे पर बखेरते हैं कि गीला आटा हाथ या बेलन आदि में न चिपके। परथन।

क्रि० प्र०—निकालना।—लगाना।

मुहा०—पलेथन निकलना = (१) खूब मार पठना या खाना। भुरकुस निकलना। कबूतर निकलना। (२) परेशान होना। तग होना। हार जाना। पलेथन निकालना = (१) खूब मारना या ठोंकना। पीटना। कबूतर निकालना। (२) तग करना। परेशान करना। बुरा हाल करना।

२ किसी हानि या अपकार के पश्चात् उसी के संबंध से होनेवाला अनावश्यक व्यय। किसी वडे खर्च के पीछे होनेवाला छोटा पर फजूल खर्च। जैसे,—माल तो चोरी गया ही था, सहकीकात कराने में १००) और पलेथन लगा।

क्रि० प्र०—देना।—लगाना।

पलेनर—सज्ञा पुं० [अ० प्लेनर] काठ का एक वह छोटा चिपटा टुकड़ा जिससे प्रेस में कसे हुए फरमे के उभरे हुए टाइपों को बराबर करते हैं।

विशेष—काठ के इस समतल टुकड़े को कसे फरमे के ऊपर रखकर काठ के हथोड़े से धीरे धीरे कई बार ठोकते हैं जिससे उभरे हुए अक्षर दबकर बराबर हो जाते हैं।

पलेना—सज्ञा पुं० [अ० प्लेन] दे० 'पलेनर'।

पलेव—सज्ञा पुं० [देश०] १. पल्लिहर की वह सिचाई या छिहकाव जिसे बोने के पहले तरी की कमी के कारण करते हैं। हलकी सिचाई। पटकन। २. सूस। शोरवा। ३. आटा या पिसा हुआ चावल जो शोरवे में उसे गाढ़ा करने के लिये डाला जाता है। जहाँ मसाला नहीं या कम डालना होता है वहाँ इसको डालकर काम चलाते हैं।

पलोटना—क्रि० सं० [सं० प्रलोठन] १. पैर दबाना या दाबना। उ०—(क) तीन लोक नारी को कहियत जो दुर्लभ बल वीर। कमला हैं नित पायें पलोटत हम तो हैं आभीर।—सूर (शब्द०)। (ख) ते दोध बधु प्रेम जनु जीते। गुरु पद कमल पलोटत प्रीते।—तुलसी (शब्द०)। †२. दे० 'पलटना'।

पलोटना—क्रि० सं० [हि० पलटना] १. घट्ट से लोटना पाटना। तडफडाना। उ०—सेज पढ़ी सफरी सी पलोटत ज्यों ज्यों घटा घन की गरजै री।—पद्माकर (शब्द०)। २. लोटना पोटना। लोट पोट करना।

पलोथन—सज्ञा पुं० [सं० परिस्तरण, हि० पलेथन] दे० 'पलेथन'।

पलोचना—क्रि० सं० [सं० प्रलोठन] १. पैर दबाना। पैर मलना। उ०—चरण कमल नित रमा पलोचै। चाहत नेक नेन भगि जोवै।—सूर (शब्द०)। २. सेवा करना। किसी को प्रसन्न करने का उपाय करना। उ०—प्रथम चरण कमल को ध्यावै। तामु महातम मन में लावै। गंगा परसि इनहि को भई। शिव शिवता इन ही सो लई। लटमी इनको सदा पलोचै। वारवार प्रीति को जोवै।—सूर (शब्द०)।

पलोसना—क्रि० सं० [सं० स्पर्शन, हि० परसना] १. धोना। उ०—अटसठ तीर्थ निदक न्हाय। देह पलोसे मैन न जाय। कवीर (शब्द०)। २. मीठी मीठी बातें करके गाहक को ढग पर लाना। तरह तरह की बातें करके गाहक या शिवार फँसाना। (दलाल)।

पलौ—सज्ञा पुं० [सं० पल्लव] किमलय। बोपल। पल्लव। उ०—दए न लेइ टग ओर करि अजन। पलो श्रोत जनु फरकहि खजन।—हिंदी प्रेमगाथा, पृ० १६७।

पलटन—सज्ञा स्त्री० [अ० प्लेटन] दे० 'पलटन'।

पलटा—सज्ञा पुं० [हि० पलटना] दे० 'पलटा'।

पलथी—सज्ञा स्त्री० [सं० पर्यस्ति, प्रा० पल्लथि] दे० 'पलथी'।

पल्यक—सज्ञा पुं० [सं० पल्यक] पलग। खाट।

पल्यंग—सज्ञा पुं० [सं० पल्यङ्ग] दे० 'पल्यक'। उ०—गज वचन सुणि राज कुंमार पल्यंग छोडि घरती पडी नारि।—धी० रासो, पृ० ५०।

पल्यथन—सज्ञा पुं० [सं०] घोड़े की पीठ पर विछाने की गद्दी। पलान।

पल्ल—सज्ञा पुं० [सं०] १. अन्न रखने का स्थान। बखार। कोठार। २. पाल जिसमें पकने के लिये फल रखे जाते हैं।

पल्लड़—सज्ञा पुं० [देश०] प्रवाह। भोका। थपेडा। उ०—लहरो के एक पल्लड़ को चीरा, उसपर के भाग को वेधा कि दूसरा सामने। शब्दमय प्रवाह की निरर्थक भाषा मानो बार बार कहती थी, वचो वचो।—भाँसी०, पृ० २६५।

पल्लव—सज्ञा पुं० [सं०] १. नए निकले हुए कोमल पत्तों का समूह या गुच्छा। टहती में लगे हुए नए नए कोमल पत्तों जो प्रायः लाल होते हैं। कोपल। कल्ला। उ०—नव पल्लव भए विटप अनेका।—तुलसी (शब्द०)।

पर्या०—किशलय। किसलय। नवपत्र। प्रवाल। बल। किसल।

विशेष—हाथ के वाचक शब्दों के साथ 'पल्लव' का समास होने से इसका अर्थ 'उँगली' होता है। जैसे, करपल्लव, पाणि-पल्लव।

२. हाथ में पहनने का कड़ा वा ककण। ३. नृत्य में हाथ की एक

विशेष प्रकार की स्थिति । ४ विस्तार । ५ बल । ६ चपलता । चंचलता । ७ आल का रंग । अलक्तक । ८ पल्लव देश । ९ पल्लव देश का निवासी । १०. शृगार (को०) । ११ वन (को०) । १२ कली (को०) । १३. घास का नया कनखा (को०) । १४ किनारा । छोर, विशेषत वस्त्रादि का (को०) । १५ सविलास क्रीडा (को०) । १६ कामासक्त या लपट व्यक्ति (को०) । १७ कथाप्रवध (को०) । १८ दक्षिण का एक राजवंश जिसका राज्य किसी समय उड़ीसा से लेकर तुंगभद्रा नदी तक फैला था ।

विशेष—कुछ लोगो का मत है कि ये पल्लव ही थे और कुछ लोग कहते हैं कि यह स्वतंत्र राजवंश था । वराहमिहिर के अनुसार पल्लव दक्षिणपश्चिम में बसते थे । अशोक के समय में गुजरात में पल्लवों का राज्य था ।

पल्लवक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ एक प्रकार की मछली । २ अकुर । धँधुवा (को०) । ३ वेश्यापति । वारवधु का यार (को०) । ४. कामासक्त या लपट व्यक्ति (को०) । ५. अशोक का वृक्ष (को०) ।

पल्लवप्राहिता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. साधारण कार्यों में लगा रहना । ऊपरी चीजों में व्यस्त होना । २ अपूर्ण या अधूरा ज्ञान । ऊपरी ज्ञान (को०) ।

पल्लवप्राहि पाठित्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जानकारी जो पूरी न हो । अधूरा ज्ञान (को०) ।

पल्लवप्राही—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पल्लवप्राहिन्] किसी विषय का सम्पूर्ण ज्ञान न रखनेवाला । वह जो किसी विषय का पूरा या यथेष्ट ज्ञान न रखता हो । रहस्य से अनभिज्ञ केवल ऊपरी या मोटी मोटी बातों का जाननेवाला ।

पल्लवट्ट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अशोक का पेड़ ।

पल्लवधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ विशेष विस्तार । अति विस्तार । २ निरर्थक कथन (को०) ।

पल्लवना (पुं०)—क्रि० अ० [सं० पल्लव+हिं० ना (प्रत्य०)] पल्लवित होना । पत्ते फेंकना । पनपना । उ०—(क) सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहग निवास । फूलत फलत सु पल्लवत सोहत पुर चहुँपास ।—तुलसी (शब्द०) ।

पल्लवाङ्कुर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पल्लवाङ्कुर] डाली । शाखा (को०) ।

पल्लवाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हिरण । हिरन ।

पल्लवाधार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शाखा । डाली ।

पल्लवापीडित—वि० [सं०] कलियों से व्याप्त (को०) ।

पल्लवास्त्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कामदेव ।

पल्लवाह्वय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] तालीसपत्र ।

पल्लविक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कामी । कामुक (को०) ।

पल्लविका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार की चादर (को०) ।

पल्लवित^१—वि० [सं०] १ पल्लवयुक्त । जिसमें नए नए पत्ते निकले या लगे हों । २ हरा भरा । लहलहाता । ३. विस्तृत ।

लवा चौड़ा । ४ आल में रंगा हुआ । ५ रोमांचयुक्त । जिसके रोगटे खड़े हो । उ०—कहि प्रनाम कछु कहन लिय पै भय शिथिल सनेह । धकित वचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह ।—तुलसी (शब्द०) ।

पल्लवित^२—सञ्ज्ञा पुं० आल का रंग । लाक्षारंग (को०) ।

पल्लवी^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पल्लविन्] वृक्ष । पेड़ ।

पल्लवी^२—वि० [वि० स्त्री० पल्लविती] जिसमें पल्लव हो । पल्लव-युक्त ।

पल्ला^१—क्रि० वि० [सं० पर या पार (=दूर या छोर)+ला (प्रत्य०)] १ दूर । २ दूरी ।

पल्ला^२—सञ्ज्ञा सं० [सं० पल्लव] १ किसी कपड़े का छोर । आँचल । दामन । उ०—एक बड़े से कुत्ते ने, जो इस बाग का रख-वाला था, लपककर उसका पल्ला पकड़ लिया ।—शिवप्रसाद (शब्द०) ।

मुहा०—पल्ला छूटना = पीछा छूटना । छुटकारा मिलना । निष्कृति मिलना । छुटकारा पाना । पल्ला छुड़ाना = पीछा छुड़ाना । निष्कृति पाना । पल्ला पकड़ना = किसी के लिये किसी को पकड़ना । पल्ला पसारना = किसी से कुछ माँगना । आँचल पसारना । दामन फैलाना । पल्ला लेना = शोक करना । किसी की मृत्यु पर रोना । (स्त्रियाँ) । पल्ले पढ़ना = प्राप्त होना । मिलना । हाथ लगना । (किसी के) पल्ले बाँधना = (१) व्याही जाना । हाथ पकड़ना । (२) जिम्मे किया जाना । पल्ले बाँधना = (१) जिम्मे लेना । (२) गाँठ बाँधना । (३) व्याहना । हाथ पकड़ना । पल्ले से बाँधना = (१) जिम्मे लगाना । (२) व्याह देना । हाथ पकड़ा देना ।

२ दूरी । जैसे,—इनका घर यहाँ से पल्ले पर है । उ०—दो सौ कोस के पल्ले तक बरफीले पहाड नजर पडते हैं ।—(शब्द०) । ३ पास । अधिकार में । जैसे,—उसके पल्ले क्या है ? ४ तरफ । ओर ।

पल्ला^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पटल] १ दुपल्ली टोपी का एक भाग । दुपल्ली टोपी का आधा भाग । २ चद्दर वा गोन जिसमें अन्न बाँधकर ले जाते हैं ।

पौ०—पल्लेदार ।

३ किवाड । पटल । ४ पहल । ५ तीन मन का घोभा । ६ बौरा । ७ घोती का एक फर्द । ८ रजाई या दुलाई आदि के ऊपर का कपडा । ९ दरवाजे आदि में लगनेवाला लकड़ी का लवाचौडा टुकडा । जैसे, किवाड का पल्ला ।

पल्ला^४—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पल, फ्रा० पल्लह्] तराजू में एक ओर का टोकरा या डलिया । पलडा ।

मुहा०—पल्ला झुकना = पक्ष बलवान् होना । पल्ला भारी होना = पक्ष बलवान् होना । भारी पल्ला = (१) बलवान् पक्ष । (२) ऐसा पक्ष जिसपर बड़े वोभा हो ।

पल्ला^५—सञ्ज्ञा पुं० [सं० फल] फेंची के दो भागों में एक भाग ।

पल्ला^६—वि० [फा० पल्ला] दे० 'परला' ।

पल्लि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पल्ली' [को०] ।

पल्लिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ छोटा गाँव । पुरा । पुरवा । २ गृह-
गोघा । छिपकिली [को०] ।

पल्लिवाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] लाल रंग की एक घास ।

पल्ली—पञ्जा स्त्री० [सं०] १ छोटा गाँव । पुरवा । खेडा । २ गाँव ।
उ०—उर कृत मल्ली माल जयति ब्रज पल्ली भूपन ।—
भारतेंदु ग्र०, भा० २, पृ० ७५४ । ३ कुटी । पर्याशाला । ४.
फैलनेवाली लता (को०) । ५ निवास । गृह (को०) । ६
छिपकली ।

यौ०—पल्लीपत्तन = शरीर के किसी भाग पर छिपकली गिरने
के आघात पर शुभाशुभ विचार ।

पल्ला^७—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पल्ला] १ आँचल । छोर । दामन । २
चौड़ी गोटा । पट्टा ।

पल्ले^७—वि० [हि०] द० १ 'परला' । २ दे० 'पल्ला' ।

पल्लेदार—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पल्ला + फा० दार] १ वह मनुष्य जो
गल्ले के बाजार में दूकानों पर गल्ले को गाँठ में बाँधकर
दूकान से मोल लेनेवालों के घर पर पहुँचा देता है । अनाज
ढोनेवाला मजदूर । २ गल्ले की दूकान पर वा कोठियों से
गल्ला तोलनेवाला आदमी । बया ।

पल्लेदारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पल्लेदार + ई (प्रत्यय०)] १ गल्ले
की दूकान वा कोठियों से गल्ले का बोझ उठाकर खरीदार
के यहाँ पहुँचाने का काम । पल्लेदार का काम । २ अनाज
की दुकान पर अनाज तोलने का काम ।

पल्लौ^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पल्लव] पल्लव ।

पल्लौ^२—सञ्ज्ञा पुं० पल्ला । चट्टर या गोन जिसमें अनाज बाँधते हैं ।
उ०—पल पल्लौ भरि इन लिया तेरा नाज उठाय नैन
हमलन दै अरे दरस मज्जरी आय ।—रसनिधि (शब्द०) ।

पल्लव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] छोटा तालाव या गड्ढा ।

पल्लवावास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कच्छुआ ।

पल्लवंग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पल्लवङ्ग] अथवा । घोड़ा । उ०—ऊमर ऊता-
वलि करई पल्लागियाँ पवग । खुरसाणी सूधा खयँग चढिया
दल चतुरग ।—ढोला०, पृ० ६४० ।

पल्लवगम—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पल्लवङ्गम] एक छद । दे० 'पल्लवगम' ।
उ०—पल्लवगमे (आत्मा) विरहिनी की विरह वेदना से
पुकार है ।—सुदर० ग्र० (भू०), भा० १, पृ० ४६ ।

पल्लवंगा—सञ्ज्ञा पुं० [?] एक प्रकार का छद । उ०—दूजे दिन दरवार
सुजान सुआइके । देखत ही मनसूर महा सुख पाइके ।
खिलवति करी नवाव जनाइ वकील सौ । मसलति चूभन
काज सुजान सुसील सौ ।—सूदन (शब्द०) ।

पल्लरि^७—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पल्लरि' ।

पल्लरिया—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पल्लरिया', 'पौरिया' ।

पल्लरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पल्लरी', 'पल्लरी' ।

पव^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. गोवर । २ वायु । हवा । ३ अनाज
की भूसी साफ करना । ओसाना । बरसाना ।

पव^२—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पौ' ।

पवई^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [दे०] एक प्रकार की चिटिया जिसकी छाती
खैरे रंग की, पीठ खाकी और चोच पीली होती है ।

पवन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वायु । हवा ।

मुहा०—पवन का भूसा होना = उड़ जाना । न ठहरना । कुछ
न रहना । उ०—माधो पू सुनिए ब्रज व्योहार । मेरो कष्टो
पवन को भुस भयो गावत नदकुमार ।—सूर (शब्द०) ।

२ कुम्हार का आँवा । ३ जल । पानी । ४ श्वास । साँस ।
५ अनाज की भूसी अलग करना । ६. प्राणवायु । ७.
विष्णु । ८ पुराणानुसार उत्तम मनु के एक पुत्र का नाम ।

पवन^७—वि० शुद्ध । पवित्र । पावन ।

पवनश्त्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पवनास्त्र] वायु देवता का अस्त्र । कहते
हैं, इसके चलाने से बड़े वेग से वायु चलने लगती है ।

पवनकुमार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ हनुमान । उ०—प्रनवों पवन-
कुमार खल वन पावक शानघन ।—मानस, १।१७ ।
२ भीमसेन ।

पवनचक्की—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पवन + हि० चक्की] हवा के जोर
से चलनेवाली चक्की या कल । वह चक्की या कल जो हवा
के जोर से चलती है ।

विशेष—प्रायः चक्की पीसने अथवा कुएँ आदि से पानी निकालने
के लिये यह उपाय करते हैं कि चलाई जानेवाली कल का
संयोग किसी ऐसे चक्कर के साथ कर देते हैं जो बहुत ऊँचाई
पर रहता है और हवा के झोके से बराबर घूमता रहता है ।
उस चक्कर के घूमने के कारण नीचे की कल भी अपना काम
करने लगती है ।

पवनचक्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चक्कर खाती हुई जेरे की हवा ।
चक्रवात । बवंडर ।

पवनज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ हनुमान् । २ भीमसेन ।

पवनतनय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ हनुमान् । उ०—रुह हुए मीन
शिव, पवनतनय में भर विस्मय ।—अपरा, पृ० ४३ ।
२ भीमसेन ।

पवननन्द—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पवननन्द] १ हनुमान् । २ भीम ।

पवननन्दन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पवननन्दन] १ हनुमान् । २. भीमसेन ।

पवनपति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वायु के अधिष्ठाता देवता । उ०—
अखिल ब्रह्माडपति तिहुँ भुवनपति नीरपति पवनपति
अगमवानी ।—सूर (शब्द०) ।

पवनपरीक्षा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] ज्योतिषियों की एक क्रिया जिसके
अनुसार वे व्यास पूर्णों अर्थात् आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन
वायु की दिशा को देखकर ऋतु का भविष्य कहते हैं ।

पवनपुत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ हनुमान् । २ भीमसेन ।

पवनपूत^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पवनपुत्र] द० 'पवनपुत्र' । उ०—

सेवक जाके लषन से पवनपूत रनधीर । —तुलसी० ग्रं०,
पृ० ६० ।

पवनवाण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह वाण जिसके चलाने से हवा वेग
से चलने लगे । पवन अस्त्र ।

पवनभुक्—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पवनभुज्] सर्प । साँप [को०] ।

पवनवाहन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अग्नि ।

पवनव्याधि^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वायुरोग ।

पवनव्याधि^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] श्रीकृष्ण के सखा उद्धव का
एक नाम ।

पवनसंघात—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पवनसङ्घात] दो ओर से वायु का
आकर आपस में जोर में टकराना जो दुर्भिक्ष और दूसरे
राजा के आक्रमण का लक्षण माना जाता है ।

पवनसुप्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ हनुमान् । २. भीमसेन ।

पवना—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] भरना । पीना । दे० 'भरना' २ ।

पवनात्मज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ हनुमान् । २ भीमसेन ।
३ अग्नि ।

पवनाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुनेरा नाम का घान्य ।

पवनाश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] साँप ।

पवनाशन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सर्प । भुजग ।

पवनाशनाश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ गरुड । २ मोर ।

पवनाशी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पवनाशिन्] १ वह जो हवा खाकर
रहता हो । २ साँप ।

पवनास्त्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार एक प्रकार का अस्त्र । कहते
हैं, इसके चलाने से बहुत तेज हवा चलने लगती थी ।

पवनाहत—वि० [सं०] वातरोगी । वात रोग से पीडित [को०] ।

पवनि^①—वि० [सं० पावन] पवित्र करनेवाली । पावनी । पावन ।
पवित्र । उ०—सुवन सुख करनि, भव सरिता तरनि, गावत
तुलसिदास कीरति पवनि ।—तुलसी (शब्द०) ।

पवनी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पाना (= प्राप्त करना)] गावो मे
रहनेवाली वह छोटी प्रजा या नीच जाति जो अपने निर्वाह
के लिये क्षत्रियो, ब्राह्मणो अथवा गाँव के दूसरे रहनेवालो से
नियमित रूप से कुछ पाती है । जैसे, नाऊ, वारी, भाट,
घोषी, चमार, छुडिहारी आदि ।

पवनी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पौना' ।

पवनेष्ट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बकायन ।

पवनोंचुज—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पवनोम्बुज] फालसा ।

पवन्न^②—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पवन] दे० 'पवन' । उ०—वहै सीत
मद सुगध पवन्न ।—ह० रासो, पृ० ३६ ।

पवमान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पवन । वायु । समीर । उ०—छीर
वही भूतल नदी, त्रिविध चले पवमान । हेमवती सुत
जाइया जाहिर सकल जहान ।—प० रासो, पृ० १३ । २
स्वाहा देवी के गर्भ से उत्पन्न अग्नि के एक पुत्र का नाम ।

३ गार्हपत्य अग्नि । ४ चद्रमा का एक नाम । ५ ज्योतिष्म
यज्ञ मे गाया जानेवाला एक प्रकार का स्तोत्र ।

पवर^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पँवरि' ।

पवर^२—वि० [सं० प्रवर] दे० 'प्रवर' ।

पवरिया—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पौरिया' ।

पवरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पँवरि' ।

पवर्ग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वर्णमाला का पाँचवाँ वर्ग जिसमें प, फ,
ब, भ, म ये पाँच अक्षर हैं । वर्णमाला मे प से लेकर म तक
के अक्षर ।

पवाँडा—सञ्ज्ञा पुं० [दे०] 'पँवाडा' ।

पवाँर—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] १ पमार । पवाड । चकवड । २ क्षत्रियो
की एक शाखाविशेष । दे० 'परमार' ।

पवाँरना—क्रि० सं० [सं० प्रवारण] १ फेंकना । गिराना । २
खेत मे छितराकर बीज बोना ।

पवाँरा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रवाद] दे० 'पँवाडा' ।

पवाई—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पावँ+आई (स्वा० प्रत्य०)] १ एक फर्द
जूता । एक पैर का जूता । २ चक्की का एक पाट ।

पवाका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] ववडर । तीव्र पवनचक्र [को०] ।

पवाड़ा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रकार] भाँति । तरह । उ०—भाजै काँई
रे भिडि भारथ, साम्हों सूर सत जिणि हारै । दुहाँ पवाड
सुजस ताहरों, कै मरसी कै मारै ।—सु दर, ग्रं०, भा० २,
पृ० ८८४ ।

पवाड़^२—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] चकवड ।

पवाड़ा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रवाद] दे० 'पँवाडा' ।

पवाना—क्रि० सं० [हिं० पाना (= भोजन करना) का सकर्मक रूप]
१ खिलाना । भोजन कराना । उ०—सहित प्रीति ते अशन
बनावै । परसि दूरि ते ताहि पवावै ।—रघुनाथ (शब्द०) ।
२ प्राप्त कराना ।

पवार—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'परमार' ।

पवारना—क्रि० सं० [सं० प्रवारण] दे० 'पवाँरना' । उ०—या ही
नर देही को प्राण छोड देतै कैसे जारि वार करिके पवार
दीजियतु है ।—ठाकुर०, पृ० ३७ ।

पवारा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रवाद] दे० 'पँवाडा' ।—उ०—कहूँ वाच
कहूँ पेखन होई । कहूँ पवारा गावत कोई ।—माधवानल०,
पृ० २०५ ।

पवारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [?] नलिका नामक गंधद्रव्य ।

पवि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वज्र । २ विजली । गाज । ३ वाक्य ।
४ वाण या भाला की नोक [को०] । ५ तीर । वाण
[को०] । ६ अग्नि । ७ शूहर । सेहूड । ८ मार्ग । रास्ता ।
(हिं०) । ९ चक्का या पहिए का टायर [को०] ।

पवित^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मिर्च ।

पवित^२—वि० पवित्र । शुद्ध ।

- पविता**—त्रि० [सं० पवितृ] शुद्ध करनेवाला । पवित्र करनेवाला [को०] ।
- पविताई** पु०—त्रि० स्त्री० [सं० पवित्रता] शुद्धि । सफाई । पवित्रता ।
- पवित्तरा**—वि० [सं० पवित्र] दे० 'पवित्र' ।
- पवित्र**^१—वि० [सं०] १ जो गदा मैला या खराब न हो । शुद्ध । निर्मल । साफ ।
- पवित्र**^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मेंह । वारिष्ण । वर्षा । २ कुशा । ३ ताँबा । ४ जल । ५ दूष । ६ घर्षण । रगड़ । ७ अर्घा । अर्घपात्र । ८ यज्ञोपवीत । जनेऊ । ९ घी । १० शहद । ११ कुशा की बनी हुई पवित्री जिसे श्राद्धादि में अँगुलियों में पहनते हैं । १२ विष्णु । १३ महादेव । १४ तिल का पीषा । १५ पुत्रजीवा का वृक्ष । १६ कार्तिकेय का एक नाम ।
- पवित्रक**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ कुशा । २ दौने का पेड़ । ३. गूलर का पेड़ । ४ पीपल का पेड़ । ५ जाला । ६ चलनी जिससे भ्रांटा आदि चालकर साफ करते हैं (को०) । ७ क्षत्रिय का यज्ञोपवीत ।
- पवित्रता**—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पवित्र या शुद्ध होने का भाव । शुद्धि । स्वच्छता । पावनता । सफाई । पाकीजगी ।
- पवित्रधान्य**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जौ । यव ।
- पवित्रपाणि**—वि० [सं०] १ हाथ में कुश रखनेवाला । २ पवित्र हाथीवाला [को०] ।
- पवित्रवति**—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] क्रौंच द्वीप की एक वनस्पति ।
- पवित्रा**—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. तुलसी । २ एक नदी का नाम । ३ हलदी । ४ अश्वत्थ । पीपल । ५ रेशम के धानों की बनी हुई रेशमी माला जो कुछ धार्मिक कृत्यों के समय पहनी जाती है । ६ श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी ।
- पवित्रात्मा**—वि० [सं० पवित्रात्मन्] जिसकी आत्मा पवित्र हो । शुद्ध अन्त करणवाला । शुद्धात्मा ।
- पवित्रारोपण**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] श्रावण शुक्ल १२ को होनेवाला वैष्णवों का एक उत्सव जिसमें भगवान् श्रीकृष्ण को सोने, चाँदी, तंबू या सूत आदि का यज्ञोपवीत पहनाया जाता है ।
- पवित्रारोहण**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पवित्रारोपण' ।
- पवित्राश**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सन का बना हुआ डोरा, जो प्राचीन काल में बहुत पवित्र माना जाता था ।
- पवित्रित**—वि० [सं०] शुद्ध किया हुआ । निर्मल किया हुआ ।
- पवित्री**^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पवित्र (=कुश)] कुश का बना हुआ एक प्रकार का छल्ला जो कर्मकांड के समय अनामिका में पहना जाता है ।
- पवित्री**^२—वि० [सं० पवित्रिन्] १ पवित्र करनेवाला । २ पवित्र । शुद्ध [को०] ।
- पविद्**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक ऋषि का नाम ।
- पविधर**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वज्र धारण करनेवाले, इंद्र ।
- पवीनव**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अथर्ववेद के अनुसार एक प्रकार के असुर

जिनके विषय में लोगों का विश्वास था कि ये स्त्रियों का गर्भ गिरा देते हैं ।

पवीर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ हल की फाल । २ शस्त्र । हथियार । ३ वज्र । पवि ।

पवेरना—क्रि० सं० [हिं० पवारना] छितराकर बीज बोना ।

पवेरा—पञ्चा पुं० [हिं० पवेरना] वह बीजाई जिसमें हाथ से छितराया या फेंककर बीज बोया जाय ।

पव्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] यज्ञपात्र ।

पव्यव पु०—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पव्यत, प्रा० पव्यव] पर्वत । पहाड़ । उ०—घरे कर पव्य गोप सहाय, परे जलवार तटित निहाय ।—पृ० रा०, २ । ३६२ ।

पशम—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पशम] १ बहुत बढ़िया और मुलायम ऊन जो प्रायः पंजाब, कश्मीर और तिब्बत की बकरियों से उतरता है और जिससे बढ़िया दुगाले और पशमीने बनते हैं ।

विशेष—कश्मीर, तिब्बत और नेपाल आदि ठंडे देशों की बकरियों में उनके रोएँ के नीचे की तह में और एक प्रकार के बहुत मुलायम, चिकने और वागीक रोएँ होते हैं जिन्हें पशम कहते हैं । इसका मूल्य बहुत अधिक होता है और प्रायः बढ़िया दुगाले, चादरें और जामेवार आदि बनाने में इसका उपयोग होता है । विशेष—दे० 'ऊन' ।

२ पुरुष या स्त्री की मूर्च्छित्य पर के बाल । उपस्य पर के बाल । शष्प । झट ।

मुहा०—पशम उखाड़ना = (१) धैर्य समय नष्ट करना । (२) कुछ भी हानि या कष्ट न पहुँचा सकना । पशम न उखाड़ना = (१) कुछ भी काम न हो सकना । (२) कुछ भी कष्ट या हानि न होना । पशम पर मारना = बिल्कुल तुच्छ समझना । पशम न समझना = कुछ भी न समझना । पशम के बराबर भी न समझना ।

३ बहुत ही तुच्छ वस्तु ।

पशमीना—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पशमीनह] १ दे० 'पशम' । २ पशम का बना हुआ कपड़ा या चादर आदि ।

पशव्य^१—वि० [सं०] १ पशु सर्वधी । २ पशु के लिये हितकर । ३ वृषस । क्रूर । पशुतापूर्ण [को०] ।

पशव्य^२—सञ्ज्ञा पुं० १ गोष्ठ । गोवाट । अठार । २ पशुसमूह [को०] ।

पशु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ लांगूलविशिष्ट चतुष्पद जंतु । चार पैरों से चलनेवाला कोई जंतु जिसके शरीर का भार खड़े होने पर पैरों पर रहता हो । रेंगनेवाले, उठनेवाले, जल में रहनेवाले जीवों तथा मनुष्यों को छोड़ कोई जानवर । जैसे, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ऊँट, बैल, हाथी, हिरन, गीदड़, लोमड़ी, बंदर इत्यादि ।

विशेष—भाषारत्न में लोम और लांगूल (रोएँ और पूँछ) वाले जंतु पशु कहे गए हैं । अमरकोश में पशु शब्द के अंतर्गत इन जंतुओं के नाम आए हैं—सिंह, बाघ, लकड़बग्घा (चरग),

सूअर, बंदर, भालू, गैडा, भैंसा, गीदड़, विल्ली, गोह, साही, हिरन (सब जाति के), सुरागाय, नीलगाय, खरहा, गधविलाव, बैल, ऊँट, बकरा, मेढ़ा, गदहा, हाथी और घोडा । इन नामो मे गोह भी है जो सरीसृप या रेंगनेवाला है । पर साधारणत छिपकली, गिरगिट आदि को पशु नहीं कहते ।

२ जीवमात्र । प्राणी ।

यौ०—पशुपति ।

विशेष—शैव दर्शन और पाशुपत दर्शन मे 'पशु' जीवमात्र की सज्ञा मानी गई है ।

३ देवता । ४ प्रथम । ५ यज्ञ । ६ यज्ञ उद्भूवर । ७ बलि-पशु (कौ०) । ८ सदसद्विवेक से रहित व्यक्ति । मूर्ख (कौ०) । ९. छाग । बकरा (कौ०) ।

पशुकर्म—सज्ञा पुं० [सं० पशुकर्मन्] यज्ञ आदि में पशु का बलिदान ।

पशुका—सज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार का हिरन ।

पशुक्रिया—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ पशु की बलि । २ मैथुन [कौ०] ।

पशुगायत्री—सज्ञा स्त्री० [सं०] तंत्र की रीति से बलिदान करने मे एक मन्त्र जिसका बलिपशु के कान में उच्चारण किया जाता है ।

पशुघात—सज्ञा पुं० [सं०] यज्ञपशु का वध । बलि के पशु का हनन [कौ०] ।

पशुघन—वि० [सं०] पशुओं का वध करनेवाला [कौ०] ।

पशुचर्या—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ पशु के समान विवेकहीन आचरण । जानवरो की सी चाल । स्वेच्छाचार । २ मैथुन ।

पशुजीवी—वि० [सं० पशुजीविन्] पशु के द्वारा जीविका चलानेवाला । पशुओं के आघार पर जीनेवाला । उ०—श्रीराम रहे सामत काल के ध्रुव भकाश, पशुजीवी युग में नव कृषि सस्कृत के विकास ।—ग्राम्या, पृ० ५८ ।

पशुता—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ पशु का भाव । २ जानवरपन । मूर्खता और औद्धत्य ।

पशुत्व—सज्ञा पुं० [सं०] पशु का भाव । जानवरपन ।

पशुदा—सज्ञा स्त्री० [सं०] कुमार की अनुचरी एक मातृका देवी ।

पशुदेवता—सज्ञा पुं० [सं०] वह देव जिनके लिये पशु का हनन किया जाय [कौ०] ।

पशुधर्म—सज्ञा पुं० [सं०] १ पशुओं का सा आचरण । जानवरो का सा व्यवहार । मनुष्य के लिये निच व्यवहार । जैसे, स्त्रियो का जिसके पास चाहे उसके पास गमन, पुरुषो का अगम्या आदि का विचार न करना इत्यादि । (मनु०) । २ विधवा का विवाह (कौ०) ।

पशुनाथ—सज्ञा पुं० [सं०] १ शिव । २ सिंह ।

पशुप—सज्ञा पुं० [सं०] पशुपाल । गोपाल । पशुओं का पालनेवाला ।

पशुपतास्त्र—सज्ञा पुं० [सं०] महादेव का शूलास्त्र ।

पशुपति—सज्ञा पुं० [सं०] १ पशुओं का स्वामी । २ जीवो का ईश्वर या मालिक । ३ शिव । महादेव । उ०—गणपति

सुखदायक, पशुपति लायक सूर सहायक कौन गनै ।—रामच०, पृ० ७ ।

विशेष—शैव दर्शन और पाशुपत दर्शन में जीवमात्र 'पशु' कहे गए हैं और सब जीवों के अधिपति 'शिव' ही परमेश्वर माने गए हैं ।

४ अग्नि । ५ ओषधि ।

पशुपखल—सज्ञा पुं० [सं०] कैवर्तमुस्तक । केवटी मोथा ।

पशुपाल—सज्ञा पुं० [सं०] १ पशुओं को पालनेवाला । २. वृहत्सहिता के अनुसार ईशान कोण में एक देश जहाँ के निवासी पशुपालन ही द्वारा अपना निर्वाह करते हैं ।

पशुपालक—सज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० पशुपालिका] वह जो पशुओं का पालन करता हो । पशु पालनेवाला ।

पशुपालन—सज्ञा पुं० [सं०] पशुओं को रखकर उन्ही के सहारे जीविका चलानेवाला व्यक्ति [कौ०] ।

पशुपाश—सज्ञा पुं० [सं०] १ पशुओं का बधन । २ शैव दर्शन के अनुसार जीवों के चार प्रकार के बधन ।

पशुपासक—सज्ञा पुं० [सं०] एक रतिवध का नाम ।

पशुप्रेरणा—सज्ञा पुं० [सं०] पशुओं को हाँकना [कौ०] ।

पशुबध—सज्ञा पुं० [सं० पशुबन्ध] यज्ञ जिसमें पशुबलि की जाय [कौ०] ।

पशुबधक—सज्ञा पुं० [सं० पशुबन्धक] पगहा या रस्ती जिसमे पशु को बाँधते हैं । पशुओं का बधन [कौ०] ।

पशुभाव—सज्ञा पुं० [सं०] १ पशुत्व । जानवरपन । हैवानपन । २. तत्र मे मन्त्र के साधन के तीन प्रकारों मे से एक ।

विशेष—साधक लोग तीन भाव से मन्त्र का साधन करते हैं—दिग्ग, वीर और पशु । इनमे से प्रथम दो भाव उत्तम और पशुभाव निकृष्ट माना जाता है । जो लोग तत्र के सब विधानो का (घृणा, आचार विचार, आदि के कारण) पूरा पूरा पालन नहीं कर सकते उनका साधन पशुभाव से समझा जाता है । तात्रिको के अनुसार वैष्णव पशुभाव से नारायण की उपासना करते हैं क्योंकि वे मद्य मास आदि का सपक नहीं रखते । कुञ्जिका तत्र में लिखा है कि जो रात को यत्रस्पर्श और मन्त्र का जप नहीं करते, जिन्हे बलिदान में सशय, तत्र मे सदेह और मन्त्र मे अक्षरबुद्धि (अर्थात् ये अक्षर हैं इनसे क्या होगा) और प्रतिमा मे शिलाज्ञान रहता है, जो देवता की पूजा बिना मास के करते हैं, जो बार बार नहाया करते हैं उन्हे पशुभावावलवी और अधम समझना चाहिए ।

पशुमारण—सज्ञा पुं० [सं०] पशुओं का हनन ।

पशुयज्ञ—सज्ञा पुं० [सं०] आश्वलायन श्रौतसूत्र में वर्णित एक यज्ञ ।

पशुराज—सज्ञा पुं० [सं०] सिंह ।

पशुलंब—सज्ञा पुं० [सं० पशुलम्ब] एक देश का प्राचीन नाम ।

पशुहरीतकी—सज्ञा स्त्री० [सं०] आभ्रातक फल । आमड़े का फल ।

पशू—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पशु' ।

पश्च—वि० [सं०] १ वाद का । पीछे का । २ पश्चिमीय [को०] ।

पशेमाँ—वि० [फा० पशेमान] दे० 'पशेमान' । उ०—रहे खूब मन
मे ओ सुलताने जाँ हो पशेमाँ ।—दक्खिनी०, पृ० ३७५ ।

पशेमान—वि० [फा०] १ शमिदा । लज्जित । २ पश्चात्ताप
करनेवाला । पछतानेवाला [को०] ।

पशोपेशा—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पेशोपस] आगा पीछा । सोच विचार ।
दुविधा । अदेश । उ०—पहलवान पशोपेश में पड़े, देखा, यहाँ
मी राज देना है ।—काले०, पृ० ४७ ।

पश्चात्^१—अव्य० [सं०] पीछे । पीछे से । वाद । फिर । अनतर ।

यौ०—पश्चादुक्ति = पुन कथन । फिर कहना । पश्चात्कृत =
पीछे किया या छोड़ा हुआ । पश्चाद्घाट = गला । गरदन ।
पश्चात्ताप । पश्चाद्भाग = पिछला हिस्सा । पश्चिमी भाग ।
पश्चाद्भावी । पश्चाद्वर्ती । पश्चाद्वात ।

पश्चात्^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पश्चिम दिशा । प्रतीची । २ शेष ।
अत । ३ अधिकार ।

पश्चात्कर्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पश्चात्कर्मन्] वैद्यक के अनुसार वह
कर्म जिसे शरीर के बल, वर्ण और अग्नि की वृद्धि हो ।

विशेष—ऐसा कर्म प्रायः रोग की समाप्ति पर शरीर को पूर्व
और प्रकृत अवस्था में लाने के लिये किया जाता है ।
भिन्न भिन्न रोगों के लिये भिन्न भिन्न प्रकार के पश्चात्कर्म
होते हैं ।

पश्चात्ताप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह मानसिक दुःख या चिंता जो किसी
अनुचित काम को करने के उपरांत उसके अनौचित्य का
ध्यान करके अथवा किसी उचित या आवश्यक काम को न
करने के कारण होती है । अनुताप । अफसोस । पछतावा ।

पश्चात्तापी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पश्चातापिन्] पछतावा करनेवाला ।

पश्चापी—वि० [सं० पश्चापिन्] सेवक । दाम । टहलुवा [को०] ।

पश्चाद्भावी—वि० [सं० पश्चात्+भाविन्] पीछे होनेवाले । वाद
में या अनतर होनेवाले । उ०—राणाडे के शब्दों में हम उन्हें
पश्चाद्भावी भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं की उद्गम
भूमि कह सकते हैं ।—स० दरिया (भू०), पृ० ५६ ।

पश्चाद्वर्ती—वि० [सं० पश्चात्+वर्तिन्] १ पीछे रत्न गया ।
वाद का । वाद में अस्तित्व में आनेवाला । उ०—सर्वात्म-
वाद का यह बीज पश्चाद्वर्ती वैदिक साहित्य में विकसित
होकर वेदांत दर्शन में अपने चरम रूप को प्राप्त हुआ ।
—स० दरिया (भू०), पृ० ५३ । २ पीछे रहनेवाला । अनु-
सरण करनेवाला ।

पश्चानुताप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पश्चात्ताप । अनुताप । पछतावा ।

पश्चारुज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वैद्यक के अनुसार एक रोग जो कदम
खानेवाली स्त्रियों का दूध पीनेवाले बालकों को होता है ।

विशेष—इस रोग में बालकों की गुदा में जलन होती है, उनका
मल हरे या पीले रंग का हो जाता है और उन्हें बहुत तेज
ज्वर आने लगता है ।

पश्चाद्ध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पीछे का अर्थ भाग । पिछला हिस्सा ।
२ पश्चिमी भाग । पश्चिमी हिस्सा । ३ वचा हुआ या वाद-
वाला हिस्सा [को०] ।

पश्चाद्वात—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पश्चिम की हवा । पछर्वा [को०] ।

पश्चिम^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह दिशा जिनमें सूर्य अस्त होता है । पूर्व
दिशा के सामने की दिशा । प्रतीची । वासुणी । पच्छिम ।

पश्चिम^२—वि० १ जो पीछे से उत्पन्न हुआ हो । २ अतिम ।
पिछला । अत का । ३ पश्चिम दिशा ना ।

पश्चिमाक्रिया—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] प्रेत क्रिया । मृतक कर्म [को०] ।

पश्चिमघाट—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पश्चिम+घाट (= पर्वत)] दे०
'पश्चिमीघाट' ।

पश्चिमदिक्पति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वरुण जो पश्चिम दिशा के स्वामी
कहे गए हैं [को०] ।

पश्चिमप्लव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह भूमि जो पश्चिम की ओर
ढालुई या झुकी हो ।

पश्चिमयामकृत्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बौद्धों के अनुसार रात के पिछले
पहर का कृत्य या वर्तय ।

पश्चिमरात्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] रात्रि का अतिम भाग [को०] ।

पश्चिमवाहिनी—स्त्री [सं०] पश्चिम दिशा की ओर बहनेवाली ।
पश्चिम तरफ बहनेवाली (नदी आदि) ।

पश्चिमसागर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] आयरलैंड और अमेरिका के बीच
का समुद्र । ऐटलांटिक महासागर ।

पश्चिमांश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पिछला हिस्सा । पिछला काल । वाद
का आधा काल । पश्चाद्वर्ती भाग । उ०—ऋग्वेदीय युग के
पश्चिमांश में ऋषियों का बहुदेववाद एकदेववाद की ओर
अग्रसर हो चला था ।—स० दरिया (भू०), पृ० ५३ ।

पश्चिमा—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] सूर्यास्त की दिशा । प्रतीची । वासुणी ।
पश्चिम ।

पश्चिमाचल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक कल्पित पर्वत जिसके सवध में
लोगों की यह धारणा है कि अस्त होने के समय सूर्य उसी
की छाड़ में छिप जाता है । अस्ताचल ।

पश्चिमार्ध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पश्चार्ध' [को०] ।

पश्चिमी—वि० [सं० पश्चिम+हिं० ई (प्रत्य०)] १ पश्चिम
की ओर का । पश्चिमवाला । २ पश्चिम सबधी । जैसे,
पश्चिमी हिंदी ।

पश्चिमी घाट—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पश्चिमी+घाट] बंबई प्रांत के
पश्चिम ओर की एक पर्वतमाला जो विन्ध्य पर्वत की
पश्चिमी शाखा की अतिम सीमा से, समुद्र के किनारे
किनारे ट्रावकोर (तिरुवाकुर) की उत्तरी सीमा तक चली
गई है । पश्चिम घाट ।

पश्चिमेतर—वि० [सं०] १ पूर्व का । पूर्वी । २ पश्चिम से
भिन्न [को०] ।

पश्चिमोत्तर^१—वि० [सं०] उत्तरपश्चिमी । पश्चिम और उत्तर
कोण का [को०] ।

पश्चिमोत्तर^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पश्चिम और उत्तर के बीच का कोना । वायुकोण ।

पश्चिमोत्तरा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा । वायव्य कोण [को०] ।

पश्त—सञ्ज्ञा पुं० [लंश०] खमा ।

पश्ता—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पुरता] किनारा । तट । (लंश०) ।

क्रि० प्र०—लगाना । —लगाना ।

पश्तो—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] १ ३॥ मात्राओं का एक ताल जिससे दो आघात होते हैं । इसके बोल इस प्रकार हैं—ति, तक, धि, धा, गे । २ भारत की आर्यभाषाओं में से एक देशी भाषा जिसमें फारसी आदि के बहुत से शब्द मिल गए हैं । यह भाषा भारत की पश्चिमोत्तर सीमा से अफगानिस्तान तक बोली जाती है । उ०—जैसे पश्चिमी की क्रमशः पुरानी पारसी, पहलवी वा वर्तमान फारसी और पश्तो आदि हैं ।—प्रेमचन्द०, भा० २, पृ० ३७७ ।

पश्म—सञ्ज्ञा पुं० [फ्रा०] बकरी, भेड़, आदि का रोघा । ऊन ।

विशेष—दे० 'ऊन' ।

२ दे० 'पश्म' । उ०—क्या कहीं हक के किए को कूर मेरी चश्म है । आवरू जग मे रहे तो जान जाना पश्म है ।—कविता कौ०, भा० ४, पृ० १० ।

पश्मीना—सञ्ज्ञा पुं० [फ्रा० पश्मीनह] एक प्रकार का बहुत बढ़िया और मुलायम ऊनी कपड़ा जो कश्मीर और तिब्बत आदि पहाड़ी और ठंडे देशों में बहुत अच्छा और अधिकता से बनता है । दे० 'पश्मीना' ।

पश्यती—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पश्यन्ती] नाद की उस समय की अवस्था या स्वरूप जब वह मुलाधार से उठकर हृदय में जाता है ।

विशेष—भारतीय शास्त्रों में वाणी या सरस्वती के चार चक्र माने गए हैं—परा, पश्यती, मध्यमा और वैखरी । मुलाधार से उठनेवाले नाद को 'परा' कहते हैं, जब वह मुलाधार से हृदय में पहुँचता है तब 'पश्यती' कहलाता है, वहाँ से आगे बढ़ने और बुद्धि से युक्त होने पर उसका नाम 'मध्यमा' होता है और जब वह कंठ में आकर सबके सुनने योग्य होता है तब उसे 'वैखरी' कहते हैं ।

पश्यतोहर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जो आँखों के सामने से चीज चुरा ले । जैसे, सुनार आदि । उ०—बहु शब्द बचक जानि । अलि पश्यतोहर मानि । नर छाहई अपवित्र । शर खग निर्दय मित्र ।—राम० च०, पृ० १६० ।

पश्ययम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का दैविक यज्ञ ।

पश्यवदान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] यज्ञीय पशु की बलि । यज्ञपशु का बलिदान [को०] ।

पश्वाचार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] तान्त्रिकों के अनुसार कामना और सकल्पपूर्वक वैदिक रीति से देवी का पूजन । वैदिकाचार ।

विशेष—तान्त्रिकों के अनुसार दिव्य, वीर और पशु इन तीन

भावों से साधना की जाती है । इनमें से केवल अंतिम ही कलिगुण में विधेय है, और इसी पशु भाव से पूजा करने से सिद्धि होती है । पश्वाचारी को नित्य स्नान, सव्या, पूजन, श्राद्ध और विप्र कर्म करना चाहिए, सबको समान भाव से देखना चाहिए, किसी का अन्न न लेना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, मद्यमास का व्यवहार न करना चाहिए, आदि आदि ।

पश्वाचारो—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पश्वाचारिन्] पश्वाचार करनेवाला । कामना और सकल्पपूर्वक वैदिक रीति से देवी का पूजन करनेवाला ।

पश्विज्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पशु+इज्या] एक प्रकार का यज्ञ ।

पश्वेकादशिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार का यज्ञ जिसमें ग्यारह देवताओं के उद्देश्य से पशुओं की बलि दी जाती है ।

पष(पु)†—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पष] १ पख । डैना । २ तरफ । और । ३. पक्ष । पाख ।

पषा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पष] दाढ़ी । डाढ़ी । श्मश्रु । उ०—रघुराज सुनत सखा सो पषा पोछि पाणि, त्रिसखा त्रिशूल लिए चषा अरुणारे हैं ।—रघुराज (शब्द०) ।

पषाण—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पापाण] दे० 'पाषाण' ।

पषान(पु)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पापाण] दे० 'पाषाण' । उ०—कचन काचहि सम गनै कामिनि काठ पषान । तुलसी ऐसे सत जन पृथ्वी ब्रह्म समान ।—तुलसी ग्रं०, पृ० ११ ।

पषारना(पु)†—क्रि० सं० [सं० प्रक्षालन] धोना । उ०—जो प्रभु पार अवसि गा चहह । मोहि पद पदुम पषारन कहह ।—तुलसी (शब्द०) ।

पषालना†—क्रि० सं० [सं० प्रक्षालन ग्रा० पक्खालण] प्रक्षालन करना । धोना । पखरिना । उ०—गढ अजमेरै गम करउ चउरी वइसी पषालज्यो पाव ।—वी० रासो, पृ० ८ ।

पषान—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पापाण] दे० 'पाषाण' ।

पषठीही—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] जवान गाय । युवा गौ [को०] ।

पसंग(पु)—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पासंग] दे० 'पासंग' ।

पसंगा†^१—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पासंग] १ वह बोक जिससे तराजू के पल्लों का बोक बराबर करने के लिये तराजू की जोती में हलके पल्ले की तरफ बाँध देते हैं । पासंग । २ तराजू के दोनो पल्लो के बोक का अन्न जिसके कारण उस तराजू पर तौली जानेवाली चीज की तौल में भी उतना ही अंतर पड जाता है ।

पसंगा†^२—वि० बहुत ही थोडा । बहुत कम ।

मुहा०—पसंगा भी न होना = कुछ भी न होना । बहुत ही तुच्छ होना । जैसे,—यह कपडा उस थान का पसंगा भी नही है ।

पसगा†—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पासंग] दे० 'पासंग' । उ०—गोली डाँडी मे पसघे सी बँधी कौडी ।—कुकुर०, पृ० १७ ।

पसता†—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पश्यन्ती] दे० 'पश्यती' । उ०—चारो

वानी का भेद बताई, सास्तर सघ लखाई। परा पसंता
मधिमा सोई, वैखरी वेर बताई।—घट०, पृ० २३।

पसंती—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पश्यन्ती] दे० 'पश्यती'। उ०—वानिह
चारि भाँति की करी। परा पसती मध्य वैखरी।—
विश्राम (शब्द०)।

पसंद^१—वि० [फा०] १ रुचि के अनुकूल। मनोनीत। २ जो
अच्छा लगे। जैसे,—अगर वह चीज आपको पसंद हो तो
आप ही ले लीजिए।

क्रि० प्र०—आना।—करना।—होना।

विशेष—इस शब्द के साथ जो योगिक क्रियाएँ जुड़ती हैं वे
प्रकर्मक होती हैं। जैसे,—(क) वह किताब मुझे पसंद आ
गई। (ख) हमे यह कपडा पसंद है।

पसंद^२—सञ्ज्ञा स्त्री० अच्छा लगने की वृत्ति। अभिरुचि। जैसे,—आपकी
पसंद भी विलकुल निराली है। २ स्वीकृति। मञ्जरी
(को०)। ३ प्राथमिकता। प्रधानता। तरजीह (को०)।

पसंद^३—प्रत्य० १ पसंद करनेवाला। जैसे, हकपसंद। २ पसंद
आनेवाला। जैसे, दिलपसंद, मनपसंद [को०]।

पसंदा—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पसंदह] १ मास के एक प्रकार के कुचले
हुए टुकड़े। पारखे का गोश्त। २ एक प्रकार का कवाव जो
उक्त प्रकार के मास से बनता है।

पसंदीदगी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] रुचि। रुमान। अनुकूलता।
उ०—उनके लुकने छिपने, पसंदीदगी और नापसंदीदगी में
भी फर्क है।—मैला०, पृ० १६५।

पसंदीदा—वि० [फा० पसंदीदह] पसंद किया हुआ। रुचिकर।
मनोवाञ्छित [को०]।

पसंसना—क्रि० सं० [सं० प्रसंसन] प्रशंसा करना। गुण गाना।
उ०—ते मोने भलओ निरुधि गए, जहसओ तहसओ कव्व।
खेल खेल छल दूसिहह सुअण पससह सम्ब।—कीर्ति०, पृ० ४।

पसंगा^१—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पासंग] दे० 'पसगा'।

पसंगा^२—वि० बहुत कम। स्वल्पतम। बहुत थोड़ा।

पसंगा—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पासंग, हि० पसगा, पसंगा] दे० 'पसगा'।

पस^१—अव्यय [फा०] १ इसलिये। अतः। इस कारण। २. पीछे।
फिर। बाद में (को०)। ३. अंततः। आखिरकार (को०)।

यौ०—पसगैबत। पसपा = पीछे हटा हुआ। हारा हुआ। परा-
जित। पसपाई = पीछे हटाना। हार। पराजय। पसोपेश।

पस^२—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] मवाद। पूय। पीप [को०]।

पसई—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] पहाड़ी राई जो हिमालय की तराई और
विशेषतः नेपाल तथा कुमाऊँ में होती है। इसकी पत्तियाँ
गोभी के पत्तों की तरह होती हैं और इसकी फसल जाड़े में
तैयार होती है। बाकी बहुत सी बातों में यह साधारण राई
की ही तरह होती है।

पसकरण—वि० [हि०] कायर। डरपाक।

पसगैबत—क्रि० वि० [फा० पस + अ० गैबत] पीठ पीछे। अनु-
पस्थिति में [को०]।

पसगा—सञ्ज्ञा सं० [हि०] दे० 'पसंगा'।

पसताल—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार की घास जो पानी के पास-
पास अधिकता से होती है और जिसे पशु बड़े चाव से खाते
हैं। कहीं कहीं गरीब लोग इसके दानों या बीजों या व्यवहार
अनाज की भाँति भी करते हैं।

पसनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्राशन] अन्नप्राशन नामक सम्कार जिसमें
बच्चों को प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है। उ०—मैं
पसनी पुनि छठएँ मासा। बालक बढघा भानु सम भासा।
—रघुराज (शब्द)।

पसम—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पशम] दे० 'पशम'।

पसमीना—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पशमीना] दे० 'पशमीना'।

पसर^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसर] गहरी फी हुई हथेली। एक हथेली को
सुकोटने से बना हुआ गड्ढा। करतलपुट। भाषी प्रजली।
जैसे,—इस भिसभगे को पसर भर आटा दे दो।

पसर^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसर] विस्तार। प्रसार। फैलाव।

पसर^३—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] १ रात के समय पशुओं को चराने
का काम।

क्रि० प्र०—चराना।

२ आक्रमण। घावा। चढ़ाई।

पसरकटाली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रसरकटाली] भटकटैया। कटाई।

पसरन—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रसारिणी] १ गधप्रसारिणी। पसारनी।
† २ फैलाव। विस्तार।

पसरना—क्रि० अ० [सं० प्रसरण] १ आगे की ओर बढ़ना।
फैलना। २ विस्तृत होना। बढ़ना। ३ पैर फैलाकर सोना।
हाथ पैर फैलाकर लेटना। ४ छितरा जाना। बिखर जाना।

संयो० क्रि०—जाना।

पसरट्टा—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पसरहट्टा'।

पसरहट्टा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पसारी (= पंसारी) + हट्टा (= हाट)] वह
हाट या बाजार जिसमें पसारियों आदि की दुकानें हों। वह
स्थान जहाँ वन प्रोपधियों और मसाले आदि मिलते हैं।

पसराना—क्रि० सं० [सं० प्रसारण] पसारने का काम दूसरे से
कराना। दूसरे को पसारने में प्रवृत्त करना।

पसरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पसली'।

पसरीहौ—संज्ञा पुं० [हि० पसरना + शौहौ (प्रत्यय)] प्रसरण-
शील। फैलनेवाला। जो पसरता हो। जिसका पसरने का
स्वभाव हो।

पसली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पशुका] मनुष्यों और पशुओं आदि के
शरीर में छाती पर के पजर की आड़ी और गोलाकार हड्डियों
में से कोई हड्डी।

विशेष—साधारणतः मनुष्यों और पशुओं में गले के नीचे और
पेट के ऊपर हड्डियों का एक पजर होता है। मनुष्य में इस
पजर में दोनो ओर बारह बारह हड्डियाँ होती हैं। ये हड्डियाँ
पीछे की ओर रीढ़ में जुड़ी रहती हैं और उसके दोनो ओर
से निकलकर दोनो बगलों से होती हुई आगे छाती और पेट

की ओर आती हैं। पसलियों के अगले सिरे सामने आकर छाती की ठीक मध्य रेखा तक नहीं पहुँचते बल्कि उससे कुछ पहले ही खतम हो जाते हैं। ऊपर की सात सात हड्डियाँ कुछ बड़ी होती हैं और छाती की मध्य की हड्डी से जुड़ी रहती हैं। इसके बाद की नीचे की ओर की हड्डियाँ या पसलियाँ क्रमशः छोटी होती जाती हैं और प्रत्येक पसली का अगला सिरा अपने से ऊपरवाली पसली के नीचे के भाग से जुड़ा रहता है। इस प्रकार अंतिम या सबसे नीचे की पसली जो कोख के पास होती है सबसे छोटी होती है। नीचे की दोनों पसलियों के अगले सिरे छाती की हड्डी तक तो पहुँचते ही नहीं, साथ ही वे अपने ऊपर की पसलियों से भी जुड़े हुए नहीं होते। इन पसलियों के बीच में जो अंतर होता है उसमें मांस तथा पेशियाँ रहती हैं। साँस लेने के समय मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने के कारण ये पसलियाँ भी आगे बढ़ती और पीछे हटती दिखाई देती हैं। साधारणतः इन पसलियों का उपयोग हृदय और फेफड़े आदि शरीर के भीतरी कोमल अंगों को बाहरी आघातों से बचाने के लिये होता है। पशुओं, पक्षियों और सरीसृपों आदि की पसली की हड्डियों की संख्या में प्रायः बहुत कुछ अंतर होता है और उनकी बनावट तथा स्थिति आदि में भी बहुत भेद होता है। पसली की हड्डियों की सबसे अधिक संख्या साँपों में होती है। उनमें कभी कभी दोनो ओर दो दो सी हड्डियाँ होती हैं।

मुहा०—पसली फड़कना या फड़क ठठना = मन में उत्साह होना। उमग पैदा होना। जोश आना। पसलियाँ ढीली करना = बहुत मारना पीटना। हड्डी पसली तोड़ना = दे० 'पसलियाँ ढीली करना'।

शौ०—पसली का रोग = वच्चों का एक प्रकार का रोग जिसमें उनका साँस बहुत तेज चलता है।

पस व पेश—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पस ओ पेश] दे० 'पसोपेश'।

पसवाँ—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] हलका गुलाबी रंग।

पसही—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] तिन्नी का चावल।

पसाँ—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पसर] अजली।

पसाई^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] पसताल नाम की घास जो तालों में होती है। दे० 'पसताल'।

पसाई^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसाद] दे० 'पसाड'। उ०—तैं डिनोई सभु, जो डीये दीदार के, उजे लहदी अमु पसाई दो पाण के।—दादू०, पृ० ६५।

पसाड, पसाऊ^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसाद, प्रा० पसाव] प्रसाद। प्रसन्नता। कृपा। अनुग्रह। उ०—(क) चारिउ कुँअर बिआहि पुर गवने दशरथ राउ। भए मजु मगल सगुन गुरु सुर सभु पसाउ।—तुलसी (शब्द०)। (ख) सासति करि पुनि करहि पसाऊ। नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ।—मानस, १।६६।

पसाना^१—क्रि० सं० [सं० प्रसावण्य, हिं० पसावना] १ पकाया हुआ चावल गल जाने पर उसका बचा हुआ पानी निकालना

या अलग करना। भात में से माँड निकालना। २. किसी पदार्थ में मिला हुआ जल का अणु चुप्रा या बहा देना। पसेव निकालना या गिराना।

पसाना^२—क्रि० अ० [सं० प्रसन्न या प्रसाद] प्रसन्न होना। खुश होना।

पसार—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसार] १. पसरने की क्रिया या भाव। प्रसार। फैलाव। उ०—सात सुरति तव मूल है उत्पति सकल पसार। अक्षर ते सब सृष्टि भई, काल ते भए तिछार।—कवीर सा०, पृ० ६२१। २. विस्तार। लबाई और चौड़ाई आदि। ३. प्रपच। मायाविस्तार।

पसारण^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसारण] दे० 'प्रसारण'। उ०—गावण, धावण, बलगन, सकोचन, पसारण, ये पाँच प्रकृति वायु की बोलिए।—गोरख०, पृ० २२३।

पसारना—क्रि० सं० [सं० प्रसारण] फैलाना। आगे की ओर बढ़ाना। विस्तार करना। जैसे,—किसी के आगे हाथ पसारना। बैठने की जगह पाकर पैर पसारना।

पसारा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसार] दे० 'प्रसार'। उ०—(क) शब्दै काया जग उतपानी शब्दै केरि पसारा।—कवीर, श०, भा० १, पृ० ४३। (ख) जो दिखियत यह बिस्व पसारी। सो सब क्रीडा भाड तुम्हारी।—नद० अं०, पृ० २८२।

पसारी—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] १. तिन्नी का धान। पसवन। पसेही। २. दे० 'पसारी'।

पसाव^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पसाना + आव (प्रत्य०)] वह जो पसाने पर निकले। पसाने पर निकलनेवाला पदार्थ। माँड। पीच।

पसाव^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसाद] दे० 'पसाड'। जैसे, लाखपसाव, कोटिपसाव। उ०—हिंडची सु बीर उत्तर दिसा इह पसाव चहुआन करि। पृ० २०, २४।४३६।

पसावन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसावण्य] १. किसी उबाली हुई वस्तु में का गिराया हुआ पानी। २. माँड। पीच।

पसिजर—सञ्ज्ञा पुं० [अ० पैसैजर] १. यात्री; विशेषतः रेल या जहाज का यात्री। २. मुसाफिरो के सवार होने की वह रेलगाड़ी जो प्रत्येक स्टेशन पर ठहरती चलती है और जिसकी चाल डाकगाड़ी की चाल से कुछ धीमी होती है।

पसित^१—वि० [सं० पाश (= बंधन)] बँधा या बाँधा हुआ।

पसीजना—क्रि० अ० [सं० प्र+√स्विद्, प्रस्विद्यति, प्रा० पसिञ्जइ] १. किसी घन पदार्थ में मिले हुए द्रव अणु का गरमी पाकर या और किसी कारण से रस रसकर बाहर निकालना। रसना। जैसे, पत्थर में से पानी पसीजना। २. चिच में दया उत्पन्न होना। दयाद्रं होना। जैसे,—आप लाख बातें बनाइए, पर वे कभी न पसीजेंगे। उ०—दुखित धरनि लखि वरसि जल घनहु पसीजे आय। द्रवत न क्यो घनश्याम तुम नाम दयानिधि पाय।—(शब्द०)।

पसीना—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रस्वेदन, हिं० पसीजना] शरीर में मिला हुआ जल जो अधिक परिश्रम करने अथवा गरमी लगने पर सादे शरीर से निकलने लगता है। प्रस्वेद। स्वेद। श्रमवारि।

विशेष—पसीना केवल स्तनपायी जीवों को होता है। ऐसे जीवों के सारे शरीर में त्वचा के नीचे छोटी छोटी ग्रथियाँ होती हैं जिनमें से रोमकूपों से होकर जलकणों के रूप में पसीना निकलता है। रासायनिक विश्लेषण से सिद्ध होता है कि पसीने में प्रायः वे ही पदार्थ होते हैं जो मूत्र में होते हैं। परंतु वे पदार्थ बहुत ही थोड़ी मात्रा में होते हैं। पसीने में मुख्यतः कई प्रकार के क्षार, कुछ चर्बी और कुछ प्रोटीन (शरीरघातु) होती है। शीघ्रमर्तु में व्यायाम मा अधिक परिश्रम करने पर, शरीर में अधिक गरमी के पहुँचने पर या लज्जा, भय, क्रोध आदि गहरे आवेगों के समय अथवा अधिक पानी पीने पर बहुत पसीना होता है। इसके अतिरिक्त जब मूत्र कम आता है तब भी पसीना अधिक होता है। शीघ्रघों के द्वारा अधिक पसीना लाकर कई रोगों की चिकित्सा भी की जाती है। शरीर स्वस्थ रहने की दशा में जो पसीना आता है, उसका न तो कोई रंग होता है और न उसमें कोई दुर्गंध होती है। परंतु शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो जाने पर उसमें से दुर्गंध निकलने लगती है।

क्रि० प्र०—आना ।—छूटना ।—निकलना ।—होना ।

मुहा०—पसीना गारना या घहाना = किसी कार्य या वस्तु के लिये अत्यधिक श्रम करना । पसीने पसीने होना = बहुत अधिक पसीना होना । पसीने से तर होना । गाढ़े पसीने की कमाई = कठिन परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन । बड़ी मेहनत से कमाई हुई दौलत ।

पसु०—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पशु] दे० 'पशु' । उ०—जैसे कीट पतंग पवान, भयो पसु पक्षी ।—धरम०, पृ० ८१ ।

पसुआ०—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पशुता] पशु । जानवर । उ०—आगुन कहीं सराव का ज्ञानवत सुनि लेय । मानुष से पसुआ करे, द्रव्य गाँठि को देय ।—सतबानी०, पृ० ६१ ।

पसुघ्न—वि० [सं० पशुघ्न] पशु का वध करनेवाला । उ०—विना पसुघ्नहि पुरुष सु कौन । कहै कि हरि गुन हौं न सुनौ न ।—नद० प्र०, पृ० २१८ ।

पसुचारन०—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पशुचारण] गाय, बैल आदि जानवरों को चराने का काम । उ०—जब पसुचारन चलत चरन कोमल धारि वन में । सिल भिन कटक अटकत कसकत हमरे मन में ।—नद० प्र०, पृ० १८ ।

पसुप०—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पशुप] पशुओं का रक्षक । पशुपालक । गोपाल । उ०—पशु अरु पसुप तृपित अति भए । चले चले कालीदह गए ।—नद प्र०, पृ० २७८ ।

पसुपति०—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पशुपति] महादेव । उ०—उग्र कपर्दी भूतपति पसुपति मृष्ट ईसान ।—अनेकार्य०, पृ० ७५ ।

पसुपाल०—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पशुपाल] दे० 'पशुपाल' । उ०—इन्के दिए बाढ़ो हैं गैया वच्छ बाल । सग मिलि भोजन करत हैं जैसे पसुपाल ।—दो सो बावन०, भा० २, पृ० ४ ।

पसुभाषा०—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पशुभाषा] पशुओं की बोली समझने की विद्या । पशुओं की बोली । उ०—पसुभाषा और जल-

तरन, घातु रसाइन जानु । रतन परख श्री चातुरी, सकल षग सग्यानु ।—माघवानल०, पृ० २०८ ।

पसुरियाँ—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पसली + ह्या (प्रत्य०)] दे० 'पसली' । उ०—यहिन वन गनन वजाव बंसुरिया । कौनहु नहि गुमान तकि भूलो, अग अग गलि जाइ पसुरिया ।—जग० वानी, पृ० ३४ ।

पसुरो०—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पसली' ।

पसुली०—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पसली' ।

पसूँ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पशु] दे० 'पशु' । उ०—करै गान ताँन पसू पच्छि मोहै ।—ह० रासो, पृ० ३७ ।

पसूज—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] वह सिलाई जिसमें सीधे तोपे भरे जाते हैं ।

पसूजना—क्रि० सं० [देश०] सीना । सिलाई करना ।

पसूताँ—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रसूता] जिस स्त्री ने अभी हाल में बच्चा जना हो । प्रसूता । जच्चा ।

पसूस—वि० [हि०] कठोर ।

पसेड, पसेऊँ—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पसेव] दे० 'पसेव' । उ०—जानु सो गारे रकत पसेऊ । सुखी न जान दुखी कर मेऊ ।—जायसी प्र० (गुप्त), पृ० २७१ ।

पसेपुशत—क्रि० वि० [फा०] पीछ पीछे । परोक्ष में । उ०—यह मेरा प्यारा जसोदा है, जिसकी गरदन में बाँहें डालकर मैं बागो की सैर किया करता था । हमारी सारी दुशमनी पसे-पुशत होती थी ।—काया०, पृ० ३३५ ।

पसेरो—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाँच + सेर + ई (प्रत्य०)] पाँच सेर का वाट । पसेरी ।

पसेव—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रस्वेद] १ वह द्रव पदार्थ जो किसी पदार्थ के पसीजने पर निकले । किसी चीज में से रसकर निकला हुआ जल । २ पसीना । उ०—तनु पसेव पसाहनि भासलि, पुलक तइसन जागु ।—विद्यापति०, पृ० ३१ । ३. वह तरल पदार्थ जो कच्ची अफीम को सुखाने के समय उसमें से निकलता है । इस अश के निकल जाने पर अफीम सूख जाती और खराब नहीं होती ।

पसेवाँ—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] सानारों की ढंगोठी पर चारों ओर रहने-वाली चारों ईटें ।

पसैहूँ—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक पेड़ । ऊ०—विहरत मोहन मदन गुपाल । कदम पसैहूँ ताल रसाल ।—घनानन्द, पृ० ३०३ ।

पसोपेश—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पस व पेश] १ आगा पीछा । सोच विचार । हिचक । दुविधा । जैसे,—जरा से काम में तुम इतना पसोपेश करते हो ? २ भला बुरा । हानि लाभ । ऊँच नीच । परिणाम । जैसे,—इस काम का सब पसोपेश सोच लो तब इसमें हाथ लगाओ ।

पसोपेस—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पसोपेश' । उ०—पसोपेस तजि भाइए पहिने कुन ससपज । कर मुकुताइ न जाइए मुकुता बरसत कज ।—स० सप्तक, पृ० २४७ ।

पस्त—वि० [फा०] १. हारा हुआ। २. चका हुआ। ३. दवा हुआ।
उ०—किसी तरह यह कमवस्त हाथ आता तो और
राजपूत खुद व खुद पस्त हो जाते।—भारतेंदु प्र०,
भा० १, पृ० ५२१। ४. निम्न। अघम (को०)। ५. छोटा।
लघु (को०)।

पौ०—पस्तकद। पस्तकिस्मत = अभाग। बदकिस्मत। पस्त-
खयाल = लघुचेता। क्षुद्रबुद्धि। पस्तहिम्मत। पस्त-
हिम्मती = कायरता। उत्साहहीनता। पस्तहीसला = दे०
'पस्तहिम्मत'।

पस्तकद—वि० [फा० पस्तकद] नाटा। वामन। बोना।

पस्तहिम्मत—वि० [फा०] हिम्मत हारा हुआ। मीर। डरपोक।
कायर।

पस्ताना—क्रि० अ० [सं० पश्चात्ताप, मरा० पस्तावणो] दे०
'पछताना'।

पस्तावा—सज्ञा पुं० [सं० पश्चात्ताप, सिंधी पस्तावो, गुज० पस्तावुं]
दे० 'पछतावा'।

पस्ती—सज्ञा स्त्री० [फा०] १. नीचे होने का भाव। निचाई। २.
कमी। न्यूनता। अभाव। ३. अघमता। क्षुद्रता। निम्नता।
कमीनापन (को०)।

पस्तो—सज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पस्तो'।

पस्त्य—सज्ञा पुं० [सं०] १. गृह। निवास। घर। २. कुल। परि-
वार (को०)।

पस्त्यर्मा—सज्ञा पुं० [सं० पश्चिम] दे० 'पश्चिम'। उ०—दिसि
पस्त्यम गुरजर सुघर सैहैर अहमदावाद।—पोद्दार अभि० प्र०,
पृ० ४२१।

पस्तर—सज्ञा पुं० [अ० परस्तर] जहाज का वह कर्मचारी जो खला-
सियों आदि को वेतन और रसद बांटता है। जहाज का
खजानची या भंडारी (लश०)।

पस्ता—क्रि० वि० [?] मुट्टी भर। उ०—वाइकां वनेगी रईयां
भेगले फिरेंगे छोरे। पस्तो उठा को मीटी डालेंगे नाउं पो
तेरे।—दक्खिनी०, पृ० २६७।

पस्ती—सज्ञा पुं० [दे०] शीशम की जाति का एक प्रकार का वृक्ष।
विद्युष्मा। भकोली।

विशेष—यह वृक्ष प्रायः सारे उत्तरी भारत, नेपाल और आसाम
में पाया जाता है। यह प्रायः सहको के किनारे लगाया जाता
है। यह नीचे और बसुई जमीन में बहुत जल्दी बढ़ता है।
इसकी पत्तियां चारे के काम में आती हैं। इसकी लकड़ी
बहुत बढ़िया होती है और शीशम की भांति ही काम में
आती है।

पस्ती वजूल—सज्ञा पुं० [हिं० पस्ती? + हिं० वजूल] एक प्रकार
का पहाड़ी विलायती वजूल जो जंगली नहीं होता बल्कि बोने
और लगाने से होता है।

विशेष—हिमालय में यह ५००० फुट की ऊंचाई तक बोया जा
सकता है। प्रायः घेरा बनाने या बाट लगाने के लिये यह

बहुत ही उत्तम और उपयोगी होता है। जाड़े में इसमें पत्र
फूल लगते हैं जिनमें से बहुत अच्छी सुगंध निकलती है।
यूरोप में इन फूलों से कई प्रकार के द्रव्य और सुगंधित द्रव्य
बनाए जाते हैं।

पहँ (पु) —अव्य० [सं० पार्व, प्रा० पाह] १. निकट। समीप।
उ०—राजा वैदि जेहि के सोपना। गा गोरा तेहि पहँ अग-
मना।—जायसी (शब्द०)। २. से। उ०—दूतिन्ह वात
न हिये समानी। पदमावति पहँ कहा सो आनी।—जायसी
(शब्द०)।

पहँसुल—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रह (= मुका हुआ) + शूल] हँसिया के
आकार का तरकारी काटने का एक औजार। हेमुष्मा।

पहँ (पु) —सज्ञा स्त्री० [सं० प्रभा] दे० 'पी'। उ०—प्रफुलित कमल
गुँजार करत अलि पहँ फाटी कुमुदिनि कुँमिलानी।—मूर
(शब्द०)।

पहँ (पु) —सज्ञा पुं० [सं० प्रभु] दे० 'प्रभु'। उ०—साहाँ ऊयप प्यरणी,
पहँ नरनाहाँ पत्त। राह दुहँ हृद रक्तणी, अमैमाह छत्रपत्त।—
रा० रू०, पृ० १०। (ख) शोध न करो अकाजा, देव दीन
सुरमी दुजराजा पहँ रघुवशी पूज।—रघु० रू०, पृ० ६०।

पहचनवाना—क्रि० सं० [हिं० पहचानना का प्रे० रूप] पहचानने
का काम कराना।

पहचान—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रत्यभिज्ञान] १. पहचानने की क्रिया
या भाव। यह ज्ञान कि यह वही व्यक्ति या वस्तु विशेष
है जिसे मैं पहले से जानता हूँ। देखने पर यह जान
लेने की क्रिया या भाव कि यह अमुक व्यक्ति या वस्तु है।
जैसे,—गवाह मूलजिम्में की पहचान न कर सवा।

क्रि० प्र०—करना।—होना।

२. भेद या विवेक करने की क्रिया या भाव। किसी का गुण,
मूल्य या योग्यता जानने की क्रिया या भाव। जैसे,—(क)
तुम भले बुरे की पहचान नहीं कर सकते। (ख) जवा-
हिरात की पहचान जोहरी कर सकता है। ३. पहचानने की
सामग्री। किसी वस्तु से संबंध रखनेवाली ऐसी बातें जिनकी
सहायता से वह अन्य वस्तुओं से अलग की जा सके। किसी
वस्तु की विशेषता प्रकट करनेवाली बातें। लक्षण। निशानी।
जैसे,—(क) मुझे उनके मवान की पहचान बताओ तो मैं
वहाँ जा सकता हूँ। (ख) अगर वह तमीज तुम्हारी है तो
इसकी कोई पहचान बताओ। ४. पहचानने की शक्ति या
वृत्ति। भेद या भेद समझने की शक्ति। एक वस्तु को दूसरी
वस्तु अथवा वस्तुओं से पृथक् करने की योग्यता। किसी वस्तु
का गुण, मूल्य अथवा योग्यता समझने की शक्ति। विवेक।
तमीज। जैसे,—(क) तुममें सोटे रारे की पहचान नहीं है।
(ख) तुममें धादनी की पहचान नहीं है। ५. जान पहचान।
परिचय। (कव०)। जैसे,—(क) हमारी उनको पह-
चान बिलकुल नई है। (ख) तुम्हारी पहचान का कोई
धादनी हो तो उससे मिलो।

पहचानना—क्रि० म० [हिं० पहचान + ना] १. किसी वस्तु या

व्यक्ति को देखते ही जान लेना कि यह कौन व्यक्ति या क्या वस्तु है। यह ज्ञान करना कि यह वही वस्तु या व्यक्तिविशेष है जिसे मैं पहले से जानता हूँ। चीन्हना। जैसे,—(क) बहुत दिनों पीछे मिलने पर भी उसने मुझे पहचान किया। (ख) पहचानो तो यह कौन फल है। २ वस्तु या व्यक्ति के स्वरूप को इस प्रकार जानना कि वह जब कभी इन्द्रियगोचर हो तो इस बात का निश्चय हो सके कि वह कौन अथवा क्या है। किसी वस्तु की शरीराकृति, रूप रंग अथवा शकल सूरत से परिचित होना। जैसे—(क) मैं उन्हें चार बरस से पहचानता हूँ। (ख) तुम इनका भ्रम पहचानते हो, तो चलकर बता न दो। ३ एक वस्तु का दूसरी वस्तु अथवा वस्तुओं से भेद करना। अंतर समझना या करना। विलगना। विवेक करना। तमीज करना। जैसे,—असल और नकल को पहचानना जरा टेडा काम है। ४ किसी वस्तु का गुण या दोष जानना। किसी की योग्यता या विशेषता से अभिज्ञ होना। किसी व्यक्ति के स्वभाव अथवा चरित्र की विशेषता को जानना। जैसे,—तुम्हारा उसका इतने दिनों तक साथ रहा, लेकिन तुम उन्हें पहचान न सके।

पहटना^१—क्रि० म० [सं० प्रखेट, प्रा० पहेट (= शिकार)] भगा देने अथवा पकड़ लेने के लिये किसी के पीछे दौड़ना। पीछा करना। खदेड़ना।

पहटना^२—क्रि० सं० [देश०] पैना करना। धार को रगड़ रगड़कर तेज करना।

पहटा^३—सज्ञा पुं० [देश०] १ 'पाटा'। २ 'पिठा'।

पहन^४—सज्ञा पुं० [सं० पाहन] दे० 'पाहन' वा 'पाषाण'। उ०—(क) अदिन आय जो पहुँचे काऊ। पहन उड़ाय वहै सो वाळ।—जायसी (शब्द०)। (ख) भव की घडी चिनग तेहि छूटे। जरहि पहाड पहन सब फूटे।—जायसी (शब्द०)।

पहन^५—सज्ञा पुं० [फा०] वह दूष जो वच्चे को देखकर वात्सल्य भाव के कारण माँ की छातियों में भर आए और टपकने को हो।

पहनना—क्रि० म० [मं० परिधान] (कपड़े अथवा गहने को) शरीर पर धारण करना। परिधान करना।

पहनवाना—क्रि० सं० [हिं० पहनना का प्रेरणरूप] किसी के द्वारा किसी को वस्त्र या आभूषण धारण कराना। किसी और के द्वारा किसी को कुछ पहनाना।

पहना^६—सज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पनहा'।

पहना^७—सज्ञा पुं० [फा० पहन] वह दूष जो वच्चे को देखकर वात्सल्य भाव के कारण माँ के स्तनों में भर आया हो और टपकना सा जान पड़े।

क्रि० प्र०—फूटना।

पहनाई—सज्ञा स्त्री० [हिं० पहनना] १ पहनने की क्रिया या भाव। जैसे,—जरा आपकी पहनाई देखिए। २ जो पहनाने के बदले में दिया जाय। पहनाने की मजदूरी या उजरत। जैसे, धुई पहनाई।

पहनाना—क्रि० सं० [हिं० पहनना] दूसरे को कपड़े, आभूषण आदि धारण कराना। किसी के शरीर पर पहनने की कोई चीज धारण कराना। दूसरे के शरीर पर यथास्थान रखना या ठहराना। जैसे, कुर्ता, ढंगूठी, माला, जूता, भदि पहनाना।

पहनाव—सज्ञा पुं० [हिं० पहनना] दे० 'पहनावा'।

पहनावा—सज्ञा पुं० [हिं० पहनना] १ ऊपर पहनने के मुख्य मुख्य कपड़े। सिले या बिना सिले सब कपड़े जो ऊपर पहने जायें। परिच्छद। परिषेय। पोशाक। २ सिर से पैर तक के ऊपर पहनने के सब कपड़े। पाँचो कपड़े। सिरोपाव। ३ विशेष अथवा, स्थान अथवा समाज में ऊपर पहने जानेवाले कपड़े। वे कपड़े जो किसी खास अवसर पर देश या समाज में पहने जाते हों। जैसे, दरबारी पहनावा, फौजी पहनावा, व्याह का पहनावा, काबुलियों का पहनावा, चीनियों का पहनावा, आदि। ४ कपड़े पहनने का ढंग या चाल। रुचि अथवा रीति की भिन्नता के कारण विशेष देश या समाज के पहनावे की विशेषता।

पहपट—सज्ञा पुं० [देश०] १ एक प्रकार का गीत जो स्त्रियाँ गाया करती हैं। २ शोरगुल। हल्ला। कोलाहल। ३ किसी की बदनामी का शोर। बदनामी या अपवाद का शोर। बदनामी की जोरशोर से चर्चा। ४ ऐसी बदनामी जो कानाफूसी द्वारा की जाय। गुप्त अपवाद या निंदा। किसी के दोष की ऐसी चर्चा जो उससे छिपाकर की जाय। (बु देलखड तथा अवघ)। ५. छल। ठगी। धोखा। फरेब।

पहपटबाज—सज्ञा पुं० [हिं० पहपट+फा० बाज] [सज्ञा पहपटबाजी] १ शोर गुल करने या करानेवाला। हल्ला करने या करानेवाला। फसादी। शरारती। ऋगड़ासु। २. छलिया। ठग। धोखेबाज। फरेबी।

पहपटबाजी—सज्ञा स्त्री० [हिं० पहपट+बाजी] १. ऋगडालुपन। कलहप्रियता। शोर गुल कराने का काम या आदत। २ छलियापन। ठगी। मक्कारी।

पहपटहाई—सज्ञा स्त्री० [हिं० पहपट+हाई (प्रत्य०)] पहपट करानेवाली। बात का बतगड करनेवाली। ऋगडा कराने या लगानेवाली।

पहर—सज्ञा पुं० [सं० प्रहर] १. एक दिन का चतुर्थांश। अहोरात्र का आठवाँ भाग। तीन घटे का समय। २ समय। जमाना। युग। जैसे,—(क) कलिकाल का पहर न है? (ख) किसी का क्या दोष, पहर ही ऐसा चढ़ा है।

क्रि० प्र०—चढ़ना।—लगना।

पहरना—क्रि० सं० [सं० प्रधारण] दे० 'पहनना'।

पहरा—सज्ञा पुं० [हिं० पहर] १ किसी वस्तु या व्यक्ति के आस पास एक या अधिक आदमियों का यह देखते रहने के लिये बैठना (अथवा बैठाया जाना) कि वह निर्दिष्ट स्थान से हटने वा भागने न पावे। रक्षकनियुक्ति। रक्षा अथवा निगहबानी का प्रबध। चौकी।

चौकी—पहरा । चौकी ।

मुद्दा०—पहरा बदलना = (१) नए रक्षक या रक्षको का नियुक्ति करना । नया नियुक्त कर पुराने को छुट्टी देना । रक्षक बदलना । (२) नए रक्षको का नियुक्त होना । रक्षा का नया प्रवध होना । रक्षक बदलना । पहरा बैठना = किसी वस्तु या व्यक्ति के आस पास रक्षक बैठाया जाना । चौकीदार नियुक्त होना । पहरा बैठाना = चौकीदार बैठाना । रक्षक नियुक्त करना ।

२ किसी व्यक्ति या वस्तु के सबध में यह देखते रहने की क्रिया कि वह निदिष्ट स्थान से हट न सके । निदिष्ट स्थान में किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की रक्षा करने का कार्य । रखवाली । हिफाजत । निगहवानी ।

चौकी—पहरा चौकी ।

मुद्दा०—पहरा देना = रखवाली करना । निगहवानी करना । चौकी देना । पहरा पढ़ना = रक्षक बैठा रहना । सतरी या चौकीदार का किसी स्थान पर खड़ा रहना । रक्षा का प्रवध रहना । जैसे,—उनके दरवाजे पर आठ पहर पहरा पढ़ता है ।

३ उतना समय जितने में एक रक्षक अथवा रक्षकदल को रक्षा-कार्य करना पड़ता है । एक पहरेदार या पहरेदारो के एक दल का कार्यकाल । तैनाती । नियुक्ति । जैसे,—मपने पहरे भर जाग लो फिर जो आएगा वह चाहे जैसा करे ।

विशेष—एक व्यक्ति अथवा एक रक्षकदल की नियुक्ति पहले एक पहर के लिये होती थी । उसके बाद दूसरे व्यक्ति या दल की नियुक्ति होती थी और पहले को छुट्टी मिलती थी । उपर्युक्त प्रवध, कार्य और कार्यकाल की, 'पहरा' सजा होने का यही कारण जान पड़ता है ।

४ वे रक्षक या चौकीदार जो एक समय में काम कर रहे हों । एक साथ काम करते हुए चौकीदार । रक्षकदल । गारद । (क्व०) । जैसे,—(फ) पहरा खड़ा है । (ख) पहरा धा रहा है । ५ चौकीदार का गणत या फेरा । रात में निश्चित समय पर रक्षक का चक्कर या भ्रमण ।

क्रि० प्र०—पढ़ना ।

६ चौकीदार की आवाज । फेरे में चौकीदार का सोतो को सावधान करने के लिये कोई वाक्य बार बार उच्च स्वर में कहना । जैसे,—भाज गया बात है जो अचतक पहरा सुनाई न दिया ? ७ पहरे में रहने की स्थिति । किसी मनुष्य की ऐसी स्थिति जिसमें उसके इर्द गिर्द रक्षक या सिपाही तैनात हों । हिरासत । हवालात । नजरबंदी ।

मुद्दा०—पहरे में देना = हिरासत में देना । हवालात भेजना । नजरबंद कराना । पहरे में रहना = हिरासत में रहना । हवालात में रक्षना । नजरबंद रहना । पहरे में होना = हिरासत में होना । नजरबंद होना । हवालात में होना । जैसे,—भाज बार रोज में दे बराबर पहरे में है ।

७ १८ समय । मुग । जमाना । उ०—कहें बयोर तुमो नारै

साधो ऐसा पहरा आयेगा । दान भांजी नोई न पूजे मानी न्योत जिमायेगा ।—बयोर (मन्त्र०) ।

पहरा^२—नग पु० [हि० पाव+रा, पौरा] पर रहने का फल । धा जाने का गुप्त या मगुभ प्रभार । पौर । जैसे,—यह ना पहरा प्रच्छा नहीं है, जब से आई है एण न एक प्राजा तगी रहती है । (सिधर्गा) ।

मुद्दा०—अच्छा पहरा = ऐसा पहरा जिनमें प्रारभ किया हुआ कार्य शीघ्र पूरा हो जाय । दुरा पहरा = ऐसा पहरा जितने प्रारभ किया हुआ कार्य जल्दी समाप्त न हो । भारी पहरा = दुरा पहरा । हलका पहरा = अच्छा पहरा ।

पहराइती—उज पु० [हि० पहरा+इत (प्रत्य०)] पहरैत । पहरे-दार । रखवाली करनेवाला । उ०—पहराइन घर नो मुमें साह न जानै नोइ । चोर आइ रक्षा करे सुदर तव गुग होइ ।—मुँदर प्र०, भा० २, पृ० ७५६ ।

पहराना^३—क्रि० स० [हि० पहनना] १० 'पहनाना' ।

पहरामखी^४—नग स्त्री० [हि० पहरावना] २० 'पहरावनी' । उ०—तो तट दी लारी तगी पहरामखी पुर्गाण ।—बाँकी प्र०, भा० १, पृ० ८० ।

पहरावनी—सजा स्त्री० [हि० पहरावना] वह पहनाना या पोशाक जो कोई व्यक्ति किसी पर प्रगल्न होकर उसे दान करे । वह पोशाक जो कोई बड़ा छोटे को दे । तिलमत्त । उ०—पठावनी पहरावनी, ब्राह्मण भोजन सब भली नाति सो विधो ।—दो मी वावन०, भा० १, पृ० १२ ।

पहरावा—सजा पु० [हि० पहनना] १० 'पहनाना' ।

पहरी—नगा पु० [सं० प्रहरी] १ पहरेदार १ चौकीदार । रक्षक । पहरा देनेवाला । २ एक जाति जिसका काम पहरा देना होता था ।

विशेष—प्राजवल इस जाति के लोग विविध व्यवसाय और कामधधे में लगे हैं । परंतु प्राचीन समय में इस जाति के लोग विशेषतः पहरा देने का ही काम करते थे । गात्र में रहनेवाले पहरी अतक अधिवतर चौकीदार ही होते हैं । वे लोग सुप्रभ भी पालते हैं । प्रायः बतुवर्ग के हिंदू इनका स्वर्ण किया हुआ जल नहीं पीते ।

पहरुआ^५—नग पु० [हि० पहरा] २० 'पहल' । उ०—बल नरि लेत पहरुमा कवत विधि जाइव ही ।—पन्म०, पृ० ६४ ।

पहरू—नगा पु० [हि० पहरा+ऊ (प्रत्य०)] पहरा देनेवाला । चौकीदार । पहरा । पहरा । उ०—दरमो पुच्छ घोर घेविराती, पहलु करत है गन ।—सुनी० ग०, पृ० ७ ।

पहरेदार—नग पु० [हि० पहरा] पहरा देनेवाला सतरी । पहरा ।

पहरेदारी—नग पु० [हि० पहरेदार] पहरा देने का नाम । चौकीदारी ।

पहल^६—नग पु० [सं० परल] १ किसी पर पदार्थ के लीन या अधिष्ठ होने परवा होने के लीक की सम्यक्

भूमि । किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई और मोटाई अथवा गहराई के कोनों अथवा रेखाओं से विभक्त समतल अक्ष । किसी लंबे चौड़े और मोटे अथवा गहरे पदार्थ के बाहरी फैलाव की बेंटी हुई सतह पर का चौरस कटाव या वनावट । बगल । पहलू । बाजू । तरफ । जैसे, खम्भे के पहलू, द्विविधा के पहलू, आदि ।

क्रि० प्र०—काटना ।—तराशना ।—बनाना ।

यौ०—पहलूदार । चौपहलू । अठपहलू ।

मुहा०—पहलू निकालना = पहलू बनाना । किसी पदार्थ के पृष्ठ देश या बाहरी सतह को तराश या छीलकर उसमें त्रिकोण, चतुष्कोण, षट्कोण आदि पैदा करना । पहलू तराशना ।

२ धुनी हुई या ऊन की मोटी और कुछ कड़ी तह या परत । जमी हुई हुई अथवा ऊन । रजाई तोशक आदि में भरी हुई हुई की परत । ३ रजाई तोशक आदि से निकाली हुई पुरानी हुई जो दबने के कारण कड़ी हो जाती है । पुरानी हुई । (५४) तह । परत । उ०—मायके के सखी सो मंगाइ फूल मालती के चादर सों ढाँपै छ्वाइ तोसक पहलू में ।—रघुनाथ (शब्द०) ।

पहलू^२—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पहलू] किसी कार्य, विशेषतः ऐसे कार्य का आरम्भ जिसके प्रतिकार या जवाब में कुछ किए जाने की संभावना हो । छेड़ । जैसे,—इस मामले में पहलू तो तुमने ही की है, उनका क्या दोष ?

पहलूदार—वि० [हि० पहलू + फा० दार] जिसमें पहलू हो । पहलूदार । जिसमें चारों ओर अलग अलग बेंटी हुई सतहें हो ।

पहलूनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पहलू] सोनारों का औजार जिसमें कोड़े को पहनाकर उसे गोल करते हैं । यह लोहे का होता है ।

पहलूवान—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] [सञ्ज्ञा पहलूवानी] १ कुश्ती लड़नेवाला बली पुरुष । कुश्तीबाज । बलवान और दावेंपंच में अभ्यस्त । मल्ल । २ पहलूवान तथा डीलडौलवाला । वह जिसका शरीर यथेष्ट हूट पुष्ट और बलसयुक्त हो । मोटा तगडा और ठोस शरीर का आदमी । जैसे,—वह तो खासा पहलूवान दिखाई पड़ता है ।

पहलूवानी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] १ कुश्ती लड़ने का काम । कुश्ती लड़ना । २ कुश्ती लड़ने का पेशा । मल्ल व्यवसाय । जैसे,—उनके यहाँ तीन पीढ़ियों से पहलूवानी होती आ रही है । ३ पहलूवान होने का भाव । बल की अधिकता और दावेंपंच आदि में कुशलता । शरीर, बल और दावेंपंच आदि का अभ्यास । जैसे,—मुकामिला पढ़ने पर सारी पहलूवानी निकल जायगी ।

पहलूवी—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] दे० 'पहलूवी' । उ०—जैसे पश्चिमी की क्रमशः पुरानी पारसी पहलूवी वा वर्तमान फारसी और पश्तो आदि है ।—प्रेमचन०, भा० २, पृ० ३७७ ।

पहलू^१—वि० [सं० प्रथम, प्रा० पहिल्लो] [स्त्री० पहली] जो क्रम के विचार से आदि में हो । किसी क्रम (देश या काल) में

प्रथम गणना में एक के स्थान पर पढ़नेवाला । एक की सख्या का पूरक । घटना, अवस्थिति, स्थापना आदि के विचार से जिसका स्थान सबसे आगे हो । प्रथम । आदिल । जैसे, पानी-पत का पहला युद्ध, प्रथमाला की पहली पुस्तक, पाँत का पहला आदमी आदि ।

पहलू^१—उच्चा पुं० [हि० पहलू] जमी हुई पुरानी हुई । पहलू ।

पहलू^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रह्लाद] दे० 'प्रह्लाद' । उ०—चद मरे सूरज मरे, मरिहै जिमी अकास । ध्रु पहलाद भभीषना, परे काल की फाँस ।—घट०, पृ० २३५ ।

पहलूका—वि० [हि० पहलू] पहले का । प्राथमिक । उ०—पहलूक परिचय पेम क सचय, रजनी आघ समाजे ।—विद्यापति, पृ० ६० ।

पहलू—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] १ शरीर में काँख के नीचे वह स्थान जहाँ पसलियाँ होती हैं । बगल और कमर के बीच का वह भाग जहाँ पसलियाँ होती हैं । कक्ष का अग्रभाग । पार्श्व । पाँजर ।

मुहा०—(किसी का) पहलू गरम करना = किसी के शरीर से विशेषतः प्रेयसी या प्रेमपात्र का प्रेमी के शरीर से सटकर बैठना । किसी के पहलू से अपना पहलू सटा या लगाकर बैठना । किसी के अति समीप बैठकर उसे सुखी करना । (किसी से) पहलू गरम करना = किसी को विशेषतः प्रेयसी या प्रेमपात्र को शरीर से सटाकर बैठाना । किसी को अपनी बगल में इस प्रकार बैठाना कि उसका पहलू अपने पहलू से लगा रहे । सुहृदवत में बैठाना । पहलू में बैठना = किसी के पहलू से अपना पहलू लगाकर बैठना । किसी का पहलू गरम करना = विलकुल सटकर बैठना । अति समीप बैठना । पहलू में बैठना = किसी के पहलू को अपने पहलू से लगाकर बैठाना । विलकुल सटाकर बैठाना । अति समीप बैठाना । पहलू में रहना = पहलू में बैठ रहना । पहलू गरम करना । लग या सटकर रहना । आस पास रहना । अति समीप रहना ।

२ किसी वस्तु का दायीं अथवा बायीं भाग । पार्श्व भाग । बाजू । बगल । ३ सेना का दाहना या बायीं भाग । सेन्यपार्श्व । फौज का पहलू । जैसे,—वह अपने दो हजार सवारों के साथ शत्रुसेना के दाएँ पहलू पर बाज की तरह दृढ़ पड़ा ।

मुहा०—पहलू दवाना = (१) आक्रमणकारी सेना का विपक्षी की सेना अथवा नगर के एक ओर बराबर में पहुँच जाना या जा पड़ना । अपनी सेना को बढ़ाते हुए विपक्ष की सेना के या नगर के दाहने या बाएँ पहुँच जाना । शत्रु की सेना या नगर पर एक ओर से आक्रमण कर देना । जैसे,—सायकाल से कुछ पहले ही उसने शाही फौज का पहलू जा दवाया । (२) अपनी सेना के एक पहलू को कुछ पीछे रखते और दूसरे को आगे करते हुए, चढ़ाई में आगे बढ़ना । एक पहलू को दवाते और दूसरे को उभारते हुए आगे बढ़ना । पहलू दवाना = (१) मुठ भेद दवाते हुए निकल जाना । बतराकर

निकल जाना । (२) किसी काम से जी चुराना । टाल जाना । जैसे,—जब जब ऐसा मौका आता है तब तब आप पहलू बचा जाते हैं । पहलू पर होना = सहायक होना । मददगार होना । पक्ष पर होना । जैसे,—तुम्हारे पहलू पर आज कौन है ?

४ करवट । बल । दिशा । तरफ । जैसे,—(क) किसी पहलू चैन नहीं पड़ता । (ख) हर पहलू से देख लिया, चीज अच्छी है । ५ पडोस । आसपाम । किसी के अति निकट का स्थान । पार्श्व ।

मुहा०—पहलू घसाना = किसी के समीप में जा रहना । पडोस आवाद करना । पडोसी बनना ।

६ [वि० पहलूदार] किसी वस्तु के पृष्ठ देश पर का समतल कटाव । पहल । जैसे, इस खभे में आठ पहलू निकालो ।

मि० प्र०—तराशना ।—निकालना ।

७ त्रिचारणीय विषय का कोई एक अंग । किसी वस्तु के सबष में उन बातों में से एक जिनपर अलग अलग विचार किया जा सकता हो अथवा करने का प्रयोजन हो । किसी विषय के उन कई रूपों में से एक जो विचारदृष्टि से दिखाई पड़े । गुण, दोष, भलाई, बुराई आदि की दृष्टि से किसी वस्तु के भिन्न भिन्न अंग । पक्ष । जैसे,—(क) अभी आपने इस मामले के एक ही पहलू पर विचार किया है और पहलुओं पर भी विचार कर लीजिए तब कोई मत स्थिर कीजिए । (ख) उठ चलने का सोचता था पहलू । —नसीम (शब्द०) । ८ संकेत । गुप्त सूचना । गूढाशय । वाक्य का ऐसा आशय जो जान बूझकर गुप्त रखा गया हो और बहुत सोचने पर खुले । किसी वाक्य या शब्द के साधारण अर्थ से भिन्न और किञ्चित् छिपा हुआ दूसरा अर्थ । ध्वनि । व्यंग्यार्थ । उ०—छोटी बातें हैं और पहलूदार । हाँ तेरे दिल में सीमवर है ।—अज्ञातकवि (शब्द०) ९. युक्ति । ढंग । तरकीब (को०) । १० घहावा । मिस । व्याज (को०) ।

पहले—अव्य० [हि० पहला] १ आरंभ में । सर्वप्रथम । आदि में । शुरु में । जैसे,—यहाँ आने पर पहले आप किसके यहाँ गए ?

यौ०—पहले पहल ।

२ देशक्रम में प्रथम । स्थिति में पूर्व । जैसे,—उनका मकान मेरे मकान से पहले पड़ता है । ३ कालक्रम में प्रथम । पूर्व में । आगे । पेशतर । जैसे—(क) पहले नमकीन खा लो तब मीठा खाना । (ख) यहाँ आने के पहले आप कहाँ रहते थे ? ४ बीते समय में । पूर्वकाल में । गत काल में । अगले जमाने में । जैसे—(फ) पहले ऐसी बातें सुनने में भी नहीं आती थी । (ख) अजी पहले के लोग अर्थ कहाँ है ?

पहलेज—सशा पुं० [देश०] एक प्रकार का खरबूजा जो कुछ लवो-तरा होता है । यह स्वाद में गोल खरबूजे की अपेक्षा कुछ हीन होता है ।

पहले पहल—अव्य० [हि० पहले] पहली बार । सबसे पहले । ६-२४

सर्वपूर्व । सर्वप्रथम । शीघ्र या पहली मरतबा । जैसे,—जब मैंने पहले पहल आपके दर्शन किए थे तबसे आप बहुत कुछ बदल गए हैं ।

पहलौठा—वि० [हि० पहला+थोठा (प्रत्य०)] दे० 'पहलीठा' ।

पहलौठी—सशा स्त्री० [हि० पहला+थौठी (प्रत्य०)] दे० 'पहलीठी' ।

पहलौठा—वि० [हि० पहला+थोठा (प्रत्य०)] [वि० स्त्री० पहलीठी] पहली बार के गर्भ से उत्पन्न (लड़का) । प्रथम गर्भजात ।

पहलौठी—सशा स्त्री० [हि० पहला+ठा] सबसे पहली जनन क्रिया । सबसे पहले गर्भमोचन । प्रथम प्रसव । पहले पहल बच्चा जनना । जैसे—यह उनका पहलीठी का लड़का है ।

पहाड़—सशा पुं० [सं० प्रभा, या देश०] १ उद्योति । प्रकाश । २ प्रतिज्ञा । प्रण (लाक्ष०) । उ०—नेम धारियो नरेम पहा न को चढे पेस । देख कहें सको देम खत्री बीज गयो खेस ।—रघु० ६०, पृ० ७६ ।

पहाऊ—सशा स्त्री० [सं० प्रभात] प्रभाती । भोर के समय गाया जानेवाला गीत । उ०—सुदरदास पहाऊ गाँवें माँगत इहँ जु दरसन पावें ।—सुदर० ग्रं०, भा० २ पृ० ८५० ।

पहाड़—सशा पुं० [सं० पापाय] [स्त्री० अथवा० पहाड़ी] १ पत्थर, चूने, मिट्टी आदि की चट्टानों का ऊँचा और बड़ा समूह जो प्राकृतिक रीति से बना हो । पर्वत । गिरि । (विशेष विवरण के लिये दे० 'पर्वत') ।

मुहा०—पहाड़ उठाना = (१) भारी काम सिर पर लेना । (२) भारी काम पूरा करना । पहाड़ कटना = बहुत भारी और कठिन काम हो जाना । ऐसे काम का हो जाना जा असंभव जान पड़ता रहा हो । बड़ी भारी कठिनाई दूर होना । सकट कटना । पहाड़ काटना = असंभव कार्य कर डालना । बहुत भारी काम खर डालना । ऐसा काम कर डालना जिसके होने की बहुत कम आशा रही हो । सबट से पीछा छुड़ाना । पहाड़ टूटना या टूट पडना = अचानक कोई भारी आपत्ति आ पडना । महान सकट उपस्थित होना । एसाएक भारी मुनीबत आ पडना । जैसे,—थैठे बैठाए बेचारे पर पहाड़ टूट पडा । पहाड़ से टक्कर लेना = अपने से बहुत अधिक बलवान् व्यक्ति से शत्रुता ठानना । बड़े में बर करना । जव-दस्त से मुकाबिला करना । पहाड़ों से सिर टकराना = अपने से बहुत बड़े शक्तिमान् से संघर्ष मोल लेना । उ०—यव आप पहाड़ों से सिर टकराइए ।—फिसाना०, भा० ३, पृ० १७६ ।

२ किसी वस्तु का बहुत भारी डेर । किसी वस्तु का बहुत बड़ा समूह । पहाड़ के समान ऊँची गिरि या डेर । जैसे,—बात की बात में वहाँ पुस्तकों का पहाड़ लगा गया ।

पहाड़—वि० १ पहाड़ की तरह भारी (चीज) । बहुत बोझ (चीज) । अतिशय गुरु (वस्तु) । जैसे,—तुम्हें तो पाद मर वा बोझ भी पहाड़ मानूँग पडना है । २ (बट) निरन्तर निम्तार न हो सके । (बट) जिसकी समाप्त या रोप न कर सकें । जैसे,—(क) आज की रात हमारे निन्दे पहाड़ हो

गई है। (ख) यह कन्या हमारे लिये पहाड़ हो गई है।
३ अति कठिन (कार्य)। अति दुष्कर (काम)। दुस्साध्य
(कर्म)। जैसे,—तुम तो हर एक काम ही को पहाड़
समझते हो।

पहाड़ा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रस्तार ? या हिं० पहाड़] किसी अक के
गुणनफलो की क्रमागत सूची या नक्शा। किसी अक के एक
से लेकर दस तक के साथ गुणा करने के फल जो सिलसिले
के साथ दिए गए हो। गुणनसूची। जैसे, दो का पहाड़ा, चार
का पहाड़ा, आदि।

क्रि० प्र०—पढ़ना।—थाढ़ करना।—लिखना।—सुनाना।

पहाड़ियाँ—वि० [हिं० पहाड़ + इया (प्रत्य०)] दे० 'पहाड़ी'।

पहाड़ी^१—वि० [हिं० पहाड़ + ई (प्रत्य०)] १ पहाड़ पर रहने
या होनेवाला। जो पहाड़ पर रहता या होता हो। जैसे,—
पहाड़ी जातियाँ, पहाड़ी मैना, पहाड़ी आलू। २ पहाड़
सबधी। जिसका पहाड़ से सबध हो। जैसे, पहाड़ी नदी,
पहाड़ी देश।

पहाड़ी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पहाड़ + ई (प्रत्य०)] १ छोटा
पहाड़। २ पहाड़ के लोगो की गाने की एक धुन। ३ सपूर्ण
जाति की एक प्रकार की रागिनी जिसके गाने का समय
आधी रात है।

पहाड़ी^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पहाड़ या सं० पर्पटी] एक प्रकार की
श्लेषध्वनि जिसे पर्पटी या जनी भी कहते हैं। वि० दे० 'जनी'।

पहाड़ी इन्द्रायन—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पहाड़े + ई (प्रत्य०) + इन्द्रायन] एक
प्रकार का खीरा जिसे ऐरालू भी कहते हैं। वि० दे० 'ऐरालू'।

पहाड़ु घ्या^१—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] धक्चो का एक प्रकार का खेल जिसे
'आनापानी' भी कहते हैं।

पहाड़ु घ्या^२—वि० [हिं० पहाड़ + उघ्या (प्रत्य०)] पहाड़ सबधी
पहाड़ का। पहाड़ी।

पहारा^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पहाड़'। उ०—पाप पहार प्रगट
भइ सोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोई।—मानस, २।३४।

पहार^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रहार, प्रा० पहार] आघात। प्रहार। उ०—
हलमिलग सेन वे वाह वीर। वरसें अनग अज्जत धीर।
माचत कूह बजि लोह सार। जुटु त सूर करि रिन पहार।—
पृ० रा०, १।६५६।

पहारा^३—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पहाड़ा'।

पहारी^१—वि० [हिं० पहाड़] दे० 'पहाड़ी'।

पहारी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पहाड़] दे० 'पहाड़ी'।

पहारू^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पहाड़] दे० 'पहाड़'। उ०—जोवन
गरुष अषेल पहारू।—जायसी प्र०, पृ० २३५।

पहारू^२—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पहारा] पहरेदार। रक्षक। पाहरू। उ०—
जेहि जिउ मई होइ सत्त पहारू। परे पहार न बाँके वारू।—
जायसी (शब्द०)।

पहिचान—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पहचान'।

पहिचानना—क्रि० सं० [हिं०] दे० 'पहचानना'।

पहिता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रहित (= साखन)] दाल। पकी हुई
दाल। उ०—दधि मधु मिठाई खीर पटरस विविध व्यजन
जे सबै। लाहू जलेवी पहित भात सुभाँति सिद्ध किए तवै।
—पद्माकर (शब्द०)।

पहिती—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रहित] दे० 'पहित'। उ०—पूँग माप
अरहर की पहिती। चनक कनक मम दारी जी।—रघुराज
(शब्द०)।

पहिनना—क्रि० सं० [हिं०] दे० 'पहनना'।

पहिनाना—क्रि० सं० [हिं० पहिनना] दे० 'पहनाना'।

पहिनावा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पहनाना'।

पहियड़ा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पथिक, प्रा० पहिय + ढा (प्रत्य०)]
दे० 'पथिक'। उ०—मारू मारइ पहियड़ा जउ पहिरइ सोवस।
दती, चूडइ मोतियाँ भीयाँ हेक वरन्न।—ढोला०, दू० १५७।

पहियाँ^१—अश्रय० [हिं० पहुँ] दे० 'पह'। उ०—कहँ कवि तोप
जव नैसो जैसो कीन्हो भव कहत न वतियाँ वै, तैसी हम
पहियाँ।—तोप (शब्द०)।

पहिया—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिधि ?] १ गाड़ी, इजन अथवा अन्य
किमी कल में लगा हुआ लकड़ी या लोहे का वह चक्कर जो
अपनी धुरी पर घूमता है और जिसके घूमने पर गाड़ी या कल
भी चलती है। गाड़ी या कल में वह चक्राकार भाग जो गाड़ी
या कल के चलने में घूमता है। चक्का। चक्र। उ०—भीगे
पहिया मेह में रथ ही देत वताय। नीर भरे वदरान पै अब
पहुँचे हम आय।—शकुतला, पृ० १३४। २. किसी कल का
वह चक्राकार भाग जो धुरी पर घूमता है, एव जिसके घूमने
से समस्त कल को गति नहीं मिलती किंतु उसके अथ विशेष
अथवा उससे संबद्ध अन्य वस्तु या वस्तुओं को मिलती है।
चक्कर।

विशेष—यद्यपि धुरी पर घूमनेवाले प्रत्येक चक्र को पहिया कहना
उचित होगा तथापि बोलचाल में किसी चलनेवाली चीज
अथवा गाड़ी के जमीन से लगे हुए चक्र को ही पहिया कहते हैं।
घड़ी के पहिए और प्रेस या मिल के इजन के पहिए आदि को,
जिनसे सारी कल को नहीं, उसके भागविशेष अथवा उससे
संबद्ध अन्य वस्तुओं को गति मिलती है, साधारणतः चक्का
कहने की चाल है। पहिया कल का अधिक महत्वपूर्ण अंग है।
उसका उपयोग केवल गति देने में ही नहीं होता, गति का
घटाना बढ़ाना, एक प्रकार की गति से दूसरे प्रकार की गति
उत्पन्न करना, आदि कार्य भी उससे लिए जाते हैं। पुट्टी आरा,
वेलन, आवन, घुरा, खोपड़ा, तितुला, लाग, हाल आदि गाड़ी
के पहिए के खास खास पुर्जे हैं। इन सबके संयोग से यह
वनता और काम करता है। इनके विवरण मूल शब्दों
में देखो।

पहियाहा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पथिक, प्रा० पहिय] दे० 'पथिक'।
उ०—नरवर देस सुहामणउ, जइ जावउ पहियाह।—ढोला०,
दू० ११०।

पहिरना—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पहिरना] पहनकर उतारा हुआ वस्त्र।

संयो० क्रि०—जाना ।

६ समझने में समर्थ होना । किसी विषय की कठिन बातों के समझने की सामर्थ्य रखना । दूर तक डूबना । जानवारी रखना । जैसे,—(क) कानून में ये अच्छा पहुँचते हैं । (ख) इस विषय में वे कुछ भी नहीं पहुँचते ।

मुहा०—पहुँचनेवाला = पता वा खबर रखनेवाला । जानकार । भेद या रहस्य जानने में समर्थ । छिपी बातों का ज्ञान रखनेवाला । जैसे,—वह बड़ा पहुँचनेवाला है, उससे यह बात अधिक दिनों छिपी न रहेगी । पहुँचा हुआ = (१) जिसे सब कुछ मालूम हो । गुप्त और प्रकट सब का जाननेवाला । अभिज्ञ । पता रखनेवाला । (२) दक्ष । निपुण । उस्ताद ।

७ आई अथवा भेजी हुई चीज किसी को मिलना । प्राप्त होना । मिलना । जैसे,—खबर पहुँचना, सलाम पहुँचना । ८ परिणाम के रूप में प्राप्त होना । अनुभव में आना । अनुभूत होना । जैसे,—(क) आपके वचनों से मुझे बड़ा खुश पहुँचा । (ख) आपकी दवा से उन्हें कोई लाभ नहीं पहुँचा । ९ किसी विषय में किसी के बराबर होना । समकक्ष होना । तुल्य होना । जैसे,—किसी हिंदी कवि की कविता तुलसीदास की कविता को नहीं पहुँचती ।

पहुँचा—सज्ञा पुं० [सं० प्रकोष्ठ] [सज्ञा स्त्री० पहुँची] हाथ की कुहनी के नीचे का भाग । बाहु के नीचे का वह भाग जो जोड़ पर मोटा और आगे की ओर पतला होता है । अग्रवाहु और हथेली के बीच का भाग कलाई । गट्टा । मण्ठिबंध ।

मुहा०—पहुँचा पकड़ना = बलात् कुछ माँगवे, पूछने अथवा तकाजा या झगडा करने के लिये किसी को रोक रखना । जैसे,—जब तुमने किसी का कर्ज नहीं खाया है तब तुम्हारा पहुँचा कौन पकड़ सकता है ?

पहुँचाना—क्रि० न० [हिं० पहुँच का सकर्मक रूप] १ किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर प्राप्त या प्रस्तुत कराना । किसी उद्दिष्ट स्थान तक गमन कराना । उपस्थित कराना । ले जाना । जैसे,—उनका नौकर मेरी क्तिताव पहुँचा गया । २ किसी के साथ जाना । किसी के साथ इसलिये जाना जिसमें वह अकेला न पड़े । शिष्टाचार के लिये भी ऐसा किया जाता है । उ०—जरा आप ही चलकर मुझे वहाँ पहुँचा आइए ।

सयो० क्रि०—देना ।

३ किसी को स्थिति विशेष में प्राप्त कराना । किसी को विशेष अवस्था तक ले जाना । जैसे,—(क) उन्हें इस उच्च पद तक पहुँचानेवाले आप ही हैं । (ख) उन्होंने चिकित्सा न करके अपने भाई को इस दुरवस्था को पहुँचा दिया ।

सयो० क्रि०—देना ।

४ प्रविष्ट कराना । घुसाना । बैठाना । जैसे,—आँखों में तरी पहुँचाना, वरतन की पेंदी में गरमी पहुँचाना । ५ कोई चीज लाकर या ले जाकर किसी को प्राप्त कराना । जैसे,—सध्या

तक यह खबर उन्हें पहुँचा देना । ६ परिणाम के रूप में प्राप्त कराना । अनुभव कराना । जैसे,—(क) उन्होंने अपने उपदेशों से मुझे बड़ा लाभ पहुँचाया । (ख) आपकी लापरवाही ने उन्हें बहुत हानि पहुँचाई । ७. किसी विषय में किसी के बराबर कर देना । समकक्ष कर देना । समान बना देना ।

सयो० क्रि०—देना ।

पहुँची—सज्ञा स्त्री० [हिं० पहुँचा] हाथ की कलाई पर पहनने का एक आभूषण जिसमें बहुत से गोल या कंगूरदार दाने कई पंक्तियों में गूथे हुए होते हैं । उ०—पग नूपुर की पहुँची कर कजन, मजु बनी मनिमाल हिए । नव नील कलेवर पीत भौंगा भलकैं पुलकैं नृप गोद लिए । —तुलसी ग्रं०, पृ० १५५ । २ युद्ध काल में कलाई पर उसकी रक्षा के लिये, पहनने का लोहे का एक प्रकार का आवरण । उ०—सजे सनाहट पहुँची टोपा । लोहसार पहिरे सब शोपा । —जायसी (शब्द०) ।

पहुँ—सज्ञा पुं० [सं० प्रभु, प्रा० पट्ट] प्रभु । प्रिय । स्वामी । उ०—कौन गुन पट्ट परवस भेल सजनी, बुझलि तनिक भल मद । —विद्यापति, पृ० १२६ ।

पहुँ—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रभा] दे० 'पौ' । ड०—पहुँ फट्ट सवितर उवत, पहुँवर मिल्लव घाय । —प० रासो, पृ० १४१ ।

पहुँनाई—सज्ञा स्त्री० [हिं० पहुँनाई] दे० 'पहुँनाई' । उ०—वारवार पहुँनाई ऐहँ राम लखन दोक भाई । —तुलसी (शब्द०) ।

पहुँना—सज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पाहुना' ।

पहुँनाई—सज्ञा स्त्री० [हिं० पहुँना+ई (प्रत्य०)] किसी के पाहुने होने का भाव । अतिथि रूप में कही जाना या आना । मेहमान होकर जाना या आना ।

क्रि० प्र०—आना । —जाना ।

मुहा०—पहुँनाई करना = दूसरे के यहाँ खाते फिरना । आतिथ्य पर चैन करना । भोज या दावतें उठाना । जैसे,—भाजकल तो तुम खूब पहुँनाई करते हो ।

२ आए हुए व्यक्ति का भोजन पान आदि से सत्कार करना । अतिथिसत्कार । मेहमानदारी । खातिर तवाजा । उ०—(क) घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भइ जहँ जहँ पहुँनाई । —तुलसी (शब्द०) । (ख) विविध भाँति होइहि पहुँनाई । —तुलसी (शब्द) ।

पहुँनी—सज्ञा स्त्री० [हिं० पहुँनाई] दे० 'पहुँनाई' ।

पहुँनी—सज्ञा स्त्री० [देश०] वह पत्थर जो पत्ला या धरन आदि चीरते समय चिरे हुए अक्ष के बीच में इसलिये दे देते हैं कि आरे के चलाने के लिये यथेष्ट अंतर रहे ।

पहुँप—सज्ञा पुं० [सं० पुष्प] दे० 'पुष्प' । उ०—अहो ब्रह्म में सपना देखा । वादल उमग पहुँप की रेखा । —कवीर सा०, पृ० ६० ।

पहुँम—सज्ञा स्त्री० [देश०] दे० 'पुहमी' ।

पहुँमि—सज्ञा स्त्री० [देश०] दे० 'पुहमी' । उ०—दीखति शंल शिखर

पहलव—संज्ञा पुं० [सं०] १. एक प्राचीन जाति। प्रायः प्राचीन पारसी या ईरानी।

विशेष—मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि प्राचीन पुस्तकों में जहाँ जहाँ खस, यवन, शक, काबोज, वाह्लीक, पारद आदि भारत के पश्चिम में बसनेवाली जातियों का उल्लेख है वहाँ वहाँ पहलवों का भी नाम आया है उपर्युक्त तथा अन्य संस्कृत ग्रंथों में पहलव शब्द सामान्य रीति से पारस निवासियों या ईरानियों के लिये व्यवहृत हुआ है मुसलमान ऐतिहासिकों ने भी इसको प्राचीन पारसीको का नाम माना है। प्राचीन काल में फारस के सरदारों का 'पहलवान' कहलाना भी इस बात का समर्थक है कि पहलव पारसीकों का ही नाम है। शाशानीय सम्राटों के समय में पारस की प्रधान भाषा और लिपि का नाम पहलवी पठ चुका था। तथापि कुछ युरोपीय इतिहासविद् 'पहलव' सारे पारस निवासियों की नहीं केवल पार्थिया निवासियों पारदों—की अपभ्रंश सज्ञा मानते हैं। पारस के कुछ पहाड़ी स्थानों में प्राप्त शिलालेखों में 'पार्थव' नाम की एक जाति का उल्लेख है। डा० हाग आदि का कहना है कि यह 'पार्थव' पार्थियस (पारदों) का ही नाम हो सकता है और 'पहलव' इसी पार्थव का वैसा ही फारसी अपभ्रंश है जैसा आवेस्ता के मित्र (वै० मित्र) का मिहिर। अपने मत की पुष्टि में ये लोग दो प्रमाण और भी देते हैं। एक यह कि अरमनी भाषा के ग्रंथों में लिखा है कि अरसक (पारद) राजाओं की राज-उपाधि 'पहलव' थी। दूसरा यह कि पार्थियावासियों को अपनी शूर वीरता और युद्धप्रियता का बड़ा धमक था, और फारसी के 'पहलवान' और अरमनी के 'पहलवीय' शब्दों का अर्थ भी शूरवीर और युद्धप्रिय है। रही यह बात कि पारसवालों ने अपने आपके लिये यह सज्ञा क्यों स्वीकार की और आसपास वालों ने उनका इसी नाम से क्यों उल्लेख किया। इसका उत्तर उपर्युक्त ऐतिहासिक यह देते हैं कि पार्थियावालों ने पाँच सौ वर्ष तक पारस में राज्य किया और रोमनों आदि से युद्ध करके उन्हें हराया। ऐसी दशा में 'पहलव' शब्द का पारस से इतना घनिष्ठ संबंध हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संस्कृत पुस्तकों में सभी स्थलों पर 'पारद' और 'पहलव' को अलग अलग दो जातियाँ मानकर उनका उल्लेख किया गया है। हरिवंश पुराण में महाराज सगर के द्वारा दोनों की वेशभूषा अलग अलग निश्चित किए जाने का वर्णन है। पहलव उनकी प्राज्ञा से 'धमश्रुचारी' हुए और पारद 'मुक्तकेश' रहने लगे। मनुस्मृति के अनुसार 'पहलव' पारद, शक आदि के समान आदिम क्षत्रिय थे और ब्राह्मणों के अदरान के कारण उन्हीं की तरह संस्कारभ्रष्ट हो गए। हरिवंश पुराण के अनुसार महाराज सगर ने इन्हें बलात् क्षत्रियधर्म से पतित कर म्लेच्छ बनाया। इसकी कथा यों है कि हेह्यवशी क्षत्रियों ने सगर के पिता बाहु का राज्य छीन लिया था। पारद, पहलव, यवन, काबोज आदि क्षत्रियों ने हेह्यवशियों की इस काम में सहायता

की थी। सगर ने समर्थ होने पर हेह्यवशियों को हराकर पिता का राज्य वापस लिया। उनके सहायक होने के कारण 'पहलव' आदि भी उनके कोपभाजन हुए। ये लोग राजा सगर के भय से भागकर उनके गुरु वशिष्ठ की शरण गए। वशिष्ठ ने इन्हें अभयदान दिया। गुरु का वचन रखने के लिये सगर ने इनके प्राण तो छोड़ दिए पर धर्म ले लिया, इन्हें क्षात्रधर्म से बहिष्कृत करके म्लेच्छत्व को प्राप्त करा दिया। वाल्मीकीय रामायण के अनुसार 'पहलवों' की उत्पत्ति वशिष्ठ की गो शबला के हुंभारव (रैभाने) से हुई है। विश्वामित्र के द्वारा हरी जाने पर उसने वशिष्ठ की आज्ञा से लड़ने के लिये जिन अनेक क्षत्रिय जातियों को अपने शब्द से उत्पन्न किया 'पहलव' उनमें पहले थे।

२ एक प्राचीन देश जो 'पहलव' जाति का निवासस्थान था। वर्तमान पारस या ईरान का अधिकांश।

विशेष—फारसी कोशों में 'पहलव' प्राचीन पारस के अतर्गत एक प्रदेश तथा नगर का नाम है। कुछ लोगों के मत से इस्फाहान, राय, हम्दान, निहावद और भाजरवायजान का सम्मिलित भूभाग ही उस काल का 'पहलव' प्रदेश है। पर ऐसा होने से 'पहलव' को मीडिया या माद का ही नामांतर मानना पड़ेगा। परंतु किसी भी पारसी या अरब इतिहास लेखक ने उसका 'पहलव' के नाम से उल्लेख नहीं किया है। पारद और पहलव को एक कहनेवाले युरोपीय विद्वान् 'पहलव' को पार्थिया प्रदेश का ही फारसी नाम मानते हैं। संस्कृत पुस्तकों में जिस तरह जाति के अर्थ में 'पहलव' का साधारणतः पारस निवासियों के लिये प्रयोग हुआ है उसी तरह देश अर्थ में भी मोटे प्रकार से पारस के लिये ही उसका व्यवहार हुआ है।

पहलवी—संज्ञा स्त्री० [फा० अथवा सं० पहलव] फारस या ईरान की एक प्राचीन भाषा। अति प्राचीन पारसी या जैद अरस्ता की भाषा और आधुनिक फारसी के मध्यवर्ती काल की फारस की भाषा।

विशेष—पारसियों के प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ इसी भाषा में मिलते हैं। उनकी मूल धर्मपुस्तक 'जैद अरस्ता' की टीका और अनुवाद आदि के रूप में जितनी प्राचीन पुस्तकें मिलती हैं, अधिकांश सभी इसी भाषा में हैं। शाशानीय सम्राटों के समय में यही राजकाज की भाषा थी। अतः इसकी उत्पत्ति का काल पारद सम्राटों का शासनकाल हो सकता है। इस भाषा में सेमिटिक शब्दों की बहुत भरमार है। शाशानीय काल के पहले की पहलवी में ये शब्द और भी अधिक हैं। इसमें व्यवहृत प्रायः समस्त सर्वनाम, अव्यय, क्रियापद, बहुत से क्रियाविशेषण और सज्ञापद अनार्य या शाभी हैं। इसके लिखने की दो शैलियाँ थीं। एक में शाभी शब्दों की विभक्तियाँ भी शाभी होती थीं, दूसरी में शाभी शब्दों के साथ खाल्दीय विभक्ति लगती थी। इन दोनों रीतियों में यह भी प्रभेद था कि पहली में क्रियापदों का कोई रूपांतर न होता था परंतु दूसरी में उनके साथ अनेक प्रकार के पारसी प्रत्यय जोड़े जाते थे। पहलवी ग्रंथसमूह मुख्यतः दो भागों में विभक्त हैं।

एक भाग अथवा शास्त्र का अनुवाद मात्र है। दूसरे भाग के ग्रंथों में धर्म की व्याख्या और ऐतिहासिक उपाख्यान हैं। शामी शब्दों की अधिकता और विशेषतः उपर्युक्त शैलीभेद के कारण कुछ विद्वान यह मानने लगे हैं कि पहलवी किसी काल में किसी जाति की बोलचाल की भाषा नहीं थी, पारसवालों ने जब शामी (यहूदी अरब) लोगों से लिपिविद्या सीखी और शामी वर्णमाला के द्वारा वे अपनी भाषा लिखने लगे उस समय उन लोगों ने अपनी भाषा के उन सब शब्दों को लिखने का प्रयास नहीं किया जिसके समानार्थक शब्द उन्हें शामी भाषा में मिल सके। ऐसे शब्द उन्होंने शामी के ही ज्यों के त्यों उठाकर अपनी भाषा में धर लिए। पर वे लिखते तो थे शामी शब्द और पढ़ते उस शब्द का समानार्थक अपनी भाषा का शब्द। जैसे, वे लिखते 'मालिक' जिसका अर्थ शामी में राजा है और पढ़ते थे अपनी भाषा का 'शाह' शब्द। बहुत दिनों तक इस प्रकार लिखते पढ़ते रहने से जिस विलक्षण सकार भाषा का गठन हुआ वही उक्त विद्वानों की सम्मति में पहलवी है।

पहिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] जलकुभी।

पाँक्त—वि० [सं० पाङ्क्त] १ पक्ति से सबंध रखनेवाला। पक्ति संबधी। २ पक्ति का। ३ पाँच बार होनेवाला। पाँच विभागों में होनेवाला (यज्ञ)। ४ दस अवयवोंवाला। दस अगवाला [को०]।

पाक्तेय—वि० [सं० पाङ्क्तेय] पक्ति में बैठनेवाला। पक्ति में समिलित होने लायक। पगत या पाँत में श्रीरो के साथ बैठने योग्य [को०]।

पाँक्त्य—वि० [सं० पाङ्क्त्य] दे० 'पाँक्तेय'।

पाँगुल्य—सज्ञा पुं० [सं० पाङ्गुल्य] लंगड़ापन। पगुत्व। पगुल होने का भाव [को०]।

पाँचकपाल—वि० [सं० पाञ्चकपाल] पचकपाल संबधी। पंचकपाल यज्ञ संबधी [को०]।

पाँचजनी—सज्ञा स्त्री० [सं० पाञ्चजनी] भागवत के अनुसार पचजन नामक प्रजापति की कन्या का नाम। इसका दूसरा नाम अक्षिकी भी था।

पाँचजन्य—सज्ञा पुं० [सं० पाञ्चजन्य] १ कृष्ण के बजाने का शंख।

विशेष—इसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि यह शंख उन्हें पचजन नामक दैत्य के पास उस समय मिला था जब वे गुरुदक्षिणा में अपने गुरु सांदीपन मुनि को उनका मृत पुत्र ला देने के लिये समुद्र में धुसे थे। कृष्ण ने पचजन को मारकर अपने गुरु के पुत्र को भी छुड़ाया था और उसका शंख भी ले लिया था।

यौ०—पाँचजन्यधर = कृष्ण का एक नाम।

२ विष्णु के शंख का नाम। ३ पुराणानुसार हारीत मुनि के वंश के दीर्घबुद्धि नामक ऋषि का एक नाम। ४ अग्नि।

५ पुराणानुसार जवूदीप के एक भाग का नाम।

पांचदश—वि० [सं० पाञ्चदश] [वि० स्त्री० पांचदशी] १. भास

के पंद्रहवें दिन से सबंध रखनेवाला। २. साम के पंद्रह मंत्रों द्वारा दीप्त। [को०]।

पाँचदश्य—सज्ञा पुं० [सं० पाञ्चदश्य] पद्रह का समूह [को०]।

पाचनद—सज्ञा पुं० [सं० पाञ्चनद] १. पचनद प्रदेश। पजाव प्रांत। २ पचनद नरेश। ३ पजाव के निवासी [को०]।

पाचभौतिक^१—सज्ञा पुं० [सं० पाञ्चभौतिक] पाँचो भूतो या तत्वों से बना हुआ शरीर।

पाचभौतिक^२—वि० [वि० स्त्री० पाञ्चभौतिकी] पाँच तत्वों या पच महाभूतों द्वारा निर्मित। जैसे, पाचभौतिकी सृष्टि।

पाचयज्ञिक^१—वि० [सं० पाञ्चयज्ञिक] [वि० स्त्री० पांचयज्ञिकी] पच महायज्ञ संबधी।

पाचयज्ञिक^२—सज्ञा पुं० पाँच महायज्ञों में से कोई एक [को०]।

पाँचरात्र—सज्ञा पुं० [सं० पाञ्चरात्र] १. एक वैष्णव संप्रदाय। २ पाचरात्र संप्रदाय का सिद्धांत [को०]।

पांचालिका—सज्ञा स्त्री० [सं० पाञ्चालिका] कपड़े की बनी हुई गुड़िया।

पाँचवर्षिक—वि० [सं० पाञ्चवर्षिक] [वि० स्त्री० पांचवर्षिकी] पाँच बरस का। पचवर्षीय [को०]।

पाँचशाब्दिक—सज्ञा पुं० [सं० पाञ्चशाब्दिक] १ करताल, ढोल, बोन, घटा और भेरी आदि पाँच प्रकार के बाजे। २ पाँच प्रकार का संगीत जो स्कंद पुराण में अगज, कर्मज, तत्रज, कास्यज और फूत्कृत कहा गया है [को०]।

पाँचार्थिक—सज्ञा पुं० [सं० पाञ्चार्थिक] शैव। शिवभक्त [को०]।

पांचाल^१—सज्ञा पुं० [सं० पाञ्चाल] १ बड़ई, नाई, जुलाहा, घोड़ी और चमार इन पाँचों का समुदाय। २ भारत के पश्चिमोत्तर का एक देश। विशेष—दे० 'पंचाल'। ३ पांचाल का नरेश।

पांचाल^२—वि० [वि० स्त्री० पाँचाली] १ पांचाल देश का रहनेवाला। २ पांचाल देश संबधी।

पाँचालक^१—वि० [सं० पाञ्चालक] पजाव के निवासियों से संबद्ध। पांचाल देश का [को०]।

पाँचालक^२—सज्ञा पुं० पंचाल का राजा [को०]।

पाँचालिका—सज्ञा स्त्री० [सं० पाञ्चालिका] दे० 'पांचाली'।

पांचाली—सज्ञा स्त्री० [सं० पाञ्चाली] १ गुड़िया। कपड़े की पुतली। पंचालिका। पंचाली। २ साहित्य में एक प्रकार की रीति या वाक्य-रचना-प्रणाली जिसमें बड़े बड़े पाँच छह समासों से युक्त और कातिपूर्ण पदावली होती है। इसका व्यवहार सुकुमार और मधुर वर्णन में होता है। किसी किसी के मत से गौड़ी और वैदर्भी वृत्तियों के सम्मिश्रण को भी पांचाली कहते हैं। ३ पांडवों की स्त्री द्रौपदी का एक नाम जो पंचाल देश की राजकुमारी थी। ४ छोटी पीपल। ५. इद्रजाल के छह भेदों में से एक। ६ शास्त्र [को०]। ७ स्वर-साधन की एक प्रणाली जो इस प्रकार है—

आरोही—सा रे सा रे ग, रे ग रे ग म, ग म ग म प, म प म प ध, प ध प ध नि, ध नि ध नि सा।

अवरोही—सा नि सा नि घ, नि घ नि घ प, घ प घ प म, प म प म ग, म ग म ग रे, ग रे ग रे सा ।

पांड—वि० [सं० पाण्ड] निष्फल । फलरहित [को०] ।

पांडर—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डर] १ कुंद का वृक्ष । २ कुंद का फूल । ३ पानही । ४ सफेद रंग । ५ सफेद रंग का कोई पदार्थ । ६ मरुवा वृक्ष । दीना । ७ महाभारत के अनुसार ऐरावत के कुल में उत्पन्न एक हाथी का नाम । ८ पुराणानुसार एक पर्वत का नाम जो मेरु पर्वत के पश्चिम में है । ९ एक प्रकार का पक्षी । १० गैरिक । गेरु (को०) । ११ शुक्र । वीर्य (को०) ।

पांडरपुष्पिका—सज्ञा स्त्री० [सं० पाण्डरपुष्पिका] शीतला वृक्ष ।

पाण्डरमुष्टिका—सज्ञा स्त्री० [सं० पाण्डरमुष्टिका] दे० 'पाण्डरपुष्पिका' ।

पाण्डरेत्तर—वि० [सं० पाण्डरेत्तर] पाण्डर अर्थात् श्वेतवर्ण से भिन्न । जो सुफेद न हो ।

पाण्डव—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डव] १ कुती और माद्री के गर्भ से उत्पन्न राजा पाण्डु के पाँचों पुत्र युधिष्ठिर, भीम अर्जुन, नकुल और सहदेव । (इनके जन्मवृत्तांत के लिये दे० 'पांडु' और इनके विशेष चरित्र के लिये पृथक् पृथक् इन सबके नाम देखें) । २ पाण्डु के पाँच पुत्रों में से किसी एक की आर्या । ३ प्राचीन काल में पंजाब का एक प्रदेश जो वितस्ता (झेलम) नदी के तीर पर बसा था । ४. उस प्रदेश में रहनेवाले लोग ।

पाण्डवनगर—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डवनगर] दिल्ली ।

पाण्डवश्रेष्ठ—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डवश्रेष्ठ] पाण्डवों में सबसे बड़े भाई । युधिष्ठिर [को०] ।

पाण्डवाभील—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डवाभील] कृष्ण ।

पाण्डवायन—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डवायन] श्रीकृष्ण ।

पाण्डविक—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डविक] एक प्रकार का चटक पक्षी । गौरा । गौरैया [को०] ।

पाण्डवीय—वि० [सं० पाण्डवीय] पाण्डव सबधी । पाण्डव का । जैसे, राघवपाण्डवीय [को०] ।

पाण्डवेय—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डवेय] १ पाण्डव । २ अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित ।

पाण्डित्य—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डित्य] पंडित होने का भाव । विद्वत्ता । पंडिताई ।

पाण्डिमा—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डिमन्] पाण्डुता । पाण्डुत्व [को०] ।

पाण्डोस—सज्ञा स्त्री० [देश०] तलवार (हिं०) ।

पाण्डु—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डु] १ पाण्डुफली । पारली । २ परमल । ३ कुछ लाली लिए पीला रंग । ४ वह जिमका रंग लाली लिए पीला हो । ५ एक नाग का नाम । ६ सफेद हाथी । ७ सफेद रंग । ८ पीलापन लिए सफेद रंग । ९ एक रोग का नाम जिसमें रक्त के दूषित हो जाने से शरीर का चमड़ा पीले रंग का हो जाता है ।

विशेष—सुश्रुत में लिखा है कि अधिक स्त्रीगमन करने, खटाई और नमक खाने, शराव पीने, मिट्टी खाने, दिन को मोने तथा इसी प्रकार के और कुपथ्य करने से यह रोग हो जाता है ।

चमड़े का फटना, आँख के गोलक का सूजना और पेशाब पाखाने के रंग का पीला पड़ जाना इस रोग का पूर्वलक्षण है । यह कफज, चातज, पित्तज और सन्निपातज चार प्रकार का होता है । इसके अतिरिक्त भावप्रकाश में इसका एक पाँचवाँ प्रकार मृत्तिकाभक्षणजात भी माना गया है । सुयुत ने कामला, कुतकामला, हलीमक और लाघरक आदि रोगों को इसी के अंतर्गत माना है । इस रोग में रोगी को कप, पीडा, शूल, क्रम, तद्रा, आलस्य, खाँसी, धवस, अरुचि और अर्गों में सूजन आदि भी होती है ।

१० प्राचीन काल के एक राजा का नाम जो पाण्डव वंश के आविपुत्र थे ।

विशेष—महाभारत में इनकी कथा बहुत ही विस्तार के साथ दी हुई है । उसमें लिखा है कि जिस समय राजा विचित्रवीर्य युवावस्था में ही क्षय रोगों के कारण मर गए और अशिका तथा अशालिका नाम की उनकी दोनों स्त्रियाँ विधवा हो गईं, उस समय विचित्रवीर्य की माता सत्यवती ने अपना वध चलाने के उद्देश्य से अपने दूसरे पुत्र भीष्म से कहा था कि तुम अशिका और अशालिका के साथ नियोग करके सतान उत्पन्न करो । परंतु भीष्म इससे बहुत पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मैं भ्राजन्म क्वारा और ब्रह्मचारी रहूँगा । अतः उन्होंने माता को यह बात तो नहीं मानी पर उन्हें सम्मति दी कि किसी योग्य ब्राह्मण को चुनवाकर और उसे कुछ धन देकर विचित्रवीर्य की स्त्रियों का गर्भधान करा लो । इसपर सत्यवती ने अपने पहले पुत्र व्यास का जो पराशर ऋषि से उत्पन्न हुए थे, स्मरण किया और उनके आ जाने पर कहा कि तुम एक प्रकार से विचित्रवीर्य के बड़े भाई हो । अतः तुम ही उसकी दोनों विधवाओं से वधवृद्धि के लिये सतान उत्पन्न करो । व्यास ने अपनी माता की यह बात स्वीकार करते हुए कहा कि पहले दोनों विधवा स्त्रियाँ अतःपूर्वक रहें तब मैं उन्हें मिश्रावरुण के सद्यः पुत्र प्रदान करूँगा । लेकिन सत्यवती ने कहा कि राज्य में राजा के न रहने से अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं, अतः तुम अभी इन दोनों को गर्भ धारण कराओ । तदनुसार व्यास ने पहले तो अशिका के गर्भ से घृतराष्ट्र को उत्पन्न किया । और तब अशालिका की वारी आई । जब अशालिका भी ऋतुमती हो चुकी तब व्यासदेव आधीरात के समय उसके पास गए । उनका उग्र रूप देखकर अशालिका मारे डर के पीली पड़ गई । समय पूरा होने पर अशालिका को पीले रंग का एक लडका हुआ जिसका नाम 'पाण्डु' रखा गया । बाल्यावस्था में घृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर तीनों को भीष्म ने ही पाला पोसा और पढाया लिखाया था । पाण्डु का विवाह राजा कुतिभोज की कन्या कुती से हुआ था । पीछे से भीष्म ने मद्रकन्या माद्री से इनका एक और विवाह कर दिया था । विवाह के कुछ दिनों के उपरांत पाण्डु ने समस्त भूमंडल के राजाओं को परास्त करके दिग्विजय किया और बहुत सा धन एकत्र किया । इसके धन से घृतराष्ट्र ने पाँच महायज्ञ किए थे । इनमें से

प्रत्येक महायज्ञ में उन्होंने इतना धन दान किया था जिसमें सैकड़ों बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए जा सकते थे। कुछ दिनों तक राज्य करने के उपरांत पांडु अपनी दोनों स्त्रियों को साथ लेकर जंगल में जा रहे और वहीं आमोद प्रमोद और शिकार आदि करके रहने लगे। एक बार शिकार में उन्होंने हिरन को हिरनी के साथ मैथुन करते हुए देखा और तुरत तीर से उस हिरन को मार गिराया। कहते हैं ये हिरन और हिरनी वास्तव में ऋषिपुत्र किमिदय और उनकी पत्नी थे। तीर लगते ही उस मृग ने मनुष्यों की बोली में कहा कि तुमने मुझे स्त्री के साथ भोग करते में मारा है अतः तुम भी जब अपनी स्त्री के साथ भोग करोगे तब उभी समय तुम्हारी भी मृत्यु हो जायगी। और जिस स्त्री के साथ भोग करते हुए तुम मरोगे वह तुम्हारे साथ सती होगी। इसपर पांडु बहुत दुःखी हुए और अपनी दोनों स्त्रियों को साथ लेकर नागशत पर्वत पर चले गए। वे सब प्रकार का भोग विलास आदि छोड़कर कठोर तपस्या करने लगे। वहीं एक बार पांडु ने बहुत से ऋषियों के साथ स्वर्ग जाना चाहा था परन्तु ऋषियों ने उन्हें मना किया और कहा कि जिसके कोई सतान न हो वह स्वर्ग नहीं जा सकता। इसपर पांडु ने अपनी स्त्री के गर्भ से किसी ब्राह्मण के द्वारा पुत्र उत्पन्न कराने का विचार किया और अपनी स्त्री कुती से सब हाल कहा। इसपर कुती ने, जिसे जिस देवता का चाहे स्मरण करके पुत्र प्राप्त करने का वरदान था, धर्म, वायु और इन्द्र को आवाहन कर क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और भर्जुन नामक तीन पुत्र जने और माद्री ने अश्विनीकुमार के अनुग्रह से नकुल और सहदेव नामक दो पुत्र पाए। पीछे से ये ही पाँचों पुत्र पांडव कहलाए और इन्होंने कौरवों से युद्ध किया था (दे० 'पांडव')। इसके कुछ दिनों के उपरांत एक बार वसंत ऋतु में पांडु को बहुत अधिक काम-पीडा हुई। उस समय उन्होंने माद्री के बहुत मना करने पर भी नहीं माना और वे बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगे। किमिदय ऋषि के शाप के अनुसार उसी समय उनके प्राण निकल गए और माद्री ने भी वही अपने प्राण दे दिए। पीछे से लोग पांडु और माद्री को हस्तिनापुर ले गए और वहीं धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर ने दोनों का प्रेतसंस्कार किया।

पांडुकंटक—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डुकण्टक] अपामार्ग। चिचडा।

पांडुषंखल—सज्ञा पुं० [म० पाण्डुषंखल] १ एक प्रकार का पत्थर जो सफेद होता है। २ श्वेतवर्ण का ऊनी कवल (को०)। ३ राजकीय गज का आवरण। हाथी की भूल (को०)। ४ श्वेतवर्ण का ऊपरी परिधान (को०)।

पांडुकवली—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डुकवली] १ हाथी की भूल। २ वह रथ आदि जिसपर पांडुवर्ण का ओहार वा आवरण पडा हो (को०)।

पांडुक—सज्ञा पुं० [म० पाण्डुक] १ दे० 'पांडुक'। २ दे० 'पांडु'। ३ पांडु वर्ण। पीला रंग। ४ परवल।

पांडुकर्म—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डुकर्म] सुश्रुत के अनुसार वर्ण-

चिकित्सा का एक अंग जिसमें फोड़े के अच्छे हो जाने पर उसके काले दाग को ओषधि की सहायता से दूर करते और वहाँ के चमड़े को फिर शरीर के वर्ण का कर देते हैं। इसे पांडुकरण भी कहा है।

विशेष—सुश्रुत का मत है कि यदि फोड़े के अच्छे हो जाने पर दुरुद्धता के कारण उसके स्थान पर काला दाग रह गया हो तो कडवी तूँधी को तोड़कर उसमें बकरी का दूध डाल दे और उस दूध में सात दिन तक रोहिणी फल भिगोए। इसके बाद उस फल को गीला ही पीसकर फोड़े के दाग पर लगाए तो वह दाग दूर हो जायगा।

पांडुकी—वि० [सं० पाण्डुकिन्] पांडुरोगवाला। जिसे पांडु रोग हुआ हो (को०)।

पांडुक्षमा—सज्ञा स्त्री० [सं० पाण्डुक्षमा] पांडु की धरती। हस्तिनापुर का नाम।

पांडुक्षरु—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डुक्षरु] धी का पेड़।

पांडुता—सज्ञा स्त्री० [सं० पाण्डुता] पांडु होने का भाव, धर्म या क्रिया। पांडुत्व। पीलापन।

पांडुतीर्थ—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डुतीर्थ] पुराणानुसार एक तीर्थ का नाम।

पांडुत्व—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डुत्व] पांडु होने का भाव। पांडुता।

पांडुनाग—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डुनाग] १ पुष्पाग वृक्ष। २ सफेद रंग का हाथी। ३ सफेद रंग का सर्प।

पांडुपंचानन रस—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डुपञ्चानन रस] वैद्यक में एक प्रकार का रस जिसे त्रिकटु, त्रिफला, दंतीमूल, चितामूल, हलदी, मानमूल, इन्द्रजो, वच, मोथा आदि औषधियों को गोमूत्र में पकाकर बनाते हैं और जो पांडु तथा हलीमक आदि रोगों के लिये बहुत ही उपकारक माना जाता है।

पांडुपत्रो—सज्ञा स्त्री० [पुं० पाण्डुपत्री] रेणुका नामक गधद्रव्य।

पांडुपुत्र—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डुपुत्र] पांडव।

पांडुपृष्ठ—सज्ञा पुं० [म० पाण्डुपृष्ठ] २ जिसकी पीठ सफेद हो। २ अयोग्य। अकर्मण्य। निकम्मा।

पांडुफल—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डुफल] पटोल। परवल।

पांडुफला—सज्ञा स्त्री० [सं० पाण्डुफला] चिमिटी। पांडुफली।

पांडुफली—सज्ञा स्त्री० [सं० पाण्डुफली] चिमिटी (को०)।

पांडुभूम—वि० [सं० पाण्डुभूम] जहाँ की भूमि श्वेत वर्ण की हो।

पांडुमृत्—सज्ञा स्त्री० [सं० पाण्डुमृत्] १ खड़िया। श्वेत खरी। हृषिया मिट्टी। २ पीली मिट्टी। रामरज।

पांडुमृत्तिका—सज्ञा स्त्री० [सं० पाण्डुमृत्तिका] दे० 'पांडुमृत्'।

पांडुरंग—सज्ञा पुं० [म० पाण्डुरङ्ग] १ एक प्रकार का साग जो वैद्यक के अनुसार तिक्त और लघु तथा कृमि, श्लेष्मा और कफ का नाश करनेवाला माना जाता है। २ पुराणानुसार विष्णु का एक अवतार।

पाङ्कुर^१—वि० [सं० पाङ्कुर] १ पीला । जर्द । २ सफेद । श्वेत ।
 पाङ्कुर^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह जो पीला हो । २ वह जो सफेद हो । ३ घी का पेड़ । ४ सफेद ज्वार । ५ कवूतर । ६ बगला । ७ सफेद खडिया । ८ कामला रोग । ९ सफेद कोढ़ । १० कार्तिकेय के एक गण का नाम । ११ पाङ्कुर वर्ण या रंग ।
 पाङ्कुरक—वि० [सं० पाङ्कुरक] पाङ्कुर वर्ण का । पाङ्कुर रंग का ।
 पाङ्कुरद्रुम—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाङ्कुरद्रुम] कुठे का वृक्ष । कुटज । कुरैया ।
 पाङ्कुरपृष्ठ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाङ्कुरपृष्ठ] दे० 'पाङ्कुरपृष्ठ' ।
 पाङ्कुरफली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पाङ्कुरफली] एक प्रकार का छोटा क्षुप ।
 पाङ्कुरा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पाङ्कुरा] १ मषवन । माषपर्णी । २ ककड़ी । ३ बौद्धों में एक देवी या शक्ति का नाम ।
 पाङ्कुराग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाङ्कुराग] दौना ।
 पाङ्कुरित—वि० [सं० पाङ्कुरित] पाङ्कुर या पाङ्कुर वर्ण का ।
 पाङ्कुरिमा—सञ्ज्ञा [सं० पाङ्कुरिमन्] १ श्वेत वर्ण । सफेद रंग । २ श्वेत वर्ण युक्त पीत रंग [को०] ।
 पाङ्कुरेक्षु—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाङ्कुरेक्षु] सफेद ईख ।
 पाङ्कुरोग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाङ्कुरोग] कामला रोग । पीलिया [को०] ।
 पाङ्कुरलिपि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पाङ्कुरलिपि] लेख आदि का वह पहला रूप जो काट छाँट या घटाने बढ़ाने आदि के लिये तैयार किया जाय । मसौदा ।
 पाङ्कुरलेख—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाङ्कुरलेख] पाङ्कुरलिपि । मसौदा ।
 पाङ्कुरलोमशा^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पाङ्कुरलोमशा] मषवन । माषपर्णी ।
 पाङ्कुरलोमशा^२—वि० स्त्री० जिसके रोएँ सफेद हो ।
 पाङ्कुरलोमा—वि०, सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पाङ्कुरलोमा] दे० 'पाङ्कुरलोमशा' ।
 पाङ्कुरलोह—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाङ्कुरलोह] चाँदी । रजत [को०] ।
 पाङ्कुरवा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाङ्कुरवा] वह जमीन जिसकी मिट्टी में बालू भी मिली हो । बलुई मिट्टीवाली जमीन । दोमट जमीन ।
 पाङ्कुरशर्करा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पाङ्कुरशर्करा] एक प्रकार का प्रमेह ।
 पाङ्कुरशर्मिला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पाङ्कुरशर्मिला] द्रौपदी ।
 पाङ्कुरसोपाक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाङ्कुरसोपाक] प्राचीन काल की एक वर्णसंकर जाति, जिसकी उत्पत्ति मनु के अनुसार वैदेही माता और चाटाल पिता से है । कहते हैं, इस जाति के लोग बाँस की चीजें, दौरियाँ, टोकरे आदि बनाकर अपना निर्वाह करते थे ।
 पाङ्कुरा—वि० [सं० पाङ्कुरक] श्वेत । सफेद ।—उ० दाँत कवाड्या सिर पाहारा केस ।—बी० रासो, पृ० ७१ ।
 पाङ्कुरेय—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाङ्कुरेय] दे० 'पाङ्कुरे' ।
 पाङ्कुरे^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाङ्कुरे] दे० 'पाङ्कुरे' । उ०—बधु घात

कर दोष लगावा । पाङ्कुरे कहँ बहु काल सतीवा ।—कबीर सा०, पृ० ४६८ ।

पाङ्कुर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ एक देश का नाम । २ उस देश का राजा । ३ पाङ्कुर देश के निवासी जन [को०] ।
 पांथ—वि० [सं० पान्य] १ पथिक । उ०—यह श्रोत्र अमोघ जायगा, पथ तो पांथ स्वयं वनायगा—। साकेत, पृ० ३६३ । २ वियोगी । विरही । ३ सूर्य । रवि [को०] ।
 पांथनिवास—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पान्यनिवास] सराय । चट्टी ।
 पाथशाला—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पान्यशाला] सराय । चट्टी ।
 पाथागार—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पान्यागार] दे० 'पाथशाला' । उ०—घषा के पाथागार मे पशुपुरी के एक विस्थात रत्नविभ्रता कई दिन से ठहरे थे ।—वैशाली०, पृ० २१६ ।
 पांशनी^१—वि० [सं०] १ तिरस्कार योग्य । तिरस्करणीय । हेय । २ दुष्ट । बदशाश । ३ कलवित या भ्रष्ट करनेवाला । अपमानित करनेवाला । (समासात में प्रयुक्त) यथा कुलपांशन, पीलस्त्यकुलपांशन [को०] ।
 पाशनी^२—सञ्ज्ञा पुं० घृणा । तिरस्कार [को०] ।
 पाशवी^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] रेह का नमक ।
 पाशवी^२—वि० १ पाणु से उत्पन्न । धूल से उत्पन्न । २ पाशुयुक्त । धूल से भरा हुआ [को०] ।
 पाशु—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ धूलि । रज । २ बालू ।
 यौ०—पाशुज ।
 ३ गोवर की खाद । ४ पित्तपापडा । ५ एक प्रकार का कपूर । ६ रज । ७ भूसपत्ति ।
 पांशुका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] केवडे का पौधा ।
 पांशुकासीस—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कसीस ।
 पाशुकुली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] राजपथ । चौड़ा रास्ता । राजमार्ग [को०] ।
 पाशुकूल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ चीथडो आदि को सीकर बनाया हुआ बौद्ध भिक्षुओं के पहनने का वस्त्र । २ वह दस्तावेज या कागज जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम न लिखा गया हो । निरुपपद शासन । ३ धूलिपुज । धूल का ढेर [को०] ।
 पाशुकृत—वि० [सं०] धूलि से आवृत । धूल से ढका हुआ । [को०] ।
 पाशुक्रीडा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ बालू से खेलना । २ मुष्टियुद्ध । मुक्केबाजी [को०] ।
 पांशुत्तार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पाशुज' [को०] ।
 पांशुगुठित—वि० [सं० पांशुगुठित] धूलि से आवृत [को०] ।
 पाशुचन्दन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पांशुचन्दन] दे० 'पासुचन्दन' [को०] ।
 पाशुचत्वर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] श्रोला । वर्षापाल ।
 पाशुचामर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पाशुचामर' ।
 पाशुज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नोनी मिट्टी से निकाला हुआ नमक ।
 पांशुजालिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विष्णु का एक नाम [को०] ।
 पांशुघान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] धूल की ढेरी [को०] ।

- पाशुपत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बयुपा (साग) ।
 पाँशुमर्दन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] थाला । आलवाल । क्यारी ।
 पाँशुर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पासुर' [को०] ।
 पाँशुरागिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] महामोदा ।
 पाशुराष्ट्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक देश का प्राचीन नाम जिसका उल्लेख महाभारत में है ।
 पाँशुल^१—वि० [सं०] १ परस्त्रीगामी । लपट । व्यभिचारी । २ धूल या मिट्टी से ढका हुआ । जिसपर गर्द पड़ी हो । मलिन । मैला । ३ कलकित वा भ्रष्ट करनेवाला (को०) ।
 पाँशुल^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पूतिकरज । २ शिव । ३ शिव का एक अस्त्र (को०) । ४ लपट या व्यभिचारी व्यक्ति (को०) । ५ धूल से भरी जगह (को०) ।
 पाँशुला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ कुलटा । २. रजस्वला । ३ केतकी । केवडा । ४. पृथिवी । धरती । भूमि ।
 विशेष—ज्ञातव्य है कि 'पाशन' से 'पाशुला' तक के सभी शब्द दत्त सकार से भी होते हैं और उनका अर्थ समान होता है । ऐसे कुछ शब्द आगे दिए गए हैं ।
 पासु^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पाशु' ।
 पासु^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पार्श्व] दे० 'पसली' ।
 पासुकूल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गुदडी । चीथडा । (वौद्ध) । उ०—वे चीथडो (पासुकूल) का चीवर पहनें ।—हिंदु० सभ्यता, पृ० २५० । २ दे० 'पाँशुकूल' ।
 पासुत्तार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पाँगा नमक ।
 पासुखुर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाशुखुर] घोड़ों का एक रोग जो उनके पैरो में होता है ।
 पाँसुचन्दन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाँसुचन्दन] शिव । महादेव ।
 पाँसुचत्वर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जलोपल । वर्षोपल । ओला ।
 पासुचामर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ तबू । बडा खेमा । २ धूलिपुंज । धूल का ढेर (को०) । ३ स्तुति । वर्धापन । प्रशंसा (को०) । ४ वह तटभूमि जिसपर दूब जमी हो [को०] ।
 पासुघात्रक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] धूल साफ करनेवाला । सडक या गली झाडनेवाला । (कोटि०) ।
 पाँसुज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पाशुज' ।
 पाँसुजलिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विष्णु [को०] ।
 पाँसुमव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पासुज' ।
 पाँसुभिन्ना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] घी का पेढ ।
 पाँसुर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ एक प्रकार का बडा मच्छर । दश । डौंस । २ लूला । लँगडा ।
 पाँसुरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पसली] सं० दे० 'पसली' ।
 पाँसुल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मलयुक्त । मलिन । २ पापी । ३ पूतिकरज । कजा । ४ परस्त्री से प्रेम करनेवाला । ५ शिव । दे० 'पाँशुल' ।

- पाँसुला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ कुलटा । २ रजस्वला । ३ भूमि । ४ केतकी ।
 पाँसु—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाद, हिं० पाँव] पैर । पाँव । उ०—(क) प्राणपियारी के पाँ परिके करि सौंह गरे की गरे लपटाने ।—पद्माकर (शब्द०) । (ख) सभा समेत पाँ परे विशेष पूजियो सवे ।—केशव (शब्द०) ।
 पाँसु—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाद] पैर । पाँव ।
 पाँसुता—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पाँव + ता] दे० 'पाँवता' । उ०—कहा कहीं और राति सोवै जब रानी सब आपु वैठयो पाँसुते कहानी भावतो कहै ।—रघुनाथ (शब्द०) ।
 पाँसुवाग—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] महलो के आस पास या चारो ओर बना हुआ वह छोटा बाग, जिसमें प्रायः राजमहल की स्त्रियाँ सेर करने को जाती हैं । ऐसे वागो में प्रायः सर्वमाधारण के जाने की मनाही होती है ।
 पाँसु—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाद, हिं० पाँव] पाँव । पैर ।
 मुहा०—पाँसु पसारै सोना = निर्भय रहना । निश्चित रहना । देखीफ रहना । उ०—मारुत बहुहु आज अपने मन सूरज तपहु सुखारे । इंद्र वरुण कुवेर यम सुर गण सोवहु पाँसु पसारै ।—रघुराज (शब्द०) ।
 पाँक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पक्क] कीचड ।
 पाँका—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पक्क] दे० 'पाँक' ।
 पाँखी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पख, प्रा० पक्ख] पख । पर । पक्षी का डैना । उ०—तापर भमरा पियत रस सजनि ने, बइसल पाँखि पसारि ।—विद्यापति, पृ० १८० ।
 पाँखडा—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पख + डा (प्रत्य०)] दे० 'पाँख' ।
 पाँखडी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पखडी' ।
 पाँखी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पक्षी] १. वह पखदार कीडी जो दीपक पर गिरती है । पतिंगा । २ कोई पक्षी । ३ वह श्रौजार जिससे खेतो में क्यारियाँ बनाई जाती हैं ।
 पाँखुरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पखडी' ।
 पाँग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पङ्क] वह नई जमीन जो किसी नदी के पीछे हट जाने से उसके किनारे पर निकलती है । कछार । खादर । गगवरार ।
 पाँगल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाङ्गल्य] ऊँट । (डि०) ।
 पाँगला—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] एक डिंगल छद का नाम । उ०—पागलों छद भाँषे प्रगट बढ घट कला बखाणजै ।—रघु० रू०, पृ० १४ ।
 पाँगा—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] दे० 'पाँगा नोन' ।
 पाँगानोन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पङ्क, हिं० पाँग + नोन] समुद्री नोन । विशेष—वैद्यक में इसे स्वाद में चरपरा और मधुर, भारी, न बहुत गरम और न बहुत शीतल, अग्निप्रदीपक, वातनाशक और कफकारक माना है ।
 पाँगुरा—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं० पङ्क] दे० 'पङ्क' ।

पाँगुला—सज्ञा पुं० [सं० पाङ्गुल्य] एक प्रकार का वात रोग जिसमें दोनों पैर बेकार हो जाते हैं। उ०—जो दोनों पैरों को स्तम्भित करे उसको पाँगुला कहते हैं।—माघव०, पृ० १४३।

पाँच^१—वि० [सं० पञ्च] जो गिनती में चार और एक हो। जो तीन और दो हो। चार से एक अधिक। उ०—पाँच कोप नीचे कर देखो इनमें सार न जानी।—कवीर श०, भा० २, पृ० ६६।

मुहा०—पाँचों उँगलियाँ धी में होना = सब तरह का लाभ या आराम होना। खुब वन भ्राना। जैसे,—इस समय तो आपकी पाँचों उँगलियाँ धी में होगी। पाँचों सवारों में नाम लिखाना = जबरदस्ती अपने से अधिक योग्य व श्रेष्ठ मनुष्यों में मिल जाना। शौरो के साथ अपने को भी श्रेष्ठ गिनाना।

विशेष—इस मुहावरे के सवध में एक किस्सा है। कहत है, एक बार चार श्रेष्ठ सवार कहीं जा रहे थे। उनके पीछे पीछे एक दरिद्र आदमी भी एक गधे पर सवार जा रहा था। थोड़ी दूर जाने पर एक आदमी मिला जिसने उस दरिद्र गधे सवार से पूछा कि क्यों भाई, ये सवार कहीं जा रहे हैं। उसने बहुत विगडकर कहा, हम पाँचों सवार कहीं जा रहे हैं तुम्हें पूछने से मतलब।

पाँच^२—सज्ञा पुं० १. पाँच की संख्या। २. पाँच का अक्ष जो इस प्रकार लिखा जाता है—५। ३. कई एक आदमी। बहुत लोग। उ०—मोरि बात सब विधिहि बनाई। प्रजा पाँच कत करहु सहाई।—तुलसी (शब्द०)। ४. जाति विरादरी के मुखिया लोग। पच। उ०—साँचि परे पाँचो पान पाँच मे परे प्रमान, तुलसी चातक आस राम श्याम घन की।—तुलसी (शब्द०)।

पाँचका—सज्ञा पुं० [सं० पञ्चक] दे० 'पञ्चक'।

पाँचर—सज्ञा स्त्री [सं० पञ्चर] १. कोल्हू के बीच में जड़े हुए लकड़ी के वे छोटे छोटे टुकड़े जो गन्ने के टुकड़े को दवाने में जाठ के सहायक होते हैं। जाठ और पाँचर के बीच में दबने से ही गन्ने के टुकड़ों में से रस निकलता है। २. दे० 'पञ्चर'।

पाँचवाँ—वि० पुं० [हिं० पाँच+वाँ (प्रत्य०)] [स्त्री० पाँचवीं] जो क्रम में पाँच के स्थान पर पड़े। पाँच के स्थान पर पहनेवाला।

पाँचमाँ—वि० पुं० [सं० पञ्चम] दे० 'पाँचवाँ'। उ०—पाछे श्री गुसाईं जी पास पाँचमें दिन नारायणदास कासिद पठावते।—दो सौ वावन०, भा० १, पृ० १०७।

पाँचा—सज्ञा पुं० [हिं० पाँच + आ (प्रत्य०)] किसानों का एक औजार जिससे वे भूसा, घास इत्यादि समेटते या हटाते हैं। इसमें चार दाँते और एक बँट होता है इसी से इसे पाँचा कहते हैं। पचगुरा।

पाँचो—सज्ञा स्त्री [देश०] एक प्रकार की घास जो चालावों में होती है।

पाँची—सज्ञा स्त्री [हिं० पञ्चमी] किसी पक्ष की पाँचवीं तिथि।

पचमी। उ०—(क) जब वसंत फागुन सुदी पाँचै गुरु दिन।—तुलसी (शब्द०)। (ख) नाचे वनेगी वसत की पाँचै।—देव (शब्द०)।

पाँछना—क्रि० सं० [हिं० पछा] पाछना। चीरना। चीरा लगाना। उ०—सुनि सुत वचन कहति कैकेई। मरगु पाँछि जनु माहुर देई।—मानस, २।१६०।

पाँजना—क्रि० न० [सं० प्रयञ्ज प्रा० पञ्जम्, पञ्जम्] टीन, लोह, पीतल आदि धातु के दो या अधिक टुकड़ों को टाँके लगाकर जोड़ना। झालना। टाँका लगाना।

पाँजर—सज्ञा पुं० [सं० पञ्जर] १. बगल और कमर के बीच का वह भाग जिसमें पसलियाँ होती हैं। छाती के अगल बगल का भाग। २. प्रसली। ३. पार्ष्व। पास। बगल। सामीप्य।

पाँजरा—सज्ञा पुं० [१] वह मल्लाह जो मल्लाही में अनाड़ी हो। डडी। कूली। (ऐसे अनाडियों को मल्लाह लोग पाँजरा कहते हैं)।

पाँजो—सज्ञा स्त्री [सं० पदाति, हिं० पाजो (= पैदल)] या सं० पाद्य ?] किसी नदी का इतना सूख जाना कि लोग उसे हलकर पार कर सकें। नदी का पानी घुटने तक या उससे भी कम हो जाना। उ०—अब कवीर पाँजो परे पथी आवें जायें।—कवीर (शब्द०)।

क्रि० प्र०—पढ़ना।

पाँझ—वि० [देश०] दे० 'पाँजी'। उ०—नदियों को पाँझ और मार्ग को सूखा करनेवाली शरद ने उसको मन के उत्साह से पहले ही यात्रा निमित्त प्रेरणा की।—लक्ष्मणसिंह (शब्द०)।

पाँड—वि० स्त्री [देश०] १. (स्त्री) जिसके स्तन विलकुल न हो या बहुत ही छोटे हो। २. (स्त्री) जिसकी योनि बहुत छोटी हो और जो सभोग के योग्य न हो।

पाँडक—सज्ञा पुं० [हिं० पण्डक] दे० 'पण्डक'।

पाँडरा—सज्ञा पुं० [सं० पाण्डर] १. दौना। मरुवा। दे० 'पांडर'। २. कुद का पुष्प। उ०—वर बिहार चरन चार पाँडर चपक चनार कचनार वार पार पुर पुरगिनी।—तुलसी प्र०, पृ० ३४४।

पाँडरा—सज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार की ईख।

पाँडे—सज्ञा पुं० [सं० पण्डित] १. सरयूपारी, काम्यकुञ्ज और गुजराती आदि ब्राह्मणों की एक शाखा। २. कायस्थों की एक शाखा। ३. पंडित। विद्वान्। (क्व०)। ४. अध्यापक। शिक्षक। ५. रसोइया। भोजन बनानेवाला। ६. पानी पिलानेवाला।

यौ०—पानीपाँडे।

पाँति—सज्ञा स्त्री [हिं० पाँति] दे० 'पाँति'। उ०—खोवें जगुत पाँति अभिमाना।—कवीर सा०, पृ० ६३७।

पाँति—सज्ञा स्त्री [सं० पण्डित] १. कतार। पगत। २. अवली। समूह। ३. एक साथ भोजन करनेवाले विरादरी के लोग।

परिवार मनुष्य । उ०—(क) त्रानि पतिन कुन पमं वडाई ।
भन वन परिवार गृणु पतुगई । —गुणगी (प्र०) । (ग)
मेरे प्रति प्रति न पहाँ पाहु की जाति प्रति मेरे कोक काम
को न ही पाहु के काम को । —गुणगी (प्र०) । (ग)
पहाँ नही है दिन प्रर राती । ऊँच न नीच जाति ना पाँती ।
—पद्यीर सा०, पृ० ८२३ ।

पौमठो, पौमरो (७)—संज्ञा स्त्री० [सं० प्राकार] उपरना । कुपट्टा ।
पामरी । उ०—गामरी देन मे गामरीय पदरे धनधोर घटा
द्विति हूँ के । गामरी पामरी की है मुनी बलि गामरे पे पाली
गामरी पदरे के । —पद्याकर प्र०, पृ० १२२ ।

पौमथी (७)—संज्ञा पुं० [सं० पाद] चरण । पाद । पैर । कदम ।
उ०—तोपे मुत गहि पानि पाँवे परि हरपाने जाने दोष
सवन । —(प्र०) ।

पौमथी—संज्ञा पुं० [का० पौमथी] १ पातानी आदि में बना
हुआ पैर रखने का यह स्थान जिसपर पैर रखकर शीघ्र से
निवृत्त होने के लिये बैठते हैं । २. पायजामे की मोटरी जिसमें
जोय से सेतर टाने तक का भ्रम डाला जाता है ।

मुहा०—पौमथी के बाहर होना = २ 'पायजामे के बाहर होना' ।

पौलागति (७)—संज्ञा स्त्री० [हि० पौल + लगना] दे० पानागन ।
उ०—पानागति दुलहिमन सिमावति मरिम सागु मत गाता ।
—गुणगी प्र०, पृ० १२६ ।

पौवे—संज्ञा पुं० [सं० पाद] २० 'पाँव' ।

पौवेदा—संज्ञा पुं० [हि० पौवे + दा (प्रत्य०)] २० 'पावेदा' ।

पौवेदो—संज्ञा स्त्री० [हि० पौवे + दो (प्रत्य०)] २० 'पावेदो' ।

पौव—संज्ञा पुं० [सं० पाद, प्रा०, पाय, पाव] वह भग जित्ते पसते
हैं । पैर । पाद ।

मुहा०—(किमी काम या बात में) पौव अड़ाना = किसी बात
में व्यर्थ सम्मिलित होना । सामने के शीघ्र में व्यर्थ पड़ना ।
पड़ना बरत देना । पौव टपक जाना = (१) पैर जमे ग
जाता । पैर हट जाना । बिपर होकर पड़ा न रह सकना ।
(२) टपके की शक्ति या नाहस न रह जाना । सडाई में न
टपकना । गामने लड़े होकर लड़ने का साहस न रहना ।
नामने की नोबत आना । दे०,—हूमना साहसल ऐंम वेग
में हूमा नि निवर्षों के पौव उगट गए । पौव उगटाना =
(१) पैर जमा न रहने देना । हटा देना । भगा देना । (२)
किमी बात पर विपर न रहने देना । टपका का भग करना ।
पौव उट जाना = दे० 'पौव उगट जाना' । पौव उटाना =
भगने के लिये बरत बढ़ाना । बग बान बनाना । बमना
कारण करना । (२) जमी जमी पैर धामे रखना । बग
भाना । पौव उठाकर बमना = जमी जमी पैर बढ़ाना ।
देन बमना । पौव उगाना = सगु के लपकाट से पैरों को रगाना ।
करना । दुमना के गार में पैर बमना । पौव उगरना =
पीठ आदि से पैर का पट्टे से बंधना । पैर का
बोड़ उगट जग । (२) पैर बमना । पैर बमना । पौव

कट जाना = (१) पैर काट कर लंबाई का दोष न रहना ।
पाना जाना बंद होना । (२) कट जब उट जाय । रहन
या टपक का बंद हो जाना । (३) सुजा से उट जाना ।
जीवन का अंत हो जाना । (४) बंद बोर्ड पर साय है उस
उपके विपर में दुम दे साय बट्टे है 'भारती में उठके
पौव कट गए' । पौव बमना = 'पौव बमना' ।
पौव का बटका = पैर रखने की बट्टा । पौव का बटका ।
पौव की बट्टी = प्रत्यक्ष मुद्र धेरा या शर्मा । पौव की
बट्टी मिर की बमना = दूध सादमी का बट्टे के मुद्रा न
पाना । मुद्रा न नीच का मिर बट्टना । बट्टे धारमी का
बट्टे से बटारगी करना । पौव की बट्टी = बध । बट्टा । पौव
को मेहँदी न पिय जायगी = लूरी जो का बट्टी पाय बमन
में पैर न मेहँदी जो बट्टी मुद्रा मुद्रा बिन न साय । (४)
कोई सादमी बट्टी जाने या मुद्रा बमन न लूरी रगान है उर
मह व्यंग बोलत है । पौव बमना = बमना कि न दो-
देना । इपर उपर फिरना बर उरना । पौव गाड़ना (१)
पैर जमाना । जनार मग रहना । (२) बट्टी में विपर
रहना । बटा रहना । किमी बात पर बट्ट होना । किमी बात
पर जम जाना । पौव बमना = बमना बमना पैर बमना ।
बंते,—मुहारे लूरी दोबो दोबो पौव पिय बमना पुना
रगान दिया । पौव बमना = 'पौव पौव बमना' ।
पौव हटाना = बट्टा बट्टा होना । बट्टा बट्टा होना । पौव
छोड़ना = उपचार शीघ्र से बट्टा बमना । बटा हूमा
मात्तिय पमं जारी करना । पौव जमना = (१) पैर टपकना ।
स्विर भाव से मग होना । (२) बट्टा रहना । हटा का
बिचमिठ होने की व्यवस्था न आना । पैर जमना = (१)
स्विर भाव से मग रहना । (२) बट्टा में टपक रहना ।
न रहना । (३) विपर हो जाना । धमन टपके का रहन का
पूरा बंदोबस्त कर लेना । बंते,—धमी के उट हटाने का बटा
करो, पौव बमना लेगा ली मुद्रि र लूरी । पौव को बम-
दा घादमिषों का लूरे से सामने सामने बट्टा बमना विविध मीरि
से लूरी की रस्ती में पैर उगटाना । पाद बमना । पौव
टिठना = दे० 'पौव जमना' । पौव टिकाना = (१) मग
होना । (२) विपर होना । टपक जाना । विपर रहना ।
पौव टपकना = (१) पैर का बमना । पैर उगटाना । दे०,—
पानी का रंगा रंगा का वि पौव लूरी बट्टा बमना । (२)
उगट होना । विपरता होना । पौव बमना बमना (१)
पैर विपर न रहना । पैर टपक न रहना । पैर का बमना
पड़ना । इपर उपर ही जाना । बट्टा बमना । दे०,—उर
पाने दुद बर मे में लूरी का बमना, पौव बमना है । (३)
बट्टे में रहना = विपरता का बमना । पौव बमना = २०
काम में साय बमना । किमी काम के लिये उगटाना ।
पौव बमना = पैर उगट बमना बमना रहना । इपर उपर लूरी
जाना । विपर न रहना । विपरता होना । दे०—पौव
पौव बमना के उर के न विपर । पौव बट्टे की बट्टी मुद्रा मुद्रा
बोट । पौव बमना बमना बमना । पौव बट्टे की बट्टी बमना
बमना है = (१) पैर पौव बमना लूरी का बमना है १२४

सुनकर) पृथ्वी कँपी जाती है । (स्त्रियां०) । पाँव तले की मिट्टी निकल जाना = (किसी भयकर बात को सुनकर) स्तब्ध सा हो जाना । होश उड़ जाना । होश ठिकाने न रहना । ठक हो जाना । सन हो जाना । सन्नाटे में आ जाना । पाँव तोड़ना = (१) बहुत चलकर पैर थकाना । जैसे,—में क्यों इतनी दूर जाकर पाँव तोड़ूँ । (२) बहुत दौड़ बूप करना । घघर उघर बहुत हैरान होना । घोर प्रयत्न करना । (किसी के) पाँव तोड़ना । (१) बहुत चलाकर थकाना । (२) दौड़ाकर हैरान करना । पाँव सौंठकर घँठना = (१) कही न जाना । अचल होना । स्थिर हो जाना । जैसे,—भारत में दरिद्रता पाँव तोड़कर बैठी है । (२) प्रयत्न करते करते थककर बैठना । हारकर बैठना । पाँव थरथराना = (१) भय, आशका, निर्बलता आदि से पैर काँपना । (२) किसी काम में भय, आशका से आगे पैर न उठना । अग्रसर होने का साहस न होना । पाँव दबाना या दाबना = (१) थकावट दूर करने या आराम पहुँचाने के लिये जधे से लेकर पजे तक हथेली रख रख कर दबाव पहुँचाना । पाँव पलोटना । (२) सेवा करना । पाँव धरना = पैर रखना । किसी स्थान पर जाना । पधारना । जैसे,—अब उसके दरवाजे पर पाँव नहीं धरेंगे । किसी काम में पाँव धरना = किसी कार्य में अग्रसर होना । किसी कार्य में प्रवृत्त होना । किसी का पाँव धरना = (१) पैर झूकर प्रणाम करना । (२) दीनता से विनय करना । हा हा खाना । पाँव धारना ⊙ = दे० 'पाँव धरना' । उ०—घन्य भूमि वन पथ पहारा । जहँ जहँ नाथ पाँव तुम धारा ।—तुलसी (शब्द०) । बुरे पथ पर पाँव (पग) धरना = बुरे काम में प्रवृत्त होना । उ०—रघुवसिन कर सहज सुभाऊ । मन कुपथ पग धरे न काऊ ।—तुलसी (शब्द०) पाँव धो धोकर पीना = चरणामृत लेना । बड़े आदर भाव से पूजा करना । पाँव निकलना = दुश्चरित्रता की बात फैलना । वदचलनी की वदनामी फैलना । पाँव निकालना = (१) बढकर चलना । जिस स्थिति में हो उससे बढकर प्रकट करनेवाले काम करना । ऐसी चाल चलना जो अपने से ऊँचे पद और पित्त के लोगों को शोभा दे । इतराकर चलना । जैसे, किसी सामान्य मनुष्य का अमीरों का सा ठाट बाट रखना । (२) बेकहा होना । निरकुश होना । स्वेच्छाचारी होना । नटखटी और उपद्रव करना । जैसे,—तुमने बहुत पाँव निकाले हैं, चलो तुम्हारे वाप से कहता हूँ । (३) व्यभिचार करना । वदचलनी करना । (४) उस्ताद होना । चालाक होना । इघर उघर की बातें समझने बूझने योग्य हो जाना । पक्का होना । जैसे,—तुम तो बहुत सीधे और मोले भाले थे, अब तुमने भी पाँव निकाले । किसी काम से पाँव निकालना = किसी काम से किनारे हो जाना । तटस्थ हो जाना । शामिल न रहना । पाँव पकडना, पाँव पकरना ⊙ = (१) वितती करके किसी को कहीं जाने से रोकना । उ०—जानति जी न श्याम ऐहँ पुनि पाँव पकरि धरि राखति ।—सूर (शब्द०) । (२) पैर छूना । बडी

दीनता और विनय करना । हा हा करना । उ०—अब यह बात कहौ जनि ऊधो पकरति पाँव तिहारे ।—सूर (शब्द०) । (३) पैर झूकर नमस्कार करना । भक्ति और आदरपूर्वक प्रणाम करना । पाँव पखारना = (१) पैर घोना । पाँव पडना = (१) पैरो पर गिरना । साष्टांग दडवत् करना । (२) प्रत्यंत दीनता से विनय करना । (भूत, प्रेत आदि का) पाँव पडना = भूत, प्रेत की छाया पडना । प्रभाव पडना । पाँव पर गिरना = दे० 'पाँव पडना' । पाँव पर पाँव रखकर बैठना या मोना = (१) काम घघा छोड़ आराम से बैठना या पडा रहना । चैन से चुपचाप पडा रहना । हाथ पैर न चलाना । उद्योग न करना । (२) गाफिल पडा रहना । सावधान न रहना । (पाँव पर पाँव रखकर बैठना या सोना कुलक्षण समझा जाता है । लोग कहते हैं, जब यादवों का नाश हो गया तब श्रीकृष्ण पाँव पर पाँव रखकर लेटे) । किसी के पाँव पर पाँव रखना = किसी के कदम व कदम चलना । किसी की एक एक बात का अनुकरण करना । दूसरा जो कुछ करता जाय वही करते जाना । पाँव पर सिर रखना = दे० 'पाँव पडना' । पाँव पछोटना ⊙ = पैर दबाना । पाँवचपी करना । पाँव पसारना = (१) पैर फैलाना । (२) आराम से पडना या सोना । (३) मरना । (४) आडबर बढ़ाना । ठाट बाट करना । उ०—तेतो पाँव पसारिए जेती लवी सीर ।—(शब्द०) पाँव पाँव = अपने पैरो से, सवारी आदि पर नहीं । पैदल । पा प्यादा । पाँव पाँव चलना = पैरों से चलना । पाँव पाँव चदन के पाँव = एक वाक्य जिसे वच्चे के पहले पहल खड़े होने पर धर की स्त्रियाँ या खेलानेवाली दासियाँ प्रसन्न हो होकर कहती हैं । पाँव पीटना = (१) फ्लेश या पीडा से पैर उठाना । वेचनी से पैर पटकना । छटपटाना । तडफना । (२) मृत्यु की यत्रणा भोगना । (३) घोर प्रयत्न करना । हैरान होना । जैसे,—बहुत पाँव पीटा पर एक न चली । पाँव पूजना = (१) बडा आदर सत्कार करना । बडी श्रद्धा भक्ति करना । बहुत पूज्य मानना । (२) विवाह के कन्यादान के समय कन्याकुल के लोगों का वर का पूजन करना और कन्यादान में योग देना पाँव फिसलना = पैर का जमा न रहना, सरक जाना । रपटना । जैसे,—काई पर पाँव फिसल गया और गिर पडे । पाँव फूँक फूँककर रखना = बहुत बचाकर काम करना । कुछ करते हुए इस बात का बहुत ध्यान रखना कि कोई ऐसी बात न हो जाय जिससे कोई हानि या बुराई हो । बहुत सावधानी से चलना । पाँव फूलना = (१) पैरों का भय आशका आदि से अशक्त हो जाना । पैर आगे न उठना । (२) पैर में थकावट आना । थकावट से पैर दुखना । पाँव फेरने जाना = (१) विवाह के पीछे दुलहिन का पहले पहल ससुराल में जाना । (२) दुलहिन का ससुराल से पहले पहल अपने मायके या और किसी सबधी के यहाँ जाना और वहाँ से मिठाई, नारियल का गोला आदि लेकर लौटना । इसके पहले वह और किसी के यहाँ नहीं जा आ सकती । (३)

वच्चा होने के पीछे प्रसूता का कुछ दिनों के लिये अपने माँ बाप या और सवधियों के यहाँ जाना। पाँव फैलाना = (१) अधिक पाने के लिये हाथ बढ़ाना। मुँह बाना। पाकर भी अधिक का लोभ करना। जैसे,—बहुत पाँव न फैलाओ अब और न दोगे। (२) वच्चो की तरह घटना। हठ करना। जिद करना। मचलना। (विशेष दे० 'पाँव पसारना')। पाँव बढ़ाना = (१) चलने में पैर आगे रखना। (२) बड़े बड़े ढग रखना। फाल भरना। जल्दी जल्दी चलना। (३) अधिकार बढ़ाना। अतिक्रमण करना। पाँव बाहर निकालना = दे० 'पाँव निकलना'। पाँव बाहर निकालना = दे० 'पाँव निकलना'। पाँव थिचलना = (१) पैर इधर उधर हो जाना। पैर का ठीक न पडना या जमा न रहना। पैर फिसलना। पैर स्पटना। जैसे,—कीचड़ में पाँव फिसल गया। (२) स्थिर न रहना। दृढ़ता न रहना। (३) धर्म पर स्थिरता न रहना। ईमान ढिगना। नीयत में फर्क आना। पाँव भर जाना = थकावट से पैर में बौझ सा मालूम होना। पैर थकना। पाँव भारी होना = पेट होना। गर्भ रहना। हमल होना। किसी से पाँव भी न धुलवाना = किसी को अपनी तुच्छ सेवा के योग्य भी न समझना। अत्यंत तुच्छ और छोटा समझना। पाँव में क्या मेंहदी लगी है? = क्या पैर में मेंहदी लगाकर बैठे हो कि छूटने के डर से जाना या कोई काम करना नहीं चाहते? (व्यंग्य)। पाँव में वेदी पड़ना = किसी प्रकार के बधन या जजाल में फँसना। जैसे, गृहस्थी या बाल वच्चो के। पाँव में सिर देना = दे० 'पाँव पर सिर रखना'। पाँव रगड़ना = (१) क्लेश या पीड़ा से पैर हिलाना या पीटना। छटपटाना। (२) बहुत दौड़ घूम करना। बहुत हैरान होना। बहुत कोशिश करना। पाँव रह जाना = (१) पैरो का अशक्त हो जाना। पैरो का काम देने लायक न रहना। (२) थकावट से पैरो का बेकाम हो जाना। जैसे,—चलते चलने पाँव रह गए। पाँव रोपना = अडना। प्रणु करना। प्रतिज्ञा करना। पाँव लगना = (१) पैर छूना। प्रणाम करना। चरण-स्पर्श-पूर्वक नमस्कार करना। (२) पैर पडना। विनती करना। पाँव लगा होना = ऐसा स्थान जहाँ अनेक बार पैर पड चुके हो, अर्थात् आना जाना हो चुका हो। घूमा फिरा हुआ होना। बार बार आते जाते रहने के कारण परिचित होना। जैसे,—वहाँ की जमीन पाँव लगी हुई है ठीक जगह आपसे आप पहुँच जाता हूँ। पाँव समेटना = (१) पैर खींच कर मोडना जिससे वह दूर तक फैला न रहे। पैर सुकेडना। (२) कितारा खींचना। दूर रहना। लगाव न रखना। तटस्थ होना। (३) मरना। (४) इधर उधर घूमना छोडना। पाँव सुकेडना = पाँव समेटना। पैर फैला न रहने देना। पाँव से पाँव बाँधकर रखना = (१) धरावर अपने पास रखना। पास से अलग न होने देना। (२) बड़ी चौकसी रखना। निगाह के बाहर न होने देना। पाँव सो ढाना = (१) पैर सुन्न हो जाना। स्तब्ध हो जाना। (२) पैर झुलना उठना। (किसी के) पाँव न होना = ठहरने की शक्ति या साहस न होना। दृढ़ता न

होना। जैसे,—चोर या शराबी के पाँव नहीं होते। धरती पर पाँव न रहना = (१) बहुत घमड होना। घमड या शेखी के मारे सीधे पैर न पडना। (२) आनंद के मारे भग स्थिर न रहना। फूले भग न समाना। धरती पाँव न रखना = घमड के मारे सीधे पैर न घरना। बहुत ऊँचा होकर चलना। घमड या शेखी से फूलना। इतराना। आनंद के मारे उछलना। बहुत प्रसन्न होना।

पाँवचप्पी—सज्ञा स्त्री० [हि० पाँव + चापना (= दवाना)] थकावट दूर करने या आराम पहुँचाने के लिये पैर दवाने की क्रिया।

क्रि० प्र०—करना।—होना।

पाँवर(७)—वि० [सं० पामर] पतित। पापी। नीव। अधम। उ०—देखे नरनारि कहँ, साग खाइ जाए माइ, धाहु पीन पाँवरनि पीना खाइ पोखे हैं।—तुलसी ग्र०, पृ० ३१६।

पाँवरी^१—सज्ञा स्त्री० [हि० पाँव + ष्ट (प्रत्य०)] १ दे० 'पावड़ी'। २ सोपान। सीढ़ी। ३ पैर रखने का स्थान। ४ सूता। पादुका। खडाऊँ। उ०—भो रेदास नाम अस ताको। करे कर्म रचिबो जूता को। रचि पाँवरी संत कहँ देवै। सत चरण जल शिर धरि लेवै।—रघुराज (शब्द०)।

पाँवरी^२—सज्ञा स्त्री० [हि० पौरि, पौरी] १ पौरी। वह कोठरी जो किसी घर के भीतर घुसते ही रास्ते में पडती हो। डघोडी। २ बैठक। दालान। उ०—पँग पँग पर कुआँ वादरी। साजी बैठक और पाँवरी।—जायसी ग्र०, पृ० ११।

पाँस—सज्ञा स्त्री० [सं० पांशु] १ राख, गोबर, मल, मूत्र, अस्थि, क्षार, सडी गली चीजें आदि जो खेतों को उपजाऊ करने के लिये उनमें डाली जाती हैं। खाद।

क्रि० प्र०—डालना।—देना।

२. किसी वस्तु को सडाने पर उठा हुआ खमीर। ३. शराव निकाला हुआ महारा।

पाँसना^१—क्रि० सं० [हि० पाँस + ना (प्रत्य०)] खेत में खाद देना।

पाँसा—सज्ञा पुं० [सं० पाशक] हाथीदाँत या किसी हड्डी के बने चार पाँच अंगुल लंबे बत्ती के आकार के चौपहल टुकड़े। उ०—(क) चौपर खेलत भवन आपने हरि द्वारिका मँझार। पसि डार परम आतुर सो कीन्हे अनत उचार।—सूर (शब्द०)। (ख) कौरव पाँसा कपट बनाए। धर्मपुत्र को जुवा खेलाए।—(शब्द०)।

विशेष—इससे चौसर का खेल खेलते हैं। ये सट्टा में ३ होते हैं। प्रत्येक पहल में कुछ विदु से बने रहते हैं। उन्हीं विदुओं की गणना से दाँव समझा जाता है।

क्रि० प्र०—पडना।—फँकना।

मुहा०—पाँसा उलटना = किसी प्रयत्न का उलटा फल होना। पाँसा उलटा पडना = दे० 'पाँसा उलटना'।

पाँसासारी—सज्ञा पुं० [हि० पाँसा + सारि] चौपट। उ०—

पाँसासारि कुँधर सब खेलहि गीतन सुवन मोनाहि । चैन चाव तस देखा जनु गढ़ छँका नाहि ।—जायसी (शब्द०) ।

पॉसी—सज्ञा स्त्री० [सं० पाश] सूत या डोरी आदि का बना हुआ वह जाल या जाला जिसमें घास भूसा आदि बाँधते हैं ।

पॉसुरी—सज्ञा स्त्री० [सं० पाश्र्व] पसली । पासुरी । उ०—(क) कलि को कलुष मन मलिन किए महत मसक की पाँसुरी पयोधि पाटियतु है ।—तुलसी प्र०, पृ० २२२ । (ख) पावै न चैन सु मैन के वाननि होत छिनो छिन छीन घनेरी । वृक्ष जु कत कहै तो यहै तिय पीउ पिराति है पाँसुरी मेरी ।—पद्माकर प्र०, पृ० ११२ ।

पॉही०—क्रि० वि० [हिं० पौह] निकट । पास । समीप ।

पा—सज्ञा पुं० [हिं० पाद, फा० पा] पैर । चरण । उ०—(क) परि पा करि विनती घनी नीमरजा हौं कीन । अरु न नारि अरु करि सके जडुबर परम प्रवीन ।—स० समक, पृ० २२० । (ख) पा पकरो वैनी तजो धरमै करिप आजु । मोर होत मनभावतो भलो मूलि सुम काजु ।—मिखारी० प्र०, भा० १, पृ० ४८ ।

पाइ ट—सज्ञा पुं० [अ० पाइंट] १ पानी, दूध आदि द्रव पदार्थ नापने का एक अंग्रेजी मान जो डेढ़ पाव का होता है । डेढ़ पाव का एक पैमाना । २ आधी या छोटी बोतल जिसमें प्रायः डेढ़ पाव जल या मदिरा आती है । अर्द्धा ।

पाइ०—सज्ञा पुं० [सं० पाद] दे० 'पाद' । उ०—चरखी के चहले में चलि सकत न पाइ ।—हम्मीर०, पृ० ३६ ।

पाइक०—सज्ञा पुं० [सं० पादातिक] दे० 'पायक' । उ०—सु दर ज्ञानी नृपति कै सेना है चतुरग । रथ अथव गज त्रय अवस्था इद्रिय पाइक सग ।—सु दर प्र०, भा० २, पृ० ८१३ ।

पाइ दा—वि० [फा० पाइंदह] अनश्वर । स्थायी । नित्य । सदा रहनेवाला [स्त्री०] ।

यौ०—पाइदावाद = एक आशीर्वाच्य । हमेशा रहो । चिरजीव ।

पाइका—सज्ञा पुं० [अ०] नाप के विचार से छापे के टाइपो का एक प्रकार जिसकी चौड़ाई है इंच होती है । अक्षरों की मोटाई आदि के विचार से इसके और भी कई भेद हाते हैं । साधारण पाइका टाइप का नमूना यह है—

यह पाइका टाइप है ।

यौ०—स्माल पाइका ।

पाइकक—सज्ञा पुं० [सं० पादातिक] दे० 'पायक', 'पाइक' । उ०—(क) पाइककह चक्कह को गणउ चलिय से चतुरग ।—कीर्ति०, पृ० ८२ । (ख) पाइकक सग कायकक केलि । धरि भूप हृथ्य बाहत केलि । पृ० रा०, १ । ७२३ ।

पाइगगाह—सज्ञा पुं० [फा० पाएगाह] १ घुड़साल । वाजिशाला । २. कचहरी । उ०—पाइगगाह पत्र भरे भउ पल्लानिञ्जउ तुरग ।—कीर्ति० पृ० ८४ ।

पाइतरी०—सज्ञा स्त्री० [सं० पादस्थली] पलग का वह भाग जहाँ सोनेवाले के पैर रहते हैं । पैताना । उ०—भाग्तादि दुर्घोषन अर्जुन भेटन गए द्वारका पुरी । कमलनैन वैठे सुख गय्या पारथ पाइतरी ।—सूर (शब्द०) ।

पाइप—सज्ञा पुं० [अ०] १ नल या नली । २. पानी की कल । नल । ३. पाँसुरी के आकार का एक प्रकार का अंग्रेजी वाजा । ४. हुक्के का नल ।

पाइमाल०—वि० [फा० पामाल, पायमाल] पदवलि । बरवाद । उ०—तुलसी गरब तजि, मिलिवे को साज सजि, देहि सिय न तो पिय पाइमाल जाहिगो ।—तुलसी प्र०, पृ० १८७ ।

पाइरां—सज्ञा पुं० [हिं० पाव+रा (अर्थ०)] रकाव जिसपर घोड़े की सवारी के समय पैर रखते हैं । विशेष—दे० 'रकाव' ।

पाइल०—सज्ञा स्त्री० [हिं० पायल] दे० 'पायल' । उ०—तब या प्रकार मूपुर के सब्द अनवट विछियान के पाइलन के तथा कटिसूनन के सब्दन सों पघारे ।—दो सी वावन०, भा० १, पृ० २२० ।

पाई—वि० [फा०] १. पिछला । पीछे का । आखिरी । २. नीचेवाला । निचला । ३. सिरहाने का उलटा । पायताना ।

यौ०—पाई परस्ती = दासता । खिदमतगारी । पाई बाग ।

पाई बाग—सज्ञा पुं० [फा० पाई बाग] नजर बाग । मकान से मिला हुआ बगीचा । उ०—अपना पाई बाग बना लगे प्रिय इस मन को आकर ।—फरना, पृ० ३० ।

पाई—सज्ञा स्त्री० [सं० पाद, हिं० पाय] १ किसी एक ही निश्चित धरे या मडल में नाचने या चलने की क्रिया । मडल घूमना । गोडापाही । उ०—मीर के निकट रेगु रजित लसे यो तट एक पट चादर की चाँदनी विछाई सी । कई पदमाकर त्यों करत कलोल लोकावरत पूरे राजमडल की पाई सी ।—पद्माकर (शब्द०) । २ पतली छडियों या वेतों का बना हुआ जोसाहों का एक ढाँचा जिसपर ताने के सूत को फैलाकर उसे खूब भाजते हैं । टिकठी । अर्द्धा ।

मुहा०—पाई करना = पाई पर फैले हुए ताने को कूची से माँजना ।

३. घोड़ों की एक बीमारी जिसमें उनके पैर सूज जाते हैं और वे चल नहीं सकते । ४ एक पुराना छोटा सिक्का जो आने का १२वाँ, या एक पैसे का तीसरा भाग होता था । ५ एक पैता । (श्व०) । ६ छोटी सीधी लकीर जो किसी सख्या के आगे लगाने से इकाई का चतुर्थांश प्रकट करती है, जैसे ४। से चार और एक इकाई का चौथा भाग, अर्थात् सवा चार । ७ दीर्घ आकार सूक्ष्म मात्रा जिसे अक्षर को दीर्घ करने के लिये लगाते हैं, जैसे—क से का, द से दा । ८ छोटी खड़ी रेखा जो किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम सूचित करने के लिये लगाई जाती है ।

क्रि० प्र०—देना ।—लगाना ।

६. पिटारी जिसमें स्त्रियाँ अपने धाभूषणादि रखती हैं । १० छापे के घिसे हुए और रही टाइप । (मुद्रण) ।

मुहा०—पाई करना = (१) घिसे और वेकार टाइपों को एक में मिला देना । (२) छापे में प्रयुक्त टाइपों को एक में इस तरह मिला देना कि उनको अलग अलग न किया जा सके ।
पाई होना = मुद्रण में प्रयुक्त टाइपों का वेकार हो जाना ।

पाई^२—नग स्त्री० [हि० पाया (= पाई कीड़ा)] एक छोटा लवा कीड़ा जो घृत की तरह अन्न को, विशेषतः धान को, खा जाता अथवा लगव नर देता है और उसे जमने योग्य नहीं रहने देता ।

क्रि० प्र०—लगाना ।

पाइता—उच्चा पुं० [दे०] एक वख्तवृत्त जिसमें एक मगण, एक भगण और एक सगण होता है ।

पाउंड—सहा पुं० [प्र०] १ नोने का एक अंग्रेजी सिक्का जो २० सिक्किंग वा होता है और पहले १५ का माना जाता था, फिर १० वा, परन्तु अब १३ का ही माना जाता है । इसका भाव घटना बढ़ता रहता है । अत्र इसका प्रचलन नहीं है । कागज का ही पाउंड नोट चलता है । २ एक अंग्रेजी तौल जो लगभग ७ द्रुटांक के होती है ।

पाउं^३—पुं० [सं० पाउ] दे० 'पाव' । उ०—जेहे अतिपजन विमन न किजिप्र, जेइ अतत्य न भणिमा, जेइ न पाउं उमग दिजिप्र ।—वीति०, पृ० १० ।

पाउंदा—सहा पुं० [हि० पाव + दा] दे० 'पावेंडा' । उ०—चीर घुरेलन नीर मग नीर नमीर मभाइ । करि पन्नग के पाउंटे पिय पै पट्टी जाइ ।—स० मत्तक, पृ० ३६० ।

पाउं—सहा पुं० [सं० पाद] १ दे० 'पावें' । उ०—कही तोहि निघनगढ, है नैठ सात चढाउ । फिग न कोई जिघत जिउ, मग पथ दै पाउ ।—जायसी ग्रं०, पृ० २६४ । २. चतुर्थांश । पात्र ।

पाउडर—सहा पुं० [प्र०] १ कोई वस्तु जो पीसकर बूल के समान कर दी गई हो । चूर्ण । बुग्नी । २ एक प्रकार का विलायती बना हुआ ममाला या चूर्ण जो प्रायः स्त्रियाँ और नाटक के पात्र अपने चेहरे पर रंगत बदलने और शोभा बढ़ाने के लिये लगाते हैं ।

पाऊं^४—सहा पुं० [सं० पाद, प्रा० पात्र, पात्र, पाउं] पैर । उ०—गूंगा हुआ बावला, वहन हुआ कान । पाऊं ये पगुल भया, मतगुर मारधा वान ।—बघीर प्र०, पृ० १० ।

पाएला—वि० [हि० पैदल] पदाति या पैदल चलनेवाली (सेना) । उ०—अठारह लाख फौद है एता । तुरुकी साजी पाएल केता ।—स० दरिया, पृ० १३ ।

पाक^१—सहा पुं० [सं०] १ पकाने की क्रिया । रीघना । २ पकने

वा पकाने की क्रिया या भाव । ३ पका हुआ अन्न । रसोई । पकवान । उ०—भोजन भूजाई विवध, विजन पाक सुरंग । रा० रू०, पृ० ३०३ ।

यी०—पाकरूम, पाकक्रिया = पकाना । रीघना । पकाने का काम । पाकपंडित = रसोई बनाने में दक्ष । पाकपात्र = दे० 'पाकभांड' । पाकपुटी । पाकभांड । पाकशाला । पाकागार ।

४ वह श्रौपघ जो मिस्री, चीनी या शहद की चाशनी में मिलाकर बनाई जाय । जैसे, शुठी पाक । ५ खाए हुए पदार्थ के पचाने की क्रिया । पाचन ।

यी०—पाकस्थली ।

६ एक दैत्य जिसे इंद्र ने मारा था ।

यी०—पाकरिपु । पाकशामन ।

७ वह खीर जो श्राद्ध में पिंडदान के लिये पकाई जाती है । ८. फोडा । अण (को०) । ९ परिणति । फल । नतीजा (को०) । १० उल्लूक । उल्लू (को०) । ११ वृद्धावस्था के कारण केशों का श्वेत होना (को०) । ११ गृह्याग्नि । गृह की अग्नि (को०) । १२ पाक का पात्र (को०) । १३ अनाज । अन्न (को०) । १४ बुद्धि की परिपक्व अवस्था (को०) । १५ भीति । आतंक (को०) । १६ उलट फेर । परिवर्तन (को०) ।

पाक^२—वि० १ पक्व । पका हुआ । २ स्वल्प । लघु । अल्प । ३ बुद्धिमाद । जिसकी बुद्धि परिपक्व हो । ४ प्रशांसा के योग्य । ५ अकृत्रिम । निष्कपट । शुद्धात्मा । ६ अज्ञ । अनभिज्ञ । अप्राज्ञ (को०) ।

पाक^३—वि० [फा०] १ पवित्र । शुद्ध । सुयरा । परिमार्जित ।

मुहा०—पाक करना = (१) धार्मिक विधि के अनुसार किसी वस्तु को धोकर शुद्ध करना । (२) जवह किए हुए पशु या पक्षी के पास से पर, रोएँ आदि दूर करना
२ पापरहित । निर्मल । निर्दोष ।

सौ०—पाकदामन । पाकसाफ ।

३ जिमका कोई अंग छेप न रह गया हो । समाप्त । वेवाक ।

मुहा०—भगदा पाक करना = (१) किसी ऐसे कार्य को समाप्त कर डालना जिसके लिये विशेष चिन्ता रही हो । (२) किसी वाधा को हटाकर या शत्रु को मारकर निश्चित हो जाना । भगडा तै होना । कोई कार्य समाप्त हो जाना । कोई वाधा दूर हो जाना । (३) मार डालना ।

४. माफ । जैसे—यह सब भगडा से पाक है ।

पाककृष्ण—सहा स्त्री० [सं०] १. जगली करौंदा । २ करज ।

पाकज—सहा पुं० [सं०] १ कचिया नमक । २ भोजन के बाद होनेवाली उदरपीडा । परिणामशूल (को०) ।

पाकजात—वि० [फा० पाकजाद] शुद्धात्मा । पवित्रात्मा । जिसकी आत्मा स्वच्छ हो । उ०—जीव ने पहचान लिया पाकजात, जिससे है कायम यह कुल का ए नात ।—कवीर मं०, पृ० ४६ ।

पाकट^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ० पाकेट] जेव । खीसा । धैली ।

मुद्दा०—पाकट गरम करना = (१) घूस लेना । (२) घूस देना ।
पाकट गरम होना = पास में घन होना । पाकेट में सपत्ति होना ।

यौ०—पाकटमार = गिरहकट । जेव काटनेवाला ।

पाकट^२—सञ्ज्ञा पुं० [अ० पैकेट] दे० 'पैकेट' ।

पाकठा^१—वि० [हि० पकना, पकेठ] १ पका हुआ । २. पुराना ।
तजरवेकार । ३ वली । मजबूत ।

पाकड़—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्कट, प्रा० पक्कड] दे० 'पाकर' ।

पाकड़ी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पर्कटी] पकड़ी । पर्कटी । पाकड ।
उ०—मोरा हि रे श्रेंगना पाकडी सुनु बालहिआ ।—विद्यापति,
पृ० १५४ ।

पाकदामन—वि० [फा०] [सञ्ज्ञा पाकदामनी] स्त्री जिसका चरित्र
सब प्रकार निष्कलक और विशुद्ध हो । पतिव्रता । सती ।

पाकदामनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] दे० 'पाकदामिनी' [को०] ।

पाकदामिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पाकदामनी] सतीत्व । पातिव्रत्य ।
शुद्धचरित्रता ।

पाकद्विष—सञ्ज्ञा पुं० [म०] पाकशासन । इद्र ।

पाकना^(७)—क्रि० अ० [हि० पकना] दे० 'पकना' । उ०—
कटहर डार पीडसन पाके । बडहर सो अमूप अति ताके ।
—जायसी (शब्द०) ।

पाक परवरदिगार—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] ईश्वर । अल्लाह ।

पाकपाच—सञ्ज्ञा पुं० [म०] वह वरतन जिसमें भोजन पकाया या
रखा जाय । जैसे, बटलोई, थाली आदि ।

पाकफल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] करौंदा ।

पाकबाज—वि० [फा० पाकबाज] [सञ्ज्ञा पाकबाजी] सच्चरित्र ।
उ०—कर कबूल इस बात कूँ ओ पाकबाज । वाग मे रहे ज्यो
निगाह सरो सरफराज ।—दक्खिनी०, पृ० २०२ ।

पाकबाजी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पाकबाजी] १ पाकबाज होने का
भाव । सच्चरित्रता । शुद्धता [को०] ।

पाकधी—वि० [फा०] निष्पाप दृष्टि [को०] ।

पाकभांड—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाकभायड] वह वरतन जिसमें भोजन
पकाया या रखा जाय । जैसे, बटलोई, थाली आदि ।

पाकयज्ञ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वृषोत्सर्ग और गृहप्रतिष्ठा आदि के समय
क्रिया जानेवाला होम जिसमें खीर की आहुति दी जाती है ।
२. पंच महायज्ञ में ब्रह्मयज्ञ के अतिरिक्त अन्य चार यज्ञ—
वैश्वदेव, होम बलिकर्म, नित्य आद्य और अतिथिभोजन ।

विशेष—धर्मशास्त्रों के अनुसार शूद्र को भी पाकयज्ञ का
अधिकार है ।

पाकयाज्ञिक^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पाकयज्ञ करनेवाला । २ वह
पुस्तक जिसमें पाकयज्ञ का विधान हो ।

पाकयाज्ञिक^२—वि० १ पाकयज्ञ सबधी । २ पाकयज्ञ से उत्पन्न ।

पाकरंजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाकरञ्जन] तेजपत्ता ।

पाकर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्कटी, प्रा० पक्कडी] एक वृक्ष जो पच वर्गों
में माना जाता है । रामअजीर । पाखर । जगली पिपली ।
पलखन ।

विशेष—इसके वृक्ष समस्त भारतवर्ष में वर्षा में अधिवृत्ता से बोए
जाते हैं । इसकी पत्तियाँ खूब हरी और आम की तरह लची
पर उससे कुछ अधिक चौड़ी होती हैं । यह वृक्ष आपसे आप
कम उगता है, पाय लगाने से ही होता है । यह ७-८ वर्ष में
तैयार हो जाता है । इसकी छाया बहुत घनी होती है ।
कवियों ने इसकी घनी छाया की वडी ही प्रशंसा की है ।
इसकी छाल से बडे वारीक और मुलायम सूत तैयार किए
जा सकते हैं । नरम फलो या गोदो को जगली और देहाती
मनुष्य प्राय खाते हैं और पत्तियाँ हाथी और अन्य
पशुओं के चारो के काम में आती हैं । लकडी
और किसी काम में नहीं आती, केवल उससे कोयला
तैयार किया जाता है । वैद्यक में इसे कपाय, कटु, शीतल
व्रण, योनिरोग, दाह, पित्त, कफ, रुधिरदिकार, सूजन
और रक्तपित्त को दूर करनेवाला माना है । छोटे पत्तियो-
वाले वृक्ष को अधिक गुणदायक लिखा है ।

पाकरिपु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] इद्र । उ०—काक समान पाकरिपु
रीती । छली मलिन कतहूँ न प्रतीती ।—मानस, २।३०१ ।

पाकरी^(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पर्कटी] दे० 'पाकर' ।

पाकल^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ कुष्ठ की दवा । वह दवा जिससे कुष्ठ
अच्छा होता हो । २ फोडे को पकानेवाली दवा । ३ वह
सन्निपात ज्वर जिसमें पित्त प्रबल, वात मध्यम और वफ हीन
अवस्था में होता है और इनके बलावल के अनुसार इन तीनों
ही की उपाधियाँ उसमें प्रकट होती हैं । इसका रोगी प्राय
तीन दिन में मर जाता है । ४ हाथी का बुखार । ५
अग्नि । आग ।

पाकला^१—वि० [सं० पाक + ल (हि० प्रत्य०)] पक्व । पका हुआ ।
उ०—पाकल विव अइसन अघर ।—वर्णा०, पृ० ५ ।

पाकलि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] काकडासिगी । कर्कटी ।

पाकली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पाकलि' ।

पाकशाला—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] रसोई का घर । वावरचीखाना ।

विशेष—मुहूर्तचिंतामणि के अनुसार घर के पूर्व दक्षिण के
कोण में पाकशाला बनाना उत्तम है । सुश्रुत के अनुसार
घुआँ वाहर निकलने के लिये ऊपर की ओर इसमें एक छोटी
खिडकी भी होनी चाहिए ।

पाकशासन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] इद्र ।

पाकशासनि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ इद्र का पुत्र जयत । २ बालि ।
३ अर्जुन [को०] ।

पाकशुक्ला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] खडिया मिट्टी ।

पाकशासन^(७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाकशासन] इद्र । पाकशासन ।
उ०—आसन मिल्यो है पाकशासन की सेय तिलहूँ, जिनकी
कृपा तै बोल कडै वाकबानी की ।—ब्रज० अ०, पृ० २६ ।

- पाकसी—सज्ञा स्त्री० [प्र० फॉक्स] लोमड़ी । (लण०) ।
- पाकस्थली—सज्ञा स्त्री० [सं०] उदर का वह स्थान जहाँ आहार द्रव्य जठराग्नि या पाचक रस की क्रिया से पचता है । पक्वाशय ।
- पाकस्थान—सज्ञा पुं० [सं०] १ रसोईघर । महानस । २ कुम्हार का श्रावार्थ [को०] ।
- पाकहंता—सज्ञा पुं० [सं० पाकहन्तृ] पाकशासन । इद्र ।
- पाकाङ्ग^१—सज्ञा पुं० [हिं० पकना] फोडा ।
- पाका^२—वि० [सं० पक] पका हुआ । उ०—भला भला ताजी चढै, आचरै वीढा पाका पान ।—वी० रासो, पृ० १८ ।
- पाकागार—सज्ञा पुं० [सं०] रसोईघर ।
- पाकातिसार—सज्ञा पुं० [सं०] पुराना अतिसार । जीर्ण आम्रातिसार [को०] ।
- पाकात्यय—सज्ञा पुं० [सं०] आँखों का एक रोग जिसमें आँख का काला भाग सफेद हो जाता है ।
- विशेष—आरम्भ में इसमें एक फोडा होता है और आँखों से गरम गरम आँसू गिरते हैं । पुतली का सफेद हो जाना प्रदोष का कोप सूचित करता है । इस दशा में यह रोग असाध्य समझा जाता है ।
- पाकारि—सज्ञा पुं० [सं०] १ इद्र । २ सफेद कचनार का वृक्ष ।
- पाकिम—वि० [सं०] १ पका हुआ । २ पाक क्रिया से प्राप्त, जैसे, नमक । ३ पकाया हुआ [को०] ।
- पाकिस्तान—सज्ञा पुं० [फा०] भारत का वह भाग जिसमें मुसलमानों की आवादी अधिक है और (१५ मगस्त) सन् १९४७ में जिसे सांप्रदायिक आघार पर एक सघराज्य का रूप दे दिया गया । इसमें सिंध, विलोचिस्तान, सीमाप्रांत, पंजाब का पश्चिमी भाग और पूर्वी बंगाल हैं । उ०—देश में सांप्रदायिक दंगे हो चले थे और भारत में दो राष्ट्रों के सिद्धांत पर आधारित पाकिस्तान की कल्पना मूर्तिमान स्वरूप धारण कर रही थी ।—भा० वि०, पृ० १०० ।
- पाकिस्तानी—वि० [फा०] १ पाकिस्तान का । २ पाकिस्तान में होनेवाला । ३ पाकिस्तान से संबद्ध ।
- पाकी^१—वि० [सं० पाकिन्] पकने की और अभिमुख । जो पक्व हो रहा हो [को०] ।
- पाको^२—सज्ञा स्त्री० [फा०] १ निर्मलता । पवित्रता । शुद्धता । २. परहेजगारी । ३ स्वच्छता । सफाई ।
- मुहा०—पाकी लेना = उपस्थ पर के बाल साफ करना ।
- पाकीजा—वि० [फा० पाकीजह] [सज्ञा पाकीजगी] १ पाक । पवित्र । शुद्ध । २ खूबसूरत । सुंदर । ३ बेऐव । निर्दोष ।
- पाकु—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पाकुक' ।
- पाकुक—सज्ञा पुं० [सं०] रसोइया । पाचक ।
- पाकेट^१—सज्ञा पुं० [अ०] जेब । खीसा ।

मुहा०—पाकेट गरम करना = (१) घूस लेना । (२) घूस देना ।
पाकेट गरम होना = पास में घन होना ।

यौ०—पाकेटमार=जेबकट । गिरहकट । पाकेटमारी=गिरहकटी । जेबकटी का काम ।

पाकेट^२—सज्ञा पुं० [अ० पैकेट] ^२ 'पैकेट' । २ नियमित दिन को डाक, माल और यात्री लेकर रवाना होनेवाला जहाज । (लण०) ।

पाकेट^३—सज्ञा पुं० [हिं०] ऊँट ।

पाक्य^१—वि० [सं०] जो पच सके । पचने योग्य । पचनीय ।

पाक्य^२—सज्ञा पुं० १ काला नमक । २ सभर नमक । ३ जवाखार । ४ शोरा ।

पाक्यक्षार—सज्ञा पुं० [सं०] १ जवाखार । २ शोरा ।

पाक्यज—सज्ञा पुं० [म०] कचिया नमक ।

पाक्या—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ सज्जी । २ शोरा ।

पाक्ष—वि० [सं०] [वि० स्त्री० पाक्षी] १ पक्ष या पाख सबधी । पाक्षिक । पक्षविशेष से संबध रखनेवाला [को०] ।

पाक्षपातिक—वि० [सं०] [वि० स्त्री० पाक्षपातिकी] पक्षपात करनेवाला । पक्षपाती [को०] ।

पाक्षायण—वि० [सं०] १ जो पक्ष में एक बार हो या किया जाय । २ जो पक्ष से संबध रखता हो ।

पाक्षिक^१—वि० [म०] १. पक्ष या पखवाड़े से संबध रखनेवाला । २ जो पक्ष या प्रति पक्ष में एक बार हो या किया जाय । जैसे,—पाक्षिक पत्र या बैठक । ३ किसी विशेष व्यक्ति का पक्ष करनेवाला । पक्षवाही । तरफदार । ४ दो मानाओं का (छद्म) । ५ पक्षियों से संबद्ध । पक्षिसंबधी (को०) । ६ वैकल्पिक । ऐच्छिक (को०) ।

पाक्षिक^२—सज्ञा पुं० १ पक्षियों को मारनेवाला । व्याध । वहेलिया । २ विकल्प । पक्षांतर (जो०) ।

पाखंड^१—सज्ञा पुं० [सं० पाखण्ड] १ वेदविरुद्ध आचार । उ०—पट दरसन पाखंड छानवे पकरि किए वेगारी ।—धरम०, पृ० ६२ । २ वह भक्ति या उपासना जो केवल हमरों के दिखाने के लिये की जाय और जिसमें कर्ता की वास्तविक निष्ठा वा श्रद्धा न हो । डोग । आडवर । ढकोनला । ३ वह व्यय जो किसी को धोखा देने के लिये किया जाय । प्रवृत्ति । छल । धोखा । ४ नीचता । शरारत । ५ जैन या बौद्ध (को०) ।

मुहा०—पाखंड फँलाना = किसी को ठगने के लिये उपाय रचना । बुरे हेतु से ऐसा काम करना जो अच्छे इरादों से किया हुआ जान पड़े । नजर फँलाना । ढकोमला खडा करना । जैसे,—(क) उम (नाबु) ने कैसा पाखंड फँला रखा है । (ख) वह तुम्हारे पाखंड को ताड गया ।

पाखंड^२—वि० पाखंड करनेवाला । पाखंडी ।


पाखंडी—वि० [सं० पाखण्डिन्] १ वेदविरुद्ध आचार करनेवाला । वेदाचार का खंडन या निंदा करनेवाला ।

विशेष—पद्मपुराण में लिखा है कि जो नारायण के अतिरिक्त

अन्य देवता को भी बदनीय कहता है, जो मस्तक आदि मे वैदिक चिह्नों को धारण न कर श्रवैदिक चिह्नों को धारण करता है, जो वेदाचार को नहीं मानता, जो सदा श्रवैदिक कर्म करता रहता है, जो वानप्रस्थाश्रमी न होकर जटावल्कल धारण करता है, जो ब्राह्मण होकर हरि के श्रव्यत श्रिय शख, चक्र, उर्ध्वपुंड्र आदि चिह्न धारण नहीं करता, जो बिना भक्ति के वैदिक यज्ञ करता है, जीर्वाहसक, जीवभक्षक, अग्रशस्त दान लेनेवाला, पुजारी, ग्रामयाजक (पुरोहित), अनेक देवताओं की पूजा करनेवाला, देवता के झूठे वा श्राद्ध के अन्न पर पेट पालनेवाला, शूद्र के से कर्म करनेवाला, निषिद्ध पदार्थों को खानेवाला, लोभ, मोह आदि से युक्त, परस्त्रीगामी, आश्रमधर्म का पालन न करनेवाला, जो ब्राह्मण सभी वस्तुओं को खाता या बेचता हो, पीपल, तुलसी, तीर्थस्थान आदि की सेवा न करनेवाला, सिपाही, लेखक, दूत, रसोइया आदि के व्यवसाय और मादक पदार्थों का सेवन करनेवाला ब्राह्मण पाखडी है। पाखडी के साथ उठना बैठना, उसके घर जल पीना या भोजन करना विशेष रूप से निषिद्ध है। यदि किसी प्रकार एक वार भी इस निषेध का उल्लंघन हो जाय तो परम वैष्णव भी इस पाप से पाखडी हो जायगा। मनुस्मृति के मत से पाखडी का वाणी से भी सत्कार न करे और राजा उसे अपने राज्य से निकाल दे।

२ वनावटी धार्मिकता दिखानेवाला। जो बाहर क्षि परम धार्मिक जान पड़े पर गुप्त रीति से पापाचार मे रत रहता हो। कपटाचारी। बगलाभगत। ३ दूसरो को ठगने के निमित्त अनेक प्रकार के आयोजन करनेवाला। ठग। धोखेवाज। धूर्त।

पाखी^१—सज्ञा पुं० [सं० पख, प्रा० पक्ख] १ महीने का आधा। पंद्रह दिन। पखवाडा। २ मकान की चौड़ाई की दीवारों के वे भाग जो ठाठ के सुभीते के लिये लवाई की दीवारों से त्रिकोण के आकार मे अधिक ऊँचे किए जाते हैं और जिनपर लकड़ी का वह लवा मोटा और मजबूत लट्टा रखा जाता है जिसको 'बड़ेर' कहते हैं। कच्चे मकानों मे प्रायः और पक्के में भी कभी कभी पाख बनाए जाते हैं। इनसे ठाठ को ढालू करने में सहायता होती है। पाख के सबसे ऊँचे भाग पर बड़ेर रखी जाती है जिसपर सारे ठाठ और खपरैलों का भार होता है। पाख का आकार इस प्रकार का होता है—



पाखी^२—सज्ञा पुं० [सं० पख, प्रा० पक्ख] पखी का पख। घेना। पर।

पाखती^१—सज्ञा पुं० [देश०] पार्श्वरक्षक सैनिक। उ०—पाखती सवल जोधे प्रचड।—रा० ६०, पु० १८३।

पाखर^१—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रखर, प्रक्खर] १ लोहे की वह झूल जो लवाई के समय रक्षा के लिये हाथी या घोड़े पर डाली जाती है। चार आईना। २ राल चढ़ाया हुआ टाट वा उससे बनी हुई पोशाक।

पाखर^२—सज्ञा पुं० [सं० पकंटी] दे० 'पाकर'।

पाखरि^१—सज्ञा स्त्री० [हिं] दे० 'पाखर'। उ०—गिरिवन कुज खरिक अरु वाखरि, हित मतग ये परि पन पाखरि।—घनानंद, पृ० २६३।

पाखरियां—सज्ञा स्त्री० [हिं० पाखर+इया (प्रत्य०)] १ 'पाखर'। उ०—वसंतर ढाल बेंदूक पाखरिया कमधज पड्या। कसरी कूका कूक नाम घुडासी नानिया।—राम० धर्म०, पृ० ७०।

पाखरी—सज्ञा स्त्री० [हिं० पाखर (= झूल)] टाट का बना हुआ वह विस्तरा जिसको गाड़ी में पहले बिछाकर तब अनाज भरा जाता है।

पाखा^१—सज्ञा पुं० [सं० पख, प्रा० पक्ख] १ कोना। छोर। उ०—पावक भाष्यो विष्णुपदी सो शम्भु तेज श्रतिघोरा। तजहुं हिमाचल के पाखा में यह सम्मत है मोरा।—रघुराज (शब्द०)। २ दे० 'पाख-२'।

पाखा^२—सज्ञा पुं० दे० 'पख'।

पाखाक—सज्ञा स्त्री० [फा० पाखाक] चरणरज। पैर की धूल।

पाखान^१—सज्ञा पुं० [सं० पापाण] पत्थर।

पाखानभेद—सज्ञा पुं० [सं० पापाणभेदक] दे० 'पाखानभेद'।

पाखाना—सज्ञा पुं० [फा० पाखानह] १ वह स्थान जहाँ मलत्याग किया जाय। २ भोजन के पाचन के उपरांत पचा हुआ मल जो अधोमार्ग से निकल जाता है। गू। गलीज। पुरीष।

मुहा०—पाखाने जाना = मलत्याग के लिये जाना। पाखाना खता होना = बहुत ही भयभीत होना। पाखाना निकलना। पाखाना निकलना = मारे भय के बुरा हाल होना। जैसे,—उन्हे देखते ही इनका पाखाना निकलता है। पाखाना फिरना = मलत्याग करना। पाखाना फिर देना = डर से धबरा जाना। भय से श्रव्यंत व्याकुल हो जाना। जैसे,—शेर को देखते ही डर के मारे पाखाना फिर दोगे। पाखाना लंगना = मल निकलने की आवश्यकता जान पडना। मल का वेग जान पडना।

पाग^१—सज्ञा स्त्री० [हिं० पग (= पैर)] पगडी। उ०—शूती का दे सर पर मारी, और लपककर पाग उतारी।—दक्खिनी०, पु० ३११।

विशेष—कहते हैं, पगडी पहले पैर के घुटने पर बांधकर तब सिर पर रखी जाती थी, इसी से यह नाम पडा।

पाग^२—देश० पुं० [सं० पाक] १. दे० 'पाक'। २ वह शीरा या चायनी

जिसमें मिठाईयाँ या दूसरी खाने की चीजें डुवाकर रखी जाती हैं। उ०—आखर अरथ मजु मृदु मोदक राम प्रेम पाग पागिहैं।—तुलसी (शब्द०)। ३ चीनी के शीरे में पकाया हुआ फल आदि। जैसे, कुम्हड़ा पाग। ४ वह दवा या पुष्टई जो चीनी या शहद के शीरे में पकाकर बनाई जाय और जिसका सेवन जलपान के रूप में भी कर सकें।

पागड़ा†—सज्ञा पुं० [हि० पग] १ पैर। चरण। उ०—प्रबल मुर असुर जिण लगाया पागड़े।—रघु० रू०, पृ० ३१। २ रिकाब। ऊँट या घोड़े की काठी का पावदान जिसपर पैर रखकर सवार होते हैं। उ०—ढोलउ हल्लाणउ करइ धण हल्लिवा न देह। भव भव भूवइ पागडइ डवडव नयण भरेह।—ढोला०, दू० ७०।

पागना^१—क्रि० सं० [सं० पाक] शोरे या किवाम में डुवाना। मीठी चाशनी में सानना या लपेटना। उ०—आखर अरथ मजु मृदु मोदक राग प्रेम पाग पागिहैं।—तुलसी (शब्द०)।

पागना^२—क्रि० अ० किसी विषय में अत्यंत अनुरक्त होना। ह्वना। मग्न होना। तन्मय होना। उ०—(क) तव वसुदेव देवकी निरखत परम प्रेम रस पागे।—सूर (शब्द०)। (ख) पिय पागे परोसिन के रस में बस में न कहूँ बस मेरे रहूँ।—पद्माकर (शब्द०)।

पागर^१—सज्ञा पुं० [?] वह रस्सा जिससे मल्लाह नाव को खीचकर नदी के किनारे बाँधते हैं। गून (लण०)।

पागर^२—सज्ञा पुं० [हि० पग] रिकाब। घोड़े की काठी का पावदान। उ०—निज मन आगम जानि मरन्न, पवगम पागर काटि चरन्न। उपानह छडिय चावैड राइ, पवन्नह वेग जवन्नह घाइ।—पृ० रा०, ६६।१२२।

पागल—वि० [सं०] [वि० ली० पगली, पागलिनी] १ विक्रिय। बीडहा। सनकी। बावला। सिडी। जिसका दिमाग ठीक न हो।

यौ०—पागलखाना। पागलपन।

२ क्रोध, शोक या प्रेम आदि के उद्वेग में जिसकी भला बुरा सोचने की शक्ति जाती रही हो। जिसके होश हवास दुस्त न हो। आपे से बाहर। जैसे,—(क) वे उनके प्रेम में पागल हो गए हैं। (ख) वे सारे क्रोध के पागल हो गए हैं। ३ मूर्ख। नासमझ। वेवकूफ। जैसे,—तुम निरे पागल हो।

पागलखाना—सज्ञा पुं० [हि० पागल+फ़ा खानह] वह स्थान जहाँ पागलो को रखकर उनका इलाज किया जाता है। पागलो के रखने का स्थान।

पागलपन—सज्ञा पुं० [हि० पागल+पन (प्रत्य०)] वह भीषण मानसिक रोग जिससे मनुष्य की बुद्धि और इच्छाशक्ति आदि में अनेक प्रकार के विकार होते हैं। उन्माद। बावलापन। विकृष्टता। चित्तविभ्रम। विशेष—दे० 'उन्माद'। २ मूर्खता। वेवकूफी।

पागली—सज्ञा स्त्री० [हि० पागल] दे० 'पगली'।

पागु^१—सज्ञा पुं० [हि० पाग] दे० 'पाग'। उ०—ललित लसै सिर पागु तकै, तक तँह तँह मुरके।—नद० ग्र०, पृ० २०७।

पागुरा—सज्ञा पुं० [हि० पाक] दे० 'जूगाली'।

पाघ^१—सज्ञा स्त्री० [हि० पाग] दे० 'पाग'। उ०—पाघ विराजत सीस पर जरकस जोति निहाय। मनो मेर के सिपर पर रह्यो अहप्पति आय।—पृ० रा०, १।७५०।

पाचक^१—वि० [सं०] जो किसी कच्ची वस्तु को पचावे या पकावे। पचाने या पकानेवाला।

पाचक^२—सज्ञा पुं० १ वह नमकीन या क्षारयुक्त श्लेष्म जो भोजन को पचाने और भूख तथा पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिये खाई जाती है। २ [स्त्री० पचिका] भोजन पकानेवाला। रसोइयाँ। वावर्ची। ३ पाँच प्रकार के पित्तों में से एक पित्त।

विशेष—वैद्यक में इसका स्थान आमाशय और पक्वाशय माना गया है। यही भोजन को पचाता और उससे उत्पन्न रसवायु, पित्त, कफ, मूत्र, पुरीष आदि को अलग अलग करता है। अपने में स्थित अग्नि द्वारा यह अन्य चार पित्तस्थानों की क्रियाओं में सहायता करता है।

४ पाचक पित्त में रहनेवाली अग्नि।

विशेष—शरीर की गरमी का घटना बढ़ना इसी अग्नि की सवलता और निर्बलता पर निर्भर है।

पाचन^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ पचाने या पकाने की क्रिया। पचाना या पकाना। २ खाए हुए आहार का पेट में जाकर शरीर के धातुओं के रूप में परिवर्तन। अन्न आदि का पेट में जाकर उस रूप में आना जिस रूप में वह शरीर का पोषण करता है। विशेष—दे० 'पक्वाशय'।

यौ०—पाचनशक्ति।

३ वह श्लेष्म जो आम अथवा अपक्व दोष को पचावे।

विशेष—पाचन श्लेष्म प्रायः काढ़ा करके दी जाती है। यह श्लेष्म १६ गुने पानी में पकाई जाती है और चौथाई रह जाने पर व्यवहार में लाई जाती है। वैद्यक में प्रत्येक रोग के लिये अलग अलग पाचन लिखा है जो कुल मिलाकर ३०० से अधिक होते हैं।

४ प्रायश्चित्त। ५ अम्ल रस। खट्टा रस। ६ अग्नि। ७ लाल एरड। ८ ब्रह्म में से रक्त या मवाद निकालना (की०)। ९ ब्रह्म या धाव का पूरा होना (की०)।

पाचन^२—वि० १ पचानेवाला। हाजिम। २ किसी विशेष वस्तु के अजीर्ण को नाश करनेवाली श्लेष्म।

विशेष—विशेष विशेष वस्तुओं के खाने से उत्पन्न अजीर्ण विशेष पदार्थों के खाने से नष्ट होना है। जो वस्तु जिसके अजीर्ण को नष्ट करती है उसे उसका पाचन कहते हैं। जैसे, कटहल का पाचन केला, केले का घी और घी का जँभीरी नीबू पाचक है। इसी प्रकार आम और भात के अजीर्ण का दूध, दूध के अजीर्ण का अजवायन, मछली तथा मांस के

अजीर्ण का मट्ठा पाचन है। गरम मसाला, हल्दी, हींग, सोठ नमक आदि साधारण रीति से सभी द्रव्यों के पाचन हैं।

पाचनक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सोहागा। २ पाचन करनेवाला एक पेय (को०)।

पाचनगण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पाचन औषधियों का वर्ग। जैसे, काली मिर्च, अजवायन, सोठ, चण्ड, गजपीपल, काकडासिमी आदि।

पाचनशक्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह शक्ति जो भोजन को पचाये। अमाशय और पक्वाशय में रहनेवाले पित्त तथा अग्नि की शक्ति। हाजमा।

पाचना ७^१—क्रि० सं० [सं० पाचन] १ पकाना। २ अच्छी तरह पकाना। परिपक्व करना। उ०—निसि दिन स्याम सुमिरि यथा गावे कलपन भेठि प्रेमरस पाचै।—सूर (शब्द०)।

पाचना १^२—क्रि० अ० निस्तत्व होना। पचना। गलना। क्षीण होना।

पाचनिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पकाने या पचाने की क्रिया (को०)।

पाचनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] हड।

पाचनीय—वि० [सं०] जो पचाई या पकाई जा सके। पचाने या पकाने योग्य। पाच्य।

पाचयिता—वि० [सं० पाचयितृ] १ पाक करनेवाला। रसोइया। २ पचानेवाला। हाजिम।

पाचर १—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पचर'।

पाचल १—वि० [सं०] १ पाक करनेवाला। पकानेवाला। २ पचानेवाला। हाजिमा (को०)।

पाचल २—सञ्ज्ञा पुं० १. अग्नि। २ पाचक। रसोइया। ३ वायु। ४ रीघने या पकाने की वस्तु (को०)।

पाचा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] राधना। पकाना (को०)।

पाचि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पाचा' (को०)।

पाचिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] रसोईदारिन। रसोई करनेवाली।

पाची—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार की लता जिसे वैद्यक में कटु-तिक्त, कपाय, उष्ण, वातविकार, प्रेत और भूत की वाधा, चर्मरोग और फोडे फु मियों में उपकारक माना है। पाची या पचची लता। मकनपत्री। हरितपत्रिका।

पाच्छा १—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पादशाह] दे० 'वादशाह'।

पाच्छाई—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पादशाही] राज्य। हुकूमत। वादशाहत। उ०—जिनके लागे सब के डडा त्यागि चने पाच्छाई।—कवीर श०, भा० ३, पृ० १६।

पाच्छाह—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पादशाह] दे० 'वादशाह'।

पाच्य—वि० [सं०] जो पचाया या पकाया जा सके। पचाने या पकाने योग्य। पाचनीय।

पाछ—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पाछना] १ जतु या पीधे के शरीर पर छुरी की धार आदि मारकर ऊपर ऊपर किया हुआ घाव जो गहरा न हो। २ पोस्ते के डोडे पर नहरनी से लगाया हुआ चीरा जिससे गोद के रूप में अफीम निकलती है। ३.

पाछने की क्रिया अथवा भाव। ४ किसी वृक्ष पर उठना सब निकालने के लिये लगाया हुआ चोग।

क्रि० प्र०—देना।—लगाना।

पाछा १^२—सञ्ज्ञा पुं० [उ० पचगा, प्रा० पच्छा] पीछा। विद्यवा भाग।

पाछ ३—क्रि० वि० पीछे। उ०—प्रलयोत्त तमि पच्छ में चितवट पाद्य उगत। जुग धगुन कर प्रीत तव राम मुवहि मोहि तात।—तुलसी (शब्द०)।

पाछना—क्रि० सं० [हिं० पछा] जतु या पीधे के शरीर पर छुरी की धार इस प्रकार मारना कि खून न निकले और न पीधे घोर जिघत्ते केवल ऊपर ऊपर या रक्त आदि निकल जाय। घुरा या नहरनी आदि में रक्त, पछा या रक्त निवातने के लिये लगाया गया लगावा। पीरना। उ०—मुनि मुव वचन कहत कैठेई। मरगु पाछि जनु माहुर देई।—तुलसी (शब्द०)।

पाछल ७^१—वि० [हिं०] ० 'पिछना'।

पाछली—वि० [हिं०] ० 'पिछना'। उ०—भए अतरवान बीते पाछली निमि जाग।—भास्वतेनु प्र०, भा० ३, पृ० ७८।

पाछलु ७^२—वि० [हिं०] ० 'पिछना'।

पाछा ७^३—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पाछ] ० 'पीछा'।

पाछाई—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पादशाही] वादशाही। हुकूमत। उ०—लोक तीत रहि चोये माती। जा चर सत कर पाछाई।—घट०, पृ० २५६।

पाछिल ७^४—वि० [हिं० पाछ+इल (प्रत्य०)] ० 'पिछना'। उ०—पाछिन मोह समुक्ति पछनाना। प्रह्य भनादि मनुज कर माना।—तुलसी (शब्द०)।

पाछी ७^५—क्रि० वि० [हिं० पाछ] पीछे की ओर। पीछे। उ०—यक दिन मृतक राति यक वाछी। नददास घर के पधु पाछी।—रघुराज (शब्द०)।

पाछी २—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पछी] ० 'पछी'। उ०—रसना तू मनु-रागनि पाछी। गोविंद गुनगन गरिमा साछी।—धनानंद, पृ० २६६।

पाछी ३—क्रि० वि० [हिं०] ० 'पीछे'।

पाछी ४—क्रि० वि० [हिं०] ० 'पीछे'। उ०—फान्ह की डर जिन जिय में आनी। पाछे मोहि आयी ही जानी।—नंद० प्र०, पृ० १६१।

पाछे ५—क्रि० वि० [हिं०] ० 'पीछे'।

पाछी ६—क्रि० वि० [सं० पश्चा, प्रा० पच्छा हिं० पाछा] ० 'पाछा'। उ०—ताते श्री ठाकुर जी ने वा वैष्णव के लरिका की पाछी घर भेजयो।—दो सो बावन०, भा० १, पृ० ३२७।

पाज १—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाजस्य] पांजर। उ०—निरसि छवि फूलत हैं अजराज। उत जमुदा इत आपु परस्पर भाडे रहे कर पाज।—सूर (शब्द०)।

पाज २—सञ्ज्ञा पुं० [?] १ पवित्र। पाती। कतार। (लश०)।

④२. सेतु । पुल । बाँध । उ०—(क) बधि पाज सागरह हनुअ अगद सुग्रीवह ।—पृ० रा०, २।२७१ । (ख) ब्रज तिय हिय सरबर रसभरे । लाज पाज तजि उमगनि ढरे ।—घनानद०, पृ० ३२२ ।

पाजरा—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक वनस्पति जिससे रंग निकाला जाता है ।

पाजस्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पाँजर । छाती और पेट की बगल का भाग । २ पार्श्व । बगल ।

पाजा—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] दे० 'पायचा' ।

पाजामा—सञ्ज्ञा पुं० [फ़ा० पाजामह्] पैर में पहनने का एक प्रकार का सिला हुआ वस्त्र जिससे टखने से कमर तक का भाग ढका रहता है । सुथना । तमान । इजार ।

विशेष—पाजामे के टखने की ओर के अंतिम भाग को मोहरी या मोरी, जितना भाग एक एक पैर में होता है उसे पायचा, दोनों पायचो के मिलानेवाले भाग को मियानी, कमर की ओर के अंतिम भाग को जिसमें इजारबद रहता है नेफा और जिस सूत या रेशम के बघनों को नेफे में डालकर कसते हैं, उसे इजारबद कहते हैं । पाजामे के कई भेद हैं—(क) चूड़ीदार, जो घुटने के नीचे इतना तग होता है कि सहज में पहना या उतारा नहीं जा सकता । पहनने पर घुटने के नीचे इसमें बहुत से मोड़ पड़ जाते हैं । इसके भी दो भेद होते हैं—आड़ा और खड़ा । आड़े की काट नीचे से ऊपर तक आड़ी और खड़े की खड़ी होती है । कभी कभी इसमें मोहरी की तरफ तीन बटन लगते हैं । उस दशा में मोहरी और भी तग रखी जाती है । (ख) बरदार, जो घुटने के नीचे और ऊपर बराबर चौड़ा होता है । इसकी एक एक मोहरी एक हाथ से कम चौड़ी नहीं होती । (ग) अरबी, जिसकी मोहरी चूड़ीदार से अधिक ढीली होती है और जो अधिक लवा न होने के कारण सहज में पहन लिया जाता है । (घ) पतलूननुमा, जिसकी मोहरी बरदार से कम और अरबी से अधिक चौड़ी होती है । आजकल इसी पाजामे का रवाज अधिक है । (ङ) कलीदार या जनाना पाजामा, जो नेफे की तरफ कम और मोहरी की तरफ अधिक चौड़ा रहता है । इसके नेफे का घेरा १ गज और मोहरी का २ १/२ गिरह होता है । इसमें बहुत सी कलियाँ होती हैं जिनका चौड़ा भाग मोहरी की ओर और तग भाग नेफे की ओर होता है । (च) पेशावरी, जो कलीदार का प्रायः उलटा होता है अर्थात् नेफा १ ३/४ गज और मोहरी प्रायः २ १/२ गिरह चौड़ी होती है । (छ) काबुली और (ज) नेपाली भी इसी प्रकार के होते हैं । पहले के नेफे का घेरा ४ गज और दूसरे का २ १/२ गज होता है । इनमें कलियों की स्थापना कलीदार की उलटी होती है ।

पाजामे का व्यवहार इस देश में कब से आरम्भ हुआ, उपलब्ध इतिहासों से इसका निश्चय नहीं होता । अधिकतर लोगों का ख्याल है कि यह मुसलमानों के साथ यहाँ आया । पहले यहाँ

के लोग धोती ही पहना करते थे । परन्तु पहाड़ियों और शीतप्रधान प्रदेशों के रहनेवालों में आजकल इसका जितना व्यवहार है उससे सदेह हो सकता है कि पहले भी उनका काम इसके बिना न चलता रहा होगा । आजकल हिंदू, मुसलमान दोनों पाजामा पहनते हैं, पर मुसलमान अधिक पहनते हैं ।

पाजी^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पदाति] १ पैदल सेना का सिपाही । प्यादा । २. रक्षक । चौकीदार । उ०—पउरी नवउ बजर कइ साजी । सहस सहस तहँ बइठे पाजी ।—जायसी (शब्द०) ।

पाजी^२—वि० [सं० पाय्य] दुष्ट । लुच्चा । खोटा । कमीना ।

पाजीपन—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पाजी+पन (प्रत्य०)] दुष्टता । खुटाई । कमीनापन । नीचता ।

पाजेब—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] स्त्रियों का एक गहना जो पैरों में पहना जाता है । यह चाँदी का होता है और इसमें धुँधरू टँके होते हैं । मजीर । मूपुर ।

पाटंबर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाटम्बर] रेशमी वस्त्र । रेशमी कपड़ा ।

पाट—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पट्ट, पाट] १ रेशम । उ०—भूलत पाट की डोरी गहे पटुली पर बैठन ज्यौं उकुरु की ।—भारतेंदु प्र०, भा० १, पृ० ३६१ ।

पौ०—पाटंबर । पाटकृमि ।

२ बटा हुआ रेशम । नख । ३ रेशम के कीड़े का एक भेद । ४ पटसन या पाटसन के रेशे । जैसे, पाट की धोती । विशेष—दे० 'पटसन' । ५ राज्यासन । सिंहासन । गद्दी ।

पौ०—राजपाट । पाटरानी । पाटमहादेह । पाटमहिपी ।

६ चौड़ाई । फैलाव । जैसे, नदी का पाट, धोती का पाट । ७ पल्ला । पीढ़ा । तस्ता । उ०—पौढ़त भूला, पाट उलटि के सरकि परत जब ।—प्रेमघन०, भा० १, पृ० १० । ८ कोई शिला या पटिया । ९ वह शिला जिसपर घोड़ी कपड़े धोता है । १०. चक्की का एक ओर का भाग । ११ वह चिपटा शहतीर जिसपर कोल्हू हकनेवाला बैठता है । १२ वह शहतीर जो कुएँ के मुँह पर पानी निकालनेवाले के खड़े होने के लिये रखा जाता है । १३. मृदग के चार वर्यों में से एक । १४ वैलो का एक रोग जिसमें उनके रोओ से रक्त बहता है ।

फ्रि० प्र०—फूटना ।

१५ वस्त्र । कपड़ा । १६ हल में का मछोतर जिसकी सहायता से हरिस में हल जुड़ा रहता है । यह मछली के आकार का होता है ।

पाटक^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ स्वरवाद्य । २ गाँव का आधा अथवा कोई भाग । ३ तट । किनारा । ४ पासा । ५ मूलधन का अपचय वा हानि (को०) । ६ तट पर जाने के लिये निर्मित सीढ़ी या सोपान (को०) ।

पाटक^२—वि० [सं०] विभाग करनेवाला । चीरने या फाड़नेवाला (को०) ।

पाटकरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शुद्ध जाति के रागों का एक भेद ।

पाटचर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चोर ।

पाटण^(५)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पत्तन] नगर ।

पाटद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कपास ।

पाटन^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाटना] १ पाटने की क्रिया या भाव । पटाव । २ जो कुछ पाटकर बनाया जाय । कच्ची या पक्की छत । ३ मकान की पहली मंजिल से ऊपर की मंजिलें । ४ सर्प का विष उतारने के मंत्र का एक भेद । जिसको साँप ने काटा हो उसके कान के पास पाटन मंत्र चिल्लाकर पढ़ा जाता है । उ०—काम भुवग विषय लहरी सी । मणि मयूर पाटन गहरी सी । —विश्राम (शब्द०) । ५ कई प्राचीन नगरों के नाम ।

पाटन^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पाटने की क्रिया या भाव । चीरना । भेदना । विदारना । फाड़ना ।

पाटन^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पत्तन] दे० 'पट्टन' । उ०—ऐसे पाटन आइके सौदा करो बनाय ।—कवीर शं०, भा० ४, पृ० २४ ।

पाटनक्रिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] शल्यचिकित्सा । शल्यक्रिया । घाव आदि चीरना [को०] ।

पाटना—क्रि० सं० [हि० पाट] १ किसी नीचे स्थान को उसके आस पास के घरातल के बराबर कर देना । किसी गहराई को मिट्टी, कूड़े आदि से भर देना । २ किसी चीज की रेल पेल कर देना । ढेर लगा देना । उ०—नाटक नाट्य धार घाटन में सुख पाटन कमनीया । —रघुराज (शब्द०) । ३ दो दीवारों के बीच या किसी गहरे स्थान के आर पार धरन, लकड़ी के बल्ले आदि बिछाकर आधार बनाना । छत बनाना । ४. तृप्त करना । सीचना । ५ पूर्ण करना । निबाह करना । उ०—जमुना घाटनि गहवर बाटनि । पटुता पाज पैजपन पाटनि ।—घनानन्द, पृ० २५६ ।

पाटनीय—वि० [सं०] चीरने योग्य । फाड़ने योग्य [को०] ।

पाटमहादेइ^(५)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पट्ट महादेवी] दे० 'पाटमहिषी' । उ०—पाट महादेइ हिऐं न हारु । समुक्ति जीउ चित चेत संभारु ।—पदमावत, पृ० ३४३ ।

पाटमहिषी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पट्ट (= सिंहासन) + महिषी (= रानी)] वह रानी जो राजा के सथ सिंहासन पर बैठ सकती हो । पटरानी । प्रधान रानी । उ०—जनक पाटमहिषी जग जानी । सीय मातु किमि जाइ बखानी ।—मानस, १ । ३२४ ।

पाटरानी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पट्ट (= सिंहासन) + रानी] पटरानी । प्रधान रानी ।

पाटल^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पाडर या पाडर का पेड़ जिसके पत्ते देल के समान होते हैं । उ०—भौर रहे मननाय पुहप पाटल के महकत ।—ब्रज० शं०, पृ० १०१ ।

विशेष—लाल और सफेद फूलों के भेद से यह दो प्रकार का होता है । वैद्यक में इसे उष्ण, कषाय, स्वादिष्ट तथा

अरुचि, सूजन, रुधिरविकार, श्वास और तृष्णा आदि को दूर करनेवाला माना है ।

पर्या०—पाटला । कवुंरा । अमोघा । फलेरुहा । अंबुवासिनी । कृप्यावृत्ता । कालवृत्ता । कुभी । तान्नपुष्पी । कुवेरासी । तोयपुष्पी । वसतदूती । स्थाली । स्थिरगधा । अंबुवासी । कोकिला ।

२ पाटल का फूल (को०) । ३ गुलाबी रंग । सफेदी लिए लाल रंग (को०) । ४ एक प्रकार का घान (को०) । ५ केशर (को०) । ६ गुलाब का फूल । ७ लाल लोघ्न (को०) ।

पाटल^२—वि० [सं०] ललाई लिए श्वेत वर्ण का । गुलाबी वर्ण का [को०] ।

पाटलक—वि० [सं०] पाटल वर्ण का [को०] ।

पाटलकोट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का कीड़ा ।

पाटलचक्षु—वि० [सं० पाटलचक्षुष्] जिसकी आंख में मोतियाबिंद का रोग हो [को०] ।

पाटलद्रुम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुन्नाग वृक्ष । राजचपक ।

पाटला^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पाडर का वृक्ष । २ लाल लोष । ३. जलकुभी । ४ दुर्गा का एक रूप ।

पाटला^२—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का बढ़िया सोना जो भारत में ही शुद्ध करके काम में लाया जाता है । यह बंक के सोने से कुछ हलका और सस्ता होता है ।

पाटलावती—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ दुर्गा । २. प्राचीन काल की एक नदी का नाम ।

पाटलि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पाडर का वृक्ष । उ०—त्रिविध समीर बई पाटलि, सुगंधि सनी ।—शकुतला, पृ० ५ । २ पांडुफली ।

पाटलिक^१—वि० [सं०] १. दूसरों की गुप्त बातों को जाननेवाला । २ देशकाल की जानकारी रखनेवाला [को०] ।

पाटलिक^२—सञ्ज्ञा पुं० १ छात्र । विद्यार्थी । शिष्य । २ पाटलिपुत्र ।

पाटलित—वि० [सं०] लाल किया हुआ । लालिमायुक्त [को०] ।

पाटलिपुत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मगध का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर जो इस समय भी बिहार का मुख्य नगर है । आजकल यह पटना के नाम से प्रसिद्ध है ।

विशेष—प्राचीन पाटलिपुत्र वर्तमान पटना से प्राय २३ मील पूर्व गंगा के तट पर जहाँ इस समय कुम्हारार नामक ग्राम है, स्थित था । खुदाई से वहाँ उसके बहुत से चिह्न मिले हैं । बुद्ध की परवर्ती कई शताब्दियों में यह नगर भारत का सर्वप्रधान नगर और अत्यंत उन्नत तथा समृद्ध था । विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रावृत्तांतों में इसकी बड़ी प्रशंसा लिखी है । प्राचीन पुस्तकों में इसका नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी लिखा है । वर्तमान पटना शेरशाह सूर का बसाया हुआ है । ब्रह्मपुराण में लिखा है कि महाराज उदायी या उदयन ने गंगा के दाहिने किनारे पर इस नगर को बसाया । यह मगधराज

अजातशत्रु का पुत्र था जो बुद्ध का समकालिक था। बौद्धों के 'महानिन्वाहनसुत्त' नामक ग्रंथ में इसके निर्माण के विषय में यह कथा लिखी है। भगवान् बुद्ध नालन्दा से वैशाली जाते हुए पाटली ग्राम में पहुँचे। वहाँ के निवासियों ने उनके लिये एक विश्रामागार बनवा दिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि यह ग्राम एक विशाल नगर होगा और अग्नि, जल तथा विश्वास-घातकता के आघात सहन करेगा। मगधराज के दो मंत्री कोई ऐसा नगर बसाने के लिये उपयुक्त स्थान ढूँढ़ रहे थे जिसमें रहकर निशिव नामक ब्राह्मण क्षत्रियों के आक्रमण से देश की रक्षा की जा सके। उपयुक्त आशीर्वाद की बात सुनते ही उन्होंने पाटली में नगर बसाना आरम्भ कर दिया। इसी का नाम पाटलिपुत्र पड़ा। भविष्य पुराण के अनुसार विश्रामित्र के पिता गांधि की कन्या पाटली के इच्छानुसार कौडिन्य मुनि के पुत्र ने मगध से इस नगर को बसाया और इसी से पाटलीपुत्र नाम रखा।

पाटलिमा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाटलिमन्] पाटल वरुण या गुलाबी रंग [को०]।

पाटली^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पाठर। २ पांडुफली। ३. पटना नगर की अविष्ठात्री देवी। ४ गांधि की पुत्री जिसके अनुरोध से पाटलीपुत्र बसा।

यौ०—पाटलीपुत्र = पाटलिपुत्र।

पाटली^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाट] लकड़ी की एक बल्ली जिसमें बहुत से छेद होते हैं और प्रत्येक छेद में से मस्तूल की एक एक रस्सी निकाली जाती है। इससे रात में किसी विशेष रस्सी को अलग करने में कठिनाई नहीं पड़ती। (लश०)।

पाटली तैल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक शीघ्र तैल जिसके लगाने से जले हुए स्थान को जलन, पीड़ा और चेप बहना दूर होता है। इससे चेचक की भी आति होती है।

विशेष—इसके बनाने की विधि इस प्रकार है—पाठर या पाठर की छाल के ८ सेर का ६४ सेर पानी में काढ़ा किया जाय। चौथाई रह जाने पर ८ सेर सरसो के तेल में डालकर फिर घीमी आँच में वह पकाया जाय। तेलमात्र रह जाने पर छानकर काम में लाएँ।

पाटलोपल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक मणि जिसका रंग सफेदी लिए हुए लाल होता है। लाल।

पाटल्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पाटल के फूलों का समूह [को०]।

पाटव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पटुवा। चतुराई। कुशलता। बालाकी। उ०—भलक आया स्वेद भी मकरद सा, पूर्ण भी पाटव हुआ कुछ मद सा।—साकेत, पृ० २३। २ छत्ता। मजबूती। पक्कापन। ३ आरोग्य। ४ स्फूर्ति। तीव्रता। शीघ्रता [को०]। ५ तीक्ष्णता [को०]।

पाटविक—वि० [सं०] १. पटु। कुशल। २ धूर्त।

पाटवी—वि० [हि० पाट] १ पटरानी से उत्पन्न (राजकुमार)। उ०—तैं मम प्रभु सुत पाटवी में तुव पितु पद दास।—

रघुराज (शब्द०)। २ रेशमी कौपेय। रेशम से बुना हुआ (वस्त्र)। उ०—गल हैकन सिर सुवरण शृंगा। पीठ पाटवी झूल अमंगा।—रघुराज (शब्द०)। ३ वरिष्ठ। श्रेष्ठ। ज्येष्ठ। पट्ट अधिकारी। प्रधान। बड़ा। उ०—गरीबदास जी दादू जी के पाटवी पुत्र और प्रधान शिष्य थे।—सुंदर प्र० (जी०), भा० १, पृ० ६१।

पाटसन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पट्टराण] पटसन। पट्टा।

पाटहिक—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पट्ट बजानेवाला। उस बड़े ढोल का बजानेवाला जो लड़ाई आदि में बजता है।

पाटहिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] गुजा। घुंघुची।

पाटा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पाट] १ पीठा।

मुहा०—पाटा फेरना = पीठा बदलना। विवाह में वर के पीठे पर कन्या को और कन्या के पीठे पर वर को विठाना।

२ दो दीवारों के बीच बाँस, बल्ली, पटिया आदि देकर बनाया हुआ आशरस्थान जिसपर चीजें रखी जाती हैं। दासा। ३ वह हाथ डेढ़ हाथ ऊँची दीवार जो रसोईघर में चौके के सामने और बगल में इसलिये बनाई जाती है कि बाहर बैठकर खानेवालों को पकानेवाली स्त्री से सामना न हो। ४ दे० 'पाट'। उ०—घोही छाज छात श्री पाटा। सब राजें मुहँ धरा लिलाटा।—जायसी प्र०, पृ० ५। ५ दे० 'पट्ट'।

पाटि^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाट] सिंहासन। राजासन। उ०—उदै करण राजा आवैर पाठि बैठा।—शिखर०, पृ० १।

पाटिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ एक दिन की मजदूरी। २ एक पौधा। ३ छाल या छिलका।

पाटिस—वि० [सं०] काठा हुआ। विदारित।

पाटी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ परिपाटी। अनुक्रम। रीति। उ०—सीध छतीसी सभिले छाकै बस छतीस। बाँकि पाटी धीर रस, बरणी बिसवा बीस।—बाँकी० प्र०, भा० १, पृ० १८। २ गणनादि का क्रम। जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि का क्रम।

यौ०—पाटीगणित।

३ श्रेणी। अवलि। पक्ति। पाँत। ४. बला नामक क्षुप। खरंटी।

पाटी^२—हिं० [सं० पाट, पाटी] १ लकड़ी की वह प्राय लंबोत्तरी पट्टी जिसपर विचारम करनेवाले छात्र गुरु से पाठ लेते वा लिखने का अभ्यास करते हैं। तस्ती। पटिया। २-पाठ। सबक।

मुहा०—पाटी पढ़ना = पाठ पढ़ना। सबक लेना। शिक्षा पाना। उ०—तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो लला मन लेत हो वेत छुर्बाक नहीं।—घनानंद (शब्द०)। पाटी पढ़ाना = पाठ पढ़ाना। शिक्षा देना। कोई बात सिखा देना।

३ माँग के दोनों ओर तेल, गोबर या जल की सहायता से कथा

द्वारा बैठाए हुए बाल, जो देखने में बराबर मासूम हों।
पट्टी पटिया। उ०—मुंडली पाटी पारन चाहे नकटी पहिरे
वेसर।—सूर (शब्द०)।

क्रि० प्र०—पारना।—बैठाना।

४ लकड़ी का वह गोला, चिपटा या चौकोर पतला बल्ला जो
खाट की लवाई के बल में दोनों ओर रहता है। चारपाई
के ढाँचे में लवाई की ओर की पट्टी। चारपाई के ढाँचे
का पार्श्वभाग। उ०—जागत जाति राति सब काटी। लेत
करोट सेज की पाटी।—शकुतला, पृ० १०८।

५ चटाई।

यौ०—शीतलपाटी।

६ शिला। चट्टान। ७. मछलियाँ पकड़ने के लिये बहते पानी
को मिट्टी के बाँध या वृक्षों को टहनियों आदि से रोक्कर
एक पतले मार्ग से निकालने और वहाँ पहरा विछाने
की क्रिया।

क्रि० प्र० - विछाना।—लगाना।

८ खपरैल की नरिया का प्रत्येक भाग। ९ जती।

पाटीर—सज्ञा पुं० [सं०] १ एक प्रकार का चदन। उ०—मटवर
श्याम किसोर तन चरचित नव पाटीर।—घनानंद, पृ० २७१।
२ मेघ। बादल (को०)। ३ क्षेत्र। मैदान (को०)। ४ टीन
(को०)। ५ छनना। छलनी। चलनी। (को०)। ६ एक
तीक्ष्ण मूलक या मूली (को०)। ७ वेणुसार। घसलोचन
(को०)। ८ नजला। सुकाम (को०)। ९ वह व्यक्ति जो
किसी बात को छिपा न सके। पेट का हलका (को०)।

पाट्टनी—सज्ञा सं० [देश०] वह मल्लाह जो किसी घाट का ठेकेदार
हो। घटवार।

पाठ्य—संज्ञा पुं० [सं०] पठसन।

पाठ^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ पढ़ने की क्रिया या भाव। पढ़ाई। २
किसी पुस्तक विशेषतः धर्मपुस्तक को नियमपूर्वक पढ़ने की
क्रिया या भाव। जैसे, वेदपाठ, स्तोत्रपाठ। ३ यज्ञयज्ञ।
वेदाध्ययन। वेदपाठ।

यौ०—पाठदोष। पाठप्रणाली।

३. जो कुछ पढ़ा या पढ़ाया जाय। पढ़ने या पढ़ाने का विषय।
४ उक्त विषय का उतना अंग जो एक दिन में या एक बार
पढ़ा जाय। सबक। सथा।

क्रि० प्र०—देना।—पढ़ना।—पाना।

मुहा०—पाठ पढ़ना = कुछ सीखना, विशेषतः कोई बुरी बात।
जैसे,—आजकल ये जुए का पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ पढ़ाना =
अपने मतलब के लिये किसी को बहकाना। पट्टी पढ़ाना।
उल्टा पाठ पढ़ाना = कुछ का कुछ समझा देना। असलियत
के विरुद्ध विश्वास करा देना। बहका देना।

५ पुस्तक का एक अक्ष। परिच्छेद। अध्याय। ६ शब्दों या
वाक्यों का क्रम या योजना। जैसे,—अमुक पुस्तक में इस दोहे
का यह पाठ है।

यौ०—पाठभेद। पाठांतर।

पाठा^२—सज्ञा स्त्री० [हिं० पट्टा] जवान गाय, भैंस या बकरी।

पाठक—सज्ञा पुं० [सं०] १ जो पढ़े। पढ़नेवाला। वाचक। २
जो पढ़ावे। पढ़ानेवाला। अध्यापक। ३ धर्मोपदेशक। ४
गौड, सारस्वत, सरयूपारीण, गुजराती आदि ब्राह्मणों का एक
उपवर्ग। ५ गुप्तकाल में प्रचलित एक बड़े माप का नाम जो
कुल्यावाप से पंचगुना होता था। उ०—पिछले गुप्तकाल में
एक बड़े माप का नाम मिलता है जिसे पाठक कहते थे।—
पू० म० भा०, पृ० १२३।

पाठच्छेद—सज्ञा पुं० [सं०] पाठ के बीच में होनेवाला विराम।
यति (को०)।

पाठदोष—सज्ञा पुं० [सं०] पढ़ने का ढंग या पढ़ने के समय की
वह चेष्टा जो निश्च और बजित है। जैसे, विकृत या बठोर
स्वर से पढ़ना, अव्यक्त, अस्पष्ट, सानुनासिक या बहुत
ठहर ठहरकर उच्चारण करना, गाकर पढ़ना, सिर आदि
अंगों को हिलाना। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में ऐसे दोषों की
सख्या अट्टारह मानी गई है।

पाठन—सज्ञा पुं० [सं०] पढ़ाने की क्रिया या भाव। शिक्षण।
पढ़ाना। अध्यापन।

यौ०—पाठनशैली = पढ़ाने की शैली या ढंग। पढ़ाने की पद्धति।

पाठना^३—सज्ञा स्त्री० [सं० पाठन] पढ़ाना।

पाठनिश्चय—सज्ञा पुं० [सं०] पाठ की शुद्धता का निर्णय करना।
शुद्ध पाठ निश्चित करना (को०)।

पाठपद्धति—सज्ञा स्त्री० [सं०] पढ़ने की रीति या ढंग।

पाठप्रणाली—सज्ञा स्त्री० [सं०] पढ़ने की रीति या ढंग।

पाठभू—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ वह जगह जहाँ वेदादि का पाठ किया
जाय। २ प्रहाराण्य।

पाठभेद—सज्ञा पुं० [सं०] वह शेष या अंतर जो एक ही ग्रंथ की
दो प्रतियों के पाठ में कहीं कहीं हो। पाठांतर।

पाठमंजरो—सज्ञा स्त्री० [सं० पाठमंजरी] एक प्रकार की मैना।

पाठशाला—सज्ञा स्त्री० [सं०] वह स्थान जहाँ पढ़ाया जाय।
मدرसा। स्कूल। विद्यालय। चटसाल।

पाठशालिनी—सज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार की मैना। शारिका।

पाठशाली—सज्ञा पुं० [सं० पाठशालिन्] छात्र। विद्यार्थी (को०)।

पाठशालीय—वि० [सं०] पाठशाला से संबंध रखनेवाला। पाठ-
शाला का।

पाठांतर—सज्ञा पुं० [सं० पाठान्तर] १ एक ही पुस्तक की दो
प्रतियों के लेख में किसी विशेष स्थल पर भिन्न शब्द, वाक्य
अथवा क्रम। भिन्न भिन्न स्थलों में लिखे हुए एक ही वाक्य के
कुछ शब्दों या एक ही शब्द के कुछ अक्षरों का बदल बदल।
अन्य पाठ। दूसरा पाठ। पाठभेद। जैसे,—अमुक दोहे के
कई पाठांतर मिलते हैं। २. पाठांतर होने का भाव। पाठ
का भेद। पाठभिन्नता।

पाठा^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक लता । पाठ । पाड़ा ।

विशेष—इसके पत्ते कुछ नोकदार गोल, फूल छोटे सफेद और फल मकोय के से होते हैं। फलो का रंग लाल होता है। यह दो प्रकार की होती है—छोटी और बड़ी। गुण दोनों के समान हैं। वैद्यक में यह कड़वी, चरपरी, गरम, तीखी, हलकी, टूटी हड्डियों को जोड़नेवाली, पित्त, दाह, शूल, अतिसार, वातपित्त, ज्वर, वमन, विष, अजीर्ण, त्रिदोष, हृदयरोग, रक्तकुष्ठ, कंठ, श्वास, कृमि, गुल्म, उदररोग, ब्रण और कफ तथा वात का नाश करनेवाली मानी गई है।

बहुधा लोग घाव पर इसकी टहनी को बाँधे रहते हैं। वे समझते हैं कि इसके रहने से घाव विगड या सड न सकेगा। इसकी सूखी जड़ मूत्राशय की जलन में लाभदायक होती है। पक्वाशय की पीडा में भी इसका व्यवहार किया जाता है। जहाँ साँप ने काटा या विच्छिन्न ने डंक मारा हो वहाँ भी ऊपर से इसके बाँधने से लाभ होता है।

पर्याय—पाठिका । अश्रुणा । अश्रुणिका । यूथिका । स्थापनी । विद्धकरिणिका । दीपनी । वनतिक्तिका । तिक्तपुष्पा । वृहत्ति-क्ता । माखती । वरा । प्रतानिनी । रक्तधना । विपहत्री । महौजसी । वीरा । वदिलका ।

पाठा^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुष्ट, हिं० पट्टा] [स्त्री० पाठी] १ वह जो ज्वान और परिपुष्ट हो । हृष्टपुष्ट । मोटा तगडा । जैसे, साठा तब पाठा । २ ज्वान बैल, भैंसा या बकरा ।

पाठान^३—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पठान' । उ०—सुनत खबर लज्जे पाठानह ।—प० रासो, पृ० १०५ ।

पाठालय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पाठशाला ।

पाठिक—वि० [सं०] मूल पाठ के समान । मूल पाठ से मिलता जुलता हुआ [को०] ।

पाठिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. पढ़नेवाली । २ पढ़ानेवाली । ३ पाठा । पाढ़ या पाड़ा लता ।

पाठिकुट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चीते का वृक्ष । चित्रक वृक्ष [को०] ।

पाठित—वि० [सं०] पढाया हुआ । सिखाया हुआ ।

पाठी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाठित्] १ पाठ करनेवाला । पाठक । पढ़नेवाला । उ०—ना मैं पाठी ना परधाना । ना ठाकुर चाकर तेहि जाना ।—कवीर म०, पृ० ५०१ । २ वह ब्राह्मण जो अपना अध्ययन समाप्त कर चुका हो (को०) ।

यौ०—वेदपाठी । श्रिपाठी ।

२ चीता । चित्रक वृक्ष ।

पाठीकुट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चीते का पेड़ ।

पाठीन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पहिना या पढिना नाम की मछली । उ०—मीन पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार कहारन्ह भाने ।—मानस, २।१६३ । २ गूगल का पेड़ । ३ कथा-वाचक । पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का वक्ता (को०) ।

पाठ्य—वि० [सं०] १. जो पढ़ने योग्य हो । पठनीय । पठितव्य । २. जो पढ़ाया जाय ।

यौ०—पाठ्यक्रम = पढ़ाने या अध्ययन के लिये निर्धारित पाठ । पाठ्यपुस्तक = पढ़ाने के लिये निर्धारित पुस्तक ।

पाड़—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पाट] १ धोती, साडी आदि का किनारा । २ मचान । पायठ । ३ लकड़ी की जाली या ठठरी जो कुएँ के मुँह पर रखी रहती है । कटकर । चह । ४ बाँध । पुषता । ५ वह तस्ता जिसपर खडा करके फाँसी दी जाती है । तिकठी । ६ दो दीवारों के बीच पटिया देकर या पाटकर बनाया हुआ भाधारस्थान । पाटा । दासा ।

पाड़इ—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पाटल] पाटल नामक वृक्ष । उ०—जहाँ निवारी सेवती मिलि भूमक हो । बहु पाड़इ विपुल गभीर मिलि भूमक हो ।—सूर (शब्द०) ।

पाड़ना^१—क्रि० सं० [सं० उरपाटन] उखाडना । उपाटना । उ०—वो तोता जो पिंजर में ते भार काड । निकाली जो थी उसके शाह पर वो पाह ।—दक्खिनी०, पृ० ८६ ।

पाडर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाटल] दे० 'पाटल' । उ०—कहूँ पाडर डार बैठे परेवा ।—प० रासो, पृ० ५५ ।

पाडल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाटल] दे० 'पाटल' ।

पाडलीपुर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाटलिपुत्र] दे० 'पाटलीपुत्र' ।

पाडसाली—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] दक्षिण भारत में रहनेवाली जुलाहों की एक जाति ।

विशेष—वाघलकोट आदि स्थानों में इस जाति के जुलाहे पाए जाते हैं। लिंगायतों से इनमें बहुत कम अंतर है। ये भी गले में लिंग पहनते और सिर में भस्म रमाते हैं। ये मास, मद्य आदि का सेवन नहीं करते। ये एक गोत्र में विवाह नहीं करते ।

पाड़ा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पट्टन या सं० पट्ट, देशी पट्ट, बँ० पाड़ा] पुरवा । टोला । महल्ला ।

पाड़ा^२—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] १. एक सामुद्रिक मछली जो भारतीय महासागर में पाई जाती है। यह प्राय तीन फुट लंबी होती है। † [स्त्री० पाड़ी] २ भैंस का बच्चा । पढवा ।

पाड़िनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] मिट्टी का बरतन । हाँडी ।

पाड़ना^१—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] मद्य । बीच । उ०—जीवन दीसै रोगिया कहँ मूवा पीछै जाइ । दाहू दुँह के पाठ मे, ऐसी दारू लाइ ।—दाहू०, पृ० २५६ ।

पाड़^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाटा] १ पाटा । २ सुनारों का एक औजार जिससे नक्काशी करते हैं । ३ वह पीडा या पाटा जिसपर बैठकर सुनार, लुहार आदि काम करते हैं । ४ लकड़ी की वह छोटी सीढी जिसके डबे कुछ ढालू होते हैं । ५ वह मचान जिसपर फसल की रखवाली के लिये खेतवाला बैठता है । ६ कुएँ के मुँह पर रखी हुई लकड़ी की चह । पाड । ७ धोती का किनारा । पाड ।

पाड़त^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पढ़ना] १. जो कुछ पढा जाय । जिसका पाठ किया जाय । २ मंत्र । जादू । पढ़त । उ०—आई

कुमोदिनि चित्तोर चढ़ी । जोहन मोहन पाठत पढ़ी ।—जायसी (शब्द०) । ३ पढ़ने की क्रिया या भाव ।

पाठर^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पाटल] पाठर का पेड़ ।

पाठर^२—वि० [सं० पाठ, हि० पाढ़-पाढ़ + र (प्रत्य०)] किनारी-दार (साड़ी, दुपट्टा आदि) ।

पाठल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाटल] दे० 'पाटल' ।

पादा^१—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का हिरन । इसकी खाल पर सफेद चित्तियाँ होती हैं । चित्रमृग ।

पादा^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पाठा] दे० 'पाठा' ।

पादी—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] १ सूत की एक लच्छी । २ वह नाव जो यात्रियों को पार पहुँचाने के लिये नियत हो ।

पाण^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ व्यापार । तिजारत । खरीद विक्री । २ दाँव । बाजी । ३ हाथ । कर । ४ प्रशसा । ५. व्यवसायी । तिजारती (को०) । ६ करार । प्रतिज्ञा (को०) । ७ छूत । जुआ (को०) ।

पाणग^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पानक] नशीला शर्वत । पीने की वस्तु । मदिरा । दे० 'पानक' उ०—अणुपीयड पाणग ज्यू नयणे छाक चढत ।—ढोला०, ढू० ५३४ ।

पाणही^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० उपानह] दे० 'पानही' । उ०—हूँ बराकी धरि मो कियउ रोस । पाँव की पाणही सु कियउ रोस ।—वी० रासो, पु० ३३ ।

पाणिधम—वि० [सं० पाणिन्धम] १ हाथों को हिलाता हुआ । २ थपोड़ी बजानेवाला [को०] ।

पाणिधय—वि० [सं० पाणिन्धय] हाथ से पीनेवाला [को०] ।

पाणि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ हाथ । कर ।
यौ०—पाणिग्रह । पाणिग्राहक ।
२ धुर । खुर (को०) । ३ बाजार । हाट (को०) । ४ एक कँटीला पोषा । कुटिल वृक्ष (को०) ।

पाणिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ जो खरीदा जा सके । सौदा । २ हाथ । ३ कार्तिकेय का एक गण । ४ तिजारती । व्यापारी (को०) । ५ छूत में प्राप्त वस्तु (को०) ।

पाणिकच्छपिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कूर्ममुद्रा ।

पाणिकर्ण—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] शिव ।

पाणिकर्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाणिकर्मन्] १ शिव । २ हाथ से बाजा बजानेवाला ।

पाणिका—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ एक प्रकार का गीत या छंद । २ चम्मच के आकार का एक पात्र ।

पाणिकुर्चा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कार्तिकेय का एक गण ।

पाणिस्रात—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक तीर्थ स्थान ।

पाणिगृहीत—वि० [सं०] १ विवाहित । २ तैयार । उपस्थित [को०] ।

पाणिगृहीता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पत्नी ।

पाणिगृहीती—वि० स्त्री० [सं०] जिसका, व्याह में पाणिग्रहण किया गया हो । धर्मशास्त्रानुसार व्याही हुई ।

पाणिग्रह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विवाह ।

पाणिग्रहण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. विवाह की एक रीति जिसमें कन्या का पिता उसका हाथ वर के हाथ में देता है । विशेष—३० 'विवाह' । २ विवाह । व्याह ।

पाणिग्रहणिक—वि० [सं०] १ विवाह सबधी । २ विवाह में दिया जानेवाला (उपहार) । ३ विवाह में पढा जानेवाला (मंत्र) ।

विशेष—ग्राश्वलायन गृह्यसूत्र के 'अय्यमन नु देव कन्या अग्नि मयाक्षत' से लगाकर १६ वें सूत्र तक के मंत्र 'पाणिग्रहणिक' कहाते हैं ।

पाणिग्रहणीय—वि० [सं०] १ विवाह सबधी । २ विवाह में दिया जानेवाला (उपहार) ।

पाणिग्रहीता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाणिग्रहीतृ] पति [को०] ।

पाणिग्राह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पति ।

पाणिग्राहक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पति । भर्ता ।

पाणिघ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह जो हाथ से कोई बाजा बजावे । मृदग ढोल आदि बजानेवाला । २ हाथ से बजाए जानेवाले मृदग, ढोल आदि बाजे । ३ कारीगर । शिल्पी ।

पाणिघात—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ थप्पड़ । मुक्का । चपत । घूसा । २ मुक्केवाज । घूसेवाज (को०) । ३ घूसेबाजी । मुक्की (को०)

पाणिघ्न^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ शिल्पी । दस्तकार ।

पाणिघ्न^२—वि० ताली बजानेवाला [को०] ।

पाणिज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ उँगली । २ नख । नाखून । ३ नखी ।

पाणिसत्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ हथेली । २ वैद्यक में एक परिमाण, जो दो तोले के बराबर होता है ।

पाणिताल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सगीत में एक विशेष ताल ।

पाणिदाक्ष्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हस्तलाघव । हाथ की चालाकी [को०] ।

पाणिधर्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विवाह संस्कार ।

पाणिन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाणिनि] दे० 'पाणिनि' ।

पाणिनि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रसिद्ध मुनि जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की रचना की ।

पेशावर के समीपवर्ती शालातुर (सलात्) नामक ग्राम इनका जन्मस्थान माना जाता है । इनकी माता का नाम दाक्षी और दादा का देवल था । माता के नाम पर इन्हें 'दाक्षीपुत्र' या 'दाक्षेय' तथा ग्राम के नाम पर 'शालातुरीय' कहते हैं । आहिक, प्राणिन, शालंकी आदि इनके और भी कई नाम हैं । इनके समय के विषय में पुरातत्वज्ञों में मतभेद है । भिन्न भिन्न विद्वानों ने इन्हें ईसा के पाँच सौ, चार सौ और तीन सौ वर्ष पहले का माना है । किसी किसी के मत से ये ईसा की दूसरी शताब्दी में विद्यमान थे । अधिकतर लोगों ने ईसा के पूर्व चौथी शताब्दी को ही आपका समय माना है । प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ और विद्वान् डा० सर रामकृष्ण भांडारकर भी इसी मत के पीषक हैं । पाणिनि के पहले शाक्य,

वाचस्पत्य, गालव, शाकटायन आदि आचार्यों ने संस्कृत व्याकरणों की रचना की थी, पर उनके व्याकरण सर्वांगसुन्दर तो क्या पूर्ण भी न थे। इन्होंने बड़े परिश्रम से सब प्रकार के वैदिक और अपने समय तक प्रचलित सब शब्दों को इकट्ठा कर उनकी व्युत्पत्ति तथा रूप आदि के व्यापक नियम बनाए। इनकी अष्टाध्यायी' इतनी उत्तम और सर्वांगसुन्दर बनी कि आज प्रायः ढाई हजार वर्षों से व्याकरण विषय पर संस्कृत में जो कुछ लिखा गया प्रायः उसी के भाष्य, टीका या व्याख्यान के रूप में लिखा गया, एकाध को छोड़कर किसी व्याकरण को नया ग्रन्थ बनाने की आवश्यकता नहीं जान पड़ी। अष्टाध्यायी इनके प्रकाश शब्द-शास्त्र-ज्ञान और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। संस्कृत ऐसी भाषा के व्याकरण को जितने संक्षेप में इन्होंने निबटाया है उसे देखकर शब्दशास्त्रज्ञों को दाँतो उँगली दवानी पड़ती है। अष्टाध्यायी के अतिरिक्त 'शिक्षासूत्र', 'गणपाठ', 'घातुपाठ' और 'लिगानुशासन' नामक पुस्तकों की भी इन्होंने रचना की है। राजशेखर आदि कई कवियों ने 'जाववतीविजय' नामक पाणिनि के एक काव्य का भी उल्लेख किया है जिससे उद्धृत श्लोक इधर उधर मिलते हैं।

हैनसांग ने इनकी व्याकरणरचना के विषय में लिखा है कि प्राचीन काल में विविध ऋषियों के आश्रमों में विविध वर्ण-मालाएँ प्रचलित थीं। ज्यो ज्यो लोगों की आयुमर्यादा घटती गई त्यों त्यों उनके समझने और याद रखने में कठिनाई होने लगी। पाणिनि को भी इसी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसपर उन्होंने एक सुश्रुत खलित और सुव्यवस्थित शब्दशास्त्र बनाने का निश्चय किया। शब्दविद्या की प्राप्ति के लिये उन्होंने शंकर का आराधन किया जिसपर उन्होंने प्रकट होकर यह विद्या उन्हें प्रदान की। घर आकर पाणिनि ने भगवान् शंकर से पढ़ी हुई विद्या को पुस्तक रूप में निबद्ध किया। तत्कालीन राजा ने उनके ग्रन्थ का बड़ा आदर किया। राज्य की समस्त पाठशालाओं में उसके पठन-पाठन की आज्ञा की और घोषणा की कि जो कोई उसे आदि से अत तक पढ़ेगा उसे एक सहस्र स्वर्णमुद्राएँ इनाम दी जायेंगी। इनके विषय में एक कथा यह भी प्रसिद्ध है कि एक बार ये जंगल में बैठे हुए अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। इतने में एक जंगली हाथी आकर इनके और शिष्यों के बीच से होकर निकल गया। कहते हैं, यदि गुरु और शिष्य के बीच में से जंगली हाथी निकल जाय तो बारह वर्ष का अनध्याय हो जाता है—१२ वर्ष तक गुरु को अपने शिष्यों को न पढ़ाना चाहिए। इसी कारण इन्होंने बारह वर्ष के लिये शिष्यों को पढ़ाना छोड़ दिया और इसी बीच में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना कर डाली।

पाणिनीय—वि० [सं०] १ पाणिनिकृत (ग्रन्थ आदि)। २. पाणिनि-प्रोक्त। पाणिनि का कहा हुआ। पाणिनि द्वारा उपदिष्ट (व्याकरण)। ३ पाणिनि में भक्ति रखनेवाला। पाणिनि-भक्त। पाणिनि का ग्रन्थ पढ़नेवाला।

पाणिनीय दर्शन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण। पाणिनीय व्याकरण के ग्रन्थों में प्रतिपादित व्याकरण दर्शन।

विशेष—'सर्वदर्शनसंग्रह' कार ने पाणिनीय व्याकरण दर्शन को भी भारत के प्राचीन दर्शनों में स्थान दिया है। इस दर्शन के मत से स्फोटात्मक निरवयव नित्य शब्द ही जगत् का आदि कारण रूप परब्रह्म है। अनादि अनत अक्षर रूप शब्द ब्रह्म से जगत् की सारी प्रक्रियाएँ अर्थ रूप में प्रवर्तित होती हैं। इस दर्शन ने शब्द के दो भेद माने हैं। नित्य और अनित्य। नित्य शब्द स्फोट मात्र ही है, सपूर्ण वर्णात्मक उच्चरित शब्द अनित्य हैं। अर्थबोधन सामर्थ्य केवल स्फोट में है। वर्ण उस (स्फोट) की अभिव्यक्ति मात्र के साधन हैं। अग्नि शब्द में अकार, गकार, नकार और इकार ये चारो वर्ण मिलकर अग्नि नामक पदार्थ का बोध कराते हैं। अब यदि चारों ही में अग्निवाचकता मानी जाय तो एक ही वर्ण के उच्चारण से सुननेवाले को अग्नि का ज्ञान हो जाना चाहिए था, दूसरे वर्ण तक के उच्चारण की आवश्यकता न होनी चाहिए थी। पर ऐसा नहीं होता। चारो वर्णों के एकत्र होने से ही उनमें अग्निवाचकता आती हो तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि पर वर्ण के उत्पत्तिकाल में पूर्व वर्ण का नाश हो जाता है। उनका एकत्र अवस्थान संभव ही नहीं। अतः मानना पड़ेगा कि उनके उच्चारण से जिस स्फोट की अभिव्यक्ति होती है वस्तुतः वही अग्नि का बोधक है। एक वर्ण के उच्चारण से भी यह अभिव्यक्ति होती है, पर यथेष्ट पुष्टि नहीं होती। इसी लिये चारों का उच्चारण करना पड़ता है। जिस प्रकार नीले, पीले, लाल आदि रंगों का प्रतिबिम्ब पढ़ने से एक ही स्फटिक मणि में समय समय पर अनेक रंग उत्पन्न होते रहते हैं उसी प्रकार एक ही स्फोट भिन्न भिन्न वर्णों द्वारा अभिव्यक्त होकर भिन्न भिन्न अर्थों का बोध कराता है। इस स्फोट को ही शब्दशास्त्रज्ञों ने सच्चिदानन्द ब्रह्म माना है। अतः शब्द शास्त्र की आलोचना करते करते क्रमशः अविद्या का नाश होकर मुक्ति प्राप्त होती है। 'सर्वदर्शनसंग्रह' कार के मत से व्याकरण शास्त्र अर्थात् 'पाणिनीयदर्शन' सब विद्याओं से पवित्र, मुक्ति का द्वारस्वरूप और मोक्ष मार्गों में राजमार्ग है। सिद्धि के अभिलाषी को सबसे पहले इसी की उपासना करनी चाहिए।

पाणिपल्लव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ उँगलियाँ। २ करपल्लव। पल्लव-रूपी पाणि।

पाणिपीडन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाणिपीडन] १ पाणिग्रहण। विवाह। २ क्रोध, पश्चात्ताप आदि के कारण हाथ मलना।

पाणिपुट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पाणिपुटक'।

पाणिपुटक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अजलि। चुल्लू। करपुट [को०]।

पाणिप्रणयिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पत्नी। स्त्री।

पाणिप्रार्थी—वि० पुं० [सं० प्राणिप्रार्थिन्] विवाह करने को इच्छुक। उ०—और तुमको मालूम है उसके हर साल एक से एक

बड़ा-कामिनापीं तुडा लोग मेशान मे प्राते जाते हैं ।—
मुनीन्द्र, पृ० २६ ।

- पाणिप्रहर—पुं० [सं० पाणिप्रहर] पाणिप्रहरण । विवाह ।
 पाणिमुक्त—पुं० [सं० पाणिमुक्त] मूलर वृक्ष ।
 पाणिमुक्त—पुं० [सं० पाणिमुक्त] मूलर का पेठ ।
 पाणिमर्द—पुं० [सं०] करमर्द । करीदा ।
 पाणिमुक्ता—पुं० [सं०] मत्स्य । भाला [को०] ।
 पाणिमुक्ता—पुं० [सं०] राय से केंल जानेवाला (प्रस्य) [को०] ।
 पाणिमुक्ता—पुं० [सं० पाणिमुक्ता] १ पितृदेव । पितर [को०] ।
 पाणिमुक्ता—पुं० [सं०] जा राय से भोजन करने [को०] ।
 पाणिमूल—पुं० [सं०] कलाई ।
 पाणिमूह—पुं० [सं०] १ चंगली । २ नज । नाखून ।
 पाणिरेखा—पुं० [सं०] हथेली पर की लकीरें । हस्तरखा ।
 पाणिपाद—पुं० [सं०] १ मृदग, डोल आदि बजानेवाला । २
 मृदा दान आदि बाजे । ३ ताली बजाना । ४ ताली बजाने-
 जाना ।
 पाणिपाद—पुं० [सं०] १ मृदग आदि बजानेवाला । २ ताली
 बजानेजाना ।
 पाणिसर्गा—पुं० [सं०] रजुरी । रस्सी [को०] ।
 पाणिसर्विक—पुं० [सं०] वह जो हाथों से बाध बजाता हो [को०]
 पाणिसूता—पुं० [सं०] ललितविस्तर के अनुसार एक छोटा
 जानाव जिसे देवताओं ने बुद्ध भगवान् के लिये तैयार किया
 था । बहुत हैं, देवताओं ने एक बार हाथ से पुष्पी को
 ओर दिया जिससे वहाँ एक पुष्परिणी निकल आई ।
 पाणिसोम—पुं० [सं०] एक विशेष होम जो अधिकारी ब्राह्मण
 के हाथ से किया जाता है ।
 पाणी^१—पुं० [सं० पाणि] दे० 'पाणि' ।
 पाणी^२—पुं० [सं० पाणी] जल । पानी । उ०—भीतर मेला
 बाहरी पात पाणी प्यथ पपाले धोया ।—दक्षिणी०,
 पृ० ३४ ।
 पाणितक—पुं० [सं०] तातिकेय ता एक गण ।
 पाणीशरणा—पुं० [सं०] विवाह । पाणिप्रहरण ।
 पाण्य—पुं० [सं०] १ पाणि सबधी । हाथ सबधी । २ प्रससनीय ।
 सदाई से योग्य [को०] ।
 पाण्यम—पुं० [सं०] राय से जानेजाने (पितर) [को०] ।
 पातंग—पुं० [सं० पातङ्ग] १. भूरा । २ पतंग संबंधी [को०] ।
 पातंगि—पुं० [सं० पातङ्गि] पतंग पर्यान् सूर्य के पुत्र—१
 नीररा । २ वन । ३ मुदीव । ४ परां [को०] ।
 पातजल^१—पुं० [सं० पातजल] पतजलि रचित (प्रय) । पत-
 जलि का बनाव हुषा (योगसूत्र या व्याकरण महानाभ्य) ।
 गौ०—पातजलवृत्ता । पातजलनाभ्य । पातजलसूत्र ।
 पातजल^२—पुं० [सं०] पतजलिहृत योगसूत्र । २. पतजलिप्रणीत

- महाभाष्य । ३. पातजल योगसूत्र के अनुसार योगसाधन
 करनेवाले ।
 पातजलदर्शन—पुं० [सं० पातजलदर्शन] योगदर्शन ।
 पातजलभाष्य—पुं० [सं० पातजलभाष्य] महाभाष्य नामक
 प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ ।
 पातजलसूत्र—पुं० [सं० पातजलसूत्र] योगसूत्र ।
 पातजलिशास्त्र—पुं० [सं० पातजलिशास्त्र] पतजलि का
 बनाया हुआ योगशास्त्र । योगदर्शन । उ०—वैशेषिक शास्त्र
 पुनि, कालवादी है प्रसिद्ध, पातजलिशास्त्र माहि, योगवादा
 लहो है ।—सतवाणी०, भा० २, पृ० ११६ ।
 पातजलीय—पुं० [सं० पातजलीय] दे० 'पातजल' ।
 पात^१—पुं० [सं०] रक्षित । प्रात [को०] ।
 पात^२—पुं० [सं०] १ गिरने की क्रिया या भाव । पतन । जैसे,
 प्रथ पात ।
 यौ०—प्रपात ।
 २ गिराने की क्रिया या भाव । जैसे, अश्रुपात, रक्तपात । ३.
 टूटकर गिरने की क्रिया या भाव । झडने की क्रिया या भाव ।
 जैसे, उल्कापात, द्रुमपात । ४ नाश । ब्रह्म । मृत्यु ।
 जैसे, देहपात । ५ पड़ना । जा लगना । जैसे, दृष्टिपात,
 भूमिपात । ६ खगोल में वह स्थान जहाँ नक्षत्रों की कक्षाएँ
 अतिवृत्त को काटकर ऊपर चढ़ती या नीचे घाती हैं ।
 विशेष—यह स्थान बराबर बदलता रहता है और इसकी गति
 वक्र अर्थात् पूर्व से पश्चिम को है । इस स्थान का अधिक ठाटा
 देवता राहु है ।
 ७ राहु । ८ प्रहार । मार । आघात । जैसे, खड्गपात [को०] ।
 ९ उठने की क्रिया । उड़ान । उड़ना [को०] ।
 पात^३—पुं० [सं० पात, प्रा० पत्त] १ पत्ता । पत्र ।
 मुहा०—पातों आ लगना = पतझड़ होना या उसका
 समय घाना ।
 विशेष—उद्धू की पुरानी कविता में इस मुहावरे का प्रयोग
 मिलता है ।
 २ कान में पहनने का एक गहना । पत्ता । ३. वाशनी ।
 किवाम । पत्त ।
 पात^४—पुं० [सं० पात, प्रा० पात (=दान देने योग्य गुणों)]
 कवि । (वि०) । उ०—पात मुजस मसियात पपपे दातय
 मसमर वात दुर्वे ।—रघु० ६०, पृ० १६ ।
 पात^५—पुं० [सं० पात्र] दे० 'पातुर' । उ०—राव आभ्या की
 नाभली वात । नाचउ रूप मनोहर पात । गढ माहीं गुडी
 उछली । धरि धरि तोरण मगतचार ।—वी० रासो, पृ० ६१ ।
 पातक^१—पुं० [सं०] १ वह कर्म जिसके करने से नरक जाना
 पड़े । कर्ता को नीचे ठकेलनेवाला कर्म । पाप । किल्बिष ।
 कल्मष । प्रथ । गुनाह । बदकारी । निषिद्ध या नीच कर्म ।
 उ०—जे पातक उपपातक ग्रहही । करम थचन मन भव
 कवि महीं ।—मानस, २।१६७ ।

विशेष—‘प्रायश्चित्त’ के मतानुसार पातक के ६ भेद हैं—(१) अतिपातक। (२) महापातक। (३) अनुपातक। (४) उपपातक। (५) सकरीकरण। (६) अपात्रीकरण। (७) जातिप्रशंकर। (८) मलावह और (९) प्रकीर्णक। मनु ने ५ महापातक गिनाए हैं—(१) ब्रह्महत्या। (२) सुरापान। (३) स्तेय। (४) गुह्यतल्पगमन और (५) इस प्रकार के पापियों का संपर्क।

पातक^२—वि० नीचे गिरानेवाला [को०]।

पातकी—वि० [सं० पातकिन्] पातक करनेवाला। पापी। कृकर्मो। बदकार। अघर्मी। उ०—(क) मो समान को पातकी बादि कहीं कछु तोहि।—मानस, २। १६२। (ख) क्यो चाहति तू पदभिनी करन पातकी मोहि।—शकुंतला, पृ० ६३।

पातखा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पातक] दे० ‘पातक’। उ०—कहे दरिया अघ पातख पर्वल भक्ति विन सभ रोगा।—सं० दरिया पृ० ६६।

पातग^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पातक] पाप। पातक। उ०—कनक कति द्रुति अग की निरपि सु पातग जात। परमानद प्रदायिनी, पार करन जग मात।—पृ० रा०, ३। ६।

पातघावरा—वि० [हि० पात + घबराना] वह मनुष्य जो पत्ते के खड़कने पर भी घबहा जाय। बहुत अधिक डरपोक।

पातन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ गिराने की क्रिया। नीचे ढकेलने की क्रिया। २ फेंकना या छालना (को०)। ३ झुकाना। नवाना (को०)। ४ पारे के आठ संस्कारों में छे पाँचवाँ संस्कार। इसके तीन भेद हैं—ऊर्ध्वपातन, अघ.पातन और तिर्यक्पातन। विशेष—दे० ‘पारा’।

पातन^२—वि० नीचे ढकेलनेवाला। गिरानेवाला [को०]।

पातनिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पात्रता। योग्यता। अनुकूलता [को०]।

पातनीय—वि० [सं०] १. पात के योग्य। गिराने लायक। २. प्रहार के योग्य। प्रहार करने लायक। प्रहरीय [को०]।

पातवदी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पात (= पटना) + फा० वंदी] वह मकशा जिसमें किसी जायदाद की बंदाजन मालियत और उसपर जितना देना या कर्ज हो वह लिखा रहता है।

पातयिषा—वि० [सं० पातयिषु] १ नीचे गिरानेवाला। गिरानेवाला। २. फेंकनेवाला [को०]।

पातर^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पत्र] १ पत्तल। पनवारा। उ०—विनती राय प्रवीन की सुनिए शाह सुजान। झूठी पातर भखत है वारी वायस स्वान।—राय प्रवीन (शब्द०)।

पातर^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पातली (= स्त्री विशेष) या सं० पावर] वेश्या। रही। पतुरिया।

पातर^३—वि० [हि० पतर, या सं० पात्रट (= पतला)] १ पतला। सूक्ष्म। २ क्षीण। वारीक। ३ निम्न। ह्येय। क्षुद्र।

पातर^४—सञ्ज्ञा स्त्री० तितला।

पातर^५—वि० [हि० पतला] [स्त्री० पातरी] जिसका शरीर दुर्बल हो। पतला। उ०—अग अग छवि की लपट उपटवि

जाति अछेह। खरी पातरीक तक लगे मरी सी देह।—विहारी (शब्द०)।

पातराज—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का सर्प।

पातरि^१—सञ्ज्ञा स्त्री० वि० [हि०] दे० ‘पातर’।

पातरि^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पत्र, हिं० पातर] भगवान् का प्रसाद, जो पत्तलो में भक्तों को बाँटा जाता है। पातर। पत्तल। उ०—(क) उन वैष्णवन की पातरि करी।—दो सौ बावन०, भा० १, पृ० ७६। (ख) जो कोई वैष्णव आवतो ताको प्रथम महाप्रसाद की पातरि घरि के पाछे वे दोऊ स्त्री पुरुष महाप्रसाद लेते।—दो सौ बावन०, भा० २, पृ० ७७।

पातरी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पात्र, पातली] दे० ‘पातर’।

पातरी^२—वि० स्त्री० [हि० पातर] सूक्ष्म। क्षीण। तनु। उ०—लचकीली कटि अतिहि पातरी चालत भोका खाय।—भारतेंदु ग्रं०, भा० १, पृ० ८।

पातल—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० ‘पातर’।

पातव्य—वि० [सं०] १ रक्षा करने योग्य। २ पीने योग्य।

पातशाह—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पादशाह] दे० ‘पादशाह’।

पातशाही—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पादशाही] दे० ‘पादशाही’।

पातसा, पातसाह—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पादशाह] दे० ‘पादशाह’। उ०—(क) फते पातसा की भई बैनकारी।—ह० रासो, पृ० ६६। (ख) जो है दिल्ली तखतनसीन। पातसाह आलाउद्दीन।—हम्मीर०, पृ० १७।

पातस्याही—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पादशाह] दे० ‘पादशाह’। उ०—सब कहै राठ की पातस्याह। जस सवन सुनन की सदा चाह।—ह० रासो, पृ० २।

पाता^१—वि० [सं० पातु] १ रक्षा करनेवाला। २ पीनेवाला।

पाता^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पत्र] पत्ता। पत्र।

पाताखस^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पात + आखत] दे० ‘पाताखत’। उ०—देवा सुमिरन पूजिबो पाताखत घोरे। दह जग जहै जगि संपदा सुख गज रथ घोरे।—तुलसी (शब्द०)।

पाताभा—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पाताबह] १ मोजा। २ चमड़े का वह लबा टुकड़ा जो ढीले जूते को घुस्त करने के लिये उसमें डाला जाता है। सुखतला।

पातार^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाताल] दे० ‘पाताल’। उ०—बरम्हा डरे चतुरमुख जासू। श्री पातार डरे वलि वासू।—जायसी ग्रं० (गुप्त), पृ० २६८।

पाताल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पुराणानुसार पृथ्वी के नीचे के सात लोकों में से सातवाँ। २. पृथ्वी से नीचे के लोक। अधोलोक। नागलोक। उपस्थान।

विशेष—पाताल सात माने गए हैं। पहला अतल, दूसरा वितल, तीसरा सुतल, चौथा तलातल, पाँचवाँ महातल, छठा रसातल और सातवाँ पाताल। पुराणों में लिखा है कि प्रत्येक पाताल की लंबाई चौड़ाई १०।१० हजार योजन है। सभी पाताल

घन, सुख और शोभा से परिपूर्ण हैं। इन विषयों में ये स्वर्गों से भी बढ़कर हैं। सूर्य और चंद्रमा यहाँ प्रकाश मात्र देते हैं, गरमी तथा सरदी नहीं देने पाते। पृथ्वी या भूलोक के बाद ही जो पाताल पडता है उसका नाम अतल है। यहाँ की भूमि का रंग काला है। यहाँ मय दानव का पुत्र 'वल' रहता है जिसने ९६ प्रकार की माया की सृष्टि कर रखी है। दूसरा पाताल चितल है। इसकी भूमि सफेद है। यहाँ भगवान् शकर पारंपदो और पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। उनके वीर्य से हाटकी नाम की नदी निकली है जिससे हाटक नाम का सोना निकलता है। दैत्यों की स्त्रियाँ इस सोने को वड़े यत्न से धारण करती हैं। तीसरा अघोलोक सुतल है। इसकी भूमि लाल है। यहाँ प्रह्लाद के पोत्र बलि राज करते हैं जिनके दरवाजे पर स्वयं भगवान् विष्णु आठ पहर चक्र लेकर पहरा देते हैं। यह अन्य पातालो से अधिक समृद्ध, सुखपूर्ण और श्रेष्ठ है। तलातल चौथा पाताल है। दानवेंद्र मय यहाँ का अधिपति है। इसकी भूमि पीले रंग की है। यह मायाविदो का आचार्य और विविध मायाओं में निपुण है। पाँचवाँ पाताल महातल कहाता है। यहाँ की मिट्टी खाँड मिली हुई है। यहाँ कद्रु के महाक्रोधी पुत्र सर्प निवास करते हैं जिनमें से सभी कई कई सिरवाले हैं। कुहक, तक्षक, सुपेन और कालिय इनमें प्रधान हैं। छठा पाताल रसातल है। इसकी भूमि पथरीली है। इनमें दैत्य, दानव और पाण्डि (पाण्डि) नाम के असुर इद्र के भय से निवास करते हैं। सातवाँ पाताल पाताल नाम से ही प्रसिद्ध है। यहाँ की भूमि स्वर्णमय है। यहाँ का अधिपति वासुकि नामक प्रसिद्ध सर्प है। शख, शखपूड, कूलिक, धनजय आदि कितने ही विशालकाय सर्प यहाँ निवास करते हैं। इसके नीचे तीस छहस योजन के अंतर पर अनंत या शेष भगवान् का स्थान है।

३ विवर । गुफा । विल । ४ बडवानल । ५ घालक के लग्न से चौथा स्थान । ६ छद शास्त्र में वह चद्र (चक्र) जिसके द्वारा मानिक छद की स्रुया, लघु, गुरु, कला आदि का ज्ञान होता है । ७ पातालयत्र । वि० दे० 'पातालयत्र' ।

पातालकेतु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पाताल में रहनेवाला एक दैत्य ।

पातालखंड—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पातालखण्ड] पाताल लोक ।

पातालगंगा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पातालगङ्गा] पाताल लोक की गंगा की० ।

पातालगरुड—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पातालगरुड] छिरिहटा । छिरेंटा ।

पातालगरुडी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पातालगरुडी] पातालगरुड । छिरेंटा ।

पाताल तुंवी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पातालतुम्बी] एक प्रकार की लता जो प्रायः खेतों में होती है। पातालतोवी ।

विशेष—इसमें पीले रंग के बिच्छू के डक के से काँटे होते हैं। वैद्यक में इसे चरपरी, कडवी, विषदोषविनाशक, तथा प्रसूतकालीन अतिसार, दाँतों की जड़ता और सूजन, पसीना तथा प्रलापवासे ज्वर को दूर करनेवाली माना है।

पर्या०—गर्तालांबु । भूर्तुंबी । देवी । बल्मीकसभवा । दिव्यतुंबी । नागतुंबी । शक्रचापसमुद्भवा ।

पातालतोवी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पातालतुम्बी] दे० पातालतुंबी ।

पातालनिलय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ दैत्य । सर्प ।

पातालनिवास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पातालनिलय' ।

पाताकानृपति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सीसा ।

पातालयत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पातालयन्त्र] १ वह यत्र जिसके द्वारा कडी औषधियाँ पिघलाई जाती हैं या उनका तेल बनाया जाता है ।

विशेष—इस यत्र में एक शीशी या मिट्टी का बरतन ऊपर और एक नीचे रहता है। दोनों के मुँह एक दूसरे से मिले रहते हैं और सधिस्थल पर कपडमिट्टी कर दी जाती है। ऊपर की शीशी या बरतन में औषधि रहती है और उसके मुँह पर कपडे की ऐसी ढाट लगा दी जाती है जिसमें बहुत से बारीक सूराख होते हैं। नीचे के पात्र के मुँह पर ढाट नहीं रहती। फिर नीचे के पात्र को एक गढे में रख देते हैं और उसके गले तक मिट्टी या वासु भर देते हैं। ऊपर के पात्र को सब ओर से कढों या उपलो से ढककर आग लगा देते हैं। इस गरमी से औषधि पिघलकर नीचे के पात्र में आ जाती है।

२ वह यत्र जिसमें ऊपर के पात्र में जल रहता है, नीचे के पात्र को आँच दी जाती है और बीच में रस की सिद्धि होती है।

पातालवासिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] नागवल्ली लता ।

पातालवासी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पातालवासिन्] दे० 'पातालौकस' ।

पाताली—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] ताड़ के फल के गूदे की बनाई हुई टिकिया जो प्रायः गरीब लोग सुखाकर खाने के काम में लाते हैं।

पातालौकस—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पातालौकस, पातालौका] १. वह जिसका घर पाताल में हो। २ शेषनाग । ३ बलि ।

पाताषतः—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पात + आखत] पत्र और अक्षत । पूजा की स्वल्प सामग्री । तुच्छ भेंट ।

पाति^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पत्र] १ पत्ती । पर्ण । दल । २ चिट्ठी । पत्रिका । पत्र ।

पाति^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रभु । मालिक । स्वामी । २ खाविद । पति । ३ पक्षी । चिड़िया (की०) ।

पातिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सूँस नामक जलजंतु ।

पातिक, पातिष्क—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पातक] दे० 'पातक' । उ०—(क) कब्रिजुग अति पातिक भये यह भावसिधु अपार । चतुरानन सुनि चतुर चित्त मम सिर भार उतार ।—प० रासो, पृ० ७ । (ख) करय दरस शिवनाथ के कटय कोट पातिष्क तह ।—प० रासो, पृ० १८१ ।

पातिग^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पातक] पाप । पातक ।

पातित—वि० [सं०] १ जो फेंका गया हो । फेंका हुआ । २ जो नीचे गिराया या ढकेला गया हो । ३ अवनत या नम्र किया हुआ (की०) ।

पातित्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पतित होने या गिराने का भाव । गिरावट । २. अध पतन । नीच या कुमार्गी होने का भाव ।

पातिस्त्री—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. विशेष वर्ग की स्त्री । २. जाल । पाश । फटा । ३. मिट्टी का पात्र [को०] ।

पातिव्रत—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पातिव्रत्य] दे० 'पातिव्रत्य' । उ०—भेट सकेगा कौन विश्व के पातिव्रत की लीक कहे।—साकेत । ३८६ ।

पातिव्रती—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पातिव्रत्य' [को०] ।

पातिव्रत्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रतिव्रता होने का भाव ।

पातिसाह्य—सञ्ज्ञा पुं० [फ्रा० पादशाह] नरेश । पादशाह । बादशाह । राजा । उ०—धनि छोड़िय नवजोध्वना धन छोड़ियो बहुत्त । पातिसाह उद्देशे चलु मन्नराज को पुत्त ।—कीर्ति०, पृ० २८ ।

पातिसाहि—सञ्ज्ञा पुं० [फ्रा० पादशाह] दे० 'पातिसाह' ।

पाती^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पत्रिका, प्रा० पत्तिश्रा, पत्तिश्र] १. चिट्ठी । पत्री । पत्र । उ०—तात कहीं ते पाती आई ?—तुलसी (शब्द०) । २. पत्ती । वृक्ष के पत्ते ।

पाती^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पति] लज्जा । इज्जत । प्रतिष्ठा । उ०—ह्याँ ऊषो काहे को आए कौन सी अटल परी । सुरदास प्रभु तुम्हरे मिलन विनु सब पाती उषरी ।—सूर (शब्द०) ।

पाती^३—वि० [सं० पातिन्] [वि० स्त्री० पातिनी] १. नीचे फेंकने या गिरानेवाला । २. पतनशील । गिरनेवाला [को०] ।

पातुक^१—वि० [सं०] १. पतनशील । गिरनेवाला । २. नरकगामी (को०) । ३. जातिच्युत । जाति से भ्रष्ट होनेवाला ।

पातुक^२—सञ्ज्ञा पुं० १. प्रपात । झरना । २. वह जो पतनशील हो । ३. जलहाथी ।

पातुरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पातली = (स्त्री विशेष)] वेश्या । रही । उ०—काछें सितासित काछनी केमव पातुर ज्यो पुतरीनि विचारौ ।—केशव ग्रं०, भा० १, पृ० ८१ ।

पातुरनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पातुर] दे० 'पातुर' ।

पातुरि—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पातुर] दे० 'पातुर' ।

पात्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पापियों का उद्धार करनेवाला । पापियों का त्राता ।

पात्य—वि० [सं०] १. पातनीय । गिराने योग्य । २. पतित होने का भाव । गिरावट । ३. प्रहार कर गिराने योग्य (को०) । ४. (द० आदि) लगाने योग्य (को०) ।

पात्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. वह वस्तु जिसमें कुछ रखा जा सके । आघार । बरतन । भाजन । २. वह व्यक्ति जो किसी विषय का अधिकारी हो, या जो किसी वस्तु को पाकर उसका उपभोग कर सकता हो । जैसे, दानपात्र, शिक्षापात्र आदि । उ०—स्ववलि देते हैं उसे जो पात्र ।—साकेत, पृ० १८५ । ३. नदी के दोनो किनारों के बीच का स्थान । पाट । ४. नाटक के नायक, नायिका आदि । ५. वे मनुष्य जो

नाटक खेलते हैं । अभिनेता । नट । ६. राजमंत्री । ७. वैद्यक में एक तोल जो चार सेर के बराबर होती है । आढक । ८. पत्ता । पत्र । ९. लूवा आदि यज्ञ के उपकरण । १०. जल पीने या खाने का बरतन । ११. आदेश । हुक्म । आज्ञा (को०) । १२. योग्यता । उपयुक्तता (को०) । १३. वह व्यक्ति जिसका कहानी, उपन्यास आदि के कथानक में वर्णन हो ।

पात्रक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. थाली, हाँडी आदि पात्र । २. छोटा बरतन । लघु पात्र । ३. वह पात्र जिसमें भीख माँगकर रखी जाय । भिखमगो का भीख माँगने का पात्र । भिक्षापात्र ।

पात्रट^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. फटा पुराना कपडा । फटा वस्त्र । २. पात्र । बरतन [को०] ।

पात्रट^२—वि० दुबला पतला । कृश [को०] ।

पात्रटीर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. रजत । चाँदी । २. लोहा, पीतल, काँसा या चाँदी का बरतन । ३. योग्य अमात्य । वक्ष मंत्री । ४. कीआ । ५. अग्नि । ६. मोरचा । जग । ७. कक पक्षी । ८. पिशाच । ९. नाक का मल । नेटा [को०] ।

पात्रतरंग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पात्रतरङ्ग] प्राचीन काल का ताल देने का एक प्रकार का वाजा ।

पात्रता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पात्र होने का भाव । अधिकार । योग्यता । लियाकत ।

पात्रत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पात्रता । पात्र होने का भाव ।

पात्रदुष्टरस—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] केशवदास के मत से एक प्रकार का रसदोष, जिसमें कवि जिस वस्तु को जैसा समझता है रचना में उसके विरुद्ध कर जाता है । एक ही वस्तु के विषय में ऐसी बातें कह जाना जो एक दूसरे के विरुद्ध या बेमेल हों । रचना में ऊटपटांग अधिचारयुक्त बातें कह जाना । उ०—कपट कृपानी मानी, प्रेमरस लपटानी, प्राननि को गगा जी को पानी सम जानिए । स्वारथ निधानी परमारथ की रजधानी, काम की कहानी केशोदास जग मानिए । सुवरन उरभानी, सुषा सो सुषार मानी सकल सयानी सानी ज्ञानी सुख दानिए । गौरा और गिरा लज्वानी मोहे पुनि मूढ प्रानी, ऐसी धानी मेरी रानी विपु के बखानिए ।—केशव (शब्द०) ।

पात्रनिर्णय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बरतन साफ करनेवाला ।

पात्रपाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पतवार । २. चप्पू । ३. तराजू का पस्त्रा या ढाँड़ी [को०] ।

पात्रभृत्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दास । नौकर [को०] ।

पात्रवर्ग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अभिनय करनेवाले लोग [को०] ।

पात्रमेल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नाटक आदि में अनेक पात्रों का किसी दृश्य में संयोजन [को०] ।

पात्रशुद्धि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] बरतनों की सफाई । पात्रों की शुद्धता [को०] ।

पात्रशेष—सज्ञा पुं० [सं०] रोटी के सूठे टुकड़े आदि जो भोजन के उपरांत थाली में बच रहे हों। खाकर छोटा हुआ अन्नादि। जूठा। उच्छिष्ट।

पात्रसंस्कार—सज्ञा पुं० [सं०] १ दे० 'पात्रशुद्धि'। २ नदी का वेग या प्रवाह [को०]।

पात्रासादन—सज्ञा पुं० [सं०] यज्ञपात्रों को यथास्थान रखना।

पात्रिक^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ पाव बरतन। २ छोटा पात्र [को०]।

पात्रिक^२—वि० १ उपयुक्त। योग्य। उचित। २ किसी पात्र से नापा हुआ। ३ तोला हुआ [को०]।

पात्रिका, पात्रिकी—सज्ञा स्त्री० [सं०] थाली कटोरा आदि पात्र [को०]।

पात्रिय—वि० [सं०] जिसके साथ एक थाली में भोजन किया जा सके। जिसके साथ एक ही बरतन में भोजन करना बुरा न ममझा जाय। सहभोजी।

पात्रो^१—वि० [सं० पात्रिन्] १ जिसके पास बरतन हो। पात्रवाला। २ जिसके पास सुयोग्य मनुष्य हो।

पात्रो^२—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ छोटे छोटे बरतन। २ एक छोटी भट्टी जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जा सकते हैं। ३ दुर्गा का नाम [को०]।

पात्रीण—वि० [सं०] पात्र द्वारा बोया या पकाया हुआ [को०]।

पात्रीय^१—सज्ञा पुं० [सं०] यज्ञ में काम आनेवाला एक बरतन।

पात्रीय^२—वि० पात्र संबंधी।

पात्रीर—सज्ञा पुं० [सं०] यज्ञीय वस्तु। यज्ञद्रव्य [को०]।

पात्रेवहुल—सज्ञा पुं० [सं०] वह व्यक्ति जो अन्य किसी कार्य में सहयोग न दे केवल खाने भर के लिये साथ दे। काम से जी चुरानेवाला मात्र भोजन का साथी [को०]।

पात्रेसमित—सज्ञा पुं० [सं०] १. ढोंगी व्यक्ति। कपटी। २ दे० 'पात्रेवहुल' [को०]।

पात्रोपकरण—सज्ञा पुं० [सं०] कौड़ी आदि पदार्थ जिन्हें टाँककर बरतनों को सजाते हैं।

पात्रौकरण—सज्ञा पुं० [सं०] विवाह [को०]।

पात्र्य—वि० [सं०] दे० 'पात्रिय'।

पाथ^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ अग्नि। २ जल। ३. सूर्य [को०]।

पाथ^२—सज्ञा पुं० [सं० पाथस्] १ जल। उ०—आग्नि ठाढ़े होत सब मिलि बसन टपकत पाथ।—घनानंद, पु० ३०१। २. अन्न। ३. आकाश। ४. वायु।

यौ०—पाथोज। पाथोद। पाथोधर। पाथोरुह। पाथोधि। पाथोज। पाथोनिधि।

पाथ^३—सज्ञा पुं० [सं० पथ] मार्ग। रास्ता। राह। उ०—तेहि वियोग ते भए अनाथा। परि निकुज वन पावन पाथा।—कवीर (शब्द०)।

पाथ^४—सज्ञा पुं० [सं० पार्थ, प्रा० पथ्य] अर्जुन। पार्थ। उ०—जुष बेल खगे रिणछोड जहै। तन पाथ जिसो रुचनाय तहै।—रा० ६० पु० २५।

पाथना—क्रि० सं० [सं० प्रथन या हिं० थाप (ना) का आद्यंत विपर्यय] १ ठोक पीटकर सुधील करना। गठना। बनाना। उ०—लाइली के बरतै को नितबन हानि रही रसना कवि जेत के। कै नृप सभु जू मेरु की भूमि में रेत के कूर भए नदी सेत के। कै धौं तमूरन के तबला रंगि औधि घरे करि रभा के सेत के। कंचन कीच के पाथे मनोहर कै भरना द्वै मनोज के सेत के।—सु दरीसर्वस्व (शब्द०)। २ किसी गीली वस्तु से साँचे के द्वारा या बिना साँचे के हाथों से पीट या दबाकर बड़ी बड़ी टिकिया या पटरी बनाना। जैसे, उपले पाथना, हँट पाथना। ३ किसी को पीटना। ठोकना। मारना। जैसे,—आज इनको अच्छी तरह पाथ दिया।

पाथनाथ—सज्ञा पुं० [हिं० पाथ + सं० नाथ] समुद्र।

पाथनिधि—सज्ञा पुं० [हिं० पाथ + सं० निधि] दे० 'पाथोनिधि'।

पाथर^(१)—सज्ञा पुं० [सं० प्रस्तर, प्रा० पथ्यर] दे० 'पथ्यर'। उ०—एक सेवक लोह पत्र पाथर सो घस्यो तहाँ लोह सोनो (सुवर्ण) भयो राव जेत को आणि दयो।—ह०, रासो, पु० ३३।

पाथरासि^(१)—सज्ञा स्त्री० [सं० पाथ + हिं० रासि] जलराशि। समुद्र। उ०—कुपितम भुजग सिर पग घरे। हाथनि पाथरासि पुनि तरे।—नद० ग्र०, पु० १४५।

पाथस्पति—सज्ञा पुं० [सं०] वरुण।

पाथा^१—सज्ञा पुं० [सं० पाथस्] १. जल। २. अन्न। ३. आकाश।

पाथा^२—सज्ञा पुं० [सं० प्रस्थ] १ एक तोल जो एक दोन या कच्चे चार सेर की होती है। इसका व्यवहार देहरादून प्रांत में अन्न नापने के लिये होता है। २ उतनी भूमि जितनी में एक पाथा अन्न बोया जा सकता है। ३ एक बड़ा टोकरा जिससे खलिहान में राशि नापते हैं।

विशेष—प्रायः यह टोकरा किसी नियत मान का नहीं होता। लोग इच्छानुसार भिन्न भिन्न मानों का व्यवहार करते हैं। यह वेत का बना होता है और इसकी बाढ बिलकुल सीधी होती है कहीं कहीं इसे लोग चमड़े से मढ़ लेते हैं। इसे पाथी और नली भी कहते हैं।

४ हल का खोंपी जिसमें फाल जड़ा रहता है।

पाथा^३—सज्ञा पुं० [हिं० पथ] कोल्हू हाँकनेवाला।

पाथा^४—सज्ञा पुं० [सं० प्रथक] एक छोटा कीड़ा जो अन्न में लगता है।

पाथि—सज्ञा पुं० [सं० पाथिस्] समुद्र। २ आँख। ३ घाव पर की पपड़ी। छुरड। ४ प्राचीन काल का एक प्रकार का शरवत जो मट्टे के पानी और दूध आदि को मिलाकर बनाया जाता था और जिससे पितृत्पण किया जाता था। कीलाल।

पाथेय—सज्ञा पुं० [सं०] १ वह भोजन जो पथिक अपने साथ मार्ग में खाने के लिये वाँधकर ले जाता है। रास्ते का बलेवा। २ वह द्रव्य जो पथिक राहखर्च के लिये ले जाता है। सबल। राहखर्च। ३ कन्या राशि।

पाथोज—पञ्चा पुं [सं०] कमल । उ०—पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो ।—मानस, १ । १०१ ।

यौ०—पाथोजनाम = विष्णु । उ०—सिद्ध सुर सेव्य पाथोज-नाम ।—तुलसी ग्र०, पु० ४८१ । पाथोजपानी = कमलपाणि । विष्णु । उ०—मजु मानाथ पाथोज पानी ।—तुलसी ग्र०, पु० ४८७ ।

पाथोद—सञ्ज्ञा पुं [मं०] वादल । मेघ । उ०—पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचन ।—मानस, ३ । २६ ।

पाथोधर—सञ्ज्ञा पुं [मं०] वादल । मेघ ।

पाथोधि—सञ्ज्ञा पुं [सं०] समुद्र ।

पाथोन—सञ्ज्ञा पुं [यू० पथेयनस] कन्या राशि ।

पाथोनिधि—सञ्ज्ञा पुं [सं०] समुद्र ।

पाथ्य—वि० [सं०] १ आकाश में रहनेवाला । २ हवा में रहनेवाला । ३ हृदयाकाश में रहनेवाला ।

पाद्^१—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १. चरण । पैर । पाँव ।

यौ०—पादत्राण ।

विशेष—यह शब्द जब किसी के नाम या पद के अंत में लगाया जाता है तब वक्ता का उसके प्रति अत्यंत सम्मान भाव तथा श्रद्धा प्रगट करता है । जैसे,—कुमारिलपाद, गुरुपाद, आचार्यपाद, तातपाद, आदि ।

२. मत्र, श्लोक या अन्य किसी छंदोवद्ध काव्य का चतुर्थांश । पद । चरण । ३. किसी चीज का चौथा भाग । चौथाई । ४. पुस्तक का विशेष अंश । जैसे, पातजल का समाधिपाद, साधनपाद आदि । ५. वृक्ष का मूल । ६. किसी वस्तु का नीचे का भाग । तल । जैसे, पाददेश । ७. वड़े पर्वत के समीप में छोटा पर्वत । ८. चिकित्सा के चार अंग—वैद्य, रोगी औषध और उपचारक । ९. किरण । रश्मि । १०. पद की क्रिया । गमन । ११. एक ऋषि । १२. शिव । १३. एक पैर की नाप जो १२ अंगुल की होती है (को०) । १४. अंश । भाग । हिस्सा । टुकड़ा (को०) । १५. चक्र । चक्का (को०) । १६. सोने का एक सिक्का जो एक तोला के लगभग होता था (को०) ।

पाद्^२—सञ्ज्ञा पुं [सं० पद्, प्रा० पद्] वह वायु जो गुदा के मार्ग से निकले । अपानवायु । अघोवायु । गोज ।

पादक—वि० [सं०] १ जो खूब चलता हो । चलनेवाला । २. चौथाई । चतुर्थांश । ३. छोटा पैर ।

पादकटक—सञ्ज्ञा पुं [मं०] मूपुर ।

पादकमल—सञ्ज्ञा पुं [सं०] कमल के समान चरण । चरण-कमल (को०) ।

पादकीलिका—सञ्ज्ञा पुं [मं०] मूपुर ।

पादकृच्छ्र—सञ्ज्ञा पुं [सं०] एक प्रायश्चित्त व्रत जो चार दिन का होता है । इसमें पहले दिन एक बार दिन में, दूसरे दिन एक बार रात में खाकर फिर तीसरे दिन अर्पाचित्त अन्न भोजन करके चौथे दिन उपवास किया जाता है ।

विशेष—इस व्रत की दूसरी विधि भी मिलती है । उसमें पहले दिन रात में एक बार का परसा हुआ भोजन कर दूसरे दिन उपवास किया जाता है । तीसरे और चौथे दिन यही विधि क्रम से दुहराई जाती है ।

पादक्षेप—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १. पैर उठाकर आगे रखना । पादन्यास । २. पैर का आघात । पादप्रहार ।

पादगंडीर—सञ्ज्ञा पुं [सं० पादगण्डीर] श्लीपद रोग । पीलपाँव ।

पादगोप—सञ्ज्ञा पुं [सं०] पदाति, रथी हस्ती तथा अश्वारोही सेना के सरक्षक । (कौटि०) ।

पादग्रथि—सञ्ज्ञा स्त्री [सं० पादग्रन्थि] एंडी और घुट्टी के बीच का स्थान । गुल्फ ।

पादग्रहण—सञ्ज्ञा पुं [सं०] पैर छूकर प्रणाम करना ।

विशेष—जिसके हाथ में समिधा, जल, जल का घड़ा, फूल, अन्न तथा अक्षत में से कोई पदार्थ हो, जो अशुचि हो, जो जप या पितृकार्य करता हो उसका पैर न छूना चाहिए ।

पादचतुर—सञ्ज्ञा पुं [सं०] दे० 'पादचत्वर' (को०) ।

पादचत्वर^१—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १. बकरा । २. वालू का भीटा । ३. शोला । ४. पीपल का पेड़ ।

पादचत्वर^२—वि० दूसरे का दोष कहनेवाला । निंदा करनेवाला । चुगलखोर ।

पादचार—सञ्ज्ञा पुं [सं०] पैरों से चलना । पैदल चलना (को०) ।

पादचारो^१—सञ्ज्ञा पुं [सं० पादचारिन्] १ पैदल । २. वह जो पैरों से चलता हो ।

पादचारो^२—वि० पैरों से चलनेवाला । पैदल चलनेवाला (को०) ।

पादज^१—सञ्ज्ञा पुं [सं०] शूद्र ।

पादज^२—वि० जो पैर से उत्पन्न हुआ हो ।

पादजल—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १. वह जल जिसमें किसी के पैर धोए गए हो । चरणोदक । २. मठा जिसमें चतुर्थांश जल हो ।

पादजाह—सञ्ज्ञा पुं [सं०] पादमूल (को०) ।

पादटीका—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] वह टिप्पणी जो किसी ग्रंथ के पृष्ठ के नीचे लिखी गई हो । फुटनोट ।

पादतल—सञ्ज्ञा पुं [सं०] पैर का तलवा ।

पादत्र^१—सञ्ज्ञा पुं [सं०] दे० 'पादत्राण' ।

पादत्र^२—वि० पैर की रक्षा करनेवाला ।

पादत्राण^१—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १. खडाऊँ । २. जुता ।

पादत्राण^२—वि० जो पैर की रक्षा करे ।

पादत्रान(पु) —सञ्ज्ञा पुं [सं०] दे० 'पादत्राण' । उ०—पादत्रान उपा-नहा पाद पीठ मृदु भाइ ।—अनेकार्यं, पृ० ५५ ।

पाददलित—वि० [सं०] पैर से कूचला हुआ । पादाक्रांत । पददलित ।

पाददारिका—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] विवाई नाम का एक रोग, जिसमें पैर का तलवा स्थान स्थान में फट जाता है ।

पाददाह—सञ्ज्ञा पुं [सं०] सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का रोग

जो पित्त रक्त के साथ वायु मिलने के कारण होता है। इसमें पैरों के तलवों में जलन होती है। तलवों का जलना।

पादधावन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पैर घोंने की क्रिया। २ वह बाल या मिट्टी जिमको लगाकर पैर घोया जाय।

पादधावनिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह मिट्टी जिसे लगाकर पैर घोया जाय [को०]।

पादनख—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पैर की उँगलियों का नाखून।

पादनम्र—वि० [सं०] पैर तक नवा हुआ। पैरों तक झुका हुआ [को०]।

पादना—क्रि० प्र० [सं०/पद] गुदा से वायु लाहर निकालना। वायु छोडना। अपानवायु का त्याग करना।

संयो० क्रि०—देना।

पादनालिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] नूपुर [को०]।

पादनिकेत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पैर रखने की छोटी चौकी। पादपीठ [को०]।

पादन्यास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. चलना। पैर रखना। २ नाचना।

पादपकज—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पादपङ्कज] चरणकमल। पादकमल [को०]।

पादप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वृक्ष। पेड।

विशेष—वृक्ष अपनी जड या पैर के द्वारा रस खींचते हैं अत वे पादप कहलाते हैं।

२ पीडा।

पादपखड—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पादपखण्ड] वृक्षों का समूह। जगल।

पादपथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पगडडी।

पादपदति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ रास्ता। २. पगडडी।

पादपद्रुत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चरणकमल। कमल के समान कोमल पैर [को०]।

पादपरुहा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वदाक या बाँदा नामक वृक्ष।

पादपा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ खड़ाऊँ। २ जूता।

पादपालिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] नूपुर [को०]।

पादपाश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह रस्ती जिसे घोंडों के पिछले दोनों पैर बाँधे जाते हैं। पिछाडी। २ नूपुर जो पैरों में पहना या बाँधा जाता है [को०]।

पादपाशिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पादपाशी' [को०]।

पादपाशी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ कोई सिकडी या सिक्कड। २ वेडी। ३ एक बेल। एक लता [को०]। ४ चटाई [को०]।

पादपीठ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पैर का आसन। पीडा। ② उपा-
नह। जूता। ३—पादश्रान उपानहा पादपीठ मृदु भाइ।—
अनेकार्थ०, पृ० ५५।

पादपीठिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ नाई की सिल्ली। २ पीडा।

पादपूरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ किसी श्लोक या कविता के किसी चरण को पूरा करना। २ वह अक्षर या शब्द जो किसी पद को पूरा करने के लिये उसमें रखा जाय।

पादप्रक्षालन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पैर धोना।

पादप्रणाम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] साष्टांग दण्डवत। पाँव पडना।

पादप्रविष्टान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पीडा।

पादप्रधारण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] खड़ाऊँ।

पादप्रसारण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पैरों को फैलाना। पाँव पसारना [को०]।

पादप्रहार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] लात मारना। ठोकर मारना।

पादबंध—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पादबन्ध] पैरों में बाँधने की जजीर। वेडी।

पादबंधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पादबन्धन] १, घोड़े, गधे, बैल आदि जानवरों के पैर बाँधना। २ वह चीज जिससे पैर बाँधे जायें। ३ पशुधन। पशुराशि [को०]।

पादभाग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पैर के नीचे का भाग। २ चतुर्थांश। चौथाई।

पादभुज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शिव।

पादमुद्रा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पैर के चिह्न या दाग।

पादमूल—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पैर का निचला भाग। तलवा। २ पहाड की तराई। ३ एंडी [को०]। ४ टखना। गुल्फ [को०]। ५ चरणों का सामीप्य। (इस अर्थ का प्रयोग नम्रता सूचित करता है)।

पादर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पितृ, फा० पिदर, अ० फादर] पिता। बाप। जनक। उ०—मादर पादर विरादर ह्या जग मामा के सीकम में आपु आयो।—प्र० दरिया, पृ० ६५।

पादरक्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पादरक्षक'।

पादरक्षक^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह जिससे पैरों की रक्षा हो। जैसे, जूता, खड़ाऊँ आदि। २ युद्ध में हाथी के पैरों की रक्षा करने-
वाले योद्धा [को०]।

पादरक्षक^२—वि० पैरों की रक्षा करनेवाला।

पादरक्षण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पैर का आवरण। पादत्राण, जूता खड़ाऊँ, आदि [को०]।

पादरज—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पादरजस्] चरणों की धूल।

पादरज्जु—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह रस्ती या सिक्कड आदि जिसमें पैर विशेषत हाथी के बाँधे जायें।

पादरथी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] खड़ाऊँ।

पादरी—सञ्ज्ञा पुं० [पुर्व० पैद्रे] ईसाई धर्म का पुरोहित जो ग्रन्थ ईसाइयो का जातकम आदि सस्कार और उपासना कराता है।

पादरोह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पादरोहण'।

पादरोहण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बड का पेड।

पादलग्न—वि० [सं०] पैरों से लगा हुआ। चरणों में पड़ा हुआ। धारणागत [को०]।

पादलेप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह लेप आदि जो पैरों में लगाया जाय। जैसे, अलता, महावर, आदि।

पादवन्दन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पादवन्दन] पैर पकडकर प्रणाम करना। पैर छूकर प्रणाम करना।

पादवल्मीक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] श्लीपद या पीलपाँव नामक रोग।

पादविक्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पथिक । मुसाफिर ।
 पादविदारिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] घोडो का एक रोग, जिसमें उनके पैरो के निचले भाग में गाँठें हो जाती हैं ।
 पादविन्यास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पैर रखने की क्रिया या ढंग ।
 पादविरजा^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [पादविरजस्] पूता । खडाऊँ [को०] ।
 पादविरजा^२—सञ्ज्ञा पुं० देवता [को०] ।
 पादवेष्टनिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पादावरण । पातावा [को०] ।
 पादशब्द—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पैरो की आहट ।
 पादशा—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पादशाह] दे० 'पादशाह' । उ०—तब नजर लोगों कूँ पूछ्या उन तमाम । इस शहर के पादशा का क्या है नाम ।—दक्खिनी०, पु० ३६६ ।
 पादशाखा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पैर की उँगली । २ पैर की नोक ।
 पादशाह—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] बादशाह ।
 पादशाहजादा—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पादशाहजादह्] बादशाहजादा । राजकुमार ।
 पादशाही—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] बादशाही ।
 पादशिष्टजल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जल जो श्रीटाने पर चौथाई रह जाय ।
 विशेष—वैद्यक में ऐसा जब त्रिदोषनाशक माना जाता है ।
 पादशीली—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बूचर । कसाई ।
 पादशुश्रूषा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] चरणसेवा । पैर दबाना ।
 पादशैल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] किसी पर्वत के नीचे स्थित छोटा पहाड़ [को०] ।
 पादशोथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वैद्यक में एक प्रकार का रोग जिसमें पैर में सूजन आ जाती है । यह रोग आपसे आप भी होता है और कभी कभी दूसरे रोगों के कारण भी होता है । विशेष—दे० 'शोथ' ।
 पादशलाका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पैर की नली ।
 पादसेवन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चरणों की सेवा । पादशुश्रूषा । सेवा [को०] ।
 पादसेवा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पादसेवन' [को०] ।
 पादस्तम्भ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पादस्तम्भ] वह लकड़ी जो किसी चीज को गिरने से रोकने के लिये सहारे के तौर पर लगा दी जाय । चाँद ।
 पादस्फोट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वैद्यक के अनुसार ग्यारह प्रकार के क्षुद्र कुष्ठों में से एक प्रकार का कुष्ठ ।
 विशेष—इसमें पैरो में काले रंग की फु सियाँ होती हैं जिनमें से बहुत पानी बहता है । इसे विपादिका भी कहते हैं, और यदि यही रोग हाथों में हो जाय तो उसे विचिचिका कहते हैं ।
 पादहत्—वि० [सं०] पैरो से आहत । पैरों से ठुकराया हुआ [को०] ।
 पादहर्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक रोग जिसमें पैरो में प्रायः भुनभुनी होती है ।
 पादहीन—वि० [सं०] १ जिसके तीन ही चरण हो । २. जिसके चरण न हो ।

पादाङ्क—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पादाङ्क] चरणचिह्न । पैरो का निशान [को०] ।
 पादाङ्कुलक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पादाङ्कुलक] दे० 'पादाकुलक' ।
 पादाङ्गद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पादाङ्गद] तूपुर ।
 पादाङ्गदी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पादाङ्गदी] पायल । पादागद [को०] ।
 पादाङ्गुलि, पादाङ्गुली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पादाङ्गुलि, पादाङ्गुली] पैर की उँगली [को०] ।
 पादाङ्गुष्ठ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पादाङ्गुष्ठ] पैर का अँगूठा ।
 पादांत—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पादान्त] १ पैर का सिरा । २ पद्य के चरण का आखीर । किसी श्लोक के चरण का अन्तिम भाग ।
 यौ०—पादांतस्थ = किसी श्लोक या पद्य के चरण के आखीर का । पादांत में स्थित ।
 पादांतिक—क्रि० वि० [सं० पादान्तिक] समीप । चरणों में । पास [को०] ।
 पादांबु—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पादांबु] १. मठा । २ जल जिसमें किसी समादत का पैर घोया गया हो ।
 पादांभ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पादांभस्] दे० 'पादांबु'-२ ।
 पादाकुल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पादाकुलक] दे० 'पादाकुलक' ।
 पादाकुलक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चौपाई (छद) ।
 पादाक्रांत—वि० [सं० पादाक्रान्त] पददलित । पैर से कुचला हुआ । पामाल ।
 पादात—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पैदल सेना । पदाति सैनिक ।
 पादाति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पादातिक' ।
 पादातिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पैदल सिपाही । पैदल सेना ।
 पादाध्यास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पददलन । पैरों से कुचलना [को०] ।
 पादानत—वि० [सं०] पैरों में झुका हुआ । पदावनत [को०] ।
 पादानुध्यात—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] छोटे की ओर से बड़े को पत्र लिखने में एक नम्रतासूचक शब्द, जिसका व्यवहार लिखनेवाला अपने लिये करता था ।
 विशेष—प्रायः सामंत या जागीरदार महाराज को पत्र लिखने में इस शब्द का व्यवहार करते थे । (गुप्तों के शिलालेख) । इसी प्रकार पुत्र पिता को पत्र लिखने में या कोई व्यक्ति अपने पूर्वज का उल्लेख करते समय अपने लिये इस शब्द का व्यवहार करता था ।
 पादानुध्यान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पादानुध्यात' ।
 पादानुप्रास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] काव्य में पदगत अनुप्रास अलंकार ।
 पादानोद—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] काला नमक ।
 पादाभ्यञ्जन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पादाभ्यञ्जन] वह घी या तेल जो पैरो में मला जाय ।
 पादायन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पाद नामक ऋषि के गोत्र में उत्पन्न पुरुष ।
 पादारक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नाव की लंबाई में दोनों ओर लकड़ी की पट्टियों से बना हुआ वह ऊँचा और चौरस स्थान जिसपर यात्री बैठते हैं । कुर्ची ।

पादारघ^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पादाघर्ष] ३० 'पादाघर्ष' । उ०—पादारघ हमको दियो मथुरा मडन आय । वासो वसन न पावही विना वास अति पाय ।—केशव (शब्द०) ।

पादालिन्द—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पादालिन्द] नौका । नाव [को०] ।

पादालिन्दा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पादालिन्दा] नाव । नौका [को०] ।

पादालिन्दी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पादालिन्दी] नाव । तरणि [को०] ।

पादावतं—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पादावतं] कुएँ आदि से पानी निकालने का यंत्र । अरहट या रहट ।

पादाधिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पैदल सैनिक [को०] ।

पादाण्डोल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] टखना [को०] ।

पादासन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चरणपीठ । पादपीठ [को०] ।

पादाहत—वि० [सं०] पैरो से आघात किया हुआ [को०] ।

पादिक^१—वि० [सं०] किसी वस्तु का चौथाई भाग । चतुर्थांश ।

पादिक^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पादकृच्छ्र नामक प्रायश्चित्त व्रत ।

पादिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] चौथाई पण । (कोटि०) ।

पादी^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पादि] १ पैरवाले जलजतु । जैसे, गोह, मगर, घडियाल आदि ।

विशेष—भावप्रकाश के अनुसार ऐसे जानवरों का मास मधुर, चिकना तथा वात पित्तनाशक, मलवर्धक शुक्रजनक और बलकारक होता है ।

२ पशु । जानवर । उ०—जत्र तत्र पादी खड़े शृगया दई विचारि । भयो इक्क आचर्ज वन भूपति नैन निहारि ।—प० रासो, पृ० २ । ३ वह जो किसी वस्तु (सपत्ति, जायदाद आदि के चतुर्थांश का हकदार हो ।

पादी^२—वि० १ जो चौथाई का हिस्सेदार हो । पादवाला । पैरवाला (कौ०) । २ चरणवाला (श्लोक आदि) । ३ चार विभाग या हिस्सेवाला (कौ०) ।

पादीय—वि० [सं०] पदवाला । मर्यादावाला । जैसे, कुमारपादीय ।

विशेष—जिस शब्द के आगे यह लगाया जाता है उसके समान पदवाला सूचित करता है । प्राचीन काल में अभिजात वर्ग के लोगों को जो पदवियाँ दी जाती थी वे उसी प्रकार की होती थीं जैसे, कुमारपादीय अर्थात् राजसभा में राजकुमार की बराबरी का आसन पानेवाला ।

पादुक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जो चलता हो । चलनेवाला । गमनशील ।

पादुका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ खडाऊँ । २ सूता ।

पादुकाकार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ बड़ई । २ चर्मकार । मोची [को०] ।

पादू—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पादुका । खडाऊँ ।

पौ०—पादूकूव = मोची ।

पादोदक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह जल जिसमें पैर धोया गया हो । २ चरणामृत ।

पादोदर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] साँप ।

पाद्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मा जो कमल से उत्पन्न हैं ।

पाद्य^१—वि० [सं०] पद सबधी । पैर सबधी [को०] ।

पाद्य^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जल जिससे पूजनीय व्यक्ति या देवता के पैर धोए जायें । पैर धोने का पानी ।

विशेष—पोडशोपचार पूजा में आसन और स्वागत के पश्चात् और पञ्चोपचार पूजा में सर्वप्रथम पाद्य ही की विधि है । जिस जल से देवता के पैर धोए जाते हैं उससे हाथ नहीं धोए जा सकते । इसी से पैर धोने के जल को पाद्य और हाथ धोने के जल को 'अर्घ' कहते हैं ।

पाद्यक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पाद्य देने का एक भेद ।

पाद्यार्थ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पैर तथा हाथ धोने या धुलाने का जल । २ पूजासामग्री । ३ वह धन या सपत्ति जो किसी की पूजा में दी जाय । भेंट या नजर ।

पाद्यार्घ्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ३० 'पादाघर्ष' ।

पाधरा—वि० [देशी पद्धत] १ सरल । सीधा । उ०—लड लोहा सी लोड पाधर अस कीधो प्रगट ।—नट०, पृ० १७२ ।

पाधरना—क्रि० अ० [हि० पधारना] पधारना । जाना । गमन करना । उ०—नगर महोवै पाधरो मिली मल्हन कहै जाय ।—प० रासो, पृ० ६४ ।

पाधरा—वि० [देशी पद्धत] सीधा । सरल । उ०—ज्यारि नवग्रह पाधरा, जे वका रण बीच ।—वांकी० ग्र०, भा० १, पृ० २ ।

पाधा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० उपाध्याय] १ आचार्य । उपाध्याय । २ पंडित । उ०—गिरिधर लाल छवीले को यह कहा पठायो पाधै ।—सूर (शब्द०) ।

पान^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ किसी द्रव पदार्थ को गले के नीचे घूँट घूँट करके उतारना । पीना । उ०—(क) रामकथा ससि किरन समाना । संत चकोर करहि जेहि पाना ।—तुलसी (शब्द०) । (ख) रुधिर पान करि आत माल धरि जब जब शब्द उचारी ।—सूर (शब्द०) ।

पौ०—जलपान । मद्यपान । विपपान, आदि ।

२ मद्यपान । शराव पीना । उ०—करसि पान सोवसि दिन राती । सुधि नहि तव सिर पर शाराती ।—तुलसी (शब्द०) । ३ पीने का पदार्थ । पेय द्रव्य । जैसे, जल, मद्य, आदि । ४ मद्य । मदिरा । उ०—सँग ते यती कुमत्र ते राजा । मान ते ज्ञान पान ते लाजा ।—तुलसी (शब्द०) । ५ पानी । उ०—(क) सीस दीन में अगमन प्रेम पान सिर मेलि । अब सो प्रीति निवाहउ चलो सिद्ध होइ खेलि ।—जायसी (शब्द०) । (ख) गुरु को मानुष जो गिर्न चरणामृत को पान । ते नर नरके जायेंगे जन्म जन्म होइ स्वान ।—कवीर (शब्द०) । ६ वह चमक जो शस्त्रो को गरम करके द्रव पदार्थ में बुझाने से आती है । पानी । आब । ७ पीने का पात्र । कटोरा । प्याला । ८ कुल्या । नहर । ९ कलवार । १० रक्षा । रक्षण । ११ प्याऊ । पौसाला । १२ निश्वास । १३ जय । १४ पीना । घूसना । घूमना । घुवन । जैसे, अघरपान ।

पान^२—सज्ञा पुं० [स० प्राण] प्राण । उ०—पान अपान व्यान उदान और कहियत प्राण समान । तक्षक घनजय पुनि देवदत्त और पौडक सख द्युमान ।—सूर (शब्द०) ।

पान^३—सज्ञा पुं० [स० पर्ण, प्रा० पण्य] १ पत्ता । पर्ण । उ०—श्रीषध मूल फूल फल पाना । कहीं नाम गनि मगल जाना ।—तुलसी (शब्द०) । उ०—हाथी को सी कान किर्षी, पीपर को पान किर्षी, ध्वजा को उडान कहीं थिर न रहतु है ।—सुदर० ग्र०, भा० २, पृ० ४५७ ।

२ एक प्रसिद्ध लता जिसके पत्तों का बीड़ा बनाकर खाते हैं । ताबूलवल्ली । ताबूली । नागिनी । नागरवल्ली ।

विशेष—यह लता सीमांत प्रदेश और पंजाब को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष तथा सिंहाल, जावा, स्याम, आदि उष्ण जलवायुवाले देशों में अधिकता से होती है । भारत में पान का व्यवहार बहुत अधिक है । कथा, चूना, सुपारी आदि मसालों के योग से बना हुआ इसका बीड़ा खाकर मन प्रसन्न तथा अतिथि आदि का सत्कार करते हैं । देवताओं और पितरों के पूजन में इसे चढ़ाते हैं और इसका रस अनेक रोगों में श्रीषध का अनुपान होता है । पान की जड़ भी, जिसे कुलजन या कुलीजन कहते हैं, दवाई के काम आती है । उपर्युक्त दो प्रातों को छोड़कर भारत के सभी प्रातों में खपत और जलवायु की अनुकूलता के अनुसार न्यूनाधिक मात्रा में इसकी खेती की जाती है । इसकी खेती में बड़ा परिश्रम और झंझट होता है । अत्यंत कोमल होने के कारण अधिक सरदी गरमी यह नहीं सहन कर सकती ।

इसकी खेती प्रायः तालाब या झील आदि के किनारे भीटा बना कर की जाती है । घूप और हवा के तीखे झोको से बचाव के लिये भीटे के ऊपर बांस, फूस आदि का मंडप छा देते हैं जिसके चारों ओर टट्टियाँ लगा दी जाती हैं । मंडप के भीतर वेलें चढ़ाई जाती हैं । इस मंडप को पान का बंगला, बरेव या वरीजा कहते हैं । इसके छाने में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि पौधे तक थोड़ी सी घूप छनकर पहुँच सके । भीटा बीच में ऊँचा, चौरस और अगल बगल, कभी कभी एक ही ओर, ढालू होता है, इससे वर्षा का जल ससपर रुकने नहीं पाता । भीटे पर आधा फुट गहरी और दो फुट चौड़ी सीधी ब्यारियाँ बनाई जाती हैं । इन्हीं में थोड़ी थोड़ी दूर पर कलमें रोपी जाती हैं । जो पौधे पूरी वाढ़ को पहुँच चुकते हैं और जिनमें पत्ते निकलना बंद हो जाता है वे ही कलमें तैयार करने के काम आते हैं । उड़ीसा में इससे भी अधिक समय तक उससे अच्छे पत्ते निकलते जाते हैं । इसलिये पान की खेती वहाँ सबसे अधिक लाभदायक है । कहीं कहीं पान की वेलें भीटे पर नहीं किंतु किसी पेड़, अधिकतर सुपारी, के नीचे लगाई जाती हैं ।

पान की अनेक जातियाँ हैं । जैसे, बंगला, मगही, सांची, कपुरी, महोवी, अछुवा, कलकतिहा, आदि । गया का मगही पान सबसे अच्छा समझा जाता है । इसकी नई बहुत पतली और

मुलायम होती है । इसका बीड़ा सुँह में रखते ही गल जाता है । इसके बाद बंगला पान का नवर है । महोवी पान कड़ा पर भीटा होता है और अच्छे पानों में गिना जाता है । कलकतिहा कड़ा और कड़वा होता है । कपुरी बहुत कड़वा होता है । उसके पत्ते लंबे लंबे होते हैं और उसमें कपूर की सी सुगंध आती है । वैद्यक के अनुसार पान उत्तेजक, दुर्गंधिनाशक, तीक्ष्ण, उष्ण, कटु, तिक्त, कषाय, कफनाशक, वातघ्न श्रमहारक, शातिजनक, भ्रमों को सुदर करनेवाला और दाँत, जीभ आदि का शोधक है ।

वेदों, सूत्रग्रंथों, वाल्मीकि रामायण और महाभारत में पान का नाम नहीं आया है, परंतु पुराणों और वैद्यक ग्रंथों में इसका उल्लेख बार बार मिलता है । विदेशी पर्यटकों ने भारतवासियों की पान खाने की आदत का उल्लेख किया है । अत्यंत प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम न आने से यह सूचित होता है कि इसका व्यवहार पहले से पूर्व और दक्षिण में ही था । वैदिक पूजन में पान नहीं है । पर आजकल प्रचलित तांत्रिक पद्धति में पान का काम पड़ता है ।

यौ०—पानदान ।

मुहा०—पान उठाना=कोई काम करने के लिये प्रतिज्ञाबद्ध होना । बीड़ा उठाना या लेना । पान कमाना=पान को उखटना पुलटना और सड़े अंश या पत्तों का अलग करना । पान चीरना=व्यर्थ के काम करना । ऐसे काम करना जिससे कोई लाभ न हो । पान खिलाना=वर कन्या के व्याह संवध में उभय पक्ष का बचनबद्ध होना । मँगनी करना । सगाई करना । पान देना=किसी काम, विशेषतः किसी साहसपूर्ण काम के कर डालने के लिये किसी से हामी भरवाना । बीड़ा देना । उ०—वाम वियोगिनि के वव कीवे को काम वसंतहि पान दियो है ।—रघुनाथ (शब्द०) । पान पत्ता=(१) लगा या बना हुआ पान । (२) तुच्छ पूजा या भेंट । पान-फूल । पान फूल=(१) सामान्य उपहार या भेंट । (२) अत्यंत कोमल वस्तु । पान फेरना=पान कमाना । पान बनाना=(१) पान में चूना, कथा, सुपारी आदि रखकर बीड़ा तैयार करना । (२) दे० 'पान कमाना' । पान लेना=किसी काम के कर डालने की प्रतिज्ञा करना या हामी भरना । बीड़ा लेना । उ०—चुपति के लै पान मन कियो अभिमान करत अनुमान चहुँपास धाऊँ ।—सूर (शब्द०) । पान सुपारी=किसी शुभ अवसर पर निमंत्रित जनो का सत्कार करने की रीति ।

३ पान के आकार की चौकी या ताबीज जो हार में रहती है । ४ छूते में पान के आकार का वह रंगीन या सादे चमड़े का टुकड़ा जो एँडी के पीछे लगता है । ४ ताश के पत्तों के चार भेदों में से एक जिसमें पत्ते पर पान के आकार की लाल लाल बूटियाँ बनी रहती हैं ।

पान^५—सज्ञा पुं० [मं० पाणि] दे० 'पानि' या 'पाणि' । उ०—वैठी जसन जलूस करि फरस फवी सुखदान । पानदान तैं लै दएँ पान पान प्रति पान ।—स० सप्तक, पृ० ३६४ ।

पान^१—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] लड्डी । गूना । (लघ०) ।

पान^२—सञ्ज्ञा स्त्री० सूत को मँडो से तर करके ताना करना । (जुलाहा) ।

पानक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विशेष क्रिया से बनाया हुआ खट्टा तरल पदार्थ जो पीने के काम में आता है । पना ।

विशेष—पके नीबू, आम या इमली के रस में पानी और चीनी मिलाकर पना या पानक बनाया जाता है । इसके अतिरिक्त और अनेक पदार्थों का भी बनाया जाता है ।

पानकी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार का पांहु रोग जिसमें हाथ पैरों में सूजन, अतिसार, ज्वर आदि होते हैं ।—माघव०, पृ० ७५ ।

पानगोष्ठिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ वह स्थान जहाँ तात्रिक लोग एकत्र होकर मद्यपान तथा कुछ पूजन आदि करते हैं । मद्यपान चक्र । २. दे० 'पानगोष्ठी' ।

पानगोष्ठी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ वह सभा या मंडली जो शराब पीने के लिये बैठी हो । पानसभा । शराब की मजलिस । २ मद्यशाला । शराब की दूकान (को०) ।

पानड़ी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पान + ढी (प्रत्य०)] एक प्रकार की पत्ती जो प्रायः मीठे पेय पदार्थों तथा तेल और उवटन आदि में उन्हें सुगंधित करने के लिये छोड़ी जाती है ।

पानदान—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पान + दान (प्रत्य०)] १ वह ढिब्बा जिसमें पान और उसके लगाने की सामग्री रखी जाती है । पनडब्बा । २ वह ढिबिया जिसमें पान के बीड़े रखे जाते हैं । गिलौरीदान । खासदान ।

मुहा०—पानदान का खर्च = वह रकम जो पान तथा दूसरी निजी आवश्यकताओं के लिये दी जाय । पिटारी का खर्च ।

पानदोष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मद्यपान का व्यसन । शराबखोरी की लत ।

पानन—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पान या देश०] १ मञ्जोले आकार का एक प्रकार का पेड़ जो हिमाचल की तराई और उत्तरी भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में होता है ।

विशेष—इसकी पत्तियाँ जाड़ों में झड़ जाती हैं । लकड़ी पकने पर लाल रंग की, चिकनी और भारी होती है और बहुत दिन तक रहती है । इस लकड़ी से सजावट की चीजें, गाड़ी तथा घर के संगहे बनाए जाते हैं । इसका गोंद दवा के काम में आता है ।

२ साँदन नाम का मञ्जोले आकार का एक वृक्ष जिसकी लकड़ी से सजावट के सामान बनते हैं । वि० दे० 'साँदन' ।

पानप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मद्यप । शराबी । पियककड ।

पानपर—वि० [सं०] मद्यप । शराबी (को०) ।

पानपात्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह पात्र जिसमें मद्यपान किया जाता है । २ पीने का पात्र । गिलास । उ०—नेत्रादिक हृद्रियगन जिते । हमरे पानपात्र प्रभु तिते ।—नद० ग्र० पृ० २७२ ।

पानभांड—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पानभाण्ड] पानपात्र ।

पानभाजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पानपात्र ।

पानभूमि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह स्थान जहाँ एकत्र होकर लोग शराब पीते हैं ।

पानभू—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पानभूमि' ।

पानमडल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पानमण्डल] पानगोष्ठी ।

पानमत्त—वि० [सं०] नशे मे मतवाला । नशे में चूर ।

पानरत—वि० [सं०] दे० 'पानपर' (को०) ।

पानराज—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पनारा] दे० 'पनारा' । उ०—पाकी को मन पानरे के गोवर के गार । और जनम कहीं पाइए, यह तो चालाहार ।—कवीर (शब्द०) ।

पानरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पानही' । उ०—पति पद पानरी के प्रनव फुवुद केशों विवुध विदग्ध चित्त मुहु मधुराई तें ।—पजनेस०, पृ० २३ ।

पानवणिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पानवणिक] मद्यविश्रेता । कलवार । शराब बेचनेवाला (को०) ।

पानवणिज—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पानवणिक] मद्य बेचनेवाला । कलवार ।

पानविभ्रम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पानात्यय नामक रोग ।

विशेष—दे० 'पानात्यय' ।

पानशौड—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पानशौयड] अत्यधिक मद पीनेवाला शराबी (को०) ।

पानस^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन काल की एक प्रकार की शराब जो पनस (कठहल) से बनाई जाती थी ।

पानस^२—वि० पनस (कठहल) से सवध रखनेवाला ।

पानही^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० उपानह, हिं० पनही] सूता । ऊ०—बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ । सकर साखि रहेउँ एहि घाएँ । मानस, २ । २६१ ।

पाना^१—क्रि० सं० [सं० प्रापणा, प्रा० पावणा] १ अपने पास या अधिकार में करना । ऐसी स्थिति में करना जिससे अपने उपयोग या व्यवहार में आ सके । उपलब्ध करना । लाभ करना । प्राप्त करना । हासिल करना । जैसे,—उसके हाथ में गई वस्तु कोई नहीं पा सकता । २ फल या पुरस्कार रूप में कुछ पाना । कृत कर्म का भला बुरा परिणाम भोगना । जैसे,—(क) जागे सो पावे, सोवे सो खोवे । (ख) जैसा किया वैसा पाया । ३ किसी को दी हुई चीज वापस मिलना या कोई खोई हुई चीज फिर मिलना । जैसे,—(क) यह किठाब तुमसे हमने तीन बरस के बाद आज पाई है । (ख) यह श्रंगुठी मैंने चार बरस के बाद आज पाई है । ४ पता पाना । भेद पाना । तह तक पहुँचना । समझना । जैसे,—(क) आपने उसका रोग भी पाया है या यों ही नुसखा लिखते हैं । (ख) मैंने तुम्हारे मन की बात पा ली । ५ किसी की कोई बात अपने तक पहुँचना । कुछ सुन या जान लेना । जैसे, सुध पाना समाचार पाना, संदेश पाना । ६, देखना । साक्षात् करना ।

जैसे,—(क) तुमको जैना गुना था वैसा ही पाया। (ख) भारत में अब मिह प्राय नहीं पाए जाते। ७ अनुभव करना। भोगना। उठाना। जैसे, दुख पाना, सुख पाना। ८. समर्थ होना। सकना।

विशेष—इस अर्थ में पाना क्रिया सयोज्य होती है और जिस क्रिया या घातु के आगे लगाई जाती है उससे शक्यता या समाप्ति की शक्यता का अर्थ निकलता है। जहाँ समाप्ति का भाव होता है वहाँ घातु के आगे यह क्रिया आती है। जैसे,—तुम वहाँ जाने नहीं पाओगे, मैं अभी वह चिट्ठी नहीं लिख पाया।

६ पास तक पहुँचना। जैसे,—(क) मत दोड़ो, तुम उसे नहीं पा सकते। (ख) इस डाल को तुम उछलकर नहीं पा सकते। १० किमी वात में किसी के बराबर पहुँचना। बराबर होना। जैसे,—पढ़ने में तुम उसे नहीं पा सकते। ११ भोजन करना। आहार करना। खाना। जैसे, प्रसाद पाना (साधु)। उ०—तेहि छन तहँ सिमु पावत देखा। पलना निकट गई तहँ देखा।—विश्राम (शब्द०)। १२ ज्ञान प्राप्त करना। अनुभव करना। जानना। समझना। जैसे, किसी का मतलब पाना। उ०—समरथ सुभ जो पावई पीर पराई।—तुलसी (शब्द०)।

पाना^२—वि० १ पाने का हक। पावना। २ जिसे पाने का हक हो। प्राप्तव्य। पावना।

पानागार—सज्ञा पुं० [सं०] वह स्थान जहाँ बहुत से लोग मिलकर शराब पीते हो।

पानाजीर्ण—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का रोग जो अधिक मद्य आदि पीने से होता है। उ०—पानात्यय, परमद, पानाजीर्ण और पानविभ्रम इत्यादिक भयकर विकार होते हैं।—माधव०, पृ० ११७।

पानात्यय—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का रोग जो बहुत अधिक मद्यपान करने से हो जाता है।

विशेष—वैद्यक में अन्य रोगों के समान वात, पित्त, कफ, और सन्निपात भेद से इसके भी चार भेद माने गए हैं। इसमें हृदय में दाह और पीडा होती है, मुँह पीला हो जाता और सूख जाता है। रोगी को मूर्छा आती है, वह झडबड बकता है और उसके मुँह से भाग गिरने लगती है।

पानि^३—सज्ञा पुं० [सं० पाणि] हाथ। उ०—जह चेतन जग जीव जन सबल राममय जानि। बदउँ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि।—तुलसी (शब्द०)।

पानि^४—सज्ञा पुं० [सं० पानीय] दे० 'पानी'।

पानिक—सज्ञा पुं० [सं०] १ वह जो शराब बेचता हो। मद्यविक्रेता। २. कलवार।

पानिमहण^५—सज्ञा पुं० [सं० पाणिग्रहण] दे० 'पाणिग्रहण'।

पानिमहन^६—सज्ञा पुं० [सं० पाणिग्रहण] दे० 'पाणिग्रहण'। उ०—

पानिमहन जत्र कीन्ह महसा। हिय हग्गे तत्र मान सुरसा।—मानस, १। १०१।

पानिप—सज्ञा पुं० [हिं० पानी + प (प्रत्य०)] १ श्रोत्र। घृति। कांति। चमक। आव। उ०—पानिप के भारत संभारति न गात, लक लचि लचि जाति कच भारत के हलके।—द्विजदेव (शब्द०)। २ पानी। जल।

पानिय^७—सज्ञा पुं० [सं० पानीय] दे० 'पानी' [को०]।

पानिय^८—वि० रक्षणीय। रक्षा के योग्य [को०]।

पानिल—सज्ञा पुं० [सं०] पानपात्र। पानभाजन [को०]।

पानी^१—सज्ञा पुं० [सं० पानीय] १ एक प्रसिद्ध द्रव जो पारदर्शक, निर्गंध और स्वादरहित होता है। स्थावर और जगम स्व प्रकार की जीवमृष्टि के लिये इसकी अनिवार्य आवश्यकता है। वायु की तरह इसके अभाव में भी कोई जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। इसी से इसका एक पर्याय 'जीवन' है।

यौ०—पनचक्की। पनधिजली। पानीपौड़े। पानीफल।

विशेष—पानी योगिक पदार्थ है। अम्लज और उदजन नामक दो गैसों के योग से इसकी उत्पत्ति हुई है। विस्तार के विचार से इसमें दो भाग उदजन और एक भाग अम्लजन, और गुरुत्व के विचार से १६ भाग अम्लजन और १ भाग उदजन होता है, क्योंकि अम्लजन का परमाणु उदजन के परमाणु से १६ गुना अधिक भारी होता है। गरमी की अधिकता से भाप बनकर उठ जाने और कमी से पत्थर की तरह ठोस हो जाने का द्रव पदार्थों का घर्म जितना पानी में प्रत्यक्ष होता है उतना औरों में नहीं होता। तापमान की ३२ अंश (फारेन-हाइट) की गरमी रह जाने पर यह जमकर बर्फ और २१२ अंश की गरमी पाने पर भाप हो जाता है। इनके मध्यवर्ती अंशों की गर्मी में ही वह अपने अप्रकृत रूप—द्रव रूप—में रहता है। पानी में कोई रंग नहीं होता पर अधिक गहरा पानी प्रायः नीला दिखाई पड़ता है जिसका कारण गहराई है। स्नाद और गंध भी उसमें उन द्रव्यों के कारण, जो उसमें घुले होते हैं, उत्पन्न होता है। ३६ अंश की गरमी में पानी का गुरुत्व अन्य द्रव्यों के सापेक्ष गुरुत्व के निश्चय के लिये प्रमाण रूप माना जाता है, सब तरल और ठोस द्रव्यों का गुरुत्व इसी से तुलना करके स्थिर किया जाता है। अस्वाभेद से पानी के अनेक भेद हैं। यथा—भाप, मेप, बूँद, धोला, कुहिरा, पाला, ओस, बर्फ आदि। बूँद, कुहिरा, पाला, ओस आदि उसके तरल रूपांतर हैं, भाप और बादल वायव्य या अर्धवायव्य और धोला तथा बर्फ पानीभूत रूपांतर हैं।

संसार को पानी मुख्यतः मृष्टि से प्राप्त होता है। कूर्मों और कुर्मों से भी थोड़ा बहुत मिलता है। पानी विद्युत् अवरण में बहुत ही कम पाया जाता है। प्रायः पृथ्वी का कुछ प्रतिशत, जोतव और वायव्य द्रव्य उनमें अवरण निने रहते हैं। वृष्टि का जल यदि पृथ्वी से ऊँचाई पर और कुछ दिनों तक वृष्टि

हो चुकने अर्थात् वायुमण्डल स्वच्छ हो जाने पर किसी बरतन में एकत्र किया जाय तो शुद्ध होता है अन्यथा उसमें भी उपर्युक्त द्रव्य मिल जाते हैं। प्राकृतिक वर्ष का पानी भी प्रायः शुद्ध होता है। भभके में से खींचा हुआ पानी भी सब प्रकार के मिश्रणों से शुद्ध होता है, दवाइयों में यही पानी मिलाया जाता है। जो नदियाँ उजाड़ स्थानों, कठोर चट्टानों और कँकरीली भूमि से होकर जाती हैं उनका जल भी प्रायः शुद्ध होता है, पर जिनका रास्ता गरम भूमि और चट्टानों तथा घनी आवादी के बीच से है उनके पानी में कुछ न कुछ अन्य द्रव्य मिले रहते हैं। समुद्र के जल में क्षार और नमक के अशुद्ध अन्वय प्रकार के जलो की अपेक्षा बहुत अधिक होते हैं जिससे वह इतना खारा होता है कि पिया नहीं जा सकता। भभके के द्वारा उठा लेने से सब प्रकार का पानी शुद्ध हो जाता है। समुद्र का पानी भी इस क्रिया से पेय बनाया जा सकता है।

वैद्यक के अनुसार पानी शीतल, हलका, रस का कारण रूप, श्रमनाशक, ग्लानिहारक, बलकारक, तृप्तिदायक, हृदय को प्रिय, अमृत के समान जीवनदायक, मूर्छा, पिपासा, तन्द्रा, वमन, निद्रा और अजीर्ण का नाश करनेवाला है। खारा जल पित्तकारक और वायु तथा कफ का नाशक है, मीठा जल कफकारक और वायु तथा पित्त को घटानेवाला है। भावो या क्वार में विधिपूर्वक एकत्र किया हुआ वृष्टिजल अमृत के समान गुणकारी, त्रिदोषनाशक, रसायन, बलदायक, जीवनरूप, पाचन और बुद्धिवर्धक है। वेग से बहनेवाली और हिमालय से निकली हुई नदियों का जल उत्तम होता है, तथा मद गति से बहनेवाली और सह्याद्रि से निकली हुई नदियों का पानी कोढ़, कफ, वात आदि विकारों को उत्पन्न करता है। भरने का और प्राकृतिक वर्ष के पिघलने से उत्पन्न जल उत्तम है। कुएँ का जल, यदि उसके सोते अधिक गहराई और कड़ी कँकरीली मिट्टी पर से निकले हो तो, उत्तम होता है, अन्यथा दोषकारक होता है। जिस पानी में कोई गंध या विशेष स्वाद न हो उसे उत्तम और जिसमें ये बातें हो उसे सदोष समझना चाहिए। पकाने से पानी के सब दोष मिट जाते हैं।

प्राचीन आर्य तत्त्वज्ञानियों ने पानी को पाँच महाभूतों अर्थात् उन मूल तत्वों में जिनके योग से जगत् के और सब पदार्थों की उत्पत्ति हुई है, चौथा माना है। रस तन्मात्र से उत्पन्न होने के कारण रस इसका प्रधान गुण है और तीन पूर्ववर्ती तत्वों के गुण शब्द स्पर्श और रूप को गौण गुण कहा है। पाँचवें महाभूत या मूलतत्व पृथ्वी के गंध गुण का इसमें अभाव माना है। इसका रूप अर्थात् वर्ण सफेद, रस अर्थात् स्वाद मधुर और शीतल माना है। परमाणु में इमे नित्य और सावयव अर्थात् स्थूल रूप में अनित्य कहा है। पाश्चात्य देशों के द्रव्यशास्त्रविद् भी वर्तमान विज्ञान युग के आरम्भ के पहले सहस्रो साल तक पानी को अपने माने हुए चार मूल तत्वों अग्नि, वायु, पानी और मिट्टी में से एक मानते रहे हैं।

पर्या०--अर्ण। चोद। पद्म। नभ। अंभ। कबंध। सलिल। वा। वन। घृत। मयु। पुरीप। पिप्पल। क्षीर। विप। रेत। कश। युग। तुग्य। सुक्षेम। वरण। सुरा। अरविद। धनु धतु। जामि। आयुध। क्षय। अहि। अजर। स्रोत। तृप्ति। रस। उदक। पय। सर। भेषज। सह। श्रोज। सुख। क्षत्र। शुभ। यादु। भूत। सुवन। भविष्यत। महत्। अप। व्योम। यश। मह। सर्गाक। स्मृतीक। सतीन। गहन। गभीर। गभलंग। ईम्। अन्न। हवि। सदन। क्रतु। योनि। सत्य। नीर। रयि। सत्। पूर्ण। सर्ग। अक्षित। वर्हि। नाम। सर्पि। पवित्र। अमृत। इदु। स्व। सर्ग। संवर। वसु। अयु। तोय। तूप। शुक्र। तेज। वारि। जल। जलाप। कमल। कीलाल। पाथ। पुष्कर। सर्वतोमुख। पानीय। मेघपुप। सल। जड़। क। अध। उद। नार। कुश। काड। सवर। कर्बुर। व्योम। सव। इरा। वाज। तामर। कवल। स्यटन। चर। ऊर्ज। सोम।

मुहा०—पानी आना = (१) पानी का रस रसकर एकत्र होना। (२) कुएँ या तालाब में पानी का सोता खुलना। (३) घाव या आँख, नाक आदि में पानी भर आना। (४) घाव, आँख, नाक आदि से पानी गिरना। पानी उठाना = (१) पानी सोखना। पानी नूसना। जैसे,—मुलायम आटा खूब पानी उठाता है। (२) पानी झटाना। (दोरी या हत्ये में जितना पानी झटता है, किसान लोग उसे उतना पानी उठाना बोलते हैं।) जैसे,—वह हत्या खूब पानी उठाता है। पानी उतरना = पानी की तल या सतह का नीचा होना। पानी घटना। उतार होना। बाढ़ पर न रहना। (काम को) पानी करना = साध्य या सरल कर देना। सहज कर डालना। जैसे,—मैंने इस काम को पानी कर दिया। पानी का आसरा = नाव की बारी पर लगा हुआ कुछ कुछ झुका हुआ तख्ता जिसपर छाजन की ओलती का पानी गिरता है। आधी बारी। (लश०)। पानी काटना = (१) पानी का बाँध काट देना। (२) एक नाली से दूसरी में पानी ले जाना। (३) तेरते समय हाथ से पानी को हटाना। पानी चीरना। पानी का बत्ताशा = (१) बुलबुला। बुदबुद। (२) क्षणभंगुर वस्तु। क्षणस्थायी पदार्थ। पानी का बुलबुला = (१) बुलबुले की तरह क्षण में नष्ट या रूपांतरित होनेवाला। क्षणभंगुर। (३) नाशवान्। विनाशशील। पानी की तरह बहाना = अघाघुष खर्च करना। किसी चीज का आवश्यकता से बहुत अधिक मात्रा में खर्च करना। उठाना या लुटाना। जैसे,—उन्होंने लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए। पानी की पोट = (१) जिसमें पानी ही पानी हो। जिसमें पानी के सिवा और कुछ न हो। (२) वे साग, पात, तरकारियाँ आदि जिनमें जलीय अंश ही अधिक होता है, ठोस पदार्थ बहुत ही कम होता है। पानी के मोल = पानी की तरह सस्ता। बहुत सस्ता कौड़ियों के मोल। पानी के रेले में बहाना = (१) पानी

मे फेंक देना । नष्ट कर देना । उड़ा देना । (२) पानी के मोल देच देना । कौडियो मे लुटा देना । पानी चढ़ना = (१) पानी का ऊपर चढ़ना या ऊँचाई की ओर जाना । पानी की गति ऊँचाई की ओर होना । जैसे—इस नल मे ऊपर पानी नहीं चढ़ता है । उ०—सावर उवट शिखर को पाटी । चढ़ा पानि पाहन हिय फाटी ।—जायसी (शब्द०) । (२) पानी बढ़ना । (३) सीचे जानेवाले खेत तक पानी पहुँचना । (४) सीचा जाना । (इस मुहावरे का प्रयोग केवल खेती के लिये किया जाता है, वारी बगीचे आदि के लिये नहीं) । पानी चढ़ाना = (१) पानी को ऊँचाई पर ले जाना । (२) पानी को चूल्हे पर रखना । अदहन देना । (३) सिचाई के लिये खेत तक पानी ले जाना । (४) सीचना । पानी चलाना = पानी फेरना । नष्ट करना । चौपट करना । (शब्द०) । उ०—ऐसे समय लखेउ ठकुरानी । पतिव्रत माझ चलायो पानी ।—लाल (शब्द०) । पानी छानना = एक विशेष कृत्य जो हिंदुओं के यहाँ किसी को शीतला या चेचक रोग होने पर किया जाता है ।

विशेष—(नाम धरने अर्थात् रोगी को चेचक होना मान लिए जाने के तीसरे, पाँचवें और सातवें दिनों में जिस दिन शुक्रवार या सोमवार हो, स्त्रियाँ रोगी के सिर से कपड़ा छुलाकर उससे पानी छाननी हैं । इस पानी में पहले से चना भिगीया रहता है । यदि वर्षा होती हो तो उसी का पानी लेकर छाना जाता है । इस कृत्य के हो जाने पर उन निपेथों का पालन नहीं करना पड़ता जिनका पालन नाम धरने के दिन से आवश्यक समझा जाता है) ।

पानी छटना = रस रसकर पानी निकलना । थोड़ा थोड़ा पानी निकलना । रसना । पानी छूना = मलरयाग के अनंतर जल से गुदा को धोना । आवदस्त लेना (ग्राम्य) । (किसी वस्तु का) पानी छोड़ना = किसी चीज का रसना । थोड़ा थोड़ा पानी निकालना या देना । जैसे, किसी तरकारी का आगपर चढ़ाने पर छोड़ना । पानी छटना = कुएँ ताल आदि में इतना कम पानी रह जाना कि निकाला न जा सके । कुएँ ताल आदि का पानी खर्ब होकर बहुत थोड़ा रह जाना । पानी तोड़ना = पानी को डौंड या बल्ली से चीरना या हटाना । पानी काटना (मल्लाह) । पानी थामना = धार की ओर नाव ले जाना । धार चढ़ाना । (लश०) । पानी दिखाना = (१) छोड़े विल आदि को पानी पिलाने के लिये उनके सामने पानी भरा बरतन रखना या उन्हें पानी तक ले जाना । (२) पशुओं को पानी पिलाना । पानी देना = (१) सीचना । पानी से भरना । पानी से तर करना । (२) पितरो के नाम अजलि में लेकर पानी गिराना तर्पण करना । जैसे—उसके कुल में कोई पानी देनेवाला भी नहीं रह गया । पानी न मॉगना = किसी आघात या विप आदि से घनी जल्दी मर जाना कि एक शब्द भी मुँह से न निकले । चटपट दम तोड़ देना । तर्क्षण मर जाना । उ०—साँव द्य मुत्तु के बाजे ऐसे जहरीले होते हैं कि जिनका

काटा आदमी फिर पानी न गंगे ।—शिवप्रनाद (शब्द०) । पानी पडा = ढीला ढाला । जो कसा या तना न हो । जैसे—कनकौवा पानी पडा है अर्थात् उसकी डोर ढीली है । पानी भर नाँव ढालना या देना = ऐसा काम आरंभ करना जो टिकाऊ न हो । ऐसी वस्तु को आधार बनाना जिसकी स्थिति दृढ़ न हो । पानी पर नाँव होना = किसी काम या आयोजन का आधार दृढ़ न होना । किसी काम या वस्तु का टिकाऊ न होना । पानी पड़ना = जल अभिमंत्रित करना । मंत्र पढ़कर पानी फूँकना । पानी पर दम करना । पानी फूँकना । पानी पाड़ना = श० 'पानी छानना' । पानी पर बुनियाद होना = श० 'पानी पर नाँव होना' । पानी परोरना = पानी पढ़ना या फूँकना । पानी पानी करना = अत्यंत लज्जित करना । लज्जाभिभूत करना । पानी पानी होना = लज्जित होना । लज्जा के मारे पसीने पसीने हो जाना । लज्जा से कट जाना । जैसे—वह इस बात को सुनकर पानी पानी हो गया । पानी पीकर जाति पड़ना = काम कर चुकने पर उसके श्रीचित्य की विवेचना करना । पानी पी पीकर = निरंतर । अविराम । हर समय । लगातार ।

विशेष—इस मुहावरे का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई घटो तक लगातार किसी को गालियाँ देना या कोसता रहता है । भाव यह होता है कि उसने इतनी अधिक गालियाँ दी कि कई बार उनका गला सूख गया और उसे पानी पीकर उसे तर करना पडा । जैसे,—वह उन्हें पानी पी पीकर कोसता रहा ।

(किसी वस्तु पर) पानी फिरना या फिर जाना = नष्ट होना । चौपट हो जाना । मिट्टी में मिल जाना । बरबाद हो जाना । पानी फूँकना = मंत्र पढ़कर पानी पर फूँक मारना । पानी पढ़ना । पानी फटना = (१) बाँध या मेड को तोड़कर पानी को निकालना । (२) पानी में उवाल आ जाना । पानी खौलने लगना । (किसी पर) पानी फेरना या फेर देना = ऐसा कुछ करना जिससे किया करायी उद्योग या परिश्रम विफल हो जाय या कोई बनी बान विगड जाय । चौपट कर देना । मिट्टी कर देना । मटियामेट कर देना । मिटा देना । जैसे—इम एक वान ने आज तरु के हमारे सारे परिश्रम पर पानी फेर दिया । पानी बराना = (१) छोटी नालियाँ बनाकर और क्यारियाँ काटकर नैत को सीचना । (२) जिनमें नालियाँ तोड़कर पानी वह न जाय इसलिये इसकी रक्षा करनी । पानी रूँधना = (१) जिस मार्ग से पानी वह रहा हो उसे बंद करना । पानी का बहाव रोकना । (२) बाँध बाँधक या मेड बनाकर पानी को ताल या नैत में एकत्र करके बाहर न जाने देना । पानी का रोचना या एग्न करना (३) जादू में बरमते या बरते हुए पानी की धार रोकना । जलस्तंभ बनाना । पानी उठाना = बँटे, ईट या मोटे चाँदी आदि के टुकड़े को आग में लदने के पानी में बुझाना । पानी बनारना ।

विशेष—इस प्रकार बुझाया हुआ पानी विकाररहित होता है और रोगी के लिये पथ्य समझा जाता है।

(किसी के सामने) पानी भरना = किसी से तुलना में उसके दास के बराबर ठहरना। अत्यंत तुच्छ प्रतीत होना। फीका पडना। लज्जित होना। उ०—घूना उसका ऐसा सफेद, साफ और चमकदार है कि सगमरमर भी उसके सामने पानी भरे।—शिवप्रसाद (शब्द०)। पानी भरी खाल = अनित्य शरीर। क्षणभंगुर देह। क्षणिक जीवन। उ०—रावरी शपथ राम नाम ही गति मेरे इहाँ झूठी मूठो सो तिनोक तिहुँ काल है। तुलसी को भलो वे तुम्हारेई किए कृपाल कीजे न विलब वलि पानी भरी खाल है।—तुलसी (शब्द०)। पानी भरना = किसी स्थान पर पानी का एकत्र होकर सोखा जाना या जज्व होना। जैसे,—(क) जहाँ पानी भरता है वही धान होता है। (क) इस दीवार की जड़ में बरसात का पानी भरता है। (किसी के सिर) पानी भरना = दोषी या अनराधी सिद्ध होना। साबित होना। जैसे,—देखिए, इस मामले में किसके सिर पानी भरता है। पानी में आग लगाना = (१) असंभव को संभव करना। जो बात दूसरे से न हो सकती हो उसे कर डालना। (२) जहाँ भगडा होना असंभव हो वहाँ भगडा करा देना। शांतिभक्तों में कलह करा देना।

विशेष—मुख्य अर्थ पहला होने पर भी दूसरे अर्थ में इस मुहावरे का अधिक प्रयोग होने लगा है। आग लगाने का अर्थ है उगुलखोरी करके भगडा करा देना। वदाचित् यही इसका दूसरे अर्थ में अधिक प्रयुक्त होने का कारण है।

पानी में फेंकना या बहाना = नष्ट करना। बरबाद करना। खो देना। पानी में फेंक देना। पानी लगना = (१) पानी झकड़ा होना। पानी जमा होना। (२) पानी की ठंडक से दाँतो में टीस होना। पानी का स्पर्श दाँतो को असह्य होना। (३) स्थानविशेष की परिस्थिति के कारण बुरी वासनाएँ उत्पन्न होना। स्थानविशेष के गुण से शरारत सूझना। जैसे,—श्रव इनको बनारस का पानी लग चला। पानी लेना = (१) कुएँ, ताल आदि से खेत को सींचने के लिये पानी ले जाना। (२) पानी छूना = श्रावदस्त लेना। पानी से पतला = (१) जिसका कुछ भी महत्व या मान न हो। अत्यंत तुच्छ। निहायत अदना। (२) अत्यंत अपमानित। सर्वथा मानच्युत। सख्त बदनाम। (३) अत्यंत सुगम। निहायत आसान। पानी से पहले पुज, पाढ़ या बाँह बाँधना = असंभव संकट की आशंका से कोई यत्न करना। जिस बात का होना असंभव हो उसके प्रतीकार का उपाय करना। अकारण सिर खपाना। व्यर्थ कष्ट करना। सूखे में पानी में डूबना = भ्रम में पडना। धोखा खाना। उ०—धनी सग न सगे पूरे। पानी बूड रात दिन भूरे।—जायसी (शब्द०)। कच्चा पानी = वह पानी जो पकाया हुआ न हो। पक्का पानी = पकाया हुआ पानी। औटाया हुआ पानी। भभके का पानी = वह पानी जो भभके की सहायता से साधारण

पानी को भाप के रूप में परिणत करके तैयार किया गया हो। उड़ाया या खींचा हुआ पानी। नरम पानी = वह पानी जिसके बहाव में अधिक वेग न हो। ठहरा हुआ पानी (लश०)। मीठा पानी = वह पानी जो पीने में खारा न हो। सुस्वादु पानी। पेय जल। खारा पानी = वह पानी जिसका स्वाद नमकीन लिए हुए तीखा होता है। अपेय जल। भारी पानी = वह पानी जिसमें खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में मिले हुए हो। हलका पानी = वह पानी जिसमें खनिज पदार्थ बहुत थोड़े हो। पानी भरना या भर आना = पड़ा या राल का किसी स्थान में एकत्र होना। जैसे—मुँह या आँख में पानी भर आना। उ०—मेरी आँखों में आँसू न थे। यह निशीथ काल की शीतल और तीव्र वायु का कारण है कि उनमें पानी भर आया नहीं तो आँसू कैसे, रोने के दिन भव गए।—अयोध्यासिंह (शब्द०)। मुँह में पानी आना या छटना = (१) स्वाद लेने का गहरा लालच होना। चखने के लिये जीभ का व्याकुल होना। (२) गहरा लोभ होना। लालच के मारे रहा न जाना।

२ वह पानी का सा पदार्थ जो जीभ, आँख, त्वचा, घाव आदि से रसकर निकले। जैसे,—पसीना, पसेव, राल, लार, पछा।

मुहा०—पानी आना = किसी चीज से पसेव, लार, आदि निकलना। जैसे, घाव में पानी आना। मुँह में पानी आना।

३. मेहँ। वर्षा। वृष्टि। जैसे,—इस वर्ष इतना कम पानी पड़ा कि पृथ्वी की प्यास एक बार भी न बुझी।

मुहा०—पानी आना = (१) पानी बरसने पर होना। मेह पडने का सामान होना। (२) मेह पडना। वर्षा होना। पानी उठना = घटा घिरना। वादल छा जाना। श्रव उठना। पानी गिरना = मेह पडना। वर्षा होना। पानी टूटना = झड़ी रुकना। मेह थमना। वर्षा बंद होना। पानी निकलना = बूँदें टूटना। वृष्टि बंद होना। पानी पड़ना = मेह बरसना। वर्षा होना।

४ तेल, घी, चरबी आदि के अतिरिक्त कोई द्रव पदार्थ। कोई वस्तु जो पानी जैसी पतली हो। जैसे, पाचक का पानी, फेले का पानी, नारियल का पानी।

मुहा०—पानी उतरना = (१) अटकप में पानी जैसी पतली चीज का नसों के द्वारा आकर एकत्र हो जाना, जिससे उसका परिमाण बढ़ जाता है। अटवृद्धि। (२) आँखों से प्रायः हर समय कुछ कुछ गरम पानी गिरना जिससे देखने की शक्ति मारी जाती है। नजला। पानी फरना = लोह या किसी ऐसे ही कड़े पदार्थ को गलाकर पानी की तरह तरल करना। पानी होना = किसी पदार्थ का गलकर पानी की तरह पतला हो जाना। जैसे,—सारा नमक गलकर पानी हो गया। मीठा पानी = लेमनेड। खारा पानी = सोडा वाटर। विलायती पानी = लेमनेड या सोडावाटर। गरम पानी = मद्य। शराब।

५ वह द्रव पदार्थ जो किसी चीज के निचोडने में या उसमें

निथरकर निकले किसी वस्तु का वह अणु जो जल के रूप में हो। रस। अर्क। जूस। जैसे, नीम का पानी, दाल का पानी। ६ चमक। ओप। आव। काति। छवि। जैसे, मोती का पानी। उ०—मोतिन मलिन जो होइ गइ कला। पुनि सो पानि कहीं निरमला।—जायसी (शब्द०)।

मुहा०—पानी देना = जला करना। चमकाना।

७ तलवार आदि धारदार हथियारों के लोहे का वह हलका स्याह रंग और उसपर चीटी के पैर के चिह्नों के से अक्र-त्रिम चिह्न जिनसे उसकी सतमता की पहचान होती है। (ऐसे लोहे की धार खूब तीक्ष्ण और कड़ी होती है)। आव जौहर। ८. मान। प्रतिष्ठा। इज्जत। आवरू। साख। उ०—(क) महमद हाशिम शका मानी। चपे चौधरी उतरयो पानी।—लाल (शब्द०)। (ख) बोली वचन हास करि रानी। राख्यो तुम पाडव कर पानी।—सबलसिंह (शब्द०)।

थौ०—पतपानी।

मुहा०—पानी उतरना = साख जाती रहना। इज्जत उतरना। मान न रह जाना। उ०—चपे चौधरी उतरयो पानी।—लाल (शब्द०)। पानी उतारना = अपमानित करना। इज्जत उतारना। उ०—जिन नहिं नेकु कानि मम मानी। दीन उतारि छनक मे पानी।—सबलसिंह (शब्द०)। पानी जाना = प्रतिष्ठा नष्ट होना। इज्जत जाना। मान न रह जाना। पानी बचाना = किसी की प्रतिष्ठा या आवरू की रक्षा करना। किसी की इज्जत बचाना। पानी रखना या पानी राखना (पु) = दे० 'पानी बचाना'। उ०—राख्यो तुम पाडव कर पानी।—सबलसिंह (शब्द०)। पानी लेना = किसी की प्रतिष्ठा या इज्जत नष्ट करना। किसी की वेश्या-वरुई करना। आवरू लेना। उ०—सुदर नयन निहारि लियो कमलन को पानी।—सूर (शब्द०)। वे पानी करना = प्रतिष्ठा नष्ट करना। पानी लेना।

थौ०—पानीदेवा।

६ वर्ष। साल। जैसे, पाँच पानी का सूअर अर्थात् ऐसा सूअर जिसने पाँच बरसों देखी हैं अर्थात् जिसके पाँच साल पूरे हो चुके हों। १० मुलम्मा।

क्रि० प्र०—चढ़ाना।—फेरना।

११ वीर्य। शुक्र। नुस्फा (बाजारू)।

मुहा०—पानी गिराना = स्त्रीप्रसंग करना। (बाजारू)।

१२ पुस्त्व। मरदानगी। जीवट। हिम्मत। स्वाभिमान। जैसे,—उसमें तनिक भी पानी नहीं है। १३ थोड़े आदि पशुओं की वशगत विशेषता या कुलीनता। घोड़े आदि की नस्ल। जैसे,—यह जानवर पानी और खेत का अच्छा है। १४ पानी की तरह ठंडा पदार्थ। जैसे,—तवा तो पानी हो रहा है।

मुहा०—पानी करना या कर देना = किसी के चित्त को ठंडा

कर देना। किसी का गुस्सा उतार देना। जैसे,—मैंने दो ही बातों में उन्हे पानी कर दिया। (किसी का) पानी होना या हो जाना = (१) क्रोध उतर जाना। गुस्सा जाता रहना। जैसे,—मुझे देखते ही वे पानी हो गए। (२) उग्रता या तेजी न रह जाना। मद पड़ जाना। धीमा हो जाना।

१५ एकवारगी, गीली, नरम या मुलायम चीज (अत्युक्ति)। १६ पानी की तरह फीका या स्वादहीन पदार्थ। जैसे,—(क) शोरवे में बस पानी का मजा है। (ख) दाल क्या है, विलकुल पानी है। १७ कुशती या लडाई आदि। इद्र युद्ध। जैसे,—(क) यह बटेर दो पानी हार चुका। (ख) इन दोनों में भी एक पानी हो जाने दो। १८ वार। वेर। दफा। जैसे,—अबकी उन्हे जहाँ दो पानी पीटा कि वे दुरुस्त हुए (बाजारू)। १९ मद्य। शराब (बोलचाल)। २० अवसर। समय। मौका। जैसे—अब वह पानी गया। २१ जलवायु। आवरू। जैसे,—यहाँ का पानी हमारे अनुकूल नहीं।

मुहा०—कड़ा पानी = ऐसी जलवायु जिसमें उत्पन्न या पले मनुष्य या पशु फुरतीले, शूर, साहसी, जीवटवाले, सहिष्णु तथा कट्टर स्वभाव के हो। नरम पानी = ऐसी जलवायु जिसमें उत्पन्न या पले मनुष्य या पशु मद, ढीले बदन के, जीवटहीन और असहिष्णु हो। पानी लगना = स्थानविशेष के जलवायु के कारण स्वास्थ्य बिगडना या कोई रोग होना। उ०—लागत अति पहार कर पानी। विपिन विपति नहिं जाय बखानी।—तुलसी (शब्द०)। २२ परिस्थिति। सामाजिक दशा। लोगों की चाल ढाल या रंग ढग। जैसे,—(क) बनारस का पानी ही ऐसा है कि रंग ढग बदल जाता है। (ख) अब उन्हें कलकत्ते का पानी लग चला।

विशेष—इस शब्द से केवल बुरी परिस्थिति, बदमाशी, चालढाल या चरित्र बिगडनेवाली सामाजिक दशा व्यजित होती है, अच्छी सामाजिक परिस्थिति नहीं।

मुहा०—पानी लगना = परिस्थिति का प्रभाव पडना। नए नए लोगों के साथ का असर पडना।

पानी (पु)^२—वशा पु० [स० पाणि] दे० 'पाणि'। उ०—जयति जय वज्र तनु, दसन, नख, मुख विकट, चंड भुजदड, तरु सैल पानी।—तुलसी प्र०, पु० ४६७।

पानी आलू—वशा पु० [स० पानीयालु] एक कद जो त्रिदोषनाशक है। पानीयालु।

पानीतराश—वशा पु० [पा०] जहाज का नाव के पेंदे में वह बडी लकड़ी जो पानी को चीरती है (लश०)।

पानीदार—वि० [हिं० पानी + पा० दार (प्रत्य०)] १, आवदार। चमकदार। २, इज्जतदार। माननीय। आवरूदार। ३, जीवटवाला। मरदाना। आनवाला। आत्माभिमानी।

पानीदेवा—वि० [हिं० पानी + देवा (= देनेवाला)] १ तर्पण या पिंडदान करनेवाला। २ पुत्र। तनय। तनुज। ३ अपने कुल का। स्ववशीय।

मुहा०—पानीदेवा न रह जाना = वश उच्छेद हो जाना। वश

... में पर भी व्यक्ति जीवित न ...

पानीपा - [] एक प्रसिद्ध जुद्धोप जो दिवनी श्रीर ...

विशेष - ... पानीपा ...

पानीपोट - [हि० पाना = पोटा] मुसताधार पानी ।

पानीपल - [हि० पानी + पल] विषाण ।

पानीपेल - [हि० पानी + पल] एक प्रकार की पत्ती ...

विशेष - ... पानीपेल ...

पानीप - [] १. पत्त । उ० - चरित प्रेम पानीप ...

पानीप - १. पत्त । उ० - चरित प्रेम पानीप ...

पानीपदाम - [] एक प्रकार का ...

पानीयफल - वृक्ष पुं० [सं०] मगना ।
पानीयमूलक - वृक्ष पुं० [सं०] बकुबी ।
पानीयवर्षिका - वृक्ष स्त्री० [सं०] बालू ।
पानीयशाला - वृक्ष स्त्री० [सं०] वह स्थान जहाँ प्यासो को पानी ...

पानीयशालिका - वृक्ष स्त्री० [सं०] 'पानीयशाला' ।
पानीयामलक - वृक्ष पुं० [सं०] पानी प्रविता ।
पानीयानु - वृक्ष पुं० [सं०] पानी पानु नामक कद । यह त्रिदोष- ...

पर्या० - अणुपालु । जलालु । रूपालु । अपालुक ।
पानीयारना - वृक्ष स्त्री० [सं०] एक प्रकार की घास । बल्वजा ।
पानूस(ु) - वृक्ष पुं० [पा० फानूस] २० 'फानूस' । उ० - बाल ...

पानी(ु) - वृक्ष पुं० [हि०] २० 'पानी' । उ० - जुग जुग विरह ...

पानीरां - वृक्ष पुं० [हि० पान + वरा] पान के पत्ते की पकीड़ी ।
उ० - पानीरा, रायता, पकीरी । तुमकीरी मुंगछी सुठि ...

पान्यो - वृक्ष पुं० [हि०] पानी । जल ।

पान्दूर - वृक्ष पुं० [सं०] एक प्रकार का सरपत ।

पाप - वृक्ष पुं० [सं०] १ वह कर्म जिसका फल इस लोक और ...

पर्या० - अधर्म । दुष्ट । पाप । क्लिष्ट । कदमप । वृजिन ।

विशेष - जिस प्रकार अतंज्य कर्म का करना पाप है, उसी ...

करने से नष्ट होते हैं। परंतु परानिष्टजनन पाप अर्थात् तत्काल वर्ता के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति का और कालांतर में कर्ता वा अपकार करनेवाले पाप, जैसे, चोरी, हिंसा, आदि ऐसे हैं जिनके सस्कार यथोचित राजदंड भुगत लेने से क्षीण होते हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि समाज के सामने अपना पाप प्रकट कर देने और उसके लिये अनुताप करने से वह क्षीण हो जाता है।

यौ०— पापपुण्य ।

मुहा०— पाप उदय होना = सचित पाप का फल मिलना। पिछले जन्मों के पाप का बदला मिलना। कोई भारी हानि या अनिष्ट होना जिसका कारण पिछले जन्मों के बुरे कर्म समझे जायें। जैसे,—कोई भारी पाप उदय हुआ है तभी उसको इस बुढ़ापे में लडके का शोक सहना पडा है। पाप कटना = पाप का नाश होना। प्रायश्चित्त या दंडभाग से पापसंस्कारों का क्षय होना। पाप कमाना या बढोरना = पाप कर्म करना। लगातार या बहुत से पाप करना। ऐसे बुरे कर्म करते जाना जिनका फल बुरा हो। भविष्यत् या जन्मांतर में दुख भोगने का सामान करना। पाप काटना = पाप से मुक्त करना। किसी के पाप का नाश कर देना। निष्पाप करना। पापरहित कर देना। पाप की गठरी या मोट = पापों का समूह। किसी व्यक्ति के सपूर्ण पाप। किसी के जन्म भर के पाप। पाप गलना = पाप पड़ना। पाप होना। दोष होना। जैसे,—(व) पापी के ससर्ग से भी पाप लगता है। (ख) ऐसे महात्मा की निंदा करने से पाप लगता है।

२ अयराव । वसूर । जुर्म । ३ वध । हत्या । ४ पापबुद्धि । बुरी नियत । बदनीयती । खोट । बुराई । जैसे,—उसके मन में अवश्य कुछ पाप है । ५ अनिष्ट । अहित । बुराई । खराबी । नुकसान । ६ कोई बलेशायक कार्य या विषय । परेशान करनेवाला काम या बात । बखेडे का काम । झूठ । जजाल । (केवल हिंदी में प्रयुक्त) ।

मुहा०— पाप कटना = बाधा कटना । झगडा दूर होना । जजाल छूटना । जैसे,—वह आप ही यहाँ से चला गया अच्छा हुआ, पाप कटा । पाप काटना = झगडा मिटाना । बला काटना । जजाल छुडाना । पाप मोल लेना = जान बूझकर किसी बखेडे के काम में फँसना । दर्द सर खरीदना । झगडे में पडना । पाप गले या पीछे लगना = अनिच्छापूर्वक किसी बखेडे या झूठ के काम में बहुत समय के लिये फँस जाना । कोई बाधा साथ लगना ।

७ कठिनाई । मुश्किल । सकट । (क्व०) ।

मुहा०— पाप पडना (७) — सामर्थ्य से बाहर हो जाना । मुश्किल पड जाना । कठिन हो जाना । उ — सीरे जतननि सिसिर ऋतु सहि विरहिन तनु ताप । वसिबे को ग्रीषम दिननि परयो परोसिनि पाप ।— विहारी (शब्द०) ।

८. पापग्रह । क्रूरग्रह । अशुभग्रह ।

पाप^२— वि० १ पापयुक्त । पापिष्ठ । पापी । २ दुष्ट । दुरात्मा । दुराचारी । बदमाश । ३ नीच । कमीना । ४ अशुभ । अमंगल ।

विशेष— पाप शब्द का विशेषण के रूप में अकेले केवल सरकृत में व्यवहार होता है । हिंदी में वह समास के साथ ही आता है । जैसे, पापपुरुष, पापग्रह, आदि ।

पापक^१— सज्ञा पु० [सं०] पाप ।

पापक^२— वि० पापयुक्त । पापी ।

पापकर— वि० [सं०] पापी । पाप करनेवाला [को०] ।

पापकर्म— सज्ञा पु० [सं०] अनुचित कार्य । बुरा काम । वह काम जिसके करने में पाप हो ।

पापकर्मा— वि० [सं० पापकर्मन्] पापी । पातकी ।

पापकमी^१— वि० [सं० पापकर्मिन्] [वि० स्त्री० पापकर्मिणी] पाप करनेवाला । पापी ।

पापकल्प— वि० [सं०] पापी का सा आचरण रखनेवाला । पापी तुल्य । दुष्कर्मी । पापकर्म से जीविका करनेवाला । बदमाश ।

पापकारक— वि० [सं०] पाप करनेवाला । पापी [को०] ।

पापकारी— वि० [सं० पापकारिन्] पाप कर्म करनेवाला [को०] ।

पापकृत्— वि० [सं०] दे० 'पापकारक' [को०] ।

पापक्षय— सज्ञा पु० [सं०] १ पापों का नष्ट होना । २ वह स्थान जहाँ जाने से पापों का नाश हो । तीर्थ ।

पापगण— सज्ञा पु० [सं०] छद्म शास्त्र के अनुसार ठगण का आठवाँ भेद ।

पापगति— वि० [सं०] भाग्यहीन । अभागा [को०] ।

पापग्रह— सज्ञा पु० [सं०] १ फलित ज्योतिष के अनुसार कृष्णाष्टमी से शुक्लाष्टमी तक का चंद्रमा । वह चंद्रमा जो देखने में आधे से कम हो । २ फलित ज्योतिष के अनुसार सूर्य, मंगल, शनि और राहु, केतु ये ग्रह, अथवा इनमें से किसी ग्रह से युक्त बुध । ये ग्रह अशुभ फलकारक माने जाते हैं । उ० — पापग्रह तृतीय, षष्ठ, दशम, एकादश में हो । — बृहत्०, पु० ३०१ ।

पापघ्न^१— सज्ञा पु० [सं०] तिल ।

पापघ्न^२— वि० पापनाशक । जिससे पाप नष्ट हो ।

पापघ्नी— सज्ञा स्त्री० [सं०] तुलसी ।

पापचंद्रमा— सज्ञा पु० [सं० पापचन्द्रमा] फलित ज्योतिष के अनुसार विशाखा और अनुराधा नक्षत्र के दक्षिण भाग में स्थित चंद्रमा ।

पापचर— वि० [सं०] [वि० स्त्री० पापचरा] पापाचारी । पापी ।

पापचर्य— सज्ञा पु० [सं०] १ राक्षस । यातुधान । २ पाप में रत । पापी [को०] ।

पापचारी— वि० [सं० पापचारिन्] [वि० स्त्री० पापचारिणी] पापी । पाप करनेवाला । पातकी ।

पापचेता— वि० [सं० पापचेतस्] बुरे चित्तवाला । जिसके चित्त में सदा पाप बसता हो । दुष्टचित्त ।

पापनिर्दिष्टा— [] पदम् ।

पापनिर्दिष्टा— [] पदम् ।

पापनिर्दिष्टा— [] पदम् । अशुभ या अशुभ

पापनिर्दिष्टा— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापनिर्दिष्टा— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापनिर्दिष्टा— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

विशेष- अशुभ अशुभ [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापनिर्दिष्टा— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापनिर्दिष्टा— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

विशेष- अशुभ अशुभ [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापनिर्दिष्टा— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

विशेष- अशुभ अशुभ [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

जाती है। इसकी लपटी पीलापन लिए संकेत होती है और

पापदर्शी— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापदृष्टि— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापधी— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापनक्षत्र— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापनापित— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापनामा— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापनासक— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापनाशन— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापनाशिनी— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापनिश्चय— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापनिष्कृति— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापपति— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापपुरुष— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

विशेष— अशुभ अशुभ [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापफल— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापवृद्धि— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापभङ्ग— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापमाह— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापमति— [] पदम् । अशुभ अशुभ [] ।

पापमय—वि० [सं०] [वि० स्त्री० पापमयी] जिसमें सर्वत्र पाप ही पाप हो। पाप से श्रोतप्रोत। पाप से भरा हुआ। जो सर्वदा पापवासना या पापचेष्टा में लिप्त रहे।

पापमित्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दुष्ट मित्र। अहित करनेवाला साथी [को०]।

पापमुक्त—वि० [सं०] जिसे पापों से छुटकारा मिल गया हो। निष्पाप [को०]।

पापमोचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पापों का नाश करने की क्रिया। पाप का प्रक्षालन। २ पापों का नाश करनेवाला देवता, सत, तीर्थ आदि [को०]।

पापमाचनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] चैत्र कृष्णपक्ष की एकादशी।

पापयक्ष्मा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] राजयक्ष्मा। क्षयरोग। तपेदिक।

पापयोनि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] निकृष्ट या निन्दित योनि। पाप से प्राप्त होनेवाली योनि। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य पशु, पक्षी, वृक्ष आदि की योनि। उ०—स्त्री, वैश्य, शूद्र और पापयोनि कह कह जो धर्माचरण के अनधिकारी समझे जाते थे।—ककाल, पृ० १५३।

पापर^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्वत] दे० 'पापड'। उ०—फेनी पापर भुजे भए अनेक प्रकार। भइ जाउर भिजयावर सीभी सब ज्योनार।—जायसी (शब्द०)।

पापर^२—सञ्ज्ञा पुं० [अ० पाँपर] १ मुफलिस आदमी। निर्धन व्यक्ति। २ वह व्यक्ति जो मुफलिसी या निर्धनता के कारण दीवानी में बिना किसी प्रकार के अदालती रसूम या खर्च के किसी पर दावा दायर करने या मामला लड़ने की स्वीकृति पाता है।

विशेष—ऐसे व्यक्ति को पहले प्रमाणित करना पड़ता है कि मैं मुफलिस हूँ। दावा दायर करने या मामला लड़ने के लिये मेरे पास पैसा नहीं है। अदालत को विश्वास हो जाने पर वह उसे अदालती रसूम या खर्च से बरी कर देता है। पर हाँ, मामला जीतने पर उसे खर्च देना पड़ता है।

पापरोग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. वह रोग जो कोई विशेष पाप करने से होता है। पापविशेष के फल से उत्पन्न रोग।

विशेष—धर्मशास्त्रानुसार कुण्ठ, यक्ष्मा, कुनख, श्यावदंत (दाँतों का काला या बदरग होना), पीनस, प्रूतिवक्षत्र (श्वासवायु से दुर्गंध निकलना), हीनांगता, शिवत्र, श्वेतकुण्ठ, पगुत्व, मूकता, लोलजिह्वता, उन्माद, अस्मार, अधत्व, काण्ठत्व, आमर (सिर में चक्कर आना), गुल्म, श्लीपद (फीलपा) आदि रोग पापरोग माने गए हैं जो ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्णहरण आदि विशेष विशेष पापों के कर्तों को नरक और पशु, कीट, पतंग आदि की योनियों से पुनः मनुष्यजन्म प्राप्त करने पर होते हैं।

२ मसूरिका। वसंत रोग। छोटी माता।

पापरोगी—वि० [सं० पापरोगिन्] [वि० स्त्री० पापरोगिणी] पापरोगयुक्त। जिसे कोई पापरोग हुआ हो।

पापधि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पापधि] भृगया। अखेट। शिकार।

विशेष—भृगया से पाप की ऋद्धि (बढ़ती) होना माना गया है, इसी से उसकी पापधि सज्ञा हुई।

पापल^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्राचीन परिमाण [को०]।

पापल^२—वि० १ जो पाप का कारण या हेतु हो। २. पाप लेनेवाला। पापग्राहक (को०)।

पापलेन—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पापलिन] एक सूती कपड़ा। एक प्रकार का डोरिया।

पापलोक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० पापलोक्य] पापियों के रहने का स्थान। पापी को मिलनेवाला लोक। नरक।

पापलोक्य—वि० [सं०] १. नरक का। नारकीय। २ नरक से सबंध रखनेवाला। नरक [को०]।

पापवाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अशुभसूचक शब्द। अमंगल ध्वनि। कौवे आदि की ऐसी बोली जो अशुभसूचक मानी जाय।

पापविनाशन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पाप का नाश करने की क्रिया। पापमोचन [को०]।

पापशमनी^१—वि० स्त्री० [सं०] पापनाशिनी। पापनिवारिणी।

पापशमनी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० शमीवृक्ष।

पापशोधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पाप से शुद्ध होने की क्रिया या भाव। पापनिवारण। २ तीर्थस्थान।

पापसंकल्प—वि० [सं० पापसंकल्प] पापनिश्चय। जिसने पाप करने का पक्का इरादा कर लिया हो।

पापसूदनतीर्थ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्राचीन तीर्थ स्थान।

पापहर^१—वि० पुं० [सं०] पापनाशक। पापहारक।

पापहर^२—सञ्ज्ञा पुं० एक नदी का नाम।

पापहा—वि० [सं० पापहर्] पाप का नाशक। पाप का हनन करनेवाला।

पापाकुशा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पापाकुशा] आश्विन मास की शुक्ला एकादशी।

पापति—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पापान्त] पुराणानुसार एक तीर्थ का नाम।

पापा^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] बुध की उस समय की गति जब वह हस्त, अनुराधा अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र में रहता है। पापाख्या।

पापा^२—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक छोटा कीड़ा जो ज्वार, बाजरे आदि की फसल में प्रायः उस वर्ष लग जाता है जिस वर्ष बरसात अधिक होती है।

पापा^३—सञ्ज्ञा पुं० [अनु०] १ बच्चों की एक स्वाभाविक बोली या शब्द जिससे वे बाप को संबोधित करते हैं। धावू। पिता के लिये संबोधन। उ०—पापा। अम छेर कन्ने जा रहे हैं।—अस्मावृत्त०, पृ० १७।

विशेष—इस समय प्रायः युरोपियनों ही के बच्चे इस शब्द का प्रयोग करते हैं।

२. प्राचीन काल में बिशप पादरियों और वर्तमान में केवल

यूनानी पादरियो के एक विशेष वर्ग की सम्मानसूचक उपाधि ।

पापाख्या—सज्ञा स्त्री० [सं०] बुध की उस समय की गति जब वह हस्त, अनुराधा अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र में रहता है । पापा ।

पापाचरण—सज्ञा पुं० [सं०] पाप का आचरण । पापपूर्ण कार्य । उ०—पुण्यात्मा होता है पुण्याचरण से और पापात्मा पापाचरण से ।—सं०, दरिया (भू०), पु० ६० ।

पापाचार^१—सज्ञा पुं० [सं०] [वि० पापाचारी] पाप का आचरण । पापकार्य । दुराचार ।

पापाचार^२—वि० पाप का आचरण करनेवाला । पापी । दुराचारी ।

पापात्मा—वि० [सं० पापात्मन्] जिसकी आत्मा सदा पापकर्म में फँसी या लिप्त रहे । पाप में अनुरक्त । पापी । दुष्टात्मा ।

पापाघम—सज्ञा पुं० [सं०] महापापी । अत्यन्त पापी (को०) ।

पापानुबन्ध—सज्ञा पुं० [सं० पापानुबन्ध] पाप का परिणाम । पाप का फल (को०) ।

पापानुवसित—वि० [सं०] पापात्मा । पापी (को०) ।

पापापनुत्ति—सज्ञा पुं० [सं०] पाप दूर करना । प्रायश्चित्त (को०) ।

पापारम्भ—वि० [सं० पापारम्भ] पाप कर्म करनेवाला । पापी (को०) ।

पापाशय—वि० [सं०] मन में पाप रखनेवाला । पापचेता (को०) ।

पापाह—सज्ञा पुं० [सं०] १ अशौच का दिन । सूतक काल । २ निर्दिष्ट दिन । अशुभ दिन ।

पापाही—सज्ञा पुं० [सं० पापाहि] सर्प । साँप ।

पापिग्रह^१—सज्ञा पुं० [सं०] अशुभ ग्रह । दे० 'पापग्रह' । उ०—एक नक्षत्र में चार या पाँच पापिग्रहों के मिलने से सर्वात् कहा जाता है ।—बृहत्० पु० १०८ ।

पापिष्ठ—वि० [सं०] अतिशय पापी । बहुत बड़ा पापी । जो सदा पाप करता रहता हो । बहुत बड़ा गुनहवार ।

पापी^१—वि० [सं० पापिन्] [वि० स्त्री० पापिनी] १. पाप में रत या अनुरक्त । पाप करनेवाला । पापयुक्त । अधी । पातकी । उ०—(क) परगट गुप्त सरव विभापी । धर्मो चीन्ह न चीन्है पापी ।—जायसी (शब्द०) । २ क्रूर । निर्दय । नृशंस । परपीडक ।

पापो^२—सज्ञा पुं० पाप करनेवाला व्यक्ति । पापकारी । अपराधी वा दुराचारी मनुष्य ।

पापीयसी—वि० स्त्री० [सं०] [वि० पुं० पापीयस्] अत्यन्त । पापिनी । अधिक पापवाली । उ०—मम सदृश मही में कौन पापीयसी है । हृदयमणि गँवा के नाथ जो जीविता है ।—प्रिय०, पु० ८१ ।

पापोश—सज्ञा पुं० [फ्रा०] जूता । उपानह ।

पापोशकार—वि० [फ्रा०] जूते बनानेवाला । मोची । (को०) ।

पापोशकारी—सज्ञा स्त्री० [फ्रा०] १ जूता बनाने का काम । २ जूते पडना । जूतों से किसी की मरम्मत (को०) ।

पापोस—सज्ञा पुं० [फ्रा० पापोश] पापोश । जूता । उ०—ग्रज्ज पुन्न पुरिसथ्य पातिसाह पापोस पाइअ ।—वीरि०, पु० ५८ ।

पाप्मा^१—सज्ञा पुं० [सं० पाप्मन्] १ पाप । २ दोष । अपराध (को०) । ३ अभाग्य । दुर्भाग्य (को०) ।

पाप्मा^२—वि० १ पापी । २ अपराधी (को०) ।

पावद—वि० [फ्रा०] [सज्ञा स्त्री० पावदी] १ वैधा हुमा । वद्ध । अस्वाधीन । कैद । २ किसी नियम, आज्ञा, वचन आदि के पूर्ण रूप से अधीन होकर काम करनेवाला । आचरण में किसी विशेष बात की नियमपूर्वक रक्षा करनेवाला । किसी बात का नियमित रूप से अनुसरण करनेवाला । नियम प्रतिज्ञा आदि का पालनकर्ता । जैसे,—(क) मैं तो सदा आपके हुक्म का पावद रहता हूँ । (ख) वे जन्म भर में कभी अपने वादे के पावद नहीं हुए । ३ नियम अथवा न्यायत कोई विशेष कार्य करने के लिये बाध्य या लाचार । जो किसी वस्तु का अनुसरण करने के लिये बाध्य हो । नियम, प्रतिज्ञा, विधि, आदेश आदि का पालन करने के लिये विवश । जैसे,—(क) जो प्रतिज्ञा मुझपर दवाव डालकर कराई गई उसका पावद मैं क्यों होंऊँ ? (ख) आपका हर एव हुक्म मानने के लिये मैं पावद नहीं हूँ ।

पावद^२—सज्ञा पुं० १. छोटे की पिछाड़ी । २. वेडी (को०) । ३. नौकर । दास । सेवक ।

पावदी—सज्ञा स्त्री० [फ्रा०] १ पावद होने का भाव । बद्धता । अधीनता । उ०—सरकारी उच्च पदों से हिंदू वचित थे । उनके सामाजिक कार्यों पर पावदियाँ थीं ।—प्रक०, पु० १२ । २ मजदूरी । लाचारी । ३ किसी वस्तु के अधीन हाकर काम करने का भाव । नियमित रूप से किसी बात का अनुसरण । नियम, प्रतिज्ञा, आदेश, विधि आदि का पालन । जैसे,—वे सदा अपने वादों की पावदी करते हैं । ४ कोई विशेष कार्य करने की बाध्यता या लाचारी । किसी वस्तु के अनुसरण की आवश्यकता । किसी कार्य का अवश्य-कर्तव्य या फज होना । जैसे,—आपकी सभी आज्ञाओं की मुझपर कोई पावदी नहीं है ।

पाघोर—सज्ञा पुं० [हिं० पा + घोरना] कहारो अथवा डोली डोने-वाली की बोलचाल में वह स्थान जहाँ कुछ अधिक पानी हो । वह स्थान जहाँ घुटने तक या घुटना डूबने भर पानी भरा हो ।

विशेष—रास्ते में जब कहीं ऐसा स्थान पडता है जिसमें कुछ अधिक पानी भरा होता है तब भगले कहार इत शब्द को कहकर पिछले कहारों को सावधान करते हैं ।

पावोस—वि० [फ्रा०] १ आदर प्रणाम करनेवाला (को०) । पँर झूनेवाला ।

पावोसी—सज्ञा स्त्री० [फ्रा०] पँर छूना । प्रणाम करना । पँर छूमना (को०) ।

पाम^१—सज्ञा स्त्री० [देश०] १ वह डोरी जो गोटे, किनारी आदि के किनारों पर मजदूरी के लिये बुनते समय डाल दी जाती है । २ लड़ । रस्सी । डोरी । (लथ०) ।

पाम^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पामन्] १. दानेदार चकत्ते या फुसियां जो चमड़े पर हो जाती हैं। २. खाज। खुजली।

पाम^३—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पाँव] दे० 'पाँव'। उ०—अरी अनोली वाम, तू आई गौने नई। बाहर घरसिन पाम, है छलिया तुव ताक में।—रसखान०, पृ० १६।

पामघन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गधक।

पामघनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कृटकी।

पामड़ा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पाँव + ढा (प्रत्य०)] दे० 'पावँडा'। उ०—सी सी कै उरुके भुके चलत रुके यदुराय। नव मखमल के पामड़े हाय गडे ये पाय।—शृंगारसतसई (शब्द०)।

पामन्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पाम'।

पामन—वि० [सं०] जिसे या जिसमें पाम रोग हुआ हो।

पामना—क्रि० सं० [हिं० पावना, पाना] प्राप्त करना। पाना। उ०—सुचिता होय भजो साहबनो, पामे सदगत प्राणी।—रघु० रू०, पृ० २७।

पामर—वि० [सं०] १ खल। दुष्ट। कमीना। पाजी। उ०—अरे पामर जयचन्द्र ! तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या हुवा जाता था ?—भारतेंद्रु प्र०, भा० १, पृ० ४७१।

पामरयोग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का निकृष्ट योग जिसके द्वारा भारतवर्ष के नट, बाजीगर आदि अद्भुत अद्भुत लोग के खेल किया करते हैं। इसके साधन से अनेक रोगों का नाश और अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति होना माना जाता है। कुछ लोग इसे 'मिस्मेरिजम' के अर्थात् मानते हैं।

पामरी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रावार] उपरना। दुपट्टा। उ०—मोही साँवरे सजनी तव ते गृह मोको न सोहाई। द्वार अचानक होइ गए री सुदर बदन दिखाई। ओढ़े पीरी पामरी पहिरे लाल निचोल। भौंहेँ काँट कटीलियाँ सिख कीन्ही विन मोल।—सूर (शब्द०)।

पामरी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पाँव+री (प्रत्य०)] दे० 'पावँडी'। उ०—छोटे छोटे नूपुर सो छोटे छोटे पावँन मे छोटी जरकसी लसी सामरी सु पामरी।—रघुराजसिंह (शब्द०)।

पामारि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गधक।

पामाल—वि० [फ्रा० पा+माल (=मलना, दलना, रौंदना)] [सञ्ज्ञा पामाली] १ पैर से मला हुआ। रौंदा हुआ। पादाक्रांत। पददलित। २ तवाह। बरवाद। चौपट। सत्यानाश।

पामाली—सञ्ज्ञा स्त्री० [फ्रा०] तवाही। बरवादी। नाश।

पामोज—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पा+मोजा ?] १. एक प्रकार का कबूतर जिसके पैर की उँगलियाँ तक परो से ढँकी रहती हैं। २. वह घोड़ा जो सवारी के समय सवार की पिछली को अपने मुँह से पकड़ता है।

पायंटमैन—सञ्ज्ञा पुं० [अ० प्वायंट्समैन] वह आदमी जिसके जिम्मे रेलवे लाइन इधर से उधर करने या बदलने की कल रहती है।

पायंदगी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फ्रा०] नित्यता। इस्तकलाख। स्थायित्व। उ०—किया नीर कूँ चम ए जिदगी। पवन कूँ दिया उम्र पायंदगी।—दक्खिनी०, पृ० ११७।

पायदा—वि० [फ्रा० पायंदह] अविनाशी। स्थायी। नित्य [को०]

पायंदाज—सञ्ज्ञा पुं० [फ्रा० पायंदाज] पैर पोछने का बिछावन। फर्श के किनारे का वह मोटा कपड़ा जिसपर पैर पोंछकर तब फर्श पर जाते हैं। उ०—इगपग पोछन को किए भूषण पायदाज।—विहारी (शब्द०)।

पायँ^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाद] दे० 'पाँव'। उ०—पायँ परी फगुआ नव देहों मुरली देहु अँकोर।—नद० ग्र०, पृ० ३५६।

पायँचा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पाँव] पाजामे का वह भाग जो पाँव को ढकता है। उ०—हाथ में पायँचा लेकर निखरी आती है।—भारतेंद्रु प्र०, भा० २, पृ० ७६०।

पायँजेहरि—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पायँ+जेहरी] पैर में पहनने का घुँघरूदार गहना। पायजेव।

पायँत—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पायँती'।

पायँता—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पायँ+सं० स्थान, हिं० थान] १ पलंग या चारपाई का वह भाग जिधर पैर रहता है। सिरहाने का उलटा। पैताना। २ वह दिशा जिधर सोनेवाले के पैर हो। जैसे,—तुम्हारे पायँते रखा हुआ है, उठकर ले लो।

पायँसी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] हिं० पायँता] पायँता। पैताना।

पायँपसारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] निर्मली का पौधा या फल।

पाय^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जल। पानी [को०]।

पाय^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाद] पैर। पाँव। उ०—बादल केरि जसोवे माया। आइ गहेसि बादल कर पाया।—जायसी, (शब्द०)।

पायक^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पादातिक, पायिक] १ घावन। दूत। हरकारा। उ०—है दससीस मनुज रघुनायक ? जाके हनुमान से पायक।—तुलसी (शब्द०)। २ दास। सेवक। अनुचर। ३ पैदल सिपाही। उ०—असी लक्ष पायक सहित, चढ्यो अलाउद्दीन।—हम्मौर०, पृ० २४।

पायक^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पान करनेवाला। पीनेवाला।

पायकक^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पताका] ध्वजा। पताका। उ०—पायकक वधु डोंगर सुवीर।—प० रासो, पृ० १०६।

पायखाना—सञ्ज्ञा पुं० [फ्रा० पाखानह] दे० 'पाखाना'।

पायज—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] मूत्र। पेशाब।

पायजामा—सञ्ज्ञा पुं० [फ्रा० पाजामह] दे० 'पाजामा'।

पायजेव—सञ्ज्ञा स्त्री० [फ्रा० पाजेव] दे० 'पाजेव'। उ०—बिछिया पग राई वेलि चित्त की गति हरती, पकज को पायजेव पायजेव करती।—भारतेंद्रु प्र०, भा० २, पृ० ४३६।

पायठ—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पाइठ'।

पायड़ा^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पैडा'।

पायड़ा^२—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पायँ] रकाव। पाँव अड़ाने का स्थान।

- उ०—हरि घोडा ब्रह्मा कडी, विस्नु पीठ पलान । चद सुर
हूँ पायडा, चढ़सी सत सुजान ।—सतवाणी०, पृ० ३८ ।
- पायतख्त—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पायतख्त, पायतख्त] राजनगर ।
शासनकेंद्र । राजधानी ।
- पायतावा—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] खोली की तरह का पैर का एक
पहनावा जिससे उँगलियों से लेकर पूरी या आधी टाँगें ढकी
रहती हैं । मोजा । जुरबि ।
- पायदल—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पैदल' । उ०—कहे कासी पढत
लाल भँडे बहुत । पायदल जावे तहत क्या खबर लाव ।—
दक्खिनी, पृ० ४६ ।
- पायदान—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पायदान] दे० 'पावदान' ।
- पायदार—वि० [फा०] बहुत दिनों तक टिकनेवाला । बहुत दिनों
तक चलनेवाला । जल्दी न टूटने फूटने या नष्ट होनेवाला ।
टिकाऊ । दृढ़ । मजबूत ।
- पायदारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] मजबूती । दृढ़ता ।
- पायन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पिलाना [को०] ।
- पायना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ तेज करना । सान धरना । २ पिलाने
की क्रिया । ३ आर्द्र करना । सीचना । गीला करना [को०] ।
- पायपोश—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] दे० 'पापोश' ।
- पायवोसी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पावोसी] चरणचुवन । पैर घुमना ।
- पायमाल—वि० [फा० पामाल, पायमाल] १ पैरों से रौंदा हुआ ।
२ विनष्ट । बरबाद । ध्वस्त । उ०—तुलसी गरव तजि,
मिलिवे को साज सजि, देहि सिय नतु पिय पायमाल
जाहिगो ।—तुलसी (शब्द०) ।
- पायमाली—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पामाली] १ दुर्गति । अधोगति । २.
खराबी । बरबादी । नाश ।
- पायर^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पायल] मूपुर । पायजेव । उ०—
नटनागर पायर पापन में, वृषभानु सुता यो बह्यो करिए ।
अहो माखन चोर ! यही विधि सो, मम आखिन वीच रह्यो
करिए ।—नट०, पृ० ७५ ।
- पायरा^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पायदा, पाय + रा (= रखना)] घोड़े की
जीन या चारजामे के दोनों ओर लटकता हुआ पट्टी या तसमें
मे लगा हुआ लोहे का आधार जिसपर सवार के पैर टिके
रहते हैं । रकाव ।
- पायरा^२—सञ्ज्ञा पुं० [दे०] एक प्रकार का कवूतर ।
- पायरोई—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पाँवरी] दे० 'पाँवडी' । उ०—अखियाँ
भरि आवती मेरी अर्जो सुमिरे उनकी पग पायरियाँ ।—
प्रेमघन०, भा० २, पृ० १८८ ।
- पायल—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पाय + ल (प्रत्य०)] १ पैर में पहनने
का स्त्रियों का एक गहना जिसमें धुंवरू लगे होते हैं । मूपुर ।
पाजेव । उ०—ब्रजनी पंजनी पायली मनभजनी पुर वाम ।
रजनी नींद न परति है सजनी बिन घनस्याम ।—स०
सप्तक, पृ० २३७ । २ तेज चलनेवाली हथिनी । ३ वह वच्चा

जन्म के समय जिसके पैर पहले बाहर हो । ४ बाँस
की सीढ़ी ।

- पायस^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. दूध और शर्करा के साथ पकाया हुआ
चावल । खीर । २. क्षीर । दुग्ध । दूध (को०) । ३. सरल-
निर्यास । सलई का गोंद जो विरोजे की तरह का
होता है ।
- पायस^२—वि० दूध या जल का । दुग्ध या जल से सवद्ध [को०] ।
- पायसा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पायस, हिं० पास] पडोस । आसपास
का स्थान । उ०—दौरानी जेठानी सामु ननद सहेली दासी
पायसे की वासी तिय तिनके हो गोल में ।—रघुनाथ
(शब्द०) ।
- पायसिक—वि० [सं०] [वि० स्त्री० पायसिकी] जिसे उवाला या
औटाया हुआ दूध प्रिय हो [को०] ।
- पाया—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाद, हिं० पाव फा० पायहू] १. पलंग, कुर्सी,
चौकी, तख्त आदि में खड़े ढंढे या खभे के आकार का वह
भाग जिसके सहारे उसका ढाँचा या तल ऊपर ठहरा रहता
है । गोडा । पावा । जैसे, तख्त का पाया, पलंग के चारों पाये ।
२. खंभा । स्तम्भ । ३. पद । दरजा । रुतवा । ओहदा । ४.
घोड़ों के पैर में होनेवाली एक बीमारी । ५. सीढ़ी । जीना ।
- पायाब—वि० [फा०] हलकर पार करने लायक । उथला । जो
गहरा न हो । गाध [को०] ।
- पायाबी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] गाधता । छिछलापन । उथलापन [को०] ।
- पायान^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रयाण] १. गमन । प्रयाण । उ०—
सुभ्रित सकल लिय बोलि पुच्छि परिहार तिनहि मत । चाहु-
आन पायान कहत आखेट जुद्ध बत ।—पु० रा०, ७ । ६५ ।
२. आक्रमण । चढ़ाई । हमला । घाना । उ०—पायान राय जय-
चद को विगरि पिथ्य कुन लगमै ।—पु० रा०, ६१ । १०६० ।
- पायिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वास्तव में पादातिक का प्रा० रूप] १
पादातिक । पैदल सिपाही । २. दूत । चर ।
- पायित—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] उदकदान । जल देना । जलप्रदान [को०] ।
- पायी—वि० [सं० पायिन्] पीनेवाला ।
- पायु—ज्ञा पुं० [सं०] १. मलद्वार । गुदा । उ०—ओत्र त्वक चक्षु
घ्राण रसना रस को ज्ञान वाक्य पाणिपाद पायु उपस्थ हि
बध क्षु ।—सुंदर अ०, भा० २, पृ० ५८८ ।
- विशेष—पायु कर्मद्रियों में माना गया है ।
२. भरद्वाज ऋषि के एक पुत्र का नाम । ३. रक्षक । वह जो
रक्षा करे । गोसा । पालक [को०] ।
- पायुभेद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चंद्रग्रहण के मोक्ष का एक प्रकार जिसमें
मोक्ष या तो नैऋत कोण या वायु कोण से होता है ।
- विशेष—यदि नैऋत कोण से मोक्ष हो तो उसे दक्षिण पायुभेद
और यदि वायु कोण से हो तो वाम पायुभेद कहते हैं । इन
दोनों प्रकार के मोक्षों से सामान्य गुह्य पीडा और सुवृष्टि
होती है ।

पाठ्य^१—वि० [सं०] १ पान करने के योग्य । पीने के लायक । २. निम्न । निदनीय [को०] ।

पाठ्य^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ जल । २ परिमाण (को०) । ३ पेशा । व्यवसाय (को०) । ४ रक्षण (को०) । ५ पीना । पान करना (को०) ।

पारंगत—वि० [सं० पारङ्गत] १ पार गया हुआ । २ जिसने किसी शास्त्र या विद्या को पढ़कर पार किया हो । जिसने किसी विषय को आदि से अत तक पूरा पढ़ा हो । पूर्ण पंडित । पूरा जानकार । दे० 'पारंगत' ।

पारंपरीय—वि० [सं० पारम्परीय] परंपरागत । एक के पीछे दूसरा इस क्रम से बराबर चला आता हुआ ।

पारंपर्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पारम्पर्य] १. परंपरा का भाव । २. परंपराक्रम । ३ कुलक्रम । वंशपरंपरा । ४ आम्नाय । परंपरा से चली आती हुई रीति ।

यौ०—पारंपर्यक्रम = परंपरा से चला आता हुआ क्रम या सरणि ।

पारंपर्येण—क्रि० वि० [सं० पारम्पर्येण] क्रमशः । एक के बाद एक के क्रम से [को०] ।

पारंपर्योपदेश—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पारम्पर्योपदेश] परंपरा से चला आता हुआ उपदेश । ऐतिहासिक जो प्रमाण के रूप में माना जाता है [को०] ।

पारभ(उ)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रारभ] दे० 'प्रारभ' । उ०—चिति मत आरभ सेन पारभ विचारिय । बाल बीर प्रथिराज देइ नहिं परिहारिय ।—पृ० रा०, ७।२८ ।

पार^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ किसी दूर तक फैली हुई वस्तु के विशेषतः नदी, समुद्र, झील, ताल आदि जलाशयों के आमने सामने के दोनों किनारों में उस किनारे से निम्न किनारा जहाँ (या जिसकी ओर) अपनी स्थिति हो । दूसरी ओर का किनारा । अपर तट की सीमा । जैसे,—(क) यह नाव पार जायगी । (ख) जंगल के पार गाँव मिलेगा । (ग) वे पार से आ रहे हैं । (घ) नदी पार के आम अच्छे होते हैं । उ०—अगद कहइ जाऊँ मैं पारा । जिय ससय कछु फिरती बारा ।—तुलसी (शब्द०) ।

विशेष—इस शब्द के साथ सप्तमी की विभक्ति 'मे' प्रायः लुप्त ही रहती है, इससे इसका प्रयोग अव्ययवत् ही जान पड़ता है ।

यौ०—आरपार = (१) यह किनारा और वह किनारा । (२) इस किनारे से उस किनारे तक । जैसे,—नाले के आरपार लकड़ी का एक बल्ला रख दो । धारपार = यह किनारा और वह किनारा । जैसे,—जब नाव बीच धार में पहुँची तब वार-पार नहीं सूझता था ।

मुहा०—पार उतरना = (१) नदी आदि के बीच से होते हुए दूसरे किनारे पर पहुँचना । (२) जिस काम में लगे रहे हो उसे पूरा कर चुकना । किसी काम से छुट्टी पाना । (३) मतलब को पहुँचना । सिद्धि या सफलता प्राप्त करना । (४) मरकर समाप्त होना । मर मिटना (स्त्रि०) । पार उतर

जाना = दे० 'पार उतरना' (१), (२), (३), (४) और (५) । मतलब साधकर अलग हो जाना । किनारे हो जाना । जैसे,—तुम तो ले देकर पार उतर गए, बोक भेरे सिर पड़ा । पार उतारना = (१) दूसरे किनारे पर पहुँचना । जल आदि के ऊपर का रास्ता तै कराना । (२) पूरा कर चुकना । समाप्ति पर पहुँचना । (३) उद्धार करना । दुःख या कष्ट से बाहर करना । उवारना । उ०—रघुवर पार उतारिए, अपनी ओर निहारि ।—(शब्द०) । (४) समाप्त करना । ठिकाने लगाना । मार डालना । (नदी आदि) पार करना = (१) नदी आदि के बीच से होते हुए उसके दूसरे किनारे पर पहुँचना । जल आदि का मार्ग तै करना । (२) पूरा करना । समाप्ति पर पहुँचना । तै करना । निवटाना । भुगताना । (३) निवाहना । बिताना । जैसे, जिंदगी पार करना । (किसी वस्तु या व्यक्ति को नदी आदि के) पार करना = (१) नदी आदि के बीच से ले जाकर दूसरे किनारे पर पहुँचना । जैसे, नाव को पार करना, किसी आदमी को पार करना । (२) दुर्गम मार्ग तै कराना । (३) कष्ट या दुःख के बाहर करना । उद्धार करना । पार लगाना = नदी आदि के बीच से होते हुए उसके दूसरे किनारे पर पहुँचना । किसी का पार लगाना = निर्वाह होना । जीवन के दिन काटना । कालक्षेप होना । जैसे,—तुम्हारा कैसे पार लगेगा ? (इस मुहा० में 'वेडा' शब्द लुप्त समझना चाहिए) । किसी से पार लगाना = पूरा हो सकना । हो सकना । जैसे—तुम्हारा काम हमसे नहीं पार लगेगा । पार लगाना = (१) किसी वस्तु के बीच से ले जाकर उसके दूसरे किनारे पर पहुँचना । उ०—हरि मोरी नैया पार लगा ।—गीत (शब्द०) । (२) कष्ट या दुःख के बाहर करना । उद्धार करना । जैसे,—ईश्वर ही पार लगावे । (३) पूरा करना । समाप्ति पर पहुँचना । खतम करना । जैसे,—किसी प्रकार इस काम को पार लगाओ । किसी का पार लगाना = निर्वाह करना । जीवन व्यतीत कराना । पार होना = (१) किसी दूर तक फैली हुई वस्तु के बीच से होते हुए उसके दूसरे किनारे पर पहुँचना । जैसे, नदी पार होना, जंगल पार होना । (२) किसी काम को पूरा कर चुकना । किसी काम से छुट्टी पा जाना । (३) मतलब साधकर अलग हो जाना । जैसे—तुम तो अपना ले देकर पार हो जाओ काम चाहे हो या न हो । पार हो जाना = दे० 'पार होना'—(१), (२) और (३) । (४) छुट्टी पा जाना । मुक्त हो जाना । रिहाई पा जाना । फँसाव, झूठ, जवाबदेही आदि से छूट जाना । निकल जाना । जैसे—तुम तो दूसरों के सिर दोष मढ़कर पार हो जाओगे । लड़की पार होना = लड़की का ब्याह हो जाना । कन्या के विवाह से छुट्टी पा जाना ।

२ सामनेवाला दूसरा पार्श्व । दूसरी तरफ । जैसे—(क) तीर कलेजे से पार होना । (ख) गँद का दीवार के पार जाना ।

यौ०—आर पार = किसी वस्तु से होता हुआ उसके इस ओर से उस ओर तक । किसी वस्तु के ऊपर, नीचे या भीतर से होता

हुआ उसकी एक तरफ से दूसरी तरफ तक। जैसे,—(क) दीवार के आरपार छेद हो गया। (ख) यह सबक पहाड़ के आरपार गई है। (ग) बाँध के आरपार सुरग खोदी गई।

मुहा०—पार करना = किसी वस्तु के ऊपर, नीचे या भीतर से होते हुए उसकी दूसरी ओर पहुँचना। किसी वस्तु से होते हुए उसके आगे निकल जाना। लाँघते, भेदते या ऊपर से होते हुए दूसरे पार्श्व में जाना। जैसे, (क) मनुष्य या रास्ते का पहाड़ को पार करना। (ख) गेंद का दीवार को पार करना। (ग) सुरग का बाँध को पार करके निकलना। (घ) तीर का कलेजे को पार करना।

विशेष—यदि कोई दूसरे मार्ग से जहाँ वह वस्तु न पड़ती हो जाकर उस वस्तु की दूसरी ओर पहुँच जाय तो उसे पार करना न कहेंगे। पार करने का अभिप्राय है वस्तु से होकर उसकी दूसरी तरफ पहुँचना।

(किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के) पार करना = (१) किसी वस्तु के ऊपर, नीचे या भीतर से ले जाकर उसको दूसरी ओर पहुँचाना। लाँघकर या घुसाकर दूसरी ओर निकालना या जे जाना। जैसे,—(क) इस अर्धे को हाथ पकड़ाकर टीले के पार कर दो। (ख) इस बार तीर पेड़ के पार कर देंगे। (ग) भाला कलेजे के पार कर दिया। (२) कष्ट या दुःख से बाहर करना। उबारना। उद्धार करना। जैसे,—किसी प्रकार इस विपत्ति से पार करो। पार होना = किसी वस्तु के ऊपर, नीचे या भीतर से होते हुए उसकी दूसरी ओर पहुँचना। किसी वस्तु पर से जाकर, उसे लाँघकर या उसमें घुसकर उसकी दूसरी तरफ निकलना। जैसे, (क) गेंद का दीवार के पार होना। (ख) कटार का कलेजे के पार होना। उ०—इत मुख तें गंगा कढ़ी उतै कढ़ी जमघार। 'वार' कहन पायो नही, भई करेजे पार। (शब्द०)।

३. आमने सामने के दोनों किनारों में से एक दूसरे की अपेक्षा से कोई एक। किसी वस्तु के पूरे विस्तार के बीचोबीच से गई हुई कल्पित रेखा के दोनों छोरों पर पढ़नेवाले तटो या पार्श्वों में से कोई एक। और। तरफ। जैसे,—(क) नदी के इस पार से उस पार तुम नहीं जा सकते। (ख) दीवार में इस पार से उस पार तक छेद हो गया। (ग) जब पोस्ती ने पी पोस्त तब कूँडी के इस पार या उस पार।—हरिश्चन्द्र (शब्द०)।

विशेष—इस शब्द का प्रयोग उसी किनारे या पार्श्व के अर्थ में होगा जिसका कथन सामने के दूसरे किनारे या पार्श्व का सबब लिए हुए होगा। जैसे, 'इस पार कहने से यह समझा जाता है कि कहनेवाले के ध्यान में दोनों किनारे हैं जिनमें से वह एक ही ओर इंगित करता है। यही कारण है, जिससे 'इस' और 'उस' की जगह 'एक' और 'दो' सख्यावाचक पदों का प्रयोग इस शब्द के पहले नहीं करते। 'एक पार से दूसरे पार तक' नहीं बोला जाता। इसी प्रकार दोनों 'किनारे' के अर्थ में 'दोनों पार' बोलना भी ठीक नहीं जान पड़ता।

सख्यावाचक शब्द तब रख सकते जब 'पार' का व्यवहार सामान्यतः (विना किसी विशेषता के) 'किनारा' के अर्थ में होता है। पर उसका प्रयोग सापेक्ष है।

४ छोर। अत। अखीर। हृद। परिमिति।

मुहा०—पार पाना = अत तक पहुँचना। समाप्ति तक पहुँचना। आदि से अत तक जाना या पूरा करना। क०—शेष शारदा सहस्र श्रुति कहत न पावै पार।—तुलसी (शब्द०)। किसी से पार पाना = किसी के विरुद्ध सफलता प्राप्त करना। जीतना जैसे,—वह बड़ा चालाक है, तुम उससे नहीं पार पा सकते।

पार^२—अव्य० परे। आगे। दूर। लगाव से अलग। उ०—विप्र, घेनु, सुर, सत हित लीन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार।—तुलसी (शब्द०)।

पार^३—वि० [सं० पर] अन्य। पर। पराया। दे० 'पर'। उ०—पार कइ सेवइ राज दुवार।—वी० रासो०, पृ० ६६।

पारई—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पार] मिट्टी का बड़ा कसोरा। परई। उ०—मनि भाजन मधु पारई पूरन अमी निहारि। का छाँडिय का सग्रहिय कहइ विवेक विचारि।—तुलसी (शब्द०)।

पारक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सोना।

पारक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० पारकी] १ पालन करनेवाला। २ प्रीति करनेवाला। ३ पूति करनेवाला। ४ पार करनेवाला। ५ उद्धार करनेवाला।

पारकाम—वि० [सं०] उस पार जाने का इच्छुक। जो उस पार जाना चाहता हो [को०]।

पारक्य^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पुण्य कार्य जिससे परलोक सुधरता है। २ विरोधी। अरि। शत्रु [को०]।

पारक्य^२—वि० पराया। परकीय। दूसरे का।

पारख^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परीक्षा, प्रा० परिक्ष, हिं० परिख, पारिख] दे० 'पारिख', 'पारख'।

पारखी^२—वि० [सं० परीक्षक] जिसमें परखने या जाँचने की शक्ति हो। पारखी। उ०—(क) इतने समय पर्यंत तो बिना पारख गुरु के कोई मुक्ति नहीं पावेगा।—कबीर म०, पृ० १६६। (ख) बिना पारख गुरु के अर्थों की तरह टटोलते फिरते हैं।—कबीर सा०, पृ० ६७५।

पारखद^३—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पारख'।

पारखि—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पारखी] परीक्षक दे० 'पारखी'। उ०—रतन छिपाए ना छिपै पारखि होइ सो परीख।—जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० ३०३।

पारखी—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पारिखा+ई (प्रत्य०)] १ वह जिसे परख या पहचान हो। वह जिसमें परीक्षा करने का योग्यता हो। २ परखनेवाला। जाँचनेवाला। परीक्षक। जैसे, रतनपारखी।

पारग^१—वि० [सं०] १ पार जानेवाला। २ काम को पूरा करनेवाला। समर्थ। ३ पूरा जानकार। पूर्ण ज्ञाता।

पारग^२—सञ्ज्ञा पुं० पूर्ण करना । निभाना । पालना । जैसे, प्रतिज्ञा, वादा [को०] ।

पारगत^१—वि० [सं०] १ जिसने पार किया हो । २. जिसने किसी विषय को आदि अंत तक पूरा किया हो । ३. समर्थ । ४. पूरा जानकार ।

पारगत^२—सञ्ज्ञा पुं० अर्हत । जिन (जैन) ।

पारगामी—वि० [सं० पारगामिन्] दे० 'पारगत' । पार जानेवाला [को०] ।

पारगिरामी^१—वि० [वि० पारगामी ?] दे० 'पारगामी' । उ०—विनु शब्द नहीं पारगिरामी । विनु शब्दे नाही अतरि-जामी ।—प्राण०, पृ० १४० ।

पारग्रामिक—वि० [सं०] १ परकीय । विदेशी । अन्यदेशीय । २. विरोधी । शत्रु [को०] ।

पारग्रामी^१—वि० [सं० पारगामी] दे० 'पारगामी' । उ०—श्रीर नासफेत पुरान कैसी है । महापवित्र है जैसे कोई प्राणी एकाग्र चित्त दै करि सुने पढ़े जो पारग्रामी होइ ।—पोद्दार अभि० ग्र०, पृ० ४८१ ।

पारचा—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पारचहू] १ टुकड़ा । खंड । घज्जी (विशेष-पत कपड़े, कागज आदि की) । २. कपड़ा । पट । वस्त्र ।

यौ०—पारचाफरोश = वस्त्र का व्यवसायी । बजाज । पारचाफरोशी = बजाजी । कपड़े का व्यापार । पारचावाक = जुलाहा । कोरी । पारचावाफी = कपड़ा बुनने का काम ।

३. एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । ४. पहनावा । पोशाक । ५. कुएँ के मुँह के किनारे पर भीतर की ओर कुछ बढ़ाकर रखी हुई पटिया या लकड़ी जिसके उस पार से डोरी लटकाकर पानी खींचा जाता है ।

विशेष—यह इसलिये रखी जाती है जिसमें नीचे या ऊपर आते समय पानी का बर्तन कुएँ की दीवार से दूर रहे, उससे बार बार टकराया न करे । इसपर पानी खींचते समय कभी कभी पैर भी रख देते हैं ।

पारज्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सोना । सुवर्ण ।

पारजन्मिक—वि० [सं०] अन्य जन्म का । दूसरे जन्म से सबद्ध [को०] ।

पारजात^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पारिजात] दे० 'पारिजात' ।

पारजायिक—वि० [सं०] पर-स्त्री-लपट । व्यभिचारी [को०] ।

पारटीट, पारटीन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शिला । चट्टान [को०] ।

पारण^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ किसी व्रत या उपवास के दूसरे दिन किया जानेवाला पहला भोजन और तत्संबंधी कृत्य ।

विशेष—व्रत के दूसरे दिन ठीक रीति से पारण न करे तो पूरा फल नहीं होता । जन्माष्टमी को छोड़कर और सब व्रतों में पारण दिन को किया जाता है । देवपूजन करके और ब्राह्मण खिलाकर तब भोजन या पारण करना चाहिए । पारण के दिन कसि के बर्तन में न खाना चाहिए, मास, मद्य, मधु न खाना चाहिए, मिथ्याभाषण, व्यायाम, स्त्रीप्रसंग

आदि भी न करना चाहिए । ये सब बातें वैष्णवों के लिये विशेष रूप से निषिद्ध हैं ।

२. वृत्त करने की क्रिया या भाव । ३. मेघ । बादल । ४. समाप्ति । खातमा । पूरा करने की क्रिया या भाव । ५. अध्ययन । पठन । पढ़ना [को०] । ६. किसी ग्रंथ का पूर्ण विषय [को०] ।

पारण^२—वि० १ पार करनेवाली । २ उद्धारक । रक्षक [को०] ।

पारणा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. दे० 'पारण' उ०—वरित करू धरि आपणइ, पारणो कीघो द्वादशी जोग ।—वी० रासो, पृ० ५१ । २. भोजन । खाना । भक्षण [को०] ।

पारणीय—वि० [मं०] १ पूरा करने योग्य । (क्व०) । २ जो पूर्ण हो गया हो । पूर्णताप्राप्त [को०] ।

पारतंत्र्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पारतन्त्र्य] परतंत्रता । पराधीनता । उ०—वह है बौद्धधर्म जो देश काल, व्यक्ति के विविध पारतन्त्र्य से मुक्त कर देता है ।—किन्नर०, पृ० १०२ ।

पारत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पारा । पारद । २ एक देश और एक प्राचीन म्लेच्छ जाति का नाम । वि० दे० 'पारद' ।

पारतल्पिक—वि० [मं०] जो पराई स्त्री के साथ गमन करे । व्यभिचारी ।

पारत्रिक—वि० [सं०] १. परलोक संबंधी । पारलौकिक । २. (कर्म) जिससे परलोक बने । मरने के पीछे उत्तम गति देनेवाला ।

पारत्र्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] परश्र या परलोक में प्राप्त होनेवाला फल [को०] ।

पारथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पार्थ] पार्थ । अर्जुन । उ०—भारत के पारथ और भीषम समान थे, हमीर श्री अलाउद्दीन दोढ़ दरसत हैं ।—हम्मीर०, पृ० ५३ ।

यौ०—पारथतिय = अर्जुन की स्त्री । द्रौपदी । उ०—पारथ तिय कुहराज सभा में बोलि करन चहै नगी ।—सूर०, १।२१ ।

पारथि^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पार्थ, हिं० पारथ] दे० 'पार्थ' । उ०—तीसर बूढ़े पारथि भाई । जिन वन दाह्यो दावा लाई ।—कबीर वी० (शिशु०), पृ० ६२ ।

पारथिव^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पार्थिव] दे० 'पार्थिव' । उ०—तव मज्जन करि रघुकुल नाया । पूजि पारथिव नायड माया ।—तुलसी (शब्द०) ।

पारथ्य^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पार्थ, हिं० पारथ] दे० 'पार्थ' । उ०—दल दिषि सग दीपत तेम । भारथ्य सैन पारथ्य जेम ।—प० रासो, पृ० १६५ ।

पारद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पारा । २. एक प्राचीन जाति जो पारस के उस प्रदेश में निवास करती थी जो कास्पियन सागर के दक्षिण के पहाड़ों को पार करके पड़ता था । इसके हाथ में बहुत दिनों तक पारस साम्राज्य रहा । दे० 'पारस' ।

विशेष—महाभारत, मनुस्मृति, बृहत्संहिता इत्यादि में पारद देश और पारद जाति का उल्लेख मिलता है । यथा—'पौंड्र-काश्चौं दूद्रविहा. काम्बोजा यचना शका. । पारदा. पह्वाश्चीना

किराता दरदा खशा । (मनु० १०।४४) । इसी प्रकार वृहत्संहिता में पश्चिम दिशा में बसनेवाली जातियों में 'पारत' और उनके देश का उल्लेख है—'पञ्चनद रमठ पारत तारक्षिति श्रग वैश्य कनक शका ।' पुराने शिलालेखों में 'पार्थिव' रूप मिलता है जिससे युनानी 'पार्थिया' शब्द बना है । युरोपीय विद्वानों ने 'पल्लव' शब्द को इसी 'पार्थिव' का अपभ्रंश या रूपांतर मानकर पल्लव और पारद को एक ही ठहराया है । पर सस्कृत साहित्य में ये दोनों जातियाँ भिन्न लिखी गई हैं । मनुस्मृति के समान महाभारत और वृहत्संहिता में भी 'पल्लव' 'पारद' से अलग आया है । अतः 'पारद' का 'पल्लव' से कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता । पारस में पल्लव शब्द शाशानवशी सम्राटों के समय से ही भाषा और लिपि के अर्थ में मिलता है । इससे सिद्ध होता है कि इसका प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में पारसियों के लिये भारतीय ग्रन्थों में हुआ है । किसी समय में पारस के सरदार 'पहलवान' कहलाते थे । संभव है, इसी शब्द से 'पल्लव' शब्द बना हो । मनुस्मृति में 'पारदों' और 'पल्लवों' आदि को आदिम क्षत्रिय कहा है जो ब्राह्मणों के अदर्शन से संस्कारभ्रष्ट होकर शूद्रत्व को प्राप्त हो गए ।

पारदर्शक—वि० [सं०] १ जिसके भीतर से होकर प्रकाश की किरणों के जा सकने के कारण उस पार की वस्तुएँ दिखाई दें । जिससे अरारपार दिखाई पड़े । जैसे,—शीशा पारदर्शक पदार्थ है । २ पार को दिखानेवाला (को०) ।

पारदर्शिका—वि० स्त्री० [सं० पारदर्शक] आरपार दिखाई देनेवाली । उ०—नव मुकुर नीलमणि फलक अमल, ओ पारदर्शिका चिर चंचल ।—लहर, पृ० ४८ ।

पारदर्शी—वि० [सं० पारदर्शिन] १. उस पार तक देखनेवाला । २ दूर तक देखनेवाला । परिणामदर्शी । दूरदर्शी । चतुर । बुद्धिमान् । ३ जिसका खूब देखा सुना हो । जो पूरा पूरा देख चुका हो ।

पारदाकार—वि० [सं०] पारे के समान श्वेत और चमकदार । उ०—पुनि ऋषीकेश अकित अति शोभित कठ पारदाकार ।—सु दर प्र०, भा० १, पृ० ५१ ।

पारदारिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] परस्त्रीगामी । जार ।

पारदार्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पारदार्य] पराई स्त्री के साथ गमन । पर-स्त्री-गमन । व्यभिचार ।

पारदृशवा—वि० [सं० पारदृशवन्] १ पारदर्शी । दूरदर्शी । २. किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता (को०) ।

पारदेशिक—वि० [सं०] १ विदेश का । अन्य देश का । विदेशी । २ यात्रा करनेवाला । मुसाफिर (को०) ।

पारदेश्य—वि० [सं०] दूसरे देश से संबंधित । पारदेशिक (को०) ।

पारधि—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पापद्धिक, प्रा० पारद्धिय, हिं० पारधी] १. 'पारधी' । उ०—पहिले पारधि जाइ वन घात करै चहुँ फेर । सपरि कुँअर तव कटक लै, सेसे जाइ अहेर ।—त्रिशा० पृ० २३ ।

पारधी^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिधान (= आच्छादन) अथवा सं० पापद्धिक, प्रा० पारद्धिअ] १ टट्टी आदि की थोटी से पशु पक्षियों को पकड़ने या मारनेवाला । बहेलिया । व्याघ । उ०—मृग पारधी की मति कहा कीनी वाद-रस व्याह्र वान मारथो तानि ।—घनानंद, पृ० ३५६ । २ शिकारी । अहेरी । हत्यारा । बधिक ।

पारधी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० थोटी । आड ।

मुहा०—पारधी पढ़ना = थोटी से होकर कोई व्यापार देखना या किसी की बात सुनना ।

पारन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पारया] दे० 'पारण' ।

पारना^१—क्रि० सं० [हिं० पारना (पहना) क्रि० सं० रूप] १ ढालना । गिराना । उ०—पारि पायन सुरन के सुर सहित अस्तुति कीन ।—भारतेंदु प्र०, भा० ३, पृ० ७६ । २. खड़ा या उठान रहने देना । जमीन पर लवा ढालना । ३ लोटाना । उ०—(क) पारिगो न जाने कौन सेज पै कन्हैया को ।—(शब्द०) । (ख) धन्य भाग तिहि रानि कौशिला छोट सुप महीं पारे ।—रघुराज (शब्द०) । ४ कुशती या लडाई में गिराना । पछाड़ना । उ०—सोइ भुज जिन रण विक्रम पारे ।—हरिचंद्र (शब्द०) । ५ किसी वस्तु को दूसरी वस्तु में रखने, ठहराने या मिलाने के लिये उसमें गिराना या रखना । ६ रखना । उ०—मन न धरति मेरो कछो तू आपनी सयान । अहे परनि परि प्रेम की परहथ पार न प्रान ।—विहारी (शब्द०) ।

यौ०—पिंढा पारना = पिंढदान करना । उ०—जाय बनारस जारघो क्या । पार्यो पिंढ नहायो गया ।—जायसी (शब्द०) । ७. किसी के अंतर्गत करना । किसी वस्तु या विषय के भीतर लेना । शामिल करना । उ०—जे दिन गए तुमहि विनु देखे । ते विरचि जनि पारहि लेखे । तुलसी (शब्द०) । ८ शरीर पर धारण करना । पहनना । उ०—श्याम रंग धारि पुनि बसुरी सुधारि कर, पीत पठ पारि बानी मधुर सुनावैगी ।—श्रीधर (शब्द०) । ९ बुरी बात घटित करना । अव्यवस्था आदि उपस्थित करना । उत्पात मचाना । उ०—अौरै भाँति भएज ये चौसर चदन चद । पति विनु अति पारत विपति, मारत मारू चद ।—विहारी (शब्द०) १० सँचे आदि में ढालकर या किसी वस्तु पर जमाकर कोई वस्तु तैयार करना । जैसे, हँटे या खपडे पारना, काजल पारना । ११ सजाना । बनाना । संवारना । उ०—माँग भरी मोतिन सो पटियाँ नीके पारी । नंद० प्र०, पृ० ३८६ ।

पारना—क्रि० सं० [सं० पारय (= योग्य) वा हिं० पार, जैसे, पार लगना (= हो सकना)] सकना । समर्थ होना । उ०—प्रनु सन्मुख बछु कहह न पारइ । पुनि पुनि चरन सरोज निहारइ ।—तुलसी (शब्द०) ।

पारना—क्रि० सं० [सं० पालन] दे० 'पालना' । उ०—नेमनि सग फिरे भटकयो पल मूँदि सरूप निहारत क्यौं नहि । स्वाम

सुजान कृपा घनआनंद प्राण पपीहनि पारत क्यो नहीं ।
—घनानंद, पृ० १५१ ।

पारवती—सज्ञा स्त्री० [सं० पार्वती] 'पार्वती' । उ०—पारवती भल
श्रवसरु जानी । गईं सभु पहि मातु भवानी । —मानस,
१।१०७ ।

पारव्रह्म—सज्ञा पुं० [सं० परब्रह्म] दे० 'परब्रह्म' । उ०—सभे काल
वसि होय, मौत काली की होती । पारब्रह्म भगवान मरे ना
श्रविगत जोती ।—पलह०, भा० १, पृ० २१ ।

पारभृत—सज्ञा पुं० [सं० प्राभृत] उपायन । उपहार । भेंट [को०] ।

पारमहस्य—वि० [सं०] परमहस से संबंधित । परमहस का [को०] ।

पारमार्थिक—वि० [सं०] १ परमार्थ संबंधी । जिससे परमार्थ सिद्ध
हो । जिससे मनुष्य को पारलौकिक सुख हो । २ वास्तविक ।
जो केवल प्रतीति या भ्रम न हो । सदा ज्यो का त्यो रहने-
वाला । नाम रूप से भिन्न शुद्ध सत्य । जैसे, पारमार्थिकी
सत्ता, पारमार्थिक ज्ञान । ३ सर्वोत्तम । श्रत्युत्तम । सर्वोत्कृष्ट
(को०) । ४ परस्पर विभक्त (को०) ।

पारमार्थ्य—सज्ञा पुं० [सं०] परम सत्य । शुद्ध सत्य [को०] ।

पारमिक—वि० [सं०] [वि० स्त्री० परमिकी] श्रेष्ठ । सर्वोत्तम ।
मुख्य [को०] ।

पारमित—वि० [सं०] १ उस पार या किनारे गया हुआ । २.
सर्वातिशायी । सर्वोत्कृष्ट [को०] ।

पारमिता—सज्ञा स्त्री० [सं०] पूर्णता । गुणो की पराकाष्ठा [को०] ।

विशेष—पारमिता छह कही गई हैं,—(१) दान, (२) शील,
(३) क्षमा, (४) धैर्य, (५) ध्यान और (६) प्रज्ञा । कुछ
लोगो के मत में सत्य, श्रविष्ठान, मैत्र और उपेक्षा को
मिलाकर यह १० कही गई हैं ।

पारमेश्वर—वि० [सं०] परमेश्वर संबंधी । परब्रह्म संबंधी [को०] ।

पारमेष्ठ्य—सज्ञा पुं० [सं०] १ श्रेष्ठता । सर्वोच्च स्थान ।
सर्वेश्वरता । २ राजचिह्न [को०] ।

पारय—वि० [सं०] उपयुक्त । योग्य [को०] ।

पारयिष्णु—वि० [सं०] १ सतोपजनक । तृप्तिदायक । २ पार
करने या पूरा करने में शक्त । ३ जिसने पार कर लिया हो
जिसने पूर्ण कर लिया हो [को०] ।

पारलोक्य—वि० [सं०] दे० 'पारलौकिक' [को०] ।

पारलौकिक^१—वि० [सं०] १ परलोक संबंधी । २ परलोक में
शुभ फल देनेवाला ।

पारलौकिक^२—सज्ञा पुं० अत्येष्टि-कर्म [को०] ।

पारवत—सज्ञा पुं० [सं०] कवूतर । पारावत [को०] ।

पारवर्ग्य—वि० [सं०] अन्य वर्ग या दल का । अपर पक्ष का ।
अन्यदलीय । विरोधी [को०] ।

पारवश्य—सज्ञा पुं० [सं०] परवशता । परतंत्रता ।

पारविपयिक—वि० [सं०] दूसरे राज्य का । विदेशी (कोटि०) ।

पारशव^१—वि० [सं०] [वि० स्त्री० पारशवी] १ लोहनिर्मित ।
लोहे का बना हुआ । २ परशु का । परशु संबंधी [को०] ।

पारशव^२—सज्ञा पुं० [सं०] १ याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार ब्राह्मण
पिता और शूद्रा माता से उत्पन्न पुरुष या जाति । २ पराई
स्त्री से उत्पन्न पुत्र । ३ लोहा । ४ एक देश का नाम जहाँ
मोती निकलते थे ।

पारश्व^३—वि० [सं० पार्श्व] प्रौर । तरफ । पार्श्व । उ०—जाके
दुहूँ पारश्व पंचमहले महल छवि छाजते ।—प्रेमघन०, भा०
१, पृ० ११४ ।

पारश्व १, पारश्वधिक—सज्ञा पुं० [सं०] परशुधारी व्यक्ति ।
फरसा लेकर युद्ध करनेवाला योद्धा [को०] ।

पारश्वय—सज्ञा पुं० [सं०] सुवर्ण । सोना ।

पारषद्^४—सज्ञा पुं० [सं० पार्षद] दे० 'पार्षद' ।

पारषो—सज्ञा पुं० [सं० परीक्षक] दे० 'पारखी' । उ०—रत्न पारषो
ने ऐसे दरिद्र के हाथ में ऐसी अनमोल रत्नजडित भूट
को देखकर मन में चोर समझा और कोतवाल के पास भेजा ।
—मारतेंदु प्र०, भा० ३, पृ० ३१ ।

पारस^१—सज्ञा पुं० [सं० स्पश, हिं० परस] १ एक कल्पित
जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि यदि लोहा उससे छुलाया जाय
तो सोना हो जाता है । स्वर्णमणि । उ०—पारस मणि लिय
ग्रण्य कर दिय प्रोहित कह दान ।—प० रासो, पृ० ३३ ।

विशेष—इस प्रकार के पत्थर की बात फारस, अरब तथा
मे भी रसायनियों अर्थात् कीमिया बनानेवालो के बीच प्रसिद्ध
थी । योरप में कुछ लोग इसकी खोज में कुछ हैगन भी हुए
इसके रूप रंग आदि तक कुछ लोगो ने लिखे । पर अत
सब झ्याल ही झ्याल निकला । हिंदुस्तान में अब तक
से लोग नैगल में इसके होने का विश्वास रखते हैं ।

२. अत्यंत लाभदायक और उपयोगी वस्तु । जैसे,—अच्छा पार
तुम्हारे हाथ लग गया है ।

पारस^२—वि० १ पारस पत्थर के समान स्वच्छ और उत्तम
चगा । नीरोग । तदुरुस्त । जैसे—थोड़े दिन यह दवा
देखो देह कैसी पारस हो जाती है । २ जो किसी दूसरे को
अपने समान कर ले । दूसरे को अपने जैसा बनानेवाला
उ०—पारस जोनि लिलाटहि श्रोती । दिष्टि जो करे होइ ते।
जोती । —जायसी (शब्द०) ।

पारस^३—सज्ञा पुं० [हिं० परसना] १ खाने के लिये लगाया
भोजन । परसा हुआ खाना । २ पत्तल जिसमें खाने के
पकवान मिठाई, आदि हो । जैसे,—जो लोग बैठकर न
खायेंगे उन्हें पारस दिया जायगा ।

पारस^४—सज्ञा पुं० [सं० पार्श्व] १ पास । निकट । समीप । उ०—
(भृकुटी कुटिल निकट नैनन के चपल होत यहि भाँति ।
तामरस पारस खेलत वाल भृग की पाँति ।—सूर (शब्द०
(ख) उत श्यामा इत सखा मडली, इत हरि उत प्रजन)

मनो तामरस पारस खेलत मिलि मधुकर गुजारि ।—सूर
(शब्द०) । २ घेग । मडल ।

पारस^१—सज्ञा पुं० [सं० पलास] बादाम या खूवानी की जाति का एक भमोला पहाड़ी पेड़ जो देखने में ढाक के पेड़ सा जान पड़ता है ।

विशेष—यह हिमालय पर सिंधु के किनारे से लेकर सिक्किम तक होता है । इसमें से एक प्रकार का गोंद और जहरीला तेल निकलता है जो दवा के काम में आता है । इसे गीदड़ ढाक और जामन भी कहते हैं ।

पारस^१—सज्ञा पुं० [सं० पारस्य] हिंदुस्तान के पश्चिम सिंधुनद और अफगानिस्तान के आगे पड़नेवाला एक देश । प्राचीन काबोज और बाल्हीक के पश्चिम का देश, जिसका प्रताप प्राचीन काल में बहुत दूर दूर तक विस्तृत था और जो अपनी सम्यता और शिष्टाचार के लिये प्रसिद्ध चला आता है ।

विशेष—अत्यंत प्राचीन काल से पारस देश आर्यों को एक शाखा का वासस्थान था जिसका भारतीय आर्यों से घनिष्ठ संबंध था । अत्यंत प्राचीन वैदिक युग में तो पारस से लेकर गंगा सरयू के किनारे तक की सारी भूमि आर्यभूमि थी, जो अनेक प्रदेशों में विभक्त थी । इन प्रदेशों में भी कुछ के साथ आर्य शब्द लगा था । जिस प्रकार यहाँ आर्यवर्त एक प्रदेश था उसी प्रकार प्राचीन पारस में भी आधुनिक अफगानिस्तान से लगा हुआ पूर्वोक्त प्रदेश 'अरियान' या 'ऐरान' (यूनानी—एरियाना) कहलाता था जिससे ईरान शब्द बना है । ईरान शब्द आर्यवास के अर्थ में सारे देश के लिये प्रयुक्त होता था । शाशानवशी सम्राटों ने भी अपने को 'ईरान के शाहशाह' कहा है । पदाधिकारियों के नामों के साथ भी 'ईरान' शब्द मिलता है—जैसे 'ईरान-स्पाहपत' (ईरान के सिपाहपति या सेनापति), 'ईरान अवारकपत' (ईरान के भंडारी) इत्यादि । प्राचीन पारसी अपने नामों के साथ आर्य शब्द वड़े गौरव के साथ लगाते थे । प्राचीन सम्राट् दारयवह (दारा) ने अपने को 'अरियपुत्र' लिखा है । सरदारों के नामों में भी आर्य शब्द मिलता है, जैसे, अरियशमन, अरियोवर्जनिस्, इत्यादि ।

प्राचीन पारस जिन कई प्रदेशों में बँटा था उनमें पारस की खाड़ी के पूर्वी तट पर पड़नेवाला पारस या पारस्य प्रदेश भी था जिसके नाम पर आगे चलकर सारे देश का नाम पड़ा । इसी प्राचीन राजधानी पारस्यपुर (यूनानी-पसिपोलिस) थी, जहाँपर आगे चलकर 'इश्तख' बसाया गया । वैदिक काल में 'पारस' नाम प्रसिद्ध नहीं हुआ था । यह नाम हखामनीय वंश के सम्राटों के समय से, जो पारस्य प्रदेश के थे, सारे देश के लिये व्यवहृत होने लगा । यही कारण है जिससे वेद और रामायण में इस शब्द का पता नहीं लगता । पर महाभारत, रघुवंश, कथासरित्सागर आदि में पारस्य और पारसीको का उल्लेख बराबर मिलता है ।

अत्यंत प्राचीन युग के पारसियों और वैदिक आर्यों में उपासना,

कर्मकांड आदि में भेद नहीं था । वे अग्नि, सूर्य वायु आदि की उपासना और अग्निहोत्र करते थे । मिथ (मित्र = सूर्य), वायु (= वायु), होम (= सोम), अरमहति (= अमति), अहमन् (= अर्यमन्), नह्यंसह (= नराशस) आदि उनके भी देवता थे । वे भी वड़े वड़े यज्ञ (यज्ञ) करते, सोमपान करते और अध्वन (अध्वन्) नामक याजक काठ से काठ रगड़कर अग्नि उत्पन्न करते थे । उनकी भाषा भी उसी एक मूल आर्यभाषा से उत्पन्न थी जिससे वैदिक और लौकिक संस्कृत निकली हैं । प्राचीन पारसी और वैदिक संस्कृत में कोई विशेष भेद नहीं जान पड़ता । अवस्ता में भारतीय प्रदेशों और नदियों के नाम भी हैं । जैसे, हर्महदु (मत्सिंधु = पंजाब), हरस्वेती (सरस्वती), हरयू (सरयू) इत्यादि ।

वेदों से पता लगता है कि कुछ देवताओं को असुर सज्ञा भी दी जाती थी । वरुण के लिये इस सज्ञा का प्रयोग कई बार हुआ है । सायणाचार्य ने भाष्य में असुर शब्द का अर्थ लिखा है— 'असुर सर्वेषां प्राणद' । इद्र के लिये भी इस सज्ञा का प्रयोग दो एक जगह मिलता है, पर यह भी लिखा पाया जाता है कि 'यह पद प्रदान किया हुआ है' । इससे जान पड़ता है कि यह एक विशिष्ट सज्ञा हो गई थी । वेदों में क्रमशः वरुण पीछे पड़ते गए हैं और इद्र को प्रधानता प्राप्त होती गई है । साथ ही साथ असुर शब्द भी कम होना गया है । पीछे तो असुर शब्द राक्षस, दैत्य के अर्थ में ही मिलता है । इससे जान पड़ता है कि देवोपासक और असुरोपासक ये दो पक्ष आर्यों के बीच हो गए थे ।

पारस की ओर जरयुस्त्र (आधु० फा० जरतुष्ट) नामक एक ऋषि या ऋत्विक् (जोता सं० होता) हुए जो असुरोपासकों के पक्ष के थे । इन्होंने अपनी शाखा ही अलग कर ली और 'जद अवस्ता' के नाम से उसे चलाया । यही 'जद अवस्ता' पारसियों का धर्मग्रंथ हुआ । इससे देव शब्द दैत्य के अर्थ में आया है । इद्र या वृत्रहन् (जद, वेरेथन्) दैत्यों का राजा कहा गया है । शश्वीर्व (शश्वीर्व) और नाहदत्य (नासत्य) भी दैत्य कहे गए हैं । अघ्न (अगिरस ?) नामक अग्नियाजकों की प्रशंसा की गई है और सोमपान की निंदा । उपास्य अहुरमज्द (सर्वज्ञ असुर) है, जो धर्म और सत्यस्वरूप है । अहमन (अर्यमन्) अधर्म और पाप का अधिष्ठाता है । इस प्रकार जरयुस्त्र ने धर्म और अधर्म दो द्वंद्व शक्तियों की सूक्ष्म कल्पना की और शुद्धाचार का उपदेश दिया । जरयुस्त्र के प्रभाव से पारस में कुछ काल के लिये एक अहमज्द की उपासना स्थापित हुई और बहुत से देवताओं की उपासना और कर्मकांड कम हुआ । पर जनता का सतोष इस सूक्ष्म विचारवाले धर्म से पूरा पूरा नहीं हुआ । शाशानों के समय में मग याजकों और पुरोहितों का प्रभाव बढ़ा तब बहुत से स्थूल देवताओं की उपासना फिर ज्यों की त्यों जारी हो गई और कर्मकांड की जटिलता फिर वही हो गई । ये पिछली पढ़तियाँ भी 'जद अवस्ता' में ही मिल गईं ।

'जद अवस्ता' में भी वेद के समान गाथा (गाय) और मन्त्र

(मय) हैं। इसके कई विभाग हैं जिनमें 'गाथ' सबसे प्राचीन और जरथुस्त्र के मुँह से निकला हुआ माना जाता है। एक भाग का नाम 'यश्न' है जो वैदिक 'यज्ञ' शब्द का रूपांतर मात्र है। विस्पद, यस्त (वैदिक इष्टि), वदिदाद् आदि इसके और विभाग हैं। वदिदाद् में जरथुस्त्र और अहुरमज्द का घर्म सबध मे संवाद है। 'अवस्ता' की भाषा, विशेषत गाथा की, पढ़ने मे एक प्रकार की अपभ्रंश वैदिक संस्कृत सी प्रनीत होती है। कुछ मात्र तो वेदमंत्रों से विलकुल मिलते जुलते हैं। डाक्टर हाग ने यह समानता उदाहरणों से बताई है और डा० मिल्स ने कई गाथाओं का वैदिक संस्कृत में ज्यो का त्यो रूपांतर किया है। जरथुस्त्र ऋषि कब हुए थे इसका निश्चय नहीं हो सका है। पर इसमे सदेह नहीं कि ये अत्यंत प्राचीन काल मे हुए थे। शाशानो के समय मे जो 'अवस्ता' पर भाष्य स्वरूप अनेक ग्रंथ बने उनमे से एक में व्यास हिंदी का पारस मे जाना लिखा है। सभव है वेदव्यास और जरथुस्त्र समकालीन हो।

पारसनाथ—सज्ञा पुं० [सं० पार्श्वनाथ] दे० 'पार्श्वनाथ' ।

पारसव^७—सज्ञा पुं० [सं० पारशव] दे० 'पारशव' ।

पारसा—वि० [फ्रा०] पतिव्रता । सच्चरित्र । सती साध्वी । उ०—
अथी यो पाकदामन पारसा नार, नमाज पच वक्तौ हीर जिक्
चार ।—दक्खिनी० पृ० २४६

पारसाई—सज्ञा स्त्री० [फ्रा०] सच्चरित्रता । सदाचार । उ०—
पारसाई और जवानी क्यो कर हो, एक जगह आग पानी
क्यो कर हो ।—कविता को०, भा० ४ पृ० २७ ।

पारसिक—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पारसीक' [को०] ।

पारसी^७—वि० [फ्रा० पारस] पारस देश का । पारस देश
सबधी । जैसे, पारसी भाषा पारसी विल्ली ।

पारसो^२—सज्ञा पुं० १. पारस का रहनेवाला व्यक्ति । पारस का
आदमी । २. हिंदुस्तान में बंबई और गुजरात की और
हजारो वर्ष से बसे हुए वे पारसी जिनके पूर्वज मुसलमान होने
के डर से पारस छोड़कर आए थे ।

विशेष—सन् ६४० ई० में नहार्द की लड़ाई के पीछे जब पारस
पर अरब के मुसलमानों का अधिकार हो गया और पारसी
मुसलमान बनाए जाने लगे तब अपने आर्यधर्म की रक्षा के
लिये बहुत से पारसी खुरासान मे आकर रहे । खुरासान मे
भी जब उन्होंने उपद्रव देखा तब वे पारस की खाडी के मुहाने
पर उरगूज नामक टापू में जा बसे । यहाँ पंद्रह वर्ष रहे ।
आगे वाधा देख अत मे सन् ७२० मे वे एक छोटे जहाज पर
भारतवर्ष की ओर चले आए जो शरणागतों की रक्षा के
लिये बहुत काल से दूर देशों में प्रसिद्ध था । पहले वे दीऊ
नामक टापू में उतरे, फिर गुजरात के एक राजा जदुराणा ने
उन्हें समान नामक स्थान में बसाया और उनकी अग्निस्थापना
और मंदिर के लिये बहुत सी भूमि दी । भारत के वर्तमान
पारसी उन्हीं की सतति हैं । पारसी लोग अपने सबत् का

आरंभ अपने अंतिम राजा यज्दगर्द के पराभव काल से
लेते हैं ।

पारसीक—सज्ञा पुं० [सं०] १. पारस देश । २. पारस देश का
निवासी । उ०—कुमार०—आज तो कुछ पारसीक नर्तकियाँ
आनेवाली हैं ।—स्कंद०, पृ० १४ । ३. पारस देश का घोड़ा ।

पारसीक यमानो—सज्ञा स्त्री० [सं०] खुरासानी अजवायन ।

पारसीक वचा—सज्ञा स्त्री० [सं०] खुरासानी वच ।

पारसीकेय^१—सज्ञा पुं० [सं०] १. कुकुम ।

पारसीकेय^२—वि० पारस देश सबधी । पारस देश का [को०] ।

पारस्कर—सज्ञा पुं० [सं०] १. एक देश का प्राचीन नाम । २. एक
गृह्यसूत्रकार मुनि ।

पारस्त्रैण्य—सज्ञा पुं० [सं०] पराई स्त्री से उत्पन्न पुत्र । जारज पुत्र ।

पारस्परिक—वि० [सं०] परस्परवाला । परस्पर में होनेवाला ।
आपस का ।

पारस्य—सज्ञा पुं० [सं०] पारस देश ।

पारस^७—सज्ञा पुं० [सं० स्पर्श] दे० 'पारस' (मणि) । उ०—
कुब्जेर अति सुख पाय, पारस मनि दिय आय ।—प० रासो
पृ० २५ ।

पारहस्य—वि० [सं०] दे० 'पारमहस्य' [को०] ।

पारा^१—सज्ञा स्त्री० [सं०] एक नदी जो पारियात्र पर्वत से उत्प
कही गई है [को०] ।

पारा^२—सज्ञा पुं० [सं० पारद] चाँदी की तरह सफेद, और च . की ल
एक धातु जो साधारण गरमी या सरदी में द्रव अवस्था
रहती है ।

विशेष—खूब सरदी पाकर पारा जमकर ठोस हो जाता है
यह कभी कभी खानों मे विशुद्ध रूप में भी बहुत सा
जाता है, पर अधिकतर और द्रव्यों के साथ मिला हुआ
जाता है । जैसे, गंधक और पारा मिला हुआ जो द्रव्य
है उसे ईंगुर कहते हैं । गंधक और पारा ई गुर से अलग
दिए जाते हैं । पारा पृथ्वी पर के बहुत कम प्रदेशों
मिलता है । भारतवर्ष में पारे की खानें अधिक नहीं
केवल नेपाल मे हैं । अधिकतर पारा चीन, जापान और
से ही यहाँ आता है । पारा यद्यपि द्रव अवस्था मे रहता
तथापि बहुत भारी होता है ।

ईंगुर से पारा निकालने में स्वेदनविधि काम मे लाई जाती
ईंगुर का टुकड़ा तेज गरमी द्वारा भाप के रूप में कर
जाता है जिससे विशुद्ध पारे के परमाणु अलग हो जाते
भाप रूप मे फिर पारा अपने असली द्रव रूप मे लाया
है । पारा बहुत से कामों मे आता है । इसके द्वारा
निकले हुए अनेकद्रव्यमिश्रित खडों से सोना चाँदी
बहुमूल्य धातुएँ अलग करके निकाली जाती हैं । यह इस
किया जाता है कि खड या टुकड़े का घूर्ण कर लेते हैं,
उसके साथ युक्ति से पारे का ससर्ग करते हैं । इससे यह
है कि सोने या चाँदी के परमाणु पारे के साथ मिल जाते

फिर इन सोने या चाँदी में मिले हुए पारे को स्वेदनविधि से भाप के रूप में अलग कर देते हैं और खालिस सोना या चाँदी रह जाता है। वात यह है कि इन धातुओं में पारे के प्रति रासायनिक प्रवृत्ति या राग होता है। इसी विशेषता के कारण पारा रसरज कहलाता है और इसके योग में धातुओं पर अनेक प्रकार की क्रियाएँ की जाती हैं। पारे के योग से, रंगे, सोने, चाँदी आदि को दूसरी धातु पर कलई या मुलम्मे के रूप में चढ़ाते हैं। जिस धातु पर मुलम्मा चढ़ाना होता है उसपर पहले पारे शोरे से सघटित रस मिलाते हैं, फिर १ भाग सोने और ८ भाग पारे का मिश्रण तैयार करके हलका लेप कर देते हैं। गरमी पाकर पारा तो उड़ जाता है, सोना लगा रह जाता है। पारे पर गरमी का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है इसी से गरमी नापने के यत्र में उसका व्यवहार होता है। इन सब कामों के अतिरिक्त औषध में भी पारे का बहुत प्रयोग होता है।

पुराणों और वैद्यक की पोषियों में पारे की उत्पत्ति शिव के वीर्य से कही गई है और उसका बड़ा माहात्म्य गाया गया है, यहाँ तक कि यह ब्रह्म या शिवस्वरूप कहा गया है। पारे को लेकर एक रसेश्वर दर्शन ही खड़ा किया गया है जिसमें पारे ही से सृष्टि की उत्पत्ति कही गई है और पिंडस्थैर्य (शरीर को स्थिर रखना) तथा उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति के लिये रससाधन ही उपाय बताया गया है। भावप्रकाश में पारा चार प्रकार का लिखा गया है—श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण। इसमें श्वेत श्रेष्ठ है।

वैद्यक में पारा कृमि और कुण्ठनाशक, नेत्रहितकारी, रसायन, मधुर आदि छह रसों से युक्त, स्निग्ध, त्रिदोषनाशक, योगवाही, शुक्रवधक और एक प्रकार से संपूर्ण रोगनाशक कहा गया है। पारे में मल, वह्नि, विष, नाग इत्यादि कई दोष मिले रहते हैं, इससे उसे शुद्ध करके खाना चाहिए। पारा षोषने की अनेक विधियाँ वैद्यक के ग्रंथों में मिलती हैं। शोधन कर्म आठ प्रकार के कहे गए हैं—स्वेदन, मर्दन, उत्थापन, पातन, बोधन, नियामन और दीपन। भावप्रकाश में मूर्च्छन भी कहा गया है जो कुछ औषधियों के साथ मर्दन का ही परिणाम है।

पर्याय—रसरज। रसनाथ। महारस। रस। महातेजम्। रसलेह। रसांतम। सुतराद्। चपल। जैत्र। शिवबीज। शिव। अमृतन। रसेन्द्र। लोकेश। दुर्धर। प्रभु। रुद्रज। हरतेज। रसघातु। स्वद। देव। दिव्यरस। यशोद। सूतक। सिद्धधातु। पारत। हरबीज।

मुहा०—पारा पिलाना = (१) किसी वस्तु में पारा भरना। (२) किसी वस्तु को इतना भागी करना जैसे उसमें पारा भरा हो। भागी करना। वजनी करना।

पारा^३—सज्ञा पुं० [सं० पारि (= प्याला)] दीए के आकार का पर उससे बड़ा मिट्टी का बरतन। परई।

पारा^३—सज्ञा पुं० [फा० पारह] १ टुकड़ा। २ वह छोटी दीवार जो चूने गारे से जोड़कर न बनी हो, केवल पत्थरों के टुकड़े एक दूसरे पर रखकर बनाई गई हो। ऐसी दीवार प्रायः बगीचे आदि की रक्षा के लिये चारों ओर बनाई जाती है।

पारा^३(पु)—सज्ञा पुं० [सं० पाराशर] दे० 'पाराशर'। उ०—पाराश्रुपि मछोदरी ते कामक्रीडा करी। कृसन गोपिन के सग भीना।—कवीर रे०, पृ० ४५।

पारापत—सज्ञा पुं० [सं०] कवूतर। कपोत। पारावत [को०]।

पारापार—सज्ञा पुं० [सं०] १ समुद्र। सागर। २. आर पार। दोनों तट [को०]।

पारापारीण—वि० [सं०] समुद्रगामी। पारावारीण [को०]।

पारायण—सज्ञा पुं० [सं०] १ समाप्ति। पूरा करने का कार्य। २. समय बाँधकर किसी ग्रथ का आद्योपात पाठ। ३ पार जाना [को०]।

पारायणिक—सज्ञा पुं०, वि० [सं०] १ पुराण आदि का पाठ करनेवाला। आद्योपात पढ़नेवाला। २ छात्र।

पारायणी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ सरस्वती का एक नाम। २ कार्य। कर्म। क्रिया। ३ प्रकाश। ज्योति। ४ मनन। चिंतन [को०]।

पाराहक—सज्ञा पुं० [सं०] चट्टान। शिला। पत्थर।

पारावत—स्त्री० पुं० [सं०] १ परेवा। पड़क। उ०—तीतर कपोत पिक कंकी कोक पारावत।—केशव प्र०, भा० १, पृ० १४४। २ कवूतर। कपोत। उ०—सर्वदा स्वच्छद छज्जो के तले। प्रेम के आदर्श पारावत पले।—साकेत, पृ० ४। ३ बदर। ४. तेंदु का वृक्ष। ५ गिरि। पर्वत। ६ एक नाग का नाम (महाभारत)। ७ एक प्रकार का खट्टा पदार्थ (सुश्रुत)। ८ दत्तात्रेय के गुरु।

पारावतक—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का घान।

पारावतकालिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] बड़ी मालकंगनी। महा ज्योतिष्मती लता।

पारावतघ्नी—सज्ञा स्त्री० [सं०] सरस्वती नदी [को०]।

पारावतपदी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ मालकंगनी। २ काकजघा।

पारावतांघ्रिपिच्छ—सज्ञा पुं० [सं० पारावतधिप्रपिच्छ] एक प्रकार का कवूतर [को०]।

पारावताश्व—सज्ञा पुं० [सं०] घृष्ट्युम्न का एक नाम [को०]।

पारावती—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ लवली फल। हरफा रेवड़ी। २ गोपनीत। ग्वालो का गीत। ३ एक नदी का नाम।

पारावार—सज्ञा पुं० [सं०] १ आर पार। वार पार। दोनों तट। २ सीमा। अत। हद। जैसे,—आपकी महिमा का पारावार नहीं। २ समुद्र।

पारावारीण—वि० [सं०] १. जो दोनों ओर जाय। जो किसी वस्तु के दोनों किनारों को पहुँचा हो। २ किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता। पारगत ३. पारावार अर्थात् समुद्रगामी [को०]।

पाराशर^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ पराशर का पुत्र या वंशज। २ व्यास।

पाराशर^२—वि० १ पराशर सवधी । २ पराशर का बनाया हुआ । जैसे, पाराशर स्मृति ।

पाराशरि—सज्ञा पुं० [सं०] १ पराशर के पुत्र वेदव्यास । २. शुकदेव ।

पाराशरी—सज्ञा पुं० [सं० पाराशरिन्] वेदव्यास के भिक्षुसूत्र का अध्ययन करनेवाला । सन्यासी । चतुर्थाश्रमी ।

पाराशरीय—वि० [सं०] पाराशर के पास का प्रदेश आदि ।

पाराशर्य—सज्ञा पुं० [सं०] वेदव्यास ।

पारासर(पु)—सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पाराशर' । उ०—सिगी ऋषि पारासर आए ।—कबीर श०, भा० ४, पृ० २११ ।

पारिद^१—सज्ञा पुं० [सं० पारिन्द्र] सिंह । शेर [को०] ।

पारिद^२(पु)—सज्ञा पुं० [फा० परद] पक्षी । परंदा । चिडिया । उ०—सात सिकारी चौदह पारिद, भिन्न भिन्न निरतावै ।—कबीर श०, भा० ३, पृ० १ ।

पारि^१(पु)—सज्ञा स्त्री० [हि० पार] १. हृद । सीमा । २. ओर तरफ । दिशा । उ०—मोचि द्य वारि सोच सोचती विचारि देव चितै चहूँ पारि घरी चार लौं चकि रही —देव (शब्द०) । ३. जलाशय का तट ।

पारि^२—सज्ञा पुं० [सं०] मद्य पीने का पात्र । प्याला ।

पारिक—वि० [हि० पार] पार करनेवाला । उद्धार करनेवाला । उ०—पारिक, मैं सासागिक, अविद्या हो व्यग्यदाम ।—आराधना, पृ० १४ ।

पारिकाञ्चक—सज्ञा पुं० [सं० पारिकाञ्चक] दे० 'पारिकाक्षी' [को०] ।

पारिकाक्षी—सज्ञा पुं० [सं० पारिकाक्षिन्] ब्रह्मज्ञान का अभिलाषी । तपस्वी ।

पारिकुट—सज्ञा पुं० [सं०] सेवक । भूदय । नौकर ।

पारिकोट(पु)—सज्ञा पुं० [सं० पारिकोट, हि० परकोटा] दे० 'परकोटा' । उ०—सोभति सोलकी पहिलि चोट सै लोट किए घर पारिकोट ।—पृ० रा०, १ । ४२८ ।

पारिद्वित—सज्ञा पुं० [सं०] परीक्षित के पुत्र जनमेजय ।

पारिख^१—वि० [सं०] परिखा सवधी । परिखा का ।

पारिख^२—सज्ञा स्त्री० [हि० परख] दे० 'परख' ।

पारिख^३—सज्ञा पुं० [देश०] १ गुजरातियों की एक जाति । २. परखनेवाला । पारखी व्यक्ति ।

पारिखेय—वि० [सं०] परिखा या खाई से घिरा हुआ [को०] ।

पारिगमिक—सज्ञा पुं० [सं०] कवूतर ।

पारिगामिक—वि० [सं०] गाँव के चारो ओर स्थित [को०] ।

पारिजात—सज्ञा पुं० [सं०] १ एक देववृक्ष जो स्वर्गलोक में इद्र के नदनकानन में है ।

विशेष—इसके फूल जिस प्रकार की गंध कोई चाहे, दे सकते हैं । इसकी भिन्न भिन्न शाखाओं में अनेक प्रकार के रत्न लगते हैं । इसी प्रकार इस वृक्ष के अनेक गुण पुराणों में कहे गए

हैं । सत्यभामा की प्रसन्नता के लिये इसे श्रीकृष्ण स्वर्ग से इद्र से युद्ध करके लाए थे और फिर उसका पूरा भोग करके इसे स्वर्ग में रख आए थे । यह समुद्रमथन के समय में निकला था ।

२ परजाता । हरसिगार । ३ कोविदार । कचनार । ४ पारिभद्र । फरहद । ५ ऐरावत के कुल का एक हाथी । ६ सितोद पर्वत । ७ एक मुनि का नाम ।

पारिजातक—सज्ञा पुं० [सं०] १ देववृक्ष । पारिजात । २ परजाता । हरसिगार । २ फरहद । पारिभद्र ।

पारिणामिक—वि० [सं०] १ जो पच जाय । पाच्य । २ विकासोन्मुख । जिसका विकास हो सके [को०] ।

पारिणाय्य^१—वि० [सं०] १ परिणय में प्राप्त । विवाह में पाया हुआ (धन) । २ विवाह से सवधित [को०] ।

पारिणाय्य^२—सज्ञा पुं० १. वह धन जो स्त्री को विवाह में मिले । २. विवाह का तय होना [को०] ।

पारिणाह्य—सज्ञा पुं० [सं०] १ घर गृहस्थी का सामान । जैसे, चारपाई, वरतन, घड़ा इत्यादि ।

पारितथ्या—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ सिर पर बालों के ऊपर पहनने का स्त्रियो का एक गहना । २. बालों को बाँधने की मोतियों की लड़ी [को०] ।

पारिताप(पु)—सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'परिताप' । उ०—अत्यंत पारिताप का विषय तो यह है कि ।—प्रेमघन०, भा० १, पृ० २६१ ।

पारितोषिक^१—वि० [सं०] आनंदकर । प्रीतिकर ।

पारितोषिक^२—सज्ञा पुं० वह धन या वस्तु जो किसी पर परितुष्ट या प्रसन्न होकर उसे दी जाय अथवा जो किसी को प्रसन्न करने के लिये उसे दी जाय । इनाम ।

पारिध्वजिक—सज्ञा पुं० [सं०] भडावरदार । भडा या ध्वजा लेकर चलनेवाला [को०] ।

पारिपंथिक—सज्ञा पुं० [सं० पारिपन्थिक] बटपार । डाकू । चोर ।

पारिपाट्य—सज्ञा पुं० [सं०] परिपाटी । ढग । तरीका [को०] ।

पारिपातिकरथ—सज्ञा पुं० [सं०] वह रथ जो इधर उधर सेर करने के काम का होता था ।

पारिपात्र—सज्ञा पुं० [सं०] सप्त कुलपर्वतों में से एक जो विंध्य के अंतर्गत है ।

विशेष—इससे निकली हुई ये नदियाँ बताई गई हैं—वेदस्मृति, वेदवती, वृत्रघ्नी, सिंध, सानदिनी, सदानाग, मही, पारा, चर्मण्यवती, तृषी, विदिशा, वेत्रवती, शिषा इत्यादि (मार्कंडेय पुराण) । विष्णु पुराण में लिखा है कि मरुत और मालव जाति इस पर्वत पर निवास करती थी । कहीं कहीं 'पारियात्र' भी इसका नाम मिलता है । चीनी यात्री 'हुएन्सांग' ने दक्षिण के 'पारिपात्र' राज्य का उल्लेख किया है ।

पारिपात्रिक—सज्ञा पुं० [सं०] १ पारिपात्र नामक पर्वत पर बग्ने वाला । २. दे० 'पारिपात्र' [को०] ।

पारिपार्श्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पारिपद् । अनुचर । अरदली ।
 पारिपार्श्वक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पारिपार्श्विक' [को०] ।
 पारिपार्श्विक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पास खड़ा रहनेवाला सेवक ।
 परिपद् । अरदली । २ नाटक के अभिनय में एक विशेष
 नट जो स्थापक का अनुचर होता है । यह भी प्रस्तावना में
 सूत्रधार, नटी आदि के साथ घाता है ।
 पारिप्लव^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ एक जलपक्षी । २ अश्वमेधादि यज्ञो
 में कहा जानेवाला एक आख्यान (शतपथ ब्राह्मण) । ३
 नाव । जहाज । ४ एक तीर्थ (महाभारत) । ५ व्याकुलता ।
 वेचैनी (को०) ।
 पारिप्लव^२—वि० १ क्षुब्ध । चञ्चल । २ कपायमान । ३ अस्थिर ।
 विचलित । ४ तिरता हुआ । उतराता हुआ [को०] ।
 पारिप्लान्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ हस । २ व्याकुलता । वेचैनी । ३
 चञ्चलता । अस्थिरता । ४ कपन [को०] ।
 पारिभद्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ फरहद का पेड़ । २ देवदार । ३
 सरल वृक्ष । सलई का पेड़ । ४ कुट ।
 पारिभद्रक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ फरहद । २ देवदार । ३ नीम ।
 कुट ।
 पारिभान्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ परिभू या जामिन होने का भाव ।
 २ कुट नामक श्लोषि ।
 पारिभाषिक—वि० [सं०] जिसका अर्थ परिभाषा द्वारा सूचित किया
 जाय । जिसका व्यवहार किसी विशेष अर्थ के संकेत के रूप
 में किया जाय । जैसे, पारिभाषिक शब्द ।
 पारिमांडल्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पारिमाण्डल्य] अणु या परमाणु का
 परिमाण ।
 पारिमाण्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] घेरा । परिधि [को०] ।
 पारिमित्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सीमा । परिसीमा [को०] ।
 पारिमुखिक—वि० [सं०] जो समक्ष हो । सामने का । २ निकट ।
 समीप [को०] ।
 पारिमुख्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ उपस्थिति । मौजूदगी । २ निकटता ।
 समीपता [को०] ।
 पारियात्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पारियात्र' ।
 पारियात्रिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पारियात्रिक' [को०] ।
 पारियानिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] यात्रा का यान । वह सवारी जिसपर
 यात्रा की जाय [को०] ।
 पारिरक्षक, पारिरक्षिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] तपस्वी । साधु ।
 पारिवारिक—वि० [सं० परिवार + इक (प्रत्य०)] परिवार से
 संबंधित । परिवार का ।
 पारिवित्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बड़े भाई के अविवाहित रहते छोटे भाई
 का विवाह हो जाना [को०] ।
 पारिवेज्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पारिवित्य' [को०] ।
 पारिव्राजक, पारिव्राज्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ परिव्राजक का कर्म या
 भाव । २ एक प्रकार का अश्वत्थ ।

पारिश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पारिस पीपल । परास पीपल ।
 पारिशील—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का पूआ या मालपूआ ।
 पारिशोय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जो छोड़ दिया गया हो । अवशिष्ट ।
 [को०] ।
 पारिश्रमिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] किए हुए काम की मजूरी । मेहनताना ।
 पारिषद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. परिषद में बैठनेवाला । सभा में बैठने-
 वाला । सभासद । सभ्य । पच । २. अनुयायिवर्ग । गण ।
 जैसे, शिव के पारिषद, विष्णु के पारिषद ।
 पारिपद्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] परिपद् में बैठनेवाला दर्शक ।
 पारिस(पु)—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पारस' । उ०—जाकों पारिस पिय
 नहिं तजै दिन दिन मदन महोत्सव सजै ।—नद० ग्रं०,
 पृ० १५७ ।
 पारिस पीपल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पारीश पिपल] मिठी की जाति
 का एक पेड़ जिसमें कपास के डोड़े के आकार का फल
 लगता है ।
 विशेष—यह फल खाने में खट्टा होता है । इसमें मिठी के समान
 ही सुदूर पाँच दलों के बड़े बड़े फूल लगते हैं । इसकी जड़
 मीठी और छाल का रेशा मीठा कसैला होता है । वैद्यक में
 इसके फल गुरुपाक, कृमिघ्न, शुक्रवर्धक और कफकारक कहे
 गए हैं ।
 पारिसीर्य—वि० [सं० पारिसीर्य] जो बिना जोते हुए हो । जो हल
 की खेती से न उपजा हो । जैसे, तिन्नी का चावल ।
 पारिहारिक^१—वि० [सं०] १ परिहार करनेवाला । २ हरण करने-
 वाला । ग्रहण करनेवाला (को०) । ३ घेरनेवाला (को०) ।
 पारिहारिक^२—सञ्ज्ञा पुं० हार या मालाएँ बनानेवाला [को०] ।
 पारिहारिकी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक ढग की पहली [को०] ।
 पारिहार्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पारिहार्य] १ परिहारत्व । २ वलय ।
 हाथ का कड़ा ।
 पारिहासिक—वि० [सं० पारिहास+इक (प्रत्य०)] परिहास-
 युक्त । हँसी दिल्लगी करनेवाला । हास्य विनोद से भरा
 हुआ । उ०—होली में पारिहासिक नवर निकालने की ।—
 प्रेमघन०, भा० २, पृ० ३०२ ।
 पारिहास्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हँसी मजाक । दिल्लगी [को०] ।
 पारिहोषिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] क्षतिपूर्ति । नुकसानी । हरजाने
 की रकम ।
 पारींद्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पारीन्द्र] १ सिंह । २ अजगर ।
 पारी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० वार, वारी अथवा पाली] किसी बात
 का अवसर जो कुछ अंतर देकर क्रम से प्राप्त हो । वारी ।
 ओसरी । दे० 'वारी' ।
 क्रि० प्र०—आना ।—पढ़ना ।—होना ।
 पारी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पारना] गुड आदि का जमाया हुआ
 बड़ा ढोका ।
 पारी^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. पुरवा । चुक्कड़ । ध्याला । २. जल-

- समूह । ३ हाथी के पैर की रस्सी । ४ पुष्प रज । पराग (को०) ।
- पारी^४—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० या ?] जहाज के मस्तूल के नीचे का भाग । (लश०) ।
- पारीक्षित—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ परीक्षित का पुत्र या वंशज । २ जनमेजय । ३ परीक्षित राजा [को०] ।
- पारीण—वि० [सं०] १ दूसरी ओर होने या दूसरी ओर जानेवाला । २ किसी विद्या में पारगत । किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता । ३ पूरा करनेवाला । समाप्त करनेवाला [को०] ।
- पारीणाहय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पारिणाह्य' [को०] ।
- पारोय^१—वि० [सं०] पूर्णज्ञाता । पारगत [को०] ।
- पारीय^२—वि० [सं० पार+ईय (प्रत्य०)] पार का । नदी या समुद्र के उस पार स्थित । जैसे, समुद्रपारीय देश ।
- पारीरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ कछुआ । २ ढडा । छड़ी (को०) । ३ प्रकार का पहनावा । एक पोशाक (को०) ।
- पारीश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पारिस पीपल का पेड़ ।
- पारु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ अग्नि । २ सूर्य ।
- पारुष्ण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक पक्षी [को०] ।
- पारुष्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वचन की कठोरता । वाक्य की अप्रियता । बात का कड़वापन । २ परुषता । रखाई । ३ इद्र का वन । ४ अग्रर । ५ वृहस्पति ।
- पारेरक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार की तलवार या कटार ।
- पारेव^७—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'परेवा' । उ०—लष एक लष लष्या मुहा पारेवह जिन पष लिय ।—पृ० रा० ११ । ५ ।
- पारेवत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का खजूर ।
- पारेवा^७—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] परेवा । पक्षी । उ०—सदेसउ जिन पाठवइ, मरिस्थउ^७ हीया फूटि । परेवा का भूल जिउं, पडिनहँ आंगिणि श्रूटि ।—ढोला०, दू० १४३ ।
- पारोकियाँ—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परकीया] दे० 'परकीया' । उ०—बीजुलियाँ पारोकियाँ नीठ ज नीगमियाँह । अजइ न सज्जण वाहुणे बलि पाछी बलियाँह ।—ढोला०, दू० १५३ ।
- पारोक्ष—वि० [सं०] अस्पष्ट । रहस्यमय ।
- पारोद्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भेद । रहस्य [को०] ।
- पारोवर्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] परपरा [को०] ।
- पार्क—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] बड़ा बगीचा । उपवन ।
- पार्घट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] राख । भस्म ।
- पार्जन्य—वि० [सं०] पर्जन्य सबधी । वर्षा सबधी (को०) ।
- पार्ट—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] १ नाटकांतर्गत कोई भूमिका या चरित्र जो किसी अभिनेता को अभिनय करने को दिया जाय । भूमिका । जैसे—उसने प्रताप सिंह का पार्ट बड़ी उत्तमता से किया । २ हिस्सा । भाग । जैसे—आज कल वे सभा सोसाइटियों में पार्ट नहीं लेते । ३ (पुस्तक का) खंड । भाग । हिस्सा ।

- पार्टिशन—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] बाँटने या विभाग करने की क्रिया । किसी चीज के दो या अधिक भाग या हिस्से करना । विभाग । बँटवारा । जैसे बगल पार्टिशन । पार्टिशन सूट ।
- पार्टी—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ०] १ मडली । दल । २ पक्ष । ३ दावत । भोज ।
- क्रि० प्र०—देना ।
- पार्टीबंदी—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ० पार्टी+फा० बंदी] । दलबंदी । गुटबाजी ।
- पार्थ^१—वि० [सं०] १ पत्तो का बना हुआ (कुटी आदि) । २ पत्तियों से प्राप्त (कर) । ३ पत्तो से सबधित [को०] ।
- पार्थ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पृथ्वीपति । २ (पृथा का पुत्र) अर्जुन । ३ युधिष्ठिर और भीम ।
- विशेष—कुती का नाम 'पृथा' भी था इसी से कुती की तीन सतानों में से प्रत्येक को 'पार्थ' कहते थे ।
- ४ अर्जुन वृक्ष ।
- पार्थक्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पृथक् होने का भाव । भेद । २ जुदाई । वियोग ।
- पार्थव^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पृथु होने का भाव । भारीपन । २ बड़ाई । विशालता । ३ स्थूलता । मोटाई ।
- पार्थव^२—वि० पृथु सबधी ।
- पार्थसारथि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ अर्जुन के सारथी, कृष्ण । २ मीमांसा के एक आचार्य [को०] ।
- पार्थिव—वि० [सं०] १ पृथिवी सबधी । २ पृथ्वी से उत्पन्न पृथिवी का विकार रूप । जैसे, पार्थिव शरीर । ३ हिंदा आदि का बना हुआ । ४ सासारिक । ससार सबधी (को०) । ५ राजा के योग्य । राजसी । ६ पृथिवी का शासक (को०) ।
- पार्थिव^३—सञ्ज्ञा पुं० १ राजा । २ तगर का पेड़ । ३ एक सबत्सर ४ भगल ग्रह । ५ मिट्टी का वर्तन । ६ पृथिवी पर रहने वाले प्राणी । सासारिक जीव (को०) । ७ शरीर । देह (को०) । ८ पार्थिव लिंग । मिट्टी का शिवलिंग जिसके पूजन का बड़ फल माना जाता है ।
- पार्थिव श्राय—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] जमीन की आमदनी । मालगुजार लगान ।
- पार्थिवकन्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] राजपुत्री । राजकुमारी [को०] ।
- पार्थिवता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पार्थिव+ता (प्रत्य०)] धरती उत्पन्न होने का भाव । लौकिकता । उ०—दूसरी ओर उन पार्थिवता धरती के उस गुरुत्व से बँधी हुई है जो आज पहली आवश्यकता है ।—अपरा, पृ० ९ ।
- पार्थिवनदन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पार्थिवनन्दन] सूर्य [को०] ।
- पार्थिवनंदिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] राजा की पुत्री । १। कुमारी [को०] ।
- पार्थिवपुत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सूर्य [को०] ।

यौ० —पार्थिवपुत्रपौत्र = यम के पुत्र युधिष्ठिर ।
 पार्थिवलिंग—सज्ञा पुं० [सं० पार्थिव लिंग] १ राजा का गुण ।
 २ राजचिह्न [को०] ।
 पार्थिवश्रेष्ठ—सज्ञा पुं० [सं०] सर्वश्रेष्ठ राजा [को०] ।
 पार्थिवसुत—सज्ञा पुं० [सं०] सूर्य [को०] ।
 पार्थिवसुता—सज्ञा स्त्री० [सं०] राजा की पुत्री । राजकुमारी [को०] ।
 पार्थिवात्मज—सज्ञा पुं० [सं०] सूर्य [को०] ।
 पार्थिवाधम—सज्ञा पुं० [सं०] अधम राजा । नीच राजा [को०] ।
 पार्थिवी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ (पृथिवी से उत्पन्न) सीता ।
 २ उमा । पार्वती । ३ लक्ष्मी [को०] ।
 पार्थी—सज्ञा पुं० [सं० पार्थिव] मिट्टी का शिवलिंग ।
 पार्पर—सज्ञा पुं० [सं०] १ यम । २ मुट्टी या भ्रंजुगी भर चावल [को०] । ३ क्षय रोग [को०] । ४ राख । भस्म [को०] ।
 ५ कदम का केसर [को०] ।
 पार्थिक—वि० [सं० पार्थिक] अतिम । निर्णायक [को०] ।
 पार्थ^१—सज्ञा पुं० [सं० पार्थिक] १ एक रुद्र का नाम (शुक्ल यजु०) ।
 २ अत । निश्चय । समाप्ति । परिणाम [को०] ।
 पार्थ^२—वि० [सं०] १ जो दूसरे तट पर या दूसरी ओर हो । २ ऊपरी । ३ अतिम । निर्णायक । ४ प्रभावकारी । सफल [को०] ।
 पार्लामेंट—सज्ञा स्त्री० [अ०] वह सभा जो देश या राज्य के शासन के लिये नियम बनाए । कानून बनानेवाली सबसे बड़ी सभा ।
 विशेष—इस शब्द का प्रयोग विशेषतः अंगरेजी राज्य की शासनव्यवस्था निर्धारित करनेवाली महामभा के लिये होता है जिसके सदस्य जनता के भिन्न भिन्न वर्गों द्वारा चुने जाते हैं । अंगरेजी साम्राज्य के भीतर कनाडा आदि स्वराज्य-प्राप्त देशों की ऐसी सभाओं के लिये भी यह शब्द आता है ।
 पार्वण^१—सज्ञा पुं० [सं०] वह श्राद्ध जो किसी पर्व में किया जाय । जैसे, अमावास्या या ग्रहण आदि के दिन किया जानेवाला श्राद्ध ।
 पार्वण^२—वि० अमावास्या या किसी पर्व के दिन किया जानेवाला [को०] ।
 पार्वत^१—वि० [सं०] १ पर्वत सबधी । २ पर्वत पर होनेवाला । ३ जहाँ पहाड़ हो ।
 पार्वत^२—सज्ञा पुं० १ महर्निव । वकायन । २ ईगुर । ३ शिलाजतु । मिलाजीत । ४ सीसा धातु । ५ एक अस्त्र ।
 पार्वतपीलु—वि० [सं०] अक्षोट । अखरोट ।
 पार्वतायन—सज्ञा पुं० [सं०] पर्वत ऋषि की परंपरा या गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति ।
 पार्वतिक—सज्ञा पुं० [सं०] पर्वतश्रेणी । पर्वतमाला [को०] ।
 पार्वती—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ हिमालय पर्वत की कन्या, शिव की अर्धांगिनी देवी जो गौरी, दुर्गा आदि अनेक नामों से पूजी

जाती हैं । शिवा । भवानी ।
 पर्या०—उमा । गिरिजा । गौरी ।
 २ शलकी । सलई । ३ गोपीचदन । ४ सिंहली पीपल । ५ छोटा पखानभेद । ६ घाय का पौधा । ७ अलमी । तीसी । ८ द्रौपदी [को०] । ९ पहाड़ी नाला [को०] । १० गोपी । गोपिका [को०] ।
 पार्वतीनन्दन—सज्ञा पुं० [सं० पार्वतीनन्दन] १ कार्तिकेय । २ गणेश [को०] ।
 पार्वतीनेत्र—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पार्वतीलोचन' [को०] ।
 पार्वतीय^१—सज्ञा पुं० [सं०] पर्वत सबधी । पहाड़ का । पहाड़ी ।
 पार्वतीय^२—सज्ञा पुं० एक पर्वती जाति [को०] ।
 पार्वतीलोचन—सज्ञा पुं० [सं०] ताल के साठ में से एक ।
 पावतीसख—सज्ञा पुं० [सं०] शिव [को०] ।
 पावतेय^१—वि० [सं०] पर्वत पर होनेवाला ।
 पार्वतेय^२—सज्ञा पुं० १. अजन । सुरमा । २. हुंहुं का पौधा । ३ जिगिनी । जिगनी । ४ घाय का पेड़ ।
 पार्वत्य—वि० [सं०] पहाड़ी । पर्वतीय । उ०—क्वार की त्रयोदशी का चंद्रमा पार्वत्य प्रदेश के निर्मल आकाश में ऊँचा उठ अपनी शीतल आभा से आकाश और पृथ्वी को स्तम्भित किए था ।—पिजरे०, पृ० १० ।
 पार्श्व—सज्ञा पुं० [सं०] पार्श्व या फरसे से युद्ध करनेवाला योद्धा ।
 पार्शुका—सज्ञा स्त्री० [सं०] पार्श्व की हड्डी । पसली । पजर की हड्डी ।
 पार्श्व^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ वृक्ष का अग्रभाग । काँख के नीचे का भाग । छाती के दाहिने या बाएँ का भाग । बगल । उ०—एक भीरु विशाल दर्पण है लगा । पार्श्व से प्रतिबिम्ब जिनमे है जगा ।—साकेत, पृ० १२ । २ इधर उधर पडनेवाला स्थान । अगल बगल की जगह । पास । निकटता । समीपता ।
 यौ०—पार्श्ववर्ती = पास में बैठनेवाला । साथी या मुसाहिव ।
 ३ पार्श्वस्थि । पसली । ४ कुटिल उपाय । टेढ़ी चाल । ५ पार्श्वनाथ [को०] । ६ पहिए की घुंठी का छोर या किनारा [को०] ।
 पार्श्व—वि० समीप का । निकट का । नजदीकी ।
 पार्श्वक—सज्ञा पुं० [सं०] १ अनेक प्रकार के कुटिल उपाय रचकर धन कमानेवाला । चालबाजी के सहारे अपनी बढ़ती चाहनेवाला । २ चोर । ठग [को०] । ३ ऐंद्रजालिक । वाजीगर [को०] । ४ साथी । मित्र [को०] ।
 पार्श्वकर—सज्ञा पुं० [सं०] वकाया मालगुजारी । पिछले साल की बाकी जमा ।
 पार्श्वग^१—वि० [सं०] बगल में चलनेवाला । साथ में रहनेवाला ।
 पार्श्वग^२—सज्ञा पुं० १ सहचर । २ परिचारक [को०] ।
 पार्श्वगत—वि० [सं०] १ जो बगल में हो । जो निकट या साथ ही । २ रक्षित [को०] ।

पार्श्वगय—वि० [सं०] दे० 'पार्श्वग' [को०] ।

पार्श्वगायक—सञ्ज्ञा पु० [सं० पार्श्व + गायक] [स्त्री० पार्श्वगायिका]
पार्श्व में रहकर गानेवाला व्यक्ति । अभिनय या नाटक में
थ्रोट से गानेवाला व्यक्ति ।

विशेष—दे० 'पार्श्वगायन' ।

पार्श्वगायन—सञ्ज्ञा पु० [सं० पार्श्व + गायन] पदों के पीछे से गाना ।
अभिनय या नाटक में थ्रोट से गाना ।

विशेष—पार्श्वगायन का उपयोग सिनेमा में अधिक होता है ।
जो अभिनेता या अभिनेत्रियाँ अभिनय के साथ गा नहीं पाते
उनके गीतों को अन्य गायक या गायिका से गवाया जाता है ।
ये गायक पदों पर सामने नहीं आते इनके गीत ध्वनि अंकित
करनेवाली मशीन (टेप रिकार्डर) पर अंकित कर लिए
जाते हैं जिन्हें अभिनय के समय यथास्थान बजाकर सम्मिलित
कर लिया जाता है । इस प्रकार के गायक या गायिका को
पार्श्वगायक या पार्श्वगायिका कहते हैं ।

पार्श्वचर—वि० [सं०] दे० 'पार्श्वग' [को०] ।

पार्श्वतीय—वि० [सं०] बगल में स्थित । पार्श्ववर्ती [को०] ।

पार्श्वद—सञ्ज्ञा पु० [सं०] नीकर । सेवक । उ०—पार्श्वद गए
इधर उधर दौड धूप करके अपना अपना काम करने लगे ।
—वैशाली, पृ० २४६ ।

पार्श्वदर्शन—सञ्ज्ञा पु० [सं० पार्श्व + दर्शन] बगल से देखना । बगल
से देखने की क्रिया । उ०—धर्मात्क विरक्त पार्श्वदर्शन से
खींच नयन ।—अपरा, पृ० ६२ ।

पार्श्वदेश—सञ्ज्ञा पु० [सं०] बगल । पार्श्व [को०] ।

पार्श्वनाथ—सञ्ज्ञा पु० [सं०] जैनो के तेईमवें तीर्थंकर ।

विशेष—वाराणसी में अश्वसेन नाम के इक्ष्वाकुवंशीय राजा थे
जो बड़े धर्मात्मा थे । उनकी रानी वामा भी बड़ी विदुषी
और धर्मशीला थी । उनके गर्भ से पीष कृष्ण दशमी को एक
महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ जिमका वर्ण नील था और
जिसके शरीर पर सर्पचिह्न था । सब लोको में आनंद फैल
गया । वामा देवी ने गर्भकाल में एक बार अपने पार्श्व में
एक सर्प देखा था इससे पुत्र का नाम 'पार्श्व' रखा गया ।
पार्श्व दिन दिन बढ़ने लगे और नौ हाथ लंबे हुए । कुशस्थान
के राजा प्रसेनजित् की कन्या प्रभावती 'पार्श्व' पर अनुरक्त
हुई । यह सुन कलिग देश के यवन नामक राजा ने प्रभावती
का हरण करने के विचार से कुशस्थान को आ घेरा ।
अश्वसेन के यहाँ जब यह समाचार पहुँचा तब उन्होंने बड़ी
भारी सेना के साथ पार्श्व को कुशस्थल भेजा । पहले तो
कलिगराज युद्ध के लिये तैयार हुआ पर जब अपने मंत्री के
मुख से उसने पार्श्व का प्रभाव सुना तब आकर क्षमा माँगी ।
अत में प्रभावती के साथ पार्श्व का विवाह हुआ । एक दिन
पार्श्व ने अपने महल से देखा कि पुरवासी पूजा की सामग्री
लिये एक ओर जा रहे हैं । वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि एक
तपस्वी पचाग्नि ताप रहा है और अग्नि में एक सर्प मरा

पड़ा है । पार्श्व ने कहा —'दयाहीन धर्म किसी काम का
नहीं' । एक दिन बगीचे में जाकर उन्होंने देखा कि एक जगह
दीवार पर नेमिनाथ चरित्र अंकित है । उसे देख उन्हें वैराग्य
उत्पन्न हुआ और उन्होंने दीक्षा ली तथा स्थान स्थान पर
उपदेश और लोगो का उद्धार करते घूमने लगे । वे अग्नि
के समान तेजस्वी, जल के समान निर्मल और आकाश के
समान निरवलंब हुए । काशी में जाकर उन्होंने चौरासी दिन
तपस्या करके ज्ञानलाभ किया और त्रिकालज्ञ हुए । पुं०, इं०,
ताम्रलिप्त आदि अनेक देशों में उन्होंने भ्रमण किया । ताम्र-
लिप्त में उनके अनेक शिष्य हुए । अत में अपना निर्वाणकाल
समीप जानकर समेत शिखर (पारसनाथ की पहाड़ी जो
हजारीबाग में है) पर चले गए जहाँ श्रावण शुक्ल अष्टमी
को योग द्वारा उन्होंने शरीर छोड़ा ।

पार्श्वपरिवर्तन—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १. करवट बदलना । २. भाद्रपद
मास के कृत्तपक्ष में द्वादशी के दिन पढनेवाला एक
त्योहार [को०] ।

पार्श्वभाग—सञ्ज्ञा पु० [सं०] बगल का भाग । बाजू [को०] ।

पार्श्वभूमि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पार्श्व + भूमि] पृष्ठभूमि । आधार ।
उ०—यहाँ तक कि प्रेमचंद जैसे लेखक को भी मैं स्वतंत्र
पार्श्वभूमि नहीं दे सका हूँ ।—नया०, पृ० ४ ।

पार्श्वमंडली—सञ्ज्ञा पु० [सं० पार्श्वमण्डलिन्] नृत्य में एक विशेष
प्रकार की मुद्रा [को०] ।

पार्श्वमौलि—सञ्ज्ञा पु० [सं०] कुबेर का एक मंत्री ।

पार्श्ववक्त्र—सञ्ज्ञा पु० [सं०] महादेव [को०] ।

पार्श्ववर्ती^१—सञ्ज्ञा पु० [सं० पार्श्ववर्तिन्] [स्त्री० पार्श्ववर्तिनी]
पास रहनेवाला । निकटस्थ जन । मुसाहब । सेवक ।

पार्श्ववर्ती^२—वि० १ जो बगल में हो । जो पास में हो । २
निकटस्थ । पास में या निकट में ही स्थित [को०] ।

पार्श्वशय—वि० [सं०] १ बगल में सोनेवाला । २ करवट से
सोनेवाला [को०] ।

पार्श्वशूल—सञ्ज्ञा पु० [सं०] पसवी का दर्द ।

विशेष—सुश्रुत में लिखा है कि इसमें सूई छेदने की सी पीड़ा
होती है और साँस कण्ठ से निकलती है । यह कफ और वायु
के विगडने से होता है ।

पार्श्वसंगीत—सञ्ज्ञा पु० [सं० पार्श्व + सङ्गीत] १ वह गीत जो नाटक
या सिनेमा में अभिनय के साथ साथ पृष्ठभूमि में चलता
रहता है । २ वह संगीत जो पार्श्वगायक या पार्श्वगायिका
द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ।

पार्श्वसंधान—सञ्ज्ञा पु० [सं० पार्श्वसन्धान] बगल से इँटा को
रखकर जुड़ाई करना [को०] ।

पार्श्वसूत्रक—सञ्ज्ञा पु० [सं०] प्राचीन काल का एक आभूषण ।

पार्श्वस्थ^१—वि० [सं०] १ पास खड़ा रहनेवाला । २, निकट का
निकटस्थ [को०] ।

पार्श्वस्थ^२—सज्ञा पुं० १ अभिनय के नटों में से एक । २ 'पारिपा-
श्वक' । ३ सहचर । साथी [को०] ।

पार्श्वानुचर—सज्ञा पुं० [सं०] नीकर । सेवक [को०] ।

पार्श्वीयात्—वि० [सं०] जो बहुत अधिक नजदीक आ गया हो ।

पार्श्वार्ति—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पार्श्वशूल' [को०] ।

पार्श्वसन्त—वि० [सं०] बगल में बैठा या खड़ा हुआ । पास ही में
उपस्थित [को०] ।

पार्श्वसीन—वि० [सं०] बगल में बैठा हुआ [को०] ।

पार्श्वस्थि—सज्ञा पुं० [सं०] पसली की हड्डी ।

पार्श्विक^१—वि० [सं०] १ बगलवाला । पार्श्वसंबन्धी । २ अन्याय से
रूपया कमाने की फिक्र में रहनेवाला ।

पार्श्विक^२—सज्ञा पुं० १ पक्षपाती । तरफदार । २ सहयोगी । ३
सहचर । साथी । ४ धोखेबाज । चोर । ठग [को०] ।

पार्श्वैकादशी—सज्ञा स्त्री० [सं०] भाद्र शुक्ल एकादशी जिस दिन
विष्णु भगवान् करवट लेते हैं ।

पार्श्वोदरप्रिय—सज्ञा पुं० [सं०] केकडा [को०] ।

पार्श्वत^१—वि० [सं०] १ पृथक् संबन्धी । २ द्रुपद राजा संबन्धी ।

पार्श्वत^२—सज्ञा पुं० द्रुपद का पुत्र घृष्टघाम्नि ।

पार्श्वती—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ द्रौपदी । २ दुर्गा [को०] ।

पार्श्व^३—सज्ञा पुं० [सं०] १ पास रहनेवाला सेवक । पारिपद । २.
मुसाहब । मंत्री । उ०—भ्रमात्थो श्रीर पार्षद वर्गों मे भी
भापा के सुकवि वर्तमान थे । —प्रेमघन०, भा० २, पृ०
३०६ । ३ विख्यात पुरुष ।

पार्षद^२—सज्ञा स्त्री० [सं०] सभा । परिपद [को०] ।

पार्षद्य—सज्ञा पुं० [सं०] परिपद का सदस्य । सभासद [को०] ।

पार्ष्णि—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. एंडी । २ वृष्ट । ३ सैन्यपृष्ठ ।
चदावल । ४ ठीकर । पादाघात [को०] । ५ जीतने की
अभिलाषा । विजयेच्छा [को०] । ६ जाँच पड़ताल । तहकीकात
[को०] । ७ कुलटा स्त्री [को०] । ८ कुत्ते का एक नाम [को०] ।

पार्ष्णिक्षेम—सज्ञा पुं० [सं०] विश्वेदेवा में से एक ।

पार्ष्णिग्रह^१—सज्ञा पुं० [सं०] अनुयायी [को०] ।

पार्ष्णिग्रह^२—वि० पीछे से आक्रमण करनेवाला [को०] ।

पार्ष्णिग्रहण—सज्ञा पुं० [सं०] शत्रु पर पीछे से आक्रमण करना या
उसे धमकाना [को०] ।

पार्ष्णिग्राह—सज्ञा पुं० [सं०] १ सेना को पीछे से दबोचनेवाला
(शत्रु) या सहायता पहुँचानेवाला (मित्र) । २ सेना के
पिछले भाग का संचालन करनेवाला सेनानायक [को०] । ३
समर्थक राजा या मित्र [को०] ।

पार्ष्णिघात—सज्ञा पुं० [सं०] घात मारना । पदाघात [को०] ।

पार्ष्णित्र—सज्ञा पुं० [सं०] पीछे रखी जानेवाली सेना । सुरक्षित सेना
[को०] ।

पार्ष्णिप्रतिविधानो—सज्ञा पुं० [सं०] सेना के पिछले भाग को कमजोर
पढ़ने पर पुष्ट करना ।

पार्ष्णिग्रहण—सज्ञा पुं० [सं०] १० 'पार्ष्णिघात' [को०] ।

पार्ष्णि—सज्ञा पुं० [सं०] स्पर्श, हिं० पारम्] दे० 'पारम्' (मणि) ।
उ०—गुरु स्नाती गुरु रूप स्वरूपा । गुरु पास है आदि
अनूपा ।—कवीर सा०, पृ० ६०८ ।

पार्षल—सज्ञा पुं० [अ०] पुलिदा । बेंधी हुई गठरी । पैकेट । २ टाक
या रेल से रवाना करने के लिये बेंधा हुआ पुलिदा या गठरी ।

मुहा०—पार्षल करना = बाँधकर या लपेटकर टाक या रेल द्वारा
भेजना । पार्षल लगाना = बेंधी हुई गठरी या पुलिदे को
ढाकघर या रेलवे में बाहर भेजने के लिये देना ।

यी०—पार्षल क्लार्क = वह कर्मचारी जो पार्षल की व्यवस्था
करता है । पार्षलघर = वह स्थान जहाँ पार्षल लिए श्रीर
दिए जाते हैं । पार्षलगाड़ी, पार्षल ट्रेन = रेलगाड़ी जिससे
पासल भेजा जाता है । पार्षलघातू = पार्षल क्लार्क ।

पार्ष्व—वि० [सं०] पार्श्व] दे० 'पार्श्व' । उ०—निकट पार्ष्व
अधिवृत्त तट उपसमीप अभ्यास ।—अनेकार्थ०, पृ० ४६ ।

पालक—सज्ञा पुं० [सं०] पालक] १ पालक शाक । पालकी । २
बाज पक्षी । ३ एक रत्न जो बाला, हरा श्रीर लाल
होता है ।

पालकी—सज्ञा स्त्री० [सं०] पालक] १ पालक शाक । पालकी । २.
फदुर नाम का गधद्रव्य ।

पालक्य—सज्ञा पुं० [सं०] पालक्य] पालक का साग ।

पालखी—सज्ञा स्त्री० [सं०] पर्यटक, पर्यटिका, पर्यटक, पक्षक,
पल्लिक, हिं० पलंग, राज० पालखी] शय्या । पलंग ।
उ०—सज्जन्य चाल्या हे सखी काज्या विरह निसाण । पालखी
विसहर भई, मंदिर भयउ मसाण —डोला०, दू० ३५२ । २
एक सवारी । पालकी ।

पालंग—सज्ञा पुं० [सं०] पलंग] दे० 'पलंग' । उ०—पालंग पाँव कि
आछै पाटा । नेत विछाव चले जो बाटा ।—जायसी
(शब्द०) ।

पाल^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ पालक । पालनकर्ता । २ चरवाहा ।
३ पीकदान । ओगालदान । ४ चित्रक वृक्ष । चीते का
पेड़ । ५ बगल का एक प्रसिद्ध राजवश जिसने साढ़े तीन
सौ वर्ष तक बग श्रीर मगध में राज्य किया । ६ बंगालियों
की एक उपाधि । ७ राजा । नरेश [को०] ।

पाल^२—सज्ञा पुं० [हिं०] पालना] १ फलो को गरमी पहुँचाकर
पकाने के लिये पत्ते विछाकर रखने की विधि ।

विशेष—अन्न कारवाइड नामक रासायनिक धूर्ण से भी फल
आदि पकाए जाने लगे हैं । इससे आम आदि अपेक्षाकृत शीघ्र
पकते हैं ।

क्रि० प्र०—हालना ।—पढ़ना ।

२ फलो को पकाने के लिये भूसा या पत्ते कागज आदि विछाकर
वनाया हुआ स्थान । जैसे,—पाल का पका आम अच्छा
होता है ।

मुहा०—पाल का या ढाल का = पाल द्वारा पका हुआ या ढाल पर पका हुआ ।

पाल^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पट या पाट] १. वह लवा चौड़ा कपड़ा जिसे नाव के मस्तूल से लगाकर इसलिये तानते हैं जिसमें हवा भरे और नाव को ढकेले ।

क्रि० प्र०—चढ़ाना । —तानना । —उतारना ।

२ तबू । शाभियाना । चँदोवा । ३ गाड़ी या पालकी आदि ढकने का कपड़ा । ओहार ।

पाल^४—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पालि] १ पानी को रोकनेवाला बाँध या किनारा । मेढ । उ०—सतगुरु बरजै सिष करै क्यूँ करि बचै काल । हुहु दिसि देखत बहि गया पाणी फोडी पाल । —दाहू० पृ० १८ । २ भीटा । ऊँचा किनारा । कगार । उ०—खेलत मानसरोदक गई । जाइ पाल पर ठाडी भई । —जायसी (शब्द०) । ३ पानी के कटाव से कुआँ, नदी आदि के किनारे पर भीतर की ओर बननेवाला खोखला स्थान ।

पाल^५—सञ्ज्ञा पुं० [?] कबूतरों का जोड़ा खाना । कपोत-मैयुन ।

क्रि० प्र०—खाना ।

पाल^६—सञ्ज्ञा पुं० [?] तोप, बहुक या तमचे की नाल का घेरा या चक्कर । (लष०) ।

पाल^७—सञ्ज्ञा स्त्री० [प्रा० पाल] एक आभूषण । दे० 'पायल' । उ०—घम्म घमवइ घुघरइ, पग सोनेरो पाल । मारू चाली मदिरे, जाणि छुटो छुछाल ।—ढोला०, पृ० ५३६ ।

पाल^८—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पल्लव] दे० 'पालव', 'पल्लव' ।

पालक^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पालनकर्ता । २ राजा । नरपति (को०) । ३. अश्वरक्षक । सार्डिस । ४ अश्व । तुरग (को०) । ५. चीते का पेड़ । ६. पाला हुआ लडका । दत्तक पुत्र । ७ पालन करनेवाला । पिता (को०) । ८ रक्षण । वचाव (को०) । ९. वह व्यक्ति जो किसी बात का निर्वाह करे (को०) ।

पालक^२—वि० रक्षक । प्राता

पालक^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पालक] एक प्रकार का साग ।

विशेष—इसके पीधे मे टहनियाँ नहीं होती, लवे लवे पत्ते एक केंद्र से चारों ओर निकलते हैं । केंद्र के बीच से एक डठन निकलता है जिसमें फूलों का गुच्छा लगता है ।

पालक^४—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पलक] पलक । पट्यक । उ०—को पालक पीठे को माढ़ी । सोवनहार परा बैदि गाढ़ी ।—जायसी (शब्द०) ।

पालक जूही—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] एक छोटा पीघा जो दवा के काम में आता है ।

पालकरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पलक] लकड़ी का टुकड़ा जो चारपाई के सिरहाने के पायों के नीचे उसे ऊँचा करने के लिये रखा जाता है ।

पालकाप्य, पालकाव्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ एक प्राचीन ऋषि जो करेणु के पुत्र थे और जिन्होंने सर्वप्रथम हाथियों के सबध मे वैज्ञानिक जानकारी प्रस्तुत की । उ०—पालकाव्य के विरह वरि अग भए अति खीन ।—पृ० रा०, २७।७ । २ हाथियों की विद्या । हाथियों के विषय मे वह शास्त्र जिसमे उनके लक्षण गुण आदि का वर्णन रहता है (को०) ।

पालकी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पल्यङ्क] एक प्रकार की सवारी जिसे आदमी कंधे पर लेकर चलते हैं और जिसमें आदमी आराम से लेट सकता है । म्याना । खडखडिया । अच्छी डोली ।

विशेष—पीनस, चौपाल, तामजान इत्यादि, इसके कई भेद होते हैं । कहार इसे कंधे पर लेकर चलते हैं ।

पालकी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पालक] पालक का शाक ।

पालकी गाड़ी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पालकी+गाड़ी] वह गाड़ी जिसपर पालकी के समान छत हो ।

पालखी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पालकी' । उ०—आठ सेहस नेजा धणी । पालखी बइठ सहस पचास ।—वी० रासो, पृ० ११ ।

पालगर^१—वि० [हिं० पालना+फा० गर (प्रत्य०)] पालक । पालन करनेवाला । उ०—प्रथमी छट्टा पालगर नर मट्टा करनार । तखत वयट्टा सूष कवि थट्टा नगर मभार ।—वाँकी० ग्र०, भा० १, पृ० ५७ ।

पालघ्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. छत्राक । खुमी । २ जलनृण ।

पालट^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] पटेबाजी की एक चोट का नाम ।

पालट^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पालन, हिं० √पाल+ट (प्रत्य०)] १ पाला हुआ लडका । दत्तक पुत्र । २ वह व्यक्ति जो किसी के बदले मे कार्य करे । वह व्यक्ति जिसके विषय में यह माना जाता हो कि उसे किसी की ओर से कार्य करने का अधिकार मिला है । प्रतिनिधि (व्यग्र्य) । उ०—वही तुम्हारा जवान पालट, जिसने बुढ़ीती में तुम्हारी तकदीर की उल्टे छूरे से हजामत बना दी ।—शराबी, पृ० ११४ ।

पालटना^१—क्रि० अ० [हिं० पलटना] दे० 'पलटना' । उ०—दिए परषों दिस पालटइ, सखी वाव फरुकती जाइ ससार ।—वी० रासो, पृ० ६८ ।

पालड़ा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पलडा] दे० 'पलडा' । उ०—एक पालडे सीस धरि तोले ताके साथ ।—सुदर० ग्र०, भा० २, पृ० ७३१ ।

पालणो^१—वि० [हिं० पालना] पाली हुई । पालित । पाली पोसी । उ०—भगान नामदेव सुनो थिलोचन, वाकी पालणी पोटिला । दखिनी०, पृ० ३३ ।

पालती^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ० प्लेट ?] जोड़ या सीमन के तम्बे । (लष०) ।

पालती^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पालथी' ।

पालतू—वि० [सं० पालना] पाला हुआ । पोसा हुआ । जैसे, पालतू कुत्ता ।

पालथि (पु)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पालथी] दे० 'पालथी' । उ०—तर गेरि पटवर अवरयं । करि पालथि छोरिय कमरय ।—ह० रासो, पृ० ४६ ।

पालथी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पर्यस्त (= फैला हुआ)] एक प्रकार का वैठना जिसमें दोनों जधे दोनो और फैलाकर जमीन पर रखे जाते हैं और घुटनो पर से दोनो टांगे मोड़कर बायाँ पैर दाहिने जधे पर और दाहिना बाएँ पर टिका दिया जाता है । पचासन । कमलासन ।

क्रि० प्र०—मारना । लगाना ।

पालन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० पालनीय, पालित, पाल्य] १ भोजन वस्त्र आदि देकर जीवनरक्षा । भरण पोषण । रक्षण । परवरिश । २ तुरत की व्याई गाय का दूध । ३ लडको को वहलाने का गीत । ४. अनुकूल आचरण द्वारा किसी बात की रक्षा या निर्वाह । भग न करना । न टालना । जैसे, आज्ञा-पालन, प्रतिज्ञापालन, वचन का पालन ।

पालन^२—वि० रक्षा करनेवाला । रक्षक ।

यौ०—पालनपोषण = भोजन, कपडा आदि सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना । परवरिश । पालनहार = पूरा करनेवाला । पालनेवाला । उ०—साँई तुम व्रत पालन-हारे ।—जग० श०, भा० २, पृ० १०४ ।

पालना^१—क्रि० सं० [सं० पालन] १, पालन करना । भोजन वस्त्र आदि देकर जीवनरक्षा करना । रक्षा करना । भरण पोषण करना । परवरिश करना । जैसे,—इसी के लिये माँ बाप ने तुम्हें पालकर इतना बड़ा किया । २ पशु पक्षी आदि को रखना । जैसे, कुत्ता पालना, तोता पालना । ३ भंग न करना । न टालना । अनुकूल आचरण द्वारा किसी बात की रक्षा या निर्वाह करना । जैसे, आज्ञा पालना, प्रतिज्ञा पालना ।

पालना^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाल्यङ्ग] रस्सियों के सहारे टंगा हुआ एक प्रकार का गहरा खटोला या विस्तरा जिसपर बच्चों को सुलाकर इधर से उधर झुलाते हैं । एक प्रकार का झूला या हिडोला । पिगूरा । गह्वारा । उ०—(क) पालनो अति सुदर गढि ल्याउ रे बड़ैया ।—सूर०, १० । ४१ । (ख) जसोदा हरि पालनै झुलावै ।—सूर०, १० । ४३ ।

पालनीय—वि० [सं०] १ जिसकी रक्षा की जाय । २ जो रक्षणीय हो [क्रि०] ।

पालयिता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पालयितृ] रक्षक । अभिभावक [क्रि०] ।

पालरा (पु)—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पलरा' । उ०—सार शब्द के बने पालरा सत के डौड़ी लागी हो ।—कबीर श०, भा० ३, पृ० ५१ ।

पालल—वि० [सं०] तिल के चूर्ण से बना हुआ [क्रि०] ।

पालवंश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बगाल का एक प्रसिद्ध राजवंश जिसने साढ़े तीन सौ वर्ष तक मगध और बग देश पर राज्य किया था ।

विशेष—इस वंश के संस्थापक गोपाल थे जो सन् ७७५ ई० से

लेकर ७८५ ई० तक रहे । अतिम राजा गोविंद पाल थे जिन्होंने सन् ११४० ई० से लेकर ११६१ ई० तक राज्य किया । एक ताम्रपत्र में लिखा है कि पाल राजा मिहिर या सूर्यवंशी क्षत्रिय थे । डा० हार्नले का मत है कि पाल वंश के राजा बौद्ध थे ।

पालव—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पल्लव] १ पल्लव । पत्ता । २ कोमल पत्ता ।

पालवणी (पु)—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] एक प्रकार का हिंगलगी । उ०—चार पदा द्वाला चर्वा, मोहरा चार मिलाए । लघु गुरु नेम न ल्याइये, पालवणी परमाण ।—रघु०, पृ० १६५ ।

पाला^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रालेय] १. हवा में मिली हुई भाप के अत्यंत सूक्ष्म अणुओं की तह जो पृथ्वी के बहुत ठंडा हो जाने पर उसपर सफेद सफेद जम जाती है । हिम । उ०—जल तें पाला, पाला तें जल, अतम परमातम इकलास ।—सुंदर० श०, भा० १, पृ० १५६ ।

क्रि० प्र०—गिरना ।—बढ़ना ।

मुहा०—पाला पढ़ना = दे० 'पाला मार जाना' । पाला मार जाना = पीधे या फसल का पाला गिरने से नष्ट हो जाना । पाला मारना = दे० 'पाला मार जाना' ।

२ हिम । ठंड से ठोस जमा हुआ पानी । बर्फ । ३ ठंड । सरदी । शीत ।

पाला^२—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पल्ला] सबंध का भ्रवसर । लगाव का भोवा । व्यवहार करने का सयोग । वास्ता । साविका ।

विशेष—यह शब्द केवल 'पढ़ना' के साथ मुहा० के रूप में आता है । जैसे,—खूबो को जानता था गरमी करेगे मुझसे । दिल सदैव हो गया है जब से पढा है पाला ।—कविता कौ०, भा० ४, पृ० ६ ।

मुहा०—(किसी से) पाला पढ़ना = व्यवहार करने का सयोग होना । वास्ता पढ़ना । काम पढ़ना । जैसे,—बड़े भारी दुष्ट से पाला पढा है । (किसी के) पाले पढ़ना = वश में होना । कावू में आना । पकड़ में आना । उ०—(क) परेहू कठिन रावण के पाले ।—तुलसी (शब्द०) । (ख) जो सदा मारते रहे पाला । वे पड़े टालटूल के पाले ।—चुभते०, पृ० २५ ।

पाला^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पल्लव, हिं० पालो] ऋषदेरी की पत्तियाँ जो राजपूताने आदि में चारे के काम में आती हैं ।

पाला^४—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पट्ट हिं० पादा] १ प्रधान स्थान । पीठ । सदर मुकाम । २ सीमा निर्दिष्ट करने के लिये मिट्टी का उठाया हुआ मेड या छोटा भीटा । घुस । ३ कवड़ी के खेल में हृद के निशान के लिये उठाया हुआ मिट्टी का घुस या खीची हुई लकीर ।

मुहा०—पाला मारना = कवड़ी के खेल में सभी प्रतिपक्षियों को हराना । उ०—जो सदा मारते रहे पाला । वे पडे टालटूल के पावे ।—चुभते०, पृ० १५१ ।

४ अनाज भरने का बड़ा बरतन जो प्रायः कच्ची मिट्टी का गोल दीवार के रूप में होता है । डेहरी । ५. अखाड़ा । कुश्ती

लडने या कसरत करने की जगह । ६ दस पाँच आदमियों के उठने बैठने की जगह ।

पाला^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पालक, प्रा० पालय, हि० पालना] दे० 'पालक' । उ०—पुहविए पाला आवन्ता ।—कीर्ति०, पृ० ४६ ।

पालागन—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाल्य + लगना] प्रणाम । दंडवत । नमस्कार ।

विशेष—प्रणाम करने में, विशेषतः ब्राह्मणों को, इस शब्द का मुँह से उच्चारण भी किया जाता है, जैसे, पंडित जी पालागन ।

पालागल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हरकारा । संवादवाहक [को०] ।

पालागली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] राजा की चौथी और सबसे कम आदर पानेवाली पत्नी [को०] ।

पालान^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्याय, प्रा० पल्लाय] दे० 'पलान' । उ०—ज्ञान रग पालान, सुरति की काठी हो ।—धरनी० श०, पृ० ४४ ।

पालाश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ तमालपत्र । तेजपत्ता । २ हरा रंग । हरित वर्ण [को०] ।

पालाश—वि० १ पलाश से सबंधित । २ पलाश की लकड़ी का बना हुआ । ३. हरे रंग का [को०] ।

पालाशखण्ड—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पालाशखण्ड] मगध देश [को०] ।

पालाशि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक ऋषि जो पलाश गोत्र के प्रवर्तक थे [को०] ।

पालिंद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पालिन्द] कुँदुर नामक सुगंध द्रव्य ।

पालिदी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ सरिवन । सालसा । २ काला निसोथ । कृष्ण निसोथ ।

पालिंधी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पालिन्धी] दे० 'पालिदी' ।

पालि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. कर्णलताग्र । कान की ली । कान के पुट के नीचे का मुलायम चमड़ा ।

विशेष—पुट के जिस निचले भाग में छेद करके बालियाँ आदि पहनी जाती है उसे पालि कहते हैं । इस स्थान पर कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे, उत्पाटक जिसमें चिरचिराहट होती है, कड्डु जिसमें खुजली होती है, अधिक जिसमें जगह जगह गाँठें सी पड़ जाती हैं, श्याव जिसमें चमड़ा काला हो जाता है, स्नावी जिसमें बराबर खुजली होती और पनछा बहा करता है, आदि ।

२ कोना । ३ पक्ति । श्रेणी । कतार । ४ किनारा । ५ सीमा । हृद । ६ मेढ । बाँध । उ०—ढाडी एक सदेसडउ डोलइ लागि लइ जाइ । जोबण फट्टि तलावडी, पालि न धधउ काँई ।—ढोला०, पृ० १२२ । ७ पुल । करारा । कगार । भीटा । उ०—खेलत मानसरोदक गई । जाइ पालि पर ठाडी भई ।—जायसी (शब्द०) । ८. देग । बटलोई । ९. एक तौल जो एक प्रस्थ के बराबर होती थी । १०. वह वैशा हुआ भोजन जो छात्र या ब्रह्मचारी को गुरुकुल में मिलता था । ११. अक । गोद । उत्सव । १२. परिधि । १३. जूँ या

चीलर । १४. स्त्री जिसकी दाढी में बाल हो । १५. अक । चिह्न । १६. सस्तवन । प्रशसन (को०) । १७. श्रेणी । नितब (को०) । १८. लडा तालाव (को०) ।

पालिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पल्यङ्कक] १ पलंग । चारपाई । २ पालकी ।

पालिका^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. पालन करनेवाली । २. कान का वह नीचे का भाग जो अत्यंत कोमल होता है (को०) । ३. तलवार या किसी अन्य शस्त्र का पेना किनारा (को०) । ४. छूरी । छोटा चाकू (को०) । ५. स्थाली या पात्र (को०) ।

पालिका^२—वि० स्त्री० पालन करनेवाली । रक्षिका ।

पालिज्वर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का ज्वर [को०] ।

पालिटिक्स—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] १. नीति शास्त्र का वह अंग राष्ट्र या राज्य की शांति, सुव्यवस्था और सुखसमृद्धि लिये नियम, कायदे और शासनविधियाँ हो । २. राजनीति शास्त्र । ३. वे बातें जिनका राजनीति से संबंध हो । ३. अधिकारप्राप्ति के लिये राजनीतिक दलों की प्रतिद्वंद्विता ।

पालित^१—वि० [सं०] [वि० स्त्री० पालिता] १ पाला हुआ पोसा हुआ । २ रक्षित ।

पालित^२—सञ्ज्ञा पुं० सिहोर का वृक्ष [को०] ।

पालिता मदार—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पालित+मदार] एक पेड़ जिसकी शाखाओं और टहनियों में काले रंग के फल होते हैं ।

विशेष—कुछ लोग इसी पेड़ को मंदार कहते हैं । इसकी एक सींके के दोनो ओर लगती हैं और तीन तीन एक स रहती हैं । फूल के दल छोटे बड़े और क्रमविहीन होते हैं यह पेड़ बंगाल में समुद्रतट के पास होता है । मदारस वरमा में भी इसकी कई जातियाँ होती हैं । इसे बाढ़ भाँति लगाते हैं ।

पालित्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वृद्धावस्था के कारण बालों में सफेद आ जाना । बुजुर्गी [को०] ।

पालिघा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पारिभद्र वृक्ष । फरहद का पेड़ ।

पालिनी—वि० स्त्री० [सं०] पालन करनेवाली । रक्षा करनेवाली

पालिभंग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पालिभङ्ग] बाँध या सेतु का टूटना [को०]

पालिश—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ०] १ चिकनाई और चमक । शोष । रोगन या मसाला जिसके लगाने से चिकनाई और चमक आ जाय ।

मुहा०—पालिश करना = रोगन या मसाला रगड़कर चमकाने रोगन से चिकना और साफ करना । जैसे,—छूते पर पालिश कर दो । पालिश होना = रोगन से चिकना और चमकने किया जाना । पालिश देना = दे० 'पालिश करना' ।

पालिसी—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ०] १ नीति । कार्यसाधन का उपाय । उ०—हैं ! हमारी पालिसी के विशुद्ध उद्योग करते हैं, पूरे भारतेंदु श्र०, भाग १, पृ० ४७४ । २ वह प्रमाण प्रतिसाधक जो बीमा करनेवाली कंपनी की ओर से व

तानेवने तो पालिनी है, जिसमें लिखा रहता है कि अमुक जन्में पूरी होने या बीच में अमुक दुर्घटना घटित होने पर बीजा बननेवाले या उनके उत्ताधिकारी को इतना रुपया मिलेगा। वि० 'बीमा'।

बी०—पालिनी होल्डर।

पालिनी होल्डर—उ० पु० [व०] वट्ट जिनके पास किनी बीमा करनी की पालिनी हो। बीमा करानेवाला।

पाली^१—वि० [म० पालिन्] [वि० म० पालिनी] १ पालन करनेवाला। पोषण करनेवाला। २ रखनेवाला। रक्षा करनेवाला।

पाली^२—उ० पु० के पुत्र का नाम। (हरिवंश)।

पाली^३—उ० स्त्री० [सं० पल्लि (=विशिष्ट स्थान)] वह स्थान जहाँ तीतर, बुलबुल, बट्टा आदि पक्षी लडाए जाते हैं।

पाली^४—उ० स्त्री० [सं० या म० पालि (=वरतन)] १ वरतन का टाकन। पारा। परई। २ सं० 'पालि'।

पाली^५—उ० स्त्री० [सं० पालि (=पक्ति)] एक प्राचीन भाषा जिसे बौद्धों के धर्मग्रंथ लिखे हुए हैं और जिसका पठन पाठन स्वाम, परमा, सिंहल आदि देशों में उसी प्रकार होता है जिस प्रकार भारतवर्ष में संस्कृत का।

विशेष—बौद्ध धर्म के अभ्युदय के समय में इस भाषा का प्रचार बाह्य (प्रत्य) न केवल स्वाम देश तक और उत्तर भारत में न केवल सिंहल तक हो गया था। कहते हैं, बुद्ध भगवान् ने इसी भाषा में धर्मोपदेश किया था। बौद्ध धर्मग्रंथ त्रिपिटक इसी भाषा में हैं। पाली का नवमे पुराना व्याकरण कत्यायन (कात्यायन) का तुंगविलास है। ये कात्यायन कब हुए थे ठीक पता नहीं। सिंहल आदि के बौद्धों में यह प्रसिद्ध है कि कात्यायन बुद्ध भगवान् के शिष्यों में से थे और बुद्ध भगवान् ने ही उनसे उक्त भाषा का व्याकरण रचने के लिये कहा था जिसमें भगवान् के उपदेश होते थे। पर कात्यायन के व्याकरण में ही एक स्थान पर सिंहल द्वीप के राजा तिष्य का नाम आया है जो ईसा से ३०७ वर्ष पहले राज्य करता था। इस बाधा का उत्तर लोग यह देते हैं कि पाली भाषा का अध्यायन बहुत दिनों तक शुद्ध तिष्य परपरानुसार ही होता आया था। इनसे सगर है कि 'तिष्य' वाला उदाहरण पीछे से लिखी ने दे दिया हो। कुछ लोग पररुचि को, जिनका नाम कात्यायन भी था, पाली व्याकरणकार कात्यायन समझते हैं, पर वट्ट नाम है।

कात्यायन ने अपने व्याकरण में पाली को मागधी और मूल भाषा कहा है। पर वट्ट से लोग ने मागधी से पाली को भिन्न माना है। कुछ पाली ग्रंथकारों ने तो यहाँ तक कहा है कि पाली बुद्धों, बौद्धिउत्थों और देवताओं की भाषा है और मागधी मनुष्यों की। बात यह साबूत होती है कि मागधी मूल का धरतल मागधी प्राकृत के लिये बहुत पीछे तक बसाकर होना पड़ा है। अतः नाहित्यपरंपराकार ने नाटकों के लिये यह निदम लिया है कि अतः पुरचारी लोग मागधी में

वातचीत करते दिखाए जायें और चेट, राजपुत्र तथा वरिष्क लोग अर्धमागधी में। पर पाली भाषा एक विशेष प्राचीनतर काल की मागधी का नाम है, जिसे व्याकरणबद्ध करके कात्यायन आदि ने उसी प्रकार अचल और स्थिर कर दिया जिस प्रकार पाणिनि आदि ने संस्कृत को। इससे परवर्ती काल के पढे लिखे बौद्ध भी उसी प्राचीन मागधी का व्यवहार अपनी शास्त्रचर्चा में बराबर करते रहे।

'पाली' शब्द कहीं से आया इसका सतोपप्रद उत्तर कहीं से नहीं प्राप्त होता है। लोगों ने अनेक प्रकार की कल्पनाएँ की हैं। कुछ लोग उसे सं० पल्लि (=वस्ती, नगर) से निकालते हैं, कुछ लोग कहते हैं, 'पालाश' से, जो मगध का एक नाम है, पाली बना है। कुछ महात्मा पल्लवी तक जा पहुँचे हैं। पटने का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था इससे कुछ लोगों का अनुमान है कि पाटलि की भाषा ही पाली कहलाने लगी। पर सबसे ठीक अनुमान यह जान पड़ता है कि 'पाली' शब्द का प्रयोग पक्ति के अर्थ में था। अब भी संस्कृत के छात्र और अध्यापक किसी ग्रंथ में आए हुए वाक्य को 'पक्ति' कहते हैं, जैसे, यह पक्ति नहीं लगती है। मागधी का बुद्ध के समय का रूप बौद्धशास्त्रों में लिपिवद्ध हो जाने के कारण पाली (सं० पालि = पक्ति) कहलाने लगी। हीनयान शाखा में तो पाली का प्रचार बराबर एक सा चलता रहा, पर महायान शाखा के बौद्धों ने अपने ग्रंथ संस्कृत में कर लिए।

पाली^६—उ० स्त्री० [सं० पल्लविक] पालकी। उ०—होड वाघ्यड पाटकी। पालीय परगह अत न पार।—वी० रासो, पृ० १३।

पाली^७—उ० स्त्री० [हि० पारी] पारी। वारी।

पालीवत—उ० पु० [देश० या सं०] एक पेड़ का नाम।

विशेष—बृहत्सहिता में द्राक्षा, विजोरा आदि काडरोप्य (=जिसकी डाल लगाने से लग जाय) पेड़ों में इसका नाम आया है।

पालीवाल—उ० पु० [?] मारवाडी ब्राह्मणों का एक वर्ग।

पालीशोप—उ० पु० [सं०] कान का एक रोग।

पालू—वि० [हि० पालना] पाला हुआ। पालतू।

पाले—उ० पु० [हि० पल्ला] सं० 'पाला'।

पालो^१—उ० पु० [सं० पालि ?] पाँच रुपए भर का बाट या तोल। (सुनार)।

पालो^२—उ० वि० [सं० पदाति ?] पैदल। उ०—पहुँचावण डेरा लग पावो सगलामू सनमानियाँ। पाणा जोड किया भूपत पूँ जाजा राजी जानिया।—रघु० सू०, पृ० ८७।

पाल्य—वि० [सं०] पालन के योग्य।

पाल्लवा—उ० स्त्री० [सं०] एक खेल जो पल्लवो या टहनियों से खेला जाता है (को०)।

पाल्लविक—वि० [सं०] १. फैलनेवाला। विस्तृत होनेवाला। २. असबद्ध। असगत (को०)।

पाल्वल^१—वि० [मं०] १. तलैया या गड्ढा सबधी । तलैया सबधी ।
२ तलैया में होनेवाला । तलैया का ।

पाल्वल^२—सज्ञा पुं० क्षुद्र जलाशय का जल । तलैया का पानी ।

पाल्वलना^(१)—[सं० पल्लवित] पल्लवित होना । पत्तो से युक्त होना । हरा होना । उ०—सखी सु सज्जन आविया हूँता मुभक्त हियाह । सूका था सू पाल्वलया पाल्वलिया फलि-याह ।—ढोला०, दू० ५३३ ।

पावँ—सज्ञा पुं० [सं० पाद] पैर । दे० 'पाँव' ।

पावँड़—सज्ञा पुं० [हि० पाँव + ङा (प्रत्य०)] वह कपडा या विछीना जो आदर के लिये किसी के मार्ग में बिछाया जाता है । पैर रखने के लिये फैलाया हुआ कपडा । पार्यदाज । उ०—(क) देत पावँडे अरघ सुहाए । सादर जनक मडपहि लाए ।—तुलसी (शब्द०) । (ख) पौरि के दुवारे ते लगाय केलिमदिर लीं पदमिनि पावँडे पसारे मखमल के ।—(शब्द०) ।

क्रि० प्र०—ढालना ।—देना ।—पसारना ।—बिछाना ।

पावँड़ी—सज्ञा स्त्री० [हि० पाँव + ङी (प्रत्य०)] १ पादत्राण । खडाऊँ । २ जूता । उ०—सपनेहू में वर्राय के जो रे कहेगा राम । वाके पग की पावँड़ी मेरे तन को चाम ।—कवीर (शब्द०) । ३ गोटा पट्टा बुननेवालो का एक औजार जिसे बुनते समय पैरो से दवाना पडता है और जिससे ताने का वादला नीचे ऊपर होता है ।

विशेष—यह काठ का पहरा सा होता है जिसमें दो खूटियाँ लगी रहती हैं । इन दोनों खूटियों के बीच लोहे की एक छड़ लगी रहती है जिसमें एक एक बालिमत लबी, नुकीले सिरे की ५—६ लकड़ियाँ लगी रहती हैं । वादल' बुनने में यह प्राय वही काम देता है जो करधे में राछ देती है ।

पावँर^(१)—वि० [सं० पामर] १ तुच्छ । खल । नीच । दुष्ट । २ मूर्ख । निर्वृद्धि । उ०—(क) तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना । आन जीव पावँर का जाना ।—तुलसी (शब्द०) । (ख) छूँछो मसक पवन पानी ज्यो तैसोई जन्म विकारी हो । पाखँड धर्म करत है पावँर नाहिन चलत तुम्हारी हो ।—सूर (शब्द०) ।

पावँर^२—सज्ञा पुं० [हि० पावँ] दे० 'पावँडा' । उ०—कुडल गहे सीस भुइ लावा । पावँर होउ जहाँ देइ पावा ।—जायसी (शब्द०) ।

पावँर^३—सज्ञा स्त्री० दे० 'पाँवड़ी' ।

पावँरी—सज्ञा स्त्री० [हि० पावँ + री (प्रत्य०)] दे० 'पाँवड़ी' ।

पावँ—सज्ञा पुं० [सं० पाद (= चतुर्थांश)] १ चौथाई । चतुर्थ भाग । जैसे, पाव घटा, पाव कोस, पाव सेर, पाव आना । २ एक सेर का चौथाई भाग । एक तौल जो सेर की चौथाई होती है । चार छटाँक का मान । जैसे, पाव भर आटा । ३ पैर । उ०—कियो कान्ह पे धाव पाव ठहरन नही पाए—ब्रज० प्र०, प० १४ ।

पाघ^२—सज्ञा पुं० [सं० पाव या सं० प्रावय०, दे० प्रा० पावय; गुज० पावो] एक ब्राह्म । वशी । अलगोजा ।

पावक^१—सज्ञा पुं० [मं०] १. अग्नि । आग । तेज । ताप ।

विशेष—महाभारत वन पर्व में लिखा है कि २७ पावक ऋषि ब्रह्मा के अग से उत्पन्न हुए जिनके नाम ये हैं—अगिरा, दक्षिण, गार्हपत्य, आहवनीय, निर्मथ्य, विद्युत्, शूर, संवर्त, लौकिक, जाठर, विषग, क्रव्य, क्षेमवान्, वैष्णव, दस्युमान्, बलद, शात, पुष्ट, विभावसु, ज्योतिमान्, भरत, भद्र, स्वष्टकृत्, वसुमान्, क्रतु, सोम और पितृमान् । क्रियाभेद से अग्नि के ये भिन्न भिन्न नाम हैं ।

२ सदाचार । ३ अग्निमथ वृक्ष । अग्रेथू का पेड़ । ४ चित्रक वृक्ष । चीते का पेड़ । भल्लातक । भिलावाँ । ६ विडग । वायविडग । ७ कुसुम । ८ वरुण । ९ सूर्य । १० सत । तपस्वी (को०) । ११ विद्युत् की ज्वाला । विजली की अग्नि (को०) । १२ तीन की संख्या क्योंकि कर्मकांड में तीन अग्नि प्रधान कहे गए हैं (को०) ।

यौ०—पावककण = अग्निक्वण । अग्निस्फुलिंग । उ०—गा, कोकिल, बरसा पावक कण ।—युगात्, पृ० ३ । पावकमणि । पावकशिख = कैसर ।

पावक^२—वि० शुद्ध करनेवाला । पावन करनेवाला । पवित्र करनेवाला ।

पावकमणि—सज्ञा पुं० [सं०] १ सूर्यकांत मणि । २ आतशी शीशा ।

पावका—सज्ञा स्त्री० [सं०] सरस्वती (वेद) ।

पाघकारमज—सज्ञा पुं० [सं०] १ कार्तिकेय । २. इक्ष्वाकुवशीय दुर्योधन की कन्या सुदर्शना का पुत्र ।

पावकि—सज्ञा पुं० [मं०] १ पावक का पुत्र । कार्तिकेय । २ इक्ष्वाकु-वशीय दुर्योधन की कन्या सुदर्शना का पुत्र सुदर्शन ।

विशेष—मनु के पुत्र इक्ष्वाकुवशीय सुदुर्जय के दुर्योधन नाम का एक पुत्र हुआ जिसे सुदर्शना नाम की एक कन्या थी । उसके रूप लावण्य पर मुग्ध होकर पावक या अग्निदेव रूप बदलकर दुर्योधन के यहाँ आए और उन्होंने कन्या के लिये प्रार्थना की । दुर्योधन सम्मत न हुए । पावक देवता निराश होकर चले गए । एक बार राजा ने यज्ञ किया । यज्ञ में अग्नि हूँ प्रज्वलित न हुई । राजा और ऋत्विक् लोगो ने अग्नि का बहुत उपासना की । पावक ने प्रकट होकर फिर कन्या माँगी दुर्योधन ने कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया । अ । देवता उस कन्या के साथ मूर्ति धारण कर माहिष्मती पुरी रहने लगे । पावक से जो पुत्र सुदर्शना को हुआ उसका नाम सुदर्शन पडा । वह बड़ा धर्मात्मा और ज्ञानी था ।

पावकी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ अग्नि की स्त्री । २ पावका सरस्वती (को०) ।

पावकुलक—सज्ञा पुं० [सं० पादाकुलक] पादाकुलक छद्र । चौपाई ।

पावटा^१—सज्ञा स्त्री० [हि० पायल] पैर का एक आभूषण । पायल तूपुर । उ०—जध केदली पगु में पावट भूमकि भूमि ललचावै । कहे दरिया कोइ सत विवेकी वाके निकट जावै ।—स० दरिया, पृ० १३६ ।

पावडी^१—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पाँवड़ी' । उ०—आयो भरथ अथ अभाग, मडे पावडी उतमग ।—रघु० रू०, पृ० १२२ ।

निर्वाण के पीछे पावा के लोगों को भी बुद्ध के शरीर का कुछ अंश मिला था जिसके ऊपर उन्होंने एक स्तूप उठाया। यह गाँव अब भी इसी नाम से जाना जाता है और गोरखपुर जिले में गडक नदी से ६ कोस पर है। गोरखपुर से यह बीस कोस उत्तरपश्चिम पड़ता है।

पावासर—सज्ञा पुं० [?] मानसरोवर। उ०—मोताहल हंसर्षि मिले, पावासर रे पास।—वाँकी० ग०, भा० १, पृ० ४८।

पावी—सज्ञा स्त्री० [देश०] एक प्रकार की मैना।

विशेष—इसकी लंबाई १७-१८ अंगुल होती है। यह ऋतु के अनुसार रंग बदला करती है और पंजाब के अतिरिक्त सारे भारत में पाई जाती है। यह प्रायः ४ या ५ अंडे देती है।

पाश—सज्ञा पुं० [सं०] १ रस्सी तार, ताँत, आदि के कई प्रकार के फेरो और सररूनेवाली गाँठों आदि के द्वारा बनाया हुआ घेरा जिसके बीच में पड़ने से जीव बँध जाता है और कभी कभी वधन के अधिक कसकर बैठ जाने से मर भी जाता है। फदा। फाँस। वधन। जाल।

विशेष—प्राचीन काल में पाश का व्यवहार युद्ध में होता था और अनेक प्रकार का बनता था। इसे शत्रु के ऊपर डालकर उसे बाँधते या अपनी ओर खींचते थे। अग्निपुराण में लिखा है कि पाश दस हाथ का होना चाहिए, गोल होना चाहिए। उसकी डोरी सूत, गूँ, मूँज, ताँत, चमड़े आदि की हो। तीस रस्सियाँ होनी चाहिए इत्यादि। वैशंपायनीय धनुर्वेद में जिस प्रकार के पाश का उल्लेख है वह गला कसकर मारने के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। उसमें लिखा है कि पाश के अवयव सूक्ष्म लोहे के त्रिकोण हो, परिधि पर सीसे की गोलियाँ लगी हों। युद्ध के अतिरिक्त अपराधियों को प्राणदंड देने में भी पाश का व्यवहार होता था, जैसे आजकल भी फाँसी में होता है। पाश द्वारा बंध करनेवाले चाडाल 'पाशी' कहलाते थे जिनकी सतान आजकल उत्तरीय भारत में पासी कहलाती हैं।

२ पशु पक्षियों को फँसाने का जाल या फदा।

विशेष—जिस प्रकार किसी शब्द के आगे 'जाल' शब्द रखकर समूह का अर्थ निकालते हैं उसी प्रकार सूत के आकार की वस्तुओं के सूचक शब्दों के आगे 'पाश' शब्द रहने से समूह का अर्थ लेते हैं, जैसे—केशपाश। कर्ण के आगे पाश शब्द से उत्तम समझा जाता है। जैसे, कर्णपाश अर्थात् सुंदर कान।

३ वधन। फँसानेवाली वस्तु। उ०—प्रभु हो मोह पाश क्यों छूटे।—तुलसी (शब्द०)।

विशेष—शैव दर्शन से छह पदार्थ कहे गए हैं—पति, विद्या, अविद्या, पशु, पाश और कारण। पाश चार प्रकार के कहे गए हैं—मल, कर्म, माया, और रोष शक्ति। (सर्वदर्शन-संग्रह)। कुलार्थव तंत्र में 'पाश' इतने बतलाए गए हैं—घृणा, शका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, शील और जाति।

मतलब यह कि तांत्रिकों को इन सबका त्याग करना चाहिए।

४ फलित ज्योतिष में एक योग जो उस समय माना जाता है जब सब राशि ग्रहपंचक में रहती है।

पाशकठ—वि० [सं० पाशकण्ठ] जिसके गले में फदा हो [को०]।

पाशक—सज्ञा पुं० [सं०] १ एक प्रकार का खेल या जुआ। पासा। चौपट। २ पाश। फदा। वधन।

पाशकपीठ—सज्ञा पुं० [सं०] १ जुआ खेलने का स्थान। २ चौपट खेलने की बिसात [को०]।

पाशकेरली—सज्ञा पुं० [सं० पाश + केरल (देश)] ज्योतिष की एक गणना जो पासे फेंककर की जाती है। यूनान, फारस आदि पश्चिमी देशों में पुराने समय में इसका बहुत प्रचार था। वही से शायद दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में यह विद्या आई हो।

पाशक्रीड़ा—सज्ञा स्त्री० [सं०] पासे का खेल। जुआ [को०]।

पाशजाल—सज्ञा पुं० [सं०] दृश्यमान जगत्। ससार [को०]।

पाशधर—सज्ञा पुं० [सं०] वरुण देवता (जिनका अस्त्र पाश है)।

पाशन—सज्ञा पुं० [सं०] १ फदा। जाल। २ पाश से बाँधना। जाल में फँसाना [को०]।

पाशपाणि—सज्ञा पुं० [सं०] वरुण देवता (जिनका अस्त्र पाश है)।

पाशपाश—वि० [फा०] तूर चुर। टुकड़े टुकड़े [को०]।

पाशबंध—सज्ञा पुं० [सं० पाशबंध] फदा। घेरा। फाँस [को०]।

पाशबद्ध—सज्ञा पुं० [सं० पाशबद्धक] चिड़ीमार। बहेलिया [को०]।

पाशबधन—सज्ञा पुं० [सं० पाशबधन] जाल [को०]।

पाशवद्ध—वि० [सं०] फदे में पड़ा हुआ। जाल में फँस हुआ [को०]।

पाशभृत—सज्ञा पुं० [सं०] १ वरुण। २. वह व्यक्ति जो लिए हुए हो [को०]।

पाशमुद्रा—सज्ञा स्त्री० [सं०] तांत्रिकों की एक मुद्रा जो दाँह और बाएँ हाथ की तर्जनी को मिलाकर प्रत्येक के सिरे, झेंगूठा रखने से बनती है।

पाशरजु—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ बाँधने की रस्सी। २ शृंखला बेड़ी [को०]।

पाशव^१—वि० [सं०] १. पशु सबधी। पशुओं का। उ०—क्या दु दूर कर दे बधन, यह पाशव पाश और ऋदन।—बेला, पृ ४६। २ पशुओं का जैसा। जैसे, पाशव व्यवहार।

पाशव^२—सज्ञा पुं० [सं०] पशुओं का झुंड [को०]।

पाशवता—सज्ञा स्त्री० [सं० पाशव + ता (प्रत्य०)] पशुता। उ० निर्बलता का साथ छोड़ दो। पाशवता का पाश तोड़ दो ग्रामिका, पृ० १२२।

पाशवपालन—सज्ञा पुं० [सं०] १ चरागाह। पशुओं के घास चर का मैदान। २. चारा। घास [को०]।



श्रुतीसार, मट्टे और सेंधा नमक के साथ ग्रहणी इत्यादि रोग दूर होते हैं ।

पाशुपतास्त्र—सज्ञा पुं० [सं०] शिव का शूलास्त्र जो बड़ा प्रचंड था । अर्जुन ने बहूत तप करके इसे प्राप्त किया था ।

पाशुपाल्य—सज्ञा पुं० [सं०] पशुओं को पालना । पशु पालने का व्यवसाय [को०] ।

पाशुबधक—सज्ञा पुं० [सं० पाशुबन्धक] वह स्थान जहाँ यज्ञ का बलिपशु बांधा जाता है ।

पाशुबधका—सज्ञा स्त्री० [सं० पाशुबन्धका] बलि का स्थान । बलि करने की वेदी [को०] ।

पाश्चात्य^१—वि० [सं] १ पीछे का । पिछला । २ पीछे होनेवाला । ३. पश्चिम दिशा का । पश्चिम में रहनेवाला । पश्चिम सबधी ।

पाश्चात्य^२—सज्ञा पुं० पिछला भाग । बाद का अंश [को०] ।

पाश्चिमोत्तर—वि० [सं० पश्चिमोत्तर] पश्चिम और उत्तर के कोण का । वायुकोण का ।—प्रेमघन०, भा० २, पृ० ४२ ।

पाश्या—सज्ञा स्त्री० [सं०] जाल । पाश [को०] ।

पाषड^१—सज्ञा पुं० [सं० पाखण्ड या पापण्ड] १ वेद का मार्ग छोड़कर अन्य मत ग्रहण करनेवाला । वेदविरुद्ध आचरण करनेवाला । झूठा मत माननेवाला । मिथ्याधर्मी ।

विशेष—बौद्धों और जैनो के लिये प्रायः इस शब्द का व्यवहार हुआ है । कौलिक आदि भी इस नाम से पुकारे गए हैं । पुराणों में लिखा गया है कि पाषड लोग अनेक प्रकार के वेश बनाकर इधर उधर घूमा करते हैं । पद्मपुराण में लिखा गया है कि 'पापडों का साथ छोड़ना चाहिए और भले लोगों का साथ सदा करना चाहिए' । मनु ने भी लिखा है कि 'कितव, जुआरी, नटवृत्तिजीवी, क्रूरचेष्ट और पापड इनको राज्य से निकाल देना चाहिए । ये राज्य में रहकर भलेमानुसों को कष्ट दिया करते हैं ।'

२ झूठा आडंबर खड़ा करनेवाला । लोगों को ठगने और धोखा देने के लिये साधुओं का सा रूप रंग बनानेवाला । धर्म-ध्वजी । ढोंगी आदमी । कपटवेशधारी । ३ सप्रदाय । मत । पथ ।

विशेष—अशोक के शिलालेखों में इस शब्द का व्यवहार इसी अर्थ में प्रतीत होता है । यह अर्थ प्राचीन जान पड़ता है, पीछे इस शब्द को बुरे अर्थ में लेने लगे । 'पाषड' का विशेषण 'पाषडी' बनता है । इससे इसका सप्रदायवाचक होना सिद्ध होता है । नए नए सप्रदायों के खड़े होने पर शुद्ध वैदिक लोग सांप्रदायिकों को तुच्छ दृष्टि से देखते थे ।

पाषंड^२—वि० दे० 'पाखंड' ।

पापडक—वि० [सं० पापण्डक] पाषडी [को०] ।

पाषण्डिक—वि० [सं० पापण्डिक] पाषडी [को०] ।

पाषंडी—वि० [सं० पाषण्डि] १, पाषड । वेदाचार परित्यागी ।

वेदविरुद्ध मत और आचरण ग्रहण करनेवाला । झूठा मत माननेवाला ।

विशेष—मनुस्मृति में लिखा है कि पापडों, विकर्मस्य (निपिदष कर्म से जीविका करनेवाला), वैदालव्रतिक, हेतुवाद द्वारा वेदादि का खंडन करनेवाले, वक्रव्रती यदि अतिथि होकर आवें तो वाणी से भी उनका सत्कार न करे । अर्वादि किंगी (वेदविरुद्ध सांप्रदायिक चिह्न धारण करनेवाले) आदि को पाषडी कहने में तो स्मृति पुराण आदि एकमत हैं, पर पद्मपुराण आदि घोर सांप्रदायिक पुराणों में कहीं शैव और कहीं वैष्णव भी पाषंडी कहे गए हैं । जैसे पद्मपुराण में लिखा है कि 'जो कपाल भस्म और अस्थि धारण करें, जो शख, चक्र, ऊर्ध्वपुंड्रादि न धारण करें, जो नारायण को शिव और ब्रह्मा के ही बराबर समझें ..वे सब पाषंडी हैं' । दे० 'पाषड' ।

२ वेश बनाकर लोगों को धोखा देने और ठगनेवाला । धर्म आदि का झूठा आडंबर खड़ा करनेवाला । ढोंगी । धूर्त ।

पापक—सज्ञा पुं० [सं०] पैर में पहनने का एक गहना ।

पाषर(^१)—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रक्षर, प्रा० प्रक्खर] दे० 'पाखर' । उ० टाटर पाषर सजति कियो राव । धार नगरी राजा । २२ वा जाई ।—वी० रासो०, पृ० १३ ।

पापाण—सज्ञा पुं० [सं०] १. पत्थर । प्रस्तर । शिला । २. और नीलम का एक दोष ।—रत्नपरीक्षा (शब्द०) । ३ गधक ।

पाषाणकाल—सज्ञा पुं० [म० पापाण + काल] ऐतिहासिक में वह काल या समय जब लोगों ने पत्थर की वस्तुएँ बना लीं ।

पाषाणगर्दभ—सज्ञा पुं० [म०] हनुषविजात नामक एक क्षुद्र रोग दाढ़ सृजने का रोग ।

पाषाणगैरिक—सज्ञा पुं० [सं०] गेरू । गिरिमाटी ।

पाषाणचतुर्दशी—सज्ञा स्त्री० [सं०] अग्रहायण शुक्ला चतुर्दशी अग्रहन सुदी चौदस ।—तिथितत्व (शब्द०) ।

विशेष—इस तिथि को स्त्रियाँ गौरी का पूजन करके रात पापाण (पत्थर के ढोंकी) के आकार की बडियाँ बना खाती हैं ।

पापाणदारक—सज्ञा पुं० [सं०] प्रस्तर काटने का औजार । काटने की छेनी [को०] ।

पाषाणभेद—सज्ञा पुं० [सं०] एक पौधा जो अपनी पत्तियों सुंदरता के लिये बगीचे में लगाया जाता है । पत्थरचूर । पत्थरचट ।

विशेष—वैद्यक में पखानभेद भारी, चिकना तथा भुनक पथरी, दाद, वात और श्रुतीसार को दूर करनेवाला माला है ।

पाषाणभेदक, पापाणभेदन—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पापाणभेद'

पाषाणभेदी—सज्ञा पुं० [सं० पापाणभेदिन्] पखानभेद ।

पास^१—उच्चा पुं [सं० पास (= विद्याना, डालना)] श्रवण के ऊपर उपले जमाने का काम ।

पास^२—सञ्ज्ञा पुं [श्लो०] भेड़ों के बाल कतरने की कैंची का दस्ता ।

पास^३—सञ्ज्ञा पुं [फ्रा०] १. एक पहर का समय । पहर । २. निरीक्षण । निगरानी । हिफाजत । रक्षा । ३. लिहाज । शील सकोच [को०] ।

यौ०—पासदार = (१) निरीक्षक । (२) पक्षपाती । तरफदार । पासदारी = (१) निरीक्षण । (२) पक्षपात । तरफदारी ।

पासना—क्रि० अ० [सं० पयस (= दूध)] इस अवस्था में होना कि धनो में दूध उतर आवे । धनो में दूध आना । जैसे,—भैंस देर में पासती है (ग्वाले) ।

पासनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्राशन] अन्नप्राशन । बच्चे को पहले पहल अनाज चटाने की रीति । उ०—प्रगट पासनी में छवि छाई । भुव भर सहित कृपान उठाई ।—लाल (शब्द०) ।

विशेष—अन्नप्राशन के दिन बालक के सामने अनेक वस्तुएँ रखकर शकुन देखते हैं कि किस वस्तु पर उसका पहले हाथ पडता है । उससे यह समझा जाता है कि वही उसकी जीविका होगी ।

पासपोर्ट—सञ्ज्ञा पुं [अ०] एक प्रकार का का अधिकारपत्र या परवाना जो, एक देश से दूसरे देश को जाते समय, सरकार से प्राप्त करना पडता है और जिससे एक देश का मनुष्य दूसरे देश में सरक्षण प्राप्त कर सकता है । अधिकारपत्र । छूट-पत्र । पारपत्र ।

विशेष—अनेक देशों में ऐसा नियम है कि उन देशों की सरकारों से पासपोर्ट या अधिकारपत्र प्राप्त किए बिना कोई विदेश नहीं जाने पाता । पासपोर्ट देना या न देना सरकार की इच्छा पर निर्भर है । अवाञ्छनीय व्यक्तियों या राजनीतिक सद्विधियों को पासपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि इनमें अधिकारियों को आशंका रहती है कि ये विदेशों में जाकर सरकार के विरुद्ध काम करेंगे । हिंदुस्तान से बाहर जानेवालों को भी पासपोर्ट लेना आवश्यक होता है ।

२. वह अधिकारपत्र या परवाना जो युद्ध के समय विरोधी देश के लोगों को अपने देश में निरापद पहुँचने के लिये दिया जाता है । बिना नियमित कर या महसूल के विदेश से माल मँगाने या भेजने का प्रमाणपत्र या लाइसेंस ।

पासबंद—सञ्ज्ञा पुं [हि० पास + फा० बंद] दरी बुनने के करघे की वह लकड़ी जिससे वे बंधी रहती है और जो नीचे ऊपर जाया करती है ।

पासबाँ, पासवान^१—वि० [फा०] रक्षा करनेवाला । रक्षक ।

पासधान^२—सञ्ज्ञा स्त्री० रखेली स्त्री । रखनी (राजपूताना) ।

पासधानी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] निरीक्षण । देखभाल ।

पासबुक—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ०] १. बक की वह पुस्तक जिसमें किसी प्रकार के लेनदेन का हिमाव किताब हो । २. वह वही या किताब जिसमें सौदागर उधार ली गई चीजों के नाम लिख-

कर खरीददार के पास दस्तगुप्त कराने के लिये भेजता है । ३. वह किताब जिसमें किसी बैंक का हिमाव किताब रहता है ।

पासमान^१—सञ्ज्ञा पुं [हि० पास + मान (प्रत्य०)] पास रहनेवाला दास । पार्श्ववर्ती । उ०—ताफी रानी नाम की रत्नावली प्रसिद्ध । पासमान ताफी रही गही भक्ति तजि सिद्ध ।—रघुराज (शब्द०) ।

पासरणा^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] फैनना । छा जाना । प्रसंग्य । उ०—मगध घरा पासरणा कीजै ।—रा० रू०, पु० २७५ ।

पासवर्ती^३—वि० [सं० पार्श्ववर्ती] 'पार्श्ववर्ती' ।

पासवान^४—सञ्ज्ञा पुं [हि०] २० 'पासमान' ।

पाससार—सञ्ज्ञा पुं [हि०] २० 'पासासार' ।

पासा—सञ्ज्ञा पुं [सं० पाशक, प्रा० पासा] १. हाथीदाँत या हड्डी के उँगली के बराबर छह पहले टुकड़े जिनके पहलो पर विदियाँ बनी होती हैं और जिन्हें चौसर के खेलने में खेलाही वारी वारी फेंकते हैं । जिस बल से पडते हैं उमी के अनुसार विसात पर गोटियाँ चली जाती हैं और अतः में हार जीत होती है । उ०—राजा करे सो न्याय । पासा पडे सो दाँव (शब्द०) ।

मुहा०—(किसी का) पासा पडना = (१) पासे का किसी के अनुकूल गिरना । जीत का दाँव पडना । (२) भाग्य अनुकूल होना । किसमत जोर करना । पासा पलटना = (१) जिसके अनुकूल पहले पासा गिरता रहा हो उसके प्रतिकूल गिरना । पासे का इस प्रकार पडने लगना कि हार होने लगे दाँव फिरना । (२) अच्छे से मद भाग्य होना । जमाना बदलना । दिन का फेर होगा । (३) युक्ति या तदर्थी का उलटा फल होना । पासा फेंकना = (१) अनुकूल या प्रतिकूल दाँव निश्चित करने के लिये पासे का गिराना भाग्य की परीक्षा करना । किस्मत आजमाना । ऐसे काम हाथ डालना जिसका फल कुछ भी निश्चित न हो ।

२. वह खेल जो पासों से खेला जाता है । चौसर का खेल विशेष—दे० 'चौसर' । ३. मोटी वृत्ति के आकार में ली हुई वस्तु । कामी । गुत्ली । जैसे मोने के पासे । ४. पीत या काँसे का चौखूँटा लंबा ठप्पा जिसमें छोटे छोटे गोल गड्ढे होते हैं । घुँघरू या लोग घुड़ी बनाने में सुनार सोने पत्तार को इसी पर रखकर ठोन्ते हैं जिससे वह फटोरी आकार का गहरा हो जाता है (सुनार) ।

पासान^५—सञ्ज्ञा पुं [सं० पापाया] दे० 'पापाण' । उ०—पाना कुट्टिम भीति भीतर चूह उप्पर परिया ।—गीतिका, पु० २६

पासार^६—सञ्ज्ञा पुं [सं० प्रसार] फेनाव । 'पासार' । उ० बट के बीज जैसे आकार । पत्तारघो तीन लोक पासार —सत बाणी०, भा०२, पु० ३५ ।

पासासार—सञ्ज्ञा पुं [सं० पाशक हि० पासा + सं० सारि = (गोटी)] १. पासे की गोटी । २. पासे का खेल ।

पासाह^७—सञ्ज्ञा पुं [फ्रा० बादनाह] राजा । अधिपति । बादशाह

उ०—आप भया पासाह कौन के मुजरे जावे । —पलद्द०, पृ० २३ ।

पासाही†—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पातशाही' । उ०—निरगुन सगुन दोउ न जाही । तेहि घर सत करे पासाही ।—घट०, पृ० २१६ ।

पासि†—सज्ञा पुं० [सं०] फदा । पाश ।

पासिक—सज्ञा पुं० [सं० पाश] पाश । फदा । जाल । बधन । उ०—खैचत लोभ दमौ दिसि को महि, मोह गहा हत पासिक डारे ।—केशव (शब्द०) ।

पासिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] पास । फदा । जाल । बधन । उ०—भ्रुव तेग, सुनैन के वान लिए मति वेसरि की संग पासिका है । बहु भावन की परकासिका है तुव नासिका घोर विनासिका है ।—मतिराम (शब्द०) ।

पासी†—सज्ञा पुं० [सं० पाशिन, पाशी] १ जाल या फदा डालकर चिड़िया पकड़नेवाला । २ एक नीच और अस्पृश्य मानी जानेवाली जाति जो मयुरा से पूरव की ओर पाई जाती है ।

विशेष—इस जाति के लोग सूअर पालते तथा कहीं कहीं ताड पर से ताडी निकालने का काम करते हैं । प्राचीन काल में इनके पूर्वज प्राणदड परए हुए अपराधियों के गले में फाँसी का फदा लगाते थे इसी से यह नाम पडा ।

पासी—सज्ञा स्त्री० [सं० पाश, हि० पास + ई (प्रत्य०)] १ फदा । फाँस । पाश । फाँसी । २ घास बाँधने की जाली । ३ घोड़े के पैर बाँधने की रस्सी । पिछाडी ।

पासीहारा†—सज्ञा पुं० [हि० पासी (= फाँसी + हारा (प्रत्य०)] वह व्यक्ति जो फाँसी लगाता है । फाँसीवाला । उ०—यहूँ झंसा रूप छलावा । ठग पासीहारा आवा । सब ऐसा देखि विचारे । ये प्रानघात बटवारे ।—दाहू०, पृ० ५४६ ।

पासुरी†—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पसली' ।

पाहँ†—अव्य० [सं० पार्ष्व, प्रा० पास, पाह] १ निकट । समीप । पास । उ०—मैं जानेउ तुम्ह मोही माहीं । देखौं ताकि तो ही सब पाहीं ।—जायसी (शब्द०) । २ पास जाकर । सर्वोधन करके । किसी के प्रति । किसी से । उ०—जाइ कही उन पाहँ सँदेसू—जायसी (शब्द०) ।

पाह†—सज्ञा स्त्री० [हि० पाहन] एक प्रकार का पत्थर जिससे लौंग, फिटकरी और अफीम को घिसकर आँख पर चढ़ाने का लेप बनाते हैं ।

पाह†—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'प्यास' । उ०—कोटि अरबव परबव असवि प्रिथी पति हौन की पाह जौगी ।—सुदर ग्र०, भा० २, पृ० ४२३ ।

पाहण†—सज्ञा पुं० [हि० पाहण, प्रा० पाहण] दे० 'पाषाण' । उ०—जल तिरिया पाहण सुजड पतसिय नाम प्रताप ।—रघु०, पृ० २ ।

पाहव—सज्ञा पुं० [सं०] शहतूत का वृक्ष [को०] ।

पाहन†—सज्ञा पुं० [सं० पापाया प्रा० पाहण, पाहण] १ पत्थर । प्रस्तर । उ०—(क) महिमा यह न जलधि की बरनी । पाहन गुन न कपिह के करनी ।—तुलसी (शब्द०) । (ख) पाहन ते हरि कठिन कियो हिय कहत न बधु वनि आई ।—सूर (शब्द०) । २ पारस पत्थर । स्पर्श मणि ।

पाहरू†—सज्ञा पुं० [सं० प्रहर, हि० पहर, पहरा] पहरा देनेवाला । पहरेदार । चौकसी करनेवाला । रखवाली करनेवाला । उ०—(क) नाम पाहरू दिवस निसि घ्यान तुम्हार कपाट । लोचन निज पद यत्रिका प्रान जाहि केहि वाट ।—तुलसी (शब्द०) । (ख) जागत कामी चितित चकोर, विरही विरहिन पाहरू चोर ।—तुलसी (शब्द०) ।

पाहा—सज्ञा पुं० [सं० पथ, हि० पाथ] पान की बेली या किमी ऊँची फसल के खेतों के बीच का रास्ता । मेड ।

पाहात—सज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मदार वृक्ष । शहतूत का पेड़ ।

पाहि—अव्य० [सं० पार्ष्व, प्रा० पास, पाह] १ पास । निकट । समीप । २ पास जाकर । सर्वोधन करके । किसी के प्रति । किसी से । उ०—कोउ न बुझाइ कहै नृप पाही । ये बालक, अस हठ भल नाही ।—तुलसी (शब्द०) ।

पाहि—क्रिया पद [सं०] एक संस्कृत पद जिसका अर्थ है 'रक्षा करो', 'बचाओ' । उ०—पाहि पाहि । रघुवीर गुनाई ।—तुलसी (शब्द०) ।

पाहीं—अव्य० [सं० पार्ष्व] दे० 'पाहि' । उ०—निज बुधि बल भरोस मोहि नाही । ताते बिनय करौं सब पाही ।—मानस १।२।

पाही—सज्ञा स्त्री० [हि० पाह] वह खेती जिसका किसान दूसरे गाँव में रहता है ।

पाहुँच—सज्ञा स्त्री० [हि० पहुँचना] दे० 'पहुँच' । उ०—आपनी भाँति सब काहू कही है । मदोदरी, महोदर, मालिवान, महामति राजनीति पाहुँच जहाँ लौं जाकी रही है ।—तुलसी (शब्द०) ।

पाहुन†—सज्ञा पुं० [हि० पाहुना] दे० 'पाहुना' ।

पाहुना—सज्ञा पुं० [सं० प्राघूर्णा, प्राघूर्णक प्राघुणा (= अतिथि), अथवा सं० उप० प्र+आह्वयनेय, प्राह्वयनेय, पा० पाहुण्येय] [स्त्री० पाहुनी] १ अतिथि । मेहमान । अन्वयागत । सत्रधी, इष्ट-मित्र या कोई अपरिचित मनुष्य जो अपने यहाँ आ जाय और जिसका सत्कार उचित हो । २ दामाद । जामाता ।

विशेष—इस शब्द की व्युत्पत्ति यो तो प्राघुण्य से सुगम जान पड़ती है । पर प्राघुण्य शब्द प्राघूर्ण्य से ही बनाया गया है । प्राघूर्ण्य शब्द का प्रयोग भी प्राचीन नहीं है । कथा सरित्-सागर में प्राघुण्य और पचतत्र में प्राघूर्ण्य शब्द आया है । नैपथ्य में भी प्राघुण्यक मिलता है । कोशों में तो 'प्राह्वण्य' तक संस्कृत शब्दवत् आया है । पृथ्वीराज रासो (६६।३६०) में 'प्राहुन्ना' शब्द का प्रयोग मिलता है—'चित्रग राय रावर चवै प्राहुन्ना भग्गा फिरे' । पाली का 'पाहुण्येय' शब्द इन

सबसे पुराना प्रतीत होता है और उसकी व्युत्पत्ति वही है जो ऊपर दी गई है।

पाहुनी—सज्ञा स्त्री० [हि० पाहुना] स्त्री अतिथि । अभ्यागत स्त्री । मेहमान औरत । उ०—पाहुनी करि दै तनक मह्यो । हो लागी गृहकाज रसोई जसुमति विनय कह्यो ।—सूर (शब्द०) । ३ अतिथि । मेहमानदारी । अतिथि का आदर सत्कार । खातिर तवाजा ।

पाहु—सज्ञा पुं० [सं० प्रामृत, प्रा० पाहुड (= भेंट)] १ भेंट । नजर । वह द्रव्य जो किसी के समानार्थ उसे दिया जाय । २ वह वस्तु या धन जो किसी संबंधी या इष्टमित्र के यहाँ व्यवहार में भेजा जाय । सीगात ।

पाहु—सज्ञा पुं० [?] मनुष्य । व्यक्ति । शास्त्र ।

पिंग^१—वि० [सं० पिङ्ग] १ पीला । पीलापन लिए हुए । २ भूरापन लिए लाल । तामडा । दीपशिखा के रंग का । उ०—सित सरोज पर श्रीडा करना जैसे मधुमय पिंग पराग ।—कामायनी, पृ० २३ । ३ सु०घनी रंग का । भूरापन लिए पीला ।

यौ०—पिंगाचक्षु । पिंगजट । पिंगलोचन । पिंगाक्ष । पिंगास्थ ।

पिंग^२—सज्ञा पुं० १ भैंसा । २ चूहा । मूसा । ३ हरताल । ४ पिंग वर्ण या रंग ।

पिंगकपिशा—सज्ञा स्त्री० [सं० पिङ्गकपिशा] गुबरेले के आकार का एक कीड़ा जिसका रंग काला और तामडा होता है । तेलपायी । तेलचटा ।

पिंगचक्षु^१—वि० [सं० पिङ्गचक्षुस्] जिसकी आँखें भूरे या तामडे रंग की हो ।

पिंगचक्षु^२—सज्ञा पुं० १ नक्र नामक जलजंतु । नाक । २ ककंट । कंकडा [को०] ।

पिंगजट—सज्ञा पुं० [सं० पिङ्गजट] शिव [को०] ।

पिंगमूल—सज्ञा पुं० [सं० पिङ्गमूल] गाजर [को०] ।

पिंगल^१—वि० [सं० पिङ्गल] १ पीला । पीत । २. भूरापन । लिए लाल । दीपशिखा के रंग का तामडा । ३ भूरापन लिए पीला । सु०घनी रंग का । ऊदे रंग का ।

पिंगल^२—सज्ञा पुं० १ एक प्राचीन मुनि या आचार्य जिन्होंने छंद सूत्र बनाए । ये छंद शास्त्र के आदि आचार्य माने जाते हैं और इनके ग्रंथ की गणना वेदांगों में है । २ उक्त मुनि का बनाया छंद - शास्त्र । ३ छंदशास्त्र । ४ साठ संवत्सरो मे से ५१वाँ संवत्सर । ५ एक नाग का नाम । ६ भैरव राग का एक पुत्र अर्थात् एक राग जो सवेरे गाया जाता है । ७. सूर्य का एक पारिपात्रिक या गण । ८ एक निधि का नाम । ९ बदर । कपि । १० अग्नि । ११ नकुल । नेवला । १२ एक यज्ञ का नाम । १३ एक पर्वत का नाम । १४ मार्कंडेय पुराण में वर्णित भारत के उत्तर पश्चिम में एक देश । १५ पीतल । १६ हरताल । १७ उल्लू पक्षी । १८ उश्नोर । खस । १९ रास्ता । २० एक प्रकार का फनदार साँप । २१ एक प्रकार का स्यावर विष ।

पिंगला—सज्ञा स्त्री० [सं० पिङ्गला] १ हठ योग और तंत्र में जो तीन प्रधान नाडियाँ मानी गई हैं उनमें से एक ।

विशेष—दस नाडियों में से इला, पिंगला और सुषुम्ना ये तीन प्रधान मानी गई हैं । शरीर के बाँए भाग में पिंगला नाडी होती है । ये तीनों क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूपिणी हैं । तत्रसार मे लिखा है, इला नाडी में चंद्र और पिंगला नाडी में सूर्य का निवास रहता है । जिस समय पिंगला नाडी कार्य करती है उस समय साँस टाहिने नथने मे निकलती है । प्राणतोषिणी मे बहुत से कार्य गिनाए गए हैं जो यदि पिंगला नाडी के कार्यकाल मे किए जायें तो शुभ फल देते हैं—जैसे, कठिन विषयों का पठनपाठन, स्त्रीप्रसंग, नाव पर चढना, सुरापान, शत्रु के नगर ढाना, पशु वचना, जुआ खेलना, इत्यादि ।

२. लक्ष्मी का नाम । ३ गोरोचन । ४ शीणम का पेड । ५ एक चिड़िया । ६ राजनीति । ७ दक्षिण दिग्गज की स्त्री । ८. एक घातु । पीतल [को०] । ९ एक वेश्या का नाम ।

विशेष—इसकी कथा भागवत मे इस प्रकार है । विदेह नगर में पिंगला नाम की एक वेश्या रहती थी । उसने एक दिन एक सुंदर घनिक को जाते देखा । उसके लिये वह वैचैन हो उठी पर वह न आया । रात भर वह उसी की चिन्ता मे पडी रही । अंत मे उसने विचार किया कि मैं किसी नासमझ हूँ कि पाम में कात रहते दूर के कात के लिये मर रही हूँ । इस प्रकार उसे यह ज्ञान हो गया कि आशा ही सारे दुखों का मूल है । जिन्होंने सब प्रकार की आशा छोड दी है वे ही सुखी हैं । उसने भगवान् के चरणों मे चित्त लगाया और शांति प्राप्त की । महाभारत में भी जहाँ भीष्म ने युधिष्ठिर को मोक्ष घर्म का उपदेश किया है वहाँ इस पिंगला वेश्या का उदाहरण दिया है । साख्यसूत्र में भी 'निराश सुखी पिंगलावत्' आया है ।

पिंगलाक्ष—सज्ञा पुं० [सं० पिङ्गलाक्ष] शिव [को०] ।

पिंगलोह—सज्ञा पुं० [सं० पिङ्गलौह] पीतल [को०] ।

पिंगलिका—सज्ञा स्त्री० [सं० पिङ्गलिका] १ बगला । बलाका । २ एक प्रकार का उल्लू [को०] । ३ मक्खी की जाति का एक कीड़ा जिसके काटने से जलन और सूजन होती है (सुश्रुत) ।

पिंगलित—वि० [सं० पिङ्गलित] पिंगल वर्ण का ।

पिंगसार—सज्ञा पुं० [सं० पिङ्गसार] हरताल ।

पिंगस्फटिक—सज्ञा पुं० [सं० पिङ्गस्फटिक] गोमेदक मणि ।

पिंगा^१—सज्ञा स्त्री० [सं० पिङ्गा] १ गोरोचन । २ हींग । ३ हलदी । ४ बसलोचन । ५ चडिका देवी । ६ घनुप वं डोरी । प्रत्यचा [को०] । ७ एक रक्तमाहिनी नाडी ।

पिंगा^२—सज्ञा पुं० [सं० पिङ्गु] १ वह पुरुष जिसके पैर टेढ़े हो । २ वह जिसकी आँखें पिंगवर्ण हो । पिंगाक्ष ।

पिंगाक्ष^१—वि० [सं० पिङ्गाक्ष] [वि० स्त्री० पिंगाक्षी] जिसकी आँखें भूरी या तामडे रंग की हो ।

पिंगाक्ष^२—सञ्ज्ञा पुं० १ शिवा । २ कुंभौर । नक्षत्र नामक जलजंतु । नाक । ३ विल्ली । ४, एक कपि । हनुमान । ५ वनमानुस (को०) । ६ कर्कट । केकडा (को०) ।

पिंगाक्षी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिङ्गाक्षी] कुमार की अनुचरी एक मातृका ।

पिंगाश—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिङ्गाश] १ एक प्रकार की मछली जिसे बगाल में पागाश कहते हैं । २ गाँव का मुखिया या चौधरी । ३ चोखा सोना ।

पिंगाशी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिङ्गारा] नील का पेड़ ।

पिंगास्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिङ्गास्य] पिंगाश मछली [को०] ।

पिंगिमा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिङ्गिमन्] पीला रंग [को०] ।

पिंगी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिङ्गी] १ शमी का पेड़ । २ नुहिया (को०) । ३ कपिजल नामक पक्षी । उ०—चल्यो पहु पिंगी निकर—पृ० रा०, २४ । २६७ ।

पिंगूरा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पेंग] रस्सियों के आघार पर टंगा हुआ खटोला जिसपर वच्चों को सुलाकर इधर से उधर झुलाते हैं । झूला । पालना ।

पिंगेक्षण—पि० सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिङ्गेक्षया] १ 'पिंगाक्ष' ।

पिंगेश—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिङ्गेश] अग्नि का एक नाम ।

पिघूरा^④—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पेंग] पालना । झूला । उ०—भूल न दूध धाड़ का पीवै, मा के चूसे फूले । सदा मुदित रोवै नहि कबहूँ परधा पिघूरे भूले । —सुदर० ग्र०, भा० २, पृ० ८७५ ।

पिच्छ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिच्छ] दे० 'पिच्छ' [को०] ।

पिंज^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्ज] १ बल । २ बध । ३ एक प्रकार का कपूर । ४ चंद्रमा (को०) । ५ समूह । सग्रह (को०) ।

पिंज^२—वि० ध्याकुल ।

पिंजक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्जक] हरताल ।

पिंजट—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्जट] श्राँख का मल । कीचड़ ।

पिंजडा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्जर] दे० 'पिंजरा' ।

पिंजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्जन] १ वह घनुष या कमान जिससे घुनिए रुई घुनते हैं । घुनकी । २ रुई प्रादि घुनना (को०) ।

पिंजर^१—वि० [सं० पिञ्जर] १, पीला । पीतवर्ण का । २ भूरापन लिए लाल रंग का । ३ ललाई या भूरापन लिए पीला । सुवर्णिया । ऊदे रंग का ।

पिंजर^२—सञ्ज्ञा पुं० १ पिंजडा । २ शरीर के भीतर का हड्डियों का ठठुर । ३ तन । शरीर (लाक्ष०) । उ०—दिन दस नाम सम्हारि ले, जब लगि पिंजर साँस ।—कवीर सा० सं०, पृ० ७४ । ४ हरताल । ५ सोना । ६ नागकेशर । ७ भूरापन लिए लाल रंग का घोडा ।

पिंजरक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्जरक] । हरताल ।

पिंजरा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्जर] लोहे, बाँस आदि की तीलियों का बना हुआ भावा जिसमें पक्षी पाले जाते हैं ।

पिंजरापोल—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पिंजरा + पोल (= फाटक)] वह स्थान जहाँ पालने के लिये गाय, बैल आदि चौपाए रखे जाते हैं । पशुशाला । गोशाला ।

पिंजरिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्जरिक] एक प्रकार का वाद्य [को०] ।

पिंजरित—वि० [सं० पिञ्जरित] ? पीले रंग का । २ वादामी रंग का [को०] ।

पिंजरिमा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिञ्जरिमन्] ललाई लिए हुए पीला रंग [को०] ।

पिंजल^१—वि० [सं० पिञ्जल] जिसका चेहरा पीला या फीका पड़ गया हो । व्याकुल । धवराया हुआ ।

पिंजल^२—सञ्ज्ञा पुं० १ कुश पत्र । २ हरताल । ३ अयुवेत्तम् । जलवेत ।

पिंजली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिञ्जली] नोक सहित एक एक बीते के एक में बंधे हुए दो कुशों की छूरी जिसका काम आर्य होम में पड़ता है ।

पिंजा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिञ्जा] १ हलदी । २ रुई । ३ आघात पहुँचाना (को०) ।

पिंजान—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्जान] स्वर्ण । सोना ।

पिंजारा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्जारा + हिं० आरा (प्रत्य०)] रुई घुननेवाला । घुनिया ।

पिंजारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] प्रायमाण नाम की ओपधि । गुरवियानी ।

पिंजाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्जाल] स्वर्ण । सोना [को०] ।

पिंजिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिञ्जिका] रुई की पीली बत्ती जिससे कातने पर बड़ बड़कर सूत निकलते हैं । पूनी ।

पिंजियारा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्जियारा (रुई की बत्ती)] रुई ओटनेवाला ।

पिंजिल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्जिल] रुई की बत्ती ।

पिंजुल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्जुलम्] १ घास का गट्टर । २ दीपक या लालटेन की बत्ती [को०] ।

पिंजूल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्जूलम्] [स्त्री० पिंजूली] दे० 'पिंजुल' [को०] ।

पिंजूष—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्जूष] कान की मेल । खूँट ।

पिंजेट—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्जेट] नेत्रमल । श्राँख का कीचड़ ।

पिंजोता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिञ्जोता] पत्तियों की सरसराहट [को०] ।

पिंजोला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिञ्जोला] पत्तियों की सरसराहट । पत्तियों के सरसराने की ध्वनि [को०] ।

पिंढ^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ कोई गोल द्रव्यखंड । गोल मटोल टुकड़ा । गोला । २ कोई द्रव्यखंड । ठोस टुकड़ा । डेला या लोदा । चुगदा । थुवा । जैसे, मृत्तिकापिंड, लोहपिंड । ३ ढेर । राशि । ४ पके हुए चावल, खीर आदि का हाथ से बाँधा हुआ गोल लोदा जो आर्य भेष में पितरों को अर्पित किया जाता है ।

विशेष—पिता, पितामह आदि को पिंडदान देना पुत्रादिकों

का प्रधान कर्तव्य माना जाता है। पिंडदान पाकर पित्रो का पुन्नाम नरक से उद्धार होता है। इसी से पुत्र नाम पडा। वि० दे० 'श्राद्ध'।

यौ०—पिंडदान। सपिंड।

५ भोजन। आहार। जीविका। ६ शरीर। देह। ७. कीर।
ग्रास (को०)। ८ भिक्षा। भीख (को०)। ९. मांस (को०)।
१० भ्रूण (को०)। ११ पदार्थ। वस्तु (को०)। १२ घर
का कोई एक विशेष भाग (को०)। १३ वृत्त के चतुर्थांश
का चौबीसवां भाग (को०)। १४ कुमस्थल (को०)।
१५ दरवाजे के सामने का छायादार भाग (को०)। १६
सुगंधित पदार्थ। लोवान (को०)। १७ जोड़। योग (को०)।
१८ घनत्व (ज्या०)। १९ शक्ति। बल (को०)। २०
लोहा (को०)। २१ ताजा मक्खन (को०)। २२ सेना
(को०)। २३ जल। पानी (को०)। २४ ओढ़ पुष्प (को०)।
२५ पिंडली (को०)।

मुहा०—पिंड छूटना=मुक्त होना। संबंध खतम होना। राहत
मिलना। पिंड छोडना=साथ न लगा रहना या सबध न
रखना। तग न करना। पिंड पडना=पीछे पडना।

पिंड^२—वि० १. ठोस। २ घना। सघन [को०]।

पिंड^३—सज्ञा पु० [सं० पाण्डु] पाण्डुरोग। पीलिया।

यौ०—पिंडरोग = पीलिया। पिंडरोगी पाण्डुरोगी।

पिंडकन्द—सज्ञा पु० [सं० पिंडकन्द] पिंडालू।

पिंडक—सज्ञा पु० [सं० पिण्डक] १ बोल। मुरमकी। २ शिलारस। ३ पिंडालू। ४ कवल। ग्रास (को०)। ५. गोला।
पिंड (को०)। ६ गाजर (को०)। ७ गीलट (को०)।

पिंडकर—सज्ञा पु० [सं० पिण्डकर] मुकरंर मालगुजारी। स्थिर
या नियत कर जैसा आजकल दवामी बंदोबस्तवाले प्रदेशों
में है।

पिंडकर्कटी—सज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डकर्कटी] विलायती पेठा।

पिंडका—सज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डका] मसूरिका रोग। छोटी चेचक।

पिंडखजूर—सज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डखजूर] एक प्रकार की खजूर
जिसके फल मोठे होते हैं। इन फलों का गुड भी बनता है।
खरक। सेंघी। विशेष दे० 'खजूर'।

पिंडखजूर—सज्ञा पु० [सं० पिण्डखजूर] दे० 'पिंडखजूर' [को०]।

पिंडखजूरिका, पिंडखजूरी—सज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डखजूरिका, पिण्ड-
खजूरी] दे० 'पिंडखजूर'।

पिंडगोस—सज्ञा पु० [सं० पिण्डगोल] १ गंधरस। २ बोल।

पिंडज—सज्ञा पु० [सं० पिण्डज] सब अणों के बनने पर गर्भ से
सजीव निकलनेवाला जंतु, जैसे, चमगादर, नेवला, कुत्ता,
विल्ली, बिल, मनुष्य, इत्यादि जो गर्भ से अंडे के रूप में न
निकले, बने बनाए शरीर के रूप में निकले। जरायुज।

पिंडत—सज्ञा पु० [सं० पिण्डत] दे० 'पिंडत'।

पिंडतैल—सज्ञा पु० [सं० पिण्डतैल] शिलारस (को०)।

पिंडतैलक—सज्ञा पु० [सं० पिण्डतैलक] शिलारस।

पिंडद—सज्ञा पु० [सं० पिण्डद] १. पिंडा देनेवाला। २. भोजन
या आहार देनेवाला। ३. स्वामी। सरक्षक (को०)।

पिंडदान—सज्ञा पु० [सं० पिण्डदान] पितरों को पिंड देने का कर्म
जो श्राद्ध में किया जाता है।

क्रि० प्र०—करना।—होना।

पिंडन—सज्ञा पु० [सं० पिण्डन] १ गोल वस्तुएँ बनाना। पिंड के
आकार का बनाना। २ ढीला या किनारा। ३ बाँध (को०)।

पिंडनिर्वपण—सज्ञा पु० [सं० पिण्डनिर्वपण] पितरों को पिंडदान
देना [को०]।

पिंडपात—सज्ञा पु० [सं० पिण्डपात] १ पिंडदान। २ भिक्षादान।

पिंडपातिक—पुं० [सं० पिण्डपातिक] वह जो भिक्षा से जीवन-
निर्वाह करे। भिक्षोपजीवी [को०]।

पिंडपाद, पिंडपाद्य—सज्ञा पु० [सं० पिण्डपाद, पिण्डपाद्य] हाथी।

पिंडपुष्प—सज्ञा पु० [सं० पिण्डपुष्प] १ अशोक का फूल। २ जपा
पुष्प। अडहुल। देवी फूल। ३ तगर का फूल। ४ अशोक
वृक्ष (को०)। ५ पद्म पुष्प। कमल [को०]।

पिंडपुष्पक—सज्ञा पु० [सं० पिण्डपुष्पक] वयुग्रा का शाक।

पिंडफल—सज्ञा पु० [सं० पिण्डफल] कद्दू।

पिंडफला—सज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डफला] कढ़ई तूँबी। कढ़ाया घीघ्रा।
तितलीकी।

पिंडधीजक—सज्ञा पु० [सं० पिण्डधीजक] कनेर का पेड।

पिंडभाक्^१—वि० [सं० पिण्डभाग] पिंडभाग प्राप्त करनेवाला।

पिंडभाक्^२—सज्ञा पु० पितर जो पिंडभाग को प्राप्त करने के अघि-
कारी हैं [को०]।

पिंडभृति—सज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डभृति] जीवित रहने का साधन।
आजीविका [को०]।

पिंडमुस्ता—सज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डमुस्ता] नागरमोथा।

पिंडमूल—सज्ञा पु० [सं० पिण्डमूल] १ गाजर। २. शलजम।

पिंडमूलक—सज्ञा पु० [सं० पिण्डमूलक] गाजर [को०]।

पिंडयज्ञ—सज्ञा पु० [सं० पिण्डयज्ञ] पितरों को पिंडदान करने का
कृत्य। पिंडदान [को०]।

पिंडरक—सज्ञा पु० [सं० पिण्डरक] पुल। सेतु [को०]।

पिंडरिका—सज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डरिका] १ मचीठ। २. चौलाई
का शाक।

पिंडरी^①—सज्ञा स्त्री० [सं० पिण्ड] दे० 'पिंडली'।

पिंडरोग—सज्ञा पु० [सं० पिण्डरोग] १ रोग जो शरीर में घर टि-
हो। २. कोड।

पिंडरोगी—वि० [सं० पिण्डरोगी] रुग्ण शरीर का।

पिंडल—सज्ञा पु० [सं०] माने जाने के लिये नदी या नाले पर बना
दुग्रा मार्ग। पुल [को०]।

पिंडली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिण्ड] टांग का ऊपरी पिछला भाग जो मांसल होता है। घुटने के पीछे के गड्ढे से नीचे का भाग जिसमें चढ़ाव उतार होता है।

मुहा०—पिंडली हिलना = पैर थराना। भय से कँपकँपी होना।

पिंडलेप—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डलेप] पिंडदान में पिंड का एक विशेष भाग जो वृद्ध पितामह आदि तीन पुरखों को दिया जाता है।

पिंडलोप—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डलोप] १ पिंड देनेवाले वंशजों का क्षय। निर्वंश। २ पिंडदान का कृत्य न होना (को०)।

पिंडवाही—सञ्ज्ञा स्त्री० [?] एक प्रकार का कपड़ा।

पिंडवेणु—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डवेणु] एक प्रकार का वाँस (को०)।

पिंडशर्करा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डशर्करा] जुआर की बनी शक्कर। यवनाल की चीनी (को०)।

पिंडसंबन्ध—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डसम्बन्ध] मृत व्यक्ति से जीवित व्यक्ति का ऐसा संबन्ध जिसके आधार पर जीवित व्यक्ति मृत व्यक्ति को पिंडदान करने का अधिकारी हो सके (को०)।

पिंडस—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डस] भिक्षा द्वारा निर्वाह करनेवाला।

पिंडस्थ—वि० [सं० पिण्डस्थ] मिला हुआ। मिश्रित। ढेर में मिश्रित (को०)।

पिंडस्वेद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डस्वेद] गरम पुल्टिस (को०)।

पिंडा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्ड] [स्त्री० अल्पा० पिंडी] १ ठोस या गीली वस्तु का टुकड़ा। २ गोल मटोल टुकड़ा। देला या लोदा। लुगदा। जैसे, आटे का पिंडा, तवाक या मिट्टी का पिंडा। ३ मधु, तिल मिली हुई खीर आदि का गोल लोदा जो श्राद्ध में पितरों को अर्पित किया जाता है।

क्रि० प्र०—देना।

सौ०—पिंडा पानी।

मुहा०—पिंडापानी देना = श्राद्ध और तर्पण करना। पिंडा पारना = पिंडदान करना। उ०—पारे पिंड मीन ले खाई। कहीं कबीर लोग बौराई।—कबीर श०, भा० १, पृ० १२।

४ शरीर। देह। तन। जिस्म।

मुहा०—पिंडा फीका होना = जो अच्छा न होना। तवीयत खरा होना। पिंडा धोना = स्नान करना। नहाना।

५ स्त्रियों की गुप्तेंद्रिय। धरन।

पिंडा^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिण्ड] १ एक प्रकार की कस्तूरी। २ वंशपत्नी। ३. इसपात। ४ हलदी।

पिंडा^३—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] करघे में पीछे की ओर लगी हुई एक खूँटी। वि० दे० 'महतवान'।

पिंडाकार—वि० [सं० पिण्डाकार] गोल बंधे हुए लोदे के आकार का। गोल।

पिंडात—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डात] शिलारस।

पिंडान्वाहार्यक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डान्वाहार्यक] एक श्राद्ध जो पितृपिंड के उपरांत होता है।

पिंडापा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डापा] नाड़ी हिंगु।

पिंडाभ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डाभ] सिद्धक। लोवान (को०)।

पिंडाभ्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डाभ्र] शोला। बनोरी। वर्षोपल (को०)।

पिंडायस—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डायस] इसपात।

पिंडार—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डार] १ एक प्रकार का फल। शाक। पिंडारा। २ क्षपणक। ३ गोप। ४ भैंस का चरवाहा। ५ विक्रकत वृक्ष। ६ अकथ्य का कथन। जुगुप्सासूचक शब्द० (को०)।

पिंडारक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डारक] १. एक नाग का नाम। २. वसुदेव और रोहिणी के एक पुत्र का नाम। ३. एक पवित्र नद का नाम। ४. एक प्राचीन तीर्थ जो गुजरात में समुद्रतट से कोस भर पर है। इसका उल्लेख महाभारत, स्कन्दपुराण और लिंगपुराण में है। कहा जाता है, इस तीर्थ में स्नान करके पांडव गोहत्या से छूटे थे।

पिंडारा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डार] एक शाक जो वैद्यक में शीतल और पित्तनाशक माना गया है।

पिंडारा^२—सञ्ज्ञा पुं० दक्षिण की एक जाति जो बहुत दिनों तक मध्य प्रदेश तथा और और स्थानों में लूटपाट किया करती थी। दे० 'पिंडारी'।

पिंडारी—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] दक्षिण की एक जाति जो पहले बर्गाट, महाराष्ट्र आदि में बसती थी, और खेती करती थी, पीछे श्रवसर पाकर लूट मार करने लगी और मुसलमान हो गई।

विशेष—मुसलमानों से पिंडारियों में यह भेद है कि ये गोमांस नहीं खाते और देवताओं की पूजा और व्रत उपवास आदि करते हैं। पिंडारी लोग बहुत दिनों तक मरहटों की सेवा में थे और लूट पाट में उनका साथ देते थे, यहाँ तक कि पानीपत की लड़ाई में मरहटों की सेना में उनके दो सरदार अठारह हजार सवारों के साथ थे। पीछे मध्यप्रदेश में बसकर पिंडारी चारों ओर घोर लूटपाट करने लगे और प्रजा इनके अत्याचारों से तग आ गई। जब सन् १८०० के पीछे ये अंगरेजी राज्य में भी उपद्रव करने लगे, तब लार्ड हेस्टिंग्स ने सेनाएँ भेजकर इनका दमन किया।

पिंडालक्तक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डालक्तक] महावर (को०)।

पिंडालु, पिंडालुक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डालु, पिण्डालुक] दे० 'पिंडालू' (को०)।

पिंडालू—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिण्ड + आलू] १ एक प्रकार का कद या सकरकद जिसके ऊपर कड़े कड़े सूत से होते हैं। यह खाने में भी मीठा होता है और उबालकर खाया जाता है। सुयनी। पिंडिया। २. एक प्रकार का शफतालू या रतालू।

पिंडाश—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डाश] मिधुक। मिखारी (को०)।

पर्या०—पिंडपातिक। पिंडस। पिंडाशक। पिंडाशन। पिंडाशी।

पिंडशी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डाशिन्] [स्त्री० पिंडाशिनी] मिखारी (को०)।

पिंडाह्वा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डाह्वा] नाडी हिंगु।

पिंडि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डि] पिंडी (को०)।

पिंडिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डिका] १ छोटा पिंड। पिंडी। छोटा गोलमटोल टुकड़ा। २ छोटा डेला या लोदा। लुगदी। ३ पहिए के बीच का वह गोल भाग जिसमें घुरी पहनाई रहती है। चक्रनाभि। ४ पिंडली। ५ श्वेताम्लिका। इमली। ६. वह पिंडी जिसपर देवमूर्ति स्थापित की जाती है। वेदी।

पिंडित^१—वि० [सं० पिण्डित] १ पिंड के रूप में बँधा हुआ। दवाकर घनीभूत किया हुआ। २. पिंडी के रूप में लपेटा हुआ। सहत। ३ गणित। गिना हुआ (को०)। ४ परस्पर मीलित। मिला हुआ (को०)। ५ गुणित। गुणा किया हुआ।

पिंडित^२—सञ्ज्ञा पुं० १. शिलारस। २ काँसा। ३ गणित।

पिंडितद्रुम—वि० [सं० पिण्डितद्रुम] तृणों से भरा हुआ (को०)।

पिंडितार्थ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डितार्थ] साराश (को०)।

पिंडिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डिनी] अपराजिता लता।

पिंडिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डिक] १ गीली भुरभुरी वस्तु का मुट्ठी से बँधा हुआ लबोतरा टुकड़ा। लबोतरी पिंडी। जैसे, मिठाई की पिंडिया, अचार की पिंडिया।

क्रि० प्र०—बाँधना।

२ गुड की लबोतरी भेली। मुट्ठी। ३. लपेटे हुए सूत, सुतली या रस्सी का छोटा गोला।

क्रि० प्र०—करना।—बनाना।

पिंडिल^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डिल] १ सेतु। २ गणक।

पिंडिल^२—वि० १. गणना करने में दक्ष। २ जिसकी पिंडलियाँ बड़ी हों (को०)।

पिंडिला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डिला] ककडी।

पिंडी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डिन्] १ ठोस या गीली वस्तु का छोटा गोल मटोल टुकड़ा। छोटा डेला या लोदा। लुगदी। जैसे, घाटे की पिंडी, तवाहू की पिंडी।

क्रि० प्र०—बाँधना।

२. गीली या भुरभुरी वस्तु का मुट्ठी में दवाकर बाँधा हुआ लबोतरा टुकड़ा। जैसे, खाँड़ की पिंडी, गुड की पिंडी। ३ चक्रनेमि। पिंडिका। ४ घीया। कद्दू। लौकी। ५ पिंड खजूर। ६ एक प्रकार का तगर फूल। हजार तगर। ७ वेदी जिसपर बलिदान किया जाता है। ८ पीठ। पीड़ा। (को०)। ९ पिंडली (को०)। १० गृह। घर। मकान (को०)। ११ कसकर लपेटे हुए सूत, रस्सी आदि का गोल लच्छा।

क्रि० प्र०—करना।

पिंडीकरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डीकरण] पिंड का रूप देना। पिंड बनाना (को०)।

पिंडीतक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डीतक] १. मदन वृक्ष। मैनफल। २ पिंडी तगर। हजार तगर।

पिंडीपुष्प—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डीपुष्प] अशोक वृक्ष।

पिंडीभवन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डीभवन] पिंड के आकार का होना पिंडाकार होना (को०)।

पिंडीर^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डीर] १ अनार। २ समुद्रफेन।

पिंडीर^२—वि० शुष्क। नीरस (को०)।

पिंडीशूर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डीशूर] १ घर ही में बैठे बैठे बहा दिखलानेवाला। बाहर आकर कुछ न कर सकनेवाला २ खाने में बहादुर। पेटू।

पिंडुर(पु)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पिंडली'।

पिंडुरी(पु)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पिंडली'। उ०—पिंडुरी का अंग थहरत लहरि कच मुख पास। तन स्वेद कन झल रहत कोउ चाहि मद बतास।—भारतेंदु ग्रं०, भा० पु० ११८।

पिंडुती(पु)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पिंडली'।

पिंडूक—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पडूक'। उ०—रोवत मिलि पि संग ता के घाव लखात।—भारतेंदु ग्रं०, भा० १, पु० २२

पिंडोदकक्रिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डीदकक्रिया] पिंडदान क्रिया और तर्पण।

पिंडोद्धरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्डीद्धरण] पिंडदान में लेना (को०)।

पिंडोपजीवी—वि० [सं० पिण्डीपजीविन्] दूसरो के दिए टुकड़ों पर जीवित रहनेवाला। दूसरो के द्वारा पोषण करनेवाला (को०)।

पिंडोल—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पाण्डु] पीली मिट्टी। पोतनी मिट्टी।

पिंडोलि^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डीलि] धाली या पत्तल पर अन्न जो खाने से बचा हो।

पिंडोलि^२—सञ्ज्ञा पुं० [?] ऊँट।

पिंडोलिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डीलिका] दे० 'पिंडोलि' (को०)।

पिंधना(पु)†—क्रि० सं० [सं० परिधारण] १ 'पहनना'। उ०—ता वैश्याहि करो सुखसार मढते अलक तिलका । खडते दिव्यावर पिंधते।—कीर्ति०, पु० ३४।

पिंम—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रेमन्, प्रा० पेम्म, पेम, पिम्म] १ 'प्रेम' उ०—भर भोर अमय भय सील नील। सरसात पिग पिम चील।—पृ० रा०, २।६७।

पिंशन—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पेनशन] दे० 'पेनशन'।

पिंगला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिङ्गला] दे० 'पिङ्गला'।

पिंजड़ा, पिंजरा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्जर] १ मोहे, बाँग आ की तीलियों का बना भावा जिसमें पक्षी पानते हैं। २ छोटी जगह (लादा०)।

सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] पशुशाला। गोशाला।

सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्जा (= रुद्र)] रुद्र

। उ०—घमाघम्म मत्ती मद्ये मादि

र पीजत मानो।—पृ० रा०, २।५।४

सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्जिका] रुद्र धर्म

पिंडकी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० पडकी ।

पिंडरी, पिंडस्त्री—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिएड] दे० 'पिंडली' ।

पिंडचाही—सञ्ज्ञा स्त्री० [?] एक प्रकार का वस्त्र । उ०—पठवाहिं चीर
आनि सब छोरी । सारी कन्धुकि पहिरि पटोरी । फुँदिया
श्रीर कंसिया राती । छायाल पिडवाही गुजराती ।—जायसी
(शब्द०) ।

पिंडिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिडिका] दे० 'पिडिया' ।

क्रि० प्र०—करना ।—बनाना ।—बाँधना ।

पिंहकारना—क्रि० प्र० [अनु०] कोयल, पपीहा, मयूर आदि
सुंदर कठवाले पक्षियों का बोलना । पिहकना । उ०—पपीहे
भी ऋषभ स्वर के साथ पिहकारने लगे ।—प्रमथन०, भा० २,
पृ० १४ ।

पिथ्र^१—वि० [सं० प्रिय] दे० 'प्रिय' ।

पिथ्र^२—सञ्ज्ञा पुं० दे० 'पिय' ।

पिथ्रना—क्रि० प्र० [हि० पीना] दे० 'पीना' । उ०—पिथ्रत नयन
पुट रूप पियूषा । मुदित सु असन पाइ जिमि भूखा ।—
मानस, २।१११ ।

पिथ्ररु—वि० [सं० पीत] दे० 'पीला' । उ०—(क) पिथ्ररु उप-
रना काखा सोती ।—मानस, १।३२७ । (ख) परिहँस
पिथ्ररु भए तेहि वासा ।—जायसी प्र० (गुप्त), पृ० १६७ ।

पिथ्ररवा^१—वि० [हि०] दे० 'प्यारा' ।

पिथ्ररवा^२—सञ्ज्ञा पुं० दे० 'पति' ।

पिथ्ररवा^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [पिथ्ररा (= पीला)] वरतन बनाने की
पीले रंग की मिट्टी (कुम्हार) ।

पिथ्रराई^१—सञ्ज्ञा स्त्री [सं० पीत, हि० पिथ्ररु + आई (प्रत्य०)]
पीलापन ।

पिथ्ररिया^१—सञ्ज्ञा पुं० [पिथ्ररु (= पीला) + ह्या (प्रत्य०)]
पीले रंग का बेल जो बहुत मजबूत और तेज चलनेवाला
होता है ।

पियरिया^२—सञ्ज्ञा स्त्री० दे० 'पिथ्ररी' ।

पिथ्ररी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पीली] १ हल्दी के रंग में रंगी हुई
वह धोती जो विवाह के समय में वर या वधू को पहनाई
जाती है ।

२ इसी प्रकार पीली रंगी हुई वह धोती जो प्रायः देहाती स्त्रियाँ
गंगा जी को चढ़ाती हैं ।

क्रि० प्र०—चढ़ाना ।

पिथ्ररी^२—वि० स्त्री० दे० 'पीला' । उ०—पिथ्ररी भीनी भँगूली साँवरे
शरीर खुली बालक दामिनी ओढ़ी मानो वारे वारिधर ।
—तुलसी (शब्द०) ।

पिथ्रान—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'प्याज' ।

पिथ्रान^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रयाण] दे० 'पयान' । उ०—जल ते
निकसि जलि किष्ठा पिथ्राना ।—प्राण०, पृ० ४४ ।

पिथ्राना—क्रि० प्र० [हि०] दे० 'पिलाना' ।

पिथ्रानो—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पियानो' ।

पिथ्रारा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० अप, पिथ्र > पिय + द्रा] दे० 'प्यार' ।

पिथ्रारा^१—वि० [हि० अप, पिथ्र > पिय + द्रा, हि० प्यारा] दे०
'प्यारा' । उ०—बचन वज्र जेहि सदा पिथ्रारा । सहस नयन
परदोष निहारा ।—मानस, १।४ ।

पिथ्रारा^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'प्यास' ।

पिथ्रारा^३—वि० [हि०] दे० 'प्यासा' । उ०—चात्रिक होहु पुकार
पिथ्रारासा ।—जायसी प्र० (गुप्त), पृ० २७७ ।

पिड—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रिय] पति । खाविद ।

पिडनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पुनी' ।

पिडप, पिडख^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीयूष, प्रा० पीऊस] दे० 'पियूष' ।
उ०—(क) मृग मद मयूष जनु पिडप पान ।—पृ० रा०,
६।३७ । (ख) नाय पिडखन अमृत चाखै ।—दरिया०,
पृ०, ६१ ।

पिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० पिकी] कोयल । कोकिल ।

यौ०—पिकबंधुर । पिकवल्लभ ।

विशेष—मीमांसा के भाष्यकार शबर स्वामी ने पिक, तामरस,
नेम आदि कुछ शब्दों को म्लेच्छ भाषा से गृहीत बतलाया है ।

पिकप्रिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] बड़ा जामुन ।

पिकबधु—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिकबन्धु] आम का पेड़ ।

पिकबधुर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिकबन्धुर] आम का पेड़ ।

पिकबयनी^१—[सं० पिक + बचन, प्रा० वयण, हि० बैन + ई
(प्रत्य०)] कोयल की तरह मीठा बोलनेवाली । मधुभाषिणी ।
उ०—किसी पिकबयनी की आवाज आकर कान में पड़े तो
पूरा आनंद मिले ।—श्रीनिवास प्र०, पृ० २५३ ।

पिकबंधव—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिकबान्धव] वसंत ऋतु [कौ०] ।

पिकबैनी—वि० [हि०] दे० 'पिकबयनी' । उ०—राजें मृगनेनी
पिकबैनी छविरेनी बोरी लचकत लक छीन कटि सोभा भार
है ।—पोद्दार अभि० प्र०, पृ० ३८७ ।

पिकबैनी—वि० [हि०] दे० 'पिकबयनी' । उ०—मनसहु अगम
समुक्ति यह अवसर कत सकुचति पिकबैनी ।—तुलसी
प्र०, पृ० ३१० ।

पिकराग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] आम का पेड़ ।

पिकवल्लभ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] आम का पेड़ ।

पिकांग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिकाङ्ग] चातक पक्षी ।

पिकाक्ष^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ताल मखाना ।

पिकाक्ष^२—वि० जिसकी आँखें कोयल के समान हो [कौ०] ।

पिकानद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिकानन्द] वसंत ऋतु ।

पिकी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कोयल ।

पिकेक्षणा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] ताल मखाना ।

पिकेट—सञ्ज्ञा पुं० [प्र०] १ पलटनियों का पहरा जो कहीं उपद्रव
होने या उसकी आशंका होने पर उसे रोकने के लिये बैठाया
जाता है । २. किसी काम को रोकने के लिये दिया जाने-
वाला पहरा । धरता ।

पिकेटिंग—सज्ञा स्त्री० [अ०] किसी बात को रोकने के लिये पहरा देना। घरना। जैसे,—स्वयंसेवक विदेशी वस्त्र की दूकानों के सामने पिकेटिंग कर रहे थे, इससे कोई ग्राहक नहीं आया।

पिक्क—सज्ञा पुं० [सं०] १ वीस बरस की आयु का हाथी। २ हाथी का बच्चा [को०]।

पिक्कना—क्रि० सं० [सं० प्रेक्ष्य, प्रा० पेक्ख्य, पिक्ख्य] दे० 'पेखना'। उ०—बोटा अनेक बरस किते, पचसिखा पिक्खय प्रगट।—ह० रासो, पृ० १०।

पिक्कर—सज्ञा स्त्री० [अ०] १ चित्र। तस्वीर। २ सिनेमा।

पिगलना—क्रि० अ० [हि०] दे० 'पिघलना'। उ०—सुखवासीलाल (सरोजनी से) जल्हदी अपने सफरदाइयो को बुला। (मन में) आखिरकार पिगले, कहिए अब इनकी वो तेजी कहाँ है।—श्रीनिवास ग्र०, पृ० ५०।

पिघरना—क्रि० अ० [हि०] दे० 'पिघलना'। उ०—पिघरि चलयो नवनीत मीत नवतीत सदस हिय।—नद ग्र०, ११।

पिघलना—क्रि० अ० [सं० प्र+गलन] १. ताप के कारण किसी घन पदार्थ का द्रव रूप में होना। गरमी से किसी चीज का गलकर पानी सा हो जाना। द्रवीभूत होना। जैसे, मोम पिघलना, राँगा पिघलना, घी पिघलना। २. चित्त में दया उत्पन्न होना। किसी की दशा पर करुणा उत्पन्न होना। पसीजना। जैसे,—महीनो तक प्रार्थना करने पर अब वे कुछ पिघले हैं।

पिघलाना—क्रि० सं० [हि० पिघलना का प्रेरुप] १. किसी कड़े पदार्थ को गरमी पहुँचाकर द्रव रूप में लाना। किसी चीज को गरमी पहुँचाकर पानी के रूप में लाना। २. किसी के मन में दया उत्पन्न करना। दयाद्रं करना।

पिचंड—सज्ञा पुं० [सं० पिचण्ड] १ उदर। पेट। २ जानवर का कोई अंग [को०]।

पिचंडक—वि० [सं० पिचण्डक] औदरिक। पेटू [को०]।

पिचंडिक, पिचंडिल—वि० [सं० पिचण्डिक, पिचण्डिल] १ बड़े पेटवाला। तुँदियल। २ मोटा। स्थूलकाय [को०]।

पिच—सज्ञा स्त्री० [अनु०] दे० 'पीक'।

पिचका—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पिचकारी'।

पिचकना—क्रि० अ० [सं० पिच (= दबना)] किसी फूले या उभरे हुए तल का दब जाना। जैसे, गाल पिचकना, गिरने के कारण लोटे का पिचकना।

पिचकवाना—क्रि० सं० [हि० पिचकना का प्रेरुप] पिचकाने का काम दूसरे से कराना। किसी दूसरे को पिचकाने में प्रवृत्त करना।

पिचका^१—सज्ञा पुं० [हि० पिचकना] बड़ी पिचकारी।

पिचका^२—सज्ञा पुं० दे० 'पिचुकिया'।

पिचकाई—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पिचकारी'। उ०—(क) कचन की पिचकाइयाँ भारत हैं तकि दूरि।—छीत०, पृ०

२३। (ख) पहिरें बसन विविध रंग भूषण, करन कनक पिचकाई।—नद० ग्रं०, पृ० ३२१।

पिचकाना—क्रि० सं० [हि० पिचकना का प्रेरुप] फूले या उभरे हुए तल को भीतर की ओर दवाना।

पिचकारी—सज्ञा स्त्री० [हि० पिचकना] एक प्रकार का नलदार यंत्र जिसका व्यवहार जल या किसी दूसरे तरल पदार्थ को (नल में) खींचकर जोर से किसी ओर फेंकने में होता है।

विशेष—पिचकारी साधारणतः बाँस, शीशे, लोहे, पीतल टीन आदि पदार्थों की बनाई जाती है। इसमें एक लंबा खोखला नल होता है जिसमें एक ओर बहुत महीन छेद होता है और दूसरी ओर का मुँह खुला रहता है। इस नल में एक डाट लगा दी जाती है जिसके ऊपर उसे आगे पीछे हटाने या बढाने के लिये दस्ते समेत कोई छड़ लगी रहती है। जब पिचकारी का बारीक छेदवाला सिरा पानी अथवा किसी दूसरे तरल पदार्थ में रखकर दस्ते की सहायता से भीतरवाली डाट को ऊपर की ओर खींचते हैं तब नीचे के बारीक छेद में से तरल पदार्थ उस नल में भर जाता है और जब से उस डाट को दवाते हैं तब नल में भरा हुआ तरल पदार्थ जोर से निकलकर कुछ दूरी पर जा गिरता है। साधारण इसका प्रयोग होलियों में रंग अथवा महफिलों में गुंजल आदि छोड़ने के लिये होता है परंतु आजकल मक आदि घोंने और भाग बुझाने के लिये बड़ी बड़ी और जल्म आदि घोंने के लिये छोटी पिचकारियों का उपयोग होने लगा है। इसके अतिरिक्त इसपर एक ऐसी पिचकारी चली है जिसके आगे एक छेददार सूई लगी होती है इस पिचकारी की सूई को शरीर के किसी अंग में जरा स चुभाकर अनेक रोगों की औषधों का रक्त या मासपेशी प्रवेश भी कराया जाता है।

क्रि० प्र०—चलाना। —छोड़ना। —देना। —मारना। —लगाना।

मुहा०—पिचकारी छूटना या निकलना = किसी स्थान से तरल पदार्थ का बहुत वेग से बाहर निकलना। जैसे, सिर लहू की पिचकारी छूटना। पिचकारी छोड़ना = किसी पदार्थ को वेग से पिचकारी की भाँति बाहर निकालना जैसे, पान खाकर पीक की पिचकारी छोड़ना।

पिचकी—सज्ञा स्त्री [हि० पिचक] दे० 'पिचकारी'।

पिचपिच—सज्ञा पुं० [अनु०] दे० 'चिपचिप'।

पिचपिचा—वि० [हि०] दे० 'चिपचिपा'।

पिचपिचाना—क्रि० अ० [अनु०] धाव या किसी और चीज में बराबर थोड़ा थोड़ा पदार्थ रसना। पानी निकलना।

पिचपिचाहट—सज्ञा स्त्री [हि० पिचपिचाना] गीले या आर्द्र का भाव। पिचपिचाने का भाव।

पिचरकी—सज्ञा स्त्री [हि०] दे० 'पिचकारी'। उ०—सुमति पिचरकी अपने हाथ, हम भरिहैं तुमहिं त्रलोक्य—सुंदर ग्रं०, भा० २, पृ० ६०२।

पिचरियां—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पिचलना] एक प्रकार का छोटा कोल्हू जिसकी कोठी छोटी होती है।
 पिचलना—क्रि० प्र० [हि०] दे० 'कुचलना'।
 पिचवयां—सञ्ज्ञा पुं० [?] वटवृक्ष। (डि०)।
 पिचव्य—सञ्ज्ञा पुं० [म०] कगस का पौधा [को०]।
 पिचाश, पिचासां—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पिशाच'।
 पिचिड—वि० [सं० पिचिण्ड] १ उदर। पेट। २ पशु का कोई अंग [को०]।
 पिचिडक—वि० [सं० पिचिण्डक] पेदु। श्रौदरिक [को०]।
 पिचिडिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिचिण्डिका] पिडली।
 पिचिडो—वि० [सं० पिचिण्डन्] तोंदिल। तुदिल [को०]।
 पिचीस—वि० [हि०] दे० 'पचीस'। उ०—पाँचों यार पिचीसों वस कर हनमे चहै कोई होय।—कवीर श०, भा० १, पृ० ६७।
 पिचु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ रूई। २ एक प्रकार का कोढ़। कोढ़ का एक भेद। ३ एक तौल जो दो तौले के बराबर होती है। ४. एक अन्न [को०]। ५ एक असुर का नाम।
 पिचुक—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] मैनफल का वृक्ष।
 पिचुकारी^(५)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पिचकारी'। उ०—पाप पुन्य दोड ले पिचुकारी छोडत हैं बारी बारी।—चरण० बानी, पृ० ७०।
 पिचुकिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पिचकी] १ छोटी पिचकारी। २ वह गुम्फिया (कवा) जिसमें केवल गुड और सोठ भरी जाती है।
 विशेष—यह एक प्रकार का पकवान है जो होली आदि के विशिष्ट अवसरों पर बनता है।
 पिचुक्षा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पिचकना] १ पिचकारी। २ गोलगम्पा।
 पिचुतूल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कपास की रूई। रूई [को०]।
 पिचुमंद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिचुमन्द] नीम का पेड़ [को०]।
 पिचुमर्द—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नीम का पेड़।
 पिचुल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. भाऊ का पेड़ (डि०)। २ समुद्रफल। ३. रूई। ४ गोताखोर। ५ जलकाक। जलवायस [को०]।
 पिचू—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] १६ भाणों की तौल। कण्ठं।
 पर्या०—अक्ष। तिंदुक। विडाल। परढक। सुवर्णं। हंसपद। उदुंबर।
 पिचूका—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पिचकना] दे० 'पिचुका'।
 पिचोतरसो—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पञ्चोत्तरशत] एक सौ पाँच की सख्या। सौ और पाँच (पहाडा)।
 पिचट^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वैद्यक के अनुसार अर्श का एक रोग। २ सीसा। रांगा।
 पिचट^२—वि० दबाकर निचोडा या चिपटा किया हुआ [को०]।

पिच्चा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सोलह मोतियों की माला जिसका वजन एक धरन (मोतियों की एक तौल) हो [को०]।
 पिचिट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक विपैला कीडा [को०]।
 पिचित्त^१—वि० [सं० पिच (= दघना, पिचकना)] पिचका हुआ। दवा हुआ। जो दबकर चिपटा हो गया हो।
 पिचित्त^२—सञ्ज्ञा पुं० १ वह वस्तु जो दबकर पिचक गई हो या चिपटी हो गई हो। २ सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का घाव या क्षत।
 विशेष—यह शरीर के किसी भाग पर किसी भारी वस्तु की चोट लगने अथवा दाव पडने के कारण होता है। जो स्थान दबता है वह फेनकर चिपटा हो जाता है और प्रायः उस स्थान की हड्डी की भी यही दशा होती है, त्वचा कट जाती है और कटा हुआ भाग रुधिर और मज्जा से चिपचिपा बना रहता है।
 पिची—वि० [हि०] दे० 'पिच्चित'।
 पिच्छ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ किसी पशु की पूँछ। ऐसी पूँछ जिसपर बाल हो। लागूल। २ मोर की पूँछ। मयूरपुच्छ। ३ मोर की चोटी। चूडा। ४. मोचरस। ५. पख। डैना [को०]। ६ वाण का पख [को०]। ७ दुम या पूँछ के पख। जैसे, मोर का [को०]।
 पिच्छक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ लागूल। पूँछ। २ मोचरस।
 पिच्छतिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] शीशम। शिशिपा।
 पिच्छन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] किसी वस्तु को अत्यंत दवाना। दबाकर चिपटा करने की क्रिया। अत्यंत पीडन।
 पिच्छपाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पैरों में होनेवाला एक रोग।
 पिच्छपादी—वि० [सं० पिच्छपादिन्] जिसको पिच्छपाद हो गया हो। पिच्छपाद रोगयुक्त (घोडा)।
 पिच्छवाण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वाज। श्येन।
 पिच्छभार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मोर की पूँछ।
 पिच्छम^(५)—वि० [हि० पिच्छम] दे० 'पश्चिम'। उ०—घर पिच्छम निरखण मन धारे। परसण हरि द्वारका पधारे।—रा० रू०, पृ० १२।
 पिच्छल^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मोचरस। २ अकासवेल। आकाशवल्ली। ३ शीशम। शिशिपा वृक्ष। ४ वासुकि के वश का एक सर्प।
 पिच्छल^२—वि० जिसपर से पैर रपट या फिसल जाय। रपटन-वाला। चिकना।
 पिच्छल^३—वि० [हि०] दे० 'पिछला'।
 पिच्छल^४—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पिछला] जहाज का पिछला भाग। (लश०)।
 पिच्छलच्छदा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ वेर। बदरीवृक्ष। २ पोय। उपोदकी शाक।
 पिच्छलतिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पूँछ पर के पख [को०]।

पिच्छलदला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पिच्छलच्छदा' ।

पिच्छलपाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] घोड़ों के पैर में होनेवाला एक रोग ।

पिच्छा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ मोचरस । २ सुपारी । पुग वृक्ष ।
३ शीशम । ४ नारगी का वृक्ष । ५ निर्मली का पेड़ । ६ आकाशलता । आकाशवेल । ७. आवरण । खोल (को०) । ८ कवच । सनाहू (को०) । ९ राशि । समूह (को०) । १०. कत्तार । पक्ति । लाहन (को०) । ११ पिहली (को०) । १२ सर्प की विषाक्त लार । फणिलाला (को०) । १३ घोड़ों का एक रोग । पिच्छलपाद । १४ भात या चावल का माँड ।

पिच्छाम्राव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] लिबलिबी लार [को०] ।

पिच्छिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ चेंबर । चामर । २ ऊन की चेंबरी जो जेनो साधु अपने पास रखते हैं । ३ मोरछल ।

पिच्छितिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] शीशम ।

पिच्छिल^१—वि० [सं०] [पि० स्त्री० पिच्छिला] १. सरल और स्निग्ध (पदार्थ) । गीला और चिबना । २ फिसलनेवाला । फिसलन युक्त । जिसपर कोई वस्तु ठहर न सके । जिसपर पड़ने से पैर रपटे । ३. चावल के माँड से चुपटा हुआ । ४ चूड़ायुक्त (पक्षी) । जिसके सिर पर चूड़ा हो । ५. डुमदार । पूँछवाला (को०) । ६. खट्टा, कोमल, फूला हुआ और कफकारी (पदार्थ) (वैद्यक) ।

पिच्छिल^२—सञ्ज्ञा पुं० १. लसोडा । श्लेष्मातक । २ चावल का माँड । भवत्तमड(को०) । ३ स्निग्ध सरल व्यजन (दाल, कढ़ी आदि) ।

पिच्छिलक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मोचरस । २ घामिन का पेड़ ।

पिच्छिलच्छदा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वेर । बदरी वृक्ष । २ पोय । उपोदकी शाक ।

पिच्छिलत्वक्, पिच्छिलत्वच्—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ नारगी वा पेड़ । २ घामिन का पेड़ ।

पिच्छिलदला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पिच्छलच्छदा' ।

पिच्छिलचारित—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] निरुद्धवस्ति का एक भेद । विशेष—दे० 'निरुद्धवस्ति' ।

पिच्छिलसार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मोचरस ।

पिच्छिला^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पोई । २ शीशम । ३ सेमल । शात्मली वृक्ष । ४ तालमखाना । कोकिलाक्ष । ५ वृश्चिकाली जड़ी । वृश्चिका क्षुप । ६. शूली घास । ७ अग्रर । ८ अलसी । ९. अरवी ।

पिच्छिला^२—वि० स्त्री० दे० 'पिच्छिल' ।

पिच्छा^१—वि० [हिं० पीछे] पीछे । पीछा का समास में प्रयुक्त रूप । जैसे, पिछलगा आदि ।

पिछड़ना—क्रि० अ० [हिं० पिछाड़ी+ना (प्रत्य०)] १ पीछे रह जाना । साथ साथ, बराबर या आगे न रहना । २ श्रेणी में आगे या बराबर न रहना ।

संयो० क्रि०—जाना ।

पिछड़ापन—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पिछड़ना + पन (प्रत्य०)] पिछड़ने या पीछे रहने या होने की स्थिति । विकास की विरोधी स्थिति । अविकसित अवस्था ।

पिछनाचना^(१)—क्रि० सं० [हिं० पहचनवाना, गुज० पिछान, पिछानवुँ] पहचान कराना । परिचय कराना । उ०—तब भैरव इक गन सरिस किन हूकम हर नद । विवरि नाम वीरन सबन कहि पिछनावहु चद ।—पृ० रा०, ६।६४ ।

पिछरना^१—क्रि० सं० [हिं०] पछाडना । मारना । उ०—पकरि कसाई पटक पिछरना । समुक्ति देखि निश्चै करि मरना ।—सुदर ग्र०, भा० १, पु० ३३४ ।

पिछलग्ना—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पीछे+लगना] १ वह मनुष्य जो किसी के पीछे पीछे चले । अधीन । आश्रित । २ वह आदमी जो अपने स्वतंत्र विचार या सिद्धांत न रखता हो, बल्कि सदा किसी दूसरे के विचारों या सिद्धांतों के अनुसार काम करे । किसी का मतानुयायी । अनुवर्ती । अनुगामी । शिष्य । शागिर्द । चेला । ३ सेवक । नौकर । खिदमतगार ।

पिछलगी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पिछलग्ना] १ दे० 'पिछलगा' । २ पिछलगा होने का भाव । अनुयायी होना । अनुगमन करना । अनुवर्तन । अनुसरण ।

पिछलग्ना^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पिछलगा' ।

पिछलग्ना^२—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पिछलगा' ।

पिछलत्तो^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पिछला + तात] गधे घोड़े आदि पशुओं का पिछले पैर से पीछे की ओर मारना ।

पिछलना—क्रि० अ० [हिं० पीछा] पीछे की ओर हटना या मुड़ना (क्व०) ।

पिछलपाई—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पीछा + पाही=पैरवाली] १ चुडैल । विशेष—चुडैलों के सबध में लोगों की धारणा है कि इनके पैरों में एड़ी आगे और पजे पीछे की ओर होते हैं । २ जाहूगरनी ।

पिछला^१—वि० [हिं० पीछा] [स्त्री० पिछली] १ जो किसी वस्तु की पीठ की ओर पड़ता हो । पीछे की ओर का । 'अगला का उलटा जैसे,—(क) इस मकान का पछ हिस्सा कुछ कमजोर है । (ख) इस घोड़े की पीछे दोनो टाँगें खराब हैं । २ जो घटना स्थिति आदि क्रम में किसी के अथवा सबके पीछे पड़ता हो जिसके पहले या पूर्व में कुछ और हो या हो चुका हो बाद का । अनंतर का । पहला का उलटा । जैसे,—आने अपने पहला बयान तो वापस ले लिया, परंतु पिछले क ज्यों का त्यो रखा है । ३ किसी वस्तु के उत्तर भाग सबध रखनेवाला । अंत के भाग का या अर्धांश का । द्वर्ती । अंत की ओर का । जैसे—(क) इस पुस्तक के पि-प्रकरण अधिक उपादेय हैं । (ख) अपने पिछले प्रयत्नों उन्हें वैसी सफलता नहीं हुई जैसी पहले प्रयत्नों में हुई थी । मुहा०—पिछला पहर=दो पहर या आधी रात के बाद

समय । दिन अथवा रात का उत्तर काल । पिछली रात = रात्रि का उत्तर काल । रात में आधी रात के बाद का समय । पिछले काँटे = (१) परवर्ती काल में । (२) वर्तमान के ठीक पहले के समय में । उ०—मगर, पिछले काँटे वह मानिक के घर बहुत कम आने लगी ।—शराबी, पृ० ३६ ।

४ बीता हुआ । गत । जो भूत काल का विषय हो गया हो । पुराना । गुजरा हुआ । जैसे,—पिछली बातों को भूल जाना अच्छा होगा । ५ सबसे निकटस्थ । भूत काल का । उस भूत काल का जो वर्तमान के ठीक पहले रहा हो । गत बातों में से अंतिम या अंत की ओर का । जैसे, पिछले साल आदि ।

मुहा०—पिछला दिन = वह दिन जो वर्तमान से एक दिन पहले बीता हो । पिछली रात = कल की रात । आज से एक दिन पहले बीती हुई रात । गत रात्रि । पिछली बातों पर खाक डालना = गत काल की बातों को भुला देना । बीती बात को भुला देना । बीती बात को विसार देना । उ०—लाडो-चलो, अब पिछली बातों पर खाक डालो ।—सैर कु०, पृ० ३३ ।

पिछला^२—मन्त्रा पु० १ पिछले दिन पढ़ा हुआ पाठ । एक दिन पहले पढ़ा हुआ पाठ । आमोखता । जैसे,—तुमको अपना पिछला दुहराने में देर लगती है ।

क्रि० प्र०—दुहराना ।

२ वह खाना जो रोजे के दिनों में मुसलमान लोग कुछ रात रहते खाते हैं । सहरी ।

पिछला^३—सज्ञा स्त्री० [दिश०] पछेली । हाथ में पीछे पहनने का एक आभूषण उ०—कंगने पहँची, मृदु पहँचों पर, पिछला, मँकुवा, अगला क्रमतर, घुडियाँ, फूल की मठियाँ वर ।—प्राच्या पृ० ४० ।

पिछवाई—सज्ञा स्त्री० [हि० पीछा] पीछे की ओर लटकाने का परदा ।

पिछवाड़ा—मन्त्रा पुं० [हि० पीछा+वाड़ा (प्रत्य०)] [स्त्री० पिछवाड़ी] १ किसी मकान का पीछे का भाग । घर का पृष्ठ भाग । घर का वह भाग जो मुख्य द्वार के विरुद्ध दिशा में हो । २ घर के पीछे का स्थान या जमीन । किसी मकान के पृष्ठ भाग से मिली हुई जमीन । घर की पीठ की ओर का खाली स्थान ।

पिछवारा—सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पिछवाड़ा' ।

पिछाडी—सज्ञा स्त्री० [हि० पीछवाड़ी] १ पिछला भाग । पीछे का हिस्सा । पृष्ठ भाग । २ पक्षि में अंत का व्यक्ति । ३ वह रस्ती जिससे घोड़े के पिछले पैर बाँधते हैं ।

क्रि० प्र०—लगाना ।—बाँधना ।

पिछान(पुं०)—सज्ञा स्त्री [हि० पहचान] दे० 'पहचान' । उ०—साहिब एक अगम्य ताकर करहु पिछान ।—कबीर सा०, पृ० ५६८ ।

पिछानना(पुं०)—क्रि० सं० [हि० पिछान] दे० 'पहचानना' । उ०—छला परोसिनि हाथ तँ करि लियो पिछानि ।—विहारी (शब्द०) ।

पिछानि(पुं०)—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पहचान' । उ०—जल तँ निकासि बहु भौंति गहि डारी तट 'लीजिये पिछानि' देखि सुधि बुधि गई है ।—भक्तमाल, पृ० ४८६ ।

पिछारीं—सज्ञा स्त्री० [हि०] वे० 'पिछाडी' ।

पिछेलना—क्रि० सं० [हि० पीछे+पेलना (हेलना)] १ पीछे ठेलना या करना । उ०—आता है जी में तात यही, पीछे पिछेल व्यवधान मही । ऋट लोढ़ चरणों में आकर, सुख पाऊँ करस्वर्षा पाकर ।—साकेत, पृ० १८५ । २ किसी कार्य में आगे निकल जाना । पिछाड देना ।

पिछोकड़ा—सज्ञा पुं० [हि० पीछे+अँकड़ा (प्रत्य०)] मकान के पीछे का भाग । पिछवाड़ा । उ०—भीख जन उदास होकर मंदिर के पिछोकड़ें जाकर बैठ गया और वहाँ से भगवान् की स्तुति करता हुआ ध्यान करने लगा ।—सुंदर० ग्र० (जी०), भा० १, पृ० ८५ ।

पिछोरा—सज्ञा पुं० [हि०] [सज्ञा स्त्री० पिछोरी] दे० 'पिछोरा' । उ०—फूलन को मुकुट बन्यो, फूलन को पिछोरा तन सोहित अति प्यारो वर फूलन को सिंगार ।—नद० ग्र०, पृ० ३७६ ।

पिछौंड़ी—वि० [हि० पीछे+अँड़ (प्रत्य०)] जिसने अपना मुँह पीछे कर लिया हो । किसी के मुँह की ओर जिसकी पीठ पड़ती हो । किसी वस्तु को न देखता हुआ ।

पिछौंड़ा—क्रि० वि० [हि० पीछा+अँड़ा (प्रत्य०)] पीछे की ओर ।

पिछौंठा—क्रि० वि० [हि० पीछा+अँठा (प्रत्य०)] पीछे की ओर ।

पिछौंहा—वि० [हि० पीछा+अँहा (प्रत्य०)] १. पीछे का । पीछे की ओर का । २ पश्चिमीय । पश्चिम का ।

पिछौंही—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पिछोरी' ।

पिछौंहे(पुं०)—क्रि० वि० [हि० पिछौंहा] पीछे की ओर । पीछे की ओर से । उ०—रुहै पदमाकर पिछौंहे आय आदर से छलिया छबीलो छैल वासर बितै बितै ।—पद्माकर (शब्द०) ।

पिछौरा—सज्ञा पुं० [सं० पछपट ? प्रा० पच्छवद, पछेवदा] १. मरदाना टुपट्टा । पुरुषों की चादर । २ ओढ़ने का मोटा कपड़ा ।

पिछौरी—सज्ञा स्त्री० [हि० पिछौरा] १ स्त्रियों का वह वस्त्र जिसे वे सबसे ऊपर ओढ़ती हैं । स्त्रियों की चादर । उ०—भगा पगा अरु पाग पिछोरी ढाँढिन को पहिरायो ।—सूर (शब्द०) २ ओढ़ने का वस्त्र । कोई कपड़ा जो ऊपर से ढाल लिया जाय ।

पिछ्छी(पुं०)—क्रि० वि० [हि०] दे० 'पीछे' । पीछे की ओर । उ०—फौज पिछ्छी फिरी राज राजगरी ।—पृ० रा०, २४२१४ ।

पिटकाकी, पिटकोको—सज्ञा स्त्री० [सं० पिटकाकी, पिटकोकी] इद्रायन । इद्रवारुणी ।

पिटत—सज्ञा स्त्री० [हि० पीटना+अंत (प्रत्य०)] पीटने की क्रिया या भाव । मारपीट । मारकूट ।

पिट^१—सज्ञा पुं० [अ०] थिएटर में गैलरी के आगे की सीटें या आसन ।

पिट^२—सज्ञा स्त्री० [अनु०] किसी वस्तु के आघात से उत्पन्न ध्वनि ।

पिट^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पिटक। पिटारा। सडूक। २ गृह। मकान। ३. छत। छाजन [को०]।

पिटक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पिटारा। २ फुडिया। फुसी। ३ श्राभूपण जो इद्रव्वजा मे लगाया जाता है। ४. घान्यकोष्ठ। घान्यागार। कुसूल (को०)। ५. किसी ग्रथ का एक भाग। ग्रथविभाग। खड। हिस्सा। जैसे, त्रिपिटक=तीन भागो-वाला (बौद्ध) ग्रथ।

पिटका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. पिटारी। २ फुसी।

पिटना^१—क्रि० प्र० [हि० पीटना] १ मार खाना। ठोका जाना। आघात सहना। उ०—पाछे पर न कुसग के पदमाकर यहि डीठ। पर घन खात कुपेट ज्यो पिटत विचारी पीठ।—पद्माकर (शब्द०)। २ पराजित होता। हार जाना। ३ वजना। आघात पाकर आवाज करना। जैसे, डौडी पिटना, ताली पिटना आदि।

पिटना—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पीटना] वह श्रौजार जिससे किसी वस्तु को विशेषतः चूने आदि की वनी हुई छत को राज लोग पीटते हैं। पीटने का श्रौजार। थापी।

पिटपिट—सञ्ज्ञा स्त्री० [अनु०] पिट पिट शब्द। किसी छोटी वस्तु के गिरने का या हलके आघात का शब्द।

पिटपिटाना—क्रि० प्र० [अनु०] असमर्थता आदि के कारण हाथ पैर पटककर रह जाना। विवश होकर रह जाना।

पिटमान—सञ्ज्ञा पुं० [?] पाल। (लश०)।

पिटरिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पिटारा + ईया (प्रत्य०)] भाँपी। दे० 'पिटारी'।

पिटवाँ—वि० [हि० पीटना] पीटकर बनाया हुआ।

पिटवाना—क्रि० सं० [हि० पीटना] १ किसी के पीटने या मारे जाने का कारण होना। अन्य के द्वारा किसी पर आघात कराना। ठोकवाना। कुटवाना। मार खिलवाना। २ वजवाना। जैसे, डौडी पिटवाना। ३ पीटने का काम दूसरे से कराना। दूसरे को पीटने में प्रवृत्त करना।

पिटस—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पिटृस'। उ०—मेरे नरगिरी श्रीखोवाले वेटा दुल्हन लाश पर खडी है आखिरी दीदार तो दो। हम फिकरे पर पिटस पड गई।—फिसाना०, भा० ३, पृ० ६१३।

पिटई—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पीटना] १ पीटने का काम या भाव। जैसे, छत की पिटई। २. आघात। प्रहार। मार। मारकूट। ३ पीटने की मजदूरी। ४ मारने का पुरस्कार। ५ पिटवाने की मजदूरी।

पिटक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पिटारा। सडूक। बक्स [को०]।

पिटापिट—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पीटना] मारपीट। मारकूट। किसी वस्तु को कुछ समय तक बराबर पीटना। जैसे,—वहाँ खूब पिटापिट मची रही।

पिटारा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिटक] [स्त्री० पिटारी] १ बाँस, वेत, ६-३५

मूँज आदि के नरम छिलको से बना हुआ एक प्रकार का बटा सपुट या ढकनेदार पात्र। भाँपा।

विशेष—इसका घेरा गोल, तल बिल्कुल चिपटा और ढकना डालुवाँ गोल अथवा बीच में उठा हुआ होता है। पहले पिटारे का व्यवहार बहुत था, पर तरह तरह के द्रवों के प्रचार के कारण इसका व्यवहार घटता जाता है। बाँस आदि की अपेक्षा मूँज और वेत का पिटारा अधिक मजबूत होता है। मजबूती के लिये शककर इसको चमड़े या फिमी मोटे कपड़े से मढवा देते हैं। आजकल लोहे के पतले गोल तारों से भी पिटारे बनते हैं।

२ बडा गुठ्वारा।

पिटारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पिटारा का स्त्री और शब्दा०] १ छोटा पिटारा। भाँपी। २ पान रखने का बरतन। पानदान।

मुहा०—पिटारी का खर्च = (१) वह धन जो स्त्रियों के पान के खर्च के लिये दिया जाय। पानदान का खर्च। (२) वह धन जो किसी स्त्री को व्यभिचार से प्राप्त हो। व्यभिचार की कमाई।

पिटिक्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पिटारों का समूह [को०]।

पिटौर—सञ्ज्ञा पुं० [हि० √ पीट + और (प्रत्य०)] वह डडा या लाठी जिससे फसल की वाली आदि को पीटकर उसके दाने निकालते हैं। पिटना।

पिटृक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दौत की मील।

पिटृन—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पीटना] रोने पीटने की क्रिया या भाव। पिटृस।

क्रि० प्र०—पढ़ना।

पिटृस—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पीटना + स (प्रत्य०)] शोक या दुःख से छाती पीटने की क्रिया। (स्त्रि०)।

मुहा०—पिटृस पढ़ना या मचना = शोक या दुःख में छाती पीटा जाना। रोना घोना होना। हाय हाय मचना। जैसे,—यह खबर सुनते ही वहाँ पिटृस पड गई।

पिटृ—वि० [हि० पिटृ + ऊ (प्रत्य०)] जो प्रायः पीटा जाय। मर खाने का अभ्यस्त।

पिटृ^(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पीठ'। उ०—तजे विन प्रायुः पिटृ दिखाय।—ह० रासो, पृ० ८।

पिटृ—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पीठी'।

पिटृ—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पिटृ + ऊ (प्रत्य०)] १ पीछे चलने वाला। पिछलगा। अनुयायी। २ सहायक। मददगार। पुण्डरीपक। हिमायती। ३ किसी खिलाडी का वह साथी जिसकी वारी में वह स्वयं खेलता है।

विशेष—जब दोनों पक्षों के खिलाडियों की संख्या बराबर पट होती तब न्यूनसंख्यक पक्ष के एक दो खिलाडी अपने साथ साथ एक एक पिटृ मान लेते हैं और अपनी वारी से

पुत्रों पर दूसरी बार उस पिठ को वारी लेकर खेलते हैं।
४. नैन में नाच रहनेवाला। ५. प्रधानकरण करनेवाला।
६. त्रिना समझे वृत्ते किसी का अनुयायी होनेवाला। ६. किसी
की हर एक बात का समर्थन करनेवाला। हाँ में हाँ मिलाने-
वाना। तुशामदी।

पिठमिला—पुं० [हि० पीठ+मिलना] भंगरखे या कोट आदि
का वह नाग जो पीठ पर रहता है। पीठ।

पिठर—सज्ञा पुं० [सं०] १. गोया। मुस्तक। २. मयानी। मयनदह।
३. घाली। ४. एक प्रकार का घर। ५. एक अग्नि। ६. एक
दानव।

पिठरक—सज्ञा पुं० [सं०] १. घाली। पात्र। वर्तन। २. एक नाग
का नाम।

पिठरकरुपात्त—सज्ञा पुं० [सं०] दूटे हुए वरतन का टुकड़ा [को०]।
पिठरपाक—सज्ञा पुं० [सं०] भिन्न भिन्न परमाणुओं के गुणों में
तेज के मयोग में केरफार होना। जैसे, घड़े का पककर
लाल होना।

पिठरिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] घाली।

पिठरी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. थाली। पात्र। २. राजमुकुट।

पिठवन—सज्ञा स्त्री० [सं० पृष्ठपर्याय] एक प्रसिद्ध लता जो औषध
के काम में आती है। पिठोनी। पृष्ठपर्याय।

विशेष—यह पश्चिम और बंगाल में अधिकता से पाई जाती है।
परंतु दक्षिण में नहीं दिखाई पड़ती। इसके पत्ते छोटे गोल
गोल होते हैं और एक एक डंडी में तीन तीन लगते हैं।
फूल गोल और सफेद होते हैं। जठर काम मिलने के कारण
इसकी लता ही प्रायः काम में लाई जाती है। वैद्यक में इसको
पट्ट, तिक्त, उष्ण, मधुर, क्षारक, त्रिदोषनाशक, वीर्यजनक,
तथा दाह, ज्वर, श्वास, तृषा, रक्तासिसार, वमन, वातरक्त,
प्लेग और उन्माद आदि का नाशक लिखा है।

पर्याय—ककण्डु। कदला। कलशो। घ्याप्टुक। मेखला।
मोप्टुक। पच्छिका। चक्रकुल्या। चर्कपर्याय। तन्वी।
धमनी। दोर्घपर्याय। पृथक्पर्याय। पृथिनपर्याय। चित्रपर्याय।
त्रिपर्याय। मिहसुच्छी। गुहा। पिठपर्याय। लांगुली। श्याल-
गुंता। मेखला। लांगुलिका। ब्रह्मपर्याय। सिहसुष्पी।
अत्रिपर्याय। विष्णुपर्याय। अतिगुहा। घटिला।

पिठो—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पिट्ठी'।

पिठोतम—सज्ञा पुं० [सं०] एक ऋषि।

पिठोनी—सज्ञा स्त्री० [सं० पृष्ठपर्याय, हि० पिठवन्] दे० 'पिठवन'।

पिठोरो—सज्ञा स्त्री० [हि० पिठ्ठी+औरी (प्रत्य०)] १. पीठी की
वनी हुई राने की कोई चीज, जैसे, बरी पकीरी। २. गुंघे
हुए घाटे का वह छोटा पेड़ा जो पकती हुई दाल में छोड़
दिया जाता है और उसी में उबलकर पक जाता है। दलफरा।

पिट्ठु—सज्ञा स्त्री० [सं० पृष्ठ, प्रा० पिष्ठ, हि० पीठ] दे० 'पीठ'।
उ०—ममान निमानह् पिट्ठ दिठ्ठ।—कीर्ति०, पृ० ११२।

पिट्ठक—सज्ञा पुं० [सं० पिट्ठक] छोटा फोटा। फुत्ती। फोटक।

पिट्ठका—सज्ञा स्त्री० [सं० पिट्ठका] दे० 'पिट्ठक'।

पिट्ठकना—क्रि० अ० [हि० पिनकना] १. आवेश में आना। २.
कुंभलाना।

पिट्ठकाना—क्रि० स० [हि० पिट्ठकना] चिढ़ाना। परेशान करना।
कुंभलाहट पैदा करना।

पिट्ठकिया—सज्ञा स्त्री० [हि० पिच्छुकिया] एक प्रकार का पकवान
गुम्फिया।

पिट्ठकी—सज्ञा स्त्री० [सं० पिट्ठक] १. दे० 'पिट्ठक'। २. दे०
'पेंडुकी'।

पिट्ठगना—सज्ञा पुं० [प्रा० पर्गानह् परगनह्, हि० परगना] दे०
'परगना'। उ०—वावन पिठगना तो रायसल नै साहि दीना।
—शिखर०, पृ० २०२।

पिट्ठभू—सज्ञा स्त्री० [सं० पियड + भूमि] युद्धभूमि। रणक्षेत्र।
उ०—पिठभू भीम पछाडियो, खुरम गयी कर खेह।—बाँकी-
दास ग्र०, भा० १, पृ० ७३।

पिट्ठवार—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिपदा, हि० पदिवा] दे० 'प्रतिपदा',
उ०—असुराँ सिर आयो घली, पिठवारै परभात।—रा० रू०,
पृ० २७६।

पिट्ठिका—सज्ञा स्त्री० [सं० पिट्ठका] दे० 'पिट्ठका'। उ०—भोज और
सुश्रुत के मत से नौ पिट्ठिका हैं और चरक के मत से सात
ही।—माधव०, पृ० १८७।

पिट्ठिया—सज्ञा स्त्री० [सं० पिष्ठक या पिष्ठिका अथवा हि० पेडा]
१. चावल का गुंघा हुआ घाटा जो लवोतरे पेड़े के आकार
का बनाकर अदहन में छोड़ दिया जाता है और उबल जाने
पर खाया जाता है। २. लवोतरे और गोल आकार के सत्तू
की बड़ी हुई पिट्ठिका।

पिट्ठरी—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पिट्ठरी'। उ०—जाँघें भर आईं
और पिट्ठरी धरथराने लगी।—श्यामा०, पृ० १२१।

पिट्ठई—सज्ञा स्त्री० [हि० पीड़ा + अई (प्रत्य०)] १. छोटा पीड़ा
या पाटा। २. किसी छोटे यंत्र का आधार जो छोटे पीड़े के
समान हो। वह ढाँचा जिसपर कोई छोटा यंत्र रखा रहे,
जैसे, रहँट का।

पिट्ठिपानी—सज्ञा स्त्री० [हि० पीड़ा + पानी] आगत को धैठने के
लिये पाटा और हाथ मुँह धोने के लिये जल। पीड़ा और
पानी। उ०—के तो थिराह कर कुल जानी। विनु परिचय
नहि दिव पिठिपानी।—विद्यापति, पृ० ३६३।

पिट्ठो—सज्ञा स्त्री० [सं० पीठिका] १. मच्चिया। उ०—कोऊ कहै
बलि पाँवरी लावो। बलि बलि मोहि पिठ्ठी पकरावो।—नद
ग्र०, पृ० २१५। २. दे० 'पीठ्ठी'।

पिण्णु—अव्य० [सं० पुन ?] १. परतु। विंतु। लेकिन। उ०—
पुण्णुं मुष अखरोट पिण्णु, अँ दश दोम असाध।—रघु० रू०,
पृ० १३। २. भी। उ०—महे पिण्णु जास्यो नरवरह, एकण
साय खडाँह।—ढोला०, पृ० ६२८।

पिएया—सज्ञा स्त्री० [सं०] मालकंगनी।

पिएयक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ तिल या सरसो की खली । २ हींग । ३ शिलाजीत । ४ शिलारस । सिंहलक । ५ केशर ।

पितंबर (पु) —सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीताम्बर] दे० 'पीतावर' । उ०—(क) श्रोत्रि पितंबर लै लकुटी वन गोवन ग्वारनि सग फिरौगी । रसखान०, पृ० १३ । (ख) चोलिया पहिरि घनि चली है गवनवाँ, सेत पितंबर लागे हिंडोल ।—घरनी० श०, पृ० ७० ।

पितपापडा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीतपर्पट] एक झाड या क्षुर जिसका उपयोग श्रौषध के रूप में होता है ।

विशेष—इसे दवनपापडा भी कहते हैं । इसके दो भेद होते हैं—एक में लाल फूल लगते हैं, दूसरे में नीले । लाल फूल-वाला अधिक गुणदायक माना जाता है । वैद्यक में इसको शीतल, कडवा, मलरोधक, वात को कुपित करनेवाला, हलका तथा भ्रम, मद, प्रमेह, तृषा, पित्त, कफ, ज्वर, रक्त-विकार, अर्श्वि, दाह, ग्लानि और रक्तपित्त को नष्ट करने-वाला माना है ।

पर्या०—पर्पट । वरतिक्त । पांशुपर्याय । कवचनामक । त्रियष्टि । तिक्त । चरक । वरक । अरक । रेणु । तृणारि । शीत । शीतप्रिय । पांशु । कलपांग । वर्मकटक । कृष्णशाख । प्रगध । सुतिक्त । रक्तपुष्पक । पित्तारि । कटुपत्र । नक्र । शीतवल्बल ।

पितर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पितृ, पितर] मृत पूर्वपुरुष । मरे हुए पुरुषे जिनके नाम पर श्राद्ध या जलदान किया जाता है । विशेष—दे० 'पितृ'—२ । उ०—देव पितर सब तुमहि गोसाईं । राखहुँ पलक नयन की नाईं ।—मानस, २।५७ ।

पितरपक्षा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पितृपक्ष] दे० 'पितृपक्ष' ।

पितरपच्छा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पितृपक्ष] दे० 'पितृपक्ष' । उ०—पितरपच्छ के दिन आ गए थे ।—नई०, पृ० १०२ ।

पितरपति—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पितृ + सं० पति] यमराज ।

पितराईर्धा—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पीतल + गध] किसी खाद्य वस्तु के स्वाद और गध में वह विकार जो पीतल के बरतन में अधिक समय तक रखे रहने से उत्पन्न हो जाय । पीतल का कसाव ।

पितराईर्धा—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पीतल + आईर्धा (प्रत्य०)] पीतल का कसाव । पीतल का स्वाद । पितराईर्ध । जैसे,—दही में पितराईर्धा उतर आई है ।

पितराना—क्रि० अ० [हिं० पीतर से नाम०] पितराईर्ध आना । पीतल का स्वाद आ जाना । कसाव पैदा होना ।

पितरिहा—वि० [हिं० पीतल + हा (प्रत्य०)] पीतल का । पीतल का बना हुआ ।

पितरिहा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पीतल] पीतल का घडा ।

पितल (पु) —सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पीतल' । उ०—पारस परसि पितल होय सोनू ।—नद० अ०, पृ० १४३ ।

पितलाना—क्रि० अ० [हिं० पीतल से नाम०] दे० 'पितराना' ।

पितससुर—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पितिया ससुर] दे० 'पितिया ससुर' ।

पितांबर—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पीतावर' । उ०—और श्री ठाकुर

जी ने अपने पितावर उढायो ।—दो सौ वावन०, भा० २, पृ० ७८ ।

पिता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पितृ का कर्ता कारक] जन्म देकर पालनपोषण करनेवाला । बाप । जनक ।

पर्या०—तात । जनक । प्रसविता । वसा । जनयिता । गुरु । जन्य । जनित । बीजी ।

पितामह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० पितामही] १. पिता का पिता । दादा । २. भीष्म । ३. ब्रह्मा । ४. शिव । ५. एक ऋषि जिन्होंने एक धर्मशास्त्र बनाया था ।

पित्तिजिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुत्रजीवक] इगुदी की तरह का एक प्रकार का पेड । पित्तोजिया । जियापोता ।

विशेष—इसके पत्ते और फल भी इगुदी के पत्ते और फलो से मिलते जुलते होते हैं । इसके बीजों की रुद्राक्ष की तरह, माला बनती है । वैद्यक में इसे शीतल, वीर्यवर्धक, कफ-कारक, गर्भ और जीवदायक, नेत्रों को हितकारी, पित्त को शांत करनेवाला तथा दाह और तृषा को हरनेवाला कहा जाता है ।

पितिया—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पितृव्य] [स्त्री० पितियानो] चचा । चाचा । बाप का भाई ।

पितियानो—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पितिया + नी (प्रत्य०)] चाचा की स्त्री । चची । चाची ।

पितियाससुर—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पितिया + ससुर] चचिया ससुर । ससुर का भाई । स्त्री या पति का चाचा ।

पितियासासु—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पितिया + सास] चचिया सास ससुर के भाई की स्त्री । स्त्री या पति की चाची ।

पितु (पु) —सञ्ज्ञा पुं० [सं० पितृ] दे० 'पिता' ।

पितृ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. दे० 'पिता' । २. किसी व्यक्ति के मू. बाप दादा परदादा आदि । ३. किसी व्यक्ति का ऐसा पु. पूर्वपुरुष जिसका प्रेतत्व छूट चुका हो ।

विशेष—प्रेत कर्म या अत्येष्टि कर्म सबधी पुस्तकों में ५ गया है कि मरण और शवदाह के अनंतर मृत व्यक्ति का आतिवाहिक शरीर मिलता है । इसके उपरांत जब ७५ पुत्रादि उसके निमित्त दशगात्र का पिंडदान करते हैं त. दशपिंडो से क्रमशः उसके शरीर के दश अंग गठित होक उसको एक नया शरीर प्राप्त होता है । इस देह में उस. प्रेत सजा होती है । षोडश श्राद्ध और सर्पिंडन के ६० क्रमशः उसका यह शरीर भी छूट जाता है और वह १. नया भोगदेह प्राप्त कर अपने बाप दादा और परदादा आ. के साथ पितृलोक का निवासी बनता है अथवा कर्मसंस्क. अनुसार स्वर्ग नरक आदि में सुखदुःखादि भोगता है । २. अवस्था में उसको पितृ कहते हैं । जबतक प्रेतभाव च. रहता है तब तक मृत व्यक्ति पितृ सजा पाने का अधिक. नहीं होता । इसी से सर्पिंडीकरण के पहले जहाँ, आवश्यकता पड़ती है प्रेत नाम से ही उसका संबोधन जाता है । पितरो अर्थात् प्रेतत्व से छूटे हुए पूर्वजों की

के लिये श्राद्ध, तर्पण आदि करना पुत्रादि का कर्तव्य माना गया है। 'श्राद्ध'।

एक प्रजा के देवता जो नव जीवों के आदिपूर्वज माने गए हैं।

विशेष—मनुस्मृति में लिखा है कि ऋषियों से पितर, पितरो से देवता और देवताओं से सपूर्ण स्वावर जगत् जगत् की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा के पुत्र मनु हुए। मनु के मरीचि, अग्नि आदि पुत्रों की पुत्रपरंपरा ही देवता, दानव, दैत्य, मनुष्य आदि के मूल पुरुष या पितर हैं। विराट्पुत्र नोमद्गण साध्यगण के, अग्निपुत्र वहिषद्गण दैत्य, दानव, यक्ष, गधर्व, नर्प, राक्षस, सुपर्ण, किन्नर और मनुष्यों के, अग्निपुत्र नोमपा आह्वणों के, अग्नि के पुत्र हविर्भुज अग्नि के, पुत्रस्य के पुत्र आज्यपा वैश्यों के और वशिष्ठ-पुत्र रानिन शूद्रों के पितर हैं। ये सब मुख्य पितर हैं।—अन्य पुत्र पौत्रादि भी अपने अपने वर्गों के पितर हैं। द्विजों के लिये देवताओं से पितृकार्य का अधिक महत्व है। पितरों के निमित्त जलदान मात्र करने से भी अक्षय सुख मिलता है (मनु० ३।१६४—२०३)।

पितृश्रद्धा—सजा पुं० [सं०] धर्मशास्त्रानुसार मनुष्य के तीन श्रद्धाओं में से एक जिनको लेकर वह जन्म ग्रहण करता है। पुत्र उत्पन्न करने से इस श्रद्धा से मुक्ति होती है।

पितृक—वि० [सं०] १ पितृसंबन्धी। पिता का। पितृक। २ पितृदत्त। पिता का दिया हुआ।

पितृकर्म—सजा पुं० [सं० पितृकर्मन्] वह कर्म जो पितरों के उद्देश्य से किया जाय। श्राद्ध तर्पण आदि कर्म।

पितृकर्मणः—सजा पुं० [सं०] श्राद्धादि कर्म।

पितृकर्मणः—वि० पिता के समान। पितृतुल्य [को०]।

पितृकानन—सजा पुं० [सं०] शमशान।

पितृकार्य—सजा पुं० [सं०] पितृकर्म।

पितृकुल—सजा पुं० [सं०] बाप, दादा, परदादा या उनके भाई बंधुओं आदि का कुल। बाप की ओर के सबंधी। पिता के घर के लोग।

पितृकुल्या—सजा स्त्री० [सं०] १ महाभारत में वर्णित एक स्थान। २ एक पवित्र नदी जो मलय पर्वत से निकली है [को०]।

पितृकुल्य—सजा पुं० [सं०] पितृकर्म। श्राद्धादि।

पितृक्रिया—सजा पुं० [सं०] पितृकर्म। श्राद्धादि कार्य।

पितृगण—सजा पुं० [सं०] १ मनुष्य मरीचि आदि के पुत्र। विशेष—दे० 'पितृ'—४। २ समग्र पूर्वपुरुष। पितर लोग।

पितृगणा—सजा पुं० [सं०] दुर्गा का एक नाम [को०]।

पितृगामा—सजा स्त्री० [सं०] पितरों द्वारा पठित कुछ विशेष श्लोक का नाम। भिन्न भिन्न पुराणों के मन में ये गायार्थ भिन्न भिन्न हैं।

पितृगामी—वि० [सं० पितृगामिन्] पिता से संबंधित [को०]।

पितृगीता—सजा स्त्री० [सं०] एक विशेष गीता जिसमें पितरों का माहात्म्य दिया गया है। यह वाराह पुराण के अंतर्गत है।

पितृगृह—सजा पुं० [सं०] १ बाप का घर। नैहर। पीहर। मायका। (स्त्रियों के लिये)। २. शमशान।

पितृग्रह—सजा पुं० [सं०] सुश्रुत के अनुसार कार्तिकेय के उन अनुचरों में से एक जो कुछ रोगों के उत्पादक माने गए हैं।

पितृघात—सजा पुं० [सं०] [वि० पितृघातन, पितृघाती, पितृघ्न] बाप को मार डालना। पिता की हत्या करना।

पितृघातक—वि० [सं०] दे० 'पितृघाती'।

पितृघाती—वि० [सं० पितृघातिन] पिता का वध करनेवाला [को०]।

पितृघ्न—वि० [सं०] पिता का वध करनेवाला।

पितृचरण—सजा पुं० [सं० पितृ + चरण] पिता के चरण। पिता। पिता के लिये आदरार्थक प्रयोग।

पितृतर्पण—सजा पुं० [सं०] १ पितरों के उद्देश्य से किया जानेवाला जलदान। विशेष—१० 'तर्पण'। २ पितृतीर्थ। ३ तिल। ४ श्राद्ध में दी जानेवाली वस्तुएँ [को०]।

पितृतिथि—सजा स्त्री० [सं०] श्रमावास्या।

विशेष—कहते हैं, पितरों की श्रमावास्या बहुत प्रिय है और श्राद्ध आदि कार्य इसी तिथि को करने चाहिए, और इसी लिये इसका नाम पितृतिथि है।

पितृतीर्थ—सजा पुं० [सं०] १ गया। गया तीर्थ। २. मत्स्य-पुराण के अनुसार गया, वाराणसी, प्रयाग, विमलेश्वर आदि २२२ तीर्थ। ३ अंगूठे और तर्जनी के बीच का भाग जिसका उपयोग पितृकर्म में दान किया हुआ पिंड अथवा संकल्प का जल छोड़ने में होता है।

पितृत्व—सजा पुं० [सं०] पिता या पितृ होने का भाव। पितृ या पिता होने की स्थिति।

पितृदत्त—वि० [सं०] पिता द्वारा प्रदत्त (जैसे, पिता द्वारा स्त्री को मिलनेवाली संपत्ति)।

पितृदान, पितृदानक—सजा पुं० [सं०] पितरों के उद्देश्य से किया जानेवाला दान। वह दान जो मृत पूर्वजों के उद्देश्य से किया जाय।

पितृदाय—सजा पुं० [सं०] पिता से प्राप्त धन या संपत्ति। वपीती।

पितृदिन—सजा पुं० [सं०] श्रमावस्या।

पितृदेव—सजा पुं० [सं०] पितरों के अधिष्ठाता देवता। अग्नि-पितादि पितर गण। दे० 'पितृ'—४।

पितृदेवता—वि० [सं०] पितृदेवता सबंधी। पितरों की प्रसन्नता के लिये किया जानेवाला (यज्ञ आदि)। (यज्ञ का अनुष्ठान) जो पितृदेवों की प्रसन्नता के लिये किया जाय।

पितृदेवता—सजा पुं० मघा नक्षत्र [को०]।

पितृदेवत्व—वि० [सं०] 'पितृदेवता'।

पितृदेवता—सजा पुं० [सं०] १ मघा नक्षत्र। २ मम।

पितृदेवत^२—वि० [सं०] दे० 'पितृदेवत' [को०] ।

पितृदेवत्व^१—वि० [म०] पितृदेवत ।

पितृदेवत्व^२—सज्ञा पुं० अग्रहन, पूस, माघ और फागुन की कृष्ण अष्टमी (अष्टका) तिथियों को किया जानेवाला पितृकृत्य [को०] ।

पितृद्रव्य—सज्ञा पुं० [सं०] पैतृक संपत्ति ।

पितृनाथ—सज्ञा पुं० [सं०] १ यमराज । २. अर्थमा नामक पितर जो सब पितरों में श्रेष्ठ माने जाते हैं ।

पितृपक्ष—सज्ञा पुं० [सं०] १ कुम्भार या आश्विन का कृष्ण पक्ष । कुम्भार की कृष्ण प्रतिपदा से अमावास्या का समय ।

विशेष—यह पक्ष पितरों को अतिशय प्रिय माना गया है । कहा जाता है कि इसमें उनके निमित्त श्राद्ध आदि करने से वे अत्यंत सतुष्ट होते हैं । इसी से इसका नाम पितृपक्ष हुआ है । प्रतिपदा से अमावास्या तक नित्य उनके निमित्त तिल-तर्पण और अमावास्या को पार्वणविधि से तीन पीढी ऊपर तक के मृत पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है । भिन्न भिन्न पूर्वजों की मृत्युतिथियों को भी उनके निमित्त इस पक्ष में श्राद्ध करते हैं । पर यह श्राद्ध एकोद्दिष्ट न होकर त्रैपुरुषिक ही होता है । इन पंद्रह दिनों में आहार और विहार में प्रायः अशौच के नियमों का सा पालन किया जाता है ।

२ पिता की ओर के लोग । पिता के सबधी । पितृकुल ।

पितृपति—सज्ञा पुं० [सं०] यम ।

पितृपद—सज्ञा पुं० [सं०] १. पितरों का देश । पितरों का लोक । २ पितर होने की स्थिति या भाव । पितृत्व ।

पितृपति—सज्ञा पुं० [सं० पितृपितृ] पितरों के पिता, ब्रह्मा ।

पितृपुरुष—सज्ञा पुं० [सं० पितृ + पुरुष] पूर्वज ।

पितृपैतामह—वि० [सं०] जिसका सबध बाप दादो से हो । बाप दादो का ।

पितृप्रसू—सज्ञा स्त्री [सं०] १. दादी । आजी बाप की माँ । पिता-माही । २. सध्या ।

विशेष—पितृकृत्य में सध्यागामिनी अथवा सूर्यास्त समय में वर्तमान तिथि ही ग्रहण की जाती है, तथा प्रैतकृत्य में सध्या माता के समान उपकार करनेवाली मानी गई है । ये ही दो उसके पितृप्रसू सज्ञा प्राप्त करने के कारण हैं ।

पितृप्राप्त—वि० [सं०] १ पिता से प्राप्त । २ पैतृक धन के रूप में प्राप्त [को०] ।

पितृप्रिय—सज्ञा पुं० [सं०] १. भंगरा । भंगरेया । भृगराज । २ अग्रस्त का वृक्ष ।

पितृबंधु—सज्ञा पुं० [सं० पितृबन्धु] १ पिता के पक्ष से होनेवाला सबध । २ पितामह की वहिन के पुत्र, पितामही की वहिन के पुत्र और पिता के मामा के पुत्र [को०] ।

पितृभक्त—वि० [सं०] पिता की भक्तिभाव से सेवा करने-वाला [को०] ।

पितृभक्ति—सज्ञा स्त्री [सं०] १ पिता की भक्ति । पिता में पूज्य बुद्धि । २ पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य ।

पितृभोजन—सज्ञा पुं० [म०] १ उरद । माप । २. पितरों की भोज्य वस्तु ।

पितृभ्राता—सज्ञा पुं० [सं० पितृभ्रातृ] चाचा । चचा [को०] ।

पितृमंदिर—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पितृगृह' [को०] ।

पितृमात्रार्थ—सज्ञा पुं० [म०] वह व्यक्ति जो माता पिता के लिये भीख माँगे [को०] ।

पितृमेघ—सज्ञा पुं० [सं०] वैदिक काल के अत्येमेष्ट कर्म का एक भेद जिसमें अग्निदान और दक्षपिंडदान आदि सम्मिलित होते थे और जो श्राद्ध से भिन्न होता था ।

पितृयज्ञ—सज्ञा पुं० [म०] तर्पणादि । पितृतर्पण ।

पितृयाण—सज्ञा पुं० [म०] मृत्यु के अनंतर जीव के जाने का वह मार्ग जिससे वह चंद्रमा को प्राप्त होता है । वह मार्ग जिससे जाकर मृत व्यक्ति को निश्चित काल तक स्वर्ग आदि में सुख भोगकर पुनः ससार में आना पड़ता है ।

विशेष—ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयास न कर अनेक प्रकार के अग्निहोत्र आदि विस्तृत पुण्यकर्म करनेवाले व्यक्ति जिस मार्ग से ऊपर के लोकों को जाते हैं वही पितृयाण है । इसमें से जाते हुए वे पहले धूमाभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं । फिर राशि, फिर कृष्ण पक्ष, फिर दक्षिणायन परमास में अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं । इसके पीछे पितृलोक और वहाँ से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं । अनंतर वहाँ पतित होकर ससार में नर्मसंस्कार के अनुसार किसी ५ योनि में जन्म ग्रहण करते हैं । देवयान अर्थात् ब्रह्मज्ञानोपार्जको के मार्ग से यह उलटा है । दे० 'देवयान' ।

पितृयान—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पितृयाण' ।

पितृराज—सज्ञा पुं० [सं०] यम ।

पितृरिष्ट—सज्ञा पुं० [सं०] फलित ज्योतिष के अनुसार वह यो-जिसमें बालक का जन्म होने से पिता की मृत्यु होती है ।

विशेष—भिन्न भिन्न आचार्यों के मत से भिन्न भिन्न अय-में ऐसे योग पड़ते हैं ।

पितृरूप—सज्ञा पुं० [सं०] शिव ।

विशेष—शिव संपूर्ण प्राणियों के पिता माने गए हैं इसी [उन्हे पितृरूप कहा जाता है ।

पितृलोक—सज्ञा पुं० [सं०] पितरों का लोक । वह स्थान जहाँ पितृगण रहते हैं ।

विशेष—छादोग्योपनिषद् में पितृयाण का वर्णन करते हैं पितृलोक को चंद्रमा से ऊपर कहा गया है । अथर्ववेद जो उदन्वती, पीलुमती और प्रद्यो ये तीन वक्षाएँ धूलोक कही गई हैं उनमें चंद्रमा प्रथम वक्षा में और पितृलोक प्रद्यो तीसरी वक्षा में कहा गया है ।

पितृवंश—सज्ञा पुं० [सं०] पिता का कुल । पितृकुल [को०] ।

पितृवन—उत्पत्ति पुं० [सं०] १ श्मशान । २. मृत्यु । मोत । मरणा (पितृ) ।

पितृवनेचर—उत्पत्ति पुं० [सं०] १ श्मशान में वसनेवाले, शिव । २ मृत प्रेत, दैत्य आदि (को०) ।

पितृवर्ती—उत्पत्ति पुं० [सं० पितृवर्तिन्] पुराणानुसार एक राजा का नाम ।

पितृवसति—उत्पत्ति पुं० [सं०] श्मशान ।

पितृवित्त—उत्पत्ति पुं० [सं०] बाप दादो की संपत्ति । पैतृक धन । मोन्सी जायदाद ।

पितृविसर्जन—उत्पत्ति पुं० [सं० पितृ+विसर्जन] पितरो की विदाई ।

विशेष—पितृविनर्जन का कृत्य आश्विन मास की श्रमावास्या का होता है ।

पितृवेरम—उत्पत्ति पुं० [सं० पितृवेश्मन्] दे० 'पितृगृह' (को०) ।

पितृव्य—उत्पत्ति पुं० [सं०] बाप का भाई । चाचा । चाचा । काका ।

पितृव्रत—उत्पत्ति पुं० [सं०] १ पितरों की पूजा करनेवाला । २ दे० 'पितृकर्म' (को०) ।

पितृश्राद्ध—उत्पत्ति पुं० [सं०] पिता या पितरों का श्राद्ध (को०) ।

पितृपद्—उत्पत्ति पुं० [सं०] बाप का घर । पितृगृह । मैका । पीहर (स्त्रियों के लिये) ।

पितृपूदन—उत्पत्ति पुं० [सं०] कुश ।

पितृप्यसा—उत्पत्ति स्त्री० [सं० पितृप्यसू] बाप की वहन । वृषा ।

पितृप्यस्त्रीय—उत्पत्ति पुं० [सं०] वृषा का वेरा । फुफेरा भाई ।

पितृसन्निभ—पितृ [सं० पितृसन्निभ] पिता के समान आदरणीय । पिता के तुल्य (को०) ।

पितृसज्ञ—उत्पत्ति पुं० [सं० पितृसञ्जन्] श्मशान (को०) ।

पितृसत्ताक—पितृ [सं० पितृ+सत्ता+क (प्रत्य०)] जहाँ पिता की सत्ता प्रधान हो । जहाँ पिता के अधिकार की प्रधानता हो । उ०—यह बिलकुल संभव है कि अफगानिस्तान में रहते यक्त आर्यों का समाज पितृसत्ताक रहा हो ।—भा० ६० २०, पृ० ४४ ।

पितृसत्तात्मक—पितृ [सं० पितृ+सत्तात्मक] दे० पितृसत्ताक । उ०—मातृसत्ता की जगह पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने ले ली । प्रा० भा० १० (भू०), पृ० 'स' ।

पितृसू—उत्पत्ति स्त्री० [सं०] १ दादी । पितामही । २ सध्या ।

पितृसूक्त—उत्पत्ति पुं० [सं०] एक वैदिक मन्त्रसूह ।

पितृस्थान—उत्पत्ति पुं० [सं०] १. वह जो पिता के स्थान पर हो । प्रतिभायक । २ जो पितृतुल्य हो । जो पितृवत् हो ।

पितृस्थानोय—उत्पत्ति पुं० [सं०] दे० 'पितृस्थान' ।

पितृस्वसा—उत्पत्ति स्त्री० [सं०] वृषा (को०) ।

पितृस्वसीय—उत्पत्ति पुं० [सं०] फुफेरा भाई (को०) ।

पितृहता—उत्पत्ति पुं० [सं० पितृहन्] दे० 'पितृहा' ।

पितृहत्या—उत्पत्ति स्त्री० [सं०] दे० 'पितृघात' ।

पितृहा—उत्पत्ति पुं० [सं० पितृहन्] पिता की हत्या करनेवाला । पितृहता । पितृघाती ।

पितृहू—उत्पत्ति पुं० [सं०] १ पितरो को देने योग्य वस्तु । २ दाहिना कान ।

पितृहूय—उत्पत्ति पुं० [सं०] पितरो का आह्वान करना । पितरो को बुलाना ।

पितृजिया—उत्पत्ति स्त्री० [सं० पुत्रजीवक] पुत्रजीवक नामक वृक्ष । पितृ दे० 'पितृजिया' ।

पित्त—उत्पत्ति पुं० [सं०] एक तरल पदार्थ जो शरीर के अंतर्गत यकृत में बनता है । इसका रंग नीलापन लिए पीला और स्वाद कड़वा होता है । आयुर्वेद शास्त्र के त्रिदोषो (कफ, वात, पित्त) में एक ।

विशेष—इसकी बनावट में कई प्रकार के लक्षण और दो प्रकार के रंग पाए गए हैं । यह यकृत के कोषो से रसकर दो विशेष नालियों द्वारा पक्वाणय में आकर आहार रस से मिलता है और वसा या चिकनाई के पाचन में सहायक होता है । यदि पक्वाणय में भोजन नहीं रहता तो यह लौटकर फिर यकृत को चला जाता है और पित्ताणय या पित्ता नामक उससे सलग्न एक विशेष अवयव में एकत्र होता रहता है । वसा या स्नेहतत्व को पचाने के लिये पित्त का उससे यथेष्ट मात्रा में मिलना अतीव आवश्यक है । यदि इसकी कमी हो तो वह बिना पचे ही विष्ठा द्वारा शरीर से बाहर हो जाता है । इसके अतिरिक्त इसके और भी कई कार्य हैं, जैसे आम्राणय से पक्वाणय में आए हुए आहार रस की खटाई दूर करना, अंतो में भोजन को सड़ने न देना, शरीर का तापमान स्थिर रखना, आदि । पित्त की कमी से पाचन क्रिया विगड़ जाती है और मंदाग्नि, कब्ज, अतिसार आदि रोग होते हैं । इसी प्रकार इसकी वृद्धि से ज्वर, दाह, वमन, प्यास मूर्च्छा और अनेक चर्मरोग होते हैं । जिसका पित्त बढ़ गया हो उसका रंग बिलकुल पीला हो जाता है । पित्त के बढ़े या विगड़े हुए होने की दशा में वह अकसर वमन द्वारा पेट से बाहर भी निकलता है ।

वैद्यक के अनुसार पित्त शरीर के स्वास्थ्य और रोग के कारण-भूत तीन प्रधान तत्वों अथवा दोषों में से एक है । जिस प्रकार रस का मूल कफ है उसी प्रकार रक्त का मूल पित्त है जो यकृत या जिगर में उससे अलग किया जाता है । भावप्रकाश के अनुसार यह उष्ण, द्रव, आमरहित दशा में पीला और आमरहित दशा में नीला, सारक, सघु, सत्वगुणयुक्त, म्लिग्घ, रम में कटु परंतु विपाक के समय अम्ल है । अग्नि स्वभाववाना तो स्वयं अग्नि है । शरीर में जो कुछ उष्णता तत्व है उसका आधार यही है । इसी से अग्नि, उष्ण, तेजम् आदि पित्त के पर्याय हैं । इसमें एक प्रकार की दुर्गंध भी आती है । शरीर में इसके पाँच स्थान हैं जिनमें यह अलग अलग पाँच नामों से स्थिर रहकर पाँच प्रकार के कार्य करता है । ये पाँच स्थान हैं—आम्राणय (वहाँ कर्तव्य आम्राणय

श्रीर पक्वाशय का मध्य स्थान भी मिलता है), यकृत, प्लीहा, हृदय, दोनो नेत्र, श्रीर त्वचा। इनमे रहने-वाले पित्तो का नाम क्रम से पाचक, रजक, साधक, आलोचक श्रीर भ्राजक हैं। पाचक पित्त का कार्य खाए हुए द्रव्यों को अपनी स्वाभाविक उष्णता से पचाना श्रीर रस, मूत्र श्रीर मल को पृथक् पृथक् करना है। रजक पित्त आम्राशय से आए हुए आहार रस को रजित कर रक्त में परिणत करता है। साधक पित्त कफ श्रीर तमोगुण को दूर करता श्रीर मेवा तथा वृद्धि उत्पन्न करता है। आलोचक पित्त रूप के प्रतिबिंब को ग्रहण करता है। यह पुतली के बीचोबीच रहता है श्रीर मात्रा मे तिल के बराबर है। भ्राजक पित्त शरीर की काति, चिकनाई आदि का उत्पादक तथा रक्षक है। आम्राशय या अग्न्याशय मे स्थित पाचक पित्त अपनी स्वाभाविक शक्ति से अन्य चार पित्तो की क्रिया में भी सहायक होता है। पाचक पित्त को ही पाचकाग्नि या जठराग्नि भी कहा है। गरम, तीखी, खट्टी, आदि चीजें खाने मे पित्त बढ़ता है श्रीर कुपित्त होता है, शीतल, मधुर, कसैली, कडवी, स्निग्ध वस्तुओं से वह कम श्रीर शांत होता है। अरबी में पित्त को सफरा श्रीर फारसी मे तलखा कहते हैं। उपादान उसका अग्नि श्रीर स्वभाव गरम खुश्क माना है।

जिस प्रकार शारीरिक उष्णता का कारण पित्त माना गया है उसी प्रकार मनोवृत्तियों के तीव्र होने अर्थात् क्रोध आदि मनोविकारो के पैदा करने में भी वह कारण माना गया है। पित्त खोलना, पित्त उबलना, आदि मुहावरों की—जिनका अर्थ क्रुद्ध हो जाना है—उत्पत्ति मे इसी कल्पना का आधार जान पड़ता है। अंगरेजी में भी पित्तार्थक बाइल (Bile) शब्द का एक अर्थ क्रोधशीलता है।

पर्या०—मायु। पलज्वल। तेजस्। तिक्त। घातु। उष्मा। अग्नि। अनल। रजन।

मुहा०—पित्त उबलना या खोलना = दे० 'पित्ता उबलना या खोलना'। पित्त गरम होना = शीघ्र क्रुद्ध होने का स्वभाव होना। क्रोधशील होना। मिजाज में गरमी होना। क्रोध की अधिकता होना। जैसे,—अभी तुम जवान हो इसी से तुम्हारा पित्त इतना गरम है। पित्त ढालना = कै करना। वमन करना। उलटी करना।

पित्ताकर—वि० [सं०] पित्त को बढ़ाने या उत्पन्न करनेवाला। द्रव्य। जैसे, बाँस का नया कल्ला आदि।

पित्तकास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पित्त के दोष से उत्पन्न खाँसी या कास रोग।

विशेष— इस रोग के लक्षण छाती में दाह, ज्वर, मुँह सूखना, मुँह का स्वाद तीता होना, खाँसी के साथ पीला श्रीर कडवा कफ निकलना, क्रमशः शरीर का पाँडुवर्ण होते जाना आदि हैं।

पित्तकोश, पित्तकोष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पित्त की थैली [को०]।

पित्ताक्षोभ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पित्तवृद्धि या पित्त का विगडना [को०]।
पित्तागदी—वि० [सं० पित्तगदिन्] पित्त के रोग से पीडित [को०]।
पित्तगुल्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पित्त की अधिकता से पेट का फूल जाना [को०]।

पित्तघ्न—वि० [सं०] पित्तनाशक (द्रव्य)।

विशेष—वैद्यक ग्रंथो के अनुसार मधुर, तिक्त श्रीर कषाय रसवाले सपूर्ण द्रव्य पित्तनाशक हैं।

पित्तघ्न^२—सञ्ज्ञा पुं० घी। घृत।

पित्तघ्नी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] गुडूच। गिलोय।

पित्तज—वि [सं०] पित्त के कारण उत्पन्न। पित्तविकार से पैदा होनेवाला [को०]।

पित्तज स्वरभेद—सञ्ज्ञा पुं० [पित्तज + स्वरभेद] पित्त के विकार के द्वारा उत्पन्न गले की खराबी जिसमें रोगी की आँख श्रीर विष्ठा दोनो पीली हो जाती हैं (माधव०, पु० ६६)।

पित्तज्वर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह ज्वर जो पित्त के दोष या प्रकोप से उत्पन्न हो। पित्तवृद्धि से उत्पन्न ज्वर। पैत्तिक ज्वर।

विशेष—वैद्यक ग्रंथो के अनुसार आहार विहार के दोष से बढा हुआ पित्त आम्राशय मे जाकर स्थित हो जाता है श्रीर कोष्ठस्थ अग्नि को वहाँ से निकालकर बाहर की श्रीर फँकता है। अतीसार, निद्रा की अल्पता, कठ, ओठ, मुँह श्रीर नाक का पका सा जान पडना, पसीना निकलना, प्रलाप, मुँह का स्वाद कडवा हो जाना, मूर्छा, दाह, मत्तता, प्यास, भ्रम, मल, मूत्र श्रीर आँखों में हल्दी की सी रगत होना आदि इस ज्वर के लक्षण हैं।

पित्तदाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पित्तज्वर'।

पित्तद्रावी^१—वि० [सं० पित्तद्राविन्] पित्त को पिघलानेवाला (द्रव्य)। जिससे पित्त पिघले।

पित्तद्रावी^२—सञ्ज्ञा पुं० मीठा नीबू।

पित्तधरा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सुश्रुत के अनुसार आम्राशय पक्वाशय के बीच में स्थित एक कला या झिल्ली। ग्रहणी।

पित्तनाड़ी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार का नाडीव्रण जो के कुपित्त होने से होता है।

पित्तनिबर्हण—वि० [सं०] पित्त को समाप्त करनेवाला। पित्त नाशक [को०]।

पित्तपथरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पित्त + हि० पथरी] एक रोग जि० पित्ताशय अथवा पित्तवाहक नालियों में पित्त की ककडिय बन जाती हैं।

विशेष—ये ककडियाँ पित्त के अधिक गाढे हो जाने, उस कोलस्ट्रामई नामक द्रव्य की अधिकता अथवा उसके उ० व० में कोई विशेष परिवर्तन होने से उत्पन्न होती हैं। यह ये पित्ताशय में बनती हैं, तथापि यकृत श्रीर पित्तप्रणालियों भी पाई जाती हैं। इस रोग में आहार के अन्न में पेट पीडा होती है श्रीर पित्ताशय मे जलन मालूम होती है स्पर्श करवे से उसमें छोटी छोटी पथरियाँ सी जान ५

हैं और वह कड़ा, बड़ा हुआ और पत्थर का सा मालूम होता है। कुछ काल तक इस रोग की स्थिति होने से कामला, श्रांतों के कार्य में रुकावट और यकृत में फोड़ा आदि अन्य रोग होते हैं।

यह रोग आयुर्वेदीय ग्रंथो में नहीं मिलता, इसका पता पाश्चात्य डाक्टरों ने लगाया है।

पित्तपांडु—सज्ञा पुं० [सं० पित्तपाण्डु] एक पित्तजनित रोग जिसमें रोगी के मूत्र, विष्ठा, नेत्र विशेष रूप से और सपूर्ण शरीर सामान्य रूप से पीला हो जाता है और उसे दाह, तृष्णा, तथा ज्वर रहता है।

पित्तपापड़ा—सज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पित्तपापड़ा'।

पित्तप्रकृति—वि० [सं०] जिसकी प्रकृति पित्त की हो। जिसके शरीर में वात और कफ की अपेक्षा पित्त की अधिकता हो।

विशेष—वैद्यक के अनुसार पित्तप्रकृति व्यक्ति को भूख और प्यास अधिक लगती है। उसका रंग गोरा होता है, हथेली, तलुवे और मुँह पर ललाई होती है, केश पांडुरण और रोएँ कम होते हैं, वह बहुत शूर, मानी पुष्प चंदनादि के लेप से प्रीति करनेवाला, सदाचारी, पवित्र, आश्रितों पर दया करनेवाला, वैभव, साहस और बुद्धिबल से युक्त होता है, भयभीत शत्रु की भी रक्षा करता है, उसकी स्मरण शक्ति उत्तम होती है, शरीर खूब कसा हुआ नहीं होता, मधुर, शीतल, कड़वे और कसैले भोजन पर रुचि रहती है, शरीर में बहुत पसीना और दुर्गंध निकलती है। उसे विष्ठा अधिक होती है और भोजन जलपान वह अधिक मात्रा में लेता है। उसे क्रोध और ईर्ष्या अधिक होती है। वह धर्म का द्वेषी और स्त्रियों को प्रायः अप्रिय होता है, नेत्रों की पुतलियाँ पीली और पलकों में बहुत थोड़े बाल होते हैं, स्वप्न में कनेर ढाक आदि के पुष्प, दिग्दाह, उत्कापात, बिजली, सूर्य तथा अग्नि को देखता है, बलेश्मीत, मध्यम आयु और बलवाला होता है और बाध, रीछ, बदर, विल्ली, भेड़िया आदि से उसका स्वभाव मिलता है।

पित्तप्रकोप—सज्ञा पुं० [सं०] पित्त का बढ़ना [को०]।

पित्तप्रकोपी—वि० [सं० पित्तप्रकोपिन्] पित्त को बढ़ाने या कुपित करनेवाला (द्रव्य)। (वस्तु) जिसके भोजन से पित्त की वृद्धि हो।

विशेष—तक्र, मद्य, मास, उष्ण, खट्टी, चरपरी आदि वस्तुएँ पित्तप्रकोपी हैं।

पित्तप्रमेह—सज्ञा पुं० [सं० पित्त + प्रमेह] एक प्रकार का प्रमेह रोग जिसमें मूर्छा तथा पतले दस्त होते हैं, वस्ति और लिंग में पीड़ा होती है। (माधव०, पृ० १८५)।

पित्तभेषज—सज्ञा पुं० [सं०] मसूर। मसूर की दाल।

पित्तर(५)—सज्ञा पुं० [सं० पितृ, हिं० पितर] दे० 'पितृ'। उ०—कवीर० श०, भा०, पृ० ३३।

पित्तरक्त—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'रक्तपित्त'।

पित्ताल^१—वि० [सं० पित्त] जिससे पित्त का उभाह हो। जिससे पित्तदोष बड़े। पित्तकारी (द्रव्य)।

पित्तल^२—सज्ञा पुं० [सं०] १ भोजपत्र। २. हरताल। ३ पीतल घातु।

पित्तल—सज्ञा स्त्री० १ जलपीपल। २ सरिवन। शालपर्णी। ३ पीतल घातु।

पित्तला—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ जलपीपल। २ योनि का एक रोग जो दूषित पित्त के कारण उत्पन्न होता है। 'भावप्रकाश' के मत से योनि में अत्यंत दाह, पाक तथा ज्वर इस रोग के लक्षण हैं।

पित्तवर्ग—सज्ञा पुं० [सं०] मछली, गाय, घोड़े, रुद्र मृग और मोर के पित्तों का समूह। पचविध पित्त।

विशेष—मतांतर से सूअर, बकरे, भैंसे, मछली और मोर के पित्त पित्तवर्ग के अंतर्गत माने गए हैं।

पित्तवल्लभा—सज्ञा स्त्री० [सं०] काला अतीस।

पित्तवायु—सज्ञा स्त्री० [सं०] पित्त की वृद्धि और विकार से पेट में वायु का बढ़ना [को०]।

पित्तविदग्धदृष्टि—सज्ञा पुं० [सं०] आँख का एक रोग जो दूषित पित्त के दृष्टिस्थान में आ जाने से होता है।

विशेष—इसमें दृष्टिस्थान पीतवर्ण हो जाता है और साथ ही सारे पदार्थ भी पीले दिखाई पड़ने लगते हैं। दोष आँख के तीसरे परदे या पटल में रहता है इससे रोगी को दिन में नहीं सुझाई पड़ता, वह केवल रात में देखता है।

पित्तविसर्प—सज्ञा पुं० [सं०] विसर्प रोग का एक भेद।

पित्तव्याधि—सज्ञा स्त्री० [सं०] पित्तदोष से उत्पन्न रोग। पित्त के विगडने से पैदा हुई बीमारी।

पित्तशमन—वि० [सं०] पित्त को दूर करनेवाला [को०]।

पित्तशूल—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का शूल रोग जो पित्त के प्रकोप से होता है।

विशेष—इसमें नाभि के आसपास पीडा होती है। प्यास लगना, पसीना निकलना, दाह, अम और शोष इस रोग के लक्षण हैं। डाक्टरों के मत से पित्त के अधिक गाढ़े होने अथवा उसकी पथरियों के आँतों में जाने से यह रोग उत्पन्न होता है। ऐसे पित्त या पथरियों के संचार में जो पीडा होती है वही पित्तशूल है।

पित्तशोथ—सज्ञा पुं० [सं०] पित्तवृद्धि से होनेवाली सूजन [को०]।

पित्तश्लेश्मज्वर—सज्ञा पुं० [सं०] वह ज्वर जो पित्त और कफ दोनों के प्रकोप अथवा अधिकता से हुआ हो।

विशेष—मुख का कड़वापन, तद्रा, मोह, खाँसी, अरुचि, तृष्णा, क्षणिक दाह और कुछ ठंड लगना आदि इसके लक्षण हैं।

पित्तश्लेश्माल्वण—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का सन्निपात ज्वर।

विशेष—इसमें शरीर के भीतर दाह और बाहर ठंडा रहता है। प्यास बहुत अधिक लगती है, दाहिनी पसलियों, छाती,

सिर और गले में दर्द रहता है, कफ और पित्त बहुत कष्ट से बाहर निकलता है। मल पतला होकर निकलता है; सांस फूलती है और हिचकियाँ आती हैं।

पित्तसंशयन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] आयुर्वेदोक्त श्लोषधियो का एक वर्ग या समूह जिसमें की श्लोषधियाँ प्रकुपित पित्त को शांत करनेवाली मानी जाती हैं।

विशेष—सुश्रुत के अनुसार इस वर्ग में निम्नलिखित श्लोषधियाँ हैं—चदन, लालचदन, नेत्रवाला, खस, अकंपुष्पी, विदारोकद, सतावर, गोदी, सिवार, सफेद कमल, कुई, नील कमल, केला कंबलगट्टा, दूब मरोरफली (मूर्वा), काकोल्यादिगण न्यग्रोधादिगण और तृणपचमूल।

पित्तस्थान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शरीर के वे पाँच स्थान जिनमें वैद्यक ग्रंथों के अनुसार पाचक, रजक आदि पाँच प्रकार के पित्त रहते हैं। ये स्थान आम्राशय पक्वाशय, यकृत प्लीहा, हृदय, दोनो नेत्र और त्वचा हैं।

पित्तास्यंद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पित्तास्यन्द] पित्त के कारण उत्पन्न एक नेत्ररोग [को०]।

पित्तस्त्राव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सुश्रुत के अनुसार एक नेत्ररोग जिसमें नेत्रसंधि से पीला या नीला और गरम पानी बहता है।

पित्तहर^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] खस। उशीर।

पित्तहर^२—वि० [सं०] पित्त का नाशक [को०]।

पित्तहा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पित्तहन] पित्तपापडा।

पित्तहा^२—वि० पित्तनाशक (द्रव्य)।

पित्ताह—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पित्ताह] घोड़े के अंडकोश में होनेवाला एक रोग।

पित्ता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पित्त] १ जिगर में वह थैली जिसमें पित्त रहता है। पित्ताशय। विशेष विवरण के लिये दे० 'पित्ताशय'।

मुद्गा—पित्ता उबलना = दे० 'पित्ता खीलना'। पित्ता खीलना = बड़ा क्रोध आना। मिजाज भटक उठना। जैसे,—तुम्हारी बातें सुनकर तो उसका पित्ता खील गया।

विशेष—पित्त का नाम अग्नि तथा तेज भी है, इन्हीं कारणों से इन मुद्गावरों की उत्पत्ति हुई है। पित्ता उबलना, पित्ता खीलना, आदि पित्त उबलना या पित्त खीलना का लक्षण-त्मक रूप है।

पित्ता निकालना—[सं०] काम कराके अथवा और किसी प्रकार से किसी को अत्यंत पीड़ित करना। बहुत अधिक परिश्रम का काम कराना। पित्ता पानी करना = बहुत परिश्रम करना। जान लडाकर काम करना। अति कठोर प्रयास करना। जैसे,—इस काश में बड़ा पित्ता पानी करना पड़ेगा। पित्ता मरना = क्रोध या उत्तेजित होने की आदत छूट जाना। गुस्सा न रह जाना। जैसे,—अब उसका पित्ता बिलकुल मर गया। पित्ता मारना = (१) क्रोध दवाना। क्रोध होने पर चिन्त शांत रखना। सहना।

उत्तेजना को दबा रखना। जन्त करना। जैसे,—मैं पित्ता मारकर रह गया नहीं तो अनर्थ हो जाता। (२) बिना उद्विग्न हुए या ऊबे कोई कठिन काम करते रहना। कोई अशुचिकर या कठिन काम करने में न ऊबना। जैसे,—जो बड़ा पित्ता मारे वह इस काम को कर सकता है। पित्तमार काम = वह काम जो शुचिकर न हो। अशुचिकर और कठिन काम। कर्ता को उबा देनेवाला काम। मन मारकर किया जानेवाला काम।

२ हिम्मत। साहस। हीसला। जैसे,—उसका कितना पित्ता है जो दो दिन भी तुम्हारे मुकाबले ठहर सके।

पित्तात्सार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह अतिसार रोग जिसका कारण पित्त का प्रकोप या दोष होता है।

विशेष—मल का लाल, पीला अथवा हरा और दुर्गंधयुक्त होना, गुदा पक जाना, तृषा, मूर्च्छा और दाह की अधिकता इस रोग के लक्षण हैं।

पित्ताधिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पित्त + अधिक, आधिक्य] सन्निपात का एक रोग।—माधव०, पृ० २८।

पित्ताभिष्यद, पित्ताभिर्यद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पित्ताभिव्यन्द, अभिस्यन्द] श्लेष्मिका का एक रोग। पित्तकोप से श्लेष्मिका आना।

विशेष—श्लेष्मिका का उष्ण और पीतवर्ण होना, उनमें क और पकाव होना उनमें बुझा उठता सा जान पडना अ बहुत अधिक आँसू गिरना इस रोग के लक्षण हैं।

पित्तारि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पित्तपापडा। २ लाख। ३ चदन।

पित्ताशय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पित्त की थैली। पित्तकोष।

विशेष—यह यकृत या जिगर में पीछे और नीचे की ओर होता है। इसका आकार अमरुद या नासपाती का होता है। यकृत में पित्त का जितना अणु भोजनपाक का आवश्यकता से अधिक होता है वह इसी में आकर सा रहता है।

पित्तिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक श्लोषधि। एक प्रकार की शतपदी

पित्ती^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पित्त + ई] एक रोग जो पित्त की अकृता अथवा रक्त में बहुत अधिक उष्णता होने के कारण होता है।

विशेष—इसमें शरीर भर में छोटे छोटे ददोरे पड जाते हैं और उनके कारण त्वचा में इतनी खुजली होती है कि रोजमीन पर लोटने लगता है।

क्रि० प्र०—उच्छलना।

२ लाल लाल महीन दाने जो पसीना मरने से गरमी के दिनों में शरीर पर निकल आते हैं। अँभीरी।

पित्ती^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पित्तृ] पित्तृव्य। चाचा। काका। का भाई।

पित्ती^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [?] एक प्रकार की वेल जिसे रक्तवल्ली कहते हैं।

चित्तेदार— [हि० पित्ता+फा० दार (प्रत्य०)] क्रीडी । आवेश में आनेवाला । उ०—चित्तेदार मनुष्य के लिये कोई जरा भी दान हो जानी वो उसको खुर्दवीन की भाँत अपने मन ही मन में मोच मोचकर पहाड़ की वरावर बना लेता है ।—श्रीनिदान प्र०, पृ० ७८ ।

चित्तोक्लिष्ट—सज्ञा पुं० [म०] घ्राँख की पलको वा एक रोग जिसमें पलको का दाह, क्लेद अत्यंत पीडा होती है, अर्खें लाल और देखने में असमर्थ हो जाती हैं ।

चित्तोदर—सज्ञा पुं० [म०] पित्त के विगडने से होनेवाला एक उदर-रोग ।

विशेष—इसमें शरीर का वर्ण, नेत्र, नख और मल, मूत्र आदि सब पीला हो जाता है, और क्षोष, तृषा, दाह और ज्वर का प्रयोग होता है ।

चित्तोपहत—वि० [म०] पित्त से पीडित [को०] ।

चित्तोत्वण सन्निपात—नगण पुं० [म०] एक प्रकार का सन्निपातिक ज्वर । आशुकारी ज्वर ।

विशेष—इसका लक्षण है—अतिसार, भ्रम, मूर्छा, मुँह में पकाव, देह में लाल दानों का निकल आना और अत्यंत दाह होना ।

पित्र—सज्ञा पुं० [सं० पितृ] दे० 'पितृ' । उ०—सोनिह कुह भराय के पीपे अपने पित्र । तिनके निरदय रूप में नाहिन कोऊ पित्र ।—नद० प्र०, पृ० १८१ ।

पित्र्य—वि० [म०] १ पितृ संबंधी । २ आदर करने योग्य । जिसका आदर हो सके ।

पित्र्य—सज्ञा पुं० १ शहद । मधु । २ उरद । ३ बडा भाई । ४ पितृतीर्थ । ५ तर्जनी और अँगूठे का अंतिम भाग ।

पित्र्या—नज्ञा स्त्री० [म०] १ मघा नक्षत्र । २ पूर्णिमा । ३ अभावस्या ।

पित्सत—सज्ञा पुं० [सं०] पक्षी [को०] ।

पित्सत—सज्ञा पुं० [सं०] मार्ग । पथ [को०] ।

पिथौरा—सज्ञा पुं० [सं० पृथ्वीराज] भारत का अंतिम हिंदू सम्राट् पृथ्वीराज ।

पिद्दी—सज्ञा स्त्री० [देश०] दे० 'पिद्दी' ।

पिद्दर—सज्ञा पुं० [फा०, तुल० सं० पितर, अ० फादर] पिता । जनक [को०] ।

यी०—पिद्दरकुशी = ण्वृहन्नन । पिता की हत्या ।

पिद्दीरियत—सज्ञा स्त्री० [फ्रा० पिद्दर + ईयत् (प्रत्य०)] पितृत्व । उ०—आप लडकियों के एतवार से पिद्दीरियत के जिस दर्जे में हैं, लडकों के एतवार से उसी दर्जे में हैं ।—प्रेम० और गोकी, पृ० ३७ ।

पिद्दारा—सज्ञा पुं० [हि० पिद्दा] पिद्दी पक्षी का नर । पिद्दा । उ०—पिद्दी पक्षी और पिद्दारे । नवटा लेदी सोन मलारे ।—जायसी (शब्द०) ।

पिद्दा—सज्ञा पुं० [हि० पिद्दी] १. पिद्दी का पुल्लिंग । विशेष दे० 'पिद्दी' । २ गुलेल की तार में वह निवाह आदि की गद्दी जिसपर गोली को फेकने के समय रखते हैं । फटकना ।

पिद्दी—सज्ञा स्त्री० [हि० पिद्दा या फुदकना फुदकी] १ बया की जाति की एक सुदर छोटी चिडिया ।

विशेष—यह बया से कुछ छोटी और कई रंगों की होती है । आवाज इसकी मीठी होती है । अपने चंचल स्वभाव के कारण यह एक स्थान पर क्षण भर भी स्थिर होकर नहीं बैठती, फुदकती रहती है । इसी से इसे 'फुदकी' भी कहते हैं । २ वहुत ही तुच्छ और अगण्य जीव ।

पिद्दना—क्रि० सं० [गुज०, पिधेलु] १ पिलाना । २. पीना । पान करना । उ०—अमृत देव पिद्दय । सुरा सुदैत सिद्दयं ।—पृ० रा० ।

पिधातव्य—वि० [सं०] ढकने, बद करने वा मूँदने योग्य [को०] ।

पिधान—सज्ञा पुं० [सं०] १ आच्छादन । आवरण । पर्दा । गिलाफ । २ ढक्कन । ढरुना । ३ तलवार का म्यान । खड्गकोष । ४ आच्छादित करने की क्रिया [को०] । ५ छिपाव । उ०—सुख के निधान पाए हिए के पिधान लाए ठग के से लाडू खाए प्रेममधु छाके हैं—तुलसी (शब्द०) ।

पिधानक—सज्ञा पुं० [सं०] १ म्यान । कोष । २ आच्छादन । ढक्कन [को०] ।

पिधानी—सज्ञा स्त्री० [सं०] ढकनेवाली वस्तु । ढक्कन [को०] ।

पिधायक—वि० [म०] ढकनेवाला । छिपानेवाला [को०] ।

पिधायी—वि० [सं० पिधायिन्] ढकनेवाला । छिपानेवाला [को०] ।

पिन—सज्ञा स्त्री० [अ०] लोहे या पीतल आदि की बहुत छोटी कील जिससे कागज इत्यादि नथी करते हैं । आलपीन ।

पिनक—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पीनक' ।

पिनकना—क्रि० अ० [हि० पिनक] १ अफीम के नशे में सिर का झुका पडना । अफीमची का नशे की हालत में आगे की ओर झुकना या ऊँघना । पीनक लेना । २ नींद में आगे की झुकना । ऊँघना । जैसे,—शाम हुई और तुम लगे पिनकने । ३ चिडना । खीझना ।

पिनकी—सज्ञा पुं० [हि० पीनक] वह व्यक्ति जो अफीम के नशे में पीनक लिया करे । पिनकनेवाला अफीमची ।

पिनच—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रत्यञ्चा] दे० 'पनच' । उ०—पैली पार की पारधी, ताकी धुनही पिनच नहीं रे । ता बेली की ढूँँधी मृगली ता मृग कैसी सनही रे ।—कवीर प्र०, पृ० १६० ।

पिनद्ध—वि० [सं०] १ बँधा हुआ । कसा हुआ । २ धारण किया हुआ । पहना हुआ । ३ आच्छादित । छिपा हुआ । आवृत । ४ विद्ध । विधा हुआ [को०] ।

पिनपिना—सज्ञा स्त्री० [अनु०] १ बच्चों का आनुनासिक और अस्पष्ट स्वर में उठर उठरकर रोने का शब्द । नकियाकर धीमे धीमे और थोडा रुक रुककर रोने की आवाज । २ रोगी

या दुर्बल बच्चे के रोने का शब्द । रोगी या दुर्बल बच्चे का रोना । ३ पिनपिन करके रोना । बार बार घीमी और अनुनासिक आवाज में रोना । तकियाकर और ठहर ठहर कर रोना ।

क्रि० प्र०—करना । —लगाना ।

पिनपिनहाँ—सञ्ज्ञा पु० [हि० पिनपिन + हा (प्रत्य०)] १ पिनपिन करनेवाला बच्चा । रोना लडका । वह बालक जो हर समय रोया करे । २ रोगी या दुर्बल बालक । कमजोर या बीमार बच्चा ।

पिनपिनाना—क्रि० अ० [हि० पिनपिन] १ पिनपिन शब्द करना । रोते समय नाक से स्वर निकालना । २ घीमे स्वर में और रुक रुककर रोना । ३ रोगी अथवा कमजोर बच्चे का रोना ।

पिनपिनाइट—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पिनपिनाना] १ पिनपिन करके रोने का शब्द । २ पिनपिन करके रोने की क्रिया या भाव ।

पिनल कोड—सञ्ज्ञा पु० [अ० पेनल कोड] दहित या शासित करने की संहिता । नियम वा कानून की संहिता । दंडसंहिता । उ०—समाजनीति के पिनल कोडों में लिखा है । —शरावी, पृ० ६६ ।

पिनसना—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ० पेन्शन] दे० 'पेंशन' ।

पिनसिन—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ० पेन्शन] दे० 'पेंशन' ।

पिनहाँ—वि० [फा०] छिपा हुआ । गुप्त । उ०—बोले अलख अल्ला तु है, पिनहाँ तेरा इसरार है ।—कबीर म०, पृ० ३६० ।

पिनाक—सञ्ज्ञा पु० [म०] १ शिव का घनुष जिसे श्रीरामचन्द्र जी ने जनकपुर में तोड़ा था । अजगव ।

यौ०—पिनाकगोला । पिनाकधृक्, पिनाकधृत, पिनाकहस्त = दे० 'पिनाकपाणि' ।

मुहा०—पिनाक होना = (किसी काम का) अत्यंत कठिन होना । (किसी काम का) टुटकर या असाध्य होना ।—जैसे,—तुम्हारे लिये यह जरा सा काम भी पिनाक हो रहा है ।

२ कोई घनुष । ३ त्रिशूल । ४. एक प्रकार का अश्रक । नीला अश्रक । नीलाभ्र । ५ एक प्रकार का वाद्य । दे० 'पिनाकी'—२ । उ०—किल्लर तमूर वाजै कानूड की तरगी । ढोलक पिनाक खँजरि तबले वाजै उमगी ।—ब्रज० प्र०, पृ० ६० । ६ पाशुवर्षा । धूलिवर्षण (को०) । ७ बेंत या लाठी (को०) ।

पिनाकी^१—सञ्ज्ञा पु० [स० पिनाकिन्] महादेव । शिव ।

पिनाकी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० एक प्रकार का प्राचीन वाजा जिसमें तार लगा रहता था और जो उसी तार को छेदने से बजता था ।

पिनालटी—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ० पेनाल्टी] हर्जाना । वह सजा जो रूपए वैसे के रूप में दी जाती है । अर्थदंड । उ०—आपको पिनालटी देनी पड़ेगी ।—प्र० मघन०, भा० २, पृ० १४७ ।

पिनावना^१—क्रि० स० [स० पिञ्जन] रुई धुनवाना । उ०—जोड़ जोड़ निकट पिनावन आवै, रुई सबनि की पीजै । परमारथ कौं देह घरघी है, मसकति कद्व न लीजै ।—सुदर० प्र०, भा० २, पृ० ८६६ ।

पिन्नपिन्न—सञ्ज्ञा स्त्री० [असुध्व०] दे० 'पिनपिन' । उ०—एक नया तार पिन्न पिन्न करने लगा ।—सन्वासी, पृ० २६५ ।

पिन्नसा^१—सञ्ज्ञा पु० [स० पीनस] दे० 'पीनस' ।

पिन्नसा^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पीनस] पालकी । डोली ।

पिन्ना^१—वि० [हि० पिनपिनाना] जो सदा रोता रहे । रोनेवाला । रोना ।

पिन्ना^२—सञ्ज्ञा पु० [म० पिञ्जन] १ दे० 'पीजन' । २ धुनकी ।

पिन्ना^३—सञ्ज्ञा पु० [स० पीडन या देश०] दे० 'पीना' । 'पिना' ।

पिन्निय^१—वि० [स० पिनद्ध] आवृत । आच्छादित । बँधा हुआ । युक्त । उ०—सुभ लच्छिन उताग प्रग अग गुन पिन्निय । ता समान छवि वाम आन करतार न किन्निय ।—पृ० रा०, १७।८६ ।

पिन्नी—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] एक प्रकार की मिठाई, जो आटे या अन्नचूर्ण में चीनी या गुड़ मिलाकर बनाई जाती है ।

पिन्यास—सञ्ज्ञा पु० [म०] हींग ।

पिन्हाना—क्रि० स० [हि० पहिनना या स० पिनञ्जन] दे० 'पहनाना' ।

पिपतिषत्, पिपतिपु—सञ्ज्ञा पु० [न०] विहग । पक्षी [को०] ।

पिपरमिंट—सञ्ज्ञा पु० [अ०] पुदीने की जाति का पर रूप में उससे भिन्न एक पौधा ।

विशेष—यह पौधा यूरोप और अमेरिका में होता है । इसकी पत्तियों में एक विशेष प्रकार की गंध और ठंडक होती है जिसका अनुभव त्वचा और जीभ पर बड़ा तीव्र होता है । इसका व्यवहार औषध में होता है । पेट के दर्द में यह विशेषतः दिया जाता है । इसका पौधा देखने में भाँग के पौधे से मिलता जुलता होता है । टहनियाँ दूर तक सीधी जाती हैं जिनमें थोड़े थोड़े अंतर पर दो दो पत्तियाँ और फूलों के गुच्छे होते हैं । पत्तियाँ भाँग की पत्तियों की सी होती हैं । २ उक्त पौधे से बना हुआ सफेद रंग का पदार्थ ।

पिपरामूल—सञ्ज्ञा पु० [स० पिप्पलीमूल] पिप्पलीमूल । पिपली की जड़ ।

पिपराही—सञ्ज्ञा पु० [हि० पीपर + आही (प्रत्य०)] पीपल का वन । पीपल का जंगल ।

पिपली—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश० नेपाली] एक पेड़ जो नेपाल, दार्जिलिंग आदि में होता है । इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है और किवाड़, चौकटे, चौकिर्था, आदि बनाने के काम आती है ।

पिपास—सञ्ज्ञा स्त्री० [न० विपासा] दे० 'पिपासा' । उ०—छूटै सबनि के सुख क्षुत्पिपास ।—केशव (शब्द०) ।

पिपासा--सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पानेच्छा । तृष्णा । तृषा । प्यास ।
२ लालच । लोभ । जैसे, घन की पिपासा ।

पिपासार्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिपासा+आर्ति] प्यास अर्थात् तीव्रेच्छा की मनोव्यथा । उत्कट कामना की वेदना । उ०—यह वेदना सक्रांति काल के जनसमूह की पिपासार्ति है ।—कुकुम्भ (भू०), पु० १३ ।

पिपासित वि० [सं०] तृपित । प्यासा ।

पिपासी—वि० [सं० पिपासिन्] तृपित । प्यासा (को०) ।

पिपासु—वि० [सं०] तृपित । पानेच्छु । प्यासा । २ उग्र इच्छा रखनेवाला । तीव्र इच्छुक । लालची । जैसे, रक्तपिपासु, अर्थपिपासु ।

पिपियाना^१—क्रि० अ० [हि० पीप + इयाना (प्रत्य०)] पीप पडना । मवाद आना । जैसे, फोड़े का पिपियाना ।

पिपियाना^२—क्रि० सं० पीप उत्पन्न करना । मवाद पैदा करना । जैसे,—यह दवा फोड़े को पिपिया देगी ।

पिपियाना^३—क्रि० अ० [हि० पिपियाना] १ पें पें करना । अनावश्यक बोलना । २ बच्चों का रुदन करना । जैसे—क्यों पिपियाते हो ?

पिपिली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] चीटी । पिपीलिका (को०) ।

पिपीतक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भविष्य पुराण के अनुसार एक ब्राह्मण जिसने पिपीतकी द्वादशी का व्रत पहले पहल किया था ।

पिपीतकी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वैशाख शुक्ल द्वादशी ।

विशेष—भविष्य पुराण में यह व्रत का दिन कहा गया है । पहले पहल इस व्रत को पिपीतक नाम के एक ब्राह्मण ने किया था जिसकी कथा इस प्रकार है । पिपीतक को यमदूत ले गए । यमलोक में उसे बड़ी प्यास लगी और वह व्याकुल होकर चिल्लाने लगा । व्रत में उसने यमराज की बड़ी स्तुति की जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसे फिर मर्त्यलोक में भेजा और वैशाख शुक्ल द्वादशी का व्रत बताया । इस व्रत में ठंडे पानी से भरे हुए घड़े ब्राह्मण को दिए जाते हैं ।

पिपील—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] चीटी (को०) ।

पिपीलक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० अल्पा० पिपीलिका] चीटी । चिउंटा ।

पिपीलिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ चीटा । २. सोना जो चींटों द्वारा एकत्र हो (को०) ।

शौ०—पिपीलिकपुट = वल्मीक । वाँदी ।

पिपीलिकमध्य—एक प्रकार का व्रत ।

पिपीलिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] चिउंटी । चीटी । कीड़ी ।

शौ०—पिपीलिकापरिसर्पण—चींटियों का इधर उधर दौड़ना ।
पिपीलिकामध्य = मनुस्मृति के अनुसार एक व्रत ।

पिपीलिकामक्षी—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दक्षिण अफ्रिका का एक जंतु जिसे बहुत लंबा धूथन और बहुत बड़ी जीभ होती है ।

विशेष—इसे दाँत नहीं होते । इसके अगले पजे बहुत बड़ होते हैं

जिनसे यह चींटियों के बिल खोदता है । यह उँगलियों के बल चलता है तलवों के बल नहीं । इसके कंधे मोटे और भट्टे होते हैं । गरदन से रीढ़ तक लंबे लंबे बाल होते हैं । यह चींटियों के बिलों में अपने धूथन को डालकर उन्हें खींच लेता है । चींटी के आहार के बिना यह जंतु नहीं रह सकता ।

पिपीलिकामातृका दोष—मज्ञा पुं० [सं०] एक बालरोग जो जन्म के दिन से ग्यारहवें दिन, ग्यारहवें महीने या ग्यारहवें वर्ष होता है । इसमें बालक को ज्वर होता है और उमका आहार छूट जाता है ।

पिपीलिकोद्वाप—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वाँदी । वल्मीक (को०) ।

पिपीली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पिपीलिका, चीटी ।

पिप्टटा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार की मिठाई ।

पिप्पल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पीपल का पेड़ । अश्वत्थ । २. एक पक्षी । ३. रेवती से उत्पन्न मिश्र का एक पुत्र । (भागवत) । ४. नगा आदमी । नग्न व्यक्ति । ५. जल । ६. वस्यखड । ७. अग्ने आदि की वाँह या आस्तीन । ८. गोदा । पीपल का गोदा (को०) । ९. ऐंद्रिक भोग (को०) । १०. स्तनाग्र । चूचुक । कुचाग्र (को०) । ११. कर्मजन्य फल । कर्मफल (को०) ।

पिप्पलक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ स्तनमुख । चूचुक । २. सिलार्ई करने का तागा (को०) ।

पिप्पलयोग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चीन और जापान में होनेवाला एक पीषा । मोमचीना ।

विशेष—यह अब भारतवर्ष में भी फैल गया है और गढवाल, कुमाऊँ और काँगड़े की पहाड़ियों में पाया जाता है । इसके फलों के बीज के ऊपर चरबी या चिकना पदार्थ होता है जिसे चीनी मोम कहते हैं ।

पिप्पला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्राचीन नदी का नाम (को०) ।

पिप्पलाद्^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ एक ऋषि जो अथर्ववेद की एक शाखा के प्रवर्तक थे और जिनका नाम पुराणों में आया है ।

पिप्पलाद्^२—वि० [सं०] १ पीपल का गोदा खानेवाला । २. ऐंद्रिक भोगों में लीन । विषय भोग में आसक्त (को०) ।

पिप्पलाशन—वि० [सं०] 'पिप्पलाद्'^२ (को०) ।

पिप्पलि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक भ्रूषधि । विशेष द० 'पीपल'^२ (को०) ।

पिप्पली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पीपल ।

पिप्पलीका—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पीपल का छोटा पेड़ (को०) ।

पिप्पलीखड—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पिप्पलीखण्ड [वैद्यक के अनुसार प्रस्तुत एक भ्रूषधि ।

विशेष—इसकी निर्माणविधि इस प्रकार कही है—पीपल का चूर्ण ४ पल, धी ६ पल, शतमूली का रस ८ पल, चीनी दो सेर, हूष ८ सेर एक साथ पकावे, फिर पाग में इलायची, मोथा, तेजपत्ता, घनिर्या, सोठ, बशलोचन, जीरा, हड, आँवला और मिर्च ढाँसे और ठंडे होने पर ३ पल मधु भी मिला दे ।

पिप्पलीमूल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पिपरामूल । पिपलामूल ।

पिप्पल्यादिगण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सुश्रुत के अनुसार ओषधियों का एक वर्ग जिसके अंतर्गत पिप्पली, चीता, अदरक, मिर्च, इलायची, अजवायन, हद्रजी, जीरा, सरसों, वकायन, हींग, भागी, अतिविषा, वच, बिडग और कुटकी हैं।

पिप्पिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दाँतो की मूल।

पिप्पिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० पिप्पिका] एक पक्षी।

पिप्लु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. जतु मणि। २. तिल (को०)।

पिय(ु)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रिय, प्रा० पित्र] स्त्री का पति। स्वामी।
उ०—बहुरि बदन विद्यु अचल ढाँकी। पिय तन चित्त भौंह करि बाँकी। खंजन मजु तिरीछे नैननि। निज पति कहैउ तिन्हहि सिय सैननि।—तुलसी (शब्द०)।

पियक्कड^१—वि० [हि० पीना + अक्कड (प्रत्य०)] अधिक पीनेवाला। सीमा से ज्यादा पीनेवाला।

पियक्कड^२—सञ्ज्ञा पुं० शराबी। उ०—सुख भोगना लिखा होता, तो जवान बेटे चल देते, और इस पियक्कड के हाथों मेरी यह सँसत होती।—गवन, पृ० २३४।

पियड़ा(ु)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रिय, प्रा० पित्र, अप० पित्रल] प्रिय। पति। स्वामी। उ०—सती सत साचा गहै मरणौ न डराई। प्राण तजै जग देखता, पियडौ उर लाई।—दाहू, पृ० ५८५।

पियना(ु)—वि० [हि० पीना] पेय। पीने का। उ०—पूत को नित पियनी पय हूतो। आँच लगै अति उमग्यो सु तो।—नद० प्र०, पृ० २४६।

पियरी—वि० [सं० पीत] दे० 'पीयर', 'पीला'।

पियरीई—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पियर + ई (प्रत्य०)] पीलापन।

पियरवा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रिय, प्रा० पित्र, अप० पियल, हि० पियड + वा (प्रत्य०)] दे० 'पियारा'।

पियरीई—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पियर, पीयर + आई (प्रत्य०)] पीतता। पीलापन। जर्दी।

पियराना(ु)—क्रि० अ० [हि० पियर] पीला पडना। पीला होना।

पियरी(ु)—वि० स्त्री० [हि०] दे० 'पीली'।

पियरी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पियर] १. पीली रंगी हुई धोती। २. पीलापन। पीतता। उ०—डर ते मुख पियरी परि गई। ललित कपोलन पर छवि छई।—नद प्र०, पृ० २५१। ३. एक प्रकार का पीला रंग जो गाय को आम की पत्तियाँ खिलाकर उसके मूत्र से बनाया जाता है। ४. एक रोग। पीलिया।

पियरोला—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पीयर] पीले रंग की एक छोटी चिडिया जो मैना से कुछ छोटी होती है और जिसकी बोली बहुत मीठी होती है।

पियली—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० प्याली] नारियल की खोपरी का वह टुकड़ा जिसे बड़ई आदि बरमे के ऊपरी सिरे के काँटे पर इसलिये रख लेते हैं जिसमें छेद करने के लिये बरमा सहज में घूम सके।

पियल्ला^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पीना] दूधपीता बच्चा। दूध का बच्चा।
उ०—तियन को तल्ला पिय, तियन पियल्ला त्यागे ढोसत प्रबल्ला मल्ला घाए राजद्वार को।—रघुराज (शब्द०)।

पियल्ला^२—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पीयर] दे० 'पियरोला'।

पियवास—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पिय + वाँस] दे० 'पियावाँसा'।

पिया(ु)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रिय] दे० 'पिय'।

पियाज—सञ्ज्ञा पुं० [फा० प्याज] दे० 'प्याज'।

पियाजी—वि० [हि० पियाज + ई (प्रत्य०)] दे० 'प्याजी'।

पियादा—सञ्ज्ञा पुं० [फा० प्यादह, प्यादा] दे० 'प्यादा'।

पियादा(ु)—वि० [सं० पादतल, प्रा० पायदल] पैदल। जो पाँव पाँव चले। उ०—कबही सोवै भुई पियादे मँजिल गुजारी।—पलह, भा० १, पृ० १४।

पियान(ु)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रयाण] यात्रा। दे० 'प्रयाण'। उ०—(स्वामी जी) अगम अगोचर दूर पियाना मारग लप न कोई।—रामानद०, पृ० १४।

पियाना—क्रि० सं० [हि०] दे० 'पिलाना'।

पियानो—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] एक प्रकार का बड़ा अंगरेजी वाजा जो मेज के आकार का होता है।

विशेष—इसके भीतर स्वरों के लिये कई मोटे पतले तार होते हैं जिनका सवष ऊपर की पटरियों से होता है। पटरियों पर ठोकर लगने से स्वर निकलते हैं।

पियावाँसा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रिय, हि० पिय + वाँस] कटसरैया कुरबक।

पियामन—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] राजजामुन नाम का वृक्ष। वि० दे० 'राजजामुन'।

पियार^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पियाल] मझोले आकार का एक पेड़।

विशेष—देखने में यह पेड़ महुवे के पेड़ सा जान पड़ता है। भी इसके महुवे के पत्तों से मिलते जुलते होते हैं। वसत में इसमें आम की सी मजरियाँ लगती हैं जिनके झडने फालसे के बराबर गोल गोल फल लगते हैं। इन फलों मीठे गूदे की पतली तह होती है जिसके नीचे चिपटे होते हैं। इन बीजों की गिरी स्वाद में बादाम और पिस्ते समान मीठी होती है और मेवों में गिनी जाती हैं। यह चिरौजी के नाम से बिकती है। पियार के पेड़ भर के विशेषतः दक्षिण के जंगलों में होते हैं। हिमालय नीचे भी थोड़ी उँचाई तक इसके पेड़ मिलते हैं पर विशेषतः विष्णु पर्वत के जंगलों में अधिकता से पाया जाता है। इसके घड़ में चीरा लगाने से एक प्रकार का चूने गोद निकलता है जो पानी में बहुत कुछ घुल जाता है। कहीं कहीं यह गोद कपड़े में माड़ी देने के काम में आता है। छोपी इसका व्यवहार करते हैं। छाल और फल वारनिश का काम दे सकते हैं। इसकी लडकी उत्तनी मजबूत नहीं होती पर लोग उससे खिलौने, मुठिया और दरवाजे चौखट आदि भी बनाते हैं। पत्तियाँ चारे के काम में

हैं। इस वृक्ष के सबष मे यह समझ रखना चाहिए कि यह जगलो मे आपसे आप उगना है, कही लगाया नहीं जाता। इसे कहीं कही अचार भी कहते हैं।

पियारा^२—वि० [हि०] दे० 'प्यारा'।

पियारा^३—सञ्ज्ञा पुं० ३० 'प्यार'।

पियारा^४—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पलाल] दे० 'पयाल'।

पियारा^५—वि० [हि०] दे० 'प्यारा'। उ०—माई वधु श्री लोग पियारा, विनु जिय घरी न राखे पारा।—जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० २५३।

पियाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चिरौजी का पेड। विशेष ३० 'पियार'।

पियाला^६—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'प्याला'। उ०—अजब चीज खुरदनी पियाल ए मस्ता।—दादू, पृ० १०६।

पियाला—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'प्याला'।

पियावबड़ा—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार की मिठाई।

विशेष—इसके बनाने की विधि इस प्रकार है—पहले चावल को पकाकर सिल पर पीसते हैं, फिर गुलाब का अतर और पाँचो मेवे मिलाकर बडे की तरह बनाते हैं। अनतर घी मे तलकर चाशनी में डाल देते हैं।

पियासा^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'प्यास'।

पियासा^२—वि० [हि० पियास] दे० 'प्यासा'। उ०—जैसे कौवल सुरज कै आसा। नीर कठ लहि मरे पियासा।—जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० २७२।

पियासाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीतसाल, प्रियसालक] बहेडे या अर्जुन की जाति का एक बडा पेड।

विशेष—यह भारतवर्ष के जगलो मे प्राय सर्वत्र होता है। इसके पत्ते बहेडे के पत्तो के समान चौड़े चौड़े होते हैं जो शिशिर ऋतु में झड जाते हैं। फल भी बहेडे के समान होते हैं और कही कही चमडा सिझाने के काम में आते हैं। लकडी इसकी मजबूत होती है और मकानों में लगती है। गाडी, नाव और मूसल आदि भी इस लकडी के अच्छे होते हैं। इसकी छाल से पीला रग बनता है। रग के अतिरिक्त छाल दवा के काम में आती है। लाख भी इसमें लगता है। छोटा नागपुर और सिंहभूमि के आसपास टसर के कोए पियासाल के पेडो पर पाले जाते हैं। वैद्यक में पियासाल कोड, विसर्प, प्रमेह, कृमि, कफ और रक्तपित्त को दूर करनेवाला तथा त्वचा और केशो को हितकारी माना गया है। इसे सज भी कहते हैं।

पर्या०—पीतसार। पीतसालक। प्रियक। असन। पीतशाल। महासर्ज।

पियासी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] एक तरह की मछली।

पियुख^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीयूष] दे० 'पीयूष'। उ०—पियुख पयोधि मद्ध मनिन सौं बद्ध भूमि रोष सौं रुधिर रुचि रोचक रवन मे।—मति० ग्र०, पृ० ३३७।

पियुख^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीयूष] दे० 'पीयूष'।

पियूष^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीयूष] दे० 'पीयूष'।

पियूषभानु^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीयूषभानु] चंद्रमा। पीयूषभानु। उ०—तीछन जुन्हाई भई ग्रीपम को घामु, भयो भीपम पियूष-भानु भानु दुपहर को।—मति० ग्र०, पृ० ३०३।

पिरंनि^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणी, हि० परानी] प्राणी। जीव। उ०—दाहू पसु पिरनि के, येही मझि कलुव। बैठो आहे विच में पाणजो महवुव।—दादू, पृ० ६०।

पिरकी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिटिका, पिडक, पिडका] फोडिया। फुसी।

यौ०—पिरकी पाका^१ = फोडा फुसी।

पिरतमा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रियतम] दे० 'प्रियतम'। उ०—बलाय जाऊं में तो चरण ऊपर सूं। महवुव साहेव तू ही पिरतम तुम बाज नहीं।—दक्खिनी, पृ० १२६।

पिरसा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पट्ट या हि० पेरना (= दवाना) ?] काठ या पत्थर का टुकडा जिसपर रूई की पूनी रखकर दवाते हैं।

पिरथम^१—वि० [सं० प्रथम] दे० 'प्रथम'। उ०—तामु कला पिरथम सुन्न आई।—कवीर सा०, पृ० ६१।

पिरथिमी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पृथिवी] दे० 'पृथ्वी'। उ०—सब पिरथिमी असीसइ जोरि जोरि कै हाथ।—जायसी ग्र० (गुप्त) प० १३०।

पिरथी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पृथिवी, पुं० हिं० पृथी] दे० 'पृथ्वी'। उ०—पिरथी पवन के बीच पानी। दरमियान मे तेज ककोलता है।—कवीर० दे०, पृ० २६।

पिरथीनाथ^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० यिरथी+सं० नाथ] दे० 'पृथ्वीनाथ'।

पिरना^१—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] चौपायो का लंगडापन।

पिरभू^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रभु] ईश्वर। प्रभु। स्वामी। उ०—परतप ही दीसरे प्राणी, परभू भजण तरणो परताप।—रघु० रू० पृ० २३।

पिरम्म^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रेम, हिं० पिरेमा] दे० 'प्रेम'। उ०—जो तुहि साध पिरम्म की सीस काटि करि गोइ। खेलत खेलत हाल करि जो किछु होइ त होइ।—कवीर ग्र०, पृ० २५४।

पिराई^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पीला, पीरा] दे० 'पियराई'। उ०—यों उजराई, पिराई, ललाई, मलाई हूँ कै न मुलायमी है तन।—(शब्द०)।

पिराक^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिष्टक, प्रा० पिष्टक, पिडक] एक पकवान। गोम्हा। गुम्भिया। गोम्भिया।

विशेष—इसको बनाने की विधि यह है कि मोयन दिए हुए मैदे की पतली लोई के भीतर सूजी, खोना, मेवे आदि भीठे के साथ भरते हैं और उसे अर्धचंद्राकार मोडकर कोर को गूँथ देते हैं फिर उसे घी में तलकर निकाल लेते हैं।

पिरागा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रयाग] दे० 'प्रयाग'। उ०—जैसे कासी

कुरखेत मथुरा पिराग हेत, जात है जगत सब काटन को पाप
जु ।—सु दर ग्र० (जी०), भा० १, पृ० १६६ ।

पिरान^७—सज्ञा पुं० [सं० प्राण्य] दे० 'प्राण्य' । उ०—नाहिन चले
पिरान, सो उपाय कीजै जु किन ।—ब्रज० ग्र०, पृ० ४ ।

पिराना^७—क्रि० अ० [सं० पीडन] १ पीडित होना । दर्द
करना । दुखना । उ०—चलत चलत पग पांय पिराने ।—
सूर (शब्द०) । २ पीडा अनुभव करना । दुख समझना ।
सहानुभूति करना । उ०—सेइ साधु सुनि समुक्ति कै पर पीर
पिरातो ।—तुलसी (शब्द०) ।

पिरामिड—सज्ञा पुं० [अ०] दे० 'पीरामिड' ।

पिरारा^७—सज्ञा पुं० [देश०] दे० 'पिडारा' । उ०—रूप रस रासि
पास पथिक । पिरारे ऐन नैन ये तिहारे ठग ठाकुर मदन
के ।—रघुनाथ (शब्द०) ।

पिरावना^७—क्रि० स० [हिं० पेराना] पेरना । पेरवाना । उ०—
पुष्प तिली सगम जब कीन्हा । कोल्हू माहि पिरावन लीन्हा ।
—कबीर सा०, पृ० २८२ ।

पिरावनी—वि० [हिं० पिराना] पीडा देनेवाली । कष्टकर ।
उ०—कबीर पीर पिरावनी पजर पीड न जाइ । एक न पीड
परीत की रही कलेजा छाइ ।—कबीर ग्र०, पृ० ८ ।

पिरिचां—सज्ञा पुं० [देश०] कटोरा । तश्तरी ।

पिरिथिमी—सज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पृथ्वी' । उ०—सोने फूल
पिरिथिमी फूली ।—जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० ३५० ।

पिरियां^१—सज्ञा पुं० [देश०] १, कुएँ से पानी निकालने का रूँट ।
२ एक प्रकार का बाजरा ।

पिरिया^७—सज्ञा स्त्री० [हिं० पीड़ी] पीड़ी । पुस्त । उ०—
पिरिया सहित सासरो पीहर, तारे खावद आप तारे ।—
रघु० रू०, पृ० १०२ ।

पिरो^७—सज्ञा पुं० [हिं०] 'प्रिय' । उ०—अठे पहर अरस में,
बैठा पिरि पसनि । दाहू पसे तिनके जे दीदार लहनि ।—
दाहू०, पृ० १२६ ।

पिरीत^७—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रीति] दे० 'प्रीति' । उ०—कीन्हेसि
प्रथम जोति परकासु । कीन्हेसि तेहि पिरीत कंलासु ।—
जायसी ग्र०, पृ० १ ।

पिरीतम^७—सज्ञा पुं० [सं० प्रियतम] दे० 'प्रियतम' । उ०—भल
तुम्ह सुवा कीन्ह है फेरा । गाळ न जाइ पिरीतम केरा ।—
जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० २७२ ।

पिरीता^७—वि० [सं० प्रीत (= प्रसन्न)] प्रिय । प्यारा । उ०—
हा रघुनदन प्रान पिरीते । तुम विनु जियत बहुत दिन
बीते ।—तुलसी (शब्द०) ।

पिरीति, पिरीती^७—सज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'प्रीति' । उ०—पीउ
सेवाति सो जैस पिरीती । टेकु पियास बांधु जिय थीती ।—
जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० ३५४ ।

पिरोज—सज्ञा पुं० [फा० फीरोज ?] कटोरा । तश्तरी ।

पिरोजन^१—सज्ञा पुं० [हिं० पिरोना या म० प्रयोजन] बालक के क
छेदने की रीति । कनछेदन ।

पिरोजना^२—सज्ञा पुं० [सं० प्रयोजन] दे० 'प्रयोजन' ।

पिरोजा—सज्ञा पुं० [फा० फीरोजा] हरापन लिए एक प्रकार
नीला पत्थर । दे० 'फीरोजा' । उ०—मानिक मरकत कुलि
पिरोजा । चीर कोर पचि रचे सरोजा ।—मानस, १।२८८

पिरोड़ा—सज्ञा स्त्री० [देश०] पीली कडी मिट्टी की भूमि ।

पिरोना—क्रि० स० [सं० प्रोत प्रा० पोहना, पोश् + ना (प्रत्य०)
१ छेद के सहारे सूत तागे आदि में फँसाना । सूत तागे आ
में पहनाना । गूयना । पोहना । जैसे, तागे में मोती पिरोना
माला पिरोना । २ सूत तागे आदि को किसी छेद के आ
पार निकालना । तागे आदि को छेद में डालना । जैसे,
मे तागा पिरोना ।

संयो०—देना ।—लेना ।

पिरोला—सज्ञा पुं० [हिं० पीला] पियरोला पक्षी ।

पिरोहनां^१—क्रि० स० [हिं०] दे० 'पिरोना' ।

पिथेमी, पिथेवी—सज्ञा स्त्री० [सं० पृथिवी] दे० 'पृथ्वी' । उ०
पाखंड की यह पिथेमी, परपंच का ससार ।—सतवा
पृ० ६४ । (ख) सात दीप नव खड पिथेवी सात स
समाना ।—जग० श०, पृ० ७६ ।

पिल—सज्ञा स्त्री० [अ०] (दवा की) गोली । बटी । जैसे, क्वि
इन पिल । टानिक पिल ।

पिलईं^१—सज्ञा स्त्री० [सं० प्लीहा] बरबट । तापतिल्ली ।

पिलईं^२—सज्ञा स्त्री० [हिं० पिल्ला] कुत्ते की मादा सतति ।

पिलक—सज्ञा पुं० [हिं० पीला] १ पीले रंग की एक चिड़िया
मैना से कुछ छोटी होती है और जिसका कठ स्वर द
मधुर होता है । यह ऊँचे पेड़ों पर घूमला बनाती है ।
तीन या चार अडे देती है । पियरोला । जर्दक । २ अद
कवृत्तर ।

पिलकना^१—क्रि० स० [सं० + पिल (= प्रेरित करना)]
गिराना । २ लुढ़काना । ढकेलना ।

पिलकनां^२—क्रि० अ० [हिं० पिलकना] चिढ़ना । खीरुना ।

पिलकां^३—सज्ञा स्त्री० [हिं० पिडली] दे० 'पिडली' ।

पिलकिया—सज्ञा पुं० [देश०] पीलापन लिए खाकी रंग की
छोटी चिड़िया जो जाड़े के दिनों में पजाब से आसाम
दिखाई देती है । यह चट्टानों के नीचे बच्चे देती है ।

पिलखन—सज्ञा पुं० [सं० प्लख] पाकर का पेड़ ।

पिलच^७—सज्ञा पुं० [हिं० पिलना] पिलने का भाव । पिल पडन
मुहा०—पिलच पडना = एकाएक आक्रमण कर देना ।
पडना । उ०—वन्तो-ना हुजूर, लौडी न जाने की । में
पीछे पड जायगी और पिलच पडेगी । बदी दरगुजरी ।—
कु०, पृ० ३० ।

पिलचना—क्रि० अ० [सं० पिल (= प्रेरणा)] १. दो ८

का खूब भिडना । गुयना । लिपटना । २. (किसी काम आदि में) खूब लग जाना । तत्पर होना । लीन होना ।

पिलड़ी—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] कीमा । मसालेदार कीमा ।

पिलना—क्रि० अ० [सं० पिल (= प्रेरणा)] १ किसी ओर एक-बारगी दूट पडना । ढल पडना । झुक पडना । घँस पडना । जैसे,—सब लोग उस मंदिर में पिल पडे ।

सयो० क्रि०—पडना ।

मुहा०—पिल पडना = एकाएक आक्रमण कर देना । जत्या बनाकर दूट पडना ।

२ एकबारगी प्रवृत्त होना । एकबारगी लग जाना । लिपट जाना । भिड जाना । जैसे, किसी काम में पिल पडना । ३ पेरा जाना तेल निकालने के लिए दबाया जाना ।

सयो० क्रि०—जाना ।

पिलपिला—वि० [हि०] दे० 'पिलापिला' ।

पिलपिला—वि० [अनु०] इतना नरम और ढीला कि दवाने से भीतर का रस या गूदा बाहर निकलने लगे । भीतर से गीला और नरम । जैसे,—(क) आम पककर पिलपिला हो गया है । (ख) फोड़ा पिलपिला हो गया है ।

पिलपिलाना—क्रि० स० [हि० पिलपिला] भीतर से रसदार या गूदेदार वस्तु को दवाना जिससे रसा या गूदा ढीला होकर बाहर निकलने लगे ।—जैसे,—(क) आम को पिलपिलाओ मत । (ख) फोड़े को पिलपिलाने से मवाद आता है ।

सयो० क्रि०—डालना ।—देना ।

पिलपिलाइट—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पिलपिला] दबकर गूदे या रस के ढीले होने के कारण आई हुई नरमी ।

पिलपित्त^(५)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पील] पीलवान । महावत । उ०—घर-घर हीहि पिलपित्त जोर ।—पृ० रा०, २५।२३० ।

पिलवान^(५)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पील] दे० 'पीलवान' । उ०—पिलवान हलै करि पील गिरै । कलसा मनो देवल के विहरे ।—पृ० रा०, २५।१६३ ।

पिलवाना^१—क्रि० स० [हि० पिलाना का प्र०रूप] पिलाने का काम कराना । दूसरे को पिलाने में लगाना । जैसे,—थोड़ा पानी पिलवा दो ।

सयो० क्रि०—देना ।

पिलवाना—क्रि० स० [हि० पेलना] पेलने या पेरने का काम कराना । पेरवाना । जैसे, कोल्हू में पिलवाना ।

पिला^(५)—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] दे० 'पिडली' । उ०—सथल तले पिला ले दीनी ।—प्राण०, पृ० २४ ।

पिलाना—क्रि० स० [हि० पीना] १ पीने का काम कराना । जैसे,—तुम्हें जबरदस्ती दवा पिलाएँगे । २ पीने को देना । जैसे, पानी पिलाओ ।

सयो० क्रि०—देना ।

३. किसी छेद में डाल देना । भीतर भरना । जैसे, (क) कान

में सीसा पिलाना (ख) दीवार के दरारों में सीसा या राँगा पिलाना (ग) यह छड़ी इतनी भारी है मानो भीतर लोहा पिलाया है ।

मुहा०—(कोई बात) पिलाना = कान में भरना । मन में बैठा देना । जी में जमाना ।

पिलास—सञ्ज्ञा पुं० [अ० प्लास] एक प्रकार का औजार जो तार को मोड़ने, काटने, ँठने तथा छोटी मोटी चीजों को पकड़कर उठाने के काम आता है । सँडसी ।

पिलुंदा—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पुलिंदा' ।

पिलु, पिलुक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पीलू का पेड़ ।

पिलुनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] मूर्वा ।

पिलुपर्णी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] मूर्वा ।

पिलौघा^(५)—वि० [हि० पिल + औघा (प्रत्य०) = लौंदा] पिलपिला । पिचपिचा । उ०—चटि के पडते ही पिलौघा हुआ ।—कुकुर०, पृ० ४३ ।

पिल्ला—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक नेत्ररोग जिसमें आँखों से थोड़ा थोड़ा कीचड़ बहा करता है और वे चिपचिपाती रहती हैं । २ आँख जिसमें पिल्ला रोग हुआ हो (को०) । ३ उक्त रोगग्रस्त प्राणी (को०) ।

पिल्लका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] हस्तिनी । हथिनी ।

पिल्लना^(५)—क्रि० अ० [हि०] दे० 'पिलना' । उ०—लखी फौज चदेल की वीर पिल्ले ।—प० रासो, पृ० ८२ ।

पिल्ला—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] कुत्ते का बच्चा ।

पिल्लू—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीलू (= कुमि)] बिना पैर का सफेद लवा कीड़ा जो सड़े हुए फल या घाव आदि में देखा जाता है । ढोला ।

पिव^(५)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रिय] दे० पिय ।

पिवना^(५)—क्रि० स० [हि०] दे० 'पीना' । उ०—तरनि ताप तल-फत चकोर गति पिवत पियूष पराग ।—सूर०, १०।१७७७ ।

पिवनी^(५)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पिउनी' । उ०—पिवनी नहँद कात सूत ले जुलहा बूनी ।—पलदू०, पृ० ३८ ।

पिवाना—क्रि० स० [हि०] दे० 'पिलाना' ।

पिवास^(५)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिपासा] प्यास । तृषा ।

पिशग^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिशङ्ग] पीलापन लिए भूरा रंग । धूमल रंग ।

पिशंग—वि० उक्त रंग का । भूरे रंग का ।

पिशंगक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिशङ्गक] १ विष्णु । २ विष्णु का अनुचर (को०) ।

पिशंगिला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिशङ्गिला] कास्य । काँसा ।

पिशंगी—वि० [सं० पिशङ्गिन्] १ बादामी रंग का । २ भूरा (को०) ।

पिश—वि० [सं०] १ पापरहित । पापमुक्त । २ अनेक रूप का । बहुरूपी (को०) ।

पिशाच—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० पिशाची] १ एक हीन देव-
योनि । भूत ।

विशेष—यक्षी और राक्षसों से पिशाच हीन कोटि के कहे गए हैं
और इनका स्थान मरुस्थल बताया गया है । ये बहुत अशुचि
और गंदे कहे गए हैं । युद्धक्षेत्रों आदि में इनके वीभत्स
काडों का वर्णन कवि लोगो ने किया है, जैसे खोपड़ी में रक्त
पीना आदि ।

२. प्रेत (को०) । ३. अत्यंत क्रूर और दुष्ट व्यक्ति (को०) ।

पिशाचक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भूत । पिशाच ।

पिशाचकी—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पिशाचकिन्त्र] कुबेर ।

पिशाचक्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सिहोर का पेड़ । शाखोट वृक्ष ।

पिशाचगृहोत्तक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पिशाच से पीडित । प्रेतवाधा से
आक्रांत (को०) ।

पिशाचघ्न^१—वि० [सं०] पिशाचों को नष्ट या दूर करनेवाला ।

पिशाचघ्न^२—सञ्ज्ञा पुं० पीली सरसों ।

विशेष—प्रेत उतारनेवाले श्रोत्रा प्राय पीली सरसों फेरते हैं ।
और उसी से काम लेते हैं ।

पिशाचचर्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] श्मशान सेवन । जैसे शिव जी करते हैं ।

पिशाचता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पिशाचत्व' (को०) ।

पिशाचत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पिशाच होने का भाव । २.
क्रूरता (को०) ।

पिशाचदोषिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पिशाचों का दीया । एक मिथ्या
ज्योति । लुकारी । लुक जो रात को घने अंधकार में दिखाई
देती है (को०) ।

पिशाचद्रु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शाखोट वृक्ष । पिशाच वृक्ष (को०) ।

पिशाचपति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पिशाचों के स्वामी शिव (को०) ।

पिशाचवाधा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पिशाच द्वारा जन्य या प्राप्त पीड़ा ।
प्रेतवाधा (को०) ।

पिशाचभाषा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पैशाची' (को०) ।

पिशाचमोचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रेतवाधा से मुक्ति । पिशाचों से
मुक्ति । २ एक तीर्थ । ३ काशी का एक प्रसिद्ध तीर्थ ।

पिशाचवदन—वि० [सं०] राक्षस की तरह मुँहवाला (को०) ।

पिशाचवृक्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शाखोट वृक्ष । सिहोर का पेड़ ।

पिशाचसचार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पिशाचसञ्चार] प्रेतवाधा (को०) ।

पिशाचागना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पिशाचाङ्गना] पिशाची (को०) ।

पिशाचालय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अंधकारयुक्त वह स्थान जहाँ बिना
आग जले प्रकाश की लुक दिखाई पड़े (को०) ।

पिशाचिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ छोटी जटामासी । २ पिशाची ।

पिशाचो—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. पिशाच स्त्री । २ जटामासी ।

पिशिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बृहत्सहिता में वर्णित एक देश का नाम ।

पिशित—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. मास । गोबर । २ छोटा टुकड़ा या
हिस्सा (को०) ।

यौ०—पिशिताश, पिशिताशी, पिशितभुक् = दे० 'पिशिताशन' ।
पिशितपिंड = मासखट । मास का टुकड़ा ।

पिशिताशन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ राक्षस । प्रेत । २. नरभक्षी । ३.
भेडिया (को०) ।

पिशो—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] जटामासी ।

पिशोल, पिशीलक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मिट्टी का प्याला या कटोरा ।
(शतपथ ब्राह्मण) ।

पिशुन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ एक की बुराई दूसरे से करके भेद डालने-
वाला । चुगलखोर । इधर की उधर लगानेवाला । दुर्जन ।
खल । उ०—इसे पिशुन जान तू, सुन सुभाषिणी है बनी ।
'धरो' खगि, किसे धरूँ ? धृति लिए गए हैं धनी ।—साकेत,
पृ० २५६ । २ कुकुम । केसर । ३ कपिवक्त्र । नारद ।
४ काक । कौआ । ५ तगर । ६ कपास । ७. एक प्रेत
जो गर्भवती स्त्रियों को कष्ट पहुँचाता है (को०) । ८ प्रवृत्त
करना । धोखा देना ।

पिशुन^२—वि० १ परस्पर भेद डालनेवाला । सूचक । २ चुगली
करनेवाला । प्रवचक । धोखेबाज । ३ क्रूर । निर्मय । निर्दय ।
नीच । निम्न । ४ मूर्ख (को०) ।

यौ०—पिशुनवचन, पिशुनवाक्य = चुगली ।

पिशुनता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] चुगलखोरी ।

पिशुना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] असवर्ग । पुक्का ।

पिशोन्माद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का उन्माद या पागलपन ।
विशेष—इसमें रोगी प्राय ऊपर को हाथ उठाए रहता है, अधिक
बकता और भोजन करता है, रोता तथा गदा रहता है ।

पिशोर—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] हिमालय की एक भाड़ी जिसकी टहनियों
से बोक वाँधते हैं और टोकरे आदि बनाते हैं । † पेशावर ।

पिशवाज—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पिशवाज] नृत्य के समय पहना जानेवाला
लहंगा । पेशवाज (को०) ।

पिष्ट^१—वि० [सं०] १ पिसा हुआ । चूर्ण किया हुआ । २ निचोड़ा
हुआ (को०) । ३ गुँधा हुआ आटा आदि (को०) ।

पिष्ट^२—सञ्ज्ञा पुं० १ पानी के साथ पीसा हुआ अन्न, विशेषतः दाल ।
पीठी । पिट्टी । २ कचौरी या पूआ । रोटी । ३ सीसा
घातु (को०) ।

पिष्टक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पिष्ट । पीठी । पिट्टी । २ कचौरी या
पूआ । रोटी । ३ एक नेत्ररोग । फूला । फूली । ४ विशेष
प्रकार का अस्थिभंग (सुक्षुत) । ५ सीसा घातु ।

पिष्टपचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कडाही या तावा (को०) ।

पिष्टप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] लोक । भुवन ।

पिष्टपशु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पिसे हुए आटे का बना पुतला (को०) ।

पिष्टयाचक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कडाही ।

पिष्टपिंड—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पिष्टपिण्ड] रोटी । प्रगाकरी । वाटी (को०) ।

पिष्टपूर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक मिठाई । मृतपूर (को०) ।

पिष्टपेष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पिष्टपेषण' ।
पिष्टपेषण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पिसे हुए को पीसना । २ कही बात को फिर फिर कहना ।

पिष्टपेषणन्याय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का न्याय । विशेष—दे० 'न्याय' ।

पिष्टप्रमेह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का प्रमेह जिसमें चावल के पानी के समान पदार्थ मूत्र के साथ गिरता है ।

पिष्टमेह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पिष्टप्रमेह' ।

पिष्टवर्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पीठी । मूँग, मसूर, चावल आदि को पीसकर बनाई हुई पीठी या लोई [को०] ।

पिष्टसौरभ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चदन जिसे पीसने से सुगंध निकलती है ।

पिष्टात—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वस्त्रादि को सुगंधित करने का चूर्ण । गुलाल । अवीर । बुक्का ।

पिष्टातक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] द० पिष्टात ।

पिष्टाद्—वि० [सं०] पीठी या आटा खानेवाला [को०] ।

पिष्टान्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पिसे हुए अन्नचूर्ण से निर्मित वस्तु ।

पिष्टालिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] चदन ।

पिष्टि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] चूर्ण । आटा [को०] ।

पिष्टिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ चावलों से बनाई हुई तवासीर या बसलोचन । २ पिसे हुए चावल का जल [को०] ।

पिष्टोढी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] श्वेताम्बी का पीषा ।

पिष्टोद्घ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पीसे हुए चावल का घोल या पानी [को०] ।

पिष्वना—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रोक्षण, प्रा० पिप्पन] दे० 'पेखना' । उ०—स्याम रंग पिप्पहि न घटा घनघोर गरज्जत ।—पृ० रा०, २ । ३४६ ।

पिसंग—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पिशग' ।

पिसद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मोतिला पुत्र [को०] ।

पिसण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पिशुन] शत्रु । दुश्मन । उ०—पिसण मार मुत्त पिसण री, असमक्क लियो उवार ।—वांकी० ग्र०, पृ० ६० ।

पिसतावा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पश्चात्ताप] पश्चात्ताप । पछतावा । उ०—जद करसी पिसतावो जमरा, पूत फिरसा दोला ।—रघु० रू०, पृ० २७ ।

पिसनहरिया, पिसनहरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पीसना] १ दे० 'पिसनहारी' । २ आटा आदि पीसने का स्थान ।

पिसनहारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पीसना + हारी (प्रत्य०)] आटा पीसनेवाली । वह स्त्री जिसकी जीविका आटा पीसने से चलती हो ।

पिसना—क्रि० अ० [हि० पीसना] १ रगड़ या दबाव से टूटकर महीन टुकड़ों में होना । दाब या रगड़ खाकर सूक्ष्म खंडों में विभक्त होना । चूर्ण होना । चूर होकर धूल सा हो जाना । जैसे, गेहूँ पिसना, मसाला पिसना ।

सयो० क्रि०—जाना ।

२ पिसकर तैयार होनेवाली वस्तु का तैयार होना । जैसे, आटा पिसना, पिट्टी पिसना ।

सयो० क्रि०—जाना ।

३ दब जाना । कुचल जाना । जैसे,—पहिए के नीचे पैर पड़ेगा तो पिस जायगा ।

सयो० क्रि०—उठना ।—जाना ।

४ घोर तप, दुःख या हार्नि उठाना । पीड़ित होना । जैसे,—
(न) एक दुष्ट के माय न जाने कितने निरपराध पिस गए ।
(ख) महाजन के दिजाने मे न जाने कितने गीव पिस गए ।

सयो० क्रि०—जाना ।

५ परिश्रम से प्रत्यत दवात होना । अत्यत श्रम एव प्राप्त होता । शक प्रेम होना ।

पिसना—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पीसना] पीसना । पीसी जानेवाली चीज गेहूँ आदि । उ०—पिसना पीस नंडरी पिस पिस वने पुनार ।—पद्म भा० १, २० १७ ।

पिसमान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दिखलाई पड़ता हुआ । दृश्यमान । दृग्गोचर । उ०—उग यह मृष्टि वीह पिसमाना ।—बवीर सा०, पृ० ५६६ ।

पिसर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुत्र । आत्मज । बेटा । लड़का । उ०—दिया था सुदा उसको मव कुछ मगर । बले सस्त मुहताज था विन पिसर ।—दक्खिनी०, पृ० १३६ ।

पिसर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुत्र । आत्मज । बेटा । लड़का । उ०—दिया था सुदा उसको मव कुछ मगर । बले सस्त मुहताज था विन पिसर ।—दक्खिनी०, पृ० १३६ ।

पिसराज—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पुत्र का पुत्र । पिसरखादा, पिसर ए सुतयन्ना = दत्तक पुत्र । गोद लिया बेटा ।

पिसवाज—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पिशवाज] दे० 'पेशवाज' ।

पिसवाना—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पीसना का प्रेरणार्थक रूप] पीसने का काम कराना ।

पिसाई—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पीसना] १ पीसने की क्रिया या भाव । २ पीसने का काम या व्यवसाय । ३ चक्की पीसने का काम । आटा पीसने का धधा । जैसे,—वह पिसाई करके अपना पेट पालती है । ४ पीसने की मजदूरी । ५ अत्यत अधिक श्रम । बड़ी बड़ी मिहनत । जैसे,—वहाँ नौकरी करना बड़ी पिसाई है ।

पिसाच—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पिशाच] दे० 'पिशाच' । उ०—भरे कुडनि रुधिर रन रुडनि की रासि भर्षे मास खग जवुक पिसाच समुदाई ।—हमीर० पृ० ५७ ।

पिसाचर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पिशाचर + हि० (प्रत्य०)] पिशाच । निशाचर । उ०—ये सब मृत्यु अकाल दिखाई । मुए सु योनि पिशाचर पाई ।—सहजो० पृ० ३४ ।

पिसाना—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पिष्टान्न, या हि० पिसना, पिसा + अन्न] अन्न का बारीक पिसा हुआ चूर्ण । धूल की तरह पिसी हुई अनाज की बुकनी । आटा ।

मुहा०—पिसान होना = दबकर चूर होना ।

पिसाना—क्रि० अ० [हि० पीसना का प्रेरणार्थक रूप] दे० 'पिसवाना' ।

पिसाना—क्रि० अ० [हि०] दे० 'पिसना' ।

पिसानी^(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पेशानी' । उ०—चढे ते कुमति चकताहू की पिसानी में ।—भूषण प्र०, पृ० १०३ ।

पिसावनि^(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पिसना] पीसने का काम । पीसने की क्रिया । उ०—सती पिसावनि ना करे पीसि खाय सो रांड । साधू जन मांगे नही मांगि खाय सो सांड ।—स० दरिया, पृ० १८३ ।

पिसियां—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पिसना] १. एक प्रकार का छोटा और मुलायम लाल गेहूँ । २. वह जो पीसने का काम करता हो । ३. पीसने का काम ।

पिसी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पिसना] गेहूँ ।

पिसो^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पितृस्वसृ] पिता की बहन । कूघ्रा (बग-भाषा में प्रयुक्त) ।

पिसुन^(७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिथुन] दे० 'पिथुन' । उ०—गात सरो-वर पच वग प्रान हस उर्हि वारि । पिसुन वचन किए व्याधि विधि दीनो सकल विडारि ।—माघशाल०, पृ० २१४ ।

पिसुराई—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] सरकडे का एक छोटा टुकड़ा जिसपर रुई लपेटकर पूती बनाते हैं ।

पिसेरा—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का हिरन ।

विशेष—इसके ऊपर का हिस्सा भूरा और नीचे का काला होता है । इसकी ऊँचाई एक फुट और लंबाई दो फुट होती है । यह दक्षिण भारत में पाया जाता है । यह बड़ा डरपोक होता है और सुगमता से पाला जा सकता है । यह पत्थरो की आड में रहता है और दिन को बाहर कहीं नहीं निकलता ।

पिसौनी^(१)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पिसना] १. पीसने का काम । चक्की पीसने का धधा । २. बटिन काम । परिश्रम का काम । ३. पीसने की मञ्जरी । पिसाई ।

पिस्त—सञ्ज्ञा पुं० [फ्रा०] सत्तू । मवतु [को०] ।

पिस्तई—वि० [फ्रा० पिस्तई] पिस्ते के रंग का । पीलापन लिए हरा ।

पिस्तरना^(७)—क्रि० सं० [सं० प्रस्तारण] प्रसार करना । फैलाना । उ०—दुज सुमन डसिय बुव पवद रस, वट विलाम गुन पिस्तरिय ।—पृ० रा०, १।४।

पिस्ता^(१)—सञ्ज्ञा स्त्री० [फ्रा० पिस्तान] स्तन । कुच । वक्षोज [को०] ।

पिस्ता—सञ्ज्ञा पुं० [फ्रा० पिस्तई] काकड़ा की जाति का एक छोटा पेड़ और उसका फल जो एक प्रसिद्ध मेवा है ।

विशेष—इसका पेड़ शाम, दमिश्क और खुरासान से लेकर अफगानिस्तान तक थोड़ा बहुत होता है और इसके फल की गिरी अच्छे मेवों में है । इसके पत्ते गुलचीनी के पत्तों के से चौड़े चौड़े होते हैं और एक सीक में तीन तीन लगे रहते हैं । पत्तों पर नसें बहुत स्पष्ट होती हैं । फल देखने में महुवे के से लगते हैं । रूमी मस्तगी के समान एक प्रकार का गोद इस पेड़ से भी निकलता है । पिस्ते के पत्तों पर भी

काकड़ासींगी के समान एक प्रकार की लाही सी जमती है जो विशेषतः रेशम की रंगाई में काम आती है । पिस्ते के बीज से तेल भी बहुत सा निकलता है जो दवा के काम में आता है ।

पिस्तौल—सञ्ज्ञा स्त्री० [फ्रा० पिस्तल] तमचा । छोटी बटूक ।

पिस्त्र—सञ्ज्ञा पुं० [फ्रा० पिस्त्रसर] बटा । पुत्र । उ०—हक ने अपना फजल जब उस पर किया । यक पिस्त्र मकदूल तब उसकू दिया ।—दक्खिनी०, पृ० ३६३ ।

पिस्ती^(१)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पिसना] एक प्रकार का गेहूँ ।

पिस्तू—सञ्ज्ञा पुं० [फ्रा० पश्शह] एक छोटा उडनेवाला कीड़ा जो मच्छड़ों की तरह काटता और रक्त पीता है । कुटकी ।

पिहक—सञ्ज्ञा स्त्री० [अनु०] दे० 'पिहकनी' ।

पिहकना—क्रि० घ० [अनु०] कोयल, पपीहे, मोर आदि सुदूर कठवाले पक्षियों का बोलना ।

पिहकनि^(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [अनु०] पिहकने की क्रिया या भाव ।

पिहरा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पिहान] पत्ती जो पास के ऊपर बिछाई जाती है । (कुम्हार) ।

पिहाना^(१)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिधान, प्रा० पिहाण] वर्तन का ढक्कन । ढकना । ढाँकने की वस्तु । आच्छादन ।

पिहानी^(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिधानिका] दे० 'पिहान' । उ०—आलस, अनखं न आचरज, प्रेम पिहानी जानु ।—तुलसी० प्र०, पृ० १३६ ।

पिहिकना^(१)—क्रि० सं० [हि० अनु०] दे० 'पिहकना' । उ०—गिरिवर पिहिकत मोर भीगुर, कनकरेव ।—स० दरिया, पृ० ८८ ।

पिहित^१—वि० [सं०] छिपा हुआ ।

पिहित^२—सञ्ज्ञा पुं० एक अर्थालंकार जिसमें किसी के मन का कोई भाव जानकर क्रिया द्वारा अपना भाव प्रकट करना वर्णन किया जाय । जैसे,—गैर मिसिल ठाढ़ी शिवा अतरजामी नाम । प्रकट करी रिस साहू को, सरजा करि न सलाम । (यहाँ शिवाजी ने औरंगजेब का उपेक्षाभाव जानकर उसे सलाम न कर अपना क्रोध प्रकट किया ।)

पिहुवा^(१)—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक पक्षी ।

पिहोली—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक पौधा जो मध्यप्रदेश और वरार से लेकर बवाई के आसपास तक होता है । यह पान के बीजों में लगाया जाता है । इसकी पत्तियों से बड़ी अच्छी सुगंध निकलती है । इन पत्तियों से इत्र बनाया जाता है, जो पचौली के नाम से प्रसिद्ध है । दे० 'पचौली' ।

पींगा^(१)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पेंग' ।

पींगाली^(१)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिङ्गल (= छंद) ?] भैरव राग के एक पुत्र का नाम । उ०—पींगाली मधु माधो गाव ।—माधवानल०, पृ० १६३ ।

पीजण^(७)—क्रि० सं०, [सं० पिञ्जन] दे० 'पीजना' । उ०—रूह

रुई पीजण के कारण, आपन राम पठाया।—सु दर ग्र०, भा० २, पृ० ८६६।

पीजन—सज्ञा पुं० [सं० पिञ्जन] रुई धुनने की क्रिया।

पीजना—क्रि० सं० [सं० पिञ्जन (= धुनकी)] रुई धुनना।
उ०—चिह्न चक्क हक्क घर घरहरत, पिसुन पीजि किञ्जय नरम।—पृ० रा०, ३।५५।

पीजर(पु)†—सज्ञा पुं० [सं० पिञ्जर] दे० 'पिजडा' या 'पजर'।

पीजरा(पु)†—सज्ञा पुं० [सं० पिञ्जर] दे० 'पिजडा'।

पीडा†—सज्ञा पुं० [सं० पियड] १ शरीर। देह। पिड। उ०—
बिन जिव पीड छार करि कूरा। छार मिलावड सो हित पूरा।—जायसी (शब्द०)। २ वृक्ष का घड। वृक्ष देह। तना। पेडी। उ०—कटहर डार पीड सो पाके। वडहर सोउ अनूप भति ताके।—जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० १३८। ३ किसी गीली वस्तु का गोला। पिड। पिडी। ४ कोल्हू के चारो ओर गीली मिट्टी का बनाया हुआ घेरा जिसमें मे ईख की अगारियाँ या छोटे टुकड़े छटककर बाहर नहीं निकलने पाते। ५ चरखे का मध्य भाग। बेलन। ६ शिरोभूषण। ७ 'पीड'। उ०—(क) शिखी की भाँति शिर पीड डोलत सुभग चाप ते अधिक नवमाल शोभा।—सूर (शब्द०)। (ख) पीड श्रीखड शिर भेष नटवर कसे अग एक छटा में ही भुलाई।—सूर (शब्द०)। ७. पिडखजूर नामक फल। उ०—खरिक दाख अरु गिरी चिरारी। पीड वदाम लेत बनवारी।—सूर (शब्द०)।

पीडी—सज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डिका] दे० 'पिडी'।

पीडुली—सज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पिडुली'।

पीडुला†—सज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पीड़ा'। उ०—सासु कू डारधो पीडुला, वनव कू डारधो मूडिला।—पोद्दार अभि० ग्र०, पृ० ६१७।

पीपर(पु)†—सज्ञा पुं० [सं० पिप्पल] दे० 'पीपर'। उ०—पिल्लत सिकार पिथ कुँभर डर। पसु पीपर दल थरहरै।—पृ० रा०, ६।१००।

पी(पु)†—सज्ञा पुं० [सं० प्रिय] दे० 'पिय'। उ०—राति अनत वसि भोर पी भूमत आए ऐन। निरखि न सोहैं नैन ती करति न सोहैं नैन।—स० सप्तक, पृ० २५६।

पी^२—सज्ञा स्त्री० [अनु०] पपीहे की बोली। उ०—पी पी करत पपीहा पापी प्राण त्याग कर देहौं।—श्रीनिवासदास (शब्द०)।

यौ०—पी कहौं = पपीहे की बोली।

पीअर†—सज्ञा पुं० [हिं० पीला] पीले रंग का वस्त्र। पियरी। उ०—ए पिया, हमें पीअरे की साध। पियरी चों न रंगाइए।—पोद्दार अभि० ग्र०, पृ० ६१४।

पीअर(पु)^२—वि० [सं० पीत] दे० 'पीयर'। उ०—दान देति है मनि गन चीरा। हेम पटवर पीअर चीरा।—भारतेंदु ग्र०, भा० २, पृ० ५१८।

पीउ—सज्ञा पुं० [सं० प्रिय] दे० 'पिय'।

पीउ, पीऊ—सज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पिय'। उ०—तव लगि धीर सुना नहि पीऊ। सुनतहि घरी रहे नहीं जीऊ।—पदमावत, पृ० २७२।

पीऊर(पु)†—सज्ञा पुं० [म० पीयूष] भ्रमृत। पीयूष। सुधा। उ०—
तुअ दरसन विनु तिल ओ न जीव। जइऊ कलामति पीऊर पीव।—विद्यापति, पृ० १६६।

पीक^१—सज्ञा स्त्री० [म० पिच (= डवाना, निचोड़ना)] १ थूक से मिला हुआ पान का रस। चवाए हुए बीड़े या पिलोरी का रस। पान के रंग से रंगा हुआ थूक। थूक।

यौ०—पीकदान। पीकलीक।

२ पहली बार का रंग। वह रंग जो कपड़े को पहली बार रंग में डुबोने से चढता है (रंगरेज)।

पीक^२—वि० [म० पीक (= चोटी)] ऊँचनीच। ऊबड खावड। असमतल। नाहमवार (लश०)।

पीक^३—सज्ञा पुं० [अ०] कोना (लश०)।

पीक^४—वि० खडा। वायम (लश०)।

पीक^५—सज्ञा स्त्री० [अ०] दे० 'पीका'।

मुहा०—पीक फूटना = पनपना।

पीकदान—सज्ञा पुं० [हिं० पीक+फा० दान (= आधार, पात्र)] एक विशेष प्रकार का बना हुआ वह बरतन या पात्र जिसमें पान की पीक सूकी या डाली जाती है। उगालदान।

पीकना†—क्रि० अ० [म० पिक् अथवा पपीहे की बोली 'पी' से अनुकृत] पिहिकना। पपीहे या कोयल का बोलना। उ०—अव न धीर धारत वनत मुरत विसारी कत। पिक पापी पीकन लगे वगरेउ वाग वसत।—(शब्द०)।

पीकपात्र—सज्ञा पुं० [हिं० पीक+सं० पात्र] पीकदान। उगालदान। उ०—नट भट विट ठग ठाठ, पीकपात्र है सबन को।—अज० ग्र०, पृ० ६६।

पीका†—सज्ञा पुं० [देश०] किसी वृक्ष का नया कोमल पत्ता। कोपल। पल्लव। उ०—कहै पद्माकर परागन में पानहू में पातन में पीकन पलासन पगत है।—पद्माकर (शब्द०)।

मुहा०—पीका फूटना = पनपना। पल्लवित होना। कोपले फँकना। उ०—जासु चरन जल सीचन पाई। पीका फूटि हरित हूँ जाई।—रघुराज (शब्द०)।

पीच^१—सज्ञा पुं० [सं०] ठुड़ी। ठोड़ी [को०]।

पीच^२—सज्ञा स्त्री० [सं० पिच] १ भात का पसाव। मांड। २ पान की पीक।

पीचू—सज्ञा पुं० [देश०] १ एक प्रकार का झाड। चीत्तू। जरदालू। २ करील का पक्का फल। पक्का कचडा या डेंटी।

पीच्छ†—सज्ञा पुं० [सं० पिच्छ] दे० 'पिच्छ'। उ०—सो श्री ठाकुर जी ने भोर पीच्छ को मुकूट धारन कियो है।—दो सो बावन०, भा० १, पृ० ३२६।

पीछा^१—सज्ञा स्त्री० [हिं० पीच] पीच। मांड।

पीछ^२—सज्ञा स्त्री० [हिं० पीछे या पिछला] पक्षियों की दुम।

पीछे^३—सच्चा स्त्री० [ग्र० पिच] एक प्रकार की राल जो जहाज आदि में दरार भरने के काम में आती है। दामर। गीर। कील। (लश०)।

पीछे^४—सच्चा पुं० [हिं०] दे० 'पीछा'। जैसे, आगपीछे = आगापीछा। पीछेरि^५—वि० [मं०] पिच्छल। मृग। चिकना। उ०—पथ पीछेरि एक रयनि अघार। कुचजुग कलसे जमुना भेलि पार।—विद्यापति, पृ० ३०८।

पीछला^६—वि० [हिं०] दे० 'पिछला'। उ०—आह गह्यो गाढ़े वैर पीछले के बाढे भयो।—मति० ग्र०, पृ० ३८७।

पीछा—सच्चा पुं० [स० पश्चात्, प्रा० पच्छा] १ किसी व्यक्ति या वस्तु का वह भाग जो सामने की विरुद्ध दिशा में हो। किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे की ओर का भाग। पश्चात्-भाग। पुरत। 'आगा' का उलटा। जैसे,—(क) इस इमारत का आगा जितना अच्छा बना है उतना अच्छा पीछा नहीं बना है। (ख) इस अँगरेजे का पीछा ठीक नहीं है।

मुहा०—पीछा दिखाना = (१) भागना। हारकर घर का रास्ता लेना। पीठ दिखाना। जैसे,—कुल दो ही घंटे की लड़ाई के बाद शत्रु ने पीछा दिखाया। (२) दे० 'पीछा देना'। पीछा देना = किसी काम में पहले साथ देकर फिर किनारा करना। पीछे जाना। मोके पर हट जाना या घोखा देना। पहले भरोसा दिलाकर पीछे सहायता न देना। पीछा भारी होना = (१) पीछे की ओर शत्रु का होना। पीछे की ओर से भय या खतरा होना। (२) कुमुक आ जाने से सेना का पश्चात् भाग सबल हो जाना।

२ किसी घटना का पश्चात्कर्त्तृ काल। किसी घटना के बाद का समय। जैसे,—(क) व्याह का पीछा है, इसी से हाथ इतना तग है। (ख) इतने बड़े रईस (की मृत्यु) का पीछा है, हजारों रुपए लग जाएंगे। ३ पीछे पीछे चलकर किसी के साथ लगे रहने का भाव। जैसे,—(क) बड़े का पीछा है, कुछ न कुछ दे ही जायगा। (ख) चार साल तक इस साधु का पीछा किया पर इसने कुछ भी न बताया।

मुहा०—पीछा करना = (१) किसी के पीछे पीछे जाना या फिरा करना। हर समय किसी के साथ या समीप बना रहना। कोई काम निकालने के लिये या किसी आशा से किसी के साथ लगे रहना। (२) अनिच्छुक व्यक्ति से कोई काम कराने के लिये अत्यंत आग्रह करते रहना। किसी बात के लिये किसी को तग या दिक करना। गले पडना। जैसे,—अब तो तुम इस काम के लिये मेरा पीछा न करते तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानता। (३) किसी को पकड़ने, मारने या भगाने आदि के लिये उसके पीछे पीछे चलना। खदेडना। पीछा छुडाना = (१) पीछा करनेवाले से छुटकारा प्राप्त करना। किसी बात के आग्रह से, तग या दुखी करनेवाले से अपने आपको दूर कर लेना। गले पडे हुए व्यक्ति से जान छुडाना। जैसे,—बड़ी कठिनाई से इस

आदमी से पीछा छुडाय है। (२) अप्रिय या इच्छाविरुद्ध सबध का अंत करना। दुखदायी सबध से छुटकारा प्राप्त करना। दुखद प्रतीत होनेवाले कार्य को समाप्त कर सकना या कर लेना। जैसे,—किसी आशका से पीछा छुडाना, किसी काम से पीछा छुडाना। पीछा छुटना = (१) पीछा करनेवाले से छुटकारा मिलना। अप्रिय साथ का कष्ट दूर होना। गले पडे हुए का साथ छुटना। पिंड छुटना। जान छुटना। (२) अप्रिय कार्य या संबध से छुटकारा मिलना। दुखद वस्तु का अंत या समाप्ति होता। रिहाई मिलना। पीछा छोडना = (१) पीछा करने का काम बंद करना। किसी आशा या प्रयोजन से किसी के साथ फिरना बंद करना। सहारा छोडना। (२) किसी बात के लिये किसी से अत्यंत आग्रह करना बंद करना। जान खाना छोडना। तग करना बंद करना। (३) जिस बात में बहुत देर से लगे हो उसे छोड देना। पीछा पकडना = किसी आशा से किसी का समीपवर्ती, दरवारी या साथी बनना। आश्रय का आकाशी बनना। सहारा बनना। जैसे, किसी रईस का पीछा पकडना।

पीछाणना^७—क्रि० स० [हिं०] दे० 'पहचानना'। उ०—जीण्णी अहिनाणहू लेउ पीछाणी।—वी० रासो, पृ० ७७।

पीछे^८—क्रि० वि० [हिं०] दे० 'पीछे'।

पीछे—अव्य [हिं० पीछा] १ पीठ की ओर। जिधर मुंह हो उसकी विरुद्ध दिशा में। आगे या सामने का उलटा। पश्चात्। जैसे,—जरा अपने पीछे तो देखो कि कौन खडा है।

चौ०—पीछे पिछडे = अविकसित। अनुन्नत। पिछडे हुए।

मुहा०—(किसी के) पीछे चलना = (१) किसी विषय में किसी को पथप्रदर्शक, नेता या गुरु मानना। कार्यविशेष में किसी का पदानुसरण करना। किसी का अनुयायी या अनुगामी होना। अनुकरण करना जैसे,—वह ऐसा वैसा आदमी नहीं है, उसके पीछे चलनेवालों की सख्या हजारों से ऊपर है। (२) एक आदमी ने जैसा किया हो वैसा ही करना। किसी का अनुकरण करना। नकल करना। जैसे,—खोज के विषय में भारतीय विद्वान् भी बहुधा यूरोपीय पंडितों के पीछे चले हैं। (किसी के) पीछे छुटना = (१) किसी के साथ रहकर उसका भेद लेने या उसकी गतिविधि पर इष्टि रखने के लिये नियुक्त किया जाना। जासूस बनाकर किसी के साथ लगाया जाना। जैसे,—प्राज कल उनके पीछे कई आदमी छूटे हैं। (२) किसी भागे हुए आदमी को पकड़ने के लिये नियुक्त किया जाना। (किसी के) पीछे छोडना या भेजना = (१) जासूस या भेदिया बनाकर किसी को किसी के साथ लगाना। गुप्त रूप से किसी के साथ रहकर उसका भेद लेने या उसके कर्मों से जानकारी रखने के लिये किसी को नियत करना। साथ लगाना। (२) किसी आदमी को पकड़ने के लिये किसी को भेजना

या दौडाना । किमी का पीछा करने के लिये किसी को भेजना । (वन) पीछे डालना = खर्च से बचाकर भविष्यत् की आवश्यकता के लिये कुछ रखना । आगे के लिये बटोरना । सचय करना । जैसे,—प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपनी कमाई में से कुछ न कुछ पीछे डालता जाय । (किसी को) पीछे डालना = पीछे छोडना । पीछे दौडना । जैसे,—उसने चोरो के पीछे सवार डाले । (किसी के) पीछे दौडाना = (१) गए या जाते हुए आदमी को फेर लाने के लिये किसी को रवाना करना । किसी को लौटा लाने के लिये किसी को दौडाना या भेजना । (२) भागे या भागते हुए को पकड लाने के लिये किसी को भेजना । भागे या भागते हुए का पीछा करने के लिये किसी को रवाना करना । पीछे पछताना उसी चने को खाना = (१) इच्छापूर्वक त्यागी हुई वस्तु को त्यागने की गलती समझकर फिर ग्रहण करना । (२) किसी कार्य को न करने का निश्चय करके फिर करना । उ०—इसका निरादर कर वे पीछे पछताएंगे और उसी चने को खाएंगे ।—प्रमथन०, भा० २, पृ० ४०५ । (किसी काम के) पीछे पडना = किसी काम को कर डालने पर तुल जाना । किसी कार्य के लिये अचिराम उद्योग करना । किसी कार्य की सिद्धि के लिये आग्रहयुक्त होना । बार बार विफल होने पर भी किसी काम के लिये उत्साह के साथ प्रयत्न करते रहना । (किसी व्यक्ति के) पीछे पडना = (१) कोई काम करने के लिये किसी से बार बार कहना । किसी से कोई प्रार्थना करते हुए आग्रहयुक्त होना । किसी के पीछे लगकर उससे कोई अनुरोध करना । धरना । जान खाना । तग करना । (२) किसी के समर्थ में कोई ऐसा कार्य बार बार आग्रहपूर्वक करना जिससे उसे कष्ट पहुँचे या उसका अपकार हो । मोका या सधि डूँढ़ डूँढ़कर किसी की बुराई करते रहना । किसी को हानि पहुँचाने के लिये आग्रहयुक्त होना । जैसे,—वरसो से यह दुष्ट न जाने क्यों मेरे पीछे पड रहा है । पीछे लगना = (१) किसी आशा या प्रयोजन से किसी के पीछे पीछे चला करना । साथ हो लेना । साथ साथ चलना । पीछे पीछे घुमना । पीछा करना । जैसे,—तुम तो कितने दिनों से उनके पीछे लगे हो पर अभी तक हाथ कुछ न आया । (२) अनिष्ट या अप्रिय वस्तु का संबध हो जाना । दुःखजनक वस्तु का साथ हो जाना । रोग कष्टादि का देर तक बना रहना । जैसे,—रोग पीछे लगना, मुसीबत पीछे लगना आदि । (अपने) पीछे लगाना = (१) आश्रय देना । साथ कर लेना । (२) रोग दुःख आदि की प्राप्ति और स्थिति में स्वतः कारण होना । अनिष्ट वस्तु से संबध कर लेना । पालना । जैसे,—मुसीबत पीछे लगाना, झूठ पीछे लगाना आदि । (किसी और के) पीछे लगाना = (१) साथ लगा देना । अनिष्ट या अप्रिय वस्तु से संबध करा देना । मढ़ देना । जैसे,—तुमने यह अच्छी मुसीबत हमारे पीछे लगा दी । (२) भेद लेने या निगाह रखने के लिये किसी को किसी के साथ कर देना । किसी

आदमी को किसी का पीछा करने के लिये नियुक्त करना या भेजना । कारंवाइयाँ देखते रहने के लिये किसी आदमी को उसके साथ कर देना । किसी के साथ रहने के लिये नियुक्त करना ।

विशेष—‘धीरे’ आदि कितने ही अन्य अव्ययों के समान ‘पीछे’ भी प्रायः भावृत्ति के साथ आता है, जैसे, पीछे पीछे आना, पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे घुमना, आदि । इस रूप में अर्थात् भावृत्तिपूर्वक यह जिस क्रिया का विशेषण होता है उसका लगातार अधिक समय तक होना सूचित होता है ।

२ पीछे की ओर कुछ दूर पर । पीठ की अथवा आगे की विरुद्ध दिशा में । कुछ दूर पर । जैसे, (क) उनके मकान को तुम बहुत पीछे छोड आए । (ख) वह गाँव बहुत पीछे दूट गया ।

मुहा०—पीछे छटना, पडना या होना = (१) किसी विषय में किसी से कम होना । गुण योग्यता आदि की तुलना में किसी से न्यून रह जाना । किसी विषय में किसी व्यक्ति की अपेक्षा घटकर होना । पिछडा होना । जैसे,—और विषयो की तो मैं नहीं कह सकता पर रचनाभ्यास में तुम उससे बहुत पीछे दूट गए हो । (२) किसी विषय में किसी ऐसे आदमी से घट जाना जिससे किसी समय बराबरी रही हो । पिछड जाना । जैसे—बीमारी के कारण वह अपने सहाठियों से बहुत पीछे दूट गया । (प्रायः इस अर्थ में यह क्रिया ‘जाना’ से संयुक्त होकर आती है) । (किसी को, पीछे छोडना = किसी विषय में किसी से बढ़कर या अधिक होना । किसी विषय में किसी की अपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान् होना या योग्यता रखना । जैसे,—इस विषय में वह हजारों को पीछे छोड गया । (२) किसी विषय में किसी से बढ़ जाना । किसी से आगे निकल जाना । किसी विषय में किसी विशेष व्यक्ति की अपेक्षा अधिक योग्य या सामर्थ्यवान् हो जाना ।

३ देश या कालक्रम में किसी के पश्चात् या उपरात । स्थिति या घटना के विचार से किसी के अनंतर कुछ दूर या कुछ देर बाद । किसी वस्तु या व्यापार के पश्चाद्वर्ती स्थान या काल में । पश्चात् । उपरात । अनंतर । जैसे,—(क) पचास हाथ लंबी पाँत में सब लोग एक दूसरे के पीछे खडे थे । (ख) तुम्हारे काशी आने के कितना पीछे यह घटना हुई । ४ अत में । आखिर में । (क्व०) । जैसे,—पहले तो वे बहुत दिनों तक पडते रहे पीछे बीमार पडने के कारण उनका पडना लिखना दूट गया । ५ किसी की अनुपस्थिति या अभाव में । किसी की अविद्यमानता में । पीठ पीछे । जैसे,—किसी के पीछे उसको बुराई करना अच्छा काम नहीं । ६ मर जाने पर । इस लोक में न रह जाने की दशा में । मरणोपरात । जैसे,—(क) आदमी के पीछे उसका नाम ही रह जाता है । (ख) वे अपने पीछे चार बच्चे, एक विधवा और प्रयत्न पचास हजार का ऋण छोड गए । ७. लिये । वास्ते । कारण । अर्थ । खातिर ।

जैसे,—इस आदमी के पीछे मैंने क्या क्या कष्ट न सहा पर यह
 • ऐसा कृतघ्न निकला कि सब भूल गया । ८ कारण । निमित्त ।
 वदीलत । जैसे,—तुम्हारे पीछे हमें भी दस बात सुननी पडी ।
 पीछो—सज्ञा पुं [हि०] दे० 'पीछा' । उ०—तब वा सर्प की
 नागिन ने वा वैष्णव को पीछो कियो ।—दो सी वावन०,
 भा० १, पृ० ३३२ ।

पीजन—सज्ञा पुं [सं० पिञ्जन] भेडो के बाल धुनकने की धुनकी ।
 (गडेरिए) ।

पीजर।—सज्ञा पुं [सं० पिञ्जर] दे० 'पिजडा' । उ०—छाजन
 पखिहि पीजर ठाढ़ ।—जायसी ग्र०, पृ० ७६ ।

पीजरा।—सज्ञा पुं [हि० पीजर] दे० 'पिजडा' ।

पीटना।—सज्ञा पुं [हि०] दे० 'पिटना' ।

पीटना।—क्रि० सं [सं० पीडन] १. किसी वस्तु पर चोट पहुँ-
 चाना । मारना ।

संयो क्रि०—डालना ।—देना ।—लेना ।

मुहा०—छाती पीटना=दुख या शोक प्रकट करने के लिये
 छाती पर हाथ से आघात करना । किसी बात को पीटना =
 किसी बात या कार्य पर तीव्र दुख प्रकाश करना । किसी
 बात को सोच सोचकर दुखिन होना । हाय हाय करना ।
 सिर धुनना । (स्त्रि०) । किसी व्यक्ति को या के लिये
 पीटना = किसी व्यक्ति की मृत्यु का शोक करना । किसी
 के मरने पर छाती पीटना मातम करना । उ०—आँसू
 फूटे जो भर नजर देखे । मुझको पीटे अगर इधर देखे ।—
 एक उर्दू कवि (शब्द०) ।

२ अघात पहुँचाकर किसी वस्तु को फैलाना या बढ़ाना । चोट
 से चिपटा या चौड़ा करना । जैसे, पत्तर पीटना ।

संयो० क्रि०—डालना ।—देना ।—लेना ।

३ किसी जीवधारी पर आघात करना । किसी के शरीर को
 चोट अथवा पीडा पहुँचाना । मारना । प्रहार करना ।
 ठोकना । जैसे,—आज तुमने भारी अपराध किया है, तुम्हारे
 'बाप तुम्हें अवश्य पीटेंगे ।

संयो० क्रि०—डालना ।

४ किसी न किसी प्रकार कर डालना या कर लेना । भले या
 बुरे प्रकार से कर डालना । येन केन प्रकारेण किसी काम
 को समाप्त या सफल कर लेना । निबटा देना । जैसे,—शाम
 तक इस काम को अवश्य पीट डालूँगा ।

संयो० क्रि०—डालना ।—देना ।

५ किसी न किसी प्रकार प्राप्त कर लेना । येन केन प्रकारेण
 उपाजित करना । फटकार लेना । जैसे,—शाम तक चार
 रुपए पीट लेता हूँ ।

संयो० क्रि०—लेना ।

पीटना।—सज्ञा पुं १ मृत्युशोक । मातम । पिट्टस । जैसे,—यहाँ यह
 कंसा पीटना पडा हुआ है । २ आपद् । मुसीबत । आफत ।

पीट पठिगां।—सज्ञा पुं [हि० पीठ + सं० पृष्ठ + अंग] आश्रय ।

सहायक । उ०—मुहम्मद जिसका पीटपठिगा उसको क्या
 है डर ।—दक्खिनी०, पृ० ५४ ।

पीठ।—सज्ञा पुं [सं०] १ लवडी, पत्थर या घातु का बना हुआ बैठने
 का आघार या आसन । पीढा । चौकी ।

विशेष—दे० 'पीढा' । २ ब्रतियों, विद्याधियों आदि के बैठने
 का आसन । कुशासन आदि । ३ किसी मूर्ति के नीचे का
 आघारपिंड । मूर्ति का वह आसनवत् भाग जिसके ऊपर
 वह खडी रहती है । मूर्ति का आघार । ४ किसी वस्तु के
 रहने की जगह । अधिष्ठान । जैसे, विद्यापीठ । ५ सिंहासन ।
 राजासन । तख्त । ६ वेदी । देवपीठ । ७ वह स्थान जहाँ
 पुराणानुसार दक्षपुत्री सती का कोई अंग या आभूषण (चक्र)
 के चक्र से कटकर गिरा है ।

विशेष—ऐसे स्थान भिन्न भिन्न पुराणों के मत से ५१, ५३, ७
 अथवा १०८ हैं । इनमें से कुछ की महापीठ और कुछ
 की उपपीठ सज्ञा है । शिवचरित् नामक ग्रंथ में जिसमें कु
 ७७ पीठ गिनाए गए हैं, ५१ को महापीठ और २६
 उपपीठ कहा है । ये सब स्थान तांत्रिक तथा शाक्तधर्म
 अनुसार अति पुनीत और सिद्धिदायक माने गए हैं ।
 स्थानों में जपादि करने से शीघ्र सिद्धि और दान, स्नान
 आदि करने से प्रक्षय पुण्य होना माना गया है ।
 स्थानों की उत्पत्ति के सबध में पुराणों में यह कथा है
 शिव से अप्रसन्न होकर उनके समुद्र दक्ष ने उनको
 करने का निश्चय किया । उन्होंने बृहस्पति नामक यज्ञ
 किया जिसमें त्रिभुवन के यावत् देवी देवताओं को निमंत्रि
 किया पर शिव और अपनी कन्या सती को न पूछा ।
 बिना बुलाए भी पिता के समारंभ में सम्मिलित होने व
 तैयार हो गई और शिव ने भी अत को उनकी ह
 रख ली । सती जब बाप के यज्ञस्थान में पहुँची तब द
 ने उनकी आदर अभ्यर्थना तो न की वे भगवान्
 की जी भरकर निंदा करने लगे । सती को पूज्य पति
 निंदा सुनना असह्य हुआ । वे यज्ञकुंड में कूद पडी और
 मरी । उनके साथ शिव के जो अनुचर गए थे उन्होंने ल
 शिव को यह समाचार सुनाया जिसे सुनकर शिवाजी को
 से पागल हो उठे और वीरभद्रादि अनुचरों के द्वारा दक्ष
 मरवा डाला और उनका यज्ञ विध्वंस करा दिया । सती
 विछोह का उनको इतना दुख हुआ कि वे उनकी मृत
 को कंधे पर रखकर चारों ओर नाचते हुए घूमने लगे । अ
 को भगवान् विष्णु ने इस दशा से उनका उद्धार करने
 अभिप्राय से अपने चक्र द्वारा वीरे वीरे सती के सारे शव
 काटकर गिरा दिया । जिन जिन स्थानों पर उनका क
 अंग या आभूषण कटकर गिरा उन सबमें एक एक
 और औरव भिन्न भिन्न नाम तथा रूप से अवस्थान क
 हैं । जिन स्थानों में कोई एक अंग गिरा वे महापीठ
 जिनमें किसी अंग का अंश या कोई अलंकार मात्र
 वे उपपीठ हुए । इन महापीठों, उपपीठों और उनमें
 करनेवाली शक्तियों और औरवों के नाम तत्र

प्रादि तत्रग्रंथों और देवीभागवत, कालिकापुराण प्रादि पुराणों में दिए गए हैं। काशी में कान के कुडल का गिरना कहा गया है। यहाँ की शक्ति का नाम मणिकर्णों, अन्नपूर्णा, या त्रिशालाक्षी और भैरव का कालभैरव है।

- ८ प्रदेश। प्रातः। ९ बैठने का एक विशेष ढंग। एक आसन।
१० कस के एक मन्त्री का नाम। ११ एक विशेष असुर।
१२ वृत्त के किसी अक्षर का पूरक।

पीठ^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पृष्ठ] १ प्राणियों के शरीर में पेट की दूरी और का भाग जो मनुष्य में पीछे की ओर और तिर्यक् पशुओं, पक्षियों, कीड़े मकोड़े आदि के शरीर में ऊपर की ओर पडता है। पृष्ठ। पुस्त।

मुहाना—पीठ का = दे० 'पीठ पर का'। पीठ का कच्चा = (घोडा) जो देखने में हृष्ट पुष्ट और सजीला हो पर सवारी में ठीक न हो। (ऐसा घोडा) जिसकी चाल से सवार प्रसन्न न हो। चाल न जाननेवाला (घोडा)। पीठ का सच्चा = (घोडा) जिसमें अच्छी चाल हो। चालदार (घोडा)। ऐसा घोडा जो सवारी के समय सुख दे। पीठ की = दे० 'पीठ पर की'। पीठ चारपाई से लग जाना = बीमारी के कारण अत्यंत दुबला और कमजोर हो जाना। उठने बैठने में असमर्थ हो जाना। पीठ खाली होना = सहायकहीन होना। कोई सहाय देनेवाला या हिमायती न होना। पीठ पर किसी का न होना। पीठ ठोकना = (१) कोई उत्तम कार्य करने के लिये अभिनन्दन करना। किसी के कार्य से प्रसन्नता प्रकट करना। किसी के कार्य की प्रशंसा करना। शावासी देना। जैसे,—तुम्हारे पीठ ठोकने से ही वे आज मुझे लड गए। (२) किसी कार्य में अप्रसर होने के लिये साहस देना। हिम्मत बढ़ाना। प्रोत्साहित करना। पीठ पर हाथ फेरना। पीठ तोड़ना = कसर तोड़ना। हताश कर देना। पीठ दिखाना = युद्ध या मुकाबिले से भाग जाना। मैदान छोड़ देना। पीछा दिखाना। जैसे,—कुल एक ही घटे लोहा बजने के बाद शत्रु ने पीठ दिखाई। पीठ दिखाकर जाना = स्नेह तोड़कर या ममता छोड़कर जाना। घरवालों या प्रिय वर्ग से विदा होना। परदेश के लिये प्रस्थान करना। पीठ देना = (१) यात्रार्थ किसी या कहीं से विदा होना। रुखसत होना। (२) विमुख होना। मुँह मोड़ना। (३) भाग जाना। पीठ दिखाना। (४) किनारा खींचना, साथ न देना। पीछा देना। (५) चारपाई पर पीठ रखना। सोना। लेटना। आराम। करना जैसे,—(क) आज तीन दिन से दो मिनट के लिये भी मैं पीठ न दे सका। (ख) काम के मारे आजकल मुझे पीठ देना हराम हो रहा है। (यह मुहावरा निषेधार्थ या निषेधार्थक वाक्य में ही प्रयुक्त होता है जैसा उदाहरणों से प्रकट होता है।) किसी की ओर पीठ देना = (१) किसी की ओर पीठ करके बैठना। मुँह फेर लेना। (२) अरुचिपूर्वक उपेक्षा प्रकट करना। किसी की ओर ध्यान देने या उसकी बात सुनने से अनिच्छा दिखाना। पीठ पर = एक ही माता द्वारा जन्मक्रम में पीछे। एक ही माता वी सत्वानों में से किसी विशेष को जन्म के अनंतर। जैसे,—इस लडके के पीठ पर

क्या तुम्हारे कोई संतान नहीं हुई। पीठ पर का, पीठ पर का = (१) जन्मक्रम में अपने सहोदर (भाई या बहिन) के अनंतर का। (२) जोड़ का। बराबरी का। उ०—दूसरा कौन पीठ पर का है।—चोखे०, पृ० १४। पीठ पर खाना = भागते हुए मार खाना। भागने की दशा में पिटना। कायगता प्रकट करते हुए घायल होना। पीठ मीजना = दे० 'पीठ पर हाथ फेरना'। पीठ पर हाथ फेरना = दे० 'पीठ ठोकना'। पीठ पर होना = (१) सहायक होना। सहायता के लिये तैयार होना। मदद पर होना। हिमायत पर होना। जैसे,—आज मेरी पीठ पर कोई होता तो मैं इस प्रकार दीन हीन बनकर क्यों भटकता फिरता? (२) जन्मक्रम में अपने किसी भाई या बहिन के पीछे होना। अपने सहोदरों में से किसी के पीछे जन्म ग्रहण करना। पीठ पीछे = किसी के पीछे। अनुपस्थिति में। परोक्ष में। जैसे,—पीठ पीछे किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। पीठ फेरना = (१) विदा होना। चला जाना। रुखसत होना। (२) भाग जाना। पीठ दिखाना। (३) किसी की ओर पीठ कर देना। मुँह फेर लेना। (४) अरुचि वा अनिच्छा प्रकट करना। उपेक्षा सूचित करना (किसी की) पीठ लगना = चित होना। कुशती में हार खाना। पटका जाना। पछाडा जाना। (घोड़े बैल आदि की) पीठ लगना = पीठ पर घाव हो जाना। पीठ पक जाना। (चारपाई आदि से) पीठ लगना = लेटना। सोना। पडना। कल लेना। आराम करना। (किसी की) पीठ लगाना = चित कर देना। कुशती में हरा देना। पछाड देना। पटकना (घोड़े बैल आदि की) पीठ लगाना = घोड़े या बैल को इस प्रकार कसना या लादना कि उसकी पीठ पर घाव हो जाय। सवारी या पीठ पर घाव कर देना। २ किसी वस्तु की बनावट का ऊपरी भाग। किसी वस्तु की बाहरी बनावट। पृष्ठ भाग। भीतरी भाग या पेट का उलटा। ३. रौटी के ऊपर का भाग। ४ जहाज का फर्श (लक्ष०)।

पीठक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पीठा।

पीठ का मोजा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पीठ+फा० मोजह्] कुशती का एक पंच। इसमें जब जोड़ कंधे पर बायाँ हाथ रखने आता है तब दाहिने हाथ-से उसको उठाकर उलटा कर देते हैं और कलाई के ऊपर के भाग को इस प्रकार पकड़ते हैं कि अपनी कोहनी उसके कंधे के पास जा पहुँचती है, फिर भट पैतरा बदलकर जोड़ की पीठ पर जाने के द्वारा से बढते हुए बाएँ हाथ से बाएँ पाँव का मोजा उठाकर गिरा देते हैं।

पीठ के डडे—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पीठ+हि० डडा] कुशती का एक पंच। इसमें जब खिलाडी जोड़ की पीठ पर होता है तब शत्रु की बगल से ले जाकर दोनों हाथ गर्दन पर चढ़ाने चाहिए और गर्दन को दबाते हुए भीतरी अडानी टाँग मारकर गिराना चाहिए।

पीठकेलि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पीठमर्द। नायक।

पीठग—वि० [सं०] पगु। लंगडा [को०]।

पीठगर्भ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह गड्ढा जो मूर्ति को जमाने के लिये पीठ (आसन) पर खोदकर बनाया जाता है।

पीठचक्र—सज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन काल का एक प्रकार का रथ ।

पीठदेवता—सज्ञा पुं० [सं०] आघार शक्ति । आदिदेवता ।

पीठना—क्रि० सं० [सं० पिष्ट, हिं० पीठ + ना] दे० 'पीसना' ।
उ०—एकन आदी मरिच सों पीठा । दूसर दूध खाई सो
मीठा ।—जायसी (शब्द०) ।

पीठनायिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] चौदह वर्षीया (अरजस्का) वह
कुमारी जो दुर्गापूजा के अवसर पर दुर्गा मानकर पूजी
जाती है [को०] ।

पीठनायिका देवी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ पुराणानुसार किसी पीठ-
स्थान की अधिष्ठात्री देवी । २ दुर्गा । भगवती ।

पीठन्यास—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का तत्रोक्त न्यास जो प्राय
सभी तान्त्रिक पूजाओं में आवश्यक है ।

पीठभू—सज्ञा पुं० [सं०] प्राचीर के आसपास का भूभाग । चहार-
दीवारी के आसपास की जमीन ।

पीठमर्द—सज्ञा पुं० [सं०] १ नायक के चार सखाओं में से एक जो
वचनचातुरी से नायिका का मानमोचन करने में समर्थ हो ।
यह शृंगार रस के उद्दोषन विभाव के अतर्गत है । २
वह नायक जो कुपित नायिका को प्रसन्न कर सके ।
मानमोचन में समर्थ नायक ।

विशेष—संस्कृत के अधिकांश आचार्यों ने पीठमर्द को नायक का
भेद भी माना है परंतु कुछ रसाचार्यों ने इसकी गणना
सखाओं में की है ।

२ अत्यंत घृष्ट नायक, सखा या अत्यंत ढीठ (को०) । ३ नृत्य
की शिक्षा देनेवाला व्यक्ति । नृत्यगुरु (को०) ।

पीठयर्दिक—सज्ञा स्त्री० [सं०] वह स्त्री जो प्रिय को प्राप्त करने में
नायिका की सहायता करती है (को०) ।

पीठविचर—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पीठगर्भ' ।

पीठसर्प—वि० [सं०] लँगड़ा ।

पीठसर्पी—वि० [सं० पीठसर्पिन्] लँगड़ा ।

पीठस्थान—सज्ञा पुं० [सं०] १ दे० 'पीठ'-७ । देवीपीठ । २
सिंहासन बत्तीसी के अनुसार 'प्रतिष्ठान' (आधुनिक भूँसी)
का एक नाम ।

पीठा^१—सज्ञा पुं० [सं० पीठक] दे० 'पीठा' । उ०—आवत पीठा
बैठन दीन्हों कुशल वृष्णि अति निकट बुलाई।—सूर
(शब्द०) ।

पीठा^२—सज्ञा पुं० [सं० पिष्टक, प्रा० पिठक] एक पकवान जो आटे
की लोइयो में चने या उरद की पीठी भरकर बनाया
जाता है ।

विशेष—पीठी में नमक, भसाला आदि देकर आटे की लोइयो
में उसे भरते हैं और फिर लोई का मुँह बंदकर उसे गोल
चोकोर या चिपटा कर लेते हैं । फिर उन सबको एक
बरतन में पानी के साथ भाग पर षड़ा देते हैं । कोई कोई

उसे पानी में न उवालकर केवल भाप पर पकाते हैं ।
पी में चुपड़कर खाने से यह अधिक स्वादिष्ट हो जाता है ।
पूरव की तरफ इसको 'फरा या 'फारा' भी कहते हैं ।
कदाचित् इस नामकरण का कारण यह हो कि पक जाने
पर लोई का पेट फट जाता है और पीठी भलकने लगती है ।

पीठा^३—सज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पट्टा' ।

पीठाणा^१—सज्ञा पुं० [सं० पीठस्थान (=युद्धपीठ, या रणक्षेत्र)]
युद्धभूमि । रणस्थल । उ०—पांडियो राम दसकठ पीठाणा
में सबद जै जै हुवा लोक सारा ।—रघु रू०, पृ० ३१ ।

पीठि^७—सज्ञा स्त्री० [हिं० पीठ] दे० 'पीठ' ।

पीठिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ पीठा । २. मूर्ति, खभे आदि का
मुल या आघार । ३ अक्ष । अध्याय । ३. पृष्ठभूमि (को०) ।
४ तामदान । डांडी (कोटि०) ।

पीठी^१—सज्ञा स्त्री० [सं० पिष्ट या पिष्टक, प्रा० पिष्ट] पानी में
भिगोकर पीसी हुई दाल विशेषत उरद या मूँग की दाल
जो बरे, पकीड़ी आदि बनाने अथवा कचौरी में भरने के काम
में आती है ।

क्रि० प्र०—पीसना ।—भरना ।

पीठी^२—सज्ञा स्त्री० [हिं० पीठ] दे० 'पीठ' ।

पीड़ा^१—सज्ञा पुं० [देश०] मिट्टी का आघार जिसे घड़े को पीटक
वढ़ाते समय उसके भीतर रख लेते हैं ।

पीड़ा^२—सज्ञा स्त्री० [सं० आपीड] सिर या बालो पर बाँधा जाने-
वाला एक प्रकार का आभूषण । उ०—करघर के घरभर
सखीरी । कै सृक् सीपज की बगपगति, कै मयूर की पीड
पखीरी ।—सूर (शब्द०) ।

पीड़ा—सज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पीडा' । उ०—मूये पीड पुकारता,
दैन न मिलिया आइ । दाहू थोड़ी बात थी जे दुक दरस
दिखाइ ।—दाहू, पृ० ५६ ।

पीड़ाक—सज्ञा पुं० [सं० पीडक] १ पीडा देने या पहुँचानेवाला ।
दुखदायी । यत्रणादाता । २ अत्याचारी । उत्पीडक ।
सतानेवाला ।

पीड़न—सज्ञा पुं० [सं० पीडन] [वि० पीडक, पीडनीय, पीडित]
१ दवाने की क्रिया । किसी वस्तु को दवाना । चापना ।
२. पेरना । पेलना । ३ दुख देना । यत्रणा पहुँचाना । तक-
लीफ देना । ४ अत्याचार करना । उत्पीडन । उ०—मानव
के पाशव पीडन का देती वे निर्मम विज्ञापन ।—ग्राम्या, पृ०
२४ । ५ आक्रमण द्वारा किसी देश को वर्वाद करना ।
६ फोड़े को पीव निकालने के लिये दवाना । ७ किसी व.
को मली भाँति पकडना । ग्रहण करना । हाथ में पकडना ।
जैसे, पाणिपीडन । ८ सूर्य चंद्र आदि का ग्रहण । ९ उच्छेद ।
नाश । १०. अभिभव । तिरोभाव । लोप । ११ पेरने या
दवाने का यत्र (को०) । १२ अनाज को हठल से पीट ५।
रोदकर निकालना (को०) । १३. आलिंगनवद्ध करना

दबोचना दबा देना । १४ स्वरो के उच्चारण में गलती करना (को०) ।

पीडनीय^१—वि० [सं० पीडनीय] पीडन करने योग्य । दुःख पहुँचाने योग्य । २ जिससे पीडन किया जाय (को०) ।

पीडनीय^२—सञ्ज्ञा पुं० १. याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार मंत्री और सेना से रहित राजा । २ याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णित चार प्रकार के शत्रुओं में से एक ।

पीडवाङ्—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिपदा] दे० 'परिवा' । उ०—आज सखी मोहि विहाण । पीडवा कइ दिन कहइ छइ जाण ।—वी० रासो, पृ० ४७ ।

पीड़ा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पीडा] १ किसी प्रकार का दुःख पहुँचाने का भाव । शारीरिक या मानसिक बलेश का अनुभव । वेदना । व्यथा । तकलीफ । दर्द । २ रोग । व्याधि । ३ सिर में लपेटी हुई माला । शिरोमाला । ४, एक सुगन्धित श्लेषधि । रूप सरल । सरल । ५ वाषा । गढवड । (को०) । ६ हानि । नुकसान (को०) । ७ विरोध (को०) । ८ प्रतिबन्ध । श्रवरोध (को०) । ९ करुणा । दया (को०) । १० सरल वृक्ष (को०) । ११ डलिया । टोकरी (को०) ।

पीडाकर—वि० [सं० पीडाकर] कष्टकर । दुःखदायी । उ०—पाथिवैश्वर्य का अधकार पीडाकर ।—तुलसी०, पृ० १६ ।

पीडाकरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीडाकरण] कष्ट देना । दुःख या पीड़ा पहुँचाना (को०) ।

पीडागृह—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीडागृह] वह स्थान जहाँ पीडा पहुँचाई जाय । सांसतघर (को०) ।

पीडारत—सञ्ज्ञा पुं० [सं० फणाकर ?] सर्प । एक प्रकार का सर्प । पीवणा । पीणा । उ०—राई नहीं सखी भइस पीडार । अश्रीय चरित्र उलिपई ही गँवार ।—वी० रासो, पृ० ३८ ।

पीडास्थान—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पीडास्थान] कुदली में उपचय अर्थात् लगन से तीसरे, छठे, दसवें और ग्यारहवें स्थान के अतिरिक्त स्थान । अशुभ ग्रहों के स्थान ।

पीडिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पीडिका] फुसी । पिटिका (को०) ।

पीडित^१—वि० [सं० पीडित] १ पीडायुक्त । जिसे व्यथा या पीडा पहुँची हो । दुःखित । बलेशयुक्त । २ रोगी । बीमार । ३ दवाया हुआ जिसपर दाब पहुँचाया गया हो । ४ उच्छिन्न । नष्ट किया हुआ । ५ कसकर बाँधा हुआ (को०) ।

पीडित^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ स्त्रियों के कान का छेद । कर्णभेद । २ तत्रसार में दिए हुए एक प्रकार के मन्त्र । ३ पीडा देने या कष्ट पहुँचाने की क्रिया (को०) । ४ एक रतिवध । सुरत काल का एक विशेष आसन (को०) ।

पीडी^१—वि० [सं० पीडिन्] कष्ट पहुँचानेवाला । दुःखकर (को०) ।

पीडो^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पीडिका, हिं० पीडो] वेदी । उ०—इससे अच्छा यही होगा कि भगवती दुर्गा की पीडी पर मेरी बलि चढा दो ।—नई०, पृ० ३७ ।

पीडुरी(पु)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पिडली' ।

पीडा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीठ अथवा पीठक] [स्त्री० अथवा० पिडिया, पीडी] चौकी के आकार का वह आसन जिसपर हिंदू लोग विशेषतः भोजन करते समय बैठते हैं । पाटा । पीठ । पीठक ।

विशेष—इसकी लवाई टेढ़ दो हाथ, चौड़ाई पौन या एक हाथ और उँचाई चार छह घँगुली से प्रायः अधिक नहीं होती । अधिकतर यह आम दी लकड़ी से बनाया जाता है । अमीर लोग सगमरमर और राजा महाराजा सोने चाँदी आदि के भी पीडे बनवाते हैं ।

पीडो—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पीडिका] १ किमी विशेष कुल की परंपरा में किसी विशेष व्यक्ति की सत्ति का क्रमागत स्थान । किमी कुल या वंश में किमी विशेष व्यक्ति से आरंभ करके उसमें ऊपर या नीचे के पुरपो का गणनाक्रम से निश्चित स्थान । किसी व्यक्ति से या उसकी कुलपरंपरा में किसी विशेष व्यक्ति से आरंभ करके बाप, दादा, परदादे आदि अथवा बेटे, पोते, परपोते आदि के क्रम से पहला, दूसरा, चौथा आदि कोई स्थान । पुष्ट । जैसे,—(क) ये राजा कृष्णसिंह की चौथी पीढी में हैं । (ख) यदि वंशोत्पत्ति सबंधी नियमों का भली भाँति पालन किया जाय तो हमारी तीसरी पीढी की सत्तान अवश्य यथेष्ट बलवान् और दीर्घजीवी होगी ।

विशेष—पीडी का हिसाब ऊपर और नीचे दोनों ओर चलता है । किसी व्यक्ति के पिता और पितामह जिस प्रकार क्रम से उसकी पहली और दूसरी पीढी में हैं उसी प्रकार उसके पुत्र और पौत्र भी । परंतु अधिकतर स्थलों में अकेला पीडी शब्द नीचे के क्रम का ही बोधक होता है, ऊपर के क्रम का सूचक बनाने के लिये प्रायः उसके आगे 'ऊपर की' विशेषण लगा देते हैं । यह शब्द मनुष्यों ही के लिये नहीं अन्य सब पिंडज और अणुज प्राणियों के लिये भी प्रयुक्त हो सकता है ।

२ उपयुक्त किसी विशेष स्थान अथवा पीडी के समस्त व्यक्ति या प्राणी । किसी विशेष व्यक्ति अथवा प्राणी का सत्ति समुदाय । जैसे,—(क) हमारे पूर्वजों ने कदापि न सोचा होगा कि हमारी कोई पीडी ऐसे कम करने पर भी उतारू हो जाएगी । (ख) यह मर्त्ति हमारे पास तीन पीडियों से चली धार रही है । ३ किसी जाति, दश अथवा लोकमंडल मात्र के बीच किसी बालविशेष में होनेवाला समस्त जनसमुदाय । कालविशेष में किसी विशेष जाति, देश अथवा समस्त सत्तार में वर्तमान व्यक्तियों अथवा जीवों आदि का समुदाय । किसी विशेष समय में वगविशेष के व्यक्तियों की समष्टि । सत्ति । सत्तान । नस्ल । जैसे,—(क) भारतवासियों की अगली पीडी के कर्तव्य बहुत ही गुस्तर होंगे । (ख) उपाय करने से गोवश की दूसरी पीडी अधिक दुधारी और हृष्टपुष्ट बनाई जा सकती है ।

पीडो^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पीडा] छोटा पीडा । उ०—चदन पीडी बैठक सुरति रस विजन ।—धरम० श०, पृ० ६६ ।

पीडीवध—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पीडी + सं० वध] वंशक्रम । पीडियों का

क्रम । उ०—कुल महिमा वरुण कवण वृष बल पीढीवध ।
—रा० रु०, पु० १० ।

पीत^१—वि० [स०] [वि० ली० पीता] १ पीला । पीतवर्णयुवन । २
भूरा रंग । कपिलवर्ण (वव०) ।

पीत^२—वि० [म० पान] १ पिया हुआ । जिसका पान किया गया
हो । २ जिसने पी लिया हो । जिसने पान कर लिया हो
(को०) । ३. सोखा हुआ (को०) । ४. पूर्ण रूप से भरा हुआ
(को०) । ५. सिंचित । जल से मीचा हुआ (को०) ।

पीत^३—सज्ञा पुं० [म०] १ पीला रंग । हल्दी का रंग । २ भूरे रंग
का । कपिल । ३ हरताल । ४ हरिचन्दन । ५ कुसुम ।
६. अक्रोल या ढेरे का पेड़ । ७ सिंहोर का पेड़ । ८ धूप-
सरल । ९ बेंत । १०. पुखराज । ११ तुन । नदिवृक्ष ।
१२ एक प्रकार की सोमलता । १३ पीली कटसरैया ।
१४ पदमाख । पद्मकाष्ठ । १५ पीला खस । १६ मूंगा ।
१७ सोना । सुवर्ण (को०) । १८ बल्कल (को०) । १९
चक्रवाक (को०) । २०. इद्र (को०) । २१ मेढक (को०) ।
२२ गरुड (को०) । २३ गोमूत्र (को०) । २४ शुकचन्दु ।
मैना की चोच (को०) । २५ कणिकार । कनेर (को०) । २६.
चपक । चपा (को०) ।

पीत^४—सज्ञा स्त्री० [हि०] ३० 'प्रीति' । उ०—तम आसक या
दीप मे पूरित पीत सनेह । बाती विसद हुतास पितु ललित
तासु की देह ।—दीन० अ०, पु० १७४ ।

पीतकंद—सज्ञा पुं० [म० पीतकन्द] गाजर ।

पीतक^१—सज्ञा पुं० [म०] १ हरताल । २ केसर । ३ अमर । ४
पदमाख । ५ सोनामाखी । ६ नदिवृक्ष । तुन । ७ विजय-
सार । ८ सोनापाठा । ९. हलदुआ । दरिद्र । १० किकि-
रात । ११ पीतल । १२ पीला चदन । १३ एक प्रकार का
ववूल । १४ शहद । १५ गाजर । १६ सफेद जीरा । पीत-
जीरक । १७ पीली लोच । १८ चिरायता । १९ चदन ।

पीतक^२—वि० पीला । पीले रंग का । पीतवर्ण ।

पीतकदली—सज्ञा पुं० [स०] सोनकेला । स्वर्णकदली । चपक-
कदली ।

पीतकद्रुम—सज्ञा पुं० [स०] हलधुआ । हरिद्रवृक्ष ।

पीतकरधोरक—सज्ञा पुं० [स०] पीला कनेर । पीले फूल की केना ।

पीतका—सज्ञा स्त्री० [म०] १ कटसरैया । २ हलदी ।

पीतकावेर—सज्ञा पुं० [स०] १ केसर । २ पीतल ।

पीतकाष्ठ—सज्ञा पुं० [म०] १ पीला चदन । २ पद्माख ।

पीतकीला—सज्ञा स्त्री० [स०] आर्यत की लता । भागवत बल्ली ।

पीतकुरवक—सज्ञा पुं० [स०] पीली कटसरैया ।

पीतकुरुट—सज्ञा पुं० [म० पीतकुरुट] पीली कटसरैया ।

पीतकुष्ठ—सज्ञा पुं० [स०] पीले रंग का कुष्ठ रोग (को०) ।

विशेष—भगिनीगमन के पाप से इस रोग का होना कहा गया
है; यथा—भगिनीगमनेनैव पीतकुष्ठः प्रजायते ।

पीतकुप्माड—सज्ञा पुं० [स० पीतकुप्माड] कुम्हड़ा । पीला
कुम्हड़ा जिसकी तरकारी खाई जाती है ।

पीतकुसुम—सज्ञा पुं० [म०] पीली कटसरैया ।

पीतकैदार—सज्ञा पुं० [स०] एक प्रकार का धान ।

पीतगध—सज्ञा पुं० [स० पीतगन्ध] पीला चदन । हरिचदन ।

पीतगधक—सज्ञा पुं० [म० पीतगन्धक] गधक ।

पीतघोषा—सज्ञा स्त्री० [स०] एक प्रकार की तुरई । २ पीले फूल
वाली घोषा नाम की एक लता (को०) ।

पीतचचु—सज्ञा पुं० [स० पीतचञ्जु] एक प्रकार का शुक जिसका
बोच पीली होती है (को०) ।

पीतचन्दन—सज्ञा पुं० [स० पीतचन्दन] १. द्रविडदेशीय पीले र
का चदन । हरिचदन ।

विशेष—वैद्यक के अनुसार यह शीतल, निक्त, तथा कुष्ठ, श्लेः
कटु, विचित्रिका, दाद और कृमि का नाशक और काफि
कर है ।

पर्या०—हरिचदन । पीतगध । कालेय । कालीय । कालीयक
पीताभ । हरिप्रिय । माधवप्रिय । पीतक । पीतका
चर्वर । कालसार । कालानुसार्यक । कलधक ।

२ हरिद्रा । हलदी (को०) । ३ कुकुम । केशर (को०) ।

पीतचपक—सज्ञा पुं० [म० पीतचम्पक] १ पीली चपा । २ दीय
प्रदीप । चिराग ।

पीतचोष—सज्ञा पुं० [म०] टेसू । पलास का फूल ।

पीतफिटी—सज्ञा स्त्री० [म० पीतफिटी] १ पीले फूलवाली
सरैया । २ एक प्रकार की कटाई ।

पीततडुल—सज्ञा पुं० [स० पीततडुल] १ कांगुन वृक्ष । कांगु
२ साल वृक्ष ।

पीततडुलिका—सज्ञा स्त्री० [स० पीततडुलिका] साल वृक्ष ।
या मर्ज वृक्ष ।

पीतता—सज्ञा स्त्री० [स०] पीत का भाव । पीलापन । जर्दी ।

पीततुड--सज्ञा पुं० [स० पीततुड] उया पक्षी । नारडव पक्षी

पीततैला—सज्ञा स्त्री० [म०] १ ज्योतिष्मती । मालकंगनी
बड़ी मालकंगनी । महा ज्योतिष्मती ।

पीतत्व—सज्ञा पुं० [म०] ३० 'पीतता' ।

पीतदत्ता—सज्ञा स्त्री० [स० पीतदत्ता] दाँतो का एक
रोग जिसमें दाँत पीले हो जाते हैं ।

पीतदारु—सज्ञा पुं० [म०] १ देवदार । २ पूर । नान । ३
४. तदी । ५ चिरायता । ६ नायकरज ।

पीत^५—[म०] वीडो के एक देवता ।

१ [म०] १ एक प्रकार की गटहरी
कटकटाया । मंडनीड । ३
ला । ४ वह गाय जो सूत के
एदाता को दी गई हो (को०)

पीतद्रु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ दारु हलदी । २ एक प्रकार का देवदार ।
धूप सरल ।

पीतघातु पुं—सञ्ज्ञा पुं० [म० पीत+घातु] रामरज । गोपीचदन ।
उ०—स्यामात् अति स्यामहि भावै । बैठत उठत चलत गौ
चारत तेरी लीला गावै । पीत वरन लखि पीत वसन उर
पीतघातु अंग लावै ।—सूर०, १०।२५७९ ।

पीतन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ केशर । २ धूप सरल । ३ हरताल ।
४ आमड़ा । ५ पाकड़ ।

पीतनक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पीतन' ।

पीतनदी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पीत (=पीला)+नदी] चीन की
प्रसिद्ध नदी ह्यांगहो जो अपने किनारे पर उपजाऊ पीली मिट्टी
अधिकता से छोड़ती है । उ०—उसकी मुख्य भूमि पीत नदी
(ह्यांगहो) के बड़े चकोर चक्कर से पश्चिम थी ।—किन्नर०,
पृ० ८५ ।

पीतनाश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] लकुच । बडहर । क्षुद्र पनस ।

पीतनिद्र—वि० [सं०] जो गहरी नींद में हो । गहरी नींद में
सोया हुआ [को०] ।

पीतनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सरिवन । शालपर्णी ।

पीतनील^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नीले और पीले रंग के संयोग से बना
हुआ रंग । हरा रंग ।

पीतनील^२—वि० हरे रंग का । हरित वर्ण (पदार्थ) ।

पीतपराग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पद्मकेशर । कमल का केशर ।
किञ्जल्क ।

पीतपर्णी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वृश्चिकाली ।

पीतपापरा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीत+पपरा, ^२हिं० पित्तपापडा] दे०
'पित्तपापडा' । उ०—मोथा नींबू चिरायत बीसा । पीतपापरा
पित्त कहें नासा ।—इद्रा०, पृ० १५१ ।

पीतपादप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सोनापाठा । श्योनाक वृक्ष । २
लोष का पेड़ ।

पीतपादा^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पीत+पाद] मैना । सारिका ।

पीतपादा^२—वि० स्त्री० जिसके चरण पीले हो ।

पीतपिष्ट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सीसा घातु ।

पीतपुष्प^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ कनेर । २ धिया तोरई । ३ पीले
फूल की कटसरैया । ४ चपा । ५ रंग नामक क्षुप । ६
पेठा । ७ तगर । ८ हिंगोट । ९ लाल कचनार ।

पीतपुष्प^२—वि० पीले फूलोंवाला । जिसमें पीले फूल लगते हों [को०] ।

पीतपुष्पक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पीतपुष्प' ।

पीतपुष्पका—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] जगली ककड़ी ।

पीतपुष्पा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ किष्करीटा । २ इद्रायण । ३
सहदेवी । ४ अरहर । ५ तोरई । ६ पीले फूल की कट-
सरैया । ७ पीले फूल का कनेर । ८ सोनजुही । शूथिका ।

पीतपुष्पो—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ शाखाहुली । २ सहदेई । ३ बड़ी
तोरई । ४ खीरा । ५ इद्रायण । ६ सोनजुही ।

पीतपृष्ठा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार की कौडी । वह कौडी
जिसकी पीठ पीली होती है । चिची कौडी ।

पीतप्रसव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ हिंगुपत्नी । २ पीला कनेर ।

पीतफल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. सिहोर । शाखोट वृक्ष । २ कमरख ।
कर्मरंग । ३ धव का वृक्ष ।

पीतफलक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सिहोर । २ रीठा । ३ कमरख ।
४ धव वृक्ष ।

पीतफेन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] रीठा । अरिष्टक वृक्ष ।

पीतबलि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गषक ।

पीतबीलुका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] हरिद्रा । हलदी ।

पीतबीजा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] मेथी ।

पीतभद्रक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का बबूल । देव कवुंर ।

पीतभृंगराज—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीतभृङ्गराज] पीला भंगरा ।

पीतम^१—वि० [सं० प्रियतम] दे० 'प्रियतम' ।

पीतम^२—सञ्ज्ञा पुं० दे० 'प्रियतम' । उ०—विना प्रेम पैये नहि
पीतम लाख सपदा वारी । —भारतेंदु प्र०, भा० १,
पृ० ६९६ ।

पीतमण्डि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुखराज । पुष्पराग मण्डि ।

पीतमस्तक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बड़ी जाति का बाज । श्येन पक्षी ।

पीतमाक्षिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सोनामाखी । स्वर्णमाक्षिक ।

पीतमारुत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का सर्प [को०] ।

पीतमुंड—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीतमुण्ड] एक प्रकार का हरिन ।

पीतमुद्ग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पीले रंग की मूँग [को०] ।

पीतमूलक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गाजर ।

पीतमूली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] रेवद चीनी ।

पीतयूथी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सोनजुही । स्वर्णयूथिका ।

पीतर^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पित्तल, पीतल] दे० 'पीतल' ।

पीतर^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पित्त, पितर] दे० 'पितर' । उ०—(क)
पीतर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना । —कबीर प्र०,
पृ० ३३८ ।

पौं—पीतरपंड = पित्तपिंड । पिंडदान । उ०—पीतरपंड भरावइ छइ
राई ।—बी० रासो, पृ० ५२ ।

पीतरक्त^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पुखराज । २ पद्माख । पदमकाठ ।
३ पीलापन लिए हुए लाल रंग [को०] ।

पीतरक्त^२—वि० पीलापन लिए हुए लाल रंग का [को०] ।

पीतरत्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुखराज । पीतमण्डि ।

पीतरस—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कसेरू ।

पीतराग^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पद्मकेशर । २ मोम । ३ पीला रंग ।

पीतराग^२—वि० पीला । पीले रंग का ।

पीतरोहिणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ जभीरी । कुभेर । २ पीली
कुटकी ।

पीतल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पित्तल, पीतल] १ एक प्रसिद्ध उपधातु जो

तवि श्रीर जस्ते के संयोग से बनती है। कभी कभी इसमें राँगे या सीसे का कुछ अश्र मिलाया जाता है।

विशेष—यह तवि की अपेक्षा कुछ अधिक दृढ होती है। इसका व्यवहार बहुधा थाली, कटोरे, गिलास, गगरे, हडे आदि वरतन बनाने में होता है। देवताओं की मूर्तियाँ, उनके सिंहासन, घटे, अनेक प्रकार के वाद्य, यत्र, ताले, कलों के कुछ पुरजे श्रीर गरीबों के लिये गहने भी पीतल से बनाए जाते हैं। पीतल की चीजें लोहे की चीजों से कुछ अधिक टिकाऊ होती हैं, क्योंकि उनमें मोरचा नहीं लगता। यह पीतल दो प्रकार का होता है—एक कुछ सफेदी लिए पीले रंग का श्रीर दूसरा कुछ लाली लिए पीले रंग का। राँगे का भाग अधिक होने से इसमें कुछ सफेदी श्रीर सीसे का भाग अधिक होने से लाली आ जाती है। यदि इसमें निकल का मेल दिया जाय तो इसका रंग जर्मन सिलवर के समान हो जाता है। इसपर कलई बहुत अच्छी होती है।

२ पीला रंग। पीत वर्ण (को०)।

पीतल^२—वि० पीत वर्ण का। पीला (को०)।

पीतलक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिच्छलक] पीतल (को०)।

पीतलोद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पीतल।

पीतवर्ण^१—वि० [सं०] पीले रंग का। पीला।

पीतवर्ण^२—सञ्ज्ञा पुं० १ पीला मेढक। स्वर्णमङ्क। २ ताड। ताल-वृक्ष। ३ कर्दब। ४ हलदुआ। ५. लाल कचनार। ६. मैनसिल। ७. पीतचदन। ८. केसर। ९ पीला रंग। पीत वर्ण।

पीतवल्ली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] आकाशवेल।

पीतवान—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] हाथी की दोनों आँखों के बीच की जगह।

पीतवालुका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] हलदी।

पीतवास—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीतवासस्] श्रीकृष्ण।

पीतवास—वि० जो पीले कपड़े पहने हो। पीतवसन युक्त।

पीतविन्दु—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीतविन्दु] विष्णु के चरणचिह्नों में से एक।

पीतबीजा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] मेथी।

पीतवृक्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सोनापीठा २ बूप सरल।

पीतशाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विजयसार।

पीतशालक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पीतशाल। विजयसार।

पीतशेष^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीत+शेष] वह अश्र जो पीने के बाद बचा हुआ हो (को०)।

पीतशेष^२—वि० पीने के बाद बचा हुआ (को०)।

पीतशोणित—वि० [सं०] १ खून पीनेवाली (तलवार)। २. जिसने रक्तपान किया हो (को०)।

पीतसरा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पितृव्य+श्वश्रू, हिं० पितिया + ससुर] चचिया ससुर। ससुर का भाई।

पीतसार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पीतचदन। हरिचदन। २ मलय-गिरि चदन। सफेद चदन। ३ गोमेद मणि। ४. अकोल डेरा। ५ विजयसार। ६ शिलारस।

पीतसारक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ नीम का पेड़। २ डेरे का पेड़।

पीतसारि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] अजन। सुरमा (को०)।

पीतसारिका—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] काला सुरमा।

पीतसाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विजयसार।

पीतसालक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विजयसार। पीतसार।

पीतस्कंध—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीतस्कन्ध] १ सुअर। शूकर। २ एक वृक्ष।

पीतस्फटिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुखराज।

पीतस्फोट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] खुजली। खसरा रोग।

पीतहरित—वि० [सं०] पीलापन लिए हुए हरे रंग का (को०)।

पीताग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीताङ्ग] सोनापाठा।

पीताम्बर^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीताम्बर] १. पीले रंग का वस्त्र। पी. कपडा। २ मरदानी रेशमी धोती जिसे हिंदू लोग पूज्य सस्कार, भोजन आदि के समय पहनते हैं।

विशेष—इस वस्त्र का व्यवहार भारत में बहुत प्राचीन काल होता है। पहले कदाचित् पीली रेशमी धोती को ही पीताम्बर कहते थे, पर अब लाल, नीली, हरी आदि रंगों की धोतियाँ भी पीताम्बर कहलाती हैं।

३ श्रीकृष्ण। ४ नट। शैलूष। अभिनेता। ५ विष्णु (को०)।

पीताम्बर^२—वि० पीले कपड़ेवाला। पीतवसनयुक्त। पीताम्बरधारी।

पीताम्बर(३)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीताम्बर] दे० 'पीताम्बर'। उ प्रथम प्रयानह सुदरी मिली अक लिय वाल। पीताम्बर धरने दीप जोति रचि थाल।—पृ० रा०, ८।१८।

पीता^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ हलदी। उ०—पीता गौरी का रजनी पिढानाम।—अनेकार्यं, पृ० १०५। २ दाह हलदी ३. बड़ी मालकंगनी। ४. भूरे रंग का शीशम। ५. अश्रियं ६ गौरोचन। ७ अतीस। ८ पीला केला। स्वर्णकदली ९ जगली विजौरा नीवू। १० जदं चमेली। ११ देवदार १२ राल। १३ असगष। १४ शालिपर्णी। १५ कासे

पीता^२—वि० पीले रंग की। पीले रंगवाली (स्त्री अथवा वस्तु)।

पीता^३—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पित्ता] दे० 'पित्ता'।

मुहा०—पीते को मारना = दे० 'पित्ता मारना'। उ०—पीते मारै मोई जन पूरा।—प्राण०, पृ० २६।

पीताब्धि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] समुद्र को पी जानेवाले, अगस्त्य मुनि।

पीताम्भ^१—वि० [सं०] जिसमें से पीली आभा निकलती हो। नीला पीतवर्ण। उ०—पीताम्भ, अग्निमय ज्यो दुर्जय।— ५ पृ० ६२।

पीताम्भ^२—सञ्ज्ञा पुं० पीला चदन। पीत चदन।

पीताम्भ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का अन्नक जो पीला होता है।

पीताम्बलानं—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पीनी कटसरैया ।
 पीतारुण^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पीलापन लिए हुए लाल रंग ।
 पीतारुण^२—वि० पीलापन लिए हुए लाल रंग का । पीतारुण
 वर्णयुक्त । पीतरक्त वर्ण विशिष्ट ।
 पीताशेष—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीत+अशेष] 'पीतशेष' ।
 पीतारम—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीतारमन्] पुष्कराज । पुष्पराम मणि ।
 पीताह्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] राल ।
 पीति^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पीना । पान (वैदिक) । २ मुक्ति ।
 रक्षण । रक्षा । ३, गति । ४ सुँह । ५, गजा । मदिरागृह ।
 (को०) । ६ पाथागार । पाथशाला (को०) ।
 पीति^२—सञ्ज्ञा पुं० घोडा । अश्व ।
 पीतिञ्चा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पितृव्य] चाप का भाई । चाचा । उ०—
 आए नगर प्रागरे माहि । मु दरदास पीनिमा पाहि ।—प्रबंधं,
 पृ० ७ ।
 पीतिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ हलदी । २, दारु हलदी । सोनजूही ।
 स्वर्णयूथी । ३, केसर (को०) ।
 पीतिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] शालपर्णी ।
 पीतिमा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पीतिमन्] पीला रंग (को०) ।
 पीती^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीतिन्] घोडा ।
 पीती^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रीति] दे० 'प्रीति' ।
 पीतु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १, सूर्य । २, अग्नि । ३, यूपवति । हाथियो
 के समूह का नायक ।
 पीतुदारु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ गूलर । २, देवदार ।
 पीतोदक^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नारियल (जिसके भीतर जल या
 रस रहता है) ।
 पीतोदक^२—वि० १ जिमका पानी पिवा गया हो । २ जो पानी
 लिए हुए हो (को०) । जो गाय जितना जल पीना था, पी चुकी
 हो और जरा के कारण भ्रम नहीं पी सकती हो (कठोय०) ।
 पीथ—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पानी । २, घी । ३, अग्नि । ४, सूर्य । ५,
 काल । समय । ६, रक्षा । रक्षण (को०) । ७, पान (को०) ।
 पीथक^१—वि० [हिं० पृथक्] दे० 'पृथक्' । उ०—कतमाला
 पीथल्ल का, पीथक पारथ भग । तत्ता ताए लोह सम सदा
 अघाया जग ।—रा० रू०, पृ० १२६ ।
 पीथि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] घोडा ।
 पीदही—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पिही] दे० 'पिही' ।
 पीन^१—वि० [सं०] १ स्थूल । मोटा । उ०—गजहस्तप्राय जानु-
 युगल पीन मासल कूर्मपृष्ठाकार श्रेणी ।—वर्ण०, पृ० ४ ।
 २ पुं० । प्रवृद्ध । परिवर्धित । ३ सपन्न । भरा पूरा ।
 ४, वृहत् । बडा (को०) ।
 पीन^२—सञ्ज्ञा पुं० स्थूलता । मोटाई ।
 पीनक—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पिनकना] १ अफीम के नशे में ऊँधना ।
 नशे की हालत में अफीमची का भागे की घोर मुक मुक
 पडना ।
 क्रि० प्र०—लेना ।

मुहा०—पीनक में श्राना=अफीमची का नशे में ऊँधने लगना ।
 २, ऊँधना । नीद के प्राये मे भागे की घोर मुक मुक पडना ।
 जैसे,—तुम्हें शाम हुई मि नशे पानक मेने ।
 क्रि० प्र०—लेना ।

पीनता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ मोटाई । स्थूलता । उ०—दया गन
 दूबगें ही पाप ती पी पीनता ।—सतभाषी०, पृ० ८१ ।
 २, प्राथिव्य । बहुतायत ।
 पीनता—क्रि० ग० [सं० पिञ्जन] दे० 'पीजना' । उ०—बहुत दई
 पीनी बहु विधि गरि, मुदिता भए हरि गर्द । दादू दास अदर
 पीनारा मुदर भवि प्रति जाई ।—तुल० प्र०, ना० २,
 पृ० ८६६ ।
 पीनल कोठ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीनल कोठ] यन्त्रालय और दद
 मन्थी व्यवस्थापको का कार्यालय गमह । इन्जिनियरी । तार्की
 रात । जैसे, इन्जिन पीनल कोठ ।
 पीनवत्ता—वि० [सं० पीनवत्स] घीली सलोमाना । जिसका
 वक्ष विशाल हो (को०) ।
 पीनस^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नाक का एक रोग जिमें उमकी ब्राह्म
 या वास पहचानने की शक्ति नष्ट हो जाती है ।
 वियेय—इस रोग में नाक के नशेने छुट, एक से भरे हुए
 और बिलम्ब धर्यात् गीले रहते हैं तदा उनमें जलन भी रहनी
 है । वात और रुफ के प्रारोपनाले जुकाम के तदण प्राय
 इसमें भिन्नते हैं ।
 पीनस^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पीनस] पातकी ।
 पीनसा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] गफटी ।
 पीनसित—वि० [सं०] पीनस से पीडित । पीननी ।
 पीनसी—वि० [सं० पीनसिन्] जिसे पीनस रोग हुआ हो । पीनस
 से पीडित ।
 पीना^१—क्रि० सं० [सं० पान] १ किसी तरल वस्तु को घूँट घूँट
 करके गले के नीचे उतारना । जल या जलमय वस्तु को
 मुँह के द्वारा पेट में पहुँचाना । पेय पदार्थों को मुख द्वारा
 ग्रहण करना । घूँटना । पान करना । जैसे, पानी पीना,
 शरबत पीना, दूध पीना आदि ।
 संयो० क्रि०—जाना ।—डालना ।—लेना ।
 २ किसी बात को दया देना । किसी कार्य के सबध में वचन
 या कार्य से कुछ न करना । किसी सबध में सर्वथा मौन
 धारण कर लेना । पूर्ण उपेक्षा करना । किसी घटना के
 सबध में अपनी स्थिति ऐसी कर लेना जिससे उनसे पूर्ण
 असबध प्रकट हो । जैसे,—इस मागले को वह इस प्रकार पी
 जायगा, ऐसी आशा तो नहीं थी । ३ (गाली, अपमान
 आदि पर) क्रोध या उत्तेजना न प्रकट करना । सह जाना ।
 बरदाश्त करना । जैसे,—इस भारी अपमान को वह इस
 तरह पी गया मानों कुछ हुआ ही नहीं । ४ किसी मनो-
 विकार को भीतर ही भीतर दबा देना । मनोभाव को बिना
 प्रकट किए ही नष्ट कर देना । मारना । जैसे, गुस्ता पीना ।
 ५, किसी मनोविकार का कुछ भी अनुभव न करना ।

मनोभाव ही न रहने देना । कुछ भी शेष या बाकी न रखना जैसे, लज्जा पी जाना । ६ मद्य पीना । शराब पीना । सुरापान करना । जैसे,—जब जब वह पीता है तब तब उसकी यही दशा होती है ।

सयो० क्रि०—जाना । —ढालना । —लेना ।

७ हुक्के, चुरट आदि का घुआँ भीतर खीचना । धूमपान करना । जैसे, हुक्का पीना, चुरट पीना, गाँजा पीना, चहू पीना आदि ।

संयो० क्रि०—जाना । —ढालना । —लेना ।

८ सोखना । शोषण करना । जज्व करना । जैसे,—(क) यह जूता इतना तेल पिएगा, यह मैंने नहीं समझा था । (ख) मिट्टी का बरतन तो सारा घी पी जायगा ।

सयो० क्रि०—जाना । —ढालना ।

पीना^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीडन (= पेरना)] तिल, तीसी आदि की खली । उ०—विना विचार विवेक भए सब एकै धानी । पीना भा ससार जाठि ऊपर मरानी । —पलट्ट०, भा० १, पृ० ५६ ।

पीना^३—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] डाट । डट्टा (लश०) ।

पीनारा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिञ्जार] रुई धुननेवाला । धुनिया । उ०—दादू दास अजब पीनारा, सुदर बलि बलि जाई । —सुदर० अ०, भा० २, पृ० ८६६ ।

पीनी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] पोस्त, तीसी या तिल आदि की खली ।

पीनी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पीना] हुक्के की नली । निगाली । उ०—अदर से बुद्धिया निकली तो कुल्ली ने कहा पीनी हमारे पास है, तुम हुक्का भरकर ला दो ।—रति०, पृ० ५५ ।

पीनोघनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] भरे हुए स्तनोंवाली गौ [को०] ।

पीनोरु—वि० [सं० पीन + उरु] भारी जाँघोवाली । जिसके उरु पीन हो । उ०—करके अधिकार किसी भीरु पीनोरु नतनयना नवयौवना पर । —अपरा, पृ० ६ ।

पीप^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूय] फूटे फोड़े या घाव के भीतर से निकलनेवाला सफेद लसदार पदार्थ जो दूषित रक्त का रूपांतर होता है ।

विशेष—इसमें रक्त के श्वेत कण ही अधिकता से होते हैं । उनके अतिरिक्त इसमें शरीर के सड़े हुए और नष्ट घटकों और तनुश्रो का भी कुछ लाल अंश होता है । शरीर के किसी भाग में इस पदार्थ के एकत्र हो जाने से ही अणु या फोड़ा होता है और जब तक यह निकल नहीं जाता तब तक बहुत कष्ट होता है ।

पीप^२—सञ्ज्ञा पुं० [प्रा० पिप्पल, हिं० पीपल] दे० 'पीपल' । उ०—सुहत्या जनु पीनय पीप पत ।—पृ० रा०, १।११४ ।

पीपर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिप्पल] दे० 'पीपल' ।

पीपरपर्न^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पीपल + पर्न] सं० पर्यं] कान में पहनने का एक आभूषण । उ०—पीपरपर्नं मुलमुली तीखन बहु खलेल भूमिका सुसरमन ।—सुदन (शब्द०) ।

पीपरामूल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिप्पल + मूल] दे० 'पीपलामूल' ।

पीपरि^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] छोटा पाकड़ ।

पीपरि^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिप्पली] दे० 'पीपल' ।

पीपरि^३—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० दे० 'पीपल'] ।

पीपल^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिप्पल] बरगद की जाति का एक प्रसिद्ध वृक्ष जो भारत में प्रायः सभी स्थानों पर अधिकता से पाया जाता है ।

विशेष—यह वृक्ष ऊँचाई में बरगद के समान ही होता है, पर इसमें उसकी तरह जटाएँ नहीं फूटती । पत्ते इसके गोल होते हैं और आगे की ओर लंबी गावदुम नोक होती है । इसकी छाल सफेद और चिकनी होती है । लकड़ी पोली और कमजोर होती है और जलाने के सिवा और किसी काम की नहीं होती । इसका गोदा (फल) बरगद के गोदे की अपेक्षा छोटा और चिपटा तथा पकने पर यथेष्ट मीठा होता है । गोदे लगने का समय वैसाख जेठ है । इसकी डालियों पर लाख के कीड़े पैदा होते हैं और पाले जाते हैं । बस यही इसका विशेष उपयोग है । गोदे वच्चे खाते हैं और पत्ते बकरियों और ऊँटों, हाथियों को खिलाए जाते हैं । छाल के रेशों से ब्रह्मा (वर्मा) वाले एक प्रकार का हरा कागज बनाते हैं ।

पुराणानुसार पीपल अत्यंत पवित्र और पूजनीय है । इसके रोपण करने का अक्षय पुण्य लिखा है । पद्मपुराण के अनुसार पावती के शाप से जिस प्रकार शिव को बरगद और ब्रह्मा को पाकड़ के रूप में अवतार लेना पड़ा उसी प्रकार विष्णु को पीपल का रूप ग्रहण करना पड़ा । भगवद्गीता में भी श्री-कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मुझे पीपल जानो । हिंदू लोग बड़ी श्रद्धा से इसकी पूजा और प्रदक्षिणा करते हैं और इसकी लकड़ी काटना या जलाना पाप समझते हैं । दो तीन विशेष संस्कारों में, जैसे, मकान की नींव रखना, उपनयन आदि में इसकी लकड़ी काम में लाई जाती है । बौद्ध लोग भी पीपल को परम पवित्र मानते हैं, क्योंकि बुद्ध को सबोधि की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे ही हुई थी । वह वृक्ष बोधिद्रुम के नाम से प्रसिद्ध है ।

वैद्यक के अनुसार इसके पके फल शीतल, अतिशय हृद्य तथा रक्तपित्त, विष, दाह, छर्दि, शोष, अरुचि और योनिदोष के नाशक हैं । छाल सकोचक है । मुलायम छाल और नए निकले हुए पत्ते पुराने प्रमेह की उत्तम औषध है । फल का घृणं सेवन करने से क्षुधावृद्धि और कोष्ठशुद्धि होती है । फलों के भीतर के बीज शीतल और धातु परिवर्द्धक माने जाते हैं ।

पर्या०—बोधिद्रुम । चलदल । पिप्पल । कुजराशन । अच्युतावास । चलपत्र । पवित्रक । शुभद । याज्ञिक । गजभक्ष्य । श्रीमान् । वीरद्रुम । विप्र । मागद्वय । श्यामलय । गुह्यपुण्य । सेव्य । सत्य । शुचिद्रुम । धनुवृक्ष ।

पीपल^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिप्पली] एक लता जिसकी कलियाँ प्रसिद्ध औषधि हैं ।

विशेष—इसके पत्ते पान के समान होते हैं । कलियाँ तीन चार अंगुल लंबी शहतूत के आकर की होती हैं और इनका पुष्प-

भाग भी वैसा ही दानेदार होता है। इसका रंग मटमैला और स्याद तीखा होता है। छोटी कलियों को छोटी पीपल और बड़ी तथा किंचित् मोटी कलियों को बड़ी पीपल कहते हैं। ओषधि के लिये अधिकतर छोटी ही काम में लाई जाती है। वैद्यक के अनुसार पीपल (फली) किंचित् उष्ण, चरपरी, स्निग्ध, पाक में स्वादिष्ट, वीर्यवर्धक, दीपन, रसायन हलकी, रेचक तथा कफ, वात, श्वास, कास, उदररोग, ज्वर, कुष्ठ, प्रमेह, गुल्म, क्षयरोग, ववासीर, प्लीहा, शूल और आमवात को दूर करनेवाली मानी जाती है।

पर्या०—पिप्पली। मागधी। कृष्णा। चपला। चचला। उप-कुल्ला। कोक्या। वैदेही। तिक्ततडुला। उष्णा। शौंडी। कोला। कटी। एरढा। मगधा। कृकला। कटुबीजा। कारगी। दतकफा। मगधोद्भव।

पीपलमूल^(५)—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पीपलामूल' उ०—विसूचित तन नहीं सके समारि। पीपलमूल ज्वाइनि तारि।—प्राण०, पृ० १५०।

पीपलामूल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिप्पलीमूल] एक प्रसिद्ध ओषधि जो पीपल ओषधि की जड़ है।

विशेष—आयुर्वेद के अनुसार पीपलामूल चरपरा, तीखा, गरम, रुखा, दस्तावर, पित्त को कुपित करनेवाला, पाचक, रेचक तथा कफ, वात, उदररोग, आनाह, प्लीहा, गुल्म, कृमि, श्वास, क्षयरोग, खाँसी, आम और शूल को दूर करनेवाला माना जाता है। पीपलामूल नाम से भी यह प्रसिद्ध है।

पीपा—सञ्ज्ञा पुं० [?] बड़े ढोल के आकार का या चौकोर काठ या लोहे का पात्र जिसमें मद्य, तेल आदि तरल पदार्थ रखे और चालान किए जाते हैं।

विशेष—बरसात के अतिरिक्त अन्य दिनों में बड़े बड़े पीपों को पत्ति में विछाकर नदियों पर पुल भी बनाए जाते हैं।

पीपियाङ्गु—सञ्ज्ञा पुं० [अनु०] आम की गुठली या अन्य किसी साधन से बनाया हुआ बच्चों का बाजा।

पीब—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूय, हि० पीप] दे० 'पीप'।

पीथ^(५)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रिय] दे० 'पिय'। उ०—प्यारी झूलत प्यार सौ पीथ झुलावत जात। मनो सितारे भूमि नभ फिरि आवत फिरि जात।—स० सप्तक, पृ० ३६३।

पीयरां—वि० [अप० पीरर] दे० 'पीला'।

पीया^(५)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रिय] स्वामी। पति। पिय।

पीयु^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ काल। समय। २ सूर्य। ३ अग्नि (को०)। ४ स्वर्ण। सोना (को०)। ५ धूक। ६ कौआ। काक। ७ उल्लू। पेचक।

पीयु^२—वि० १ हिंसा करनेवाला। हिंसक। २ प्रतिकूल। विरुद्ध।

पीयूसा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार का पाकर।

पीयूख—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीयूष] दे० 'पीयूष'।

पीयूष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ अमृत। सुधा। २ दूध। ३ नई व्याई हुई गाय वा प्रथम से सातवें दिन तक का दूध। इस गाय

का दूध जिसे व्याए सात दिन से अधिक न हुआ हो। नव-प्रसूता गाय का दूध।

विशेष—वैद्यक के अनुसार ऐसा दूध रुखा, दाहकारक, रक्त को कुपित करनेवाला और पित्तकारक होता है। साधारणतः ऐसा दूध लोग नहीं पीते क्योंकि वह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक माना जाता है।

यौ०—पीयूषद्युति, पीयूषधाम = पीयूषभानु। पीयूषमुक्, पीयूष-मयूख, पीयूषमहा, पीयूषरुचि = चद्रमा।

पीयूषभानु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चद्रमा। उ०—तीछन जुन्हाई भई ओषम को घामु, भयो भीसम पीयूषभानु, भानु टुपहर को।—मतिराम (शब्द०)।

पीयूषभुक्—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीयूषभुज्] १ चद्रमा। २ देवता (को०)।

पीयूषमहा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीयूषमहस्] अमृतमय किरणोवाला। अमृतदीधिति। चद्रमा (को०)।

पीयूषरुचि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चद्रमा।

पीयूषवर्ण^१—वि० [सं०] दूध की तरह सफेद (को०)।

पीयूषवर्ण^२—सञ्ज्ञा पुं० श्वेत वर्ण का घोडा। सफेद घोडा (को०)।

पीयूषवर्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. चद्रमा। २ कपूर। ३ एक छद का नाम जिसके प्रत्येक चरण में १०—६ विश्राम से १६ मात्राएँ और अत मे गुरु लघु होता है। इसको 'भानववर्षक' भी कहते हैं। ४ जयदेव कवि की उपाधि। ५. अमृत की वर्षा (को०)।

पीर^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पीडा] १ पीडा। दुःख। दर्द। तकलीफ। उ०—जाके पैर न फटी विवाई। सो का जानै पीर पराई।—तुलसी (शब्द०)। २. दूसरे की पीडा या कष्ट देखकर उत्पन्न पीडा। दूसरे के दुःख से दुःखानुभव। सहानुभूति। हमदर्दी। दया। करुणा।

मुहा०—पीर न आना = दूसरे के दुःख से दुःखी न होना। पराए कष्ट पर न पसीजना। सहानुभूति या हमदर्दी न पैदा होना। ३ बच्चा जनने के समय की पीडा। प्रसवपीडा। उ०—कमर उठी पीर मैं तो लाला जन्गी।—गीत (शब्द०)।

क्रि० प्र०—आना।—उठना।—होना।

विशेष—यद्यपि ब्रजभाषा, खड़ी बोली और उर्दू तीनों भाषाओं के कवियों ने बहुतायत से इस शब्द का प्रयोग किया है और स्त्रियों की बोलचाल में अब भी इसका बहुत व्यवहार होता है तथापि गद्य में इसका व्यवहार प्रायः नहीं होता।

पीर^२—वि० [फा०] [सञ्ज्ञा पीरी] १ बूद्ध। बूढ़ा। बडा। बुजुर्ग। २, महात्मा। सिद्ध। ३ धूर्त। चालाक। उस्ताद। (बोलचाल)।

पीर^३—सञ्ज्ञा पुं० १ धर्मगुरु। परलोक का मार्गदर्शक। २ मुसलमानों के धर्मगुरु।

पीर^४—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पीर (= गुरु)] सोमवार का दिन। चद्रवार।

पीरक^(५)—वि० [सं० पीरक, हि० पीर + क (प्रत्य०)] पीडा देने-

वाला । सतानेवाला । उ०—प्राननि प्रान ही, प्यारे मुजान ही, बोली इते परपीरक ही क्यो ।—घनानद, पृ० १२१ ।

पीरजादा—सञ्ज्ञा पु० [फा० पीरजादह्] [खी० पीरजादी] किसी पीर या धर्मगुरु की सतान । उ०—यो सुन कर जमा हो सब पीरजादे, सवारो जमा कर कर होर प्यादे ।—दक्खिनी०, पृ० १६६ ।

पीरजाल—सञ्ज्ञा खी० [फा० पीरजाल] वृद्धा स्त्री । बुढ़िया [को०] ।

पीरनाबालिग—वि० [फा० पीर+अ० नाबालिग] ऐसा वृद्ध जो बच्चो के से काम और बातें करे । सठियाया हुआ बुढ़ा । बुद्धिभ्रष्ट वृद्ध ।

पीरमर्द—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] वृद्ध और सदाचारी व्यक्ति [को०] ।

पीरमान—सञ्ज्ञा पुं० [लश०] मस्तूल के ऊपर बँधे हुए वे डडे जिनके दोनो सिरो पर लट्टू बने रहते हैं और जिनपर पाल चढाई जाती है । श्रद्धांडा । परवान ।

पीरमुरशिद—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] गुरु, महात्मा, पूजनीय अथवा अपने से दर्जे में बहुत बड़ा ।

विशेष—महात्माओ के अतिरिक्त राजाओ, बादशाहो और बडो के लिये भी इसका प्रयोग किया जाता है ।

पीरसाल—वि० [फा०] १ वृद्ध । वयोवृद्ध । २ वृद्धा । बूढ़ी [को०] ।

पीराई—सञ्ज्ञा खी० [सं० पीडा] दे० 'पीडा' ।

पीरा^३—वि० [सं० पीत, प्रा० पीशर] दे० 'पीला' । उ०—पाँच तत्त रंग भिन भिन देखा । कारा पीरा सुरख सपेदा ।—घट०, पृ० २३८ ।

पीराई—सञ्ज्ञा पु० [फा० पीर+हिं० आई (प्रत्य०)] वह जाति जिसकी जीविका पीरों के गीत गाने से चलती है । डफाली ।

पीरान—सञ्ज्ञा खी० [फा०] वह भूमि जो किसी पीर की सेवा में अर्पित हो । २ भूमि जो पीरों की सहायता के लिये हो [को०] ।

पीराना—वि० [फा० पीरानह्] बूढ़ो के समान । वृद्ध जैसा । वृद्ध का [को०] ।

पीरानी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] पीर की पत्नी [को०] ।

पीरानेपीर—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] पीरो का पीर [को०] ।

पीरामिड—सञ्ज्ञा पुं० [अ० पिरामिड] ऊपर को उठा हुआ त्रिकोणमक कब्रगाह ।

विशेष—मिस्र में इस प्रकार के अनेक कब्रगाह बने हैं, जिनमें प्राचीनतम राजाओ के शव सुरक्षित हैं । विश्व की आश्चर्य-जनक वस्तुओं में पिरामिड भी हैं । वास्तुशिल्प की दृष्टि से इन कब्रों या पिरामिडों का विशेष महत्व है ।

पीरो—सञ्ज्ञा खी० [फा०] १ बुढ़ापा । वृद्धावस्था । २. चेला मूढने का घधा या पेशा । गुरुवाई । ३ चालाकी । धूर्तता (क्व०) । ४, इजारा । ठेका । हुकूमत । जैसे,—क्या

तुम्हारे दादा की पीरी है । ५. अमानुषिक शक्ति या उसके कार्य । चमत्कार । करामात (क्व०) ।

पीरो^२—वि० खी० [हिं०] दे० 'पीला' । उ०—यह पीरी पीरी मई, पीरी मोहि मिलाय ।—ग्रज० ग्रं०, पृ० ५६ ।

पीरो^३—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पीला] पीलिया या कामला रोग ।

पीरू^१—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पीलमुगं] एक प्रकार का मुगं ।

विशेष—इस शब्द का पुराना रूप 'पीलू' है । पर अब इस रूप में ही अधिक प्रचलित है ।

पीरो^४—वि० [हिं०] दे० 'पीला' । उ०—(क) राधे राधे टेर टेर, पीरो पट फेर फेर, हेर हेर हरि डोले गेर गेर वन में । (ख) द्वै सिंघ आनन पर जमें कारो पीरो गात ।—नद० ग्र०, पृ० १८४ ।

पीरोज^५—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पेरोज (=उपरत्त), फा० फीरोजह्, पीरोजह्, हिं० पीरोजा] दे० 'फीरोजा' । उ०—कहूँ दाडिमी चूव चिचन्न चपी । मनो लाल मानिक पीरोज थपी ।—पु० रा०, २ । ४७० ।

पीरोजा—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पीरोजह्] दे० 'फीरोजा' ।

पील^१—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] १ हाथी । गज । हस्ति । उ०—परै पील भुम्मी मू धुम्मे गरज्जे ।—ह० रासो, पृ० १४६ । २. शतरज के खेल का एक मोहरा । यह तिरछा चलता है और तिरछा ही मारता है । इसको पीला, फील, फोला तथा ऊँट भी कहते हैं । विशेष—दे० 'शतरज' ।

पील^२—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पीलू] कीडा ।

पील^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीलु] दे० 'पीलु'—१ ।

पील^४—वि० [हिं० पीला] दे० 'पीला' । उ०—ता में लील पील सम द्वारा ।—घट०, पृ० २४६ ।

पीलक^१—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का पीले रंग का पक्षी जिसके डंने काले और चोच लाल होती है ।

पीलक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बडा और काला चीटा [को०] ।

पीलखाँ—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का वृक्ष ।

पीलखाना—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पीलखानह्] हस्तिशाला । हथसार ।

पीलपाँव—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पीलपा] एक प्रसिद्ध रोग । फीलपा । श्लीपद ।

विशेष—इसमें घुटने के नीचे एक या दोनो पैर सूजे रहते हैं । सूजन पुरानी होने पर उसमें खुजली और घाव भी हो जाता है । सूजन पहले टाँग के पिछले भाग से आरंभ होती है फिर धीरे धीरे सारी टाँग में व्याप्त हो जाती है । आरंभ में ज्वर और जिस पैर में यह रोग होनेवाला रहता है उसके पट्टे में गिलटी निकलती है जिसमें असह्य पीडा होती है । वात की अधिकता में सूजन काली, सूखी, फटी और तीव्र वेदनायुक्त, पित्त की अधिकता में बमल, पीली और दाहयुक्त तथा कफ की अधिकता में कठिन, चिकनी, सफेद या पाहवण और भारी

होती है। बहुत जल्दी सपाय न करने से यह रोग असाध्य हो जाता है। सीढवाले देशों में यह रोग अधिक होता है। कई आचार्यों के मत से हाथ, गला, कान, नाक, होठ आदि की सृजन भी इसी के अतर्गत है।

पीलपा—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] दे० 'पीलपाव'।

पीलपाया—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पीलपायह] वह खभा जो ठेक या सहारे के लिये लगाया जाता है [की०]।

पीलपाल (पु)—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पील, सं० पीलु + सं० पाल] पीलवान। महावत। हाथीवान।

पीलवान—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] दे० 'पीलवान'। उ०—पीलवाननि सँवारे ये मतग मतवारे ते।—हम्मीर, पृ० २३।

पीलवान—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पीलवान] हाथीवान। महावत। पीलवान।

पीलसोज—सञ्ज्ञा पुं० [फा० फतीलसोज] दीया जलाने की दीवट। चौमुखा दीवट। घिरागदान। उ०—पीलसोज फानुस कुपी तिखटी सुमसालीं।—सूदन (शब्द०)।

पीला^१—वि० [सं० पीतलक, (= पीला), अ० पीअर, पीअल] [वि० खी० पीली] १ हलदी, सोने या केसर के रंग का (पदार्थ)। जिसका रंग पीला हो। पीतवर्ण। जर्द। २ ऐसा सफेद जिसमें सुर्खी या चमक न हो। रक्त का अभावसूचक ध्वेत। जिससे वर्ण की आभा न निकलती हो। कातिहीन। निस्तेज। धुँधला सफेद। जैसे, पीला चेहरा।

मुहा०—पीला पड़ना या होना = (१) रक्त के अभाव के कारण (मनुष्य के शरीर या चेहरे के) रंग में चमक या कांति न रह जाना। बीमारी के कारण चेहरे या शरीर से रक्त का अभाव सूचित होना। ललाई, तेज या दमक न रह जाना। जैसे,—तुम दिन व दिन पीले हुए जा रहे हो, आखिर तुम्हें कौन सा रोग लगा है। (२) भय के कारण चेहरे पर सफेदी आ जाना। खून सूख जाना। रंग उड़ जाना या फीका पड़ जाना। जैसे,—मेरी सुरत देखते ही वह एकदम पीला पड़ गया।

पीला^२—सञ्ज्ञा पुं० एक प्रकार का रंग जो हलदी या सोने के रंग से मिलता जुलता होता है और जो हलदी, हरसिगार आदि से बनाया जाता है।

मुहा०—पीली फटना = पी फटना। तडका होना।

पीला—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पीलह] शतरज का एक मोहरा। दे० 'पील'।

पीला कनेर—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पीला + कनेर] कनेर के दो भेदों में से एक जिसका फूल पीला और आकार में घंटी के समान होता है। लाल कनेर की अपेक्षा इसका पेड़ कुछ अधिक ऊँचा होता है। वैद्यक के अनुसार इसके गुण भी सफेद कनेर के समान ही होते हैं।

विशेष—दे० 'कनेर'।

पीला धतूरा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पीला + धतूरा] १ भेंडभांड। सत्यानासी। घमोय। ऊँटकटारा। २ पीले वर्ण का फनक पुष्प।

विशेष—काले या नीले धतूरे के समान इसमें भी तीन फूल एक ही में लगे रहते हैं। खिल जाने पर इसका फूल सोने की तरह पीला दिखता है। यह वृक्ष बहुत कम दिखाई पड़ता है।

पीलापन—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पीला + पन (प्रत्य०)] पीला होने का भाव। पीतता। जर्दी।

पीलाबरेल—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] वरियारा। वनमेथी।

पीलाम—सञ्ज्ञा पुं० [?] साटन नाम का कपड़ा।

पीला शेर—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पीला + फा० शेर] एक प्रकार का बाघ जो अफ्रीका में पाया जाता है और जिसका रंग कुछ पीला होता है।

पीलमा (पु)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पीला] पीलापन। पीतता।

पीलिया—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पीला + इया (प्रत्य०)] कमल रोग जिसमें मनुष्य की आँखें और शरीर पीला हो जाता है।

पीलीचमेली—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पीली + चमेली] दे० 'चमेली'।

पीली चिट्ठी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पीली + चिट्ठी] विवाह का निमन्त्रणपत्र जिसपर प्रायः केसर, हलदी आदि छिड़वा रहता है।

पीली जुही—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पीली + जुही] दे० 'सोनजुही'।

पीलीमिट्टी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पीली + मिट्टी] एक प्रकार की मिट्टी जो चिकनी, कडी और रंग में पीली होती है।

पीलु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. एक फलदार वृक्ष जिसे पीला या पीलू कहते हैं।

विशेष—वैद्यक के अनुसार इसका फल स्वादु, कटु तिक्त, उष्ण, भेदक तथा वायु, कफ, पित्त, गुल्म, प्रमेह, संधिवाक आदि का नाशक माना गया है। मीठा पीलु कम गरम और त्रिदोषनाशक माना जाता है।

२ फूल। पुष्प। ३ परमाणु। ४ हाथी। ५ हड्डी का टुकड़ा। अस्थिखंड। ६. तालवृक्ष का तना। तालकांड। ७ बाण। ८ कृमि। ९ चने का साग। १० सरपत या सरकडे का फूल। शरतृणपुष्प। ११ लाल कटसरेया। किंकिरात वृक्ष। १२ अखरोट का पेड़। १३ काचन देश का अखरोट। १४ हथेली। करतल।

पीलुआ—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] मछली पकड़ने का बहुत बड़ा जाल।

पीलुक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का कीड़ा। चीटी।

पीलुनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ चुरनहार। मूर्वा। २ चने का साग कचूक शाक।

पीलुपत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] क्षीर मोरट। मोरट या मूर्वा सता।

पीलुपर्णी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ चुरनहार। मूर्वा। २ कुँदरू। कदूरी।

पीलुपाक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वैशेषिकों का मत। वैशेषिकों का एक

सिद्धात जिसके अनुसार ताप समग्र पदार्थ (जैसे, कच्चा घड़ा) के अणुओं पर ही कार्य करता है। विशेष—^{२०} 'वैशेषिक'।

पीलुपाकवादी—सञ्ज्ञा पुं० [म० पीलुपाकवादिन्] वैशेषिक।

पीलुमूल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पीलुवृक्ष की जड़। २ सतावर। ३ शालपर्णी।

पीलुमूला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] जवान गाय।

पीलुसार—सञ्ज्ञा पुं० [म०] एक पर्वत का नाम।

पीलू^१—सञ्ज्ञा पुं० [म० पीलू] १ एक प्रकार का काँटेदार वृक्ष जो दक्षिण भारत में अधिकता से होता है।

विशेष—यह दो प्रकार का होता है एक छोटा और दूसरा बड़ा। इसमें एक प्रकार के छोटे छोटे लाल या काले फल लगते हैं जो वैद्यक के अनुसार वायु और गुन्म नाशक, पित्तद और भेदक माने जाते हैं। इसके हरे डठलो की दतवन अच्छी होती है। पुराणानुसार इसके फूले हुए वृक्षों को देखने से मनुष्य नीरोग होता है।

२ सफेद रवे कीड़े जो सड़ने पर फलों आदि में पड़ जाते हैं।

मुहा०—पीलू पड़ना = कीड़े उत्पन्न होना।

पीलू^२—सञ्ज्ञा पुं० एक राग जिसके गाने का समय दिन को २१ दृष्ट से २४ दृष्ट तक अर्थात् तीसरा पहर है। इसमें गाधार और ऋषभ का मेल होता है और सब शुद्ध स्वर लगते हैं।

पीलो^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] पक्षी विशेष। उ०—नीले नभ में पीलो के दल आतप में घीरे मँडराते।—ग्राम्या, पृ० ३८।

पीव^१—वि० [सं० पीवन्] १ स्थूल। मोटा। २ पुष्ट।

पीव^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] २० 'पीव'।

पीव^३—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पिय] प्रिय। पति। स्वामी। उ०—हरि मोर पीव में राम की बहुरिया।—कवीर (शब्द०)।

पीवनहारा—वि० [हि० पीवना+हारा (प्रत्य०)] पीनेवाला। उ०—अधरसुधा सरवस जु हमारी। ताकी निघरक पीवन-हारो—नद० प्र०, पृ० २६४।

पीवना^४—क्रि० सं० [हि० पीना] ३० 'पीना'।

पीवर^१—वि० [सं०] [वि० स्त्री० पीवरा] [सञ्ज्ञा पीवरता, पीवरत्व] १ मोटा। स्थूल। तगड़ा। उ०—सुडर अ स पीवर रचिर, परम ललित भुज बेलि।—घनानन्द, पृ० २६०। २ भारी। गुरु। वजनी।

पीवर^२—सञ्ज्ञा पुं० १ कछुआ। २ जटा। ३ तामस मन्वतर के सर्पों में से एक ऋषि का नाम।

पीवरस्तनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] बड़े स्तनवाली गाय या स्त्री।

पीवरा^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ असगंध। २ सतावर।

पीवरा^४—वि० स्त्री० ३० 'पीवर'।

पीवरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ सतावर। २ सर्पिन। शालपर्णी। ३ वहिपद नामक पितृ की मानसी कन्याओं में से एक। ४ युवती स्त्री। ५ गाय।

पीवस—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मोटा तगड़ा। स्थूल। (वैदिक)।

पीवा^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] जल। पानी।

पीवा^२—वि० [सं० पीवन्] पुष्ट। मोटा। स्थूल। २. ताकतवर। शक्तिशाली (को०)।

पीवा^३—सञ्ज्ञा पुं० वायु (को०)।

पीविष्ठ—वि० [सं०] अतिशय स्थूल। बहुत मोटा।

पीस—वि० [अ०] विभाग। हिस्सा। खंड। टुकड़ा।

पीसगुड—सञ्ज्ञा पुं० [अ० पीसगुड्ज] (कपड़े का) थान। रेजा। जैसे, पीस गुड्ज के व्यापारी।

पीसना^१—क्रि० सं० [सं० पेपण] १ सूखी या ठोस वस्तु को रगड़ या दबाव पहुँचाकर चूर चूर करना। किसी वस्तु को आटे, बुकनी या धूल के रूप में करना। चक्की आदि में दलकर या सिल आदि पर रगड़कर किसी वस्तु को अत्यंत बारीक टुकड़ों में करना। जैसे, गेहूँ पीसना, मुर्छी पीसना आदि।

विशेष—इसका प्रयोग पीसी जानेवाली, पीसनेवाली तथा पीसकर तैयार वस्तुओं के साथ भी होता है। जैसे, गेहूँ पीसना, चक्की पीसना और आटा पीसना।

२ किसी वस्तु को जल की सहायता से रगड़कर मुलायम और बारीक करना। जैसे, चटनी पीसना, ममाला पीसना, बादाम पीसना, भग पीसना आदि। ३. कुचल देना। दबाकर भुरकुस कर देना। पिलपिला कर देना। जैसे,—तुमने तो पत्थर गिराकर मेरी ऊँगली बिलकुल पीस डाली।

मुहा०—किसी (आदमी) को पीसना = बहुत भारी धपकार करना या हानि पहुँचना। नष्टप्राय कर देना। चीपट कर देना। कुचलना। जैसे,—वह उन्हें कुछ नहीं समझना, चुटकी वजाते पीस डालेगा।

४ कटकटाना। किरकिराना। जैसे, दाँत पीसना। ५ कड़ी मिहनत करना। कठोर श्रम करना। जान डालना। जैसे,—सारा दिन पीसता हूँ फिर भी काम पूरा नहीं होता।

पीसना^२—सञ्ज्ञा पुं० १ वह वस्तु जो किसी को पीसने को दी जाय पीसी जानेवाली वस्तु। जैसे, गेहूँ का पीसना तो इसे दे दो चने का और किसी को दिया जायगा। २ उतनी वस्तु जे किसी एक आदमी को पीसने को दी जाय। एक आदमी के हिस्से का पीसना। जैसे,—तुम अपना पीसना ले जाओ ३ किसी एक आदमी के हिस्से या जिम्मे का काम। उतना काम जो किसी एक आदमी के लिये अलग कर दिया गया हो (व्यंग्य में)।

मुहा०—पीसना पीसना = (१) कठिन परिश्रम का लगातार करते रहना। (२) किसी नाधारण काम में देर लगाना या आवश्यकता से अधिक समय देना (व्यंग्य में)।

पीसुन^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिशुन हि०] ३० 'पिशुन'। उ० पीसुन भीले सर्वाहि पुतारा। सबही जान भुलावनहारा। कबीर सा०, भा० ४, पृ० ५६७।

पीसू—सज्ञा पुं० [हिं० पिस्सू] एक प्रकार का परदार छोटा कीड़ा जो मच्छरों की तरह काटता है। यह पशुओं को बहुत तग करता है और उनके रोएँ में बड़ी क्षीप्रता से रेंगता है।

पीह—सज्ञा स्त्री० [?] चरवी।

पीहर—सज्ञा पुं० [सं० पिह, प्रा० पिह, पिड, पिह + सं० गेह या घर ? प्रा० हर] स्त्रियों के माता पिता का घर। मैका। उ०—सासरँ जाऊँ तो सास रिसैहै, पीहर जाऊँ खिजँ भैया।—घनानन्द, पृ० ५८२।

पीहा^७—सज्ञा पुं० [हिं० पपीहा] दे० 'पपीहा'। उ०—नद के कुमार विनु लगी उर धार ऊधो पीहा पुकार भनकार भीगुरन की।—दीन० प्र०, पृ० ४०।

पीहू—सज्ञा पुं० [हिं० पिस्सू] दे० 'पीसू'।

पु—सज्ञा पुं० [म० पुस्] १ पुरुष। पुमान्। मर्द। २ मानव। मानव जातीय प्राणी। सेवक। नौकर। ४ पुल्लिङ्ग (व्या०)। ५ पुल्लिङ्ग शब्द। ६ आत्मा। ७ जीवित प्राणी। ८ एक प्रकार का नरक [को०]।

पुंख—सज्ञा पुं० [सं० पुङ्ख] १. बाण का पिछला भाग जिसमें पर खोसे रहते थे। २ मगलाचार। ३ श्येन। एक प्रकार का बाज पक्षी।

पुंखित—वि० [सं० पुङ्खित] (बाण) जिसमें पर लगे हो। पल्लयुक्त (शर)।

पुग—सज्ञा पुं० [सं० पुङ्ग] समूह।

पुंगफल—सज्ञा पुं० [सं० पूगफल] दे० 'पूगीफल'।

पुगरी^१—सज्ञा स्त्री० [देश०] एक लबी पोली नली जिसे फूँककर वजाते हैं। उ०—नरास्थि की पुगरी फूँकती—बड़ी बड़ी लबी टाँगें फेकती, दो सुदरी एक और व्याही और एक और कुमारी कन्या को काँख में खोसे थी।—श्यामा०, पृ० १८।

पुगल^१—सज्ञा पुं० [सं० पुङ्गल] आत्मा।

पुगल^७—वि० [?] श्रेष्ठ। उत्तम।

पुंगला—सज्ञा पुं० [सं० पुङ्ग (= आत्मा) + ल (प्रत्य०)] वेटा। पुत्र। आत्मज। उ०—ना हूँ तेरा पुगला ना तू मेरी माय।—दक्खिनी०, पृ० १०।

पुंगव—सज्ञा पुं० [सं० पुङ्गव] १ वैल। वृष।

विशेष—किसी पद या शब्द के भागे लगने से यह शब्द श्रेष्ठ का अर्थ देता है जैसे, नरपुंगव, वीरपुंगव।

२ एक औषध का नाम।

पुगवकेतु—सज्ञा पुं० [सं०] वृषमण्डव। शिव।

पुंगीफल—सज्ञा पुं० [सं० पूगीफल] दे० 'पूगीफल'।

पुचिहू—सज्ञा पुं० [सं० पुचिहू] शिरन। लिङ्ग।

पुछ^७—सज्ञा स्त्री० [सं० पुच्छ, प्रा० पुच्छ, हिं० पूँछ] दे० 'पूँछ'। उ०—स्रप व्यूह आकार सज्जे सभार। ब्रह्म फन्त पुछ रचे त्रिस्तार।—पु० रा०, १।६३४।

पुछल—वि० [सं० पुच्छल ?] दे० 'पुच्छल'। उ०—छूट रहे हैं पुछल तारे होते रहते उल्कापात।—मिष्टी०, पृ० १०६।

पुज—सज्ञा पुं० [म० पुञ्ज] समूह। ढेर।

पुजदल—सज्ञा पुं० [म० पुञ्जदल] सुसना का साग। सूनिपणु शाक।

पुजनी^७—वि० स्त्री० [सं० पुञ्ज] समूहयुक्त। बहुत अधिकतावाली। पुजयुक्त। उ०—नददास पावन भयी सो यह लीला गाय प्रेम रस पुजनी।—नद० प्र०, पृ० १८६।

पुंजन्म—सज्ञा पुं० [सं० पुम् + जन्मन्] नर शिशु का जन्म लेना [को०]।

पुजश—अव्य० [म० पुञ्जश] ढेर का ढेर। बहुत सा।

पुजा^१—सज्ञा पुं० [सं० पुञ्ज] १ गुच्छा। समूह। २ पूजा। गढ़ा।

पुजि—सज्ञा स्त्री० [म०] समूह।

पुंजिष^७—वि० [सं० पुञ्जित] एकत्रित। पुजित। राशिभूत। पुजीभूत। उ०—जलदानेन ह्य जलधो नह्य पुजिषो ह्यमो।—कीर्ति०, पृ० ६।

पुजिक—सज्ञा पुं० [सं० पुञ्जिक] जमी हुई बर्फ। वर्षोपल। करका।

पुजित—वि० [सं० पुञ्जित] १ पुजीभूत। राशि में एकत्रित। २ इकट्ठे दबाया हुआ [को०]।

पुजिष्ठ^१—वि० [सं० पुञ्जिष्ठ] पुंजीभूत। एकत्रित।

पुजिष्ठ^२—सज्ञा पुं० १ धीवर। मल्लाह। मछुप्रा। २ बहेलिया। चिडोमार [को०]।

पुंजी—सज्ञा स्त्री० [हिं० पूँजी] दे० 'पूँजी'।

पुड—सज्ञा पुं० [सं० पुण्ड] १ तिलक। चंदन, केसर आदि पोतकर मस्तक या शरीर पर बनाया हुआ चिह्न। टीका।

यौ०—उर्ध्वपुड। त्रिपुंड।

२ दक्षिण की एक जाति जो पहले रेशम के कीड़े पालने का काम करती थी।

पुडका^१—सज्ञा स्त्री० [सं० पुण्डक, पुण्डका] माधवी लता। उ०—वासाती पुनि पुडका मुक्त फला अरु नाउ।—नद प्र०, पृ० १०६।

पुंढरिया—सज्ञा पुं० [सं० पुण्डरीक] पुंढरी का पीघा।

पुंढरी^१—सज्ञा पुं० [सं० पुण्डरिन्] एक प्रकार का पीघा जिसकी पत्तियाँ शालपर्णी की पत्तियों की सी होती हैं।

विशेष—इसका रस आँख में लगाने से आँख के रोग दूर होते हैं। वैद्यक में यह मीठा, कड़ुवा, कसिला, वीर्यवर्धक, शीतल और नेत्रों को हितकारी माना गया है।

पर्या०—श्रीपुष्प। शीत। पुंढरीयक। प्रपौढरीक। चासुप्य। तालपुष्पक। साक्षपुष्प। स्थलपुष्प। सानुज। अनुज।

पुंढरी^२—वि० [सं० पाण्डुर] दे० 'पाण्डुर'। उ०—प्रह फूटी, दिसि पुंढरी हणहणिया ह्य थट्ट। डोलइ वण डडोलियउ सीवण सुदर घट्ट।—ढोला०, दू० ६०२।

पुंढरोक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुण्डरीक] १ श्वेत कमल । २ कमल ।

यौ०—पुंढरीकदलोपम = कमलपत्र के समान । पुंढरीकनयन, पुंढरीकपालाशाक्ष, पुंढरीकलोचन = दे० 'पुंढरीकाक्ष' । पुंढरीकपल्लव । पुंढरीकमुख ।

३. रेशम का कीड़ा । पाट कीट । ४ शेर । बाघ । नाहर । ५ एक प्रकार का सुगन्धयुक्त पौधा । पुंढरिया । ६ सफेद छाता । ७ कमडलु । ८ तिलक । ९ एक यज्ञ । १० एक प्रकार का ग्राम । सफेदा । ११. एक प्रकार का धान । १२ सफेद रंग का हाथी । १३ एक प्रकार की ईख । पौड़ा । १४. चीनी । शर्करा । १५ सफेद रंग का सौंप । १६ एक प्रकार का बाज पक्षी । १७ श्वेत कुष्ठ । सफेद कोठ । १८ हाथियों का ज्वर । १९ एक नाग का नाम । २० अग्नि-कोण के दिग्गज का नाम । २१ क्रौंचद्वीप का एक पर्वत । २२. महाभारत में वर्णित एक तीर्थ स्थान । २३ अग्नि । आग । २४ वाण । शर (अनेकार्यं०) । २५ आकाश (अनेकार्यं०) । २६ जैनियों के एक गणधर । २७ कालिदास द्वारा (रघुवंश) महाकाव्य में उल्लिखित रघुवशीय एक राजा का नाम । २८ दौने का पौधा । २९ श्वेत वर्ण । सफेद रंग ।

पुंढरीकपालाशाक्ष—वि० [सं० पुण्डरीकपालाशाक्ष] कमल की पंखुहियों के समान नयनवाला [को०] ।

पुंढरीकपल्लव—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुण्डरीकपल्लव] एक प्रकार का पक्षी [को०] ।

पुंढरीकमुख—वि० [सं० पुण्डरीकमुख] कमलमुख । जिसका मुख कमल के समान प्रफुल्ल हो [को०] ।

पुंढरीकमुखी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुण्डरीकमुखी] एक प्रकार की जोंक [को०] ।

पुंढरीकसुतसुता^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुण्डरीक (= कमल) + सुत (= ब्रह्मा) + सुता (= पुत्री)] सरस्वती । शारदा । उ०—पुंढरीकसुतसुता तामु पदकमल मनाऊँ । विसद वरन वर बसन विसद भूपन हिय ध्याऊँ ।—ह० रासो, पृ० १ ।

पुंढरीकाक्ष^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुण्डरीकाक्ष] १ विष्णु भगवान् । नारायण (जिनके नेत्र कमल के समान हैं) २ रेशम के कीड़े पालनेवाली एक जाति ।

पुंढरीकाक्ष^२—वि० जिसके नेत्र कमल के समान हो ।

पुंढरीकेक्षण—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुण्डरीकेक्षण] दे० 'पुंढरीकाक्ष' [को०] ।

पुंढरीयक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुण्डरीयक] १ पुंढरी का पौधा । स्थल-पद्म । २ एक लता जो श्लोषि में प्रयुक्त होती है (को०) ।

पुंढर्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुण्डर्य] १. पुंढरी का पौधा । २ पौधा । लता । एक बेल (को०) ।

पुंढ्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुण्ड्र] १. एक प्रकार की (विशेषत लाल) ईख । पौड़ा । २ बलि के पुत्र एक दैत्य का नाम जिसके नाम पर देश का नाम पड़ा । ३. अतिमुक्तक । तिनिथ

वृक्ष । ४ माधवी लता । ५ ह्रस्व प्लक्ष । पाकर । पक्कड । ६ श्वेत कमल । ७ चदन बेसर आदि की रेखाओं से शरीर पर बनाया हुआ चिह्न या चित्र । तिलक । टीका । जैसे, उध्वपुंढ्र । ८ तिलक वृक्ष । ९ कीड़ा । कीट । कृमि (को०) । १० भारत के एक भाग का प्राचीन नाम जो इतिहास पुराणादि में मिलता है । महाभारत के अनुसार अग, वग, कलिंग, पुंढ्र और सुह्रा, बलि के इन पाँच पुत्रों के नाम पर देशों के नाम पड़े । ११ एक प्राचीन जाति ।

विशेष—इस जाति का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में इस प्रकार है—विश्वामित्र के सौ पुत्रों में से पचास तो जघुच्छदा से बड़े और पचास छोटे थे । विश्वामित्र ने जब शुन शेष का अभिषेक किया तब ज्येष्ठ पुत्र बहूत असतुष्ट हुए । इसपर विश्वामित्र ने उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे पुत्र अत्यज होंगे । अघ्र, पुंढ्र, शवर, मूर्तिव इत्यादि उन्हीं पुत्रों के वंशज हुए जिनकी गिनती दस्युओं में हुई । महाभारत में एक स्थान पर यवन, किरात, गांधार, चीन, शवर आदि दस्यु जातियों के साथ पौंड्रको का नाम भी है । पर दूसरे स्थान पर 'पौंड्रको' और सुपुंड्रको में भेद किया है । पौंड्रको और पुंड्रको को तो अग, वग, गय आदि के साथ शास्त्रधारी क्षत्रिय लिखा है जिन्होंने युधिष्ठिर के लिये बहूत साधन इकट्ठा किया था । उनके जाने पर युधिष्ठिर के द्वारपाल ने उन्हें नहीं रोका था । पर वग कलिंग, मगध, ताम्रलिप्त आदि के साथ सुपुंड्रकों का द्वारपाल द्वारा रोका जाना लिखा है जिससे वे वृषलत्वप्राप्त क्षत्रिय जान पड़ते हैं । मनुस्मृति में जिन पौंड्रको का उल्लेख है वे भी सस्कारभ्रष्ट क्षत्रिय थे जो म्लेच्छ हो गए थे । इससे पौंड्र या पुंड्र सुपुंड्रों से भिन्न और क्षत्रिय प्रतीत होते हैं । महाभारत कर्णपर्व में भी कुरु, पांचाल, शाल्व, मत्स्य, नैमिष, कलिंग, मागध आदि शाश्वत धर्म जाननेवाले महात्माओं के साथ पौंड्रों का भी उल्लेख है, आदिपर्व में बलि के पाँच पुत्रों (अग वग आदि) में जिस पुंड्र का नाम है उसी के वंशज सभवत ये पुंड्र या पौंड्र हो । ब्रह्मांड और मत्स्य पुराण के अनुसार पुंड्र लोग प्राच्य (पूर्वी भारत के) थे, पर विष्णु पुराण में और मार्कंडेय पुराण में उन्हें दक्षिणात्य लिखा है ।

पुंड्रक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुण्ड्रक] १ मागधी लता । २ तिलक । टीका । ३ तिलकवृक्ष । ४ एक प्रकार की (लाल) ईख । पौड़ा । ५ वह जो रेशम के कीड़े पालने का व्यवसाय करता हो (को०) । ६. घोड़े के शरीर का एक चिह्न जो रोएँ के रंग के भेद से होता है । शक, चक्र, गदा, पद्म, सद्ग, मकुश और धनुष के ऐसे चिह्न को पुंड्रक कहते हैं ।

पुंढ्रकेलि—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुण्ड्रकेलि] हाथी [को०] ।

पुंढ्रवर्धन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुण्ड्रवर्धन] पुंड्र देश की प्राचीन राजधानी ।

विशेष—यह नगर किसी समय में हिंदुओं और बौद्धों दोनों का तीर्थ था । स्कन्दपुराण में यहाँ 'मंदार' नामक शिवमूर्ति का होना लिखा है । देवी भागवत के अनुसार सती के देह ४

गिरने से जो पीठ हुए उनमें एक यह भी है। चीनी यात्री हुएन्सांग ने इस नगर को एक समृद्ध नगर लिखा है। इसकी स्थिति कहाँ है, इसपर मतभेद है। कोई इसे रंगपुर के पास कहते हैं और कोई पवना को ही प्राचीन पुट्टवर्धन के स्थान पर मानते हैं। पर कुछ लोगों का कहना है कि यह नगर गगातट के पास होना चाहिए जैसा कथासरित्सागर और हुएन्सांग के उल्लेख से पाया जाता है। अतः मालदह से दो कोष उत्तरपूर्व जो फीरोजाबाद नाम का स्थान है वही प्राचीन पुट्टवर्धन हो सकता है। वहाँ के लोग उसे अब तक पौडोवा, पाडुया या वडपूडों कहते हैं।

पुँदल—सज्ञा पुं० [?] जहाज के मस्तूल का पिछला भाग। (लश०)।

पुँधज—सज्ञा पुं० [म०] १ मूषक। चूहा। २ कोई भी पशु जो नर हो [को०]।

पुँनाग—सज्ञा पुं० [सं० पुन्नाग] १ 'पुन्नाग'।

पु भाष—सज्ञा पुं० [सं० पुभाष] १ पुष्पत्व। २ व्याकरण में पुल्लिङ्ग [को०]।

पु मन्त्र—सज्ञा पुं० [सं० पुम् मन्त्र] वह मन्त्र जिनके अंत में 'स्वाहा' या 'नम' न हो।

पु यान—सज्ञा पुं० [सं०] समारी, पालकी या डौंडी जिसे पुरुष ढोते हैं [को०]।

पु योग—सज्ञा पुं० [सं०] पुरुष का योग। पुरुषसपकं। पुरुष से संबंध [को०]।

पु रत्न—सज्ञा पुं० [सं०] सुंदर व्यक्ति। प्रच्छन्न व्यक्ति [को०]।

पु राशि—सज्ञा पुं० [सं०] ज्योतिष में नर राशि [को०]।

पु लिंग—सज्ञा पुं० [सं० पुल्लिङ्ग] १ पुरुष का चिह्न। २ शिष्य। ३ व्याकरण में पुरुषवाचक शब्द।

पु वत्—वि० [सं०] १ पुरुष की तरह। पुल्लिङ्ग के समान (व्याकरण)।

पु वत्स—सज्ञा पुं० [सं०] बछड़ा। गोवत्स [को०]।

पु वृष—सज्ञा पुं० [म०] छद्मदर।

पु श्चल—सज्ञा पुं० [सं०] व्यक्तिवारी पुरुष [को०]।

पु श्चलो^१—वि० स्त्री० [म०] अनेक पुरुषों के पास जानेवाली (स्त्री)। व्यक्तिचारिणी। कुलटा। छिनाल।

पु श्चलो^२—सज्ञा स्त्री० कुलटा स्त्री।

पु श्चलोय—सज्ञा पुं० [सं०] कुलटा या वेश्या का पुत्र।

पु श्चलू—सज्ञा स्त्री० [वैदिक म०] कुलटा स्त्री [को०]।

पु श्चिह्न—सज्ञा पुं० [सं०] पुरुषसूचक चिह्न। लिंग। शिष्य [को०]।

पु स(उ)—सज्ञा पुं० [सं० पुस्] पुरुष। नर। मर्द। उ०—प्रादि ह राम हि अत ह राम ही मध्य ह राम हि पु स न वामे।
—सुंदर० प्र०, भा० २, पृ० ५०२।

पु सवत्—वि० [सं०] ३० 'पु वत्' [को०]

पुँसवन^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ दुग्ध। दूध। २ द्विजातियों के सोलह सस्कारों में से दूसरा सम्यकार जो गर्भाधान से तीसरे महीने में किया जाता है। गर्भिणी पुत्र प्रसव करने इस अभिप्राय से यह किया जाता है।

विशेष—गर्भ हिलने ढोलने के पहले ही यह सम्यार होना चाहिए। प्रच्छेद दिन और मूत्र में अग्निस्थापना करके स्त्री और पुरुष कुशानन पर बैठते हैं। पति उठकर स्त्री का दाहिना कंधा स्पर्श करता है, फिर दाहिने हाथ से स्त्री के नाभि को स्पर्श करता है, फिर दाहिने हाथ ने स्त्री के नाभि को स्पर्श करता हुआ कुछ मंत्र पढ़ता है। यहाँ तक तो प्रथम पुसवन हुआ। फिर दूसरे दिन या तृती दिन किसी बटवृक्ष की पूर्वोत्तर शाखा की टहनी के दो फनोंवाले गिरे (मुगा = फुनगी) को जो या उग्द देकर सात बार मंत्र पढ़कर ऋष्य करते हैं और मंत्र पढ़ते हुए नोचकर लाते हैं। बट की फुनगी को साफ सिन पर प्रयोग के पानी से पीसते हैं। फिर इस बगद के रस को पश्चिम और नुँह करके बैठी स्त्री के पीछे सटा होकर पति उसकी नाक के दाहिने नुने में डाल देता है।

३ गर्भ [को०]। ४ वैष्णवों का एक व्रत। माघमास में यह व्रत स्त्रियों के लिये कर्तव्य कहा है।

पुँसवन^२—वि० प्रयोत्पादक।

पु सवान्—वि० [सं० पु सवत्] [वि० स्त्री० पु सवती] पुत्रवाला।

पु सानुज—वि० [सं०] जिसको बड़ा भाई हो [को०]।

पु सी—सज्ञा स्त्री० [म०] वह गाय जिसको बछड़ा हो [को०]।

पुँस्कंक्रिल—सज्ञा पुं० [सं०] कोकिल पक्षी। नर कोयल [को०]।

पुँस्त्व—सज्ञा पुं० [सं०] १ पुरुषत्व। पुरुष का धर्म। २ पुरुष की स्त्रीसहवास की शक्ति। ३ शुक्र। धीर्य। ४ (व्याकरण में) पु लिंगत्व [को०]। ५ गंधवृण।

पुँस्त्वविग्रह—सज्ञा पुं० [सं०] सृष्टि। एक सुगंधयुक्त घाम।

पुँछल्ला—सज्ञा पुं० [हि०] ३० 'पुँछार'।

पुँछवाना—क्रि० सं० [हि०] ३० 'पुँछवाना'।

पुँछार(उ)^१—सज्ञा पुं० [हि पूँछ+आर (प्रत्य०)] मयूर। मोर।
उ०—(क) जानि पुँछार जो भय बनवासू। रोवें रोवें परि फाँद न आसू।—जायसी (शब्द०)। (ख) कूँडें केरि जानु गिउ गाडे। हरे पुँछार ढणे जनु ठाड़े।—जायसी (शब्द०)। (ग) कुटी में मेरी रनखी है। पुँछार जो मिट्टी की है।—प्रतापनारायण मिश्र (शब्द०)।

विशेष—यह शब्द पुं ही मिलता है। स्त्री प्रयोग उदाहरण (ग) को छोड़ और कहीं देखने में नहीं आया।

पुँछाला—सज्ञा पुं० [हि० पूँछ+ला (प्रत्य०)] १ पुँछला। डुबाला। पूँछ की तरह जोड़ी हुई वस्तु। जैसे,—(क) पतंग या कनकवी के नीचे बंधी हुई लकी घञ्जी जो नीचे लटकती रहती है। (ख) टोपी के पीछे टंकी हुई घञ्जी जो नीचे लटकती रहती है। २ बराबर पीछे लगा रहनेवाला। साथ न छोड़नेवाला। बराबर साथ में दिखाई पड़नेवाला। जैसे,—

वह जहाँ जाता है यह पुँछाला उनके साथ रहता है । ३ साथ में जुड़ी या लगी हुई वस्तु या व्यक्ति जिसकी उत्तनी आवश्यकता न हो । जैसे,—तुम आप तो जाते ही हो एक पुँछाला क्यों पीछे लगाए जाते हो । ४. पिछलग्गू । खुशामद से पीछे लगा रहनेवाला । चापलूस । आश्रित ।

पुँछोरी (पुँ)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पूँछ+आरी (प्रत्य०)] दे० 'पुँछल्ला' । उ०—फेरि कै नैन परे तन पै बदनामी की तापै लगाइ पुँछोरी । श्रीति की चग उर्मंग चढाय कै सो हरि हाथ बढाय कै तोरी ।—भारतेंदु प्र०, भा० २, पृ० २६४ ।

पुँडरिया पुँडरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुण्डरीक] पुँडरी नामक पीवा ।
पुँडतना (पुँ)—क्रि० प्र० [हिं० पहुँचना] दे० 'पहुँचना' । उ०—मजल के बरे पुँहतो नगर उदधमत । वही कागद समय हुती मिल हकीकत ।—रघु० रू०, पृ० ७६ ।

पुत्रा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूष] मोठे रस में सने हुए आटे की मोटी पूरी या टिकिया ।

पुत्राई—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] एक सदाबहार पेड़ ।

विशेष—इसकी लकड़ी दृढ़, चिकनी और पीले रंग की होती है । यह घरों में लकड़ी, मेज, कुरसी, आदि बनाने के काम में आती है । लकड़ी प्रति घनफुट १७ या १८ सेर तोल में होती है । यह पेड़ दारजिलिंग, सिक्किम (सिक्किम), भोटान आदि पहाड़ी प्रदेशों में आठ हजार फुट की ऊँचाई तक होता है । इसी से मिलता जुलता एक और पेड़ होता है जिसे डिडिया कहते हैं और जिसके पत्तों में एक प्रकार की सुगंध होती है ।

पुत्राल^१—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक ऊँचा जगली पेड़ जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत और पीले रंग की होती है और इमारतों में लगती है । यह दारजिलिंग सिक्किम और भोटान के जंगलों में होता है ।

पुत्राल^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पत्ताल] दे० 'पताल' ।

पुकार—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पुकारना] १ किसी का नाम लेकर बुलाने की क्रिया या भाव । अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये किसी के प्रति ऊँचे स्वर से संबोधन । सुनाने के लिये जोर से किसी का नाम लेना या कोई बात कहना । हाँक । टेर । २ रक्षा या सहायता के लिये चिल्लाहट । बचाव या मदद के लिये दी हुई आवाज । दुहाई । उ०—प्रसुर महा उत्पात कियो तब देवन करी पुकार ।—सूर (शब्द०) ।

क्रि० प्र०—करना ।—मचना ।—मचाना ।—होना ।

३ प्रतिकार के लिये चिल्लाहट । किसी से पहुँचे हुए दुःख या हानि का उससे निवेदन जो दह या पूर्ति की व्यवस्था करे । फरियाद । नालिश । जैसे,—उसने दरबार में पुकार की । ४ माँग की चिल्लाहट । गहरी माँग । जैसे,—जहाँ जाओ वहाँ पानी पानी की पुकार सुनाई पड़ती थी ।

क्रि० प्र०—करना ।—मचना ।—मचाना ।—होना ।

पुकारना—क्रि० सं० [सं० सञ्चुतकरण (= आवाज की खींचना)]

या प्रकृश (= पुकारना)] १. नाम लेकर बुलाना । अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये ऊँचे स्वर से संबोधन करना । किसी का इसलिये जोर से नाम लेना जिसमें वह ध्यान दे या सुनकर पास आए । हाँक देना । टेरना आवाज लगाना । जैसे,—(क) नौकर को पुकारो वह आकर ले जायगा । (ख) उसने पीछे से पुकारा, मैं खड़ा हो गया ।

सयो० क्रि० देना ।

२ नाम का उच्चारण करना । रटना । धुन लगाना । जैसे, हरिनाम पुकारना । ३ ध्यान आकर्षित करने के लिये कोई बात जोर से कहना । चिल्लाकर कहना । घोषित करना । जैसे, (क) ग्वालिन का 'दही दही' पुकारना । (ख) मगन का द्वार पर पुकारना । उ०—कारे कबहुँ न होयें आपने मधुवन कहीं पुकारि ।—सूर (शब्द०) । ४ चिल्लाकर माँगना । किसी वस्तु को पाने के लिये आकुल होकर बार बार उसका नाम लेना । जैसे, प्यास के मारे सब पानी पानी' पुकार रहे हैं । ५. रक्षा के लिये चिल्लाना । गोहार लगाना । छुटकारे के लिये आवाज लगाना । उ०—पाँव पयादे घाय गए गज जबै पुकारयो ।—सूर (शब्द०) । ६ प्रतिकार के लिये किसी से चिल्लाकर कहना । किसी के पहुँचे हुए दुःख या हानि को उससे कहना जो दह या पूर्ति की व्यवस्था करे । फरियाद करना । नालिश करना । उ०—जाय पुकारयो नृप दरबार ।—सबल (शब्द०) । ७ नामकरण करना । अभिहित करना । सञ्ज्ञा द्वारा निर्देश करना । जैसे,—(क) तुम्हारे यहाँ इस चिडिया को किस नाम से पुकारते हैं । (ख) यहाँ मुझे लोग यही कहकर पुकारते हैं ।

पुक्करवत्ती—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुक्कलावती] वह प्रदेश जो श्रीराम ने भरत के पुत्र को दिया था । दे० 'पुक्कलावती' । उ०—तक्षक नै तखसली, पुकर नै पुक्करवत्तिय ।—रघु० रू०, पृ० २८० ।

पुक्कश^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. चाडाल ।

विशेष—मनुस्मृति के अनुसार निषाद पुरुष और शूद्रा के गर्भ से और उशाना के अनुसार शूद्र पुरुष और क्षत्रिया स्त्री के गर्भ से इस जाति की उत्पत्ति है ।

२ अधम व्यक्ति । नीच पुरुष ।

पुक्कश^२—वि० अधम । नीच

पुक्कशक—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पुक्कश' ।

पुक्कशी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पुक्कसी' [को०] ।

पुक्कष—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पुक्कश' ।

पुक्कस—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पुक्कश' ।

पुक्कसी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ कालापन । कालिमा । २ नील का पीवा । ३ कुड्मल । कली । कोरक (को०) ४ पुक्कश जाति की स्त्री (को०) ।

पुष्कार—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुष्करण, प्रा० पुष्कार] फरियाद । गोहार । दे० 'पुष्कार' । उ०—पुष्कार परिय नृप पगपुर कह्य सबै किष्वव हदस ।—प० रासो, पृ० १२७ ।

पुख—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुष्प] दे० 'पुष्प' । जैसे, पुखराज = पुष्प राग ।

पुखत—वि० [सं० पुष्ट या फा० पुस्तह्] पूरुंत । भली प्रकार । उ०—प्राणी तूँ ह्वो पुखत मोह नदी रे माँहि । देव नदी मे ह्वियो नख पग ह्वो नाँहि ।—बाँकी० प्र०, भा० २, पृ० ११० ।

२ दृढ़ । पुख्ता । उ०—प्राण गाँठ जेते पुखत, इण तन माझल एह । क्यावर तेते नाम कर दाम गाँठ मत देह ।—बाँकी० प्र०, भा० १, पृ० ५१ ।

पुखता—वि० [फा० पुख्तह्] दे० 'पुख्त' ।

पुखर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुष्कर, प्रा० पुष्कर] तालाव । पोखरा । उ०—भरहि पुखर श्री ताल तालावा ।—जायसी (शब्द०) ।

पुखरा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुष्कर, प्रा० पुष्कर] पोखरा । तालाव ।

पुखराज—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुष्पराग] एक प्रकार का रत्न या बहु-मूल्य पत्थर जो प्रायः पीला होता है पर कभी कभी कुछ हलका नीलापन या हरापन लिए भी होता है ।

विशेष—यह अलुमीनियम का एक प्रकार का सैक्त छार है । यह हीरे से भारी पर कम कड़ा होता है । पुखराज अधिकतर ग्रेनाइट की चट्टानों और कभी कभी ज्वालामुखी पर्वतों की दरारों में मिलता है । कर्नावाल (इंग्लैंड), स्काटलैंड, ब्रैजिल, मैक्सिको, साइबेरिया और अमेरिका के संयुक्त राज में यह पाया जाता है । एशिया में यह यूराल पर्वत से बहुत निकाला जाता है । ब्रैजिल का गहरे पीले रंग का पुखराज सबसे अच्छा माना जाता है । यो तो भारतवर्ष तथा और पूर्वोत्तर देशों में भी यह थोड़ा बहुत पाया जाता है ।

हमारे यहाँ के रत्नपरीक्षा के ग्रंथों में पुष्पराग के कई भेद लिखे हैं । जो पुष्पराग कुछ पीलापन लिए लाल रंग का हो उसे कौरट और जो कुछ ललाई लिए पीले रंग का हो उसे कापायक कहते हैं । जो कुछ ललाई लिए सफेद हो वह सोमलक, जो बिलकुल लाल हो पद्मराग और जो नीला हो वह इद्रनील है । इस प्रकार प्रचीन ग्रंथों में पुखराज भी कुरड जाति के पत्थरों में माना गया है ।

पुख्ता—वि० [फा० पुख्तह्] १ मजबूत । दृढ़ । पुष्ट । २ परिपक्व । ३ स्थिर । टिकाऊ । ४ नियत । निश्चित [को०] ।

यौ०—पुख्ताप्रक्ल = दृढ मति । स्थिरबुद्धि । परिपक्व मति । पुख्तामगज = दे० 'पुख्ताअक्ल' । पुख्तामिजाज = स्थिरमति । दृढ़चित्त ।

पुख्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुष्य] दे० 'पुष्य' ।

पुगड—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पौगण्ड] दे० 'पौगण्ड', 'पौगंड' । उ०—वाल कुमार पुगड धरम आसक्त जु ललित तन । धरमी नित्य किशोर कान्ह मोहत सबको मन ।—नद० प्र०, पृ० ६ ।

पुगतापण—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पुगना (= पूरा होना) + पन (प्रत्य०)] बुढ़ापा । वार्धक्य । उ०—कर कपे लोयण भरै मुक्त लल-रावे जीह । मावडिया जुष में मिलै पुगतापण रा दीह ।—बाँकी प्र०, भा० २, पृ० १८ ।

पुगना—क्रि० अ० [हि० पूजना] पूरा होना । पूर्ण होना । चुकता होना । खत्म होना ।

पुगाना—क्रि० स० [हि० पुजाना] १ पूरा करना । पुजाना । जैसे, मिति पुगाना, रुपया पुगाना । २ गोली के खेल में गोली का गड्ढे में डालना (लड़के) ।

पुचकार—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पुचकारना] प्यार जताने के लिये ओठों से निकाला हुआ चुमने का सा शब्द । चुमकार ।

पुचकारना—क्रि० स० [अनु० पुच (= ओठों को दबाकर छोड़ने से निकला हुआ शब्द) + हि० कार + ना (प्रत्य०)] चुमने का सा शब्द निकालकर प्यार जताना । चुमकारना । जैसे, (क) बच्चे को पुचकारना । (ख) कुत्ते को पुचकारना । उ०—(क) ठोंकि पीठ पुचकारि वहोरी । कीन्हीं विदा सिद्धि कहि तोरी ।—रघुराज (शब्द०) । (ख) सुनि वैठाय प्रक दानवपति पोछि वदन पुचकारी । वेटा, पढ़ो कौन विद्या तुम देह परीक्षा सारी ।—रघुराज (शब्द०) ।

पुचकारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुचकारना] प्यार जताने के लिये ओठों से निकाला हुआ चुमने का सा शब्द । चुमकार । जैसे, जान-वर या बच्चे को पुचकारी देकर बुलाना ।

क्रि० प्र०—देना ।

पुचपुच—सञ्ज्ञा स्त्री० [अनु० पुच] ओठों निकाली हुई चुमने की सी आवाज । पुचकारी ।

पुचारस—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] कई धातुओं का मेल । ऐसी धातु जिसमें मिलावट हो ।

पुचारना—क्रि० स० [हि० पुचारा] १ पुचारा देना । २ पोतना । ३ मीठी बातें कहना । प्रसन्न करनेवाली बातें कहना । चापलूसी करना । ठकुरसुहाती कहना । ४ उत्साहित करनेवाली बातें कहना । प्रोत्साहित करना । पुचकारना ।

पुचाड़ा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पुतारा या अनु० पुचपुच] दे० 'पुचारा' । उ०—पश्चिम के विचारकों ने यहाँवालों को अक्सर यह पुचाड़ा दिया है कि तुम्हारी विशेषता तो परोक्ष चिंतन में है ।—आचार्य०, पृ० ६६ ।

पुचारा—सञ्ज्ञा पुं० [अनु० पुचपुच (= भीगे कपड़े को दबाने का शब्द) या पुतारा] १ किसी वस्तु के ऊपर पानी से तर कपड़ा फेरने की क्रिया । भीगे कपड़े से पोछने का काम । जैसे,—बरतन आँच पर चढाकर ऊपर से पानी का पुचारा देते जाना ।

क्रि० प्र०—देना ।

२ पतला लेप करने का काम । हलकी पुताई या लिपाई । पोता ।

क्रि० प्र०—देना ।—फेरना ।

३ 'किसी वस्तु के ऊपर कोई गीली वस्तु फेरकर चढाई हुई पतली तह। हलका लेप। जैसे, घूने का पुचारा, मिट्टी या गोबर का पुचारा। ४ वह गीला कपडा जिससे पोतते या पुचारा देते हैं। जैसे, जुलाहो का पुचारा जिससे पाई के ऊपर मांड या पानी पोतते हैं। ५ लेप करने या पोतने के लिये पानी में घोली हुई कोई वस्तु (जैसे, रग, चूना आदि), ६ दगी हुई तोप या बंदूक की गरम नली को ठढी करने के लिये उसपर गीला कपडा डालने की क्रिया। ७ किसी को अनुकूल करने या मनाने के लिये कहे हुए मीठे और सुहाते वचन। प्रसन्न करनेवाले वचन। जैसे,—कडाई से नहीं बनेगा, पुचारा देकर काम लेना चाहिए।

क्रि० प्र०—देना।

८ झूठी प्रशंसा। चापलूसी। ठकुरसुहाती। खुशामद।

क्रि० प्र०—देना।

९ उत्साह बढ़ानेवाले वचन। किसी और प्रवृत्त करनेवाले वचन। बढ़ावा। जैसे,—जरा पुचारा दे दो, देखो वह सब कुछ करने को तैयार हो जाता है।

पुच्छ—सज्ञा पुं० [सं०] १ दुम। पूँछ। २ किसी वस्तु का पिछला भाग। ३ पूँछ जिसमें बाल हो (को०)। ४ मोर की पूँछ (को०)।

पुच्छकंटक—सज्ञा पुं० [सं० पुच्छकण्टक] विच्छू [को०]।

पुच्छजाह—सज्ञा पुं० [सं०] पूँछ का अग्रिम भाग। पूँछ की जह [को०]।

पुच्छटि, पुच्छटी—सज्ञा स्त्री० [सं०] उँगली चटकाने की क्रिया। छोटिका [को०]।

पुच्छदा—सज्ञा स्त्री० [सं०] लक्ष्मणा नाम का कद।

पुच्छना^(५)—क्रि० सं० [सं० पृच्छन] दे० 'पूँछना'। उ०—(क) भृगी पुच्छइ भिंग सुन की ससारहि सार।—कीर्ति० पृ० ६। (ख) पुच्छि मात पित पुच्छि परिवार गेह सब।—पृ० रा०, २५।२६७।

पुच्छफल—सज्ञा पुं० [सं०] वेर का पेठ।

पुच्छवध—सज्ञा पुं० [सं० पुच्छवन्ध] घोड़े के पिछले पैर बाँधने की रस्सी [को०]।

पुच्छमूल—सज्ञा पुं० [सं०] पूँछ का मूल। पूँछ की जह [को०]।

पुच्छल—वि० [सं० पुच्छल + हि० ल (प्रत्य०)] दुमदार। पूँछदार।

यौ०—पुच्छल तारा=कभी कभी उदित होनेवाला वह तारा जिसमें लगा हुआ भाप या कुहरे सा द्रव्य फाड़ के आकार का आकाश में दूर तक फैला दिखाई देता है। विशेष—दे० 'केतु'।

पुच्छाम्र—सज्ञा पुं० [सं०] पुच्छमूल [को०]।

पुच्छका—सज्ञा स्त्री० [सं०] मापवर्ण।

पुच्छी^१—वि० [सं० पुच्छी] पूँछवाला। दुमदार।

पुच्छी^२—सज्ञा पुं० १ आक। मदार। २ कुश्कुट। मुर्ग।

पुच्छतर^१—सज्ञा पुं० [हि० पृच्छता] दे० 'पुछैया'। उ०—मैं वही चला गया, तो उमका कोई पुच्छतर भी न रहेगा।—रगभूमि, भा० २, पृ० ५६२।

पुच्छना^१—क्रि० अ० [हि० पॉछना का अरु०] १ पुच्छकर समाप्त हो जाना। मिट जाना। २ जमीन पर पड़े हुए पानी या किसी तरल द्रव्य का पोछकर हटाया जाना।

पुच्छना^२—सज्ञा पुं० वह कपडा जिममें जमीन या जमीन चौकी पीछा आदि पर पड़े हुए पानी आदि को पोछा जाता है।

पुच्छना^३—क्रि० सं० [सं० पृच्छन, प्रा० पुच्छण, हि० पछना] दे० 'पूँछना'। उ०—ए माँ कह मोय पुछो तो ही।—विद्यापति, पृ० ५०६।

पुच्छनियाँ^(५)—सज्ञा स्त्री० [हि० पृच्छना] पृच्छा। प्रश्न। जिज्ञासा। उ०—साधन माँ छत्तीस कौम है टेढो तोर पुच्छनियाँ।—कवीर श०, भा० १ पृ० १०४।

पुच्छल्ला—सज्ञा पुं० [हि० पूँछ+ल्ला (प्रत्य०)] १. बड़ी पूँछ। लबी दुम। २. पूँछ की तरह जोड़ी हुई वस्तु। जैसे, (क) पतंग या बनकावे के नीचे बँधी हुई लबी घञ्जी जो लटकती रहती है। (ख) टोपी में टँकी हुई घञ्जी जो अलग लटकती रहती है। ३. बराबर पीछे लगा रहनेवाला व्यक्ति। साथ न छोड़नेवाला। बराबर साथ में दिखाई पड़नेवाला। जैसे,—वह जहाँ जाता है वह पुच्छल्ला उसके साथ रहता है। ४. साथ में जुड़ी या लगी हुई वस्तु या व्यक्ति जिमकी उतनी आवश्यकता न हो। जैसे,—तुम आप तो जाते ही हो, एक पुच्छल्ला क्यों पीछे लगाए जाते हो। ५. पिछलभगू। खुशामद से पीछे लगा रहनेवाला। चापलूस। आश्रित। जैसे, अमीरो का पुच्छल्ला। ६. लपेटन की वाई और का चूँटा (जुलाहे)।

पुच्छवाना^१—क्रि० सं० [हि० पृच्छना का प्रे० रूप] (किसी से) पूछने का कार्य करना। उ०—जब कहोगी यदुकुल चद्र से स्वयं पुच्छवा देंगे।—श्यामा०, पृ० ६१।

पुच्छवैया^१—सज्ञा पुं० [हि० √पूँछ+वैया (प्रत्य०)] दे० 'पुछैया'।

पुच्छानना^(५)—क्रि० सं० [हि०] दे० 'पूछना'। उ०—राजह सूर हकार लिय, दिय सादर सनमान। धीर विरद बरदाय प्रति, लागे वत्त पुच्छान।—पृ० रा०, ६।१४७।

पुच्छाना—क्रि० सं० [हि० पृच्छना का प्रे० रूप] दे० 'पुच्छवाना'। उ०—वच्चा को बुलाकर पुच्छाण देती ह।—मान०, भा० ५, पृ० १६७।

पुछार^(५)^१—सज्ञा पुं० [हि० √पृच्छ+आर (प्रत्य०)] पूछनेवाला व्यक्ति। खोज खबर लेनेवाला व्यक्ति। आदर करनेवाला।

पुछार^(५)^२—सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पुछार'।

पुछार^१—सज्ञा स्त्री० [हि० पृच्छना] पूछना।

पुछिया—सज्ञा पुं० [हि० पृच्छ+इया (प्रत्य०)] दुम। मेढा।

पुछैया—सज्ञा पुं० [हि० √पृच्छ+ऐया (प्रत्य०)] पूछनेवाला व्यक्ति। खोज खबर लेनेवाला आदमी। ध्यान देनेवाला व्यक्ति।

पुजतां—क्रि० वि० [हि० √ + अंत (प्रत्य०) पूजना (= पूजा करना)] पूजन करने के लिये । पूजनार्थ । उ०—गौरि पुजतहि वेटी आई सुभद्रा । —पोहार अभि० प्र० पृ० १५८ ।

पुजतां—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूजा + अन्ता (प्रत्य०)] वह व्यक्ति जो पूजा करे । पुजारी । पूजा करनेवाला ।

पुजना—क्रि० अ० [हि० पूजना] १ पूजा जाना । आराधना का विषय होना । जैसे,—वहाँ अनेक देवता पुजते हैं । २ आद्यत होना । समानित होना । ३ पूर्ण होना । पूरा होना ।

पुजघना(पु)¹—क्रि० स० [हि० पूजना] १ पुजाना । भरना । २ पूरा करना । ३ सफल करना । उ०—जिन ब्रज वीथिन मे सदा विहरत स्यामा स्याम । सकल मनोरथ मजु मम ते पुजवहु सुख घाम । —(शब्द०) ।

पुजघना†²—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पूजा] पूजा के लिये सामग्री । पूजा का उपकरण । पूजा करने का सामान । पुजापा ।

पुजवाना—क्रि० स० [हि० पूजना का प्र० रूप] १ पूजन कराना । पूजा करने में प्रवृत्त करना । आराधन कराना । जैसे,—हम अपने ठाकुर दूसरे से पुजवा लेंगे । २ अपनी पूजा कराना । पूजा प्रतिष्ठा लेना । जैसे,—ये देवता ऐसे हैं जो सबसे पुजवाते हैं । ३ अपनी सेवा शुश्रूषा कराना । आदर समान कराना । जैसे,—गाँवो मे साधु अपने को खूब पुजवाते हैं ।

पुजाई¹—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० √ पूज + आई (प्रत्य०)] १ पूजने का भाव या क्रिया । जैसे, गंगापुजाई । २ पूजने का दाम या मजदूरी ।

पुजाई²—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पूजना (= पूरा होना)] १ पूरा करने की क्रिया या भाव । २ पूरा करने की मजदूरी ।

पुजाना¹—क्रि० स० [हि० पूजना का प्र० रूप] १ दूसरे से पूजा कराना । पूजा मे प्रवृत्त या नियुक्त करना । जैसे, पुजारी से ठाकुर पुजाना । २ अपनी पूजा प्रतिष्ठा कराना । आदर सम्मान प्राप्त करना । भेंट चढ़वाना । ३ धन वसूल करना । जैसे,—(क) गाँवों में बैरागी खूब पुजाते हैं । (ख) भाज ५) उससे पुजाए ।

संयो० क्रि०—लेना ।

पुजाना²—क्रि० स० [हि० पूजना (= पूरा होना, भरना)] १ भर देना । किसी धाव, गड्ढे आदि को बराबर करना । जैसे,—यह दवा धाव को बहुत जल्दी पुजा देगी ।

सयो० क्रि०—देना ।

२ पूरा करना । पूर्ति करना । कमी दूर करना । उ०—पडुवधू पटहीन सभा में कोटिन वसन पुजाए । —सूर (शब्द०) । ३ परिपूर्ण करना । सफल करना । उ०—करि विवाह ताही लै आयो । तासु मनोरथ सकल पुजायो । —सूर (शब्द०) ।

पुजापा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूजा + ?] १ देवपूजन की सामग्री, जैसे, फूलपत्र, नैवेद्य, पचपात्र, धरघा इत्यादि । पूजा का सामान ।

मुहा०—पुजापा फैलाना = (१) वस्तुओं को बिना किसी क्रम के इधर उधर फैलाकर रखना । (२) आदर फैलाना । बखेडा फैलाना ।

२ पूजा की सामग्री रखने की झोली । पुजाही ।

पुजापेदानी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पुजापा + फा० दान (प्रत्य०)] पूजा का पात्र । उ०—घरेलू बरतन भाँडे प्राय मिट्टी के भाँति भाँति के प्रकार और आकृति के, बनाए जाते थे, जैसे, पुजापेदानी, पीने के आबखोरे आदि । —हिंदु० सभ्यता, पृ० २१ ।

पुजारी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूजा + कारी] १ पूजा करनेवाला । जो पूजा करता हो । २ किसी देवमूर्ति की नियमित रूप से सेवा शुश्रूषा करनेवाला व्यक्ति ।

पुजाही—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पूजा + आही (प्रत्य०)] पूजन की सामग्री रखने की थैली या पात्र ।

पुजेरा(पु)²—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पूजा + एरा (प्रत्य०)] दे 'पुजारी' । उ०—जब यह बात पुजेरा कही । सरग सेन जिय मानी सही । —अध०, पृ० १० ।

पुजेरी(पु)²—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पूजा + एरी (प्रत्य०)] दे 'पुजारी' । उ०—आप देव आप ही पुजेरी । आपुहि भोजन जैवत डेरी । —सूर (शब्द०) ।

पुजेला†—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पूजा] दे 'पुजारी' ।

पुजैया¹—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पूजन + ऐया (प्रत्य०)] पुजारी । पूजा करनेवाला ।

पुजैया²—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पूजना (= भरना)] पूरा करनेवाला । भरनेवाला ।

पुजैया³—सञ्ज्ञा स्त्री० १ दे 'पुजाई' । २ वाजे गाजे के साथ सपरिवार किसी देवता के गीत गाते हुए पूजन के निमित्त जाने की क्रिया ।

पुजौना†—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पूजा + औना (प्रत्य०)] दे 'पुजवना' ।

पुजौरा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पूजा + भार ?] १ पूजन । अर्चना । २ पूजा के समय देवता को अर्पित करने की सामग्री ।

पुजना(पु)¹—क्रि० स० [सं० पूजन] अर्चना करना । 'पूजना' । उ०—करि होय देव पुजजे अपार । गो भुमि रत्य हाटक सुदार । —ह० रासो, पृ० १५ ।

पुजना(पु)²—क्रि० अ० [हि० पूजना] पूरा होना । पूण होना । पूजना । उ०—भय चद चद तन मन प्रसन । अस अमृत पुजिजय रलिय । —पृ० रा०, ६ ।

पुट¹—सञ्ज्ञा पुं० [अनु० पुट पुट (छोटा = गिले का शब्द)] १. किसी वस्तु से तर करने या उसका हलका मेल करने के लिये डाला हुआ छोटा । हलका छिरकाव । जैसे,—(क) पकाते वक्त ऊपर से पानी का हलका पुट दे देना ।

क्रि० प्र०—देना ।

२ रंग या हलका मेल देने के लिये किसी वस्तु को धुले हुए रंग या और किसी पतली चीज में डवाना । बोर । जैसे—इसमें एक पुट लाल रंग का दे दो । उ०—ज्यो बिन पुट पट गहत न रंग को, रंग न रसे परे । —सूर (शब्द०) ।

क्रि० प्र०—देना ।

३ बहुत हलका मेल । अल्प मात्रा में मिश्रण । भावना । जैसे, भाँग में सखिया का भी पुट है ।

पुट^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ आच्छादन । ढाकनेवाली वस्तु । जैसे, रदपुट, नेत्रपुट । २ दोना । गोल गहरा पात्र । कटोरा । उ०—(क) पियत नैन पुट रूप पियूखा । —तुलसी (शब्द०) । (ख) जलपुट आनि घरो आंगन में मोहन नेक ती लीजै ।—सूर (शब्द०) । ३ दोने के आकार की वस्तु । कटोरे की तरह की चीज । जैसे, अजलिपुट । ४ मुँहबद वरतन । शीष पकाने का पात्र विशेष ।

विशेष—दो हाथ लबा, दो हाथ चोडा, दो हाथ गहरा एक चौखूटा गड्ढा खोदकर उसमें बिना पथे हुए उपले डाल दे । उपले के ऊपर शीष का मुँहबद वरतन रख दे और ऊपर से भी चारों ओर उपले डालकर आग लगा दे । दवा पक जायगी । यह महापुट है । इसी प्रकार गड्ढे के विस्तार के हिसाब से कपोतपुट, कौकुकुटपुट, गजपुट, भाइपुट, इत्यादि हैं, जैसे, सवा हाथ विस्तार के गड्ढे में जो पात्र रखा जाय वह गजपुट है ।

५ कटोरे के आकार के दो बराबर वरतनों को मुँह मिलाकर जोड़ने से बना हुआ बद घेरा । सपुट । ६ घोड़े की टाप । ७. अत पट । अंतरीटा । ८ जायफल । ९ एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में दो नगण, एक मगण और एक यगण होता है । जैसे,—श्रवणपुट करी ना जान रानी । रघुपति कर याकी मीचु ठानी । १० कोष (को०) । ११ खाली जगह । रिक्त स्थान । जैसे, नासापुट, कर्णपुट (को०) । १२ कौटिल्य के अनुसार पोटली या पैकेट जिसपर मुहर की जाती थी ।

पुटकद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुटकन्द] कोलकद । बाराही कद ।

पुटक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कमल ।

विशेष—शेष अर्थ पुट के समान ।

पुटकिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पश्चिनी । कमलिनी । २ पद्मसमूह ।

३. कमलो से भरा देश ।

पुटकी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुटक (= दोना)] पोटली । गठरी ।

पुटकी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पटपटाना (= मरना)] १ आकस्मिक मृत्यु । मौत जो एकबारगी आ पड़े । २ वज्रपात । दवी आपत्ति । आफत । गजब ।

मुहा०—(किसी पर) पुटकी पढ़ना = (१) मौत आना । अकाल मृत्यु होना । (२) वज्र पड़ना । आफत आना । गजब गिरना (स्त्रि० शाप) ।

पुटकी^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पुट (= हलका मेल)] बेसन या घाटा जो तरकारी के रसे में उसे गाढ़ा करने के लिये मिला दिया जाता है । आलन ।

पुटभीष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ गगरा । कलसा । ताँबे का गगरा (को०) ।

पुटन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] आच्छादन करना ।

पुटनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] फेनी नाम की मिठाई ।

पुटपरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [देशी] १ घतूरे की पुट दी हुई मदिरा । २ पगचपी । पैर पर चपी करने की क्रिया उ०—जीव नरेश अविद्या निद्रा सुख सज्या सोयी करि हेत । कर्म षवास पुटपरी लाई तातें बहुविधि भयी अचेत ।—सुदर० प्र०, भा० २, पु० ६४१ ।

पुटपाक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पत्ते के दोनों में रखकर शीष पकाने का विधान (वैद्यक) ।

विशेष—पकाई जानेवाली शीष को गभारी, वरगद, जामुन, आदि के पत्तों में चारों ओर से लपेट दे और कसकर बाँध दे । फिर पत्तों के ऊपर गीली मिट्टी का अगुल दो अगुल मोटा लेप कर दे । फिर उस पिंड को उपले की आग में डाल दे । जब मिट्टी पककर लाल हो जाय तब समझे कि दवा पक गई । नेत्ररोगों में भी पुटपाक की रीति से शीष पकाकर उसका रस आँख में डालने का विधान है । स्निग्ध मांस और कुछ शीष लेकर द्रव पदार्थ मिलाकर पीस डाले फिर सबको ऊपर लिखित रीति से पकाकर उसका रस निचोड़कर आँख में डाले ।

२ मुँहबद वरतन में दवा रखकर उसे गड्ढे के भीतर पकाने का विधान ।

विशेष—मसम बनाने के लिये घातुएँ प्रायः इसी रीति से फूँकी जाती हैं ।

३. फुटपाक द्वारा सिद्ध रस या शीष । उ०—रावण सो २४ राज सुभट रस सहित लक खल खलतो । करि पुटपाक नाकनायक हित घने घने घर घलतो ।—तुलसी (शब्द०) ।

पुटपी^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुट] सपुट । कली । पुट । उ०—कब पुटपी कब फुरै आवै । कब नाभिकमल महँ जाय समावै ।—प्राण०, पु० २६ ।

पुटभेद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ जल का भँवर । २ एक प्रकार का वाद्य (को०) । ३ नगर । पत्तन ।

पुटभेदक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] परतदार प्रस्तर जो आधा पुरसा खोदने पर जमीन के भीतर मिले । (वृहत्सहिता) ।

विशेष—कहाँ खोदने से जल निकलेगा इसका विचार जिस उदकागल प्रकरण में है उसी में इसका उल्लेख है ।

पुटभेदन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नगर । पत्तन । उपनगर । कस्बा [को०] ।

पुटरियाँ—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पोटली' ।

पुटरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पोटलिका] दे० 'पोटली' ।

पुटली^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पट्ट, हिं० पट्टली] दे० 'पट्टली' । उ०—अक भरै पुटली पे वेठे मुख लखि जीव जिवावै ।—घनानन्द, पु० ४६८ ।

पुटली^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पोटलिका] दे० 'पोटली' ।

पुटालु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कोल कद । बाराही कद ।

पुटाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोटाल] दे० 'पोटाल' ।

पुटिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ सपुट । पुडिया । २ इलायची ।

पुटित^१—वि० [सं०] १ जो सिमटकर दोने के आकार का हो गया हो । २ सकुचित । मुकड़ा हुआ । ३ फटा या फाड़ा हुआ । ४ सिखा हुआ । ५ बद । ६ घृष्ट । घणित । घृणित (को०) ।

७ आदि और अत में किसी विशेष मत्र या बीजाक्षर से युक्त (मत्र, श्लोक आदि) ।

पुटित^२—सज्ञा पुं० हाथ की अजलि [की०] ।

पुटिया—सज्ञा स्त्री० [दण०] एक प्रकार की छोटी मछली ।

पुटियानां—क्रि० सं० [हिं० पुट + याना (प्रत्य०)] फुसलाकर अपने पक्ष में करना । स्वाथसिद्धि के लिये किसी को अपने अनुकूल बनाना ।

पुटी—सज्ञा स्त्री० [सं० पुट] १ छोटा दोना । छोटा बटोग । उ०—भरि भरि परन पुटी रचि रुरी ।—तुलसी (शब्द०) । २ खाली स्थान जिसमें कोई वस्तु रखी जा सके । जैसे, चत्रुपुटी । ३ पुटिया । ४ कौपीन । लंगोटी । ५ आच्छादन (की०) । (अन्य अर्थ 'पुट' शब्द के समान) ।

पुटीन—सज्ञा पुं० [अ० पुटी] किवाडो मे शीशे बैठाने या लकड़ी के जोड़, छेद, दरार आदि भग्ने मे काम आनेवाला एक मसाला जो अलसी के तेल मे खरिया मिट्टी मिलाकर बनाया जाता है ।

पुटोटज—पज्ञा पुं० [सं० पुट + उटज] सफेद छत्र । श्वेत छाता (की०) ।

पुटोदक—सज्ञा पुं० [सं० पुट + उदक] जिसके भीतर जल हो—नारियल [की०] ।

पुटोला^७—सज्ञा पुं० [हिं०] एक प्रकार का रेशमी वस्त्र । पटोल । उ०—फाडि पटोला घज करौं कामलही पहिराउं । जिहि जिहि भेषा हरि मिले सोइ सोइ भेष कराउं ।—कबीर श०, ११ ।

पुट्टी—सज्ञा स्त्री० [दण०] मछलियों के पकड़ने का भावा ।

पुट्ट^७—सज्ञा स्त्री० [सं० पुट्ट, प्रा० पुट्ट] दे० 'पीठ' । उ०—तिन पर तुट्टे बीज जौं जिन पर राज अरुट्ट । राज काज समुह भिरन दर्ई न कवहू पुट्ट ।—पृ० रा०, ५ । ५ ।

पुट्टा—सज्ञा पुं० [सं० पुट्ट या पृष्ट] १ चूतड़ का ऊपरी कुछ कडा भाग । २ चौपायो विशेषत घोडो का चूतड़ ।

मुट्टा—पुट्टे पर हाथ न रखने देना = चचलता और तेजी के कारण सवार को पास न आने देना । (घोडो के लिये) ।

३ घोडों की सख्या के लिये शब्द । जैसे,—(क) इस साल कितने पुट्टे लाए ? (ख) फी पुट्टा १०० के हिसाव से दाम ले लो । ५ पुट्टे पर का मजबूत चमड़ा । (चमार) ।

पुट्टी—सज्ञा स्त्री० [हिं० पुट्ट] वैलगाही के पहिए के घेरे का एक भाग जिसमे आरा और गज घुसे रहते हैं ।

विशेष—किसी पहिए मे ४ किसी में ६ ऐसे भाग मिलकर पूरा घेरा बनाते हैं ।

पुठवार^१—क्रि० वि० [हिं० पुट्टा] पीछे । बगल में । उ०—तुम सैन सजै पुठवार रहौ भव आयसु देहु न और सह्यो । हम जाय जरै पहले उन सौं तुम गौर करो लखि लोह बह्यो ।—सूदन (शब्द०) ।

पुठवार^२—सज्ञा पुं० [सं० पुट्ट] दे० 'पुठवाल'—१ । उ०—ठाढ़े खडे पुठवार, भली विधि लूटही ।—कबीर श०, भा० २, पृ० १२२ ।

पुठवाल—सज्ञा पुं० [सं० पुट्टक, हिं० पुट्टा + वाला] १ चोरों के दल का वह वलिष्ठ आदमी जो सेंघ के मुँह पर पहरे के लिये खटा रहता है । २ भले घुरे काम मे किसी का साथ देनेवाला । मददगार । पृष्ठरक्षक ।

पुट्ट^७—सज्ञा स्त्री० [सं० पुट्ट, प्रा० पुट्ट] दे० 'पीठ' । उ०—जस छल जागणहार, घर पुट त्यागणहार घिन । अरुणानुज असवार कर छाया ज्यो सिर करे ।—वाँकी प्र०, भा० ३, पृ० ४५ ।

पुट्टंग—सज्ञा पुं० [सं० पुट्टक] दे० 'पुट्टक' । उ०—पडे पुट्टंग तहें पेम की एक प्रखडो धार । हरिया हरिजन पीससी दुनियां सुधी न सार ।—राम० घम०, पृ० ६३ ।

पुट्टा^१—सज्ञा पुं० [सं० पुट्ट] [ग्नी० अत्पा० पुट्टिया] बडी पुट्टिया या बडल ।

पुडा^२—सज्ञा पुं० [हिं० पुट्ट] वह चमडा जिसमे ढोल मड़ा जाता है ।

पुडिया—स्त्री० सज्ञा [सं० पुट्टिका, प्रा० पुट्टिया] १ मोड या लपेटकर सपुट के आकार का किया हुआ कागज या पत्ता जिसके भीतर कोई वस्तु रखी जाय । जैसे,—पसारी ने एक पुडिया बाँधकर दी ।

क्रि० प्र०—बाँधना ।

२ पुट्टिया मे लपेटी हुई दवा की एक खुराक या मात्रा । जैसे,—एक पुट्टिया सुवह खाना एक शाम । ३ आघारस्थान । खान । भडार । घर । जैसे,—यह बुडिया आफत की पुडिया है ।

पुडी—सज्ञा स्त्री० [हिं० पुडा] वह चमडा जिससे ढोल मड़ा जाता है । † दे० 'पुडिया' । ३ पूडी ।

पुण^१—सज्ञा पुं० [सं० पुण्य] दे० 'पुण्य' । उ०—पुण सो हुयो फल आज प्राप्त आप दरसन वारस्यै ।—रघु० रू०, पृ० १२६ ।

पुण^२—क्रि० वि० [सं० पुन] पुन । फिर ।

पुणग^७—सज्ञा पुं० [सं० पुनग] दे० 'पुनग' । उ०—घर नीगुल दीवउ सजल, छाजइ पुणग न माइ ।—ढोला, दू० ५०६ ।

पुणग^७—सज्ञा पुं० [सं० पुट्टक, राज० पुट्टग] दे० 'पुट्टक' । उ०—दाहु तृपा विना तनि प्रीति न उपजै सीतल निकट जल धरिया । जनम लगे जिव पुणग न पीवै, निरमल दह दिस भरिया ।—दाहु०, पृ० ७२ ।

पुणचा^१—सज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पहुँचा' । उ०—पुणचा जडत जडाऊ पुणची कल आजान भुजा केयूर ।—रघु० रू०, पृ० २५६ ।

पुणची^१—सज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पहुँची' । उ०—पुणचा जडत जडाऊ पुणची कल आजान भुजा केयूर ।—रघु० रू०, पृ० २५६ ।

पुण्दि^७—सज्ञा पुं० [सं० फणीन्द्र] फणीन्द्र । सर्प । उ०—मारू घूँघटि दिहु मई, एता सहित पुण्दि । कीर, भमर, कोकिल, कमल, चद, मयद, गयद ।—ढोला०, दू० ४५५ ।

पुणि^१—क्रि० वि० [सं० पुन] दे० 'पुनि' ।

पुण्य^१—वि० [सं०] १. पवित्र । २. शुभ । अच्छा । भला । ३. धर्म-
विहित । जैसे, पुण्य काय । ४. गुरुयुक्त (को०) । ५. न्याय-
सगत (को०) । ६. अनुकूल । रुचि के अनुसार (को०) । सु दर ।
प्रिय (को०) । ७. मीठी या मधुर (गघ) । ८. गभीर (को०) ।
पुण्य^२—सञ्ज्ञा पुं० १. वह कर्म जिसका फल शुभ हो । शुभाष्ट ।
सुकृत । भला काम । धर्म का कार्य । जैसे,—दीनो को दान
देना बड़े पुण्य का कार्य है ।

क्रि० प्र०—करना । —होना ।

२. शुभ कर्म का सचय । जैसे,—ऐसा करने से बड़ा पुण्य
होता है ।

क्रि० प्र०—होना ।

३. पवित्रता (को०) । ४. पशुओं को पानी पिलाने की नाद (को०)
५. एक व्रत । दे० 'पुण्यक'—२ ।

पुण्यक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. व्रत, अनुष्ठान आदि जिनसे पुण्य
होता है । २. ब्रह्मवैवर्त पुराण के गरुडपति खड (अ० ३-४)
में कथित एक व्रत । वह व्रत या उपचार जो पृथ्वती स्त्री
अपने पुत्र के कल्याण के लिये करती है । ३. विष्णु ।

पुण्यकर्ता—वि० [सं० पुण्यकर्तृ] दे० 'पुण्यकर्मा' ।

पुण्यकर्मा—वि० [सं०] पुण्यकार्य करनेवाला व्यक्ति (को०) ।

पुण्यकाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दान पुण्य का समय ।

पुण्यकौतेन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. विष्णु । २. पुराणों का
वर्चन (को०) ।

पुण्यकीर्ति—वि० [सं०] पवित्र कीर्तिवाला । पूजनीय (को०) ।

पुण्यकृत्—वि० [सं०] पुण्य करनेवाला । धार्मिक । (को०) ।

पुण्यक्षेत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. वह स्थान जहाँ जाने से पुण्य हो ।
तीर्थ । २. आर्यावर्त का एक नाम (को०) ।

पुण्यगघ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुण्यगन्ध] चपा । चपक ।

पुण्यगघा—सञ्ज्ञा स्त्री [सं० पुण्यगन्धा] सोनजूही का फूल ।

पुण्यगन्धि—वि० [सं० पुण्यगन्धि] खुशबूदार । सुगन्धित (को०) ।

पुण्यगृह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. अन्न सत्र । २. मंदिर (को०) ।

पुण्यजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. धर्मात्मा । सज्जन । २. राक्षस ।
३. यक्ष ।

पुण्यजनेश्वर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कुबेर ।

पुण्यजित—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चंद्रलोक, स्वर्ग लोक आदि (जिनकी
प्राप्ति पुण्य द्वारा होती है) ।

पुण्यतृण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] श्वेत कुश (को०) ।

पुण्यदर्शन^१—वि० [सं०] जिसके दर्शन से पुण्य हो । जिसके दर्शन-
का फल शुभ या अच्छा हो ।

पुण्यदर्शन^२—सञ्ज्ञा पुं० नीलकण्ठ । चाप पक्षी । (विजयादशमी के दिन
इसके दर्शन से लोग पुण्य मानते हैं) ।

पुण्यदुह—वि० [सं० पुण्यदुह] पुण्यदाता । आनंद प्रदान करने-
वाला (को०) ।

पुण्यपुरुष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पवित्रात्मा । पुण्यवान व्यक्ति (को०) ।

पुण्यफल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पुण्य कर्मों का फल । २. वह व
जिसमें लक्ष्मी निवास करती है (को०) ।

पुण्यभाक्—वि० [सं० पुण्यभाज्] पवित्र व्यक्ति । पवित्रात्मा (को०)

पुण्यभू, पुण्यभूमि—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] १. आर्यावर्त देश ।
पृथ्वती स्त्री ।

पुण्ययोग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों
फल (को०) ।

पुण्यलोक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] स्वर्ग (को०) ।

पुण्यवान्—वि० [सं० पुण्यवत्] [वि० स्त्री० पुण्यवती] पु
करनेवाला । धर्मात्मा ।

पुण्यविजित—वि० [सं०] पुण्य से प्राप्त (को०) ।

पुण्यशकुन—सञ्ज्ञा सं० [सं०] १. पक्षी जिसका दर्शन शुभ सगुन देनेव
हो । २. शुभदायक शकुन (को०) ।

पुण्यशील—वि० [सं०] पुण्य कार्य करनेवाला । धर्मान्वित (को०)

पुण्यश्लोक^१—वि० [सं०] [वि० स्त्री० पुण्यश्लोका] जिसका सु
चरित्र या यश हो । पवित्र चरित्र या आचरणवाला । जिस
जीवनवृत्तात पवित्र और शिक्षादायक हो ।

पुण्यश्लोक^२—सञ्ज्ञा पुं० १. नल । २. मुधिष्ठर । ३. विष्णु ।

पुण्यश्लोका—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] १. सीता । २. द्रौपदी ।

पुण्यस्थान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पवित्र स्थान । तीर्थस्वा
२. जन्मकुंडली में लग्न से नवां स्थान जिसमें कुछ ग्रह
होने से, पुण्यवान या पुण्यहीन होने का विचार
जाता है ।

पुण्या—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] १. तुलसी । २. पुनपुना नदी ।

पुण्याई—सञ्ज्ञा स्त्री [हिं० पुण्य + आइ (प्रत्य०)] पुण्य
फल या पुण्य का प्रभाव । जैसे,—आज तो वह पुण्य
पुण्याई से बच गया ।

पुण्यात्मा—वि० [सं० पुण्यात्मन्] जिसकी प्रवृत्ति पुण्य की
हो । पुण्यशील । धर्मात्मा ।

पुण्याह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शुभ दिन । मंगल का दिन ।

पुण्याहवाचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] देवकार्य के अनुष्ठान के
मंगल के लिये 'पुण्याह' शब्द का तीन बार कथन ।

पुण्योदय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भाग्योदय । अच्छे दिनों
आगमन (को०) ।

पुत्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक नरक का नाम जिससे पुत्र होने
उद्धार होता है ।

पुतना^१—क्रि० प्र० [हिं० पोतना] पोता जाना । पुताई का
होना ।

पुतना^२—सञ्ज्ञा स्त्री [सं० पुतना] दे० 'पूतना' । २०-
प्यावत प्रानन हरे, पुतना वाल चरित्र ।—नद
पु० १८० ।

पुतरा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुत्तल] २० 'पुतला' ।

- पुत्रि** ७—पञ्चा स्त्री० [सं० पुत्रत्तो] नेत्र का काला अण । उ० — नयन पुत्रि करि प्रीति बढ़ाई ।—मानस, २।५६ ।
- पुत्रिका** ७—पञ्चा स्त्री० [सं० पुत्रलिका] २० 'पुत्रलिका' ।
- पुत्रियाः**—सञ्चा स्त्री० [हि० पुत्ररी + इय (प्रत्य०)] दे० 'पुत्ररी' ।
- पुत्री**—सञ्चा स्त्री० [सं० पुत्रली] गुडिया । पुनली । उ०—घोलत हैंपति, हरति इमि हियौ । जनु विधि पुनरी में जिय दियो ।—नद० अ०, पृ० २२१ । २. आँख का काला भाग । पुत्रली उ०—रग जुग मन को मोहै । तिन सग पुनरी सोहै ।—भिखारी० अ०, भा० १, पृ० १६० ।
- पुत्रला**—सञ्चा पुं० [सं० पुत्रक, पुत्रल] [स्त्री० पुत्रली] १ लकड़ी, मिट्टी, धातु, कपड़े आदि का बना हुआ पुरुष का आकार या मूर्ति विशेषत वह जो विनोद या क्रीडा (खेल) के लिये हो ।
- मुहान्**—किसी का पुत्रला अर्थात् किसी की निश करके फिरना । किसी की अपकीर्ति फैलाना । बदनामी करना ।
- विशेष**—भाट जिसके यहाँ कुछ नहीं पाते हैं उसके नाम का एक पुत्रला वाँस में बाँधकर घूमते हैं और उसे कज़म कह कहकर गालियाँ देते हैं । इस सदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास का यह पदोश द्रष्टव्य है,—तो तुलसी पूतरा बाँधि है ।
- २ शव की प्राप्ति न होने पर, आटा, सरपत आदि का बना हुआ आकार जो दाह किया जाता है । ३ जहाज के भागे का पुत्रला या तस्वीर । (लश०) ।
- पुत्रली**—सञ्चा स्त्री० [हि० पुत्रला] १ लकड़ी, मिट्टी, धातु, कपड़े आदि की बनी हुई स्त्री की आकृति या मूर्ति विशेषत वह जो विनोद या क्रीडा (खेल) के लिये हो । गुडिया । २ आँख का काला भाग जिसके बीच में वह छेद होता है जिससे होकर प्रकाश की किरणें भीतर जाती हैं और पदार्थों का प्रतिबिम्ब उपस्थित करती हैं । नेत्र के ज्योतिष्केंद्र के चारों ओर का कृष्णमंडल ।
- विशेष**—दूसरे की आँख पर दृष्टि गडाकर देखनेवाले को इस काले मंडल के बीच के तिल में अपना प्रतिबिम्ब पुत्रली के आकार का दिखाई देता है इसी से यह नाम पडा ।
- मुहान्**—पुत्रली उलटना या फिर जाना = (१) आँखें पथरा जाना । नेत्र स्वप्न होना । (मरणचिह्न) । (२) घमड हो जाना ।
३. कपडा बुनने की कल या मशीन ।
- यौ०**—पुत्रलीघर = वह स्थान जहाँ कपडा बुनने के लिये मशीने बैठाई गई हो । कपडा बुनने की मिल ।
- ४ किसी स्त्री की सुकुमारता और सुदरता सूचित करने के लिये व्यवहृत शब्द । जैसे,—वह स्त्री क्या है पुत्रली है ।
- ५, घोड़े की टाप का वह मास जो मेढक की तरह निकला होता है ।
- पुताई**—सञ्चा स्त्री० [हि० पोतना + आई (प्रत्य०)] १ किसी गीली वस्तु की तह चढाने का काम । पोतने की क्रिया या भाव । २ दीवार आदि पर मिट्टी, गोबर, चूने, आदि पोतने का काम । ३ पोतने की मजदूरी ।

- पुतारा**—सञ्चा पुं० [हि० पुतना, पोतना] १ किसी वस्तु के ऊपर पानी से तर कपड़ा फेरने की क्रिया । भीगे कपड़े से पोछने वा काम । २. पोतने का तर कपडा ।
- पुत्त** ७—सञ्चा पुं० [सं० पुत्र, प्रा० पुत्त] १ दे० 'पुत्र' । २ 'पुत्रली'—१, २, ४ ।
- पुत्रो** ७—सञ्चा स्त्री० [सं० पुत्री] १ दे० 'पुत्री' ।
- पुत्तल**—सञ्चा पुं० [सं०] [स्त्री० पुनली] पुत्रला ।
- यौ०**—पुत्तलदहन । पुत्तलपूजा = मूर्तिपूजा । पुत्रले की पूजा । पुत्तलविधि । दे० 'पुत्तलदहन' (क्रम में) ।
- पुत्तलक**—सञ्चा पुं० [सं०] [स्त्री० पुत्तलिका] पुत्रला ।
- पुत्तलदहन**—सञ्चा पुं० [सं०] ऐसे व्यक्ति का पुत्रला बनाकर जलाना जो कही अन्यत्र मर गया हो अथवा जिसका शव प्राप्त न हो [को०] ।
- पुत्तलि**—सञ्चा स्त्री० [सं० पुत्तली] दे० 'पुत्रली' ।
- पुत्तलिका**—सञ्चा स्त्री० [सं०] १ पुत्रली । २. गुडिया ।
- पुत्तली**—सञ्चा स्त्री० [सं०] १ पुत्रली । २ गुडिया ।
- पुत्ति** ७—सञ्चा स्त्री० [सं० पुत्ति, प्रा० पुत्ति] दे० 'पुत्री' ।
- उ०—तिह सुत्त नाँहि गृह पुत्ति दोइ । किय व्याह कमथ चहुअन सोइ ।—पू० रा०, १।६७१ ।
- पुत्तिका**—सञ्चा स्त्री० [सं०] १ एक प्रकार की मधुमक्खी । २. दोमक ।
- पुत्र**—सञ्चा पुं० [सं० पुत्र] [स्त्री० पुत्री] १ लडका । बेटा ।
- विशेष**—'पुत्र' शब्द की व्युत्पत्ति के लिये यह कल्पना की गई है कि जो पुत्रनाम ['पुत्र' नाम] नरक से उद्धार करे उसकी सजा पुत्र है । पर यह व्युत्पत्ति कल्पित है । मनु ने बारह प्रकार के पुत्र कहे हैं—औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूढोत्पन्न, अपविद्ध, कानीन, सहोद, क्रीत, पौनर्भव, स्वयदत्त और शोद्ध । विवाहिता सवर्णा स्त्री के गर्भ से जिसकी उत्पत्ति हुई हो वह 'औरस' कहलाता है । औरस ही सबसे श्रेष्ठ और मुख्य पुत्र है । मृत, नपुंसक आदि की स्त्री देवर आदि से नियोग द्वारा जो पुत्र उत्पन्न करे वह 'क्षेत्रज' है । गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक' कहलाता है । किसी पुत्र गुणों से युक्त व्यक्ति को यदि कोई अपने पुत्र के स्थान पर नियत करे तो वह 'कृत्रिम' पुत्र होगा । जिसकी स्त्री को किसी स्वजातीय या घर के पुरुष से ही पुत्र उत्पन्न हो, पर यह निश्चित न हो कि किससे, तो वह उसका 'गूढोत्पन्न' पुत्र कहा जायगा । जिसे माता पिता दोनों ने—या एक ने त्याग दिया हो और तीसरे ने ग्रहण किया हो वह उस ग्रहण करनेवाले का 'अपविद्ध' पुत्र होगा । जिस कन्या ने अपने बाप के घर कुमारी अवस्था में ही गुप्त संयोग से पुत्र उत्पन्न किया हो उस कन्या का वह पुत्र उसके विवाहिता पति का 'कानीन' पुत्र कहा जायगा । पहले से गर्भवती कन्या का जिस पुरुष के साथ विवाह होगा गर्भजात पुत्र उस पुरुष का 'सहोद' पुत्र होगा । माता पिता को मूल्य देकर जिसे मोल खेँ वह मोल लेनेवाले का 'क्रीत'

पुत्र कहा जायगा। पति द्वारा त्यागी जाकर अथवा विधवा या स्वेच्छाचारिणी होकर जो परपुरुष सयोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करे वह पुत्र उस पुरुष का 'पौनर्भव' पुत्र होगा। मातृपितृविहीन अथवा माता पिता का त्याग हुआ यदि किमी से आप आकर कहे कि 'मैं आपका पुत्र हुआ' तो वह 'स्वयदत्त' पुत्र कहलाता है। विवाहिता शूद्रा और ब्राह्मण के सयोग से उत्पन्न पुत्र ब्राह्मण का 'पार्श्व' या 'शौद्र' पुत्र कहलाएगा।

२ प्रिय बालक। प्यारा बच्चा (को०)। ३ पशुओं का छोटा बच्चा (को०)। ४ अपने वरों की साधारण या छोटी वस्तु। जैसे, शिलापुत्र, असिपुत्र (समासात् में प्रयुक्त)। ५ कुडली में जन्मलग्न से पाँचवाँ स्थान (को०)।

पुत्रकदा—सज्ञा स्त्री० [सं० पुत्रकन्दा] लक्ष्मणकद जिसके सेवन से गर्भदोष दूर होते हैं।

शिशुपुत्र, पुत्रक—सज्ञा पुं० [सं०] १ पुत्र पुत्रसम। शिशुपुत्र बेटा। २ पत्तग। फतिगा। टिड्डी। ३ दाने का पीछा। ४ एक प्रकार का चूहा (शरभ) जिसके काटने से बड़ी पीड़ा और सूजन होती है। ५ गुह्रा। पुसलक (को०)। ६ दयनीय व्यक्ति। दया करने योग्य व्यक्ति (को०)। ७ बाल। केश (को०)। ८ धोखे-वाज या धूर्त व्यक्ति (को०)। ९ एक पर्वत का नाम (को०)। १० एक विशेष वृक्ष (को०)।

पुत्रकर्म—सज्ञा पुं० [सं० पुत्रकर्मन्] पुत्रजन्मोत्सव। पुत्रोत्पत्ति पर किया जानेवाला उत्सव [को०]।

पुत्रका—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पुत्रिका' [को०]।

पुत्रकाम—वि० [सं०] जिसे पुत्र की कामना हो [को०]।

पुत्रकामेष्टि—सज्ञा स्त्री० [सं०] एक यज्ञ जो पुत्रप्राप्ति की इच्छा से किया जाता है।

पुत्रकाम्या—सज्ञा स्त्री० [सं०] पुत्रप्राप्ति की कामना [को०]।

पुत्रकार्य—सज्ञा पुं० [सं०] पुत्र सबधी सस्वार। पुत्र सबधी उत्सव [को०]।

पुत्रकृत पुत्रकृतक—सज्ञा पुं० [सं०] माना हुआ पुत्र। दत्तक पुत्र [को०]।

पुत्रक्ली—सज्ञा स्त्री० [सं०] एक योनिरोग जिसके कारण गर्भ नहीं ठहरता।

पुत्रजग्धो—सज्ञा स्त्री० [सं०] ऐसी स्त्री जो अपने बच्चों को स्वयं खा जाय [को०]।

पुत्रजात—वि० [सं०] जिसको पुत्र पैदा हुआ हो [को०]।

पुत्रजीव—सज्ञा पुं० [सं०] इगुदी से मिलता जुलता एक बड़ा और सुंदर पेड़ जो हिमालय से लेकर सिंहल तक होता है। जियापोता।

विशेष—इसकी सबड़ी बड़ी और मजबूत होती है। यह चैत वैसाख में फूलता है। फल भी इसके इगुदी के फलों के ऐसे होते हैं। बीज सूखकर रुद्राक्ष की तरह हो जाते हैं, इससे बहुत से साधु उसकी माला पहनते हैं। बीजी से तेल भी

निकलता है जो जलाने के काम में आता है। छाल, बी और पत्ते दवा के वाम में आते हैं। वैद्यक में पुत्रजीव भावीयवधक, गर्भदायक कफकारक, मलमूत्रकारक, रुखा और शीतल माना जाता है।

पर्या०—जियापोता। पुतजिया। पवित्र। गभद। सिद्धिदय। यष्टीपुष्प।

पुत्रजीवक—सज्ञा पुं० [सं०] पुत्रजीव नामक वृक्ष।

पुत्रदा—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ बध्या कर्कोटकी। वाँफ ककोडा। खेखसा। २ लक्ष्मणा कद। ३ सफेद भटवटैया। श्वेत कटकारि। ४ जीवती।

पुत्रदात्री—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ एक लता जो मालवा में होती है। इसके सेवन से पुत्रप्राप्ति होती है। २ श्वेत कटकारि।

पुत्रधर्म—सज्ञा पुं० [सं०] पुत्र का वर्तव्य [को०]।

पुत्रपौत्रोण—वि० [सं०] पुत्र से पौत्र तक क्रमशः प्राप्त या प्रचलित मानुषिक। वंशपरंपरागत [को०]।

पुत्रप्रतिनिधि—सज्ञा पुं० [सं०] पुत्र का स्थानापन्न। दत्त पुत्र [को०]।

पुत्रप्रदा—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ श्वेतकटकारि। २ क्षविका।

पुत्रप्रवर—सज्ञा पुं० [सं०] पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ पुत्र। सब बड़ा लडका [को०]।

पुत्रप्रसू—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पूत्रसू'।

पुत्रभद्रा—सज्ञा स्त्री० [सं०] बड़ी जीवती।

पुत्रभाइ—सज्ञा पुं० [सं० पुत्रभायड] पुत्र का प्रतिनिधि। वह पुत्र का स्थानापन्न हो [को०]।

पुत्रभाव—सज्ञा पुं० [सं०] १ पुत्र का भाव। पुत्रत्व। २ फिज्योतिष में लग्न से पंचम स्थान का विचार जिसके द्वारा ज्योतिषी यह निश्चित करते हैं कि जिसके कितने पुत्र कन्याएँ होंगी।

पुत्रलाभ—सज्ञा पुं० [सं०] पुत्र का जन्म लेना। पुत्रप्राप्ति।

पुत्रवती—सज्ञा स्त्री० [सं०] जिसके पुत्र हो। पुत्रवाली। पूती उ०—पुत्रवती जुवता जग सोई। रघुपति भगतु जासु पु होई।—मानस, २।७५।

पुत्रवधू—सज्ञा स्त्री० [सं०] पुत्र की स्त्री। पतोह। पुतऊ।

पुत्रशृंगी—सज्ञा स्त्री० [सं० पुत्रशृङ्गी] मेढ़ा। अजशृंगी।

पुत्रश्रेणी—सज्ञा स्त्री० [सं०] मूसावानी।

पुत्रसख—सज्ञा पुं० [सं०] वह जो बच्चों को बहुत अधिक चर्चा हो। बच्चों का मित्र [को०]।

पुत्रसप्तमी—सज्ञा स्त्री० [सं०] आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमि तिथि [को०]।

पुत्रसहस्र—सज्ञा पुं० [सं० पुत्र + सहस्र] नीलकण्ठ ताजिक जो ५० प्रकार के महम बहे गए हैं उनमें से एक।

विशेष—बृहस्पतिस्फुट में से चद्रस्फुट निराल लेने में जो बचे उसे लग्नस्फुट के साथ जोड़ने से पुत्रसहस्र आता है इसके द्वारा पुत्रलाभ आदि का विचार किया जाता है।

पुत्रसू—सज्ञा स्त्री० [सं०] पुत्र की माँ [को०] ।

पुत्राचार्य—वि० [म०] पुत्र को गुरु माननेवाला [को०] ।

पुत्रादिनी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ सप्राकृतिक माँ । अपनी सतानो को खा जानेवाली माँ । २ व्याघ्री [को०] ।

पुत्रादी—वि० [सं० पुत्रादिन्] [वि० स्त्री० पुत्रादिनी] पुत्रभक्षक । बेटे को खानेवाला । (गाली) ।

पुत्रान्नाद—वि० [मं०] पुत्र से भरणपोषण प्राप्त करनेवाला । पुत्र की आजीविका पर जीनेवाला । कुटीचक [को०] ।

पुत्रार्थी—वि० [सं० पुत्रार्थिन्] [वि० स्त्री० पुत्रार्थिनी] पुत्र की कामना करनेवाला । पुत्र चाहनेवाला [को०] ।

पुत्रिका—सज्ञा स्त्री० [म०] १ लडकी । बेटा । उ०—जनक सुखद गीता । पुत्रिका पाइ सीता ।—केशव (शब्द०) । २ पुत्र के स्थान पर मानी हुई कन्या ।

विशेष—मनुस्मृति नवम अध्याय में कहा है कि जिसे पुत्र न हो वह कन्या को इस प्रकार पुत्र रूप से ग्रहण कर सकता है । विवाह के समय वह जामाता से यह निश्चय कर ले कि 'कन्या का जो पुत्र होगा वह मेरा 'स्वधाकर' यर्थात् मुझे पिंड देनेवाला और मेरी सपत्ति का अधिकारी होगा ।

३. गुडिया । मूर्ति । पुतली । ४. आँसू की पुतली । उ०—महादेव की नेत्र की पुत्रिका सी । कि सणम की भूमि में चद्रिका सी ।—केशव (शब्द०) । ५. स्त्री की तसवीर । उ०—चित्र की सी पुत्रिका की खरे वगरूरे माहि, शबर छोडाय लई कामिनी की काम की ।—केशव (शब्द०) । ६ (समासात में) अपने वर्ग की छोटी या तुच्छ वस्तु । जैसे, असिपुत्रिका, खड्गपुत्रिका [को०] ।

पुत्रिकापुत्र—सज्ञा पुं० [सं०] १ कन्या का पुत्र जो पुत्र के समान माना गया हो और सपत्ति का अधिकारी हो । २ दोहित्र [को०] ।

पुत्रिकाभर्ता—सज्ञा पुं० [सं० पुत्रिकाभर्तृ] जामाता । दामाद [को०] ।

पुत्रिकासुत—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पुत्रिकापुत्र' [को०] ।

पुत्रिणी—सज्ञा स्त्री० [म०] १ वह स्त्री जिसको पुत्र हों । पुत्रवती स्त्री । २ एक पशुपुष्ट लता [को०] ।

पुत्रिय—वि० [मं०] पुत्र से सबंधित । पुत्रविषयक [को०] ।

पुत्री^१—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ कन्या । लडकी । बेटा । २ दुर्गा [को०] ।

पुत्री^२—वि० [सं० पुत्रिन्] [वि० स्त्री० पुत्रिणी] पुत्रवाला । जिसे पुत्र हो ।

पुत्रीय—वि० [मं०] पुत्र वा । पुत्र संबंधी । पुत्रिय [को०] ।

पुत्रीया—स्त्री० स्त्री० [सं०] पुत्रप्राप्ति की कामना [को०] ।

पुत्रेसु—वि० [सं०] पुत्र की कामना करनेवाला [को०] ।

पुत्रेष्टि—सज्ञा स्त्री० [मं०] एक प्रकार का यज्ञ जो पुत्रलाभ की इच्छा से किया जाता है ।

पुत्रेष्टिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पुत्रेष्टि' [को०] ।

पुत्रेपणा—सज्ञा स्त्री० [मं०] पुत्रकामना । पुत्रेच्छा [को०] ।

पुत्र्य—वि० [मं०] पुत्र संबंधी । पुत्रीय [को०] ।

पुदीना—सज्ञा पुं० [फा० पोदीनह्] एक छाटा पौधा जो या तो जमीन पर ही फैलता है अथवा अधिक से अधिक एक या डेढ़ बीता ऊपर जाता है ।

विशेष—इसकी पत्तियाँ दो ढाई अंगुल लंबी और डेढ़ पीने दो अंगुल तक चौड़ी तथा किनारे पर बटावदार और देखने में सुरदरी होती हैं। पत्तियों में बहुत अच्छी गंध होती है इसमें लोग उन्हें चटनी आदि में पीमकर खाते हैं । पुदीने को यहाँ बठनों से ही लगाते हैं, उमका बीज नहीं बोते । पुदीने का फूल सफेद होता है और बीज छोटे छोटे होते हैं । पुदीना तीन प्रकार का होता है—माधारण, पहाडी और जनपुदीना । जलपुदीने की पत्तियाँ कुछ बड़ी होती हैं । पुदीना रुचिकारक, अजीर्णनाशक और वमन को रोकनेवाला है । यह पौधा हिंदुस्तान में बाहर से आया है, प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है । यह पिपरमिट की जाति का ही पौधा है ।

पुद्गल^१—सज्ञा पुं० [मं०] १ जैनशास्त्रानुसार ६ द्रव्यों में से एक । जगत् के रूपवान् जट पदार्थ । मर्मां, रम और वणवाला पदार्थ ।

विशेष—जैन दर्शन में पद्द्रव्य माने गए हैं—जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, भावासास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल ।

२ शरीर । देह । (बौद्ध) । ३ परमाणु । ४ आत्मा । ५ गधतृण । ६ शिव [को०] ।

पुद्गल —वि० सुंदर । प्यारा । रत्नोना [को०] ।

पुद्गलास्तिकाय—सज्ञा पुं० [मं०] संसार के सब रूपवान् जट पदार्थों की समष्टि ।

पुन.—अव्य० [मं० पुनर्, पुन] १ फिर । दोबारा । दूसरी बार । २ उपरात । पीछे । अनंतर ।

विशेष—संस्कृत व्याकरण के अनुसार विभिन्न वर्णों का योग होने पर यह पुन, पुनर् और पुनश् आदि रूपों में परिवर्तित होता है ।

पुनकरण—सज्ञा पुं० [मं०] फिर से करना । पुन कर्ना [को०] ।

पुनःक्रिया—सज्ञा स्त्री० [मं०] दे० 'पुन कर्ण' ।

पुन.खुरी—सज्ञा पुं० [मं० पुन खुरिन्] घोड़े के पैर का एक रोग जिसमें उनकी टाप फैल जाती है और वे लडखडाते चलते हैं ।

पुन पाक—सज्ञा पुं० [मं०] किसी वस्तु को फिर से पकाना या पकाया जाना [को०] ।

पुन पुन —क्रि० वि० [मं०] बार बार ।

पुन पुना—सज्ञा स्त्री० [सं०] गंगा की पुनपुना नदी ।

पुन प्रतिनिर्वतन—सज्ञा पुं० [सं०] वापस आना । लौट आना [को०] ।

पुन प्रमाद—सज्ञा पुं० [मं०] दुबारा उपेक्षा या लापरवाही करना [को०] ।

पुन.संगम—सज्ञा पुं० [मं० पुन संगम] फिर से मिलना । पुन मिलना । पुनमिलन ।

पुनःसंधान

पुनःसंधान—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुनःसन्धान] अग्निहोत्र को फिर से जलाना [को०] ।
 पुनःसस्कार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] फिर से किया जानेवाला सस्कार । उपनयन आदि सस्कार जो फिर से किए जायें ।
 विशेष—जैसे, अनजाने अशुभ, मलमूत्र, मद्य लगा हुआ अन्न आदि मुँह में पड़ जाने से ब्राह्मण का फिर से उपनयन होता चाहिए । इस पुनःसस्कार में शिरोमुंडन, मेलला, दंड, भैक्ष्य और ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं होती ।
 पुनःसंस्कृत—वि० [सं०] पुनःसंस्कारयुक्त । फिर से सुधारा या ठीक किया हुआ ।
 पुनःस्थापन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] फिर से स्थापित करना । पुनः प्रतिष्ठा करना ।
 पुनः^१—अव्य० [सं० पुनः] ३० 'पुनः' । उ०—पुनः भविष्य प्रादुर्भाव मे पुष्कर क्षेत्र की उत्पत्ति की वर्णन है —पौद्गल अभि० अ०, पृ० ४८४ ।
 पुनः^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुण्य] पुण्य । धर्म । सबाव ।
 पुनना—क्रि० सं० [हिं० पूरना] बुरा भला कहना । उघटना । बखानना । बुराई खोल खोलकर कहना (स्त्रि०) ।
 पुनपुनः, पुनपुना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुनःपुना] विहार या मगध की एक छोटी नदी जो गया से बहती है और पवित्र मानी जाती है । इसके किनारे लोग पिंडदान करते हैं । वर्षा को छोड़ और ऋतुओं में इसमें जल नहीं रहता ।
 पुनरपागम—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुनर्+अपागम] फिर से चले जाना [को०] ।
 पुनरपि—क्रि० वि० [सं०] फिर भी । वार वार ।
 पुनरवसु^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुनर्वसु] दे० 'पुनर्वसु' ।
 पुनरवसु^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुनर्वसु] दे० 'पुनर्वसु' ।
 पुनरागत—वि० [सं०] वापिस आया हुआ । लौटा हुआ [को०] ।
 पुनरागम, पुनरागमन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ फिर से या पुनः आना । आना । दोबारा आना । २ ससार में फिर आना । पुनः फिर जन्म लेना ।
 पुनरागामी—वि० [सं० पुनरागामिन्] [वि० पुनरागामिनी] फिर से आ जानेवाला । लौटनेवाला ।
 पुनराजाति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] फिर से जन्म लेना [को०] ।
 पुनरादि—वि० [सं०] पुनः प्रारंभ करनेवाला [को०] ।
 पुनराधान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] श्रौत या स्मार्त अग्नि का फिर से ग्रहण । फिर से अग्निस्थापन ।
 विशेष—पत्नी की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वाहकर्म में अग्नि अर्पित करके गृहस्थ फिर से विवाह और अग्नि ग्रहण कर सकता है ।
 पुनरावेय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] फिर से अग्निस्थापन [को०] ।
 पुनरानयन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] फिर से ले आना । वापिस लौटा लाना [को०] ।

पुनरालंभ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुनरालम्भ] पुनः ग्रहण करना । पुनः स्वीकरण ।
 पुनरावर्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ लौटना । २ पुनर्जन्म [को०] ।
 पुनरावर्तक—वि० [सं०] वार वार आनेवाला (ज्वर आदि) ।
 पुनरावर्तन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुनः होना । फिर पूर्वस्थिति व आना । उ०—कभी कभी हम वही देखते पुनरावर्तन । उ मानते नियम चल रहा जिसमें जीवन ।—कामायनी पृ० १९१ ।
 पुनरावर्ती—वि० [सं० पुनरावर्तिन्] १ पुनः जन्म लेनेवाला । २ फिर से होनेवाला । फिर पूर्व की स्थिति में आनेवाला । उ०—गत यदि पुनरावर्ती होता तो हो जाता जीवन नि नव ।—अपलक, पृ० ८ ।
 पुनरावृत्त—वि० [सं०] १ फिर से घूमा हुआ । फिर से घूमव आया हुआ । २ दोहराया हुआ । फिर से किया कहा हुआ ।
 पुनरावृत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ फिर से घूमना । फिर से घू कर आना । २ किए हुए काम को फिर करना । दोहराना । पुनः पाठ । एक वार पढ़कर फिर पढ़ना । दोहराना ।
 पुनरुक्त^१—वि० [सं०] १ फिर से कहा हुआ । २ एक वार कहा हुआ । जो फिर कहा गया हो ।
 पुनरुक्त^२—सञ्ज्ञा पुं० द्वारा कहना [को०] ।
 पुनरुक्तवदाभास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह शब्दालंकार जिसमें श्रुत से पुनरुक्ति सी जान पड़े परंतु यथार्थ में न हो । जैसे, वदनीय केहि के नहीं वे कविद मति मान । स गए हू काव्यरस जिनको जगत जहान । इसमें 'जगत' व 'जहान' इन दोनों शब्दों के प्रयोग में पुनरुक्ति जान पड़े है, पर है नहीं, क्योंकि 'जगत' का अर्थ है —जगता है ।
 पुनरुक्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक वार कही हुई वाक को फिर कहना । कहे हुए वचन को फिर लाना ।
 विशेष—साहित्य की दृष्टि से रचना का यह एक दोष म जाता है ।
 पुनरुज्जीवित—वि० [सं० पुनर्+उज्जीवित] जिसे फिर से जी प्राप्त हुआ हो । जो फिर जी उठा हो ।
 पुनरुत्थान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुनः उठना । फिर से उत्थित क [को०] ।
 पुनरुत्थित—वि० [सं० पुनर्+उत्थित] फिर से उठा हुआ [को०] ।
 पुनरुद्धार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मरम्मत कराना । सुधार कराना । उ शीर्षा (भवनादि) को ठीक कराना ।
 पुनरुगमन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] लौटना । फिर से जाना [को०] ।
 पुनरुद्धा—वि० स्त्री० [सं०] (स्त्री) जिम्मा फिर से विवाह हो [को०] ।
 पुनरोपी^१—क्रि० वि० [सं० पुनरपि] दे० 'पुनरपि' । उ० मित पुनरोपि चित्तयं वसय ।—पृ० रा०, २५।३७७ ।

पुनर्गोय—वि० [सं०] १ जो फिर से गाया गया हो। २ जो फिर से गाया जय। पुन गान योग्य [को०]।

पुनर्ग्रहण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पुनरुक्ति। २ बार बार ग्रहण या लेना।

पुनर्जन्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मरने के बाद फिर दूसरे शरीर में उत्पत्ति। एक शरीर छूटने पर दूसरा शरीर धारण।

पुनर्जन्मा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुनर्जन्मन्] ब्राह्मण [को०]।

पुनर्जागरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुनर्+जागरण] १ पुन जगना। पुनरुत्थान। २ यूरोपीय इतिहास का एक युगविशेष। प्राचीन का गौरवगान और उसकी पुन स्थापना इस प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता है।

पुनर्जाति—वि० [न०] फिर से जन्म लेनेवाला [को०]।

पुनर्डीन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पक्षियों के उड़ने का एक प्रकार [को०]।

पुनर्दाव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नख। नाखून।

पुनर्दाय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] फिर से दे देना। लौटा देना [को०]।

पुनर्नव^१—वि० [सं०] जो फिर से नया हो गया हो।

पुनर्नव^२—सञ्ज्ञा पुं० दे० 'पुनर्दाव'।

पुनर्नवा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक छोटा पौधा जिसकी पत्तियाँ चौलाई की पत्तियों की सी गोल गोल होती हैं।

विशेष—फूलों के रंग के भेद से यह पौधा तीन प्रकार का होता है—श्वेत, रक्त और नील। श्वेत पुनर्नवा को विषखपरा और रक्त पुनर्नवा को साँठ या गदहपूरना कहते हैं। श्वेत पुनर्नवा या विषखपरे का पौधा जमीन पर फैला होता है, ऊपर की ओर बहुत कम जाता है। फूल सफेद होते हैं। साँठ या गदहपूरना ऊपर और कंकरीली जमीन पर अधिक होती है। फूल लाल होते हैं, डठल लाल होते हैं और पत्तियाँ भी किनारे पर कुछ ललाई लिए होती हैं। पुनर्नवा की जड़ मूसला होती है और नीचे दूर तक गई होती है। औषध में इसी जड़ का व्यवहार अधिकतर होता है पुनर्नवा कड़वी, गरम, चरपरी, कसैली, रुचिकारक, अग्निदीपक, रुखी, खारी, दस्तावर, हृदय और नेत्र को हितकारी, तथा सूजन, कफ, वात, खाँसी ववासीर, सूल, पाहू रोग इत्यादि को दूर करनेवाली मानी जाती है। नेत्ररोगों में तो यह बहुत उपकारी मानी जाती है। इसकी जड़ को पीते भी हैं और घिसकर घी आदि के साथ अजन की तरल लगाते भी हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि इसके सेवन से प्रीति नई हो जाती है।

पर्याय—(क) श्वेत पुनर्नवा। श्वेतमूला। कठिलक। चिराटिका। वृषधीरा। सितवर्षाभू। वर्षागी। वर्षाही। चिसाख। शशिवाटिका। पुश्वा। धनपत्र। शोथधनी। दीर्घपत्रिका।

(ख) रक्त पुनर्नवा। रक्तपत्रिका। रक्तकाठ। वर्षकेतु। वर्षाभू। रक्तपप्पा। लोहिता। क्रूरा। मडलपत्रिका। चिकस्वरा। विषधनी। सारिणी। शोथपत्र। सौभा। पुनर्नव। नव। नव्य।

(ग) नीलपुनर्नवा। नीला। श्यामा। नीलवर्षाभू। नीलिनी।

पुनर्वि^०—अर्थ [सं० पुनरपि] फिर। दुबारा। उ०—मनु

निर्मलु सूचा सच्चु होई, नानक इतरसि पुनपि जन्म न होई।
—प्राण०, पृ० २३५।

पुनर्भव^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ फिर होना। पुनर्जन्म। २ नख। नाखून। ३ रक्तपुनर्नवा।

पुनर्भव^२—वि० जो फिर हुआ हो। फिर उत्पन्न।

पुनर्भाष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नया जन्म। पुनर्जन्म [को०]।

पुनर्भू—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह विधवा स्त्री जिसका विवाह पहले पति के मरने पर दूसरे पुरुष से हो।

विशेष—मिताक्षरा के अनुसार पुनर्भू तीन प्रकार की होती हैं। जिसका पहले पति से केवल विवाह भर हुआ हो, समागम न हुआ हो, दूसरा विवाह होने पर वह अक्षतयौनि स्त्री प्रथमा पुनर्भू होगी। विधवा हो जाने पर जिसके चरित्र के विगडने का डर गुरुजनो को हो उसका यदि वे पुनर्विवाह कर दें तो वह द्वितीया पुनर्भू होगी। विधवा होकर व्यभिचार करनेवाली स्त्री का यदि फिर विवाह कर दिया जाय तो वह तृतीया पुनर्भू होगी।

पुनर्भोग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पूर्व कर्म के फलो (सुख दुःख आदि) का भोग। २ किसी वस्तु का पुन प्राप्त होना [को०]।

पुनर्वसु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सत्ताईस नक्षत्रों में से सातवाँ नक्षत्र। दे० 'नक्षत्र'। २ विष्णु। ३ शिव। ४ कात्यायन मुनि। ५ एक लोक।

पुनर्विभाजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विभाजित वस्तु को फिर विभाजित करना।

पुनर्वार—क्रि० वि० [सं० पुनर्+वार] दुबारा। फिर से। उ०—पुनर्वार गाएँ नूतन स्वर, नव कर से दे ताल, चतुर्दिक् छा जाए विश्वास।—अनामिका, पृ० ६७।

पुनर्विवाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] फिर से विवाह या परिणयन करना [को०]।

पुनर्वती^०—वि० वा [सं० पुनर्वती] पुनर्वती। भाग्यवाली। पुनर्वती। उ०—किहि पुनर्वती सामुहउ, महु उपराठउ आज।—डोला०, पृ० ३५०।

पुनर्वासी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूर्णमासी] पूर्णिमा। पूनो। पूर्णमासी। उ०—खासी परकासी पुनर्वासी चद्रिका सी जाके, वासी अविनासी अघनासी ऐसी कासी है।—मारतेंदु ग्र०, भा० १, पृ० २८२।

पुनश्च—क्रि० वि० [सं०] पुन। फिर [को०]।

पुनश्चर्वाण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पागुर। पगुरी। जुगाली [को०]।

पुनाग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुन्नाग] दे० 'पुन्नाग' (वृक्ष)। उ०—साल ताल हिताल तमालन वजुल धवा पुनागा।—श्याम०, पृ० ११८।

पुनाराज—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुनर्राज] नया नरेश। नया राजा [को०]।

पुनि^०—क्रि० वि० [सं० पुन] १ फिर। तदनतर। उसके बाद। उ०—(क) पुनि रघुपति बहुविधि समर्राए।—मानस, ७६५। पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन समेता।—मानस, ७६८। २ फिर से। दोबारा।

मुहा०—पुनि पुनि = बार बार । उ०—पुनि पुनि मोहि देखान कुठारा ।—तुलसी (शब्द०) ।

पुनिम^(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूर्णिमा] दे० 'पूर्णिमा' । उ०—उठ उठ माघव कि सुतसि मद, गहन लाग देख पुनिम क चद ।
—विद्यापति, पृ० ६५ ।

पुनिमासी^(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूर्णिमासी] दे० 'पूर्णिमासी' । उ०—चहुआनि राह लगन फिरघो, पूरन पुनमासी सगुर ।
—पृ० रा०, १६ । १७८ ।

पुनी^(७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुण्य, हिं० + पुन + ई (प्रत्यय०)] पुण्य करनेवाला । पुण्यात्मा । उ०—सब निदंभ, धर्मरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनी ।—तुलसी (शब्द०) ।

पुनी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूर्य, या पूर्णिमा] पूर्णिमा । पूनी । उ०—चित्र में बिलोकत ही लाल को वदन वाल, जीते जेहि कोटि चद शरद पुनीन को ।—मतिराम (शब्द०) ।

पुनी^(७)—क्रि० वि० [हिं०] दे० 'पुनि' । उ०—मानस वचन काय किए पाप सति भाय राम को कहाय दास दगावाज पुनी सो ।
—तुलसी (शब्द०) ।

पुनीत—वि० [सं०] पवित्र किया हुआ । पवित्र । पाक ।

पुनीतव^(७)—वि० [सं० पुण्यतम या हिं०] दे० 'पुनीत' । उ०—जरतकार जाजुल्लि परासुर परम पुनीतव ।—ह० रासी, पृ० १० ।

पुनु^(७)—अव्य० [सं० पुन] दे० 'पुन' । उ०—जबो टिठि का श्रील एहि मति तोर, पुनु हेरसि किए परि गोरि ।—विद्यापति, पृ० २६६ ।

पुनर्—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुण्य, प्रा० पुण्य, पुन्न] दे० 'पुण्य' । उ०—तिरथ व्रत तप दान पुनव, होम जज्ञ सोइ ।—जग० श०, भा० २, पृ० ८१ ।

पुनश्च—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुम् + नश्च] नरु नक्षत्र । वह नक्षत्र जिसमें नर सतान की उत्पत्ति हो (को०) ।

पुन्नाग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सुलतान चपा ।

विशेष—इसका पेठ बड़ा और सदावहार होता है । पत्तियाँ इसकी गोल झडाकार, दोनों सिरों पर प्राय बराबर चौड़ी और चपा की पत्तियों से मिलती जुलती होती हैं । टहनियों के सिरों पर लाल रंग के फूल गुच्छों में लगते हैं । फूलों में केसर होता है जो पुन्नागकेसर कहलाता है और दवा के काम में आता है । फल भी गुच्छों में ही लगते हैं । इस पेठ की छकड़ी बहुत मजबूत ललाई लिए वादामी रंग की होती है । यह इमारतों में लगती है, जहाज के मस्तूल बनाने, रेल की पटरी के नीचे देने तथा और बहुत से कामों में आती है । छाल को छीलने से एक प्रकार का रस या गोद निकलता है जिसमें सुगंध होती है । फलों के बीज से तेल निकलता है । पुन्नाग के पेठ दक्षिण मद्रास प्रांत में समुद्रतट पर बहुत अधिक होते हैं । उड़ीसा, सिंहल और बरमा में भी यह पेठ प्रायसे पाए जाते हैं । समुद्रतट की रेतीली भूमि में जहाँ और कोई पेठ नहीं होता वहाँ यह अपने फल फूल की बहार

दिखाता है । वैद्यक में पुन्नाग मधुर, शीतल, सुगंध और पित्तनाशक माना जाता है ।

पर्या०—पुरुपाख्य । रक्तवृक्ष । देवचल्लभ । पुरुष । तुंग । केस । केसरी ।

२ श्वेत कमल । ३ जायफल । ४ पुरुषश्रेष्ठ । मनु मे बडा ।

पुन्नाट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ चक्रमर्द । चक्रवैड का पीषा । कर्नाटक के पास एक देश । ३ दिग्बर जैन मप्रदाय का । सध । जैन हरिवंश के कर्ता जिनसेनाचार्य इसी सध के थे ।

पुन्नाड—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पुन्नाट' ।

पुन्नामा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुन्नामन्] पुन नाम का एक तरक । पुन्नाग वृक्ष (को०) ।

पुन्नि^(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुण्य प्रा० पुन्न] दे० 'पुण्य' । उ०—असुमेष अग्नि जेई कीन्हा । दाव पुन्नि सरि सेउ न दीन्ह ।—जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० १३१ ।

पुन्निम^(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूर्णिमा, प्रा० पुन्निमा] दे० 'पूर्णिमा' । उ०—उद्धित अधान सुभ गतनह । जेम जलधि पुनि वडहि ।—पृ० रा०, १।६८४ ।

पुन्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुण्य] दे० 'पुण्य' ।

पुन्यजन^(७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुण्यजन] असुर । राक्षस । उ०—की अन्नप पुन्यजन निकपासुत दुर्नादि ।—अनेकार्थ०, पृ० ८४ ।

पुन्यताई^(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुण्यता] पुण्यता । पुण्य ।

पुन्यथली^(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुण्य + स्थल] पुण्यस्थली । पवि स्थान । उ०—पुन्यथली तिहि जानि बिराजे, बात न कछु और ।—सूर०, १०।१७८६ ।

पुरली^(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पोपला] बांस की पतली पोली नली ।

पुपूषा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] शुद्ध, स्वच्छ करने की इच्छा (को०) ।

पुप्प, पुप्फ^(७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुप्प, प्रा० पुप्फ] पुप्प । फूल । उ (क) अनेक पुप्प बीज य धि भासत त्रिपांडव ।—पृ० २ २५।३१० । (ख) पुप्फ पानि धरि धूप पिथ्य पाइन असह ।—पृ० रा०, १।१६८६ ।

पुप्फुट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] तालु और मसूहो का एक रोग (को०) ।

पुप्फुल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] उदरस्थ वायु । जठरवात ।

पुप्फुस—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पत्रबीज कोश । कंबलगट्टे का छत्ता २ फुफ्फुस ।

पुप्प पु—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर्व, प्रा० पुप्प] पूर्व । पूर्व दिशा ।

पुप्पता^(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूर्व] अपूर्वता । अनुत्पत्ता

पुमान्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मर्द । नर । पुरुष ।

पुरगपु—वि० [सं० पुर] प्रागे ।

पुरजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरजन] १ जीवात्मा ।

विशेष—भागवत में विस्तृत रूपकाश्चर्य के रूप में शरीररूप पुर, उसके त्वद्धार, त्वक्छुली प्राचीर और उममें 'पुरज नाम' से जीवात्मा के निवास आदि का वर्णन किया गया है २ हरि । विष्णु (को०) ।

पुरजनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुरञ्जनी] बुद्धि । मनीषा [को०] ।

पुरजय^१—वि० [सं० पुरञ्जय] पुर को जीतनेवाला ।

पुरजय^२—सञ्ज्ञा पुं० एक सूर्यवंशी राजा । काकुत्स्थ ।

विशेष—विष्णु पुराण में लिखा है कि एक वार दैत्यो से हारकर जब देवता विष्णु भगवान् के पास गए तब उन्होंने उनसे राजा पुरजय के पास जाने के लिये कहा । भगवान् ने अपना कुछ भ्रष्ट पुरजय में डाल दिया । पुरजय ने इंद्र से वैल बनने के लिये कहा । वैल के ककुद (हीले) पर बैठकर पुरजय ने वृद्ध किया और दैत्यो को परास्त कर दिया । इसी से उनका नाम काकुत्स्थ पडा ।

पुरजर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरञ्जर] काँख । कुक्षि । बगल [को०] ।

पुरद^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरन्दर] इंद्र । पुरदर । उ०—अनघन प्रवाह बहु पुह्वि परि वरष्यो जेम पुरद गति ।—पृ० रा०, १।४७२ ।

पुरंदर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरन्दर] १ पुर, नगर या घर को तोडने वाला । २ इंद्र (जिन्होंने षाशु का नगर तोडा था) । ३. (घर को फोडनेवाला) चोर । ४ चविका । चव्य । चई । ५ मिचं । ६ ज्येष्ठा नक्षत्र । ७ शिव का एक नाम (को०) । ८ अग्नि (को०) । ९ विष्णु ।

यौ०—पुरदरदमाधर=महेन्द्र पर्वत का नाम ।

पुरदरा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुरन्दरा] गंगा ।

पुरद्र^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरन्दर] पुरदर । इंद्र । उ०—ईहि काम पुरद्र निपाता । भग सहस्र किष्ट जिहि गाता ।—सुदर० प्र० भा० १, पृ० १२४ ।

पुरध्रि, पुरध्री—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुरन्ध्र] १ पति, पुत्र, कन्या आदि से भरी पूरी स्त्री । २ स्त्री । औरत ।

पुरः—प्रथम० [सं० पुरस्] १ आगे । २ पहले ।

यौ०—पुर पाक=जिसकी सिद्धि या पाक सन्निकट हो । पुर प्रहर्ता=(१) वह जो अग्रिम पक्ति में लड़े । (२) पहले प्रहार करनेवाला । पुर फल=जिसका फल या सिद्धि समक्ष हो । पुर सर । पुर स्थ=सामने । समक्ष । पुर स्थायी=सामने रहनेवाला । आगे रहनेवाला ।

पुरःसर^१—वि० [सं०] १ अग्रगता । अगुआ । २. सगी । साथी । ३ समन्वित । सहित । युक्त ।

पुर सर^२—सञ्ज्ञा पुं० १ अग्रगमन । २ साथ ।

पुर^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० पुरी] १ वह बड़ी बस्ती जहाँ कई ग्रामो या बस्तियो के लोगो को व्यवहार आदि के लिये आना पडता हो । नगर । शहर । कसबा । २ आगार । घर ।

यौ०—अत पुर । नारीपुर ।

३ गृहोपरि गृह । घर के ऊपर का घर । कोठा । अटारी । ४ लोक । भुवन । ५ नक्षत्र । पुज । राशि । ६ देह । शरीर । ७. मोथा । ८. चर्म । चमडा । ९ पीली कटसरेया । १० गुग्गुलु नामक गधद्रव्य । ११ दुर्ग । किला । गढ़ । १२ चाँगा । १३ पाटलिपुत्र का एक नाम (को०) । १४ स्त्रियो

का निवास । अत पुर । जनानखाना (को०) । १५ कोपागार । भडारघर (को०) । १६ गरिकागृह । वैश्यालय (को०) । १७ पुष्पगर्भ । पुष्प कोश (को०) ।

पुर^२—वि० [सं०, तुल० फा० पुर] पूर्ण । भरा हुआ ।

पुर^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुर (=चमडा), या देश०] कुएँ से पानी निकालने का चमड़े का डोल । चरसा ।

पुर^४—अव्य० [सं० पुरस्] आगे । समक्ष । सामने । उ०—राम कह्यो जे कइ दुख तेरे । श्वान निशक कह्यो पुर मेरे ।—राम च०, पृ० १६६ ।

पुरअमन—वि० [फा० पुर + अ० अमन] शांतिपूर्ण । शांति-मय (को०) ।

पुरअसर—वि० [फा० पुर + अ० असर] असरदार । प्रभावशील । उ०—कोई पद्रह कहानियाँ उन्होने लिखी, किंतु जो लिखा पुरअसर ।—शुक्ल अभि० प्र०, पृ० ६३ ।

पुरइन^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुटकिनी, प्रा० पुडइनी (=कमलिनी), पु०हि० पुरइनि] १. कमल का पत्ता । उ०—(क) पुरइन सघन श्रोत जल वेगि न पाइय मर्म । मायाछन्न न देखिए जैसे निगुण मत्त ।—तुलसी (शब्द०) । (ख) देखो भाई रूप सरोवर साज्यो । ब्रज बनिता वर वारि वृद में श्रो ब्रजराज विराज्यो । पुरइन कपिश निचोल विवध रंग विहसत सञ्जु उपजावै । सूर श्याम आनदकद की सोभा कहत न आवै ।—सूर (शब्द०) । २ कमल । उ०—(क) सरवर चहुँ दिसि पुरइनि फुली । देखा वारि रहा मन भूली ।—जायसी (शब्द०) । (ख) ऊधो तुमही अति बड़ भागी । अपरस रहत सनेह तगा तें नाहिन मन अनुरागी । पुरइन पाव रहत जल भीतर ता रस देह न दागी । ज्यों जल माह तेल की गागरि वृद न ताको लागी ।—सूर (शब्द०) ।

पुरइया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] तकुआ । उ०—मन मेरी रहटा रसना पुरइया । हरि की नाठ ले ले काति बहुरिया ।—कवीर प्र०, पृ० १६५ ।

पुरकोट्ट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नगर की रक्षा के लिये बना दुर्ग [को०] ।

पुरखा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरुष] । व्यक्ति । पुरुष ।

पुरखव^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] पौरुष । पुरुषार्थ । उ०—इक्क कहै सौअन्न इंद्र को पुरखव नखिय ।—पृ० रा०, ४।३ ।

पुरखा^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरुष] [स्त्री० पुरखिन] १ पूर्वज । पूर्व-पुरुष । उत्पत्ति परंपरा में पहले पडनेवाले पुरुष । जैसे, बाप, दादा, परदादा इत्यादि । जैसे,—ऐसी चीज उसके पुरुखो ने भी न देखी होगी । उ०—चलत लीक पुरखान की करत तिनहि के काज ।—लक्ष्मण (शब्द०) ।

मुहा०—पुरखे तर जाना=पूर्वपुरुषो को (पुत्र आदि के कृत्य से) परलोक में उत्तम गति प्राप्त होना । बडा भारी पुण्य या फल होना । कृतकृत्य होना । जैसे,—एक दिन वे तुम्हारे घर आ गए, वस पुरखे तर गए ।

२. घर का बडा वृद्ध ।

पुरखार—वि० [फा० पुरखार] काँटो से परिपूर्ण। काँटो से भरा हुआ। कटकमय। जहाँ कृति अधिक हो। उ०—पुरखार चार सौ है गुलजार वहाँ है।—कवीर म०, पृ० ३२३।

पुरखून—वि० [फा० पुरखून] खून से तरबतर। रक्ताक्त। उ०—लगे गुलशन पे अजबस गम के होलियाँ, हुए पुरखून कुल मेंहदी के फूलों।—दक्खिनी०, पृ० १६१।

पुरग—वि० [सं०] १ शहर को जानेवाला। २ जिसकी मनोवृत्ति अनुकूल हो [को०]।

पुरगुर—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] बगाल के उत्तरपूर्व होनेवाला एक पेड़ जो धौली से मिलता जुलता होता है। इसकी लकड़ी खेती के सामान और खिलौने आदि बनाने के काम आती है।

पुरचक—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पुचकार] १. छुमकार। पुचकार। २ बढावा। उत्साहदान। जैसे,—तुम्ही ने तो पुरचक दे देकर लडके को गाली बकना सिखाया है।

क्रि० प्र०—देना।

३ प्रेरणा। उसकावा। उभारने का काम। जैसे,—उसने पुरचक देकर उसे लडा दिया। ४ पृष्ठपोषण। वाहवाही। समर्थन। पक्षमडन। हिमायत। तरफदारी। जैसे,—पुरचक पाकर ही पुलिसवालो ने यह सब उपद्रव किया।

क्रि० प्र०—देना।—पाना।—लेना।

पुरगो—वि० [फा०] बहुत अधिक कविता करनेवाला। २ अधिक बोलनेवाला। बातूनी [को०]।

पुरगोई—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] १. अत्यधिक कविता करना। २. बकवादपन। वाचालता [को०]।

पुरजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नगरवासी लोग। उ०—बचन सुनत पुरजन धनुरागे। तिन्हके भाग सराहन लागे।—मानस, २।२५०।

पुरजा—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पुर्जह] १ टुकड़ा। खड। उ०—सूरा सोइ सराहिए लडे घनी के खेत। पुरजा पुरजा हूँ परे तरु न छाँडे खेत।—कवीर (शब्द०)।

मुहा०—पुरजे पुरजे उदना = टुकड़े टुकड़े हो जाना। पूरी तरह नष्ट हो जाना। उ०—पुरजे पुरजे उडे अन्न विनु वस्तर पानी। ऐसे पर ठहराय सोई महवूव बखानी।—पलद०, भा० १, पृ० ३३। पुरजे पुरजे करना या उदाना = खड खड करना। टुक टुक करना। धज्जियाँ उदाना। पुरजा पुरजा हो पदना = दे० 'पुरजे पुरजे होना'। उ०—सूर न जाने कापरी सूरा तन से हेत। पुरजा पुरजा 'हो पडे', तहूँ न छाँडे खेत।—दरिया वा०, पृ० १२। पुरजा पुरजा हो रहना = दे० 'पुरजे पुरजे होना'। उ०—सूरा सोई सराहिये, लडे घनी के हेत। पुरजा पुरजा होई रहै, तरु न छाँडे खेत।—कवीर सा० स०, भा० १, पृ० २३। पुरजे पुरजे होना = खड खड होना। टुक टुककर टुकड़े टुकड़े होना।

२ कतरन। धज्जी। कटा टुकड़ा। कचल। ३. अवयव। अंग। अश। भाग। जैसे, कल के पुरजे, घड़ी के पुरजे।

मुहा०—चलता पुरजा = चालाक आदमी। तेज आदमी। उद्योगी पुरुष।

४. चिडियो के महीन पर। रोई।

पुरजित्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. शिव। २ एक राजा। ३ कृष्ण का एक पुत्र जो जाववती से उत्पन्न हुआ था।

पुरजोर—वि० [फा० पुरजोर] पुरअमर। अोजपूर्ण।

पुरजोश—वि० [फा० पुरजोश] जोश से भरा हुआ। जोशीला।

पुरट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सुवर्ण। सोना। उ०—(क) छुहे पुरट घट सहज सुहाए। मदन सकुच जनु नीड बनाए।—मानस, १।३४६। (ख) पुरट मनि मरकतनि की तति तहाँ मजन ठाट।—घनानद, पृ० ३००।

पुरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] समुद्र।

पुरतः—अव्य० [सं० पुरतस्] आगे।

पुरतटी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] छोटा कसबा या गाँव जिसमे बाजार लगता हो।

पुरतोरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शहर का बाहरी दरवाजा। पुरद्वार [को०]।

पुरत्राण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शहरपनाह। प्राकार। कोट। परकोटा। उ०—कनक रचित मणि खचित दिवाला। अष्ट द्वार पुरत्राण विशाला।

पुरदद—वि० [फा०] दर्द से भरा हुआ। दुःखपूर्ण। पीडायुक्त। उ०—इसका अर्थ बडा विकट है, बडा पुरदद है।—कुकु (सू०), पृ० १३।

पुरद्वार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नगरद्वार। शहर पनाह का फाटक।

पुरन—वि० [सं० पूर्ण, हिं० पूरन] दे० 'पूरन'। उ०—सुतन दुख अति बाल ससि भयो पुरन बिन मत।—पृ० रा०, २।३४०

पुरनवासी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूर्णमासी] दे० 'पूर्णमासी'। उ०—अग्रहन पुनवासी वार सुक दसखत दलदास कानगोए।—स दरिया, पृ० ३।

पुरना—क्रि० अ०, क्रि० सं० [हिं०] दे० 'पूरना'

पुरनारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] गदहपूर्णा। पुननवा।

पुरनारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वारागना। वेश्या [को०]।

पुरनियों—वि० [हिं० पुराना + ह्यौं (प्रत्य०)] वृद्ध। वयोवृद्ध बुद्ध।

पुरनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पूरना (= भरना)] १ छल्ला। अंगूठे पहनने का गहना। २ तुरही। सिंहा। ३ बटूक का गज।

पुरनूर—वि० [फा] ज्योतिर्मय। सौंदर्ययुक्त। प्रकाशमान। सुंदर से परिपूर्ण। उ०—जाहिरा जहान जाका जहर पुरनूर—मलूक०, पृ० २०।

पुरनोट—सञ्ज्ञा पुं० [अं० प्रोनोट] शृणामत्र। रुक्का। सरख। उ०—मुझसे अपने रुपयो के लिये पुरनोट लिखा लो, रु लिखा लो, और क्या करोगे?—गवन, पृ० ११७।

पुरपाटण—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुर + हिं० पाटन < सं० पत्तन] नगर। उ०—पुर पाटण सुवस बसे।—कवीर म०, पृ० ५२।

पुरपाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. नगर का रक्षक। कोतवाल। २. जीव।

पुरपेच—वि० [फा०] चक्करदार। घुमावदार। घुंघराला। उ०—इसकी पुरपेच जुल्फें दिल को वेताब किए ढालती हैं।—श्रीनिवास ग्र०, पृ० ४५

पुरफन—वि० [फा० पुर + अ० फन] मक्कार। घूतं। प्रवचक। उ०—ऐ इस्कवाज पुरफन बलिहार तुज मकर पर।—दक्खिनी०, पृ० ३२०।

पुरवला—वि० [सं० पूर्व + हि० ला प्रत्य०] [वि० स्त्री० पुरबली] १. पूर्व का। पहले का। २. पूर्व जन्म का। पूर्वजन्म सबधी। जैसे, पुरबले पाप।

पुरवा^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूर्व] दे० 'पुरवा'।

पुरवा^२—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पूर्वा] दे० 'पूर्वा (नक्षत्र)'। उ०—पुरवा लाग भूमि जलपूरी।—जायसो ग्र०, पृ० १५३।

पुरविद्या—वि० [हि० पूरव + ह्या (प्रत्य०)] [वि० स्त्री० पुरबिनी] पूर्व देश में उत्पन्न या रहनेवाला। पूरव का। जैसे, पुरविद्ये लोग।

पुरविद्या^२—सञ्ज्ञा पुं० पूरव का रहनेवाला व्यक्ति। पूरव के निवासी जन। जैसे, पुरविद्यो की फौज।

पुरबिला—वि० [हि० पूरव] दे० 'पुरवला'।

पुरविहा^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पूरव + ह्या (प्रत्य०)] दे० 'पुरविद्या'।

पुरवी^१—वि० [हि० पूरव + ई] दे० 'पुरवी'।

पुरबुज^१—वि० [सं० पूर्वज] पूर्व का। पहिले का। उ०—जो पुरबुज अपने कर्मन तें, डारयो सब मितारी।—जग० बानी, पृ० २८।

पुरबुला^१—वि० [सं० पूर्व + हि० ला (प्रत्य०)] दे० 'पुरबुला'। उ०—रही न रानी कैकेई अमर भई यह बात। ववन पुरबुले पाप ते वन पठयो जगतात।—(शब्द०)।

पुरभिद्रु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] (असुरों के त्रिपुर का नाश करनेवाले) शिव। पुरमथन।

पुरमजाक—वि० [फा० पुर + अ० मजाक] दिल्लगी से भरा हुआ। व्यंग्यपूर्ण। उ०—वे जहाँ एक और करण चित्रों के आकलन में सिद्धहस्त हैं वहाँ पुरमजाक, फवती भरे, गुदगुदा देनेवाले फिसाने लिखने में भी।—शुक्ल० अभि० ग्र० (सा०) पृ० ६२।

पुरमथन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शिव।

पुरमान^१—सञ्ज्ञा पुं० [फा० फर्मान] दे० 'फरमान'। उ०—आखेटक वन तबिक इतै गज्जने सपत्ते। साह जोर साहाब दिए पुरमान निरत्ते।—पृ० रा, १०६।

पुररोध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नगर को चारों ओर से घेरना [को०]।

पुररौनक—वि० [फा० पुररौनक] चहल पहल से भरा हुआ। जहाँ खूब रौनक हो [को०]।

पुरता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दुर्गा।

पुरवइया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूर्वा] दे० 'पुरवाई'। उ०—नान्हीं नान्ही बूँद पवन पुरवइया चरसत थोरे थोरे।—सतवाणो, भा० २, पृ० ७६।

पुरवटा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर + वर्त्म ?] चमड़े का बहुत बड़ा ढोल जिसे कुएँ में ढालकर वैलो की सहायता से खेत की सिचाई आदि के लिये पानी खींचते हैं। चरसा। मोट। पुर।

क्रि० प्र०—चलना। खींचना।

मुहा०—पुरवट नाधना = पुरवट की रस्सी में वैल जोतना। पुरवट हँकना = पुरवट के वैलों को चलाना।

पुरवधू—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पुरनारी' [को०]।

पुरवना^१—क्रि० सं० [हि० पूरना] १. पूरना। भरना। पुजाना। जैसे, घाव पुरवाना। २. पूरा करना। पूर्ण करना। उ०—(क) जौ विधि पुरव मनोरथ काली। करउँ तोहि चप पूतरि छाली।—तुलसी (शब्द०)। (ख) मो सो कहा डुरावति राधा। कहा मिली नंदनदन को निज पुरयो मन की साधा।—सूर (शब्द०)।

मुहा०—साथ पुरवना = साथ देना। साथी होना। उ०—पुरवहु साथ तुम्हार बढाई।—जयसी (शब्द०)।

पुरवना^२—क्रि० प्र० १. पूरा होना। २. यथेष्ट होना। ३. उपयोग के योग्य होना।

मुहा०—धल पुरवना = पूरी शक्ति या सामर्थ्य होना। बलवीर्य का काम करना।

पुरवय्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पुरवइया'। उ०—हिल रही नीम की ढाल मदगति, कहती रे। वह रही लजीली सीरी घीरी पुरवइया।—मिट्टी०, पृ० ५७।

पुरवा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुर + हि० वा (प्रत्य०)] छोटा गाँव। पुरा। खेडा। उ०—नदी नद सागर डगरि मिलि गए देव, डगर न सूक्त नगर पुरवान को।—देव (शब्द०)।

पुरवा^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर्व + वात, हि० पूरव + वाव] पूरव की हवा। पूर्व दिशा से चलनेवाली वायु। २. एक रोग जो वायु चलने से उत्पन्न होता है।

विशेष—यह पशुओं को होता है। इसमें पशु का गला फूल जाता है और उसके पेट में पीड़ा होती है।

पुरवा^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुटक] मिट्टी का कुल्हड़। कुल्हिया। उ०—बूट के केदार सम लूटिहै त्रिलोक काल पुरवा के फूट सम ब्रह्म अह फूटिहै।—हनुमान (शब्द०)।

पुरवा^४—वि० [हि० पूरना] पूर्ण करनेवाला। पुरानेवाला। उ०—बलि राधे वृदावन बिहरन औरर बन्यो है मनोरथ पुरवा।—घनानंद, पृ० ४६०।

पुरवाई—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूर्व + वायु, हि० पूरव + वाई] पूर्व की वायु। वह वायु जो पूर्व से चलती है। उ०—भाग सी घघात ताती लपट सिराय गई पौन पुरवाई लागी सीतल सुहानरी।—ठाकुर०, पृ० २०।

पुरवाना—क्रि० सं० [हि० पुरवना का प्र० रूप] पूरा कराना।

पुरबासी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरवासिन्] नगर में रहनेवाला। नगर-निवासी।

पुरवास्तु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नगर बसाने योग्य भूमि [को०]।

पुरवैयाज़—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पुरवाई'।

पुरशासन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] (दंत्यों के त्रिपुर का ध्वंस करनेवाले) शिव।

पुरश्चरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ किसी कार्य की सिद्धि के लिये पहले से ही उपाय सोचना और मनुष्यता करना। २ हवन आदि के समय किसी विशिष्ट देवता का नाम जप [को०]। ३. किसी मन्त्र स्तोत्र आदि को किसी अमीष्ट कार्य की सिद्धि के लिये किसी नियत समय और परिमाण तक नियमपूर्वक जपना या पाठ करना। प्रयोग। उ—मैं अब पुरश्चरण करने जाता हूँ, आप विघ्नो का निषेध कर दीजिए।—भारतेंदु ग्र०, भा० २, पृ० ३०३।

पुरश्चर्या—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुरश्चरण [को०]।

पुरश्छद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कुष या डाम की तरह की एक घास।

पुरषा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरुष] दे० 'पुरुष'। उ०—पुरष जनम कद तू पामेला, गुण कद हरिरा गासी।—रघु० रू०, पृ० १६।

पुरषा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पुरखा] दे० 'पुरखा'।

पुरषातन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरुषत्व] १ पुरुषत्व। पौरुष। साहस। हिम्मत। उ०—इह नष्ट ज्ञान सुनिये न कान। पुरषातन भज्जे किञ्चि हान।—पृ० रा०, १।३५१। २. पुरुषत्व। स्त्रीसमागम की शक्ति। उ०—बढिय काम कामना भई पुरुषातन की सिधि।—पृ० रा०, १।४००।

पुरष—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरुष] दे० 'पुरुष'। उ०—किय सोक कोप कहौं वछ्छ गोप। हरे ब्रह्म ग्यान, पुरष पुरान।—पृ० रा०, २।६३।

पुरस—सञ्ज्ञा पुं० [पुरीष] खाद। पस।

पुरस—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरुष] दे० 'पुरुष'। उ०—पूरण पुरस पुराण प्रमेसर। सुकवि सघार वार अमेस्वर।—रा० रू०, पृ० ४।

पुरसाँह—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पौरुष'। उ०—नमस्कार सूरों नराँ, पूरा सत पुरसाँह।—वाँकी० ग्र०, भा० १।

पुरसाँहा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरसाँहा] हालचाल पूछनेवाला। खोज खबर लेनेवाला। उ०—चमार पहर रात रहे घास छीलने जाते, मेहतर पहर रात से सफाई करने लगते, कहार पहर रात से पानी खीचना शुरू करते, मगर कोई उनका पुरसाँहाल न था।—काया०, पृ० १७२।

पुरसा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरुष] ऊँचाई या गहराई की एक माप जिसका विस्तार हाथ ऊपर उठाकर खड़े हुए मनुष्य के बराबर होता है। साठे चार या पाँच हाथ की एक माप। जैसे, चार चार पुरसा गहरा, छह पुरसा ऊँचा।

पुरसी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फ्रा०] जानने या पूछने की क्रिया या भाव। जैसे, मिजाजपुरसी।

पुरस्करण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ समक्ष उपस्थित करना। आगे रखना। २ पूरा करना। दे० 'परस्कार' [को०]।

पुरस्करणीय—वि० [सं०] जिसका पुरस्करण किया जाय। पुरस्करण योग्य। पूरा करने योग्य [को०]।

पुरस्कर्ता—वि० [सं०] १ पुरस्कृत करनेवाले। पुरस्कार देनेवाले। २. समर्थक। हिमायती। ३. समक्ष या आगे करनेवाला। उ०—जाहिर है कि नए रूपविधान के पुरस्कर्ता प्रगतिशील हैं।—इति०, पृ० ५७।

पुरस्कार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० पुरस्कृत] १. आगे करने की क्रिया। २. आदर। पूजा। ३. प्रधानता। ४. स्वीकार। ५. पारितोषिक। उपहार। इनाम।

क्रि० प्र०—देना।—पाना।

६. आक्रमण। हमला [को०]। ७. अभिषेचन [को०]। ८. अभिशाप [को०]।

पुरस्कृत—वि० [सं०] १ आगे किया हुआ। २. आदृत। पूजित। ३. स्वीकृत। ४. जिसने इनाम पाया हो। जिसे पुरस्कार मिला हो। ५. अभिशप्त [को०]। ६. शत्रु द्वारा आक्रमित अरिग्रस्त [को०]। ७. सिक्त। सेचित [को०]। ८. तैयार जो पूरा हो गया हो [को०]।

पुरस्क्रिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पुरस्करण', 'पुरस्कार'।

पुरस्तात्—अव्यय [सं० पुरस्तात्] १. आगे। सामने। २. पूर्व दिशा में। ३. पहले। पूर्वकाल में। ४. अतीत में [को०]। ५. अ. में। बाद में [को०]।

पुरस्तात्लाभ—[सं०] कौटिल्य के अनुसार वह लाभ जो चढ़ा करने पर प्राप्त हो।

पुरस्सर—वि० [सं०] दे० 'पुरसर-३'। उ०—समदु खिनी मिले त दु ख बैठे, जा, प्रणय पुरस्सर से आ।—साकेत, पृ० २५६।

पुरहत—सञ्ज्ञा पुं० [पुर + अहत] वह अन्न और द्रव्यादि ७ विवाह आदि मंगल कार्यों में पुरोहित या प्रजा को किस्म के करने के प्रारंभ में दिया जाता है। भाखत।

पुरहन्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ विष्णु। २ शिव।

पुरहर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर्य ?] उ०—अभिनव पल्लव वहस देल, धवल कयल फुल पुरहर मेल।—विद्यापति, पृ० १०६।

पुरहा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० हिं० पुर] वह पुरुष जो पुर चलेते सम कुएं पर के पानी को गिरान के लिये नियत रहता है।

पुरहा—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार की लता जिसकी पत्तियाँ गोलाकार और ५-६ इंच चौड़ी होती हैं। यह हिमालय सब जगह ७००० फुट तक की ऊँचाई पर पाई जाती है। फल वही इसकी जड़ का व्यवहार औषधि रूप में भी होता है।

पुरही—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] हरजेठ की नाम की भाड़ी जिसकी पत्तियाँ और जड़ औषधि रूप में काम में आती हैं। दाख। निरविसी

पुरहूत—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरुहूत] दे० 'पुरुहूत'। उ०—भय नग देव परहूत सम, कुसुम बरन सागर सुमय।—प० रास० पृ० १८३।

पुरहौल—वि० [फा०] भयकर । डरावना [को०] ।

पुरांतक—सज्ञा पु० [सं० पुर + अन्तक] शिव ।

पुरो^१—अव्य० [सं०] १ पुराने समय में । पहले । पूर्वकाल में । प्राचीन काल में । उ०—रहे चक्रवर्ती नृपति विश्वामित्र महान । कियो राज शासन पुरा जाहिर भयो जहान । —रघुराज (शब्द०) । २ प्राचीन । अतीत । पुराना । जैसे, पुरावृत्त, पुराकल्प, पुराविद्, पुराकथा । ३. वर्तमान काल तक । अब तक (को०) । ४ अल्प काल में । शीघ्र । घोड़े समय में (को०) ।

पुरा^२—सज्ञा स्त्री १ पूर्व दिशा । २ एक सुगंध द्रव्य ।

विशेष—वैद्यक में यह कर्षली, शीतल तथा कफ, श्वास, मूर्च्छा और विष को दूर करनेवाली मानी जाती है ।

३ गंगा नदी (को०) ।

पुरा^३—सज्ञा पु० [सं० पुर] गाँव । वस्ती । 'पुर' ।

पुराकथा—सज्ञा स्त्री [सं०] पौराणिक आख्यान । प्राचीन कथा । इतिहास [को०] ।

पुराकल्प—सज्ञा पु० [सं०] १ पूर्वरूप । पहले का कल्प । २ प्राचीन काल । ३ प्राचीन इतिहास । ४ एक प्रकार का अर्थवाद जिममें प्राचीन काल का इतिहास कहकर किसी विधि के करने की ओर प्रवृत्त किया जाय । जैसे, ब्राह्मणों ने इससे हवि पवमान सामस्तोम की स्तुति की थी ।

पुराकालीन—वि० [सं० पुरा + कालीन] प्राचीन काल का ।

पुराकृत^१—वि० [सं०] १ पूर्वकाल में किया हुआ । २ पूर्वजन्म में किया हुआ ।

पुराकृत^२—सज्ञा पु० पूर्वजन्म में किया हुआ पाप या पुण्यकर्म ।

पुराचीन—वि० [सं० प्राचीन] प्राचीन । पुराना । उ०—छिन्न करो पुराचीन सस्कृतियों के जड़ बधन । जाति वर्ण श्रेणि वर्ग से विमुक्त जन नूतन । —ग्राम्या, पृ० ६६ ।

पुराट्ट—सज्ञा पु० [सं० पुर + अट्ट] नगर की चहारदीवारी पर बने हुए बुर्ज [को०] ।

पुराण^१—वि० [सं०] १ पुरातन । प्राचीन । जैसे पुराण पुरुष । २ अधिक आयु का । अधिक उम्र का (को०) । ३ जीर्ण (को०) ।

पुराण^२—सज्ञा पु० १ प्राचीन आख्यान । पुरानी कथा । सृष्टि, मनुष्य, देवों, दानवों, राजाओं, महात्माओं आदि के ऐसे वृत्तांत जो पुरुषपरपरा से चले आते हो । २ हिंदुओं के धर्मपुस्तक आख्यानयथ जिनमें सृष्टि, लय, प्राचीन ऋषियों, मुनियों और राजाओं के वृत्तांत आदि रहते हैं । पुरानी कथाओं की पोथी ।

विशेष—पुराण अठारह हैं । विष्णु पुराण के अनुसार उनके नाम ये हैं—विष्णु, पद्म, ब्रह्म, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिग, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड, ब्रह्मांड और भविष्य । पुराणों में एक विचित्रता यह है कि प्रत्येक पुराण में अठारहो पुराणों के नाम और उनकी

श्लोकसंख्या है । नाम और श्लोकसंख्या प्रायः सबकी मिलती है, कहीं कहीं भेद है । जैसे कूर्म पुराण में अग्नि के स्थान में वायुपुराण, मार्कंडेय पुराण में लिगपुराण के स्थान में नृसिंहपुराण, देवीभागवत में शिव पुराण के स्थान में नारद पुराण और मत्स्य में वायुपुराण है । भागवत के नाम से आजकल दो पुराण मिलते हैं—एक श्रीमद्भागवत, दूसरा देवीभागवत । कौन वास्तव में पुराण है इसपर झगडा रहा है । रामाश्रम स्वामी ने 'दुर्जनमुखचपेटिका' में लिख किया है कि श्रीमद्भागवत ही पुराण है । इसपर काशीनाथ भट्ट ने 'दुर्जनमुखमहाचपेटिका' तथा एक और पंडित ने 'दुर्जनमुखपद्मपादुका' देवीभागवत के पक्ष में लिखी थी । पुराण के पाँच लक्षण कहे गए हैं—नगं, प्रतिनगं (अर्थात् सृष्टि और फिर सृष्टि), वश, मन्वतर और वशानुचरित्—'सर्गश्च, पतिसर्गश्च, षष्ठी, मन्वतराणि च । वशानुचरित चैव पुराणं पचलक्षणम् ।'

पुराणों में विष्णु, वायु, मत्स्य और भागवत में ऐतिहासिक वृत्त—राजाओं की वंशावली आदि के रूप में बहुत कुछ मिलते हैं । ये वंशावलियाँ यद्यपि बहुत मरिचका हैं और इनमें परस्पर कहीं कहीं विरोध भी है पर है बड़े काम की । पुराणों की ओर ऐतिहासिकों ने इधर विशेष रूप से ध्यान दिया है और वे इन वंशावलियों की छानबीन में लगे हैं । पुराणों में सबसे पुराना विष्णुपुराण ही प्रतीत होता है । उसमें सांप्रदायिक सींचतान और रागद्वेष नहीं है । पुराण के पाँचो लक्षण भी उसपर ठीक ठीक घटते हैं । उसमें सृष्टि की उत्पत्ति और लय, मन्वतरों, भरतादि खंडों और सूर्यादि लोकों, वेदों की शाखाओं तथा वेदव्यास द्वारा उनके विभाग, सूर्य वंश, चंद्र वंश आदि का वर्णन है । कनि के राजाओं में मगध के मौर राजाओं तथा गुप्तवंश के राजाओं तक का उल्लेख है । श्रीकृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन है पर बिलकुल उस रूप में नहीं जिस रूप में भागवत में है । कुछ लोगों का कहना है कि वायुपुराण ही शिवपुराण है क्योंकि आजकल जो शिवपुराण नामक पुराण या उपपुराण है उसकी श्लोक संख्या २४,००० नहीं है, केवल ७,००० ही है । वायुपुराण के चार पाद हैं जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, कल्पों और मन्वतरो, वैदिक ऋषियों की गाथाओं, दक्ष प्रजापति की कन्याओं से भिन्न भिन्न जीवोत्पत्ति, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की वंशावली तथा कलि के राजाओं का प्रायः विष्णुपुराण के अनुसार वर्णन है । मत्स्यपुराण में मन्वतरों और राजवंशावली के अतिरिक्त वर्णन धर्म का बड़े विस्तार के साथ वर्णन है और मत्स्यपुराण की पूरी कथा है । इसमें मय आदिक अनुरों के संहार, मातृलोक, पितृलोक, मूर्ति और मंदिर बनाने की विधि का वर्णन विशेष ढंग का है ।

श्रीमद्भागवत का प्रचार सबसे अधिक है क्योंकि उसमें भक्ति के साहाय्य और श्रीकृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन है । नौ स्कंधों के भीतर तो जीवब्रह्म की एकता, भक्ति का महत्त्व,

सृष्टिलीला, कपिलदेव का जन्म और अपनी माता के प्रति वैष्णव भावानुसार साख्यशास्त्र का उपदेश, मन्वंतर और ऋषिवशावली, अवतार जिसमें ऋषभदेव का भी प्रसंग है, ध्रुव, वेणु, पृथु, प्रह्लाद इत्यादि की कथा, समुद्रमथन आदि अनेक विषय हैं। पर सबसे बड़ा दशम स्कंध है जिसमें कृष्ण की लीला का विस्तार से वर्णन है। इसी स्कंध के आघार पर शृंगार और भक्तिरस से पूर्ण कृष्णचरित् सन्नधी सस्कृत और भाषा के अनेक ग्रंथ बने हैं। एकादश स्कंध में यादवों के नाश और वारहवें में कलियुग के राजाओं के राजत्व का वर्णन है। भागवत की लेखनशैली और पुराणों से भिन्न है। इसकी भाषा पाश्चिमीयपूर्ण और साहित्य सवधी चमत्कारों से भरी हुई है, इससे इसकी रचना कुछ पीछे की मानी जाती है।

अग्निपुराण एक विलक्षण पुराण है जिसमें राजवशावलियों तथा सक्षिप्त कथाओं के अतिरिक्त धर्मशास्त्र, राजनीति, राज-धर्म, प्रजाधर्म, आयुर्वेद, व्याकरण, रस, अलंकार, शास्त्र-विद्या आदि अनेक विषय हैं। इसमें तत्रदीक्षा का भी विस्तृत प्रकरण है। कलि के राजाओं की वशावली विक्रम तक आई है, अवतार प्रसंग भी है।

इसी प्रकार और पुराणों में भी कथाएँ हैं। विष्णुपुराण के अतिरिक्त और पुराण जो आजकल मिलते हैं उनके विषय में सदेह होता है कि वे असल पुराणों के न मिलने पर पीछे से न बनाए गए हों। कई एक पुराण तो मत मतांतरों और संप्रदायों के राग द्वेष से भरे हैं। कोई किसी देवता की प्रधानता स्थापित करता है, कोई किसी देवता की प्रधानता स्थापित करता है, कोई किसी की। ब्रह्मवैवर्त पुराण का जो परिचय मत्स्यपुराण में दिया गया है उसके अनुसार उसमें रथतर वन्य और वराह अवतार की कथा होनी चाहिए पर जो ब्रह्मवैवर्त आजकल मिलता है उसमें यह कथा नहीं है। कृष्ण के वृंदावन के रास से जिन भक्तों की वृत्ति नहीं हुई थी उनके लिये गोलोक में सदा होनेवाले रास का उसमें वर्णन है। आजकल का यह ब्रह्मवैवर्त मुसलमानों के आने के कई सौ वर्ष पीछे का है क्योंकि इसमें 'जुलाहा' जाति की उत्पत्ति का भी उल्लेख है—'भलेषुवा कुविदकन्याया जोला जातिर्बभूव ह' (१०.१२१)। ब्रह्मपुराण में तीर्थों और उनके माहात्म्य का वर्णन बहुत अधिक है, अनंत वासुदेव और पुरुषोत्तम (जगन्नाथ) माहात्म्य तथा और बहुत से ऐसे तीर्थों के माहात्म्य लिखे गए हैं जो प्राचीन नहीं कहे जा सकते। 'पुरुषोत्तमप्रासाद' से अवश्य जगन्नाथ जी के विशाल मंदिर की ओर ही इशारा है जिसे गांगेय वंश के राजा चोडगग (सन् १०७७ ई०) ने बनवाया था। मत्स्यपुराण में दिए हुए लक्षण आजकल के पद्मपुराण में भी पूरे नहीं मिलते हैं। वैष्णव सांप्रदायिकों के द्वेष की इसमें बहुत सी बातें हैं। जैसे, पाषंडिलक्षण, मायावार्दिवाद, तामसशास्त्र, पुराणवर्णन

इत्यादि। वैशेषिक, न्याय, साख्य और चार्वाक तामस शास्त्र कहे गए हैं और यह भी बताया गया है कि दैत्यों के विनाश के लिये बुद्ध रूपी विष्णु ने असत् बौद्ध शास्त्र कहा। इसी प्रकार मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद और अग्नि तामस पुराण कहे गए हैं। सारांश यह कि अधिकांश पुराणों का वर्तमान रूप हजार वर्ष के भीतर का है। सबके सब पुराण सांप्रदायिक हैं, इसमें भी कोई सदेह नहीं है। कई पुराण (जैसे, विष्णु) बहुत कुछ अपने प्राचीन रूप में मिलते हैं पर उनमें भी सांप्रदायिकों ने बहुत सी बातें बढ़ा दी हैं।

यद्यपि आजकल जो पुराण मिलते हैं उनमें से अधिकतर पीछे से बने हुए या प्रक्षिप्त विषयों से भरे हुए हैं तथापि पुराण बहुत प्राचीन काल से प्रचलित थे। बृहदारण्यक और शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि गीली लकड़ी से जैसे धुआँ अलग अलग निकलता है वैसे ही महान् भूत के निश्वास से ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद, अथर्वगिरस, इतिहास, पुराणविद्या, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान और अनुव्याख्यान हुए। छांदोग्य उपनिषद् में भी लिखा है कि इतिहास पुराण वेदों में पाँचवाँ वेद है। अत्यंत प्राचीन काल में वेदों के साथ पुराण भी प्रचलित थे जो यज्ञ आदि के अवसरों पर कहे जाते थे। कई बातें जो पुराण केलक्षणों में हैं, वेदों में भी हैं। जैसे, पहले असत् था और कुछ नहीं था यह सर्ग या सृष्टितत्त्व है, देवासुर संग्राम, उर्वशी पुरूरवा सवाद इतिहास है। महाभारत के आदि पर्व में (१.२.३३) भी अनेक राजाओं के नाम और कुछ विषय गिनाकर कहा गया है कि इनके वृत्तान्त विद्वान् सत्कवियों द्वारा पुराण में कहे गए हैं। इसमें कहा जा सकता है कि महाभारत के रचनाकाल में भी पुराण थे। मनुस्मृति में भी लिखा है कि पितृकायों में वेद, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण आदि सुनाने चाहिए।

अब प्रश्न यह होता है कि पुराण हैं किसके बनाए। शिवपुराण के अंतर्गत रेवा माहात्म्य में लिखा है कि अठारहों पुराणों के वक्ता सत्यवतीसुत व्यास हैं। यही बात जन साधारण में प्रचलित है। पर मत्स्यपुराण में स्पष्ट लिखा है कि पहले पुराण एक ही था, उसी से १८ पुराण हुए (५.३.४)। ब्राह्मण पुराण में लिखा है कि वेदव्यास ने एक पुराणसहिता का संकलन किया था। इसके आगे की बात का पता विष्णु पुराण से लगता है। उसमें लिखा है कि व्यास का एक लोमहर्षण नाम का शिष्य था जो सूति जाति का था। व्यास जी ने अपनी पुराण सहिता उसी के हाथ में दी। लोमहर्षण के छह शिष्य थे—सुमति, अग्निवर्चा, मित्रयु, शाशपायन, अकृतव्रण और सावर्णी। इनमें से अकृतव्रण, सावर्णी और शाशपायन ने लोमहर्षण से पढ़ी हुई पुराणसहिता के आधार पर और एक एक सहिता बनाई। वेदव्यास ने जिस प्रकार मंत्रों का संग्रह कर उन का सहिताओं में विभाग किया उसी प्रकार पुराण के नाम से चले आते हुए वृत्तों का संग्रह कर पुराणसहिता का संकलन किया।

उसी एक संहिता को लेकर सूत के चेजों के तीन और संहिताएँ बनाईं। इन्हीं संहिताओं के आधार पर अठारह पुराण बने होंगे। मत्स्य, विष्णु, ब्रह्मांड आदि सब पुराणों में ब्रह्मपुराण पहला कहा गया है। पर जो ब्रह्मपुराण आजकल प्रचलित है वह कैसा है यह पहले कहा जा चुका है। जो कुछ हो, यह तो ऊपर लिखे प्रमाण से सिद्ध है कि अठारह पुराण वेदव्यास के बनाए नहीं हैं। जो पुराण आजकल मिलते हैं उनमें विष्णुपुराण और ब्रह्मांडपुराण की रचना औरों से प्राचीन जान पड़ती है। विष्णुपुराण में 'भविष्य राजवश' के अंतर्गत गुप्तवंश के राजाओं तक का उल्लेख है इससे वह प्रकरण ईसा की छठी शताब्दी के पहले का नहीं हो सकता। जावा के भागे जो वाली टापू है वहाँ के हिंदुओं के पास ब्रह्मांडपुराण मिला है। इन हिंदुओं के पूर्वज ईसा की पाँचवी शताब्दी में भारतवर्ष से पूर्व के द्वीपों में जाकर बसे थे। वालीवालने ब्रह्मांडपुराण में 'भविष्य राजवश प्रकरण' नहीं है उसमें जनमेजय के प्रपौत्र अधिषीमकृष्ण तक का नाम पाया जाता है। यह बात ध्यान देने की है। इससे प्रकट होता है कि पुराणों में जो भविष्य राजवश है वह पीछे से जोड़ा हुआ है। यहाँ पर ब्रह्मांडपुराण की जो प्राचीन प्रतियाँ मिलती हैं देखना चाहिए कि उनमें भूत और वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग कहाँ तक है। 'भविष्यराजवंश वर्णन' के पूर्व उनमें ये श्लोक मिलते हैं—

तस्य पुत्र शतानीको यत्नवान् सत्यविक्रमः ।
तत सुतं शतानीकं विप्रास्तमभ्यपेक्षयन् ॥
पुत्रोऽश्वमेधदत्तोऽभूत् शतानीकस्य वीर्यवान् ।
पुत्रोऽश्वमेधदत्ताद्वै जात परपुरजय ॥
अधिषीमकृष्णो धर्मात्मा साम्प्रतोय महायशा ।
यस्मिन् प्रशासति महीं युष्माभिरिदमाहृतम् ॥
दुराप दीर्घसत्रं वै त्रीणि वर्षाणि पुष्करम्
वर्षद्वयं कुरुक्षेत्रे द्यद्वयं द्विजोत्तमाः ॥

अर्थात्—उनके पुत्र बलवान् और सत्यविक्रम शतानीक हुए। पीछे शतानीक के पुत्र को ब्राह्मणों ने अभिषिक्त किया। शतानीक के अश्वमेधदत्त नाम का एक वीर्यवान् पुत्र उत्पन्न हुआ। अश्वमेधदत्त के पुत्र परपुरजय धर्मात्मा अधिषीमकृष्ण हैं। ये ही महायशा आजकल पृथ्वी का शासन करते हैं। इन्हीं के समय में आप लोगों ने पुष्कर में तीन वर्ष का और द्यद्वती के किनारे कुरुक्षेत्र में दो वर्ष तक का यज्ञ किया है।

उक्त अंश से प्रकट है कि आदि ब्रह्मांडपुराण अधिषीमकृष्ण के समय में बना। इसी प्रकार विष्णुपुराण, मत्स्यपुराण आदि की परीक्षा करने से पता चलता है कि आदि विष्णुपुराण परीक्षित के समय में और आदि मत्स्यपुराण जनमेजय के प्रपौत्र अधिषीमकृष्ण के समय में संकलित हुआ। पुराण संहिताओं से अठारह पुराण बहुत प्राचीन काल में तैयार हुए हैं। इसका पता लगता है। आपस्तंबधर्मसूत्र

(२।२४।५) में भविष्यपुराण का प्रमाण इस प्रकार उद्धृत है—आभूत संप्लवासे स्वर्गजितः । पुनः सर्वे बीबीर्षा भवतीति भविष्यपुराणे ।

यह अवश्य है कि आजकल पुराण अपने प्रादिम रूप में नहीं मिलते हैं। बहुत से पुराण तो अमल पुराणों के न मिलने पर फिर से नए रचे गए हैं, कुछ में बहुत सी बातें जोड़ दी गई हैं। प्रायः सब पुराण शैव, वैष्णव और सौर संप्रदायों में से किसी न किसी के पोषक हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। विष्णु, रुद्र, सूर्य आदि की उपासना वैदिक काल से ही चली आती थी, फिर धीरे धीरे कुछ लोग किसी एक देवता को प्रधानता देने लगे, कुछ लोग दूसरे को। इस प्रकार महाभारत के पीछे ही संप्रदायों का सुत्रपात हो चला। पुराणसंहिताएँ उसी समय में बनीं। फिर आगे चलकर आदिपुराण बने जिनका बहुत कुछ अंश आजकल पाए जानेवाले कुछ पुराणों के भीतर है।

पुराणों का उद्देश्य पुराने वृत्तों का संग्रह करना, कुछ प्राचीन और कुछ कल्पित कथाओं द्वारा उपदेश देना, देवमहिमा तथा तीर्थमहिमा के वर्णन द्वारा जनसाधारण में धर्मबुद्धि स्थिर रखना ही था। इसी से व्यास ने सूत (भाट या बथकड) जाति के एक पुरुष को अपनी सन्तति आदिपुराणसंहिता प्रचार करने के लिये दी। पुराणों में वैदिक काल से चले आते हुए सृष्टि आदि सबधी विचारों, प्राचीन राजाओं और ऋषियों के परंपरागत वृत्तान्तों तथा कहानियों आदि के संग्रह के साथ साथ कल्पित कथाओं की विचित्रता और रोचक वर्णनों द्वारा सांप्रदायिक या साधारण उपदेश भी मिलते हैं। पुराण उस प्रकार प्रमाण ग्रथ नहीं हैं जिस प्रकार श्रुति, स्मृति आदि हैं।

हिंदुओं के अनुकरण पर जैन लोगो में भी बहुत से पुराण बने हैं। इनमें से २४ पुराण तो तीर्थंकरों के नाम पर हैं, और भी बहुत से हैं जिनमें तीर्थंकरों के प्रलौकिक चरित्र, उन देवताओं से उनकी श्रेष्ठता, जैनधर्म सबधों तत्त्वों का विस्तार से वर्णन, फलस्तुति, माहात्म्य आदि हैं। अलग पक्षपुराण और हरिवंश (अरिष्टनेमि पुराण) भी हैं। इन जैन पुराणों में राम, कृष्ण आदि के चरित्र लेकर खूब विकृत किए गए हैं।

बौद्ध ग्रंथों में कही पुराणों का उल्लेख नहीं है पर तिब्बत और नेपाल के बौद्ध ६ पुराण मानते हैं जिन्हें वे नवधर्म कहते हैं—(१) प्रशापारमिता (न्याय का ग्रंथ कहना चाहिए), (२) गडध्यूह, (३) समाधिराज, (४) लकावतार (रावण का मलयगिरि पर जाना, और शाक्यसिंह के उपदेश से बोधिज्ञान लाभ करना वर्णित है), (५) तथागतगुह्यक, (६) सद्धर्मपुंडरीक, (७) सलितविस्तर (बुद्ध का चरित्र), (८) सुवर्णाप्रभा (लक्ष्मी, सरस्वती, पृथ्वी आदि की कथा और उनका शाक्यसिंह का पूजन) (९) दशभूमिर्वर ।

३ अठारह की संख्या । ४ शिव । ५ कार्पाण । एक पुराणा सिक्का ।

पुराणकल्प—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पुराकल्प' ।

पुराणग—सज्ञा पुं० [सं०] १ ब्रह्मा । २ पुराण कहनेवाला । पुराणवक्ता ।

पुराणचौर व्यजन—सज्ञा पुं० [सं० पुराणचौर व्यञ्जन] वे गुप्तचर जो पुराणे चोर ङाकुओं के वेश में रहते थे ।

विशेष—कौटिल्य ने लिखा है कि ये लोग चोरों वदमाशों के अड़कों और शत्रु के पक्षवालों की मडली आदि का पता रखते थे और समाहर्ता के अधीन काम करते थे ।

पुराणपण्य—सज्ञा पुं० [सं०] कौटिल्य के अनुसार पुराणा माल ।

पुराणपुरुष—सज्ञा पुं० [सं०] १ विष्णु । २ जरठ या वृद्ध व्यक्ति [क्रो०] ।

पुराणभाण्ड—सज्ञा पुं० [सं० पुराणभाण्ड] कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार अंगड खगड या पुराणा माल असबाब ।

पुराणांत—सज्ञा पुं० [सं० पुराणान्त] यम [क्रो०] ।

पुरातत्त्व—सज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन काल सबधी विद्या । प्रत्न शास्त्र ।

पुरातत्ववेत्ता—सज्ञा पुं० [सं० पुरातत्व+वेत्ता] पुराविद् । प्राचीन इतिहास और सस्कृति का विद्वान् । उ०—अब पुरातत्ववेत्ताओं ने तदनु रूप स्थानों की खोजें एव परिकल्पनाएँ कर ली हैं । —आ० भा०, पृ० ५ ।

पुरातन^१—वि० [सं०] १ प्राचीन । पुराणा । २ सर्वप्राचीन । सबसे पूर्व का [क्रो०] ।

पुरातन^२—सज्ञा पुं० १. विष्णु । २ प्राचीन आख्यान [क्रो०] ।

यौ०—पुरातनपुरुष = विष्णु । उ०—पुरुष पुरातन की बहू कयो न चचला होइ ।

पुरातनता—सज्ञा स्त्री० [सं० पुरातन+ता प्रत्य०] पुराणापन । पुरातन होने का भाव । उ०—पुरातनता का यह निर्भीक सहन करती न प्रकृति पल एक । —कामायनी, पृ० ५५ ।

पुरातनवाद—सज्ञा पुं० [सं० पुरातन+वाद] १. पुरातनता का सिद्धांत । पुरातनता का दृष्टिकोण । उ०—पर पुरातनवाद के तुम अध पोषक । —भूमि०, पृ० ५ । २ पुरातन के प्रति अनुराग । पुरातनता का प्रेम ।

पुरातम—वि० [सं० पुरा + तम] पुरातन । पुराणा । प्राचीन । उ०—गई गोपि हूँ भक्ति आगिली काढे प्रगट पुरातम खास । —मुदर० अ०, भा० १, पृ० १५३ ।

पुरातल—सज्ञा पुं० [सं०] तलातल ।

पुराधिप—सज्ञा पुं० [सं०] नगर का अधिकारी । नगर का शासन और रक्षा करनेवाला अधिकारी [क्रो०] ।

पुराध्यक्ष—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पुराधिप' [क्रो०] ।

पुराणा^१—वि० [सं० पुराण] दे० 'पुराणा' ।

पुराण^२—सज्ञा पुं० दे० 'पुराण' । उ०—पूरन ब्रह्म पुराण बखाने ।

चतुरानन सिव अंत न जाने । —पोद्दार अभि० अं०, पृ० २५१ ।

पुराणा^१—वि० [सं० पुराण] [वि० स्त्री० पुरानी] १ जो किसी समय के बहुत पहले से रहा हो । जो किसी विशेष समय में भी हो और उसके बहुत पूर्व तक लगातार रहा हो । जिसे उत्पन्न हुए, बने या अस्तित्व में आए बहुत काल हो गया हो । जो बहुत दिनों से चला आता हो । बहुत दिनों का । जो नया न हो । प्राचीन । पुरातन । बहुपूर्वकालव्यापी । जैसे, पुराणा पेड़, पुराणा घर, पुराणा जूता, पुराणा चावल, पुराणा ज्वर, पुराणा बैर, पुरानी रीति । २ जो बहुत दिनों का होने के कारण अच्छी दशा में न हो । जीर्ण । जैसे,—तुम्हारी टोपी अब बहुत पुरानी हो गई बदल दो । उ०—छुवतहि द्रष्ट पिनाक पुराणा ।—तुलसी (शब्द०) ।

क्रि० प्र०—पढ़ना ।—होना ।

यौ०—फटा पुराणा । पुराणा धुराणा ।

३. जिसने बहुत जमाना देखा हो । जिसका अनुभव बहुत दिनों का हो । परिपक्व । जिसका अनुभव पक्का हो गया हो । जिसमें कच्चाई न हो । जैसे,—(क) रहते रहते जब पुराणे हो जाओगे तब सब काम सहज हो जायगा । (ख) पुराणा काइयाँ, पुराणा चोर ।

मुहा०—पुराणा खुरांट = (१) बूढ़ा । (२) बहुत दिनों का अनुभवी । किसी बात में पक्का । पुरानी खोपड़ी = दे० 'पुराणा खुरांट' । पुराणा घाघ = किसी बात में पक्का । बहुत दिनों तक अनुभव करते करते जो गंहरा चालाक हो गया हो । गहरा काइयाँ । पुरानी लीक पीटना = पुराणा बुनना । नई सम्यता, नए सस्कार, विचार आदि का विरोधी होना । पुरानपथी बनना । उ०—कोई पुरानी लीक पीट है कोई कहता है नया ।—भारतेंदु अ०, भा० २, पृ० ५७१ । पुराणे मुद्दे उखेड़ना = झूली विसरी बात की याद दिलाना । गई बीती बात की चर्चा छेड़ना । अतीत की अप्रिय बातों की सुधि दिलाना । उ०—अ तुम तो पुराणे मुद्दे उखेड़ती हो ! बेकार ।—सीर कु०, पृ० २६ ।

४ जो बहुत पहले रहा हो, पर अब न हो । बहुत पहले का । अगले समय का । प्राचीन । अतीत । जैसे, (क) पुराणा समय, पुराणा जमाना । (ख) पुराणे राजाओं की बात ही और थी । (ग) पुराणे लोग जो कह गए हैं ठीक कह गए हैं । (घ) पुरानी बात उठाने से अब क्या लाभ ? ५ काल का । समय का । जैसे यह चावल कितना पुराणा है ? ६ जिसका चलन अब न हो । जैसे, पुराणा पहनावा ।

पुराणा^२—क्रि० सं० [हि० पूरना का प्रे० रूप] १ पूरा करना । पूजना । भराना । २ पालन करना । अनुकूल बात कराना । जैसे, शर्त पुराणा । उ०—मारि मारि सब शत्रु तुत निज सर्त पुरावत ।—गोपाल (शब्द०) । ३. पूरा करना । भरना । पूजाना । किसी घाव, गड्ढे या खाली जगह को किसी वस्तु से छेक देना । जैसे, घाव पुराणा । ४ पूरा करना । पालन

- करना । अनुकूल वात करना । अनुसरण करना । उ०—
सुरदास प्रभु ब्रज गोपिन के मन धमिलाख पुराए ।—सुर
(शब्द०) । ५. इस प्रकार वाँटना कि सबकी मिल जाय ।
भँटना । पूरा डालना । †६ आटे आदि से चौक बनाना ।
जेसे, चौक पुराना । उ०—गजमुकुता हीरामनि चौक पुराइय
हो ।—तुलसी ग्र०, पृ० ३ ।
सयो० क्रि०—देना ।—लेना ।
पुरानि०—वि० [हि०] पुरानी । उ०—चादर भई पुरानि दिनी
दिन बार न कीजै । सत सगत में सोद ज्ञान का साधुन दीजै ।
—पलद०, भा० १, पृ० ४ ।
पुरायठ०—वि० [हि० पुराना] अत्यधिक पुराना । पुष्ट ।
बलिष्ठ । उ०—मनहूँ पुरायठ अजगर हूँ सनमुख श्रीवक
मिलि ।—प्रेमघन०, भा० १, पृ० २२ ।
पुरायोनि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शिव [को०] ।
पुरारति, पुरारि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शिव । उ०—प्रतिधि पूज्य
प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद दवारि के ।—मानस,
१।३२ ।
पुरारी०—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुरारि] दे० 'पुरारि' । उ०—मगल
भवन अमगल हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ।—
मानस, १।१० ।
पुराल०—सञ्ज्ञा पुं० [दे०] 'पयाल' ।
पुरावती—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक नदी (महाभारत) ।
पुरावना०—क्रि० सं० [हि० पुराना] दे० 'पूरना' । उ०—बहु
विधि आरति साजि तो चौक पुरावही ।—कवीर श०, भा०
४, पृ० ३ ।
पुरावस्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भीष्म ।
पुराविद्—वि० [सं०] पुरानी बातों या पुराने इतिहास का
ज्ञाता [को०] ।
पुरावृत्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुराना वृत्त । पुराना हाल । इतिहास ।
पुरापाट्—वि० [सं०] अनेकों का जेता । बहुतों को पराभूत
करनेवाला [को०] ।
पुरासाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] इद्र ।
पुरासिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सहदेवी । सहदेइया नाम की बूटी ।
पुरासुहृद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शिव [को०] ।
पुरिद्र०—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पुरदर' । उ०—भजै प्रभु ब्रह्म
पुरिद्र महेश भजै सनकादिक नारद सेस ।—सुदर० प्र०,
भा० १, पृ० २२ ।
पुरि^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पुरी । २ शरीर । ३ नदी ।
पुरि^२—सञ्ज्ञा पुं० १ राजा । २ दशनामो सन्यासियों में एक ।
पुरिखार्—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पुरखा' ।
पुरिया^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पूरना] वह नदी जिसपर जुलाहे बाने
को बुनने के पहले फैलाते हैं ।
मुहा०—पुरिया करना = ताने को पुरिया पर फैलाना ।

- पुरिया^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पुटिया' ।
पुरिशय—वि० [सं०] शरीर में रहनेवाला [को०] ।
पुरिप०—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरुष] दे० 'पुरुष' । उ०—पुरिप उपजै
विक्रमी, समर समर सम मोय ।—प० रासो, पृ० ३४ ।
पुरिपा—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पुरगा' । उ०—(क) लक्ष्मण के
पुरिपान कियो पुरुषार्थ सो न बह्यो पाई ।—केशव
(शब्द०) । (ख) जिनके पुरिपा भुज गगहि लाए । नगरी
सुभ स्वर्ग सदेह सिधाए ।—केशव (शब्द०) ।
पुरिपातन०—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरुष + तन (प्रत्य०)] दे० 'पुरुषत'
उ०—पहर रात पाछिनी राज आए डेरा मधि । बड़िय काम
कामना भई पुरिपातन की मधि ।—पृ० रा०, १।४०७ ।
पुरिसा०—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरुष] दे० 'पुरुमा' । उ०—पहिरण
ओहन कबला साठे पुरिसे नी ।—ढोला०, दू० ६६२ ।
पुरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ नगरी । शहर । उ०—मोभा नहीं कहि
जाय कइ विधिने, रची मानो पुरीन की नासिका ।—भारतेदु
प्र०, भा० १, पृ० २४१ । २ जान्नाथपुरी । पुरुषोत्तम
धाम । ३. शरीर [को०] । ४ दुर्ग [को०] ।
पुरीतत—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुरीतत] हृदय के पास की एक विशेष
नाडी । श्रति [को०] ।
पुरीमोह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] घतूरा ।
पुरीप^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ शिष्टा । मल । गू । २ कूड़ा बचटा
(को०) । ३ जल ।
पुरीप^२—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पुरुष' उ०—नल राजा मेल्ले
गयो, पुरीप समो नही निगुण सत्तार ।—श्री० रासो,
पृ० ६४ ।
पुरीपण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. मल । गू । २ मलत्याग [को०] ।
पुरीपनिग्रहण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कोष्ठबद्धता [को०]
पुरीपम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] माष । उरद ।
पुरीपोत्सर्ग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मलत्याग [को०] ।
पुरु^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ देवलोक । स्वर्ग । २ एक दैत्य जिसे
शुक्र ने मारा था । ३. पराग । ४ एक पर्वत । ५ शरीर ।
६ बृहत्संहिता के अनुसार एक देश । ७ एक प्राचीन राजा
जो नहुष के पुत्र ययाति के पुत्र थे ।
विशेष—पुराणों में ययाति चद्रवश के मूल पुरुषों में थे । ययाति
की दो रानियाँ थीं । एक शुक्राचार्य की कन्या देवयानी,
दूसरी शर्मिष्ठा । देवयानी के गर्भ से यदु और तुर्वसु तथा
शर्मिष्ठा के गर्भ से द्रुह्यु, अनु और पुरु हुए । इन नामों का
उल्लेख ऋग्वेद में है । पुरु के बड़े भारी विजयी और पराक्रमी
होने की चर्चा भी ऋग्वेद में है । एक स्थान पर लिखा है—
'हे वैश्वानर ! जब तुम पुरु के समीप पुरियों का विश्वस
करके प्रज्वलित हुए तब तुम्हारे भय से अश्विनी (अश्विनो-
सितवर्णा—सायण, अर्थात् अश्विनी या चेनाव के किनारे
के काले अनार्य दस्यु) भोजन छोड़ छोड़कर आए' । एक

स्थान पर और भी है—'हे इद्र । तुम युद्ध में भूमिलाभ के लिये पुरुकुत्स के पुत्र असदस्यु और पुरु की रक्षा करो ।' इसका समर्थन एक और मंत्र इस प्रकार करता है—'हे इद्र । तुमने पुरु और दिवोदास राजा के लिये नव्वे पुरो का नाश किया है ।'

महाभारत और पुराणों में पुरु के सबघ में यह कथा मिलती है—शुक्राचार्य के शाप से जब ययाति जराग्रस्त हुए तब उन्होंने सब पुत्रों को बुलाकर अपना बुढापा देना चाहा । पर पुरु को छोड़ और कोई बुढापा लेकर अपनी जवानी देने पर सम्मत न हुआ । पुरु से यौवन प्राप्त कर ययाति ने बहुत दिनों तक सुखभोग किया, अंत में अपने पुत्र पुरु को राज्य दे वे वन में चले गए । पुरु के वंश में ही दुष्यंत के पुत्र भरत हुए । भरत के कई पीढियों पीछे क्रुह हुए जिनके नाम से कौरव वंश कहलाया ।

८ पञ्जाब का एक राजा जो ईसा से ३२७ वर्ष पहले सिकंदर से लड़ा था । पोरस ।

पुरु^२—क्रि० वि० १ अधिक । बहुत से । कई । २ अकसर । बारबार । पुन पुन [को०] ।

पुरुकुत्स—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक राजा जो माघाता का पुत्र और मुचुकुद का भाई था और नर्मदा नदी के आसपास के प्रदेश पर राज्य करता था ।

विशेष—हरिवंश पुराण में लिखा गया है कि नागों की भगिनी नर्मदा के साथ इसने विवाह किया था । नागों और नर्मदा के कहने से पुरुकुत्स ने रसातल में जाकर मोनेय गधवों का नाश किया था ।

ऋग्वेद में भी पुरुकुत्स का नाम आया है । उसमें लिखा है कि दस्युनगर का ध्वंस करने में इद्र ने राजा पुरुकुत्स की सहायता की थी । (१।६३।७, १।११२।१७) ।

पुरुकुत्सव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गरुडपुराण के अनुसार इद्र के एक शत्रु का नाम ।

पुरुख(पु)†—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरुष] दे० 'पुरुष' ।

पुरुखा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरुष हि०] १ दे० 'पुरुखा' । २ ईश्वर । ब्रह्म । उ०—की घों जलहि रहै तब पुरखा । पढ़ेउ वेद यह लखेउ न मुर्खा । —कबीर सा०, पृ० ४२८ ।

पुरुजित्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ कुतिभोज का पुत्र । यह अर्जुन का मामा था और महाभारत के युद्ध में आया था । २ विष्णु । ३ सागवत के अनुसार शाश्विन्दु वंशीय रुचक के पुत्र का नाम ।

पुरुदंशक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हंस ।

पुरुदशा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरुदशस्] इद्र ।

पुरुद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सोना । स्वर्ण [को०] ।

पुरुदत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] इद्र का एक नाम [को०] ।

पुरुदस्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विष्णु ।

पुरुदुह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] इद्र का एक नाम [को०] ।

पुरवा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूर्व दिशा । उ०—पछिर्वा क वार पुरुव की वारी । लिखी जो जोरी होइ न न्यारी । —जायसी प्र० (गुप्त), पृ० ३०६ ।

पुरुभोजा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरुभोजस्] मेघ । बादल ।

पुरुमित्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ एक प्राचीन राजा जिसका नाम ऋग्वेद में आया है । २ घृतराष्ट्र का एक पुत्र ।

पुरुलपट—वि० [सं० पुरुलम्पट] अत्यधिक लपट । बहुत कामी [को०] ।

पुरुष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मनुष्य । आदमी । २ नर । ३. साह्य के अनुसार प्रकृति से भिन्न भिन्न अपरिणामी, अकर्ता और असंग चेतन पदार्थ । आत्मा । इसी के सान्निध्य से प्रकृति ससार की सृष्टि करती है । दे० 'साह्य' । ४ विष्णु । ५. सूर्य । ६ जीव । ७ शिव । ८ पुत्रागका वृक्ष । ९ पारा । पारद । १० गुग्गुल । ११ घोड़े की एक स्थिति जिसमें वह अपने दोनों अगले पैरों को उठाकर पिछले पैरों के बल खड़ा होता है । जमना । सीखपाँव । १२ व्याकरण में सर्वनाम और तदनुसारिणी क्रिया के रूपों का वह भेद जिससे यह निश्चय होता है कि सर्वनाम या क्रियापद वाचक (कहनेवाले) के लिये प्रयुक्त हुआ है अथवा संबोध (जिससे कहा जाय) के लिये अथवा अन्य के लिये । जैसे 'मैं' उत्तम पुरुष हुआ, 'वह' प्रथम पुरुष और 'तुम' मध्यम पुरुष । १३ मनुष्य का शरीर या आत्मा । १४ पूर्वज । उ०—(क) सो सठ कोटिक पुरुष समेता । वसहि कलप सत नरक निकेता । —तुलसी (शब्द०) । (ख) जा कुल माहि भक्ति मम होई । सप्त पुरुष ले उधरै । —सूर (शब्द०) । १५ पति । स्वामी । १६ ज्योतिष में विषम राशियाँ [को०] । १७ ऊँचाई या गहराई की एक माप । पुरसा [को०] । १८ अश्व की पुतली । नेत्र की तारिका [को०] । १९ मेरु पर्वत [को०] ।

पुरुषक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] घोड़े का जमना । सीखपाँव । अलफ ।

पुरुषकार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुरुषार्थ । उद्योग । पौरुष ।

पुरुषकेशरी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरुषकेशरिन्] १ पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष । २. नरसिंह भगवान् ।

पुरुषकेशरी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरुषकेशरिन्] दे० 'पुरुषकेशरी' [को०] ।

पुरुषगति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार का साम ।

पुरुषग्रह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ज्योतिष के अनुसार मंगल, सूर्य और बृहस्पति ।

पुरुषघ्नी—वि० स्त्री० [सं०] पति की हत्या करनेवाली [को०] ।

पुरुषत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुरुष होने का भाव । पुस्त्व ।

पुरुषदंतिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुरुषदन्तिका] मेढा नाम की भोपधि ।

पुरुषदन्त—वि० [सं०] एक मनुष्य की ऊँचाई के बराबर । पुरुष-प्रमाण [को०] ।

पुरुद्विद्—सज्ञा पुं [सं०] वह जो पुरुष अर्थात् विष्णुद्रोही हो [को०] ।
 पुरुषद्वेपिणो—सज्ञा पुं [सं०] पति से द्वेष या घृणा करनेवाला (स्त्री०) ।
 पुरुषद्वेषो—ने० [सं० पुरुषद्वेषिन्] [वि० स्त्री० पुरुषद्वेपिणी] मनुष्य से द्वेष रखनेवाला ।
 पुरुषधौरेयक—सज्ञा पुं [सं०] वरिष्ठ व्यक्ति । श्रेष्ठ या महान् व्यक्ति [को०] ।
 पुरुषनक्षत्र—सज्ञा पुं [सं०] ज्योतिष शास्त्रानुसार हस्त, मूल, श्रवण, पुनवसु, मृगशिरा और पुष्य नक्षत्र ।
 पुरुषनाथ—सज्ञा पुं [सं०] सेनापति । २ नरनाथ । राजा ।
 पुरुषपशु—सज्ञा पुं [सं०] पशुवत् मनुष्य । नरपशु । क्रूर व्यक्ति [को०] ।
 पुरुषपुगव—सज्ञा पुं [सं० पुरुषपुङ्गव] श्रेष्ठ पुरुष । सुप्रसिद्ध व्यक्ति [को०] ।
 पुरुषपुडरीक—सज्ञा पुं [सं० पुरुषपुङ्गरीक] जैनियो ने मतानुसार नव वासुदेवो मे सप्तम वासुदेव ।
 पुरुषपुर—सज्ञा पुं [सं०] एक प्राचीन नगर जो गांधार की राजधानी था । आजकल का पेशावर ।
 पुरुषप्रेक्षा—सज्ञा स्त्री [सं०] मरदाना मेला तमाशा । वह रोल तमाशा जिसमें पुरुष ही जा सकते हो ।
 पुरुषभोग—वि० [सं०] (वह राष्ट्र या राजा) जिसके पास सेना या आदमी बहुत हो ।
 पुरुषमात्र—वि० [सं०] पुरुषप्रमाण । मनुष्य के बराबर [को०] ।
 पुरुषमानी—वि० [सं०] अपने को वीर समझनेवाला [को०] ।
 पुरुषमंध—सज्ञा पुं [सं०] एक वैदिक यज्ञ जिसमें नरबलि की जाती थी ।
 विशेष—इस यज्ञ के करने का अधिकार केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय को था । यह यज्ञ चैत्र मास की शुक्ल दशमी से प्रारंभ होता था और चालीस दिनों में होता था । इस बीच में २३ वीक्षा, १२ उपसत् और ५ सूत्या होती थी । इस प्रकार यह ४० दिनों में समाप्त होता था । यज्ञ के समाप्त हो जाने पर यज्ञकर्ता वानप्रस्थाश्रम ग्रहण करता था । इसका विधान शुक्ल यजुर्वेद के तेईसवें अध्याय तथा षतपथ ब्राह्मण में है ।
 पुरुषराव^७—सज्ञा पुं [सं० पुरुष + हिं० राव] पुरुषराज । पुरुष-श्रेष्ठ ।
 पुरुषराशि—सज्ञा स्त्री [सं०] ज्योतिष शास्त्रानुसार मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि ।
 पुरुषलिङ्ग—सज्ञा पुं [सं० पुरुष + लिङ्ग] २० 'पुर्लिङ्ग' ।
 पुरुषवर—सज्ञा पुं [सं०] विष्णु [को०] ।
 पुरुषवर्जित—वि० [सं०] सुनसान । वीरान [को०] ।
 पुरुषवार—सज्ञा पुं [सं०] ज्योतिष शास्त्रानुसार रवि, मंगल, वृहस्पति और शनिवार ।

पुरुषवाह—सज्ञा पुं [सं०] १. गरुड । ताक्ष्य । २. यक्षराज । कुवेर [को०] ।
 पुरुषव्रत—सज्ञा पुं [सं०] एक प्रकार का साम ।
 पुरुषशीर्षक—सज्ञा पुं [सं०] एक प्रकार का मनुष्य या बनावटी सिर जिसको सेंध लगानेवाले सेंध में प्रविष्ट कराते थे [को०] ।
 पुरुषसधि—सज्ञा स्त्री [सं० पुरुषसन्धि] वह सधि जो मनु कुक्ष योग्य पुरुषों को अपनी सेवा के लिये लेकर बरे ।
 विशेष—कोटिल्य ने लिखा है कि यदि ऐसी अवस्था पा पड़े तो राजा मनु को इस प्रकार के लोग दे—राजद्रोही, जगर्नी, अपने यहाँ के अपमानित रामत आदि । इससे राजा का इनसे पीछा भी छूट जायगा और ये मनु के यहाँ जाकर मौका पाकर उसकी हानि भी करेंगे ।
 पुरुषसिध—सज्ञा पुं [सं० पुरुषसिंह] २० 'पुरुषसिंह' । उ०—अथ नृपति दसरथ के जाए । पुरुषसिध बन खेलन आए ।—मानस, ३।१६ ।
 पुरुषसिंह—सज्ञा पुं [सं०] श्रेष्ठ पुरुष । मनुष्यों में सिंह की भाँति वीर व्यक्ति [को०] ।
 पुरुषसूक्त—सज्ञा पुं [सं०] ऋग्वेद के दशम मण्डल के एक सूक्त का नाम जो 'सहस्रशीर्षा' से आरंभ होता है । यह सूक्त बहुत प्रसिद्ध है और इसका पाठ अनेक अवसरों पर किया जाता है ।
 पुरुषाग—सज्ञा पुं [सं० पुरुषाङ्ग] पुरुष की जननेन्द्रिय । लिङ्ग [को०] ।
 पुरुषातर—सज्ञा पुं [सं० पुरुषान्तर] अन्य व्यक्ति । दूसरा व्यक्ति ।
 पुरुषातरसधि—सज्ञा स्त्री [सं० पुरुषान्तरसन्धि] इस शर्त पर की हुई सधि कि आपका सेनापति मेरा अमुक काम करे और मेरा सेनापति आपका अमुक काम कर देगा ।
 पुरुषाद्—सज्ञा पुं [सं०] १ (मनुष्य सानेवाला) राक्षस । २ वृहस्पति के अनुसार एक देश का नाम जो आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य के अधिकार में है ।
 पुरुषादक—सज्ञा पुं [सं०] १ नरभक्षी राक्षस । २ कल्पापवाद का नाम ।
 पुरुषाय—सज्ञा पुं [सं०] १ जिनो में प्रथम, आदिनाथ (जैन) । २ विष्णु । ३. राक्षस ।
 पुरुषाधम—सज्ञा पुं [सं०] अधम व्यक्ति । नीच पुरुष ।
 पुरुषापाश्रया—सज्ञा स्त्री [सं०] धनी भावादीवाली भूमि । वि० दे० 'दुर्गापाश्रया भूमि' ।
 पुरुषायण—सज्ञा पुं [सं०] १ प्राणादि षोडश कला (प्रश्नोप-निषद्) । २ दे० 'पुरुषार्थ' ।
 पुरुषायित—सज्ञा वि० [सं०] पुरुष के सदृश आचरण या व्यवहार ।
 पुरुषायितवध—सज्ञा पुं [सं० पुरुषायितवन्ध] कामशास्त्र के अनुसार एक प्रकार का वध या स्त्रीभोग का एक प्रकार जिसमें पुरुष नीचे चित्त सेटता है और स्त्री उसके ऊपर

लेटकर संभोग करती है। इसके कई भेद कहे गए हैं। साहित्य में इसी को 'विपरीत रति' कहा गया है।

पुरुषायुष—सच्चा पुं० [सं०] सौ वर्ष का काल (जो मनुष्य की पूर्णायु का काल माना गया है)।

पुरुषार्थ—सच्चा पुं० [सं० पुरुषार्थ] दे० 'पुरुषार्थ'।

पुरुषार्थ—सच्चा पुं० [सं०] १ पुरुष का अर्थ या प्रयोजन जिसके लिये उसे प्रयत्न करना चाहिए। पुरुष के उद्योग का विषय। पुरुष का लक्ष्य।

विशेष—सांख्य के मत से त्रिविध दुःख की अत्यंत निवृत्ति (मोक्ष) ही परम पुरुषार्थ है। प्रकृति पुरुषार्थ के लिये अर्थात् पुरुष को दुःखों से निवृत्त करने के लिये निरंतर यत्न करती है, पर पुरुष प्रकृति के धर्म को अपना धर्म समझ अपने स्वरूप को भूल जाता है। जबतक पुरुष को स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता तबतक प्रकृति साथ नहीं छोड़ती।

पुराणों के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ हैं। चार्वाक मतानुसार कामिनी-संग-जनित सुख ही पुरुषार्थ है।

२ पुरुषकार। पौरुष। उद्यम। पराक्रम। ३ पुस्त्व। शक्ति। सामर्थ्य। बल।

पुरुषार्थी—वि० [सं० पुरुषार्थिन्] १ पुरुषार्थ करनेवाला। २ उद्योगी। ३ परिश्रमी। ४ बली। सामर्थ्यवान्।

पुरुषाशी—सच्चा पुं० [सं० पुरुषाशिन्] [स्त्री० पुरुषाशिनी] (मनुष्य खानेवाला) राक्षस।

पुरुषास्थि—सच्चा पुं० [सं०] मनुष्य की हड्डी।

पुरुषास्थिमाली—सच्चा पुं० [सं० पुरुषास्थिमालिन्] शिव [को०]।

पुरुषी—सच्चा स्त्री० [सं०] नारी। स्त्री [को०]।

पुरुषेन्द्र—सच्चा पुं० [सं० पुरुषेन्द्र] १ राजा। २ श्रेष्ठ पुरुष।

पुरुषोत्तम—सच्चा पुं० [सं०] १ पुरुषश्रेष्ठ। श्रेष्ठ पुरुष। २. विष्णु। ३ जगन्नाथ जिनका मंदिर उड़ीसा में है। ४ धर्मशास्त्रानुसार वह निष्पाप पुरुष जो शत्रु मित्र आदि से सर्वदा उदासीन रहे। ५ जैनियों के एक वासुदेव का नाम। ६ कृष्णचंद्र। ७ ईश्वर। नारायण। ८. अच्छा व्यक्ति या सहयोगी (को०)। ९ मलमास का महीना। षष्ठिक मास।

पुरुषोत्तम क्षेत्र—सच्चा पुं० [सं०] जगन्नाथपुरी।

पुरुषोत्तम मास—सच्चा पुं० [सं०] मलमास। अषिक मास।

पुरुषोपस्थान—सच्चा पुं० [सं०] अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिये देना। एवज देना।

पुरुहूत—सच्चा पुं० [सं०] इद्र।

यौ०—पुरुहूतद्विप = इद्रजीत।

पुरुहूत—वि० जिसका आवाहन बहूतों ने किया हो।

पुरुहूति—सच्चा स्त्री० [सं०] दाक्षायणी।

पुरुहूति—सच्चा पुं० [सं०] विष्णु।

पुरुवा—सच्चा पुं० [सं०] १ एक प्राचीन राजा जिसका नाम और कुछ वृत्तांत ऋग्वेद में है।

विशेष—ऋग्वेद को पुरुवा को इला का पुत्र कहा है। पुरुवा और उर्वशी का सवाद भी ऋग्वेद में मिलता है। पर एक मंत्र में पुरुवा सूर्य और ऊषा के साथ स्थित भी कहा गया है जिससे कुछ लोग सारी कथा को एक रूपक भी कह दिया करते हैं।

हरिवंश तथा पुराणों के अनुसार बृहस्पति की स्त्री तारा और चंद्रमा के संयोग से बुध उत्पन्न हुए जो चंद्रवंश के आदि पुरुष थे। बुध का इला के साथ विवाह हुआ। इसी इला के गर्भ से पुरुवा उत्पन्न हुए जो बड़े रूपवान्, बुद्धिमान् और पराक्रमी थे। उर्वशी शापग्रस्त भूलोक में आ पड़ी थी। पुरुवा ने उसके रूप पर मोहित हो उसके साथ विवाह के लिये कहा। उर्वशी ने कहा—'मैं अप्सरा हूँ। जबतक आप मेरी तीन बातों का पालन करेंगे तभी तक मैं आपके पास रहूँगी—(१) मैं आपको कभी नगा न देखूँ, (२) अकामा रहूँ तो आप संयोग न करें और (३) मेरे पलंग के पास दो मेढे बंधे रहें।' राजा ने इन बातों को मानकर विवाह किया और वे बहुत दिनों तक सुखपूर्वक रहे। एक दिन गधर्व उर्वशी के शापमोचन के लिये दोनों मेढे छोड़कर ले चले। राजा ने उनकी ओर दौड़े। उर्वशी का शाप छूट गया और वह स्वर्ग को चली गई। पुरुवा बहुत दिनों तक विलाप करते घूमते रहे। एक बार कुक्षेत्र के अतर्गत प्लक्ष तीर्थ में हेमवती पुष्करिणी के किनारे उन्हें उर्वशी फिर दिखाई पड़ी। राजा उसे देखकर बहुत विलाप करने लगे। उर्वशी ने कहा—'मुझे आपसे गर्भ है, मैं शीघ्र आपके पुत्रों को लेकर आपके पास आऊँगी और एक रात रहूँगी। स्वर्ग में उर्वशी के गर्भ से आयु, अमावस्य, विश्वायु, श्रुतायु, षडायु, वनायु, और शतायु उत्पन्न हुए जिन्हें लेकर वह राज के पास आई और एक रात रही। गधर्वों ने पुरुवा को एक अग्निपूर्ण स्थाली दी। उस अग्नि से राजा ने बहुत यज्ञ किए। पुरुवा की राजधानी प्रयाग में गंगा के किनारे थी। उसका नाम प्रतिष्ठानपुर था।

२. विश्वदेव। ३ पार्वण आद्य में एक देवता।

पुरैना—सच्चा स्त्री० [सं० पुरैकिनी, हि० पुरैन] दे० 'पुरैन' उ०—जबो पुरैन पर फुल्ल पद्मिनी तर चली, चले महा दिए हस सम युग बली।—साकेत, पृ० १३४।

पुरैथा—सच्चा पुं० [हि० पूरा + हाथ] हल की मूठ। परिहया।

पुरैभा—सच्चा स्त्री० [सं० करभ, हि० कुरैभा] एक प्रकार की गाय दे० 'कुरैभा'।

पुरैन—सच्चा स्त्री० [सं० पुरैकिनी] दे० 'पुरैन'।

पुरैनि—सच्चा स्त्री० [हि०] दे० 'पुरैन'।

पुरोगता—वि०, सच्चा पुं० [सं० पुरोगन्त्] २० पुरोगामी [को०]।

पुरोग—सच्चा पुं० [सं०] कौटिल्य के अनुसार वह (राष्ट्र या राजा जो बिना किसी प्रकार की बाधा या शत के अपने पक्ष आकर मिले।

पुरोगति—सच्चा पुं० [सं०] श्वान [को०]।

पुरोगामिता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] अग्रगामी होने का भाव । आगे बढ़ने का भाव । उ०—इस प्रकार हम पुरोगामिता और न्याय को पूर्णनया स्वीकार करते हैं ।—आ० अ० रा०, पृ० २२ ।

पुरोगामी^१—वि० [म० पुरोगामिन्] [वि० स्त्री० पुरोगामिनी] अग्रगामी ।

पुरोगामी—सञ्ज्ञा पुं० १ प्रधान । २ अग्रगामी व्यक्ति । २ प्रधान व्यक्ति । नायक [को०] ।

पुरोचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दुर्योधन के एक मित्र का नाम ।

विशेष—इसे दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने के लिये नियुक्त किया था । भीमसेन लाक्षागृह से निकल पुरोचन के घर आग लगाकर माता और भाइयों समेत चले गए थे । वह आगे घर में जलकर मर गया ।

पुरोजन्मा^१—वि० [म० पुरोजन्मन्] पहले जनमनेवाला । जिसने पहले जन्म लिया हो [को०] ।

पुरोजन्मा^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बड़ा भाई । ज्येष्ठ भ्राता [को०] ।

पुरोजव^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुष्कर द्वीप के सात खडों में से एक खड ।

पुरोजव^२—वि० १ जिसके अग्रभाग में वेग हो । २. आगे बढ़नेवाला ।

पुरोटि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ नदी की धारा या प्रवाह । २ पत्र-मर्मर । पत्रशब्द । पत्तियों की खरखराहट [को०] ।

पुरोडाश, **पुरोडाश**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ यव आदि के आटे की बनी हुई टिकिया जो कपाल में पकाई जाती थी ।

विशेष—यह आकार में लवाई लिए गोल धोर बीच में कुछ मोटी होती थी । यज्ञों में इसमें से टुकड़ा काटकर देवताओं के लिये मंत्र पढ़कर आति दी जाती थी । यह यज्ञ का अंग है । २ हवि । २ वह हवि या पुरोडाश जो यज्ञ से बच रहे । ४ वह वस्तु जो यज्ञ में होम की जाय । यज्ञभाग । ५ सोमरस । ६ आटे की चोंसी (चमसी ?) । ७ वे मंत्र जिनका पाठ पुरोडाश बनाते समय किया जाता है ।

पुरोत्सव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूरे नगर में मनाया जानेवाला उत्सव [को०] ।

पुरोद्भवा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] महाभेदा ।

पुरोद्यान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नगर के अंदर का उपवन [को०] ।

पुरोध—सञ्ज्ञा पुं० [म०] पुरोहित ।

पुरोधा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरोधस्] पुरोहित ।

पुरोधानीय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुरोहित ।

पुरोधिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रियतमा भार्या । प्यारी स्त्री ।

पुरोनुवाक्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ यज्ञों की तीन प्रकार की आहुतियों में एक । २ वह ऋचा जिसे पढ़कर पुरोनुवाक्या नाम की आहुति दी जाती है ।

पुरोभागी—वि० [सं० पुरोभागिन्] [वि० स्त्री० पुरोभागिनी]

१ अग्रभागवाला । २ दोपदर्शी । गुणों को छोड़ केवल दोषों की ओर ध्यान देनेवाला । छिद्रान्वेपी ।

पुरोमारुत—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] पुरोवात । पुरुवा हवा [को०] ।

पुरोरवस—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पुरुरवा' ।

पुरोवात—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूर्व दिशा से चलनेवाली हवा । पुरुवा[को०] ।

पुरोवाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पहले का कथन । पूर्वकथन [को०] ।

पुरोहित—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० पुरोहितानी] वह प्रधान याजक जो राजा या और किसी यजमान के यहाँ मगुआ बनकर यज्ञादि श्रौतकर्म, गृहकर्म और सस्कार तथा शांति आदि अनुष्ठान करे कराए । कर्मकांड करनेवाला । कृत्य करनेवाला ब्राह्मण ।

विशेष—वैदिक काल में पुरोहित का बड़ा अधिकार था और वह मंत्रियों में गिना जाता था । पहले पुरोहित यज्ञादि के लिये नियुक्त किए जाते थे । आजकल वे कर्मकांड करने के अतिरिक्त, यजमान की ओर से देवपूजन आदि भी करते हैं, यद्यपि स्मृतियों में किसी की ओर से देवपूजन करनेवासे ब्राह्मण का स्थान बहुत नीचा कहा गया है । पुरोहित का पद कुलपरंपरागत चलता है । अतः विशेष कुलों के पुरोहित भी नियत रहते हैं । उस कुल में जो होगा वह अपना भाग लेगा, चाहे कृत्य कोई दूसरा ब्राह्मण ही क्यों न कराए । उच्च ब्राह्मणों में पुरोहित कुल प्रलग होते हैं जो यजमानों के यहाँ दान आदि लिया करते हैं ।

पुरोहिताई—सञ्ज्ञा स्त्री० [म० पुरोहित + आई (प्रत्य०)] पुरोहित का काम ।

पुरोहितानी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुरोहित + हिं आनी (प्रत्य०)] पुरोहित की स्त्री ।

पुरोहितिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पुरोहितानी [को०] ।

पुरोहितिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पुरोहित + इन (प्रत्य०)] पुरोहित की स्त्री । पुरोहितानी ।

पुरोहिती—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुरोहित + ई (प्रत्य०)] दे० 'पुरोहिताई' । उ०—फँसा आसुरी माया में, हिंसा जगी अथवा अपने पुरोहिती के मान की ।—करुणा०, पृ० २७ ।

पुरौ—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] पुरवट । पुर ।

पुरौका—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरोकस्] नगर में रहनेवाला व्यक्ति ।

पुरौती—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पूरना या सं० पूति] पूति करना ।

पुरौती—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पूरना] १ समाप्त करना । पूर्ण करना २ समाप्ति । पूति ।

पुर्ख—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरुष] दे० 'पुरुष' । उ०—पुर्ख अडोल वो सत्त सामर्थ सही, क्रुह्न के कीन्ह सभ जक्त जानी ।—स० दरिया, पृ० ७७ ।

पुर्जल—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पूरना] एक यंत्र जिसपर कलाबत्तू लपेटा जाता है ।

पुर्जा—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पुर्जह] दे० 'पूरजा' ।

पुर्तगाल—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] योरप के दक्षिण पश्चिम कोने पर पडनेवाला एक छोटा प्रदेश जो स्पेन से लगा हुआ है ।

पुर्तगाली^१—वि० [हिं० पुर्तगाल + ई (प्रत्य०)] १ पुर्तगाल सबधी । २. पुर्तगाल का रहनेवाला ।

विशेष—योरप की नई जातियों में हिंदुस्तान में सबसे पहले पुर्तगाली लोग ही आए। पुर्तगाली व्यापारियों के द्वारा अकबर के समय से ही युरोपीय शब्द यहाँ की भाषा में मिलने लगे। जैसे, गिरजा, पादरी, आलू, तवाकू आदि का प्रचार तभी से होने लगा।

पुर्तगाली^२—सज्ञा स्त्री० पुर्तगाल की भाषा।

पुर्तगीज—वि० [अ०] पुर्तगाली। पुर्तगाल का रहनेवाला।

पुर्वेजा[†]—वि० [हि०] दे० 'पुरवला'।

पुर्वे[Ⓜ]—सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पुरुष'। उ०—अवल्ला इकल्ली। वियौ पूर्ष भिल्ली।—पृ० रा०, १।५६।

पुर्साहाल—वि० [फा० पुर्सा + अ० हाल] हाल पूछनेवाला। समाचार लेनेवाला। उ०—अभी पारसाल तक उसका कोई पुर्साहाल नहीं था।—शराबी, पृ० ६।

पुर्सा—सज्ञा पुं० [सं० पुरुष] दे० 'पुरसा'।

पुर्लंधर^{Ⓜ†}—सज्ञा पुं० [सं० पुरन्दर] दे० 'पुरदर'।

पुल^१—सज्ञा पुं० [फा०] किसी नदी, जलाशय, गड्ढे या खाई के धार पार जाने का रास्ता जो नाव पाटकर या खगो पर पटरियाँ आदि बिछाकर बनाया जाय। सेतु।

मुहा०—पुल बाँधना = पुल तैयार होना। पुल बाँधना = पुल तैयार करना। (किसी बात) का पुल बाँधना = ढेर लगना। झडी बाँधना। बहुत अधिकता होना। लगातार बहुत सा होना। (किसी बात का) पुल बाँधना = ढेर लगाना। झडी बाँधना। बहुत अधिकता कर देना। अतिशय करना। जैसे, बातों का पुल बाँधना, तारीफ का पुल बाँधना। पुल टूटना = (१) पुल गिर पडना। (२) बहुतायत होना। अधिकता होना। अटाला या जमघट लगना। जैसे,—देखने के लिये आदमियों का पुल टूट पडा।

पुल^२—सज्ञा पुं० [सं०] १ पुलक। रोमाच। २ शिव का एक अनुचर।

पुल^३—वि० विपुल। बहुत सा।

पुल^४—सज्ञा पुं० [तु०] पैसा। पण [को०]।

पुलक—सज्ञा पुं० [म०] १ रोमाच। प्रेम, हर्ष आदि के उद्वेग से रोमकूपो (छिद्रो) का प्रफुल्ल होना। त्वक्कप। २. एक तुच्छ धान्य। एक प्रकार का मोटा अन्न। ३ एक प्रकार का रत्न। एक नग या बहुभूल्य पत्थर। याकृत। चुनरी। महताब।

विशेष—यह भारत में कई स्थानों पर होता है पर राजपूताने का सबसे अच्छा होता है। दक्षिण में यह पत्थर विशाखपटम, गोदावरी, त्रिचिनापली और तिनावली जिलों में निकलता है। यह अनेक रंगों का होता है—सफेद, हरा, पीला, लाल, काला, चितकवरा। जितने भेद इस पत्थर के होते हैं उतने और किसी पत्थर के नहीं होते। यह देखने में कुछ दानेदार होता है। इसके द्वारा मानिक और नीलम कट सकते हैं।

४ शरीर में पडनेवाला एक कीडा। ५ रत्नों का एक दोष। ६ हाथी का गतिव। ७. हस्ताल। ८. एक प्रकार का मद्यपात्र। ९ एक प्रकार की गई। १० एक गधर्व का नाम। ११ एक प्रकार का गेरू। गिरिमारी। १२. एक प्रकार का कद।

पुलकना[Ⓜ]—क्रि० अ० [म० पुलक + ना (प्रत्य०)] पुलकित होना। प्रेम, हर्ष आदि के कारण प्रफुल्ल होना। गद्गद होना।

पुलकस्पद—सज्ञा पुं० [सं० पुलक + स्पन्द] पुलकजनित स्पदन। पुलकित होने की स्थिति। उ०—जग के दूषित बीज नष्ट कर, पुलकस्पद भर लिखा स्पष्टतर।—अपरा, पृ० ५६।

पुलकांग—सज्ञा पुं० [सं० पुलकाङ्ग] वरुण का पाश [को०]।

पुलकाई[Ⓜ]—सज्ञा स्त्री० [हि० पुलक + आई (प्रत्य०)] पुलकित होने का भाव। गद्गद होना।

पुलकाना—क्रि० सं० [सं० पुलक + हि० आना (प्रत्य०)] पुलकित करना। प्रफुल्लित करना। उ०—कुसुमों ने हँसना सिसलाया मृदु लहरो ने पुलकाया।—वीणा, पृ० १२।

पुलकालय—सज्ञा पुं० [सं०] कुवेर का एक नाम।

पुलकालि—सज्ञा स्त्री० [सं०] पुलकावलि। हर्ष से प्रफुल्ल रोमराजि। उ०—बीज राम गुनगन नयन जल मकुर पुलकालि। सुकृती सुतन सुपेनवर विलसत तुलसी सालि।—तुलसी (शब्द०)।

पुलकावलि—सज्ञा स्त्री० [सं०] हर्ष से प्रफुल्ल रोम। रोमहर्ष।

पुलकित—वि० [सं०] रोमाचित। प्रेम या हर्ष के वेग से जिसके रोएँ उभर आए हो। गद्गद।

पुलको^१—[वि० सं० पुलकिन्] [वि० स्त्री० पुलकिनी] रोमाचमुक्त। हर्ष या प्रेम से गद्गद होनेवाला।

पुलको^२—सज्ञा पुं० [म० पुलकिन्] १. धारा कदव। २. कदव।

पुलकोत्कम्प—सज्ञा पुं० [सं० पुलकोत्कम्प] हर्षादि से रोमांचित हो काँपना [को०]।

पुलकोद्गम, पुलकोद्भेद—सज्ञा पुं० [सं०] पुलक होना। रोमांच या रोमहर्ष होना [को०]।

पुलगा[†]—सज्ञा पुं० [सं० प्लवग ?] अश्व। घोडा। उ०—पुलग साज तिणनिजळ गुजराय।—रघु०, पृ० २४१।

पुलटा[†]—सज्ञा स्त्री० [हि० पलटना] दे० 'पलट'।

पुलटिस—सज्ञा स्त्री० [अ पोडिटस] फोडे, घाव आदि को पकाने या बहाने के लिये उसपर चढाया हुआ अलसी, रेंडी आदि का मोटा लेप।

क्रि० प्र०—चढ़ाना।—बाँधना।

पुलना—क्रि० अ० [सं० √पुन्] १ चलना। उ०—(क) जेती जर मन माँहि, पजर जइ तेती पुलइ।—ढोला०, पृ० १७१।

(ख) नाम निगुंण की गम्म कैसे लहे ताप तिगुंण के वंप पुलिया।—राम० घमं, पृ० १३६। २. काँपना। कपित होना। उ०—छननकि वान वजि गोम धक। कायर पुलत सूरानिसक।—पृ० रा०, १।६५८।

पुलपुला[†]—वि० [तु०] दे० 'पुलपुला'।

पुलपुला—वि० [अनु०] जिसके भीतर का भाग ठोस न हो । जो भीतर इतना ढीला और मुलायम हो कि दवाने से घँस जाय । जो छूने में कड़ा न हो (विशेषतः फलों के लिये) । जैसे,—ये आम पककर पुलपुले हो गए हैं ।

पुलपुलाना—क्रि० म० [हि० पुलपुला] १ किसी मुलायम चीज को दवाना । जैसे, आम पुलपुलाना । २. मुँह में लेकर दवाना । चूसना । विना चबाए खाना । जैसे, आम को मुँह में लेकर पुलपुलाना ।

पुलपुलाहट—सज्ञा स्त्री० [हि० पुलपुला + हट (प्रत्य०)] पुलपुला होने का भाव । मुलायमियत ।

पुलसरात—पुं० [फा० पुल + सरात] मुसलमानों के अनुसार (हिंदुओं की वैतरणी वी भाँति) एक नदी का पुल जिसे मरने के उपरांत जीवों को पार करना पड़ता है । कहते हैं कि पापियों के लिये यह पुल बाल के समान पतला और पुण्यात्माओं के लिये खासी सड़क के समान चौड़ा हो जाता है । उ०—नासिक पुलसरात पथ चला । तेहि कर भौं हैं हैं दुइ पला । —जायसी (शब्द०)

पुलस्त—सज्ञा पुं० [म० पुलस्त्य] दे० 'पुलस्त्य' ।

पुलस्ति—सज्ञा पुं० [सं०] पुलस्त्य मुनि । उ०—सो पुलस्ति मुनि जाइ छोडावा ।—मानस, ६।२४ ।

पुलस्त्य—सज्ञा पुं० [सं०] १ एक ऋषि जिनकी गिनती सप्तपियों और प्रजापतियों में है ।

विशेष—ये ब्रह्मा के मानसपुत्रों में थे । ये विश्रवा के पिता और कुबेर और रावण के पितामह थे । विष्णुपुराण के अनुसार ब्रह्मा के कहे हुए आदिपुराण का मनुष्यों के बीच इन्होंने प्रचार किया था ।

२ शिव का एक नाम ।

पुलह—सज्ञा पुं० [सं०] १ एक ऋषि जो ब्रह्मा के मानसपुत्रों और प्रजापतियों में से हैं । ये सप्तपियों में हैं । २. एक गधर्व । ३. शिव का एक नाम ।

पुलहना—क्रि० प्र० [सं० पल्लवन] दे० 'पलुहना' । उ०—तोहि देखे, पिउ । पुलहै कया । उमरा चिरा, बहुरि कर मया । —जायसी (शब्द०) ।

पुलांग—सज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का वृक्ष जिसके पत्ते फरेंदे के पत्तों की तरह और फल गोल होते हैं जिनमें से गिरी निकलती है । इससे तेल निकलता है । यह वृक्ष उड़ीसा में होता है ।

पुला—सज्ञा स्त्री० [म०] उपजिह्विका [को०] ।

पुलाक—सज्ञा पुं० [सं०] १ एक कदन्न । अँकरा । २ उबाला हुआ चावल । भात । ३ भात का माड । पीच । ४ मासोदन । पुलाव । ५ अल्पता । सञ्ज । ६. क्षिप्रता । जल्दी ।

पुलाक्षी—सज्ञा पुं० [म० पुलाकिन्] वृक्ष ।

पुलायित—सज्ञा पुं० [सं०] घोड़े की एक चाल [को०] ।

पुलाव—सज्ञा पुं० [म० पुलाक, मि० फ़ा० पलाव] एक व्यजन या

खाना जो मांस और चावल को एक साथ पकाने से बनता है । मासोदन ।

पुलिग—सज्ञा पुं० [म० पुल्लिङ्ग] दे० 'पुलिग' । उ०—श्रीरे रूप पुलिग सो जानहुँ सर निरघार ।—पोद्दार अभि० ग्रं०, पृ० ५३० ।

पुलिद—सज्ञा पुं० [सं०] १ भारतवर्ष की एक प्राचीन असम्भ जाति ।

विशेष—ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि विष्वामित्र के जिन पुत्रों ने शुन शेष को ज्येष्ठ नहीं माना था वे ऋषि के शाप से पतित हो गए । उन्हीं में पुलिद, शवर आदि वर्णर जातियों की उत्पत्ति हुई । रामायण, महाभारत, पुराण, काव्य सबमें इस जाति का उल्लेख है । महाभारत सभापर्व में सहदेव के दिग्विजय के सवध में लिखा है कि उन्होंने अर्बुक राजाओं को जीतकर वाताधिप को वश में किया और उसके पीछे पुलिदों को जीतकर वे दक्षिण की ओर बढ़े । कुछ लोगों के अनुमान के अनुसार यदि अर्बुक को आवू पहाड़ और वात को वाताधिपुगी (वादाभी) मानें तो गुजरात और राजपुताने के बीच पुलिद जाति का स्थान ठहरता है । महाभारत (भीष्मपर्व) में एक स्थान पर 'सिधुपुलिदका' भी है इससे उनका स्थान सिंधु देश के आसपास भी सूचित होता है । वामनपुराण में पुलिदों की उत्पत्ति की एक कथा है कि अरुणहत्या के प्रायश्चित्त के लिये इंद्र ने कालजर के पास तपस्या की थी और उनके साथ उनके सहचर भी भूलोक में आए थे । उन्हीं सहचरों की उत्पत्ति में पुलिद हुए जो कालजर और हिमाद्रि के बीच बसते थे । अणोक के शहवाजगढ़ी के लेख में भी पुलिद जाति का नाम आया है ।

२ वह देश जहाँ पुलिद जाति बसती थी । ३ जहाज का मस्तूल (को०) ।

पुलिदा^१—सज्ञा पुं० [म० पुल (= डेर), हि० पूला] लपेटे हुए कपड़े, कागज आदि का छोटा मुट्ठा । गड्डी । पूला । गड्ढा । बडल । जैसे, कागज का पुलिदा ।

पुलिदा^२—सज्ञा स्त्री० [?] एक छोटी नदी जो ताप्ती में मिलती है । महाभारत में इसका उल्लेख है ।

पुलिकेशि—सज्ञा पुं० [सं०] १ चालुक्यवंशीय एक राजा जिन्होंने ईसा की छठी शताब्दी में पल्लवों की राजधानी वातापिपुरी (वादाभी) को जीतकर दक्षिण में चालुक्य राज्य स्थापित किया था । २ चालुक्यवंशीय एक सबसे प्रतापी राजा जो सन् ६१० के लगभग वातापिपुरी के सिंहासन पर बैठा और जिसने मारा दक्षिण और महाराष्ट्र प्रदेश अपने अधिकार में किया ।

विशेष—यह द्वितीय पुलिकेशि के नाम से प्रसिद्ध है । परम प्रतापी हर्षवर्धन, जिसकी राजसभा में वाणभट्ट थे और जिसके समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन्सांग भारतवर्ष आया था, इसका समकालीन था । हर्षवर्धन सारे उत्तरीय भारत को अपने अधिकार में लाया पर जब दक्षिण की ओर

उसने चढ़ाई की तब पुलिकेशि के हाथ से गहरी हार खाकर भाग आया ।

पुलिन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह सीड या कीचड़ की जमीन जिस-पर से पानी हटे थोड़े ही दिन हुए हो । पानी के भीतर से हाल की निकली हुई जमीन । चर । २ नदी आदि का तट । तीर । किनारा । उ०—आवत घोर समीर तें, चल्या पुलिन को जात ।—घनानन्द, पृ० १७८ । ३ नदी के बीच पड़ी हुई रेत । ४ एक यक्ष का नाम ।

पुलिनवती—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] नदी [को०] ।

पुलियाँ—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पुल] छोटा पुल ।

पुलिरिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सपं । साप ।

पुलिश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ज्योतिष के एक प्राचीन आचार्य जिनके नाम से पौलिश सिद्धांत प्रसिद्ध है जो बराहमिहिरोक्त पंच सिद्धांतों में है ।

विशेष—अलबरूनी ने पुलिष या पलस को यूनानी (यवन) लिखा है । कुछ इतिहासज्ञों ने पुलिष को भिन्न देश का बताया है । आजकल मूल पौलिश सिद्धांत नहीं मिलता । भटोटपल और बलभद्र ने थोड़े से वचन उद्धृत किए हैं । उन उद्धृत वचनों से निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि पुलिष कोई विदेशी ही था ।

पुलिस—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ०] १, नगर, ग्राम आदि की शांतिरक्षा के लिये नियुक्त सिपाहियों और कर्मचारियों का वर्ग । प्रजा की जान और माल की हिफाजत के लिये मुकर्रर सिपाहियों और अफसरों का दल । २ अपराधों को रोकने और अपराधियों का पता लगाकर उन्हें पकड़ने के लिये नियुक्त सिपाही या अफसर । पुलिस का सिपाही या अफसर ।

यौ०—पुलिस काररवाई, पुलिस राज = शातक । दबदबा ।

पुलिसमैन—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] पुलिस का प्यादा । पुलिस का सिपाही । कांस्टेबल ।

पुलिहोराँ—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक पकवान । उ०—विविध पंच पकवान अपारे । सक्कर पुगल और पुलिहोरा ।—रघुराज (शब्द०) ।

पुली—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] काले और भूरे रंग की एक चिड़िया जो सारे उत्तर भारत में पंजाब से लेकर बंगाल तक होती है ।

पुलोसाँ—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ० पुलिस] दे० 'पुलिस' । उ०—पुलीस और अदालत के अमलो ने लूट मारा ।—प्रेमघन०, भा० २, पृ० १६१ ।

पुलेषैठ—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पील (हाथी =) + हि० वैठना, या हि० पुसना (= चलना) + बँठना] पीछे के दोनों पैर झुका दे । पीलवानों की एक बोली जिसको सुनकर हाथी पीछे के दोनों पैर झुका देता है । हाथीवानों की बोली ।

पुलोम—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुलोम] १. एक दैत्य जिसकी कन्या षची थी । इन्द्र ने युद्ध में पुलोम को मारकर उसकी कन्या षची

से व्याह किया था । २ एक राक्षस । ३ आश्र वंश का एक राजा ।

यौ०—पुलोमजित्, पुलोमद्विद्, पुलोमभिद् = इन्द्र । पुलोमपुत्री = दे० 'पुलोमजा' ।

पुलोमजा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पुलोम की कन्या इन्द्राणी । षची ।

पुलोमपुत्री—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पुलोम असुर की कन्या । इन्द्रपत्नी षची [को०] ।

पुलोमही—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] अहिफेन । अफीम ।

पुलोमा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] भृगु की पत्नी का नाम जो वैश्वानर नामक दैत्य की कन्या थी । ज्यवन ऋषि उन्हीं के पुत्र थे ।

पुलोमारि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] इन्द्र [को०] ।

पुल्कस—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक सकर जाति जिमकी उत्पत्ति ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय स्त्री से कही जाती है । शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद् में इस जाति का उल्लेख है ।

पुल्ल^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक फूल ।

पुल्ल^२—वि० विकसित । फुल्ल [को०] ।

पुल्लाँ—सञ्ज्ञा पुं० [हि० फूल] नाक में पहनने का एक गहना ।

पुल्ली—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] घोड़े के सुम के ऊपर का हिस्सा ।

पुवाँ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० अपूप] दे० 'पूवा', 'मालपूवा' । उ०—पुवा, सुहारी, मोदक भारी । गुग्गा, रसगुग्गा, दधि न्यारी ।—नन्द० ग्र०, पृ० ३०६ ।

पुवार—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] दे० 'पयाल' ।

पुश्क—सञ्ज्ञा स्त्री० [तु०] विल्ली । मार्जार [को०] ।

पुश्त—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] १ पृष्ठ । पीठ । पीछा । २ वंशपरपरा में कोई एक स्थान । पिता, पितामह, प्रपितामह आदि या पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि का पूर्वापर स्थान । पीछी ।

यौ०—पुश्तखम = वह जिसकी पीठ खम हो । कुबड़ा । पुश्तखार । पुश्त दर पुश्त = वंशपरपरा में । बाप के पीछे बेटा, बेटे के पीछे पोता इस क्रम से लगातार । पुश्तपनाह = पक्षपाती । मददगार । सहायक । पुश्तहा पुश्त = कई पीढ़ियों तक ।

पुश्तक—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पुश्त] घोड़े, गदहे, आदि का पीछे के दोनों पैरों से लात मारना । दोलची ।

फि० प्र०—फाड़ना ।—मारना ।

पुश्तखार—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पुश्तखार] पीठ खुजलाने का सोग या हाथीदांत आदि का एक पंजा [को०] ।

पुश्तनामा—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पुश्तनामह] वह कागज जिसपर पूर्वापर क्रम से किसी कुल में उत्पन्न लोगों के नाम लिखे हों । वंशावली । पीढ़ीनामा । कुंसीनामा ।

पुश्तवानी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पुश्त + हि० वान (प्रत्य०)] वह आटी लकड़ी जो कियाड के पीछे पत्ते की मजदूरी के लिये लगी रहती है ।

पुश्ता—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पुश्तह] १. पानी की रोक के लिये

या मजवृत्ती के लिये किसी दीवार से लगातार कुछ ऊपर तक जमाया हुआ मिट्टी, ईंट, पत्थर आदि का ढेर या ढालुवाँ टीला। २ पानी की रोक के लिये कुछ दूर तक उठाया हुआ टीला। बाँध। ऊची मेंड। ३ किताब की जिल्द के पीछे का चमड़ा।

क्रि प्र०—उठाना।—देना।—बाँधना।

४ पीने चार मात्राओं का एक ताल जिसमें तीन आघात और एक खाली रहता है।

पुस्तापुस्त—क्रि० वि० [फा०] पीछे के क्रम मे। पश्चाद्वर्ती [क्रि०]।

पुस्तावद्दी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] १ पुश्ते की वँधई। पुश्ता उठाने की क्रिया या भाव। २ पुश्ते का काम।

पुस्तारा—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पुस्तारह्] पीठ पर उठाया जा सकनेवाला चौक। गड्ढर। भार [क्रि०]।

पुस्तो—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] १ टेक। सहारा। आश्रय। थाम। २ सहायता। पुंठरक्षा। मदद।

क्रि० प्र०—करना।—होना।

३ पक्ष। तरफदारी।

क्रि० प्र०—लेना।

४ बड़ा तकिया जिसपर पीठ टिकाकर बैठते हैं। पीठ टेकने का तकिया। गावतकिया। ५ बाँध। मेंड।

पुस्तैन—वि० [फ० पुस्त] पुरुषपरपरा। वशपरपरा। पीढ़ी दर पीढ़ी।

पुस्तैनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पुस्त] जो कई पुस्तों। से चला आता हो। कई पीढ़ियों से चला आता हुआ। दादा परदादा के समय का पुराना। जैसे, पुस्तैनी बीमारी, पुस्तैनी नौकर। २ जो कई पुस्तों तक चला चले। आगे की पीढ़ियों तक चलनेवाला। वेटे, पोते, परपोते आदि तक लगातार चला चलनेवाला। जैसे,—उसे पुस्तैनी खिताब मिला है।

पुप^१—वि० [सं०] पोषक। [क्रि०]।

पुप^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुप्य] एक नक्षत्र। दे० 'पुप्य'। उ०—काल जोगण भद्रा नहीं पुप नक्षत्र नई कातिक मास।—वी० रासो०, पु० ४०।

पुषा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कलिहारी का पौधा। कलियारी।

पुषित—वि० [सं०] १ पोषण किया हुआ। पाला पोसा हुआ। २ वधित।

पुष्क—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पोषण। पुष्टि [क्रि०]।

पुष्कर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ जल। २ जलाशय। ताल। पोखरा। ३ कमल। ४ करछी का कटोरा। ५ ढोल, मृदग आदि का मुँह जिसपर चमड़ा मड़ा जाता है। ६ हाथी की सूंड का अगला भाग। ७ आकाश। ८ वायु। तीर। ९ तलवार की म्यान या फल। १० पिंजड़ा। ११ पचकद। १२ नृत्यकला। १३ सर्प। १४ युद्ध। १५ भाग। अश। १६ मद। नशा। १७ भग्नपाद नक्षत्र का एक अशुभ योग जिसकी शांति की जाती है। १८, पुष्करमूल। १९ कूठ।

कुण्डोपधि। कुण्डभेद। २० एक प्रकार का ढोल। २१ सूर्य। २२ एक रोग। २३ एक दिग्गज। २४ सारस पक्षी। २५, विष्णु का एक नाम। २६ शिव का एक नाम। २७ पुष्कर द्वीपस्थ वरुण के एक पुत्र। २८ एक असुर। २९ कृष्ण के एक पुत्र का नाम। ३० बुद्ध का एक नाम। ३१ एक राजा जो नल के भाई थे।

विशेष—इन्होंने नल को जूए में हराकर निषध देश का राज्य ले लिया था। पीछे नल ने जूए में ही फिर राज्य को जीत लिया।

३२ भरत के एक पुत्र का नाम। ३३ पुराणों में कहे गए सात द्वीपों में से एक।

विशेष—दधि समुद्र के आगे यह द्वीप बताया गया है। इसका विस्तार शाकद्वीप से दूना कहा गया है।

३४ मेघों का एक नायक।

विशेष—जिस वर्ष मेघों के ये अधिपति होते हैं उस वर्ष पानी नहीं बरसता और न खेती होती है।

३५ एक तीर्थ जो अजमेर के पास है।

विशेष—ऐसा प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ने इस स्थान पर यज्ञ किया था। यहाँ ब्रह्मा का एक मंदिर है। पद्म और नारदपुराण में इस तीर्थ का बहुत कुछ माहात्म्य मिलता है। पद्मपुराण में लिखा है कि एक बार पितृमह ब्रह्मा हाथ में कमल लिए यज्ञ करने की इच्छा से इस सुंदर पर्वत प्रदेश में आए। कमल उनके हाथ से गिर पड़ा। उसके गिरने का ऐसा शब्द हुआ कि सब देवता काँप उठे। जब देवता ब्रह्मा से पूछने लगे तब ब्रह्मा ने कहा—'बालको का घातक वज्रनाम असुर रसातल में तप करता था वह तुम लोगों का सहार करने के लिये यहाँ आना ही चाहता था कि मैंने कमल गिराकर उसे मार डाला'। तुम लोगों की बड़ी भारी विपत्ति दूर हुई। इस पद्म के गिरने के कारण इस स्थान का नाम पुष्कर होगा। यह परम पुण्यप्रद महातीर्थ होगा। पुष्कर तीर्थ का उल्लेख महाभारत में भी है। साँची में मिले हुए एक शिलालेख से पता लगता है कि ईसा से तीन सौ वर्ष से भी और पहले से यह तीर्थस्थान प्रसिद्ध था। आजकल पुष्कर में जो ताल है उसके किनारे सुंदर घाट और राजाओं के बहुत से भवन बने हुए हैं। यहाँ ब्रह्मा, सावित्री, बदरीनारायण और वराह जी के मंदिर प्रसिद्ध हैं।

३६. विष्णु भगवान् का एक रूप।

विशेष—विष्णु की नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ था वह उन्हीं का एक भग था। इसकी कथा हरिवंश में बड़े विस्तार के साथ आई है। पृथ्वी पर के पर्वत आदि नाना भाग इस पद्म के भग कहे गए हैं।

पुष्करकर्णिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] स्थलपद्मिनी।

पुष्करनाडी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] स्थलपद्मिनी।

पुष्करनाभ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विष्णु [क्रि०]।

पुष्करपत्र—सज्ञा पुं० [सं०] कमलपत्र ।

पुष्करपर्ण—सज्ञा पुं० [सं०] १. कमल का पत्र । २ एक प्रकार की ईंट जो यज्ञ की देवी बनाने के काम में आती थी ।

पुष्करपताश—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पुष्करपत्र' [को०] ।

पुष्करप्रिय—सज्ञा पुं० [सं०] १ मधुमक्षिका । २ मोम (को०) ।

पुष्करबीज—सज्ञा पुं० [सं०] कमल का बीज [को०] ।

पुष्करमूल—सज्ञा पुं० [सं०] एक ओषधि का मूल या जड़ जो कश्मीर देश के सरोवरों में उत्पन्न कही जाती है ।

विशेष—यह ओषधि आजकल नहीं मिलती, वैद्य लोग इसके स्थान पर कुष्ठ या कूठ का व्यवहार करते हैं ।

पुष्करव्याघ्र—सज्ञा पुं० [सं०] घड़ियाल । मगर । [को०] ।

पुष्करशिफा—सज्ञा स्त्री० [सं०] पुष्करमूल ।

पुष्करसागर—सज्ञा पुं० [सं०] पुष्करमूल ।

पुष्करसारी—सज्ञा स्त्री० [सं०] ललितविस्तर में गिनाई हुई लिपियों में से एक ।

पुष्करस्थपति—सज्ञा पुं० [सं०] शिव [को०] ।

पुष्करस्रज्—सज्ञा पुं० [सं०] १ अश्विनीकुमार । २ कमल के फूलों की माला (को०) ।

पुष्कराक्ष^१—सज्ञा पुं० [सं०] विष्णु [को०] ।

पुष्कराक्ष^२—वि० कमल जैसी भाँखेवाला । कमलनेत्र ।

पुष्कराख्य—सज्ञा पुं० [सं०] सारस ।

पुष्कराम्र—सज्ञा पुं० [सं०] हाथी की सूँठ का छोर [को०] ।

पुष्करावर्तक—सज्ञा पुं० [सं०] मेघों के एक विशेष अधिपति ।

पुष्कराह्व—सज्ञा पुं० [सं०] १ सारस । २ पुष्करमूल [को०] ।

पुष्करिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] एक रोग जिसमें लिंग के अग्रभाग पर फुसियाँ हो जाती हैं ।

पुष्करिणी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ हथिनी । २ कमलों से भरा हुआ तालाब । ३ कमल का पीषा । ४ कमलिनी । ५ पुष्करमूल । ६ कमल का समूह । ७ स्थलपत्निनी । ८. सी धनुष की नाप का एक प्रकार का चौकोर तालाब [को०] ।

पुष्करो^१—सज्ञा पुं० [सं० पुष्करिन्] हाथी ।

पुष्करो^२—वि० पुष्करयुक्त । कमलयुक्त [को०] ।

पुष्कल^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ चार ग्रास की भिक्षा । २ अनाज नापने का एक प्राचीन मान जो ६४ मुट्ठियों के बराबर होता था । ३ राम के भाई भरत के दो पुत्रों में से एक । ४ एक असुर । ५ एक प्रकार का ढोल । ६ एक प्रकार की बीणा । ७ शिव । ८ वरुण के एक पुत्र । ९. एक बुद्ध का नाम । १० मेरु पर्वत का एक नाम (को०) ।

पुष्कल^२—वि० १ बहुत । अधिक । ढेर सा । प्रचुर । २ भरापूरा । परिपूर्ण । ३ श्रेष्ठ । ४ समीपस्थ । उपस्थित । ५. शब्द या कोलाहल से पूर्ण (को०) ।

पुष्कलक—सज्ञा पुं० [सं०] १ कस्तूरीमृग । २ कील । खूँटी । ३ अर्गला । ४ बौद्धभिक्षु [को०] ।

पुष्कलावती—सज्ञा स्त्री० [सं०] गांधार देश की प्राचीन राजधानी ।

विशेष—विष्णुपुराण में लिखा है कि भरत के पुत्र पुष्कल ने इस नगरी को बसाया था । सिकंदर की चढाई के समय में यह नगरी थी क्योंकि एरियन आदि यूनानी लेखकों ने पेरुकेले, प्युकोलैतिस आदि नामों से इसका उल्लेख किया है । एरियन ने लिखा है कि यह नगरी बहुत बड़ी थी और सिधुनद से थोड़ी ही दूर पर थी । ईसा की सातवीं शताब्दी में आए हुए चीनी यात्री हुएसांग ने भी इस नगरी में हिंदू देव-मंदिरों और बौद्ध स्तूपों का होना लिखा है । पेशावर से नौ कोस उत्तर स्वात और काबुल नदी के सगम पर जहाँ हस्तनगर नाम का गाँव है वही प्राचीन पुष्कलावती थी ।

पुष्ट^१—वि० [सं०] १ पोषण किया हुआ । पाला हुआ । २ तैयार । मोटा ताजा । बलिष्ठ । ३ मोटा ताजा करनेवाला । बलवर्धक । जैसे,—गाजर का हलुआ बड़ा पुष्ट है । ४ दृढ़ । मजबूत । पक्का । ५ पूर्ण । पूरा (को०) । ६ गभीर । पूर्ण च्वनियुक्त (को०) ।

पुष्ट^२—सज्ञा पुं० १ विष्णु । २ पोषण (को०) ।

पुष्टई—सज्ञा स्त्री० [सं० पुष्ट + हि० ई (प्रत्य०)] पुष्ट करनेवाली ओषधि । बल-वीर्य वर्धक ओषधि । ताकत की दवा ।

पुष्टता—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ मोटा ताजापन । मजबूती । बलिष्ठता । २ पोषण । दृढ़ता ।

पुष्टि—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ पोषण । २ मोटाताजापन । बलिष्ठता । ३. वृद्धि । सतति की बढ़ती । ४ दृढ़ता । मजबूती । ५ बात का समर्थन । पक्कापन । जैसे,—इस बात से तुम्हारे कथन की पुष्टि होती है । ६ सोलह मातृकाओं में से एक । ७. मंगला, विजया आदि आठ प्रकार की चारपाइयों में से एक । ८ धर्म की पत्नियों में से एक । ९ एक योगिनी । १० अश्व-गधा । असगध । ११ सपन्नता । घनाढ्यता । वैभव (को०) । १२. रक्षण । सहायता (को०) । १३ अभ्युदय के लिये किया जानेवाला एक धार्मिक कृत्य (को०) ।

पुष्टिकर—वि० [सं०] पुष्ट करनेवाला । बल-वीर्य-वर्धक । ताकत देनेवाला । जैसे, पुष्टिकर पदार्थों का भोजन ।

पुष्टिकरी—सज्ञा स्त्री० [सं०] गंगा (काशीखड) ।

पुष्टिकम—सज्ञा पुं० [सं०] एक धार्मिक कृत्य जो वैभव और सपन्नता प्राप्त करने के लिये किया जाता है [को०] ।

पुष्टिकांत—सज्ञा पुं० [सं० पुष्टिकान्त] गणेश [को०] ।

पुष्टिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] जल की सीप । सुतही । सीपी ।

पुष्टिकाम—वि० [सं०] अभ्युदय का इच्छुक । पुष्टि की कामना करनेवाला [को०] ।

पुष्टिकारक—वि० [सं०] पुष्टि करनेवाला । बल-वीर्य-कारक ।

वि० [सं०] पुष्टि देनेवाला । पुष्टिकारक [को०] ।

यत्न—सज्ञा पुं० [सं०] आग के जल को भाग से ही

संककर या किसी प्रकार का गरम गरम लेप करके अच्छा करने की युक्ति ।

पुष्टिदा—सजा पुं० [सं०] १. अश्वगधा । अश्वगध । २. वृद्धि नाम की औषधि ।

पुष्टिपति—सजा पुं० [सं०] अग्नि का एक भेद ।

पुष्टिप्रद—वि० [सं०] पुष्टिकारक [को०] ।

पुष्टिमति—सजा पुं० [सं०] अग्नि का एक भेद ।

पुष्टिमार्ग—सजा पुं० [सं०] वल्लभ सप्रदाय । वल्लभाचार्य के मतानुसूल वैष्णव भक्तिमार्ग ।

पुष्टिलीला—सजा स्त्री० [सं० पुष्टि (= पुष्टिभाग) + लीला] रासलीला । कृष्ण लीला । उ०—सो इन पुष्टिलीला की अनुभव कियो।—दो सो गायन०, भा० २, पृ० ७ ।

पुष्टिवर्धक—वि० [सं०] २० 'पुष्टिकारक' ।

पुष्टिवर्धन—वि० [सं०] पुष्टि को बढ़ानेवाला । सुप्त सपन्नता को बढ़ानेवाला । प्रभुपद की सिद्धि करनेवाला [को०] ।

पुष्टिवर्धन—सजा पुं० मुर्गा [को०] ।

पुष्पंधय—सजा पुं० [सं० पुष्पन्धय] १. अवर । भीरा २. मधु-मखली [को०] ।

पुष्प—सजा पुं० [सं०] १. फूल । पौधों का वह भव्यत्व जो श्रुतु-वान में उत्पन्न होता है ।

विशेष—२० 'फूल' ।

२. श्रुतुमती स्त्री का रज । ३. प्रसि का एक रोग । फूला । फूलो । ४. घोड़ो का एक लक्षण । चित्ती ।

विशेष—जिस रंग का घोड़ा हो उससे भिन्न रंग की चित्ती को पुष्प कहते हैं । कनपट्टी, ललाट, तिर, कपे, छाती, नाभि और कठ में ऐसे चिह्न हो तो शुभ और छोठ, पान वी जट, भी और बूतट पर हो तो अशुभ माने जाते हैं । ५. विनास । विकसित होना । ६. कुबेर का विमान । पुष्पक । ७. एक प्रकार का मजन या सुरमा । ८. रसोत । ९. पुष्करमूल । १०. लवण । ११. मास (वाममार्गी) । १२. पुष्कराज । पुष्पराज [को०] । १३. नाटक में कोई ऐसी बात कहना जो विशेष रूप से प्रेम या अनुराग उत्पन्न करनेवाली हो । जैसे,—यह साक्षात् लक्ष्मी है । इसकी हृष्येली पारिजात के नवदल है, नहीं तो पसीने के बहाने इसमें से अमृत कर्तों से टपकता ।

पुष्पक—सजा पुं० [सं०] १. फूल । २. कुबेर का विमान ।

विशेष—यह विमान आकाशमाग से चलता था । कुबेर को हराकर रावण ने यह विमान छीन लिया था । रावण के वध के उपरांत राम ने इसे फिर कुबेर को दे दिया ।

३. श्राख का एक रोग । फूला । फूलो । ४. जड़ाऊ कगन । ५. रसाजन । रसोत । ६. हीरा कसीस । ७. पीतल । ८. लोहे या पीतल का मेल । ९. मिट्टी की भोंगीठी । १०. एक प्रकार का निविप सप । बिना विष का एक साँप । ११. एक पर्वत का नाम । १२. लोहे का वर्तन । लोहपात्र [को०] । १३. प्रासाद बनाने का एक प्रकार का मडप ।

[विशेष—यह मडप भीमट मंभो वा होना चाहिए ।

१०. यह राधा जिकके रोने आठ नागों में बैठे ।

पुष्पकरड—सजा पुं० [सं० पुष्पकरयट] २० 'पुष्पकरड' ।

पुष्पकरंटक—सजा पुं० [सं० पुष्पकरयट] १. उज्जयिनी का एक पुराना उद्यान या उमीधा जो महाकाव्य के प्रदिश का भाग था । २. फूलों की टलिया [को०] ।

पुष्पकरिनी—सजा स्त्री० [सं० पुष्पकरयिनी] उज्जयिनी ।

पुष्पकाल—सजा पुं० [सं०] १. अर्धत ऋतु । २. गिरों का ऋतु काल [को०] ।

पुष्पकासीस—सजा पुं० [सं०] लोहा का रस ।

पुष्पकीट—सजा पुं० [सं०] १. फूल का कीटा । २. नीरा । अमर ।

पुष्पकच्छ—सजा पुं० [सं०] एक प्रसिद्ध त्रिभुज त्रिभुज फूलों का नाम पीतल महीना भर रहना पड़ता है ।

पुष्पकेतन—सजा पुं० [सं०] कामरस । पुष्पकेतु [को०] ।

पुष्पकेतु—सजा पुं० [सं०] १. पुष्पावन । २. कामरस ।

पुष्पगण्डिका—सजा स्त्री० [सं० पुष्पगण्डिका] तात्व के दस वर्गों में से एक । भावे के साद अनेक दशों में जिनके द्वारा पुरुषों का शरीर पुरुषों द्वारा स्त्रियों का अस्त्रिय शरीर मान । (नाट्यशास्त्र)

पुष्पगधा—सजा पुं० [सं० पुष्पगन्धा] सुती ।

पुष्पगवेषुका—सजा स्त्री० [सं०] नागवला ।

पुष्पघातक—सजा पुं० [सं०] वात [को०] ।

पुष्पचय, पुष्पचयन—सजा पुं० [सं०] फूल तोड़ना । फूल चुनना [को०] ।

पुष्पचाप—सजा पुं० [सं०] कामरस । पुष्पचया ।

पुष्पचागर—सजा पुं० [सं०] १. घोना । २. कंदला ।

पुष्पज—सजा पुं० [सं०] पुष्प से उत्पन्न पुष्परज । नरुद [को०] ।

पुष्पजीवी—सजा पुं० [सं० पुष्पजीविन्] मातापार । मातो [को०] ।

पुष्पदत्त—सजा पुं० [सं० पुष्पदन्त] १. याजुकोण का दिग्गज । २. एक प्रकार का नगरद्वार । ३. शिव का अनुचर एक गधर्व जिसका रत्न हृषा महिम्न स्तोत्र कहा जाता है ।

विशेष—इस गधर्व के विषय में कहा जाता है कि यह एक बार शिव का निर्मात्य लीप गया था । इससे शिव ने श्राप द्वारा इसका आकाशगमन रोक दिया था । पीछे महिम्न स्तोत्र बनाकर पाठ करने से इसे रोषग्रय प्राप्त हो गया ।

४. एक विद्याधर । ५. कातियेन का एक अनुचर । ६. चंद्र और सूर्य [को०] ।

पुष्पदंष्ट्र—सजा पुं० [सं०] एक नाम ।

पुष्पद—सजा पुं० [सं०] वृक्ष । पेट [को०] ।

पुष्पदाम—सजा पुं० [सं० पुष्पदामन्] १. पुष्पों की माला । २. एक छंद का नाम [को०] ।

पुष्पद्रव—सजा पुं० [सं०] पुष्प का रस । मकरद [को०] ।

पुष्पद्रुम—सजा पुं० [सं०] फूलवाला वृक्ष । केवल पुष्प का वृक्ष [को०] ।

पुष्पध—सज्ञा पुं० [सं०] ब्राह्म्य ब्राह्मण से उत्पन्न एक जाति ।

विशेष—ब्राह्म्य ब्राह्मण की सवर्णा पत्नी से उत्पन्न संतति पुष्पध कहलाती है ।

पुष्पधनुस्—सज्ञा पुं० [सं० पुष्पधनुस्] कामदेव ।

पुष्पधन्वा—सज्ञा पुं० [सं० पुष्पधन्वन्] १. कामदेव । मीनकेतु ।
२. एक रसोपध ।

विशेष—यह रससिद्धर, सीसे, लोहे, अभ्रक और वग में घटूरा, भाँग, जेठी मधु, सेमरामूल मिलाकर पान के रस की भावना देने से बनती है और कामोद्दीपक तथा शक्तिवर्धक मानी जाती है ।

पुष्पधारण—सज्ञा पुं० [सं०] विष्णु [को०] ।

पुष्पध्वज—सज्ञा पुं० [सं०] कामदेव ।

पुष्पनिक्ष—सज्ञा पुं० [सं०] भ्रमर । भौरा ।

पुष्पनिर्यास, पुष्पनिर्यासन—सज्ञा पुं० [सं०] पुष्परस । मकरद ।

पुष्पनेत्र—सज्ञा पुं० [सं०] वृत्ति की विचकारी की सलाई ।

पुष्पपत्नी—सज्ञा पुं० [सं० पुष्पपत्निन्] कामदेव ।

पुष्पपथ—सज्ञा पुं० [सं०] स्त्रियों के रज के निकलने का मार्ग । योनि । भग ।

पुष्पपदवी—सज्ञा स्त्री० [सं०] योनि । भग [को०] ।

पुष्पपांडु—सज्ञा पुं० [सं० पुष्पपाण्डु] एक प्रकार का साँप ।

पुष्पपिण्ड—सज्ञा पुं० [सं० पुष्पपिण्ड] अशोक का पेड़ ।

पुष्पपुट—सज्ञा पुं० [सं०] १ फूल की पंखडियों का आघार जो कटोरी के आकार का होता है । २ उक्त आकार का हाथ का चगुल ।

पुष्पपुर—सज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन पाटलिपुत्र (पटना) का एक नाम ।

पुष्पपेशल—वि० [सं०] पुष्प की तरह कोमल । फूल सा घृदु ।

पुष्पप्रचय, पुष्पप्रचाय—सज्ञा पुं० [सं०] फूल चुनना [को०] ।

पुष्पप्रस्तार—सज्ञा पुं० [सं०] पुष्पशय्या । फूलों का विछोना [को०] ।

पुष्पप्रियक—सज्ञा पुं० [सं०] विजयसाल ।

पुष्पफल—सज्ञा पुं० [सं०] १ कुम्हड़ा । २ कैय । कपित्थ । ३ अर्जुन वृक्ष ।

पुष्पवाण—सज्ञा पुं० [सं०] कामदेव ।

पुष्पभद्र—सज्ञा पुं० [सं०] वास्तु शिल्प में एक प्रकार का मंडप जिसमें ६२ खम्भे हों ।

पुष्पभद्रक—सज्ञा पुं० [सं०] देवताओं का एक उपवन ।

पुष्पभद्रा—सज्ञा स्त्री० [सं०] मलयगिरि के पश्चिम की एक नदी । (ब्रह्मवैवर्त) ।

पुष्पभव—सज्ञा पुं० [सं०] पुष्परस । मकरद [को०] ।

पुष्पभूति—सज्ञा पुं० [सं०] १ सम्राट् हर्षवर्धन के पूर्व/पुरुष जो शैव थे । २ कावोज या कावुल के एक हिंदू राजा जो ईसा की सातवीं शताब्दी में राज्य करते थे ।

पुष्पमंजरिका—सज्ञा स्त्री० [सं० पुष्पमञ्जरिका] नील कमलिनी ।

पुष्पमंजरी—सज्ञा स्त्री० [सं० पुष्पमञ्जरी] १ फूल की मजरी २ घृतकरज । धीकरज ।

पुष्पमाल—सज्ञा स्त्री० [सं० पुष्प+हिं० माल] फूलों की माला ।
उ०—आवत देखे श्याम मनोहर पुष्पमाल ले दौरी ।—नद०
ग्र०, पृ० ३५४ ।

पुष्पमास—सज्ञा पुं० [सं०] १ वसंत ऋतु के दो महीने । वसंत ऋतु । २ चैत्र (को०) ।

पुष्पमित्र—सज्ञा पुं० [सं०] एक राजा ।

विशेष—दे० 'पुष्पमित्र' ।

पुष्पमृत्यु—सज्ञा पुं० [सं०] देवनल । एक प्रकार का नरकट । बड़ा नरसल ।

पुष्परक्त—सज्ञा पुं० [सं०] सूर्यमणि नाम के फूल का पौधा ।

पुष्परज—सज्ञा पुं० [सं० पुष्परजस्] पराग । फूलों की धूल ।

पुष्परथ—सज्ञा पुं० [सं०] टहलने घूमने आदि का रथ [को०] ।

पुष्परस—सज्ञा पुं० [सं०] मधु । मकरद ।

पुष्परसाह्वय—सज्ञा पुं० [सं०] मधु ।

पुष्पराग—सज्ञा पुं० [सं०] एक मणि । पुष्कराज ।

पुष्पराज—सज्ञा पुं० [सं०] पुष्पराग । पुष्कराज ।

पुष्परेणु—सज्ञा पुं० [सं०] फूल की धूल । पराग ।

पुष्परोचन—सज्ञा पुं० [सं०] नागकेसर ।

पुष्पलक—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पुष्कलक' ।

पुष्पलाव—सज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० पुष्पलावी] फूल चुननेवाला । माली ।

पुष्पलावन—स्त्री० पुं० [सं०] वृहत्सहिता के अनुसार उत्तर दिशा का एक देश ।

पुष्पलावी—सज्ञा स्त्री० [सं० पुष्पलाविन्] फूल चुननेवाली । मालिन ।

पुष्पलिङ्ग—सज्ञा पुं० [सं०] भ्रमर । भौरा ।

पुष्पलिपि—सज्ञा स्त्री० [सं०] एक पुरानी लिपि या लिखावट (ललितविस्तर) ।

पुष्पलिह—सज्ञा पुं० [सं० पुष्पलिह्] भ्रमर । भौरा ।

पुष्पवती—वि० [सं०] १ फूलवाली । फूनी हुई । २ रजोवती । रजस्वला । ऋतुमती । उ०—उम प्रकृतिलता के यौवन में, उस पुष्पवती के माधव का, मधुहास हुआ था वह पहला, दो रूप मधुर जो ढाल सका ।—कामायनी, पृ० ७२ । ३ महाभारत में वर्णित एक तीर्थ । ४ उठी हुई गाय [को०] ।

पुष्पवर्ग—सज्ञा पुं० [सं०] अगस्त, कचनार, सेमल आदि का आयुर्वेदोक्त वर्ग [को०] ।

पुष्पवर्त्मा—सज्ञा पुं० [सं० पुष्पवर्त्मन्] द्रुपद नरेश । दीपदी के पिता का नाम [को०] ।

पुष्पवर्ष—सज्ञा पुं० [सं०] एक वर्षवर्ष का नाम ।

पुष्पवाटिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] फुलवारी । फूलों का बगीचा । उपवन । उद्यान ।

पुष्पवाटी—सज्ञा स्त्री० [सं०] फुलवारी । फूलों का बगीचा ।
 पुष्पवाण—सज्ञा पुं० [सं०] १ फूलों का बाण । २ कामदेव ।
 ३ कुशद्वीप के एक राजा । ४ एक दैत्य ।
 पुष्पवाहिनी—सज्ञा स्त्री० [सं०] हरिवंश पुराणोक्त एक नदी ।
 पुष्पविचित्रा—सज्ञा स्त्री० [सं०] एक वृत्त का नाम । एक इद्र का नाम [को०] ।
 पुष्पविमान—सज्ञा पुं० [सं० पुष्प+विमान] दे० 'पुष्पक' । उ०—
 पुष्पविमान सदा उजियारा । —कबीर सा०, पृ० २ ।
 पुष्पविशिष—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पुष्पवाण' ।
 पुष्पवृष्टि—सज्ञा स्त्री० [सं०] फूलों की वर्षा । ऊपर से फूल गिरना ।
 (मंगल उत्सव या प्रसन्नता सूचित करने के लिये फूल गिराए जाते थे) ।
 पुष्पवेणी—सज्ञा स्त्री० [सं०] फूलों की बनी हुई वेणी । फूलों से गुथी हुई वेणी [को०] ।
 पुष्पशकटी—सज्ञा स्त्री० [सं०] भ्राकाशवाणी ।
 पुष्पशकलो—सज्ञा पुं० [सं०] सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का विषहीन साँप ।
 पुष्पशर—सज्ञा पुं० [सं०] कामदेव ।
 पुष्पशरासन—सज्ञा पुं० [सं०] कामदेव ।
 पुष्पशाक—सज्ञा पुं० [सं०] ऐसे फूल जिनकी भाजी बनाई जाती है, जैसे, कचनाल, रासना, खैर, सेमल, सहजन, भ्रगस्त, नीम ।
 पुष्पशून्य^१—वि० [सं०] बिना फूल का । पुष्परहित ।
 पुष्पशून्य^२—सज्ञा पुं० गूलर ।
 पुष्पशेखर—सज्ञा पुं० [सं०] फूलों की माला [को०] ।
 पुष्पश्रेणी—सज्ञा स्त्री० [सं०] मूसकानी ।
 पुष्पसमय—सज्ञा पुं० [सं०] वसंत [को०] ।
 पुष्पसाधारण—सज्ञा पुं० [सं०] वसंतकाल ।
 पुष्पसार—सज्ञा पुं० [सं०] १. फूल का मधु या रस । २ फूलों का इत्र ।
 पुष्पसारा—सज्ञा स्त्री० [सं०] तुलसी ।
 पुष्पसूत्र—सज्ञा पुं० [सं०] दक्षिण में प्रसिद्ध सामवेद का एक सूत्रग्रन्थ जो गोभिलरचित कहा जाता है ।
 पुष्पसौरभा—सज्ञा स्त्री० [सं०] कलिहारी का पौधा । करियारी ।
 पुष्पस्नान—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पुष्पस्नान' ।
 पुष्पस्नेह—सज्ञा पुं० [सं०] मकरद । पुष्परस [को०] ।
 पुष्पस्वेद—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पुष्पस्नेह' ।
 पुष्पहास—सज्ञा पुं० [सं०] १ फूलों का खिलना । २ विष्णु ।
 पुष्पहासा—सज्ञा स्त्री० [सं०] रजस्वला स्त्री ।
 पुष्पहीन^१—वि० [सं०] बिना फूल का ।
 पुष्पहीन^२—सज्ञा पुं० [सं०] गूलर का पेड़ ।
 पुष्पहीना—सज्ञा स्त्री० [सं०] (स्त्री) जिसे रजोदर्शन न हो । बाँझ ।
 वध्या ।

पुष्पांक—सज्ञा पुं० [सं० पुष्पाङ्क] माधवी । अनेकार्थ । (शब्द०) ।
 पुष्पाञ्जन—सज्ञा पुं० [सं० पुष्पाञ्जन] एक प्रकार का अजली पीतल के कसाव के साथ कुछ श्लोपधियों को पीसकर बनाया जाता है । वैद्यक में सब प्रकार के नेत्ररोगों पर यह चलता है ।
 पर्या०—पुष्पकेतु । कौसुम । रीतिक । रीतिपुष्प ।
 पुष्पाजलि—सज्ञा स्त्री० [सं० पुष्पाञ्जलि] फूलों से भरी अजली या अजली भर फूल जो किसी देवता या पूज्य पुरुष को चढ़ाए जायें ।
 पुष्पाढ—सज्ञा पुं० [सं० पुष्पायड] एक प्रकार का घान [को०] ।
 पुष्पावुज—सज्ञा पुं० [सं० पुष्पावुज] मकरद ।
 पुष्पांभस्—सज्ञा पुं० [सं० पुष्पांभस्] एक तीर्थ ।
 पुष्पा—सज्ञा स्त्री० [सं०] कर्ण की राजधानी जो अगदेश में थी । चपा (आजकल के भागलपुर के पास) ।
 पुष्पाकर—सज्ञा पुं० [सं०] वसंत ऋतु ।
 पुष्पागम—सज्ञा पुं० [सं०] वसंत काल ।
 पुष्पाग्र—सज्ञा पुं० [सं०] वीजकोश । गर्भकेसर [को०] ।
 पुष्पजीव—सज्ञा पुं० [सं०] फूलों से जिसकी जीविका हो—माली [को०] ।
 पुष्पाधर—सज्ञा पुं० [सं० पुष्प+अधर] फूलों के श्रोत । पेंडुडियाँ उ०—भ्रुक कर पुष्पाधर मुसकाए । —अर्चना, पृ० ६६ ।
 पुष्पानन—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का मद्य ।
 पुष्पापण—सज्ञा पुं० [सं०] फूलों का बाजार [को०] ।
 पुष्पापीड—सज्ञा पुं० [सं०] सिर पर रखी हुई या पहनी जानेवाली माला [को०] ।
 पुष्पायुध—सज्ञा पुं० [सं०] कामदेव ।
 पुष्पाराम—सज्ञा पुं० [सं०] फूलों का बगीचा [को०] ।
 पुष्पावचायी—सज्ञा पुं० [सं० पुष्पावचायिन्] माली [को०] ।
 पुष्पासव—सज्ञा पुं० [सं०] फूलों से बनाया हुआ मद्य । मद्य ।
 पुष्पास्त्ररण—सज्ञा पुं० [सं०] १ शय्या पर फूल सजाने की कला । २ फूलों की सजी हुई शय्या [को०] ।
 पुष्पास्त्र—सज्ञा पुं० [सं०] कामदेव [को०] ।
 पुष्पाह्ला—सज्ञा स्त्री० [सं०] साँप ।
 पुष्पिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ दाँत की मेल । २ लिंग की मेल ३ अष्ठमास के अंत में वह वाक्य जिसमें कहे हुए प्रसंग की समाप्ति सूचित की जाती है । यह वाक्य 'इति श्री' करके प्रायः आरंभ होता है जैसे, 'इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखंडे' इत्यादि ।
 पुष्पिणी—सज्ञा स्त्री० [सं०] रजस्वला [को०] ।
 पुष्पित^१—वि० [सं०] १ पुष्पसयुक्त । फूला हुआ । २ रगविरगा । ३ विकसित [को०] ।
 पुष्पित^२—सज्ञा पुं० १ कुशद्वीप का एक पर्वत । २ एक बुद्ध का नाम ।
 पुष्पिता—सज्ञा स्त्री० [सं०] रजस्वला स्त्री ।

पुष्पिताम्रा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक अर्धमम वृत्त जिसके पहले और तीसरे चरण में दो नगण, एक रगण और एक यगण होता है तथा दूसरे और चौथे चरण में एक नगण, दो जगण, एक रगण और गुरु होता है। जैसे,—प्रगु सम नहि अन्य कोइ दाता। सुधन जु ध्यावत तीन लोक आता। सकल असत कामना विहाई। हरि नित सेवहु मित्त चित्त लाई।

पुष्पी—वि० [सं० पुष्पिन्] पुष्पयुक्त। जिसमें फूल लगे हों [को०]।

पुष्पेपु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कामदेव।

पुष्पोत्कटा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सुमाली राक्षस की केतुमती भार्या में उत्पन्न चार कन्याओं में से एक जो रावण और कुम्भकर्ण की माता थी।

पुष्पोद्गम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुष्प लगना। फूल आना [को०]।

पुष्पोद्यान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] फूलवारी। पुष्पवाटिका।

पुष्पोपजीवी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुष्पोपजीविन्] माली [को०]।

पुष्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पुष्टि। पोषण। २. फूल या सार वस्तु। ३. अश्विनी, भरणी आदि २७ नक्षत्रों में से आठवाँ नक्षत्र जिसकी आकृति वाण की सी है। सिध्य। तिष्य। ४. पूस का महीना। ५. सूर्यवंश का एक राजा। ६. कलिकाल। कलि का युग [को०]।

पुष्यनेता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह रात्रि जिसमें बराबर पुष्य नक्षत्र रहे।

पुष्यमित्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मौर्यों के पीछे मगध में शुंग वंश का राज्य प्रतिष्ठित करनेवाला एक प्रतापी राजा।

विशेष—अशोक से कई पीढ़ियों पीछे अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ को लडाई में मार पुष्यमित्र मगध के सिंहासन पर बैठा। अपने पुत्र अग्निमित्र को उसने विदिशा का राज्य दिया था। अग्निमित्र का वृत्तांत कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक में आया है। पुष्यमित्र हिंदू धर्म का धनन्य अनुयायी था। इससे बौद्धों की प्रधानता से चिढ़ी हुई प्रजा उसके सिंहासन पर बैठने से बहुत प्रसन्न हुई। वैदिक धर्म और अपने प्रताप की घोषणा के लिये पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र में बड़ा भारी अश्वमेध यज्ञ किया। लोगों का अनुमान है कि इस यज्ञ में भाष्यकार पतञ्जलि भी आए थे। ईसा से प्रायः दो सौ वर्ष पूर्व पुष्यमित्र मगध में राज्य करते थे। उनके पीछे उसका पुत्र अग्निमित्र सिंहासन पर बैठा। वि० दे० 'शुंग' ६।

पुष्ययोग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा के रहने का समय [को०]।

पुष्यरथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] क्रीडा रथ। घूमने, फिरने या उत्सव आदि में निकलने का रथ। (यह रथ युद्ध के काम का नहीं होता)।

पुष्यलक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. कस्तूरी मृग। २. क्षपणक। चँवर लिए रहने वाला जैन साधु। ३. सूँटा। फील।

पुष्यस्नान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विघ्नशांति के लिये एक स्नान जो ६-४४

पूस के महीने में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने पर होता है। विशेष—यह स्नान राजाओं के लिये है। कालिकापुराण और बृहत्संहिता में इस स्नान का पूरा विधान मिलता है। बृहत्संहिता के अनुसार उद्यान, देवमंदिर, नदीतट आदि किसी रमणीय और स्वच्छ स्थान पर मट्ट बनाना चाहिए और उसमें राजा को पुरोहितों और श्रमांत्यों के सहित पूजन के लिये जाना चाहिए। पितरों और देवताओं का यथाविधि पूजन करके तब राजा पुष्यस्नान करे। जिस कलश के जल से राजा स्नान करनेवाले हों उसमें अनेक प्रकार के रत्न और मंगल द्रव्य पहले से डालकर रखे। पश्चिम और की वेदी पर वाघ या सिंह का चमड़ा बिछाकर उसपर सोने, चाँदी, ताँबे या गूलर की लकड़ी का पाटा रखा जाय। उसी पर राजा स्नान करे।

पुष्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पुष्य नक्षत्र [को०]।

पुष्यार्क—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. ज्योतिष में एक योग जो कर्क की संक्राति में सूर्य के पुष्य नक्षत्र में होने पर होता है। यह प्रायः श्रावण में दस दिन के लगभग रहता है। २. रविवार के दिन पढा हुआ पुष्य नक्षत्र।

पुस—सञ्ज्ञा पुं० [अ० पुसी] प्यार से विल्ली को पुकारने का शब्द। जैसे, आ पुस पुस।

पुसकर(५)—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पुष्कर'।

पुसकरन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुष्कर] मारवाड़ी ब्राह्मणों की एक शाखा। उ०—भारद्वाज गोत्र पुसकरनां सेवक जात कहावै।—पोद्दार अभि ग्र०, पृ० ४२७।

पुसतर्का—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुस्तक] पुस्तक। उ०—पारेवी ज्यू पुसतर्का, कुकव वाज वस थाप।—दांकी ग्र०, भा० २, पृ० ७६।

पुसपराग(५)—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पुष्पराग'। उ०—पुसपराग सम कर समें नारी रत्नप्रकाश।—ब्रजनिधि ग्र०, पृ० ६६।

पुसार्का—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पोशाक'। उ०—साद खुराका पहिन पुसाका।—कबीर० ग्र०, पृ० १७।

पुसाना—क्रि० अ० [हिं० पोसना] १. पूरा पटना। बन पटना। पटना। २. धच्छा लगना। शोभा देना। उचित जान पटना। उ०—पथिक आपने पथ लगी इहाँ रहौ न पुसाय। रसनिधि नैन सराय में बस्यो भावतो आय।—रसनिधि (शब्द०)।

पुस्टि(५)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुष्टि] दे० 'पुष्टि' (पुष्टिमार्ग)। उ०—पुष्टि ब्रजाद भजन, रस मेवा, निज जन पोपन भरन।—नंद० ग्र०, पृ० ३२६।

पुस्त^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. गीली मिट्टी, लकड़ी, रूपड़े, चमड़े, लोहे, या रत्नों आदि से गढ़, काट या छीन छालकर बनाई जानेवाली वस्तु। सामान। २. उनाघट। कारी-गरी। ३. [गी० पुस्ती] पोथी। पुस्तक। किताब। हस्तलेख। पुस्त^२(५)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुस्त] दे० 'पुस्त'।

पुस्तक—सज्ञा स्त्री० [सं०] पोथी । किताब । ग्रंथ । हस्तलेख ।

पुस्तकर्म—सज्ञा पुं० [सं० पुस्तकर्मन] १ पलस्तर करने का काम ।
२ रँगने का काम [को०] ।

पुस्तकाकार—वि० [सं०] पोथी के रूप का । पुस्तक के आकार का ।

पुस्तकागार—सज्ञा पु० [सं० पुस्तक+आगार] पुस्तकों का स्थान ।
पुस्तकालय ।

पुस्तकालय—सज्ञा पुं० [सं०] वह भवन या घर जिसमें पुस्तकों का संग्रह हो । वह घर जहाँ अनेक विषयों की पोथियाँ इकट्ठी करके रखी गईं हों ।

पुस्तकालयाध्यक्ष—सज्ञा पुं० [सं० पुस्तकालय + अध्यक्ष] पुस्तकालय का प्रधान अधिकारी ।

पुस्तकास्तरण—सज्ञा पुं० [सं०] हस्तलेख का वेष्टन । पुस्तक का वेठन [को०] ।

पुस्तकी—सज्ञा स्त्री० [सं०] पोथी । पुस्तक ।

पुस्तकीय—वि० [सं० पुस्तक+ईय (प्रत्य०)] पुस्तक संबंधी । पुस्तक का । जैसे, पुस्तकीय ज्ञान ।

पुस्तकार्त्त—सज्ञा पुं० [सं०] जिसकी जीविका पुस्तकों पर निर्भर हो ।
पुस्तकें बनाकर जीविका कमानेवाला [को०] ।

पुस्तकशिबी—सज्ञा स्त्री० [सं० पुस्तकशिबी] एक प्रकार की सेम ।

पुरितका—सज्ञा स्त्री० [सं०] छोटी पुस्तक ।

पुस्ती^१—सज्ञा स्त्री० [सं०] पोथी । पुस्तक । किताब ।

पुस्ती^२—सज्ञा स्त्री० [सं० पुस्तक, स्त्री० या सं० पुस्ती (= टेक, आश्रय)] दे० 'पुस्ती' । उ०—उनकी जिंदगी की रेलगाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़कर समाज के विश्वास और निश्चय को मजबूत पुस्तियों से टकराकर चूर चूर हो जाती है ।—अभि-
शप्त, पृ० ७९ ।

पुष्कर^१—सज्ञा पुं० [सं० पुष्कर, प्रा० पुष्कर] दे० 'पुष्कर' ।

पुष्करमूल—सज्ञा पुं० [सं० पुष्करमूल] दे० 'पुष्करमूल' ।

पुष्पावना^१—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पुष्पावना' । उ०—चल्यो
व्याहि संभरिघनी मगन भए निहाल । पुष्पावन घन संग
भए, नृप गुन चर्वे रसाल ।—पृ० रा०, १४ । १२८ ।

पुष्पाना^१—सज्ञा पुं० [सं० पुष्प+आ, प्रा० पुष्प (वि० पुष्प)]
दे० 'पुष्पाना' । उ०—ढोलक दौतण फाडती, आई पुष्पान
कीर ।—ढोला०, दू० ४०० ।

पुष्पा—सज्ञा स्त्री० [सं० पुष्पा] पुष्प । उ०—आलरो में मजु
मुक्ता है चुहे, मांग में जिस भाँति जाते हैं गुहे ।—साकेत,
पृ० १९ ।

पुष्प^१—सज्ञा पुं० [सं० पुष्प] पुष्प । फूल । उ०—सुरपुर सब हरषे,
पुष्पनि वरषे दुंदुभि दीह बजाए ।—केशव (शब्द०) ।

पुष्प^२—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पुष्प' । उ०—सुदेव जय जय नपि
पुष्प ।—पृ० रा०, १२।३३४ ।

पुष्पि^१—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पुष्पि' । उ०—दल न समात
पुष्पि सब हेरिव ।—ह० रासो, पृ० ७४ ।

पुष्प^२—सज्ञा पुं० [सं० प्रहर, हिं० पहर] दे० 'पहर' । उ०—(क)
पुष्प पुष्प प्रति जागसु इण हर सेवस्यु आपणउ नाह ।—
बी० रासो, पृ० ४२ । (ख) श्रीजइ पुष्प उर्लाधियउ भावना
रउ घट्ट ।—ढोला०, दू० ४२४ ।

पुष्पा^१—सज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पुष्पा' । उ०—दुख सहणा, पुष्पा
दियण, कत दिसारि जाइ ।—ढोला०, दू० पृ० २३१ ।

पुष्पि^१—सज्ञा स्त्री० [सं० पृथिवी, प्रा० पुष्पि] दे० 'पृथ्वी' ।
उ०—(क) के पति आश्रव एह परमान, चपकै कएल पुष्पि
निरमान ।—विद्यापति, पृ० २५ । (ख) अन घन प्रवाह बहु
पुष्पि परि वरषी जेम पुरद गति ।—पृ० रा०, १।४७२ ।

पुष्पिपति^१—सज्ञा पुं० [सं० पृथ्वीपति] राजा । बादशाह । उ०—
पुष्पिपति मरुतान ओ तुम्हे रायकुमार ।—कीर्ति०,
पृ० ६४ ।

पुष्पि^२—सज्ञा पुं० [सं० पृथ्वीपति, प्रा० पुष्प + वे] पृथ्वीपति । राजा ।

पुष्पाना^१—सज्ञा पुं० [हिं० पुष्पाना का प्रेरणारूप] पिराने का काम
कराना । ग्रथित कराना । गुथवाना ।

पुष्प^१—सज्ञा पुं० [सं० पुष्प] फूल । उ०—अक्षत पुष्प ले विप्र
भुलाई ।—कवीर सा०, पृ० १९१ ।

पुष्पराग^१—सज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पुष्पराग' ।

पुष्पित—वि० [सं० पुष्पित, या हिं० पुष्प + इत्] दे० 'पुष्पित' ।
उ०—पुष्पित पेखि पलास बन, तव पलास तन होइ । अब
मधुमास पलास भो, सुवि जवास सम सोइ ।—स० सप्तक,
पृ० २३९ ।

पुष्पि, पुष्पि^१—सज्ञा स्त्री० [सं० भूमि या पृथिवी, प्रा० पुष्पि]
पृथ्वी । भूमि । उ०—(क) लक पुष्पि अस आहि न काहँ ।—
जायसी श्र० (गुप्त), पृ० १९७ । (ख) जोधा आगे उलटि
पुलटि यह पुष्पि करते ।—धरम० श०, पृ० ८४ ।

यौ०—पुष्पिपति = पृथिवीपति । राजा ।

पुष्परेणु^१—सज्ञा पुं० [सं० पुष्परेणु] फूल की धूल । पराग ।

पुष्पि^१—सज्ञा स्त्री० [सं० पृथिवी] भूमि । पृथ्वी ।

पूँगा^१—सज्ञा पुं० [हिं० पूजना] पूरा होना । पूजना । उ०—
नव दिन पूंगा नउरतौ बलि वाकुल पूजा रचो ठाई ।—बी०
रासो, पृ० ५० ।

पूँगरण^१—सज्ञा पुं० [सं० पुङ्ग (= राशि या समूह)] सामान्य वस्त्र ।
कपडा । (दि०) ।

पूँगरा^१—सज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पुंगर' । उ०—कवीर पूँगरा
राम अलह का सब गुरु पीर हमारे ।—कवीर श्र०,
पृ० २६७ ।

पूँगा^२—सज्ञा पुं० [देश०] वह कीड़ा जो सीप के भीतर होता है ।
सीप का कीड़ा ।

पूँगा^३—सज्ञा स्त्री० [हिं० पूंगी (= छोटा चोगा)] सपेरो का
बाजा । महुवर ।

पूँछ^१—सज्ञा स्त्री० [सं० पुच्छ] १. मनुष्य से भिन्न प्राणियों के शरीर
का वह गावदुमा भाग जो गुदा मार्ग के ऊपर रीढ़ की हड्डी

की सधि में या उससे निकलकर नीचे की ओर कुछ दूर तक लबा चला जाता है। जंतुओं, पक्षियों, कीड़ों आदि के शरीर में सिर से आरंभ मानकर सबसे अंतिम या पिछला भाग। पुच्छ। लागूल। डुम।

विशेष—भिन्न भिन्न जीवों की पूँछें भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। पर सभी की पूँछें उनके गुदभाग के ऊपर से ही आरंभ होती हैं। सरीसृप वर्ग के जीवों की पूँछें रीढ़ की हड्डी की सीध में आगे की अधिकाधिक पतली होती हुई चली जाती हैं। मछली की पूँछ उसके उदरभाग के नीचे का पतला भाग है। अधिकांश मछलियों की पूँछ के अंत में पर होते हैं। पक्षियों की पूँछ परों का एक गुच्छा होती है जिसका अंतिम भाग अधिकांश फैला हुआ और आरंभ का संकुचित होता है। कीड़ों की पूँछ उनके मध्य भाग के शीर्ष पीछे का तुकीला भाग है। भिड़ का डक उसकी पूँछ से ही निकलता है। स्तनपायी जंतुओं में से कुछ की पूँछ उनके शेष शरीर के बराबर या उससे भी अधिकांश लंबी होती है, जैसे लंगूर की। इस वर्ग के प्रायः सभी जीवों की पूँछ पर बाल नहीं होते, रोएँ होते हैं। हाँ किसी किसी की पूँछ के अंत में बालों का एक गुच्छा होता है। पर घोड़े की पूँछ पर सर्वत्र बड़े बड़े बाल होते हैं।

मुहा०—(किसी की) पूँछ पकड़कर चलना = (१) किसी के पीछे पीछे चलना। किसी का पिछुआ या पिछलगू बनना। हर बात में किसी का अनुगमन करना। बेतरह अनुयायी होना (व्यंग्य)। (२) किसी के सहारे से कोई काम करना। सहारा लेना या पकड़ना। किसी विषय में किसी की सहायता पर निर्भर होना (व्यंग्य)। पूँछ दवाना = बहुत ही विनीत या अधीन भाव दिखाना। उ०—दुबरी कानी हीन सुवन विन पूँछ दवाए।—अज० अ०, पृ० ११०। पूँछ हिलौधल = चापलूसी। मीठी मीठी बातें कहना। उ०—सपादक महाशय पूँछहिलौधल कर सुनी बात अनसुनी करना चाहते थे।—प्रेम-घन०, भा० २, पृ० २३। थड़ी पूँछ का आदमी = बहुत अधिकांश समानित। इज्जतदार। उ०—एक बोला वह बड़ी पूँछ के आदमी हैं। दूसरे ने कहा अच्छी वे पर की उड़ाई।—फिसाना०, भा० ३, पृ० ५०७।

२ किसी पदार्थ के पीछे का भाग। ३ पिछलगू। पुछल्ला। जो किसी के पीछे या साथ रहे।

मुहा०—(किसी की) पूँछ होना = पुछल्ला बनना। पिछलगू बनना। अधानुयायी होना।

पूछगच्छ—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पूछगच्छ'।

पूछडी—सज्ञा स्त्री० [हि० पूँछ + डी (प्रत्यय०)] १. पूँछ। २. वह पानी जो नाले में घटाव के आगे आगे चलता है।

पूछताछ—सज्ञा स्त्री० [हि० पूँछना] दे० 'पूछताछ'।

पूछना—क्रि० प्र० [हि० पूँछना] दे० 'पूछना'।

पूछपाछ—सज्ञा स्त्री० [हि० पूँछना] दे० 'पूछपाछ'।

पूँछलतारा—सज्ञा पु० [हि० पुच्छल + तारा] दे० 'केतु' या 'पुच्छलतारा'।

पूँछि—सज्ञा स्त्री० [म० पुच्छ] दे० 'पूँछ'। उ०—ते पैं बूटे वाउरे भेंड पूँछि जिन्ह हाथ।—जायसी अ०, पृ० ८७।

पूँजना—क्रि० प्र० [देश०] नए वदर को पकड़ना। (कल्दर)।

पूँजना—क्रि० प्र० [हि०] दे० 'पूजना'। उ०—जिमि मीदामर साहु मिलाही। पूँजि जोग वहु लाभ बढ़ाही।—कवीर सा०, पृ० ४४४।

पूँजी—सज्ञा स्त्री० [म० पुञ्ज] १. किसी व्यक्ति या समुदाय का ऐसा समस्त धन जिसे वह किसी व्यवसाय या काम में लगा सके। किसी की अधिकारमुक्त वह मपसुं सामग्री या वस्तुएँ जिनका उपयोग वह अपनी आमदनी बढ़ाने में कर सकता हो। निर्वाह की आवश्यकता में अधिकांश धन या सामग्री। संचित धन। संपत्ति। जमा। २. वह धन या रुपया जो किसी व्यापार या व्यवसाय में लगाया गया हो। वह धन जिससे कोई कारोबार आरंभ किया गया हो या चलता हो। किसी दुकान, कोठी, कारखाने, बैंक आदि की निज की चर या अचर संपत्ति। मूलधन। उ०—पूँजी पाई माच दिनोदिन होती बढ़नी। सतगुर के परताप भई हैं दौलत चढनी।—पलद०, पृ० ३६।

क्रि० प्र०—लगाना।

मुहा०—पूँजी खोना या गँवाना = व्यापार या व्यवसाय में इतना घाटा उठाना कि कुछ लाभ के स्थान पर पूँजी में से कुछ या कुल देना पड़े। ऐसा घाटा उठाना कि मूलधन की भी हानि हो। भारी घाटा या क्षति उठाना। पूँजीदार या पूँजीवाला = किसी व्यापार या उद्यम में जिसने धन लगाया हो। जिसने मूलधन या पूँजी लगाई हो।

३ धन। रुपया पैसा। जैसे,—इस समय तुम्हारी जेब में कुछ पूँजी मादूम होती है। ४. किसी विशेष विषय में किसी की योग्यता। किसी विषय में किसी का परिज्ञान या जानकारी। किसी विषय में किसी की सामर्थ्य या बल। (बोलचाल में क्व०)। ५. पुज। समूह। डेर। उ०—रतनन की पूँजी प्रति राज। फनक करघनी प्रति छवि छज।—गोपाल (शब्द०)।

पूँजीदार—सज्ञा पु० [हि० पूँजी + फा० टार] दे० 'पूँजीपति'।

पूँजीपति—सज्ञा पु० [हि० पूँजी + म० पति] वह मनुष्य जिसके पास अधिकांश धन हो, जिने अपने किसी काम में लगाया हो अथवा जिसे वह किसी काम में लगावे। पूँजीदार।

पूँजीवाद—सज्ञा पु० [हि० पूँजी + म० वाद] समाज की वह अर्थव्यवस्था जिसमें अधिकाधिक लाभ पर रटि रगनेवाले धनी समुदाय का, उत्पादन और वितरण के साधनों पर, अधिकार हो जाता है। सामाजिक न्यायिता के अनुसार पूँजीवाद सामंतवाद के बाद का चरण है।

पूँजीवादो—वि० [हि० पूँजीवाद] पूँजीवाद को माननेवाला। पूँजीवाद के सिद्धांत का अनुयायी।

पूँठ^①—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पृष्ठ, प्रा० पुठ] पीठ । उ०—पथी उभा पाथ सिर बुगचा बाँधा पूँठ । मरना मुँह आगे खडा, जीवन का सब झूँठ । —कवीर (शब्द०) ।

पूँठारना^१—क्रि० सं० [सं० प्रचारण ?] प्रोत्साहित करना । बढ़ावा देना । ललकारना । उ०—कियो विदा जोधाँ सिरै, नूरमली पुतार । —रा० छ०, पृ० २६६ ।

पूँआ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूष, अपूष] एक प्रकार की पूरी जो आटे को गुड़ या चीनी के रस में घोलकर घी में छानी जाती है । स्वाद के लिये इसमें कतरे हुए मेवे भी छोड़ते हैं । मालपुत्रा । एक पकवान ।

पूकारना^②—क्रि० सं० [हिं०] दे० 'पुकारना' । उ०—कहत हौं ज्ञान पूकारि करि सभन से । देत उपदेश दिल ददं जानी ।—कवीर रे०, पृ० २७ ।

पूखन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोषण] दे० 'पोषण' । उ०—भजे न दूखन कोष छिनहि दिन पूखन होई ।—सुधाकर (शब्द०) ।

पूखन^②—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूषण] सूर्य ।

पूग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सुपारी का पेड़ या फल । उ०—घोटा क्रमुक गुवाक पुनि पूग सुपारी आहि ।—अनेकार्य०, पृ० १०१ । २ ढेरा । अकोल । ३ शहतूत का पेड़ । ४ कटहल । ५ एक प्रकार की कटोरी । ६ भाव । ७. छद । ८ समूह । वृद्ध । ९ किसी विशेष कार्य के लिये बना हुआ सघ । कंपनी ।

विशेष—काशिका में कहा गया है कि भिन्न जातियों के लोग आर्थिक उद्देश्य से जिस सघ में काम करें, वह 'पूग' कहलाता है । जैसे, शिल्पियों या व्यापारियों का पूग । याज्ञवल्क्य ने इस शब्द को एक स्थान पर बसनेवाले भिन्न भिन्न जाति के लोगों की सभा के अर्थ में लिया है ।

पूगकृत—वि० [सं०] १ स्तूप के आकार में स्थापित । स्तूपाकार किया हुआ । जो टीले के आकार का हो । २ सगृहीत । इकट्ठा किया हुआ । ढेर । राशि ।

पूगना^१—क्रि० अ० [हिं० पूजना] पूरा होना । पूजना । जैसे—मिती पूगना । उ०—सकट समाज असमजस में रामराज काज जुग पूगनि को करतल पल भो ।—तुलसी (शब्द०) ।

पूगना^②—क्रि० अ० [हिं० पहुँचना] दे० 'पहुँचना' । उ०—आरभे अति फौज अकारी । दिल्लीपत पूगी दहवारी । —रा० छ०, पृ० ५६ ।

पूगपात्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पीकदान । उगालदान ।

पूगपीठ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पीकदान ।

पूगपुष्पिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] विवाह सबंध स्थिर हो जाने पर दिया जानेवाला पुष्प सहित पान । पानफूल ।

पूगपोट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सुपारी [को०] ।

पूगफल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सुपारी ।

पूगमड—सञ्ज्ञा पुं० [सं० सुगमयड] पाकड । प्लक्ष ।

पूगरोट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का ताड़ । हिताल ।

पूगवैर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सामूहिक शत्रुता । समूह से शत्रुता । अनेक व्यक्तियों में शत्रुता [को०] ।

पूगी^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूगिन्] सुपारी का पेड़ ।

पूगी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूग] सुपारी ।

पूगीफल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूगफल] सुपारी ।

पूग्य—वि० [सं०] सामूहिक [को०] ।

पूचलचर—वि० [हिं० पोष ?] पोष । निदिन कार्य करनेवाला । उ०—बचा हमारे आग तुम क्या पूचलचर हो । श्रोतों का भुगतान सत्र में ही करता ।—भारतेंदु ग्रं०, भा० ३, पृ० ८१४ ।

पूछ—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पूछना] १ पूछने का भाव । जिज्ञासा । २ खोज । चाह । जखरत । तलब । जैसे,—आप वहाँ अवश्य जाइए, वहाँ आपकी सदा पूछ रहती है । ३ आदर । आवाभगत । खातिर । इज्जत । जैसे,—तनिक भी पूछ न होने पर तो तुम्हारे मिजाज का यह हान है, जो कुछ हावी तो न जाने क्या करते । ४ मार्ग । सपत्त । जैसे,—आवकल बाजार में इसकी बड़ी पूछ है ।

पूछगछ्नी, पूछगाछ्नी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पूछताछ' ।

पूछताछ—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पूछना] कुछ जानने के लिये प्रश्न करने की क्रिया या भाव । किसी बात का पता लगाने के लिये बार बार पूछना या प्रश्न करना । शतचीत करके किसी विषय में खोज, अनुसंधान या जाँच पड़ताल । जिज्ञासा । जैसे,—घटो पूछताछ करने के बाद तब इस मामले में इतना पता चलता है ।

पूछना—क्रि० सं० [सं० पूच्छण] १ कुछ जानने के लिये किसी से प्रश्न करना । कोई बात जानने की इच्छा से सवाल करना । जिज्ञासा करना । कोई बात दरियापत करना । जैसे,—किसी का नाम पता पूछना, किसी चीज का दाम पूछना । २ सहायता करने की इच्छा से किसी का हाल जानने की चेष्टा करना । खोज खबर लेना । जैसे,—इतने बड़े शहर में गरीबों को कौन पूछता है ? ३ किसी व्यक्ति के प्रति सत्कार के सामान्य भाव प्रकट करना । किसी का कुशल, स्थान आदि पूछना या उससे बैठने आदि के लिये कहना । संबोधन करना । जैसे,—तुम चाहे जितनी देर यहाँ खड़े रहो, तुम्हें कोई पूछनेवाला नहीं ।

मुहा०—बात न पूछना = (१) कुछ जानकर बातचीत न करना । ध्यान न देना । (२) आदर न करना ।

४ आदर करना । गुण'या मूल्य जानना । कद्र करना । किसी लायक समझना । आश्रय देना । जैसे,—इस शहर में तुम्हारे गुण को पूछनेवाले बहुत कम हैं । ५ ध्यान देना । टोकना । जैसे,—तुम बेखटक के चले जाओ, कोई नहीं पूछ सकता ।

पूछपाछ—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पूछना] दे० 'पूछताछ' ।

पूछरी^①—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पूछ+री (प्रत्य०)] १ दुम । २ पीछे का भाग ।

पूजाताछी—सज्ञा स्त्री० [हि० पूछना + अनु० ताछना] पूछने की क्रिया या भाव ।

पूजापाछी—सज्ञा स्त्री० [हि० पूछना + अनु० पाछना] पूछने की क्रिया या भाव ।

पूजापेखी—सज्ञा स्त्री० [हि० पूछना + पेखना] पूछने जांचने की क्रिया या भाव । पूछताछ । उ०—दिग्विजय बाबू ने समझा पूजापेखी करना खामखाह की बात है ।—किन्नर०, पृ० ८२ ।

पूज††^१—वि० [सं० पूज्य] पूजने योग्य । पूजनीय ।

पूज^२—सज्ञा पुं० [सं० पूज्य] देवता । (डि०) ।

पूज^३—सज्ञा स्त्री० [सं० पूजा] १ पूजा । अर्चना । उ०—विना नीव जहँ देहरो विना पूज जहँ देव । विन वाती दीपक जहाँ विन मूरति तहँ सेव ।—राम० धर्म०, पृ० ६१।२, खत्रियो आदि मे वह गणेशपूजन जो विवाह यज्ञोपवीत आदि शुभ कर्मों के पहिले होता है । पूजा ।

पूजक—सज्ञा पुं० [सं०] पूजा करनेवाला । पूजनकर्ता । वह जो पूजन करे ।

पूजकारी†—वि० [सं० पूजा + हिं० करना] पूजा करनेवाला । अर्चना करनेवाला । पूजक । उ०—आत्माराम तजि जड पूजकारी ।—कवीर रे०, पृ० ६ ।

पूजन—सज्ञा पुं० [सं०] [हिं० पूजक, पूजनीय, पूजितव्य, पूज्य] १ पूजा की क्रिया । ईश्वर या किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा, संमान, विनय और समर्पण प्रकट करनेवाला कार्य । देवता की सेवा और वदना । अर्चना । आराधन । २ आदर । समान । खातिरदारी । जैसे, अथितिपूजन । ३ आदर सत्कार की वस्तु ।

पूजना^१—क्रि० सं० [सं० पूजन] १ किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिये यथाविधि कोई अनुष्ठान या कर्म करना । ईश्वर या किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा, संमान, विनय और समर्पण का भाव प्रकट करनेवाला कार्य करना । अर्चना करना । आराधन करना । २ किसी को प्रसन्न या परितुष्ट करने के लिये कोई कार्य करना । भक्ति या श्रद्धा के साथ किसी की सेवा करना । आदर सत्कार करना । ३ वदना करना । सिर झुकाना । बड़ा मानना । समान करना । ४ घूस देना । रिश्वत देना । ५ नया बदर पकड़ना । (कलदर) ।

पूजना^२—क्रि० अ० [सं० पूज्यते, प्रा० पुज्जति] १ पूरा होना । भरना । बराबर हो जाना । कमी न रह जाना । जैसे,—यह हानि इस जन्म मे तो नहीं पूजने की । २ गहराई का भरना या बराबर हो जाना । आसपास के घरातल के समान हो जाना । जैसे, धाव पूजना, गड्ढा पूजना । ३ पटना । चुकता होना । जैसे, ऋण पूजना । ४ पूरा होना । बीतना । समाप्त होना । जैसे, वर्ष, अवधि, मित्राद आदि पूजना ।

पूजनी—सज्ञा स्त्री० [सं०] मादा गौरैया [को०] ।

पूजनीय—वि० [सं०] १ जिसकी पूजा करना कर्तव्य या उचित हो । पूजने योग्य । आराध्य । अर्चनीय । २ आदरणीय । समान योग्य । उ०—पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते । सब मानि-अहि राम के नाते ।—मानस, २।७४ ।

पूजमान—वि० [हिं० पूजना + मान या सं० पूज्यमान] पूज्य । आराध्य । आदरणीय । पूजनीय ।

पूजयितव्य—वि० [सं०] पूजनीय । पूजा योग्य [को०] ।

पूजयिता—सज्ञा पुं० [सं० पूजयितृ] पूजा करनेवाला । पूजक ।

पूजा—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ ईश्वर या किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा, संमान, विनय और समर्पण का भाव प्रकट करनेवाला कार्य । अर्चना । आराधन । २ वह धार्मिक कृत्य जो जल, फूल, फल, अक्षत अथवा इसी प्रकार के और पदार्थ किसी देवी देवता पर चढ़ाकर या उसके निमित्त रखकर किया जाता है । आराधन । अर्चा ।

विशेष—पूजा ससार की प्राय सभी आस्तिक और धार्मिक जातियों में किसी न किसी रूप में हुआ करती है । हिंदू लोग स्नान और शिखावदन आदि करके बहुत पवित्रता से पूजा करते हैं । इसके पंचोपचार, दशोपचार और षोडशोपचार ये तीन भेद माने जाते हैं । गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से जो पूजा की जाती है उसे पंचोपचार, जिसमें इन पाँचों के अतिरिक्त पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, मधुपर्क और आचमन भी हो वह दशोपचार और जिसमें इन सबके अतिरिक्त आसन, स्वागत, स्नान, वसन, आभरण और वदना भी हो वह षोडशोपचार कहलाती है । इसके अतिरिक्त कुछ लोग विशेषतः तांत्रिक आदि १८, ३६ और ६४ उपचारों से भी पूजा करते हैं । पूजा के सात्विक, राजसिक और तामसिक ये तीन भेद भी माने जाते हैं । जो पूजा निष्काम भाव से, बिना किसी आडंबर के और सच्ची भक्ति से की जाती है वह सात्विक, जो सकाम भाव और समारोह से की जाय वह राजसिक, और जो बिना विधि, उपचार और भक्ति के केवल लोगो को दिखाने के लिये की जाय वह तामसिक कहलाती है । पूजा के नित्य, नैमित्तिक और काम्य के तीन और भेद माने जाते हैं । शिव, गणेश, राम, कृष्ण आदि को जो पूजा प्रतिदिन की जाती है वह नित्य, जो पूजा पुत्रजन्म आदि विशिष्ट भवसरो पर विशिष्ट कारणों से की जाती है वह नैमित्तिक और जो पूजा किसी अभीष्ट की सिद्धि के उद्देश्य से की जाती है वह काम्य कहलाती है ।

३ आदर सत्कार । खातिर । भावभगत ।

यौ०—पूजा प्रतिष्ठा ।

४ किसी को प्रसन्न करने के लिये कुछ देना । भेंट । रिश्वत । जैसे, पुलिस की पूजा करना, कचहरी के अमलों की पूजा करना । ५ तिरस्कार । दड । ताडना । प्रहार । कुटाई । जैसे,—जबतक इस लडके की अच्छी तरह पूजा न होगी तबतक यह नहीं मानेगा ।

पूजाकर—वि० पुं० [सं०] पूजा करनेवाला [को०] ।

पूजागृह—सज्ञा पुं० [सं०] उपासनागृह । मंदिर । देवालय [को०] ।

पूजाधार—सज्ञा पुं० [म०] पूजा की आधार रूप वस्तुएँ। देवपूजा में विधेय वस्तुएँ। जैसे, जल, विष्णुचक्र, मन्त्र, प्रतिमा, शालग्राम शिलादि।

पूजापाठ—सज्ञा पुं० [म० पूजा + पाठ] मजनपूजन। पूजा। उपासना।

पूजाराधुं—सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पुजारी'।

पूजाहे—वि० [म०] पूजा के योग्य। पूजनाय।

पूजासभार—सज्ञा पुं० [सं० पूजासम्भार] पूजन की सामग्री। पूजा का उपकरण [को०]।

पूजित—वि० [म०] [वि० ली० पूजिता] १. जिसकी पूजा की गई हो। प्राप्तपूजा। आराधित। भवित। समानित। आदृत। २. मान्य। स्वीकृत [को०]। ३. सस्तुत। सस्तुति किया हुआ [को०]।

पूजितपूजक—वि० [म०] समानित का समान करनेवाला [को०]।

पूजितव्य—वि० [म०] पूजा करने योग्य। पूजनीय।

पूजित^१—सज्ञा पुं० [सं०] देवता।

पूजित^२—वि० पूजनीय। पूजा योग्य।

पूजी—सज्ञा स्त्री० [?] घोड़े के मुँह पर का साज [को०]।

पूजोपकरण—सज्ञा पुं० [म०] पूजा की सामग्री।

पूज्य^१—वि० [म०] [वि० ली० पूज्या] १. पूजा योग्य। पूजनीय। २. आदर योग्य। माननीय।

पूज्य^२—सज्ञा पुं० १. ससुर। श्वसुर। २. आदरणीय या मान्य व्यक्ति। पूजनीय व्यक्ति।

पूज्यता—सज्ञा स्त्री० [म०] पूज्य होने का भाव। पूजा के योग्य होना। पूजनीयता।

पूज्यपाद्—वि० [म०] जिसके पैर पूजनीय हो। अत्यंत पूज्य। परमाराध्य। अन्यतः मान्य।

पूज्यपूजा—सज्ञा स्त्री० [सं०] पूजनीय की पूजा करना [को०]।

पूज्यमान^१—वि० [सं०] जिसकी पूजा की जा रही हो। पूजा जाता हुआ। सेव्यमान।

पूज्यमान^२—सज्ञा पुं० सफेद जीरा।

पूटरी—सज्ञा स्त्री० [सं०] ईख के रस की वह अवस्था जो उसके खाँड़ बनने से पहले होती है।

पूटीन—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पूटीन'।

पूठ—सज्ञा पुं० [सं० पृष्ठ, प्रा० पिठ्ठ, पुठ्ठ] १. दे० 'पुठ्ठा'। २. पीठ। पीछा। उ०—आगे शिप सामा खडा दिया जगत कूँ पूठ। -राम० धर्म०, पृ० ५४।

पूठा^१—सज्ञा पुं० [सं० पृष्ठ] दे० 'पुठ्ठा'।

पूठा(पु)^२—क्रि० वि० [हि० पूठ] पीछे। पीछे पीछे। उ०—कायर जन पूठा फिरे, सुन पहुँचै कोई सूर।—दरिया०, पृ० १७।

पूठि(पु)‡—सज्ञा स्त्री० [सं० पृष्ठ] पीठ। उ०—देखादेखी पकरिया गई छिनक के छूटि। कोई विरला जन ठहरे जाकी ठकोरी पूठि।—कवीर (शब्द०)।

पूडा—सज्ञा पुं० [म० पूष] दे० 'पूषा'।

पूड़ी—सज्ञा स्त्री० [म० पूलिका, परिडा, पुटिका, हि० पूरी] १. तबने या घृदण पर मढ़ा हुआ गान चमड़ा। २. दे० 'पूरी'।

पूण^१—सज्ञा पुं० [टि०] पत्यर।

पूण^२—सज्ञा स्त्री० [म० पूण्ड्र] पूण्ड्रमा। पूण्ड्रगामी।

पूत^१—वि० [म०] १. परिश्र। मुद्रम। सुरि। २. निम्नुगित। साफ किया हुआ। कूट पत्थोरम- नाक रिता हुआ (ने०)। ३. निर्मित। रचित। आविष्कृत (ने०)। ४. दुर्गंधयुक्त (को०)। ५. कुन प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त किया हुआ (ने०)।

पूत^२—सज्ञा पुं० [सं०] १. तत्व। २. जग। ३. नकेर कुन। ४. पत्ताम। ५. तिल का पट। ६. गढ़ अन्न जिसकी भूमि निवास की गई हो। ७. जलाशय। ८. विरगत का वृक्ष (राज-विपटु)।

पूत^३—सज्ञा पुं० [म० पुत्र, प्रा० पुत्त] देता। गढ़का। पुन। उ०—पूत परम प्रिय तुम्ह गवही के।—मानस, २५६।

पूत^४—सज्ञा पुं० [सं०] चूल्हे के दोनों किनारे की शीश के वे नुकीले उभा-जिनके नहारे पर तना या धीर बतता रहते हैं।

पूतकता—सज्ञा स्त्री० [सं०] एक वैदिक रुद्रि की स्त्री का नाम।

पूतकतायी—सज्ञा स्त्री० [सं०] इक्षवती। शची। उदासी।

पूतकतु—सज्ञा पुं० [म०] उदर।

पूतगध—सज्ञा पुं० [म० पूतगन्ध] काशी वर्तनी तुलसी। वर्तनी।

पूतडा—सज्ञा पुं० [हि० पूत + डा (प्रत्यय०)] वह छोटा बिछोना जो बच्चों के नीचे इसलिये बिछाया जाता है कि बड़ा बिछोना मल मूत्रादि से बचा रहे।

मुहा०—पूतकों के अमीर—जन्म के अमीर। पैदाशुकी धनी या रईस। खानदानो या पुष्टी की अमीर।

पूतकृष्ण—सज्ञा पुं० [सं०] सफेद कुन।

पूतदारु—सज्ञा पुं० [म०] पत्ताम। ढाक।

पूतद्रु—सज्ञा पुं० [म०] १. ढाक। पत्ताम। २. तदित। गेरू का पेठ। ३. देवदार।

पूतधान्य—सज्ञा पुं० [सं०] तिल।

पूतन—सज्ञा पुं० [सं०] १. वेधक के अनुसार गुदा में होनेवाला एक प्रकार का रोग। २. वेताल।

पूतना—सज्ञा स्त्री० [म०] १. एक दानवी जो कस के भेजने से घालक श्रीकृष्ण को मारने के लिये गोकुल आई थी।

विशेष—इसने अपने स्तनो पर इसलिये विष लगा लिया था कि श्रीकृष्ण दूध पीकर उसके प्रभाव से मर जाय। परंतु कथा है कि श्रीकृष्ण पर विष का नो कुछ प्रभाव न पड़ा उल्टे उन्होंने इसका सारा रक्त बूमकर इसी को मार डाला। यह भी कथा है कि मरने के समय इतने बहुत अधिक लवा चौड़ा शरीर धारण कर लिया था और जितनी दूर में वह गिरी उतनी दूर की जमीन घँस गई थी। बकासुर, वत्सासुर, और अघासुर नाम के इसे तीन भाई थे।

२. सुश्रुत के अनुसार एक बालग्रह या बालरोग।

विशेष—यह बालघातक रोग है। इसमें बच्चे को दिन रात में कभी अच्यो नींद नहीं आती। पतले और मैले रंग के दस्त होते रहते हैं। शरीर से बौबे की सी गंध आती है, बहुत प्यास लगती और कै होती है तथा रोगटे खड़े रहते हैं।

३. कार्तिकेय की एक मातृका का नाम। ४ एक योगी का नाम। ५ पीली हड। ६ गधमासी। सुगंध जटामासी।

पूतनारि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूतना को मारनेवाला, श्रीकृष्ण।

पूतनासूदन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] श्रीकृष्ण।

पूतनाहड—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूतना + हिं० हड] छोटी हड।

पूतनाहन्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] श्रीकृष्ण [को०]।

पूतनिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पूतना - १'।

पूतपत्नी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] तुलसी [को०]।

पूतपाप—पिं० [सं०] पाप से मुक्त [को०]।

पूतफल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बटहल। पनस।

पूतभूत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन काल का एक वरतन जिसमें सोमरस रखा जाता था।

पूतमति^१—वि० [सं०] जिसकी बुद्धि पवित्र हो। शुद्धचित्त। पवित्र अत करणवाला।

पूतमति^२—सञ्ज्ञा पुं० शिव का एक नाम।

पूतर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ जलीय प्राणी। जलचर। जलजीव। २ साधारण व्यक्ति। [को०]।

पूतरा^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पुतला] दे० 'पुतला'। उ०—और देह कागद को पूतरा पवन बस उडयो चलयो आवत होई।—दो सो वावन०, भा०१, पृ० २६४।

पूतरा^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुत्र] पुत्र। लडका। बाल बच्चा। उ०—हम पहले ते भी मुआ, हम भी चलनेहार। हमरे पाछे पूतरा तिन भी वांधा भार।—कवीर (शब्द०)।

पूतरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पुतली'। उ०—जैसे सूतर पूतरी चित्रकार चित्राम। मैं अनाथ ऐसे सदा तुम इच्छा सोइ राम।—राम० धर्म०, पृ० २७५।

पूता^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ दूब। २ दुर्गा [को०]।

पूता^२—वि० स्त्री० पवित्र। शुद्ध।

पूतात्मा^१—वि० [सं० पूतात्मन्] जिसकी आत्मा पवित्र हो। पवित्रचित्त। शुद्ध अत करण का।

पूतात्मा^२—सञ्ज्ञा पुं० १ विष्णु। २ सत महात्मा [को०]।

पूति^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पवित्रता। शुचिता। २ दुर्गंध। बदबूदार। उ०—जनम जनम ते अपावन असाधु महा, अपरस पूति सो न छाई अजो छूति को।—घनानंद, पृ० १६८। ३. गधमार्जार। मुषक विलाव। ४. रोहिष सोधिया। रोहिष तृण। ५ गदा पानी [को०]। ६ पीव। पूय [को०]।

पूति^२—वि० दुर्गंधयुक्त। बदबूदार [को०]।

पूतिकंटक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूतिकण्टक] हिगोट।

पूतिक^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ दुर्गंध करज। कांटा करज। पूति करज। २. विष्ठा। पाखाना। गू।

पूतिक^२—वि० दुर्गंधयुक्त। बदबूदार।

पूतिकन्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पुदीना।

पूतिकर्ण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कान का एक रोग जिसमें भीतर फुसी या सत होने के कारण बदबूदार पीप निकलने लगती है।

पूतिकर्णक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूतिकर्ण रोग।

पूतिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पोय या पोई का साग। २ एक प्रकार की शहद की मक्खी। ३ विल्ली।

पूतिकामुख—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] घोघा। शबूक।

पूतिकाष्ठ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ देवदार। २ धूप सरल। सरल वृक्ष।

पूतिकाष्ठक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पूतिकाष्ठ'।

पूतिकाह्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दुर्गंध करज। पूति करज।

पूतिकोट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार की शहद की मक्खी। पूतिका।

पूतिकेशर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ नागकेशर। २ मुषक विलाव। गध मार्जार।

पूतिकेश्वरतीर्थ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शिवपुराण में वर्णित एक तीर्थस्थान।

पूतिगध—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूतिगन्ध] १ रांगा। २ हिगोट या गोदी। इगुदी। ३ गधक। ४ दुर्गंध। बदबू।

पूतिगधा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूतिगन्धा] बकुची। वावची। सोमराजी।

पूतिगधि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूतिगन्धि] दुर्गंध। बदबू।

पूतिगधिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूतिगन्धिका] १ वावची। बकुची। २ पोय। पूतिका शाक।

पूतिवास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सुश्रुत में वर्णित मृग की जाति का एक जंतु।

पूतिवैला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] ज्योतिष्मती। मालकगनी [को०]।

पूतिदला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] तेजपत्ता।

पूतिनस्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह रोग जिसमें श्वास अथवा नाक और मुँह से दुर्गंध निकलती है।

विशेष—सुश्रुत के मत से इस रोग का कारण गले और तालु-मेल में दाषो का संचय होकर वायु को पूतिभावयुक्त या दुर्गंधित कर देता है।

पूतिनासिक—पिं० [सं०] जिसे पूतिनस्य रोग हुआ हथा हो। जिसके नाक या श्वास से दुर्गंध निकलती हो। पूतिनस्य रोगी।

पूतिपत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सोनापाठा। २. पीला लोष। पीतलोघ्न।

पूतिपत्रिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पसरन। प्रसारिणी लता।

पूतिपर्या—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दुर्गंध करज। पूति करज।

पूतिपर्याक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूतिपर्यां।

पूतिपल्लवा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] बड़ा करेला ।
 पूतिपुष्प—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] गोदी । इगुदी वृक्ष ।
 पूतिपुष्पिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] चकोतरा नीवू ।
 पूतिफल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बावची । सोमराजी ।
 पूतिफला—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं०] बावची ।
 पूतिफली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] बावची [को०] ।
 पूतिभाव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सडने की स्थिति या दशा । सडने का भाव या क्रिया [को०] ।
 पूतिमज्जा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] गोदी । इगुदी वृक्ष ।
 पूतिमयूरिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ बर्वरी । २ बनतुलसी ।
 पूतिमारुत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ छोटी वेर का पेड़ । २. वेल का पेड़ ।
 पूतिमाष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि ।
 पूतिमुद्गला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] रोहिण सोधिया । रोहिण वृष ।
 पूतिमूपिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं०] छत्रोदर ।
 पूतिमृत्तिक—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं०] पुराणानुसार इकतीस नरको में से एक नरक का नाम ।
 पूतिमेद—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] दुर्गंध खेर । मरिमेद ।
 पूतियोनि—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] एक प्रकार का योनि रोग ।
 पूतिरक्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक रोग जिसमें नाक में से दुर्गंधियुक्त रक्त निकलता है ।
 पूतिरज्जु—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं०] एक लता ।
 पूतिवक्र—पिं० [मं०] जिसके मुँह से दुर्गंध आती हो [को०] ।
 पूतिवर्वरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं०] बनतुलसी । जगली तुलसी । काली बर्वरी ।
 पूतिवात—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] १ वेल का पेड़ । विल्व वृक्ष । २ गदी वायु । दुर्गंधयुक्त वायु [को०] ।
 पूतिवाह—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] विल्व वृक्ष । वेल का पेड़ [को०] ।
 पूतिवृक्ष—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] सोना पाठा । श्योनाक वृक्ष ।
 पूतिव्रण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह फोड़ा जिसमें मवाद हो । मवाद देने-वाला फोड़ा [को०] ।
 पूतिशाक—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] मगस्त । बकवृक्ष ।
 पूतिशारिजा—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं०] बनविलाव ।
 पूतिस्त्रजय—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूतिस्त्रजय] १ एक प्राचीन जनपद या देश । २ उक्त देश के निवासी ।
 पूती—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पोत (= गड्ढा)] १ जड़ जो गांठ के रूप में हो । २ लहसुन की गांठ ।
 पूतीक—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] १ दुर्गंध या बाँटा करज । २ गधमाजरी । मुरक विलाव ।
 पूतीकरज—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूतीकरज] बाँटा करज ।
 पूतीका—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं०] पोय । पोई । पूतिका शाक ।
 पूतीकारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ सरस्वती देवी का एक नाम । २. नागों की राजधानी ।

पूत्यंड—सञ्ज्ञा पुं० [मं० पूत्यण्ड] १ वह हिरन जिमवी नाभि से कस्तूरी निकलती है । २ एक त्रद्वंद्वार नीडा । नघकीट ।
 पूत्रित—पिं० [सं०] पूजन किया हुआ । पूजित ।
 पूथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चानू का ऊँचा टीला या दूह ।
 पूथा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पूथ' ।
 पूथिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं०] पृथिका शाक । पोई का साम ।
 पूथना^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० फुडरुना] एक पक्षी जो उत्तरी भारत में पाया जाता है ।
 विशेष—इसका रंग प्रायः भूरा होता है, परंतु अनुमेद के अनुसार कुछ कुछ बदलता रहता है । इसका ज़ोर प्रायः मात इंच सवा होता है । यह जमीन पर चला करता है और घास का घोंसला बनाने में रहता है ।
 पूथना^२—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पौथनह् हिं० पुथीना] १ 'पुथीना' ।
 पून^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ जगली बादाम का पेड़ जो भारत के पश्चिमी किनारे पर होता है ।
 विशेष—इसके फूल और पत्तियाँ दवा के काम आती हैं और फल में से तेल निकाला जाता है । इस वृक्ष में एक प्रकार का गोद निक्षलता है ।
 २ कालपून नामक वृक्ष जिसकी लकड़ी इमारत बनाने के काम में आती है । इसके बीजों से एक प्रकार का तेल भी निकलता है । ३ तलवार की मुठिया का नीचेवाला सिरा ।
 पून^२—सञ्ज्ञा पुं० [पुण्य, प्रा० पुन्न] दे० 'पुण्य' ।
 पून^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूण] दे० 'पूण' । उ०—तैसोई लहंगा बन्यो सिलसिलो पूणमासी की पून री ।—नददास (शब्द०) ।
 पूनव—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पूनी] दे० 'पूनी' या 'पूणिमा' ।
 पूनसलाई—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पूनी + सलाई] वह पतली लकड़ी जिमपर रूई की पूनियाँ कातने के लिये बनाते हैं ।
 पूना—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ कनपून या पून नाम का नदाबहार पेड़ । २ एक प्रकार की ईल ।
 पूनाकाँ—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] तेलहन में की बची हुई सोंठी । खली ।
 पूनिडँ, पूनिवँ(पु)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूणिमा] दे० 'पूनी' । उ०—पदमावति भय पूनिवँ कला । चौगह चाँद उग्रा सिधला ।—जायसी ग्रं०, पृ० ३५० ।
 पूनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिन्डिका] धुनी हुई रूई की वह बत्ती जो चरखे पर सूत कातने के लिये तैयार की जाती है ।
 पूनी^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूणिमा] पूणिमा । पूणमासी । शुक्ल पक्ष की पंद्रहवीं या चंद्रमास की अंतिम तिथि ।
 पून्यो—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूणिमा] दे० 'पूनी' । उ०—पून्यो प्रगट नभ भा उज्यारा बुधि पिड मरीर ।—रामानंद०, पृ० १६ ।
 पूप—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूप, अन्प] पूपा या मालपुपा नाम का नीठा पकवान ।
 पूपला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्राचीन काल का एक प्रकार का मीठा पकवान ।
 पूयाँ—पूयाँतिका । पूयाँती । पूयाँडा । पूयाँका ।
 पूपली^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पूपला' ।

पूपली—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] १ पौली नली । २ बच्चो के खेलने का काठ का बहुत छोटा खिलौना जो छोटी डंठी के आकार का होता है और जिसके दोनो सिरे कुछ मोटे होते हैं । ३ बांस आदि में से काटी हुई वह छोटी खोखली नली जिसमें देसी पखो की डठी का अन्तिम भाग फँसाया रहता है और जिसके सहारे पखा सहज में चारो ओर घुमा करता है ।

पूपशाला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह स्थान जहाँ पूप आदि पकवान रखा जाता हो ।

पूपालिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पूपला' [को०] ।

पूपाली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पूप । मालपुमा ।

पूपाष्टका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पूस के कृष्णपक्ष की अष्टमी ।

विशेष—बिधितत्त्व के अनुसार इस दिन मालपूए से आद्र किया जाना चाहिए ।

पूपिक, पूपिका—सञ्ज्ञा पुं० [म०] पूमा, पूरी आदि पकवान ।

पूब(५)—वि० [सं० पूर्व] पुराना । प्राचीन । पूर्व । उ०—कहँ वीर कवि यह तुम पूब कथा कहँ मडि ।—पृ० रा०, २४।४१३ ।

पूय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पीप । मवाद ।

पूयउदश—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] भोजपत्र की जाति का एक वृक्ष ।

विशेष—यह वृक्ष खसिया पहाडी और वरमा में होता है । इसकी छाल मन्नीपुर आदि के जगली लोग खाते हैं और पानी के घड़े पर उसकी मजदूती के लिये लपेटे हैं ।

पूयका—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार एक प्रेतयोनि ।

विशेष—इस प्रेतयोनि में मरने के उपरांत वे वैश्य जाते हैं जो अपने धर्म से च्युत होते हैं । कहते हैं, ऐसे प्रेतो का आहार पीप है ।

पूयकुंड—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूयकुण्ड] पुराणानुसार एक नरक का नाम ।

पूयन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मवाद । पूय [को०] ।

पूयप्रमेह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का रोग जिसमें पीप के समान मूत्र होता है, अथवा जिसमें मूत्र में से पीप के समान दुर्गंध पाती है ।

पूयरक्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नाक का एक रोग जिसमें रक्तपित्त की अधिकता अथवा माथे पर चोट आने के कारण नाक में से पीप मिला हुआ लहू निकलता है ।

पूयबह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक नरक का नाम ।

पूयशोणित—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नाक का एक रोग । दे० 'पूयरक्त' [को०]

पूयस्त्राव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सुश्रुत के अनुसार आँखो का वह रोग जिसमें उसका सधिस्थान पक जाता है और उससे पीप बहने लगती है ।

पूयारि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नीम । निंब ।

पूयालस—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] आँखो का एक रोग जिसमें उसकी पुतली की सधि में शोध होने के कारण वह स्थान पक जाता है और उसमें से दुर्गंधयुक्त पीप निकलती है ।

पूयालसक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पूयालस' ।

पूयोद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक नरक का नाम ।

पूर^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ दाढ़ अंगर । दाहागुघ । २ बाढ । ३ धाव । पूरा होना या भरना । ब्रह्मशुद्धि । ४ प्राणायाम में पूरक की क्रिया । विशेष—'पूरक' । ५ प्रवाह । धारा । उ०—जमुना पूर परम सुखदायक । दरस परस सरसत ब्रजनायक ।—घनानंद, पृ० १८७ । ६ खाद्यविशेष । एक प्रकार का पक्वान्न (को०) । ७ जलाशय । तालाव (को०) । ८ नीवू । विजौरा नीवू (को०) ।

पूर^२—वि० [सं० पूर्ण] १ दे० 'पूर्ण' । २. वे मसाले या दूसरे पदार्थ जो किसी पकवान के भीतर भरे जाते हैं । जैसे, समोसे का पूर ।

पूर^३—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पूला] १ घास आदि का बँधा हुआ मुट्टा । पूला । पूलक । २ फसल की उपज की तीन बराबर बराबर राशियाँ जिनमें से एक जमीदार और दो तिहाई काश्तकार, लेता है । तीकुर । तिकुर । ३. बैलगाडी के अगल बगल का रस्ता ।

पूरक^१—वि० [मं०] पूरा करनेवाला । जिससे किसी की पूर्ति हो ।

पूरक^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्राणायाम विधि के तीन भागों में से पहला भाग जिसमें श्वास को नाक से खींचते हुए भीतर की ओर ले जाते हैं । योगविधि से नाक के दाहिने नथने को बंद करके बाएँ नथने से श्वास को भीतर की ओर खींचना । २ विजौरा नीवू । ३ वे दस पिंड जो हिंदुओं में, किसी के मरने पर उसके मरने की तिथि से दसवें दिन तक नित्य दिए जाते हैं ।

विशेष—कहते हैं, जब शरीर जल जाता है तब इन्हीं पिंडो से मृत व्यक्ति के शरीर की पूर्ति होती है और इसी लिये इन्हें पूरक कहते हैं । पहले पिंड से मस्तक, दूसरे से आँखें, नाक और कान, तीसरे से गला, चौथे से बाँहें और छाती इसी प्रकार अलग अलग पिंडों से अलग अलग अंगों का बनना माना जाता है ।

४ वह अन्न जिसके द्वारा गुणा किया जाता है । गुणक अन्न । ५ वह अन्न जो किसी बीज को कमी को पूरा करने के लिये रखा जाय । जैसे, पूरक (सप्लिमेंटरी) परीक्षा ।

पूरण^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ भरने की क्रिया । परिपूर्ण करने की क्रिया । २ पूरा करने की क्रिया । समाप्त या तमाम करना । ३ कान आदि में तेल आदि भरने की क्रिया । ४ अंको का गुणा करना । अंकगुणन । ५ पूरक पिंड । दशाह पिंड । ६ मेह । दृष्टि । ७ केवटी । मोथा । ८ सेतु । पुल । ९. एक प्रकार का ब्रह्म या फोडा जो वात के प्रकोप से होता है । १० समुद्र । ११. पुनर्नवा । गदहपूरना । १२ शास्मली वृक्ष (को०) । १३. आयुर्वेदोक्त एक तैल । विष्णु तैल (को०) । १४. एक पक्वान्न । खाद्यविशेष (को०) । १५ खीचना । आकृष्ट करना । जैसे, घनुष । १६ सज्जित करना । सजाना (को०) ।

पूरण^२—वि० [सं०] १. पूरक । पूरा करनेवाला । २ संख्या-

क्रम बतानेवाला (को०) । ३ प्रभातकारी । ४ सतुष्टि देनेवाला (को०) ।

पूरण (पु) — वि० [सं० पूरण] पूरा । पूर्ण ।

पूरणहार (पु) — वि० [सं० पूरण + हि० हारा (प्रत्य०)] पूरा करनेवाला (ईश्वर) । उ०—दाहू पूरणहारा पूरसी, जो चित रहसी ठाम ।—दाहू०, पृ० ३३६ ।

पूरणी—सखा स्त्री० [सं०] १ सेमर । शात्मली वृक्ष । २ भगवती दुर्गा का एक नाम (को०) ।

पूरणीय—वि० [म०] भरने योग्य । परिपूर्ण करने योग्य ।

पूरन (पु) — वि० [सं० पूरण, हि० पूरण] दे० 'पूरण' । उ०—(क) जनु चकोर पूरन ससि लोभा ।—मानस, १।२०७ । (ख) हो सु भले ही कहा कहिये हम आपने पूरन भाग लहे हो ।—घनानंद, पृ० १३६ ।

पूरनकाम (पु) — वि० [सं० पूरणकाम] दे० 'पूरणकाम' । उ०—(क) देउ काह तुम पूरनकामा ।—मानस, ३।२५ । (ख) श्री वसुदेव घाम अभिराम । प्रगटहिं प्रभु पूरनकाम ।—नद० ग्र०, पृ० २२० ।

पूरनचद (पु) — सखा पुं० [सं० पूरणचन्द्र] दे० 'पूरणचंद्र' । उ०—मनु घन पूरनचद, दूर निकट पुनि भावहि ।—नद० ग्र०, पृ० ३६५ ।

पूरनपरव (पु) — सखा पुं० [सं० पूरण + परव] पूरणमासी । उ०—दशपर पूरनपरव विधु उदित समय सजोग । जनकनगर सर, कुमुदगण तुजसी प्रमुदित लोग ।—तुलसी (शब्द०) ।

पूरनपूरी—सखा स्त्री० [सं० पूरण + हि० पूरी] एक प्रकार की मीठी कचौड़ी ।

पूरनमासी—सखा स्त्री० [सं० पूरणमासी] दे० 'पूरणमासी' । उ०—पूरनमासी आदि जो भगल गाइए ।—कवीर श०, भा० ४, पृ० ३ ।

पूरना ^१—क्रि० सं० [सं० पूरण] १ कमी या त्रुटि को पूरा करना । किसी खाली जगह को भरना । पूर्ति करना । उ०—दाहू पूरणहारा पूरसी, जो चित रहसी ठाम । अंतर थे हरि उमगसी सकल निरतर राम ।—दाहू०, पृ० ३३६ । २ ठाँकना । किसी वस्तु को किसी वस्तु से आच्छादित कर देना । उ०—कूह कै कै कर मारे मही सखि कुमन वारन छारन पूरत ।—शमु (शब्द०) । ३ (मनोरथ) नफल करना । सिद्ध करना । (मनोरथ) पूर्ण करना । उ०—सिद्ध गणेश मनावहि विधि पूरे मन काज ।—जायसी (शब्द०) । ४ भगल भ्रवमरो पर आटे, भवीर आदि से देवताओं के पूजन आदि के लिये चौखूँटे क्षेत्र आदि बनाना । चौक बनाना । जैसे, चौक पूरना । उ०—साजा पाट छत्र के छाहीं । रतन चौक पूरी तेहि माहीं ।—जायसी (शब्द०) । ५ बटना । जैसे, सेवई पूरना, तागा पूरना । ६ फूँकना । बजाना । उ०—(क) तेहि वियोग सिंगी नित पूरी । बार बार किंगरी भइ झूरी ।—जायसी (शब्द०) ।

(ख) किंगरी गहे बजाय झूरी । भोर सान सिंगी नित पूरी ।—जायसी (शब्द०) ।

पूरना—क्रि० अ० पूरण होना । भर जाना । ध्यात हो जाना । उ०—परगट गुपुन नखल गहे पूरि रहा सो नारें । जहे देखो वट देखों दूगर नहि कर जातें ।—जायसी (शब्द०) ।

पूरनानंद (पु) — सखा पुं० [सं० पूरणानंद] दे० 'पूरणानंद' । उ०—प्रलय आयत एक रस परिपूर्ण है ताही तें परनानंद धनभौ ते पायो है ।—सुंद० ग्र०, भा० २, पृ० ६२२ ।

पूरनिमा (पु) — सखा स्त्री० [सं० पूरनिमा] पूरणमासी तिथि ।

पूरव ^१—सखा पुं० [सं० पूरव] वह दिशा जिसमें सूर्य का उदय होता है । मध्याह्न से पहले सूर्य की ओर मुँह करने पर सामने पड़नेवाली दिशा । पश्चिम के विपक्ष दिशा । पूर्व । प्राची ।

पूरव (पु) ^२—वि० 'पूर्व' ।

पूरव (पु) ^३—क्रि० वि० 'पूर्व' ।

पूरवल (पु) ^४—सखा पुं० [हि० पूरवला] १ प्राचीन समय । पुराना जमाना । २ पूर्वजन्म । दम जन्म से पहलेवाला जन्म ।

पूरवला (पु) ^५—वि० पुं० [म० पूर + हि० ला (प्रत्य०)] [वि० स्त्री० पूरवली] १ प्राचीन जमाना । पुगना । २. पूर्वजन्म का । पहले जन्म का । उ०—(क) वष्टु करनी वष्टु करम गति वष्टु पूरवला लेम । देगो भाग कवीर का दोसत किमा अनेस ।—कवीर (शब्द०) । (ख) जोरे झूली ससम को गवहू न किया विषाग । मतगुर साहेव नताइया पूरवला नरतार ।—कवीर (शब्द०) । (ग) मेरो सरूप नहीं यह व्याधि है पूरवली अंग के संग जाये । का मैं कहीं पर बाहर होत ही लागत दीठि विलख न लागे ।—रघुनाथ (शब्द०) ।

पूरववत (पु) — क्रि० वि० [हि० सं० पूरववत्] दे० 'पूर्ववत्' । उ०—हम सब तो वहु बतसर लो पूरववत हो जो ।—प्रेमधन०, भा० १, पृ० ५६० ।

पूरविया ^१—सखा पुं० [हि० पूरव + इया (प्रत्य०)] दे० 'पूरवी' । **पूरवी** ^२—वि० [हि० पूरव + ई (प्रत्य०)] पूरव का । पूरव संबधी । जैसे, पूरबी दादरा, पूरवी हिंदी, पूरबी चावल आदि ।

पूरवी ^३—सखा पुं० एक प्रकार का दादरा । दे० 'पूर्वी—२' ।

पूरवी ^४—सखा पुं० पूरव के रहनेवाले लोग ।

पूरवी ^५—सखा स्त्री० पूरवी नाम की गनी । विशेष—दे० 'पूर्वी' ।

पूरयितव्य—वि० [सं०] पूरा करने के योग्य । पूरणीय ।

पूरयिता ^१—सखा पुं० [सं० पूरयितृ] १ पूर्णकर्ता । पूरक । पूर्ण करनेवाला । २ पिण्ड का एक नाम ।

पूरयिता ^२—वि० १. पूर्ण करनेवाला । पूरक । २ संतुष्टिकर । सतोष देनेवाला (को०) ।

पूरा—वि० पुं० [सं० पूरण] [वि० स्त्री० पूरी] १ जो खाली न हो । भरा । परिपूर्ण । २ जिसका प्रथम या विभाग न किया गया हो अथवा जिसके टुकड़े या विभाग न हुए हो । सम्पूरा । सोलह घाना । समग्र । समस्त । सकल । ३ जिसमें कोई

कमी या कसर न रह गई हो । पूर्ण । कामिल । जैसे, पूरा मर्द, पूरा अधिकार, पूरा दबाव आदि ।

क्रि० प्र०—पढ़ना ।—उतरना ।—डालना ।—होना ।

४ भरपूर । यथेच्छ । काफी । बहुत । जैसे—मेरे पास पूरा सामान है, डरने की कोई बात नहीं ।

मुहा०—किसी बात का पूरा = (१) जिसके पास कोई वस्तु यथेष्ट या प्रचुर हो । जैसे विद्या का पूरा, बल का पूरा ।

(२) पक्का । दृढ़ । मजबूत । अटल । जैसे, बात का पूरा, वादे का पूरा । किसी का पूरा पढ़ना = कार्य पूर्ण हो जाना ।

सामग्री न घटना । सामग्री की कमी से बाधा न आना । जैसे—

(क) मैं समझता हूँ कि इतनी सामग्री से तुम्हारा सब काम पूरा पड़ जायगा । (ख) जाओ, तुम्हारा कमी पूरा न पड़ेगा ।

५ संपन्न । पूर्ण । संपादित । कृत । जिसके किए जाने में कुछ कसर न रह गई हो । जैसे, काम पूरा होना । (इसका व्यवहार प्राय 'करना' क्रिया के साथ होता है ।)

क्रि० प्र०—करना ।—होना ।

मुहा०—(कोई काम) पूरा उतरना = अच्छी तरह होना ।

जैसा चाहिए वैसा ही होना । जैसे—काम पूरा उतर जाय तो जानें । बात पूरी उतरना = ठीक निकलना । सत्य उतरना । सच होना । जैसा कहा गया हो वैसा ही होना । दिन पूरे करना = (१) समय बिताना । किसी प्रकार कालक्षेप करना ।

(२) किसी अवधि तक समय बिताना । जैसे, बसवास के दिन पूरे करना । (दिन) पूरे होना = अंतिम समय निकट आना । जैसे, अब उनके दिन पूरे हो गए ।

६ तुष्ट । पूर्ण । जैसे,—हमारी इच्छाएँ पूरी हो गईं ।

पूराम्ब—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विषाविल । वृक्षाम्ल । महाम्ल ।

पूरि०—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पूरी—१' । उ०—लुबुई पूरि सोहारी परी । एक ताती ओ सुठि कोवरी ।—जायसी ग्र० (गुप्त०), पृ० ३१३ ।

पूरिक—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कचीड़ी [को०] ।

पूरिका—सञ्ज्ञा [सं०] कचीड़ी ।

पूरिणी—वि० स्त्री० [सं० पूरिन्] पूर्ण करनेवाली । तृप्त या तुष्ट करने वाली । उ०—फिर क्या तेरा घाम स्वर्ग है, जो तप बल से प्राप्त । होती है वासना पूरिणी वहीं अप्सरा प्राप्त ।

—हिम०, पृ० ५० ।

पूरित—वि० [सं०] १ भरा हुआ । परिपूर्ण । लवालब । २ तृप्त । ३ गुणा किया हुआ । गुणित ।

पूरिबला०—वि० पुं० [हि० पूरव] दे० 'पूरवला' । उ०—कामी कदे न हरि भजे, जपे न केसो जाप । राम कहाँ ये जलि मरे, को पूरिबला पाय ।—कवीर ग्र०, पृ० ४१ ।

पूरिया—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] षाडव जाति का एक राग जो सध्या समय गाया जाता है । इसमें पंचम स्वर वजित है । किसी के मत से यह भरव राग का पुत्र और किसी के मत से सकर राग है ।

पूरियाकल्याण—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पूरिया + कल्याण (राग)] सपूर्ण जाति का एक सकर राग जिसके गाने का समय रात का पहला पहर है ।

पूरी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूरिका, पूरिका] १ एक प्रकार का प्रसिद्ध पकवान जिसे साधारण रोटी आदि की तरह महीन बेलकर खोलते घी में छान लेते हैं । २ मृदग, तबले, ढोल आदि के मुँह पर मड़ा हुआ गोल चमड़ा ।

क्रि० प्र०—चढ़ना ।—चढ़ाना ।—मदना ।

३ घास, ज्वार आदि की पूली ।

पूरी^२—वि० स्त्री० [हि०] 'पूरा' शब्द का स्त्रीलिंग रूप । (मुहावरो आदि के लिये दे० 'पूरा' ।)

पूरी^३—वि० [सं० पूरिन्] पूरा करनेवाला । पूर्ण करनेवाला [को०] ।

पूरीकरण—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पूरी + करना (= करना)] १ पूरा करने का भाव । २. पूर्णता । उ०—तुम्हारी प्रेरणा से मैं ध्वनित हो उठता हूँ, और उस ध्वनि की प्रेरणा से हमारी चिरतन प्रणय कामनाएँ पूरीकरण में लीन हो जाती हैं ।

—चिंता, पृ० ३६ ।

पूरु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मनुष्य । २ वैराज मनु के एक पुत्र का नाम । ३ जह्नु के एक पुत्र का नाम । ४ एक राक्षस का नाम ।

पूरुजित्—सञ्ज्ञा पुं० [म०] विष्णु का एक नाम ।

पूरुवः—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर्व] दे० 'पूरव' ।

पूरुष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पुरुष । २ आत्मा ।

पूरुण^१—वि० [सं०] १ पूरा । भरा हुआ । परिपूर्ण । पूरित । २ जिसे इच्छा या अपेक्षा न हो । अभावशून्य । ३ जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो । आप्तकाम । परितृप्त । ४ भरपूर । जितना चाहिए उतना । यथेष्ट । काफी । ५ समूचा । अखण्डित । सकल । ६ समस्त । सारा । सब का सब । ७ सिद्ध । सफल । ८ जो पूरा हो चुका हो । समाप्त । जैसे,—

उसका दड काल पूर्ण हो गया । ९ बीता हुआ । व्यक्ति । अतीत (को०) १० शक्तियुक्त ।

पूरुण^२—सञ्ज्ञा पुं० १ एक गधर्व का नाम । २ एक नाग का नाम । ३ बौद्ध शास्त्र के अनुसार मैत्रायणी के एक पुत्र का नाम । ४. जल । ५ विष्णु ।

पूरुण्यतीत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ताल (सगीत) में वह स्थान जो 'सम अतीत' के एक मात्रा के बाद आता है । यह स्थान भी कभी कभी सम को काम देता है ।

पूरुणक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मुर्गा । कुक्कुट । ताम्रचूड । २ देवताओं की एक योनि । ३. चाष या चाख पक्षी (को०) । ४ दे० 'पूरुण' ।

पूरुणककुत—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूरुणककुद्] कुहानदार बछड़ा । युवा बछड़ा । उ०—जब तक बछड़ा बड़ा नहीं हो जाता था अर्थात् उसकी पीठ पर डिल नहीं निकल आता था तबतक वह अजातककुत और युवा हो जाने पर पूरुणककुत कहलाता था ।—संपूर्णनिद अभि० ग्र०, पृ० २४६ ।

पूरुणकाम^१—वि० [म०] १ जिसे किसी बात की कामना या चाह न रह गई हो । जिसकी सारी इच्छाएँ तृप्त हो चुकी हो । आप्तकाम । २. निष्काम । कामनाशून्य ।

पूर्णकाम^२—सञ्ज्ञा पुं० परमेश्वर ।

पूर्णकाल आधि—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] वह गिरवी जिसके रखने का समय पूरा हो गया हो ।

पूर्णकालिक—वि० [म० पूर्ण + कालिक] पूरे समय तक । पूरे समय का ।

पूर्णकाश्यप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वीद्वशास्त्रो के अनुसार एक प्रसिद्ध तीर्थिक । भगवान् बुद्ध ने जिन छह तीर्थिको को पराजित किया था उनमें एक ये भी थे ।

विशेष—बुद्ध से पहले ही इन्होंने अपने मत का प्रचार आरम्भ कर दिया था और बहुत से लोग उनके अनुयायी हो गए थे । साधारण लोगो से लेकर भगवत् के राजा तक इनपर भक्ति और श्रद्धा रखते थे । भूटान में मिले हुए एक बौद्ध ग्रन्थ के अनुसार ये उपर्युक्त छहों तीर्थिको से प्रधान थे । ये कोई कपडा नहीं पहनते थे, नंगे बदन घूमा करते थे, ये कहते थे, जगत् अनन्त भी है और सात भी, अक्षय भी है, क्षयशील भी, असीम भी है और ससीम भी, चित्त और देह भिन्न भी हैं और अभिन्न भी । परलोक का अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों ही है । पर जन्म नहीं है, इस जन्म में ही जीव का शेष, ध्वंस या मृत्यु होती है । मरने के बाद फिर जन्म नहीं होता । शरीर चार भूतों से ही—क्षिति, अप, तेज और मरुत् से बना है । मृत्यु के पश्चात् वह क्रम से पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु में मिल जाता है । उनके मत से यही परमत्व था । बुद्ध से पराजित होने का इन्हें इतना दुःख हुआ था कि ये गले में बालू से भरा घडा बांधकर डूब मरे । श्रावस्ती और जेतवन में बुद्ध के साथ इनकी मूर्ति भी पाई गई है ।

पूर्णकुम्भ—सञ्ज्ञा पुं० [पूर्णकुम्भ] १ भरा हुआ घडा । २ पानी से भरा हुआ वह घडा जो शुभ की दृष्टि से दरवाजे पर रखा जाता है । ३ दीवार में बना हुआ घडे के आकार का छेद । ४ बुद्ध की एक विशेष विधि [को०] ।

पूर्णकोशा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार की लता ।

पूर्णकोषा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ कचौरी । २ प्राचीन काल का एक प्रकार का पकवान जो जी के आटे का बनता था ।

पूर्णकोष्ठा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] नागरमोथा ।

पूर्णगर्भा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पूरन पूरी । २. वह स्त्री जिसे शीघ्र प्रसव होने की संभावना हो । वह स्त्री जिसे शीघ्र ही सतान होनेवाली हो ।

पूर्णचंद्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर्णचन्द्र] पूर्णिमा का चंद्रमा । अपनी सब कलाओं से युक्त चंद्रमा ।

यौ०—पूर्णचंद्रनिभानन = चंद्रमा की तरह से मुखवाला ।

पूर्णतया—क्रि० वि० [सं०] पूरी तरह से । पूर्ण रूप से ।

पूर्णतः—क्रि० वि० [सं० पूर्णतस्] पूरे तौर से । पूर्णतया ।

पूर्णता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पूर्ण का भाव । पूर्ण होना ।

पूर्णतृण—वि० [सं०] जिसका तरकस वाणो से पूर्ण हो [को०] ।

पूर्णदूर्ध्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ एक वैदिक त्रिया । २. पूर्णिमा ।

पूर्णपरिवत्तक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जीव जो अपने जीवन में अनेक बार अपना रूप आदि बदलता हो । जैसे, तितली ।

पूर्णपर्वेन्दु—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर्णपर्वेन्दु] पूर्णिमा । पूर्णमासी ।

पूर्णपात्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पूरा पात्र । भरा हुआ पात्र । २ पुत्रजन्मादि के उत्सव के समय पारितोषिक या इनाम के रूप में मिले हुए -वस्त्र, अलंकार आदि । ३ सुसवाद लाने-वालो को मिलनेवाला उपहार । अच्छी सूचना लाने पर मिलनेवाला पुरस्कार । ४ वह घडा जो प्राचीन काल में चावलो से भरकर होम या यज्ञ के अंत में ब्रह्मा को दक्षिणा रूप में दिया जाता था । इसमें साधारणतः २५६ मुट्टी चावल हुआ करता था ।

पूर्णप्रज्ञ^१—वि० [सं०] जिसकी बुद्धि में कोई कमी या त्रुटि न हो । पूर्ण ज्ञानी । बहुत बुद्धिमत् ।

पूर्णप्रज्ञ^२—सञ्ज्ञा पुं० पूर्णप्रज्ञदर्शन के कर्ता मध्वाचार्य ।

विशेष—ये वैष्णव मत के सस्थापक आचार्यों में माने जाते हैं । वेदातसूत्र पर इन्होंने 'माध्वाभाष्य' नामक द्वाैतपक्षप्रतिपादक भाष्य लिखा है । हनुमान और भीम के बाद ये वायु के तीसरे अवतार माने गए हैं । अपने भाष्य में इन्होंने स्वयं भी यह बात लिखी है । इनका एक नाम आनन्दतीर्थ भी है ।

पूर्वादर्शन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सर्वदर्शन सग्रह के अनुसार वह दर्शन जिसके प्रवर्तक पूर्णप्रज्ञ या मध्वाचार्य हैं ।

विशेष—इस दर्शन का आधार वेदातसूत्र और उसपर रामानुज कृत भाष्य है । इसके अधिकतर सिद्धांत रामानुज दर्शन के सिद्धांतों से मिलते हैं । दोनों का मुख्य अंतर ईश्वर और जीव के भेदाभेद के विषय में है । इस सबध में रामानुज दर्शन का भेद, अभेद और भेदाभेद सिद्धांत इस दर्शन को स्वीकार नहीं है । इसके मत से जीव और ईश्वर में किसी प्रकार का सूक्ष्म या स्थूल अभेद नहीं है, किंतु स्पष्ट भेद है । उनका सबध शरीरात्म भाव का नहीं है बल्कि सेव्य सेवक भाव का है । अतर्क्यता होने के कारण जीव ईश्वर का शरीर नहीं है, बल्कि उसका सेवक और अधीन है । ईश्वर स्वतंत्र तत्त्व और जीव अस्वतंत्र तत्त्व और ईश्वरायत्त है । इस दर्शन के मत से पदार्थ के तीन भेद हैं—चित् (जीव), अचित् (जड) और ईश्वर । चित् जीवपदवाच्य, भोक्ता, असंकुचित, अपरिच्छिन्न, निर्मल ज्ञानस्वरूप, नित्य, अनादि और कर्मरूप अविद्या से ढंका हुआ है । ईश्वर का आराधन और उसकी प्राप्ति उसका स्वभाव है । (आकार में) वह बाल की नोक के सौंवे भाग के बराबर है । अचित् पदार्थ दृश्यपदवाच्य, भोग्य, अचेतनस्वरूप और विकारशील है । फिर भोग्य, भोगोपकरण और भोगायतन या भोगाधार रूप से इसके भी तीन भेद हैं । ईश्वर हरिपदवाच्य, सबका नियामक, जगत् का कर्ता, उपादान, सकलातर्क्यता, अपरिच्छिन्न और ज्ञान, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, तेज आदि गुणों से संपन्न है ।

इस दशन के अनुसार यह निखिल जगत् अनन्त समुद्रशायी भगवान् विष्णु से उत्पन्न हुआ है। चित् और अचित् सपूर्ण पदार्थ उनके शरीररूप हैं। पुरुषोत्तम, वासुदेवादि उनकी संज्ञाएँ हैं। उपासकों को यथोचित फल देने के लिये लीलावश वे पाँच प्रकार की मूर्तियाँ धारण करते हैं। प्रथम अर्चा अर्थात् प्रतिमादि, द्वितीय विभव अर्थात् रामादि अवतार, तृतीय वासुदेव, सवर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चार सज्ञाकृत व्यूह, चतुर्थ सूक्ष्म और सपूर्ण वासुदेव नामक परब्रह्म, पंचम अर्थात्मी सकल जीवों के नियता उपासक क्रम से पूर्व मूर्ति की उपासना द्वारा पापक्षय करके परमूर्ति की उपासना का अधिकारी होता है। अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय और योग नाम से भगवान् की उपासना के भी पाँच प्रकार हैं। देवमंदिर का मार्जन, अनुलेपन आदि अभिगमन हैं, गंध पुष्पादि पूजा के उपकरणों का आयोजन उपादान, पूजा इज्या, अर्थानुसंधान के सहित मंत्रजप, स्तोत्रपाठ, नामकीर्तन और तत्त्व प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास स्वाध्याय, और देवता का अनुसंधान योग है। इन उपासनाओं के द्वारा ज्ञानलाभ होने पर भगवान् उपासक को नित्यपद प्रदान करते हैं। इस पद को प्राप्त होने पर भगवान् का यथार्थ रूप में ज्ञान होता है और फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। पूर्णप्राप्त के मत से भगवान् विष्णु की सेवा तीन प्रकार की है अकन, नामकरण और भजन। गरम लोहे से दागकर शरीर पर शंख, चक्र आदि के चिह्न उत्पन्न करना अंकन है; पुत्र पौत्रादि के केशव नारायण आदि नाम रखना नामकरण। भजन के कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से तीन प्रकार हैं। फिर इनके भी कई कई भेद हैं,—कायिक के दान, परित्राण और परिरक्षण, वाचिक के सत्य, हित, प्रिय और स्वाध्याय, और मानसिक के दया, स्पृहा और श्रद्धा।

पूर्णाबीज—सज्ञा पुं० [सं०] विजोरा नीवू।

पूर्णभद्र—सज्ञा पुं० [सं०] एक नाग जिसका उल्लेख महाभारत में है।

पूर्णमा—सज्ञा स्त्री० [सं०] पूर्णिमा। पूर्णमासी।

पूर्णमानस—वि० [सं०] सतुष्ट। परितुष्ट [को०]।

पूर्णमास^१—सज्ञा स्त्री० [सं० पूर्णमास] १ पूर्णिमा। २ सूर्य। ३. चंद्रमा।

पूर्णमास^२—सज्ञा पुं० [सं०] १ प्राचीन काल का एक योग जो पूर्णिमा को किया जाता था। पूर्णमास योग। २ घाता का एक पुत्र जो उसकी अनुमति नाम की स्त्री से उत्पन्न हुआ था।

पूर्णमासी—सज्ञा स्त्री० [सं०] चंद्रमास की अंतिम तिथि। शुक्लपक्ष का अंतिम या पंद्रहवाँ दिन। वह तिथि जिसमें चंद्रमा अपनी सारी कलाओं से पूर्ण होता है। पूर्णिमा।

पूर्णमुख—सज्ञा पुं० [सं०] एक नाग जो जनमेजय के सर्पसत्र में जलाया गया था।

पूर्णमैत्रायनीपुत्र—सज्ञा पुं० [सं०] बुद्ध भगवान् के अनुचरों में से एक।

विशेष—ये पश्चिम भारत के सुरपाक नामक स्थान में रहते थे। सूत्र का अभ्यास करनेवाले बौद्ध इनकी उपासना करते थे।

पूर्णयोग—सज्ञा पुं० [सं०] बाहुयुद्ध का एक भेद।

विशेष—महाभारत के अनुसार भीम और जरासंध में यही बाहुयुद्ध हुआ था।

पूर्णरथ—सज्ञा पुं० [सं०] पूरा वीर। पूर्ण योद्धा [को०]।

पूर्णलक्ष्मीक—वि० [सं०] श्री और स पत्ति से संपन्न [को०]।

पूर्णवर्मा—सज्ञा पुं० [सं० पूर्णवर्मन्] मगध का एक बौद्ध राजा जो सच्चाद् अशोक के वंश में अंतिम था।

विशेष—गोहराज शशाक ने बोधिगया के जिस बोधिवृक्ष को नष्ट कर दिया था उसे इसने फिर से सजीवित किया। ह्वेनसांग के भ्रमणवृत्तांत से ज्ञात होता है कि उसके आगमन के पहले ही यह सिंहासन पर बैठ चुका था।

पूर्णवधे—वि० [सं०] पूरे बीस वर्ष की आयु का [को०]।

पूर्णविराम—सज्ञा पुं० [सं०] लिपिप्रणाली में वह चिह्न जो वाक्य के पूर्ण हो जाने पर लगाया जाता है। वाचक के लिये सबसे बड़े विराम या ठहराव का चिह्न या संकेत।

विशेष—अंगरेजी आदि अधिकांश लिपियों में, और उन्हीं के अनुकरण पर मराठी आदि में भी, यह चिह्न एक बिंदु . . . के रूप में होता है, परंतु नागरी, बंगला आदि में इसके लिये खड़ी पाई '।' का व्यवहार होता है।

पूर्णविषम—सज्ञा पुं० [सं०] ताल (संगीत) में एक स्थान जो कभी कभी सम का काम देता है।

पूर्णवैनाशिक—सज्ञा पुं० [सं०] सर्वशून्यवाद को माननेवाला। सर्वशून्यवाद सिद्धांत को माननेवाला बौद्ध [को०]।

पूर्णशैल—सज्ञा पुं० [सं०] एक पर्वत जिसका उल्लेख योगिनी तंत्र में है।

पूर्णश्री—वि० [सं०] श्रीसंपन्न। सोभाग्ययुक्त [को०]।

पूर्णहोम—सज्ञा पुं० [सं०] पूर्णाहुति।

पूर्णांक—सज्ञा पुं० [सं० पूर्णाङ्क] १ पूर्ण संख्या। २ गणित की वह संख्या जो विभक्त न हो सके। ३ प्रश्नपत्र में निर्धारित पूरे अंक [को०]।

पूर्णांगद—सज्ञा पुं० [सं० पूर्णाङ्गद] महाभारत में उल्लिखित एक नाग।

पूर्णाजलि—वि० [सं० पूर्णाञ्जलि] अजुलि भर। जितना अजुली में आ सके।

पूर्णा—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ पंचमी, दशमी, अमावस, और पूर्णिमासी की तिथियाँ। २. चंद्रमा की पंद्रहवी कला या लेखा [को०]। ३ 'दक्षिण भारत की एक नदी।

पूर्णाघात—सज्ञा पुं० [सं०] ताल (संगीत) में वह स्थान जो अनाघात के उपरांत एक मात्रा के बाद आता है। कभी कभी यह स्थान भी सम का काम देता है।

पूर्णात्मावसान—सज्ञा पुं० [सं० पूर्ण + आत्मा + अवसान] आत्मा का पूर्ण उत्सर्ग। आत्मा का पूर्ण विलीनीकरण। उ०—कलाकार की प्रगति निरंतर आत्मोत्सर्ग अथवा पूर्णात्मावसान में ही है।—पा० सा० सि०, पु० ५६।

पूर्णानन्द—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर्णानन्द] परमेश्वर ।

पूर्णानक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ डोल । नगाडा । २. नगाडे की ध्वनि । ३ पात्र । बर्तन । ४ चद्रमा की किरण । ५ दे० पूर्णात्र-२' [को०] ।

पूर्णाभिलाष—वि० [सं०] जिसकी अभिलाषा पूर्ण हो गई हो । परितुष्ट । सतुष्ट [को०] ।

पूर्णाभिषिक्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शाक्तो का एक विशेष वर्ग [को०] ।

पूर्णाभिषेक—वि० [सं०] वाममार्गियों का एक तांत्रिक संस्कार । अभिषेक । महाभिषेक ।

विशेष—यह संस्कार किसी नए साधक के गुरु द्वारा दीक्षित होने के समय किया जाता है और कई दिनों में पूरा होना है । इसमें अनेक क्रियाओं के उपरांत गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देकर वाममार्ग की क्रियाओं और संस्कारों का अधिकारी बनाता है ।

पूर्णाभृता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूर्ण + अमृता] चद्रमा की सोलहवीं कला [को०] ।

पूर्णायु^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूर्णायुस्] १. सौ वर्ष की आयु । सौ वर्ष तक पहुँचनेवाला जीवनकाल । २ पूरा आयु । ३ महाभारत में उल्लिखित एक गधर्व ।

पूर्णायु^२—वि० १ पूरी आयुवाला । जिसने पूरी उम्र पाई हो । २ सौ वर्ष तक जीनेवाला ।

पूर्णात्मक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पूर्णानक' [को०] ।

पूर्णावतार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ ऐसा अवतार जो अशावतार न हो । किसी देवता का सपुत्र कलाओं से युक्त अवतार । षोडश कलायुक्त अवतार । २ विष्णु के वे अवतार जो अशावतार नहीं थे ।

विशेष—ब्रह्मवैवर्त पुराण के मत से विष्णु भगवान् के सोलहो कलायुक्त अवतार नृसिंह, राम और श्रीकृष्ण हैं ।

पूर्णाश—वि० [सं०] जिसकी सभी आशाएँ पूर्ण हों [को०] ।

पूर्णाशा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] महाभारत में उल्लिखित एक नदी ।

पूर्णाहुति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ किसी यज्ञ की अंतिम आहुति । वह आहुति जिसे देकर होम समाप्त करते हैं । होम के अंत में दी जानेवाली आहुति । २ किसी कर्म की समाप्ति या समाप्ति के समय होनेवाली क्रिया ।

पूर्णि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पूर्णिमा । पुर्णमासी ।

पूर्णिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक चिड़िया जिसकी चोंच का दोहरी होना माना जाता है । नासाच्छिन्नी पक्षी ।

पूर्णिमा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पूर्णमासी । वह तिथि जिस दिन चद्रमा अपने पूरे मंडल के साथ उदय होता है ।

पर्या—पर्यामासी । पित्र्या । चाद्री । पूर्णमासी । अनंता । चद्रमाता । निरजना । ज्योत्स्नी । इंदुमती । सिता । अनुमती । राका ।

पूर्णमासी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पूर्णमासी । पूर्णिमा [को०] ।

पूर्णंदु—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर्णंदु] पूर्णिमा का चद्रमा । पूर्ण चद्र ।

पूर्णोत्कट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मार्कंडेय पुराण में उल्लिखित एक पूर्वदेशीय पर्वत ।

पूर्णोत्साग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर्णोत्सङ्ग] भाद्रवश का एक राजा ।

पूर्णोदरा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक देवी ।

पूर्णोपमा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] उपमा अलंकार का वह भेद जिसमें उसके चारो अंग अर्थात्—उपमेय, उपमान, वाचक, और धर्म प्रकट रूप से प्रस्तुत हो । जैसे, इंद्र मो उदार है नरेंद्र मारवाड को, इसमें 'मारवाड को नरेंद्र' उपमेय, 'इंद्र' उपमान, 'सो' वाचक और 'उदार' धर्म चारो प्रस्तुत हैं ।

पूत^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पालन । पूरा करना । २ खोदने अथवा निर्माण करने का कार्य । पुष्करिणी, सभा, वापी, बावली, देवगृह, आराम (बाग़ीचा), सबक आदि बनाने का काम । ३ सम्मान । पुरस्कार । इनाम [को०] ।

पूत^२—वि० १ पूरित । पूरा किया हुआ । २ ढँका हुआ । आच्छादित । छन्न । ३ पोषित । रक्षित [को०] ।

पूर्तविभाग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर्त + विभाग] वह सरकारी विभाग या मुहकमा जिसका काम सड़क, नहर, पुल, मकान आदि बनवाना है । तामीर का मुहकमा ।

पूर्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. किसी आरंभ किए हुए कार्य की समाप्ति । २ पूर्णता । पूरापन । ३ किसी कार्य में अर्पित वस्तु की प्रस्तुति । किसी काम में जो वस्तु चाहिए उसकी कमी को पूरा करने की क्रिया । ४ वापी, कूप, या तडाग आदि का उत्सर्ग । ५ भरने का भाव । पूरण । ६ गुण करने का भाव । गुणन ।

पूर्ती^१—वि० [सं० पूरतिन्] १. तृप्ति देनेवाला । २ इच्छा पूर्ण करनेवाला । ३ पूरित ।

पूर्ती^२—सञ्ज्ञा पुं० आरक्ष ।

पूर्व^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर्वं] दे० 'पूर्व' ।

पूर्व^२—वि० दे० 'पूर्व' ।

पूर्वजा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पूर्वज' । उ०—जिनके भाग भए पूर्वज के ते वहि संग रहयो रे ।—जग श०, भा०२, पृ० ८७ ।

पूर्व्य^१—वि० [सं०] १ पूरा करने योग्य अथवा जिसे पूरा करना हो । पूरणीय । २ पालनीय ।

पूर्व्य^२—सञ्ज्ञा पुं० एक तृण धान्य ।

पूर्व^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह दिशा जिस ओर सूर्य निकलता हुआ दिखलाई देता हो । पश्चिम के सामने की दिशा । २ जैन मतानुसार सात नील, पाँच खरब, साठ अर्ब वर्ष का एक कालविभाग । ३ पूर्वज । पुरखा [को०] । ४ अगला भाग । भागे का हिस्सा [को०] ।

पूर्व^४—वि० [सं०] १. पहले का । जो पहले हो या रह चुका हो । २. आगे का । अगला । ३ पुराना । प्राचीन । ४ पिछला । ५ बड़ा । ६ पूर्व का । पूरब में स्थित [को०] ।

पूर्व^१—क्रि० वि० पहले । पेशतर । जैसे,—में इसके पूर्व ही पुस्तक दे चुका था ।

पूर्वक^१—सज्ञा पुं० [सं०] पुरखा । बापदादा । पूर्वज ।

पूर्वक^२—वि० १ प्रथम । पहला । २ पहले का । पूर्ववर्ती ।

पूर्वक^३—क्रि० वि० [सं०] साथ । सहित ।

विशेष—इस अर्थ में यह शब्द प्रायः संयुक्त सज्ञा के अंत में आता है । जैसे, ध्यानपूर्वक । निश्चयपूर्वक ।

पूर्वकर्म—सज्ञा पुं० [पूर्वकर्मन्] १. सुश्रुत के अनुसार तीन कर्मों में से पहला कर्म । रोगोत्पत्ति के पहले किए जानेवाले काम ।

विशेष—शेष दो कर्म प्रधान कर्म और पश्चात् कर्म हैं ।

२. पूर्व जन्माजित कर्म (को०) । ३ प्राथमिक कर्म । पहला काम (को०) ।

पूर्वकल्प—सज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन काल । पुराना समय (को०) ।

पूर्वकाय—सज्ञा पुं० [सं०] शरीर का पूर्व भाग । शरीर में नाभि से ऊपर का भाग ।

पूर्वकाल^१—सज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन काल । पुराना समय (को०) ।

पूर्वकाल^२—वि० प्राचीन काल से संबंधित । पुराने समय का (को०) ।

पूर्वकालिक—वि० [सं०] १ जिसकी उत्पत्ति या जन्म पूर्वकाल में हुआ हो । पूर्वकाल जात । २ जिसकी स्थिति पूर्वकाल में रही हो । पूर्वकालीन । पूर्वकाल संबंधी ।

पूर्वकालिक क्रिया—सज्ञा स्त्री० [सं०] वह अपूर्ण क्रिया जिसका काल किसी दूसरी पूर्ण क्रिया के पहले पड़ता हो । जैसे, ऐसा करके वह गया ।

पूर्वकालीन—वि० [सं०] दे० 'पूर्वकालिक' ।

पूर्वकृत्^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ पूर्व दिशा के कर्ता सूर्य । २ पूर्व दिशा के स्वामी इद्र (को०) ।

पूर्वकृत्^२—वि० पहले किया हुआ (को०) ।

पूर्वकृत^३—सज्ञा पुं० पूर्वजन्म में किया हुआ कर्म (को०) ।

पूर्वगगा—सज्ञा स्त्री० [सं० पूर्वगङ्गा] नर्मदा नदी ।

पूर्वग—वि० [सं०] पूर्वगामी । २ पूर्ववर्ती (को०) ।

पूर्वगत—वि० [सं०] पहले गया हुआ (को०) ।

पूर्वगामी—वि० [सं० पूर्वगामिन्] पहले गया हुआ । जो पहले चला गया हो (को०) ।

पूर्वग्रह—सज्ञा पुं० [सं० पूर्व + ग्रह] वह मत जो बिना पूर्णरूप से विचार किए स्थिर कर लिया जाता है । अनिर्णीत मत ।

पूर्वचिन्ति—सज्ञा स्त्री० [सं०] इद्र की एक अप्सरा का नाम ।

पूर्वज^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ बड़ा भाई । अग्रज । २ ऊपर की पीढ़ियों में उत्पन्न पुरुष । पुरखा । बाप, दादा, परदादा आदि । ३ बड़ी पत्नी का ज्येष्ठ पुत्र । सबसे बड़ा पुत्र । (को०) । चंद्रलोक में रहनेवाले दिव्य पितृगण ।

पर्या०—चंद्रगोलस्थ । न्यातशास्त्र । स्वधामुज । कव्यवालादि ।

पूर्वज^२—वि० पूर्वकाल में उत्पन्न ।

पूर्वजन—सज्ञा पुं० [सं०] पुराने समय के लोग । पुराकालीन पुरुष ।

पूर्वजन्म—सज्ञा पुं० [सं० पूर्वजन्मेन्] वर्तमान से पहले का जन्म । पिछला जन्म ।

पूर्वजन्मा—सज्ञा पुं० [सं०] बड़ा भाई । अग्रज ।

पूर्वजा—सज्ञा स्त्री० [सं०] बड़ी बहन ।

पूर्वजाति—सज्ञा स्त्री० [सं०] पूर्वजन्म । पिछला जन्म ।

पूर्वजिन—सज्ञा पुं० [सं०] १ अतीत जिन या बुद्ध । २ मज्जुसंघ का एक नाम ।

पूर्वज्ञान—सज्ञा पुं० [सं०] १ पूर्वजन्म का ज्ञान । पूर्वजन्म अर्जित ज्ञान जो इस जन्म में भी विद्यमान हो । २ पहल का ज्ञान । पूर्वाजित ज्ञान ।

पूर्वत.—क्रि० वि० [सं० पूर्वतस्] १ पहले से । पूर्व से । सामने से । आगे से ।

पूर्वतन—वि० [सं०] प्राचीन । पुराना (को०) ।

पूर्वत्र—क्रि० वि० [सं०] पहले भाग में । पहले ।

पूर्वदक्षिण—वि० अग्निकोण संबंधी । पूर्व और दक्षिण के बीच का (को०) ।

पूर्वदक्षिणा—सज्ञा स्त्री० [सं०] पूर्व और दक्षिण के बीच का कोना

पूर्वदत्त—वि० सं० पहले दिया हुआ (को०) ।

पूर्वदिक्—सज्ञा स्त्री० [सं० पूर्वदिश्] पूरव । प्राची (को०) ।

यौ०—पूर्वदिक्पति = पूर्व दिशा के स्वामी । इद्र ।

पूर्वदिग्बदन—सज्ञा पुं० [सं०] मेष, सिंह और धनु ये तीनों राशियाँ ।

पूर्वदिगीश—सज्ञा पुं० [सं०] १. इद्र । २. मेष, सिंह और धनु तीनों राशियाँ ।

पूर्वदिश्य—वि० [सं०] पूर्व की ओर स्थित । पूर्वी (को०) ।

पूर्वदिष्ट—सज्ञा पुं० [सं०] वह सुख दुःख आदि जो पूर्व जन्म के कर्म के परिणाम स्वरूप भोगने पड़ें ।

पूर्वदेकृत—सज्ञा पुं० [सं०] पूर्व जन्म का पाप (को०) ।

पूर्वदेव—सज्ञा पुं० [सं०] १ नर और नारायण । २ असुर, पहले सुर थे, पीछे अपने दुष्कर्मों के कारण भ्रष्ट हो गए ३ प्राचीन देवता । प्राचीन देव (को०) । ४ पितर (को०) ।

पूर्वदेवता—सज्ञा पुं० [सं०] पितर (को०) ।

पूर्वदेहिक, पूर्वदैहिक—वि० [सं०] पूर्व जन्म में किया हुआ (को०) ।

पूर्वनढक—सज्ञा पुं० [सं०] टांग की एक एक हड्डी का नाम ।

पूर्वनिरूपण—सज्ञा पुं० [सं०] भाग्य । किस्मत ।

पूर्वनिश्चित—वि० [सं०] जिसकी योजना पहले तय हो चुकी है पहले से तय या निश्चित ।

पूर्वन्याय—सज्ञा पुं० [सं०] किसी अभियोग में प्रत्यर्थी का कहना कि ऐसे अभियोग में मैं वादी को पराजित कर चुका हूँ । यह उत्तर का एक प्रकार है ।

पूर्वपक्ष—सज्ञा पुं० [सं०] १. किसी शास्त्रीय विषय के संबंध उठाई हुई बात, प्रश्न या शका । शास्त्रविचार

लिये किया हुआ प्रश्न या शका । (उत्तर में जो बात कही जाती है उसे उत्तरपक्ष कहते हैं) । २. कृष्ण पक्ष । ३. अगस्त हिस्सा । अग्रिम पक्ष । ४. व्यवहार या अभियोग में वादी द्वारा उपस्थित बात । मुद्दई का दावा ।

पूर्वपक्षी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर्वपक्षिन्] १. वह जो पूर्वपक्ष उपस्थित करे । २. वह जो किसी प्रकार का दावा दायर करे ।

पूर्वपथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पहले का रास्ता । पुरानी राह । २. पूर्व दिशा की ओर का पथ ।

पूर्वपद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] समस्त पद या किसी वाक्य का प्रथम पद [को०] ।

पूर्वपर्वत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार वह कल्पित पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय होना माना जाता है । उदयाचल ।

पूर्वपाली—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर्वपालिन्] इद्र ।

पूर्वपितामह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रपितामह । परदादा ।

पूर्वपीठिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] परिचय । भूमिका [को०] ।

पूर्वपुरुष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. ब्रह्मा । २. पूर्वज । पुरखा [को०] ।

पूर्वप्रज्ञा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. अतीत का ज्ञान । २. स्मृति । याददाश्त ।

पूर्वफाल्गुनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] नक्षत्रों में ग्यारहवाँ नक्षत्र । दे० 'नक्षत्र' ।

यौ०—पूर्वफाल्गुनीभव = बृहस्पति का नाम ।

पूर्ववधु—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर्ववन्धु] प्रथम अथवा सर्वोत्तम मित्र [को०] ।

पूर्वभक्षिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रातः काल किया जानेवाला भोजन । जलपान ।

पूर्वभाद्रपद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नक्षत्रों में २५ वाँ नक्षत्र । दे० 'नक्षत्र' ।

पूर्वभाव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्राधान्य । २. पूर्व सत्ता । ३. विचारों की अभिव्यक्ति । इच्छा का उद्घाटन [को०] ।

पूर्वभूत—वि० [सं०] पहले का । जो पहले हुआ हो [को०] ।

पूर्वभावी^१—वि० [सं० पूर्वभाविन्] पहले का । पहले होनेवाला ।

पूर्वभावी^२—सञ्ज्ञा पुं० कारण । हेतु [को०] ।

पूर्वमारी—वि० [सं० पूर्वमारिन्] पहले मरनेवाला [को०] ।

पूर्वमीमासा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हिंदुओं का एक दर्शन जिसमें कर्म-काण्ड सबधी बातों का निर्णय किया गया है । इस शास्त्र के कर्ता जैमिनि मुनि माने जाते हैं ।

विशेष—दे० 'मीमासा' ।

पूर्वमुख—वि० [सं०] जो पूर्व की ओर मुख किए हो [को०] ।

पूर्वमेघ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] महाकवि कालिदास के मेघदूत का पूर्वांश [को०] ।

पूर्वयज्ञ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जैनियों के अनुसार एक जिनदेव जो सण्णभद्र और जलेंद्र भी कहलाते हैं ।

पूर्वयाम्य—वि० [सं०] पूर्वदक्षिण का ।

पूर्वरग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर्वरङ्ग] वह सगीत या स्तुति आदि जो

नाटक आरम्भ होने से पहले विघनों की शांति के लिये या दर्शकों को सावधान करने के लिये नट लोग करते हैं ।

पूर्वराग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] साहित्य में नायक अथवा नायिका की एक अवस्था जो दोनों के संयोग होने से पहले प्रेम के कारण होती है । प्रथमानुराग । पूर्वानुराग ।

विशेष—कुछ लोगो का मत है कि पूर्वराग केवल नायिकाओं में ही होता है । नायक को देखने पर या किसी के मुँह से उसके रूप गुण आदि की प्रशंसा सुनने पर नायिका के मन में जो प्रेम उत्पन्न होता है वही पूर्वराग कहलाता है । जैसे, हस के मुँह से नल की प्रशंसा सुनकर दमयती में अनुराग या उत्पन्न होना । इसमें नायक से मिलने की अभिलाषा, उसके सवध में चिंता, उसका स्मरण, सखियों से उसकी चर्चा उससे मिलने के लिये उद्विग्नता, प्रलाप, उन्मत्तता, रोग, मूर्च्छा और मृत्यु ये दस बातें होती हैं । पूर्वराग उसी समय तक रहता है जबतक नायक नायिका का मिलन न हो । मिलन के उपरांत उसे प्रेम या प्रीति कहते हैं ।

पूर्वरूप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पहले का रूप । वह आकार या रंग-ढग जिसमें कोई वस्तु पहले रही हो । जैसे,—इस पुस्तक का पूर्वरूप ऐसा ही था । २. किसी वस्तु का वह चिह्न या लक्षण जो उस वस्तु के उल्लिखित होने के पहले ही प्रकट हो । आगमसूचक लक्षण । आसार । जैसे,—(क) बादलो का धिरना वर्षा का पूर्वरूप है । (ख) घाँसो का जलना और अग दूटना ज्वर का पूर्वरूप है । ३. व्याकरण में एक स्वर-संघि का नाम । ४. एक अर्थालंकार जिसमें विनष्ट व्यक्ति या वस्तु के अपने पहले रूप की प्राप्ति का कथन होता है ।

पूर्ववत्^१—क्रि० वि० [सं०] पहले की तरह । जैसा पहले था वैसा ही । जैसे,—आज सी वर्षा वीत जाने पर भी वह नगर पूर्ववत् है ।

पूर्ववत्^२—सञ्ज्ञा पुं० किसी कार्य का वह अनुमान जो उसके कारण को देखकर उसके होने से पहले ही किया जाय । जैसे,—बादलो को देखकर यह अनुमान करना कि पानी बरसेगा ।

पूर्ववय—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर्ववयस्] वचन ।

पूर्ववर्ती—वि० [सं० पूर्ववर्तिन्] पहले का । जो पहले ही या रह चुका हो । जैसे,—(क) इस देश के अंगरेजों के पूर्ववर्ती शासक मुसलमान थे । (ख) यहाँ के पूर्ववर्ती अध्यापक ब्राह्मण थे ।

पूर्ववाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] व्यवहार शास्त्र के अनुसार वह अभियोग जो कोई व्यक्ति न्यायालय आदि में उपस्थित करे । पहला दावा । नालिष ।

पूर्ववादी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर्ववादिन्] वह जो न्यायालय आदि में पूर्ववाद या अभियोग उपस्थित करे । वादी । मुद्दई ।

पूर्वविद्—वि० [सं०] पुरानी बातों को जाननेवाला । इतिहास आदि का ज्ञाता ।

पूर्वविहित—वि० [सं०] १. पहले जमा किया हुआ (धन) । २. पहले किया या कहा हुआ [को०] ।

पूर्ववृत्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] इतिहास ।

पूर्वशील—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] उदयाचल ।

पूर्वसंचित—वि० [सं० पूर्वसञ्चित] पहले या पूर्वजन्म में संचित किया हुआ [को०] ।

पूर्वसंध्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूर्वसन्ध्या] प्रातःकाल ।

पूर्वसक्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जाँघ का ऊपरी जोड़ [को०] ।

पूर्वसर—वि० [सं०] सामने या आगे जानेवाला [को०] ।

पूर्वसाहस—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] तीस प्रकार के दंडों में से प्रथम दंड । सबसे बड़ा दंड [को०] ।

पूर्वस्थिति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पहले की दशा । पूर्व की दशा ।

पूर्वा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पूर्व दिशा । पूरव । २. ग्यारहवाँ नक्षत्र । ३. 'पूर्वाफाल्गुनी' ।

पूर्वाग्नि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] घर में रखी जानेवाली पवित्र अग्नि । प्रावसथ्य ।

पूर्वाचल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] उदयाचल । उदयगिरि [को०] ।

पूर्वानुभूत—वि० [सं० पूर्व + अनुभूत] पूर्व में अनुभूत किया हुआ । उ०—कल्पना के बल से अपने पूर्वानुभूत संस्कारों का सहयोग लेकर, जीवन में अदृश्य, अश्रुत एवं अननुभूत पदार्थों का सर्जन करता रहता है ।—शैली०, पृ० २१ ।

पूर्वाद्रि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] उदयगिरि [को०] ।

पूर्वानुराग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह प्रेम जो किसी के गुण सुनकर अथवा उसका चित्र या रूप देखकर उत्पन्न होता है । अनुराग या प्रेम का आरंभ । दे० 'पूर्वराम' ।

विशेष—साहित्य में पूर्वानुराग या पूर्वराम उस समय तक माना जाता है, जब तक प्रेमी और प्रेमिका का मिलन न हो । मिलने के उपरांत उसे प्रेम या प्रीति कहते हैं ।

पूर्वान्हा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर्वाह्न] २० 'पूर्वाह्न' ।

पूर्वापर^१—क्रि० वि० [सं०] आगे पीछे ।

पूर्वापर^२—वि० आगे का और पीछे का । अगला और पिछला ।

पूर्वापर^३—सञ्ज्ञा पुं० पूर्व और पश्चिम ।

पूर्वापर्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूर्वापर का भाव ।

पूर्वाफाल्गुनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] नक्षत्रों में ग्यारहवाँ नक्षत्र ।

विशेष—इसका आकार पलंग की तरह माना जाता है और इसमें दो तारे हैं । इसके अघिष्ठाता देवता यम कहे गए हैं और इसका मुँह नीचे की ओर माना जाता है । विशेष—दे० 'नक्षत्र' ।

पूर्वाभाद्रपद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नक्षत्रों में पचीसवाँ नक्षत्र ।

विशेष—इसका मुँह नीचे की ओर माना गया है और इसमें दो नक्षत्र हैं । विशेष—दे० 'नक्षत्र' ।

पूर्वाभाद्रपदा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] नक्षत्रों में पचीसवाँ नक्षत्र । दे० 'नक्षत्र' ।

पूर्वाभास—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर्व + आभास] वह साधारण ज्ञान जो पहले ही प्राप्त हो जाय । पूर्वज्ञान ।

पूर्वाभिमुख—वि० [सं०] पूरव की ओर मुँह किए हुए [को०] ।

पूर्वाभिषेक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ एक प्रकार का मंत्र । २ पूर्व या पहले का स्नान [को०] ।

पूर्वाभ्यास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पहले का अनुभव या अभ्यास । यह अभ्यास जो किसी कार्य को व्यावहारिक रूप में परिणत करने के पहले किया जाय । जैसे, नाटक का पूर्वाभ्यास [को०] ।

पूर्वारात्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का दौड़ सव या मठ ।

पूर्वार्जित^१—वि० [सं०] पहले प्राप्त किया हुआ । पूर्वप्राप्त ।

पूर्वार्जित^२—सञ्ज्ञा पुं० पैतृक संपत्ति [को०] ।

पूर्वार्द्ध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ किसी पुस्तक का पहला आधा भाग । शुरु का आधा हिस्सा । २ शरीर का ऊपरी भाग [को०] । ३ किसी वस्तु का प्रारंभिक अर्धांश ।

पूर्वार्द्ध्य—वि० [सं०] जो पूर्वार्ध से उत्पन्न हुआ हो । पूर्वार्ध सवधी । पूर्वार्ध का ।

पूर्वार्ध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] २० 'पूर्वार्द्ध' ।

पूर्वावेदक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जो अभियोग उपस्थित करे । वादी । मुद्दई ।

पूर्वाश्रम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मचर्य आश्रम [को०] ।

पूर्वापाठ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पूर्वापाठा' ।

पूर्वापाठा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] नक्षत्रों में बीसवाँ नक्षत्र ।

विशेष—इसमें चार तारे हैं तथा इसका आकार सूप का सा और अघिष्ठाता देवता जल माना जाता है । विशेष—दे० 'नक्षत्र' ।

पूर्वाह्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दिन का पहला आधा भाग । सवेरे से दोपहर तक का समय ।

पूर्वाह्नक^१—वि० [सं०] पूर्वाह्न सवधी । पूर्वाह्न का ।

पूर्वाह्नक—सञ्ज्ञा पुं० २० 'पूर्वाह्न' ।

पूर्वाह्निक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह कृत्य जो दिन के पहले भाग में किया जाता हो । जैसे, स्नान, राध्या, पूजा आदि ।

पूर्वी^१—वि० [सं० पूर्वीय] पूर्व दिशा से सवध रखनेवाला । पूरव का ।

यौ०—पूर्वी घाट । पूर्वी द्वीपसमूह = भारतवर्ष के पूरव में स्थित द्वीपों का समूह जिनमें जावा, सुमात्रा और बोर्नियो आदि हैं ।

पूर्वी^२—सञ्ज्ञा पुं० १ पूरव में होनेवाला एक प्रकार का चावस । २. एक प्रकार का दादरा जो बिहार प्रांत में गाया जाता है और जिसकी भाषा बिहारी होती है । ३ स पूर्ण जाति का एक राग जिसके गाने का समय संध्या है ।

विशेष—कुछ रागों के मठ से यह श्री राग की रागिनी है प्र २ कुछ लोग इसे नेरवी और गौरी ध्रुवा दशगिरि, गौड़ और गौरी से मिलकर बनी हुई सागर रागिनी भी मानते हैं और इसके गाने का समय दिन में २५ दंड से २८ तक बताते हैं ।

पूर्वाघाट—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पूर्वी+घाट] दक्षिण भारत के पूर्वी किनारे पर का पहाड़ों का सिलसिला जो बालासोर से कन्याकुमारी तक चला गया है और वहाँ पश्चिमी घाट के अंतिम अंश से मिल गया है। इसकी औसत ऊँचाई लगभग १५०० फुट है।

पूर्वीण—वि० [सं०] १ प्राचीन। २. पैतृक [को०]।

पूर्वेतर—वि० [सं०] पूर्व से भिन्न का। पश्चिमी [को०]।

पूर्वेद्यु^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूर्वेद्युस्] १, वह श्राद्ध जो अग्रहण, पूष, माघ और फाल्गुन के कृष्णपक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। २. प्राण काल। सवेरा।

पूर्वेद्यु^२—क्रि० वि० गत दिन। वीते दिन [को०]।

पूर्वोक्त—वि० [सं०] पहले कहा हुआ। जिसका जिक्र पहले भा चुका हो।

पूर्वोत्तर—वि० [सं०] उत्तरपूर्वी।

पूर्वोत्तरा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। ईशान कोण।

पूल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पूला। मुट्ठा। २ एक प्रकार का पक्वान्न [को०]।

पूलक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मूँज आदि का बँधा हुआ मुट्ठा। पूल। २ एक पक्वान्न। पूलका [को०]।

पूला—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूलक] [स्त्री० अक्षपा० पूली] १ मूँज आदि का बँधा हुआ मुट्ठा। पूलक। २ एक प्रकार का छोटा वृक्ष जो देहरादून और सहारनपुर के आस पास के जंगलों में पाया जाता है।

विशेष—वसंत ऋतु में इसकी सब पत्तियाँ झड़ जाती हैं। इसकी छाल के भीतरी भाग के रेशों से रस्से बनाए जाते हैं। इसकी पत्तियों का व्यवहार औषधि रूप में होता और इसकी छाल से चीनी साफ की जाती है।

पूलाक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पूलाक' [को०]।

पूलाणो^(५)—वि० [सं० पूराणमा] पूराणमा का। पूनो का। पूराणम। उ०—चद पूलाणो वनी गयो, खीर की तौलडी कुँ रहइ सेर।—वी० रासो, पृ० ७२।

पूलिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार का पूमा (पक्वान्न)।

पूलिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] मलाबार प्रदेश में रहनेवाली एक मुसलमान जाति।

पूली^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पूला का अल्पा०] छोटा पूला।

पूली^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पूला] पूला नामक वृक्ष जिसके रेशों से रस्से बनाते हैं। विशेष—दे० 'पूला—२'।

पूलीची—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] मलाबार प्रदेश की एक सभ्यताहीन जंगली जाति।

पूण्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अन्न का निस्तत्त्व दाना। अनाज का खोखला दाना [को०]।

पूवार्—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूष] दे० 'पूमा'।

पूष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ शहतूत का पेड़। २ पौष मास। ३. रेवती नक्षत्र [को०]।

पूपक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शहतूत का पेड़। २ शहतूत का फल।

पूषण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सूर्य। २ पुराणानुसार वारह आदित्यों में से एक। ३ एक वैदिक देवता जिनकी भावना भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती है। कहीं वे सूर्य के रूप में (लोकलोचन), कहीं पशुओं के पोषक के रूप में, कहीं घनरक्षक के रूप में और कहीं सोम के रूप में पाए जाते हैं। ४. पृथिवी। घरा [को०]।

पूपणा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कार्तिकेय की अनुचरी एक मातृका का नाम।

पूपदत्तहर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूषदत्तहर] शिव के अश से उत्पन्न वीरभद्र का नाम जिसने दक्ष के यज्ञ के समय सूर्य का दाँत तोड़ा था।

पूपध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार वैवस्वत मनु के एक पुत्र।

पूपभासा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] इंद्र की नगरी अमरावती का एक नाम। इद्रपुरी।

पूपमित्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गोभिल का एक नाम।

पूषा^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ दाहिने कान की एक नाडी का नाम। २ पृथ्वी। ३ चंद्रमा की तीसरी कला [को०]।

पूषा^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूषण] सूर्य। दे० 'पूपण'।

पूषात्मज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मेघ। बादल। २ इंद्र का एक नाम [को०]। ३ कर्ण। अगदेश का राजा कर्ण [को०]।

पूषाभासा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] इद्रपुरी। अमरावती।

पूषारि, पूषासुहृत्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शिव का एक नाम [को०]।

पूष—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पौष, पूष] हेमंत ऋतु का दूसरा चंद्रमास जिसकी पूर्णमासी तिथि को पुष्य नक्षत्र पडता है। अग्रहण के बाद और माघ के पहले का महीना। उ०—घरहि जमाई लौ घटचो खरो पूष दिनमान।—बिहारी (शब्द०)।

पूषका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] असवरग नाम का गध द्रव्य जिसका व्यवहार औषधो में भी होता है।

पूषक^१—वि० [सं०] १ मिश्रित। मिला हुआ। २ सपुक्त। सपर्क में आया हुआ। ३ पूर्ण। भरा हुआ [को०]।

पूषक^२—सञ्ज्ञा पुं० सपत्ति। धन [को०]।

पूषक्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. सबंध। लगाव। २ स्पर्श। छूना।

पूषकथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सपत्ति। धन। [को०]।

पूषत्—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पूषत्] अन्न। अनाज।

पूषच्छक—वि० [सं०] १ पूछनेवाला। अश्न करनेवाला। उ०—अश्न जु कृष्णकथा की जहाँ। वक्ता, श्रोता, पूषच्छक तहाँ।—नद० ग्रं०, पृ० २२०। २ जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखनेवाला।

पूषच्छन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूछना। जानना [को०]।

पृच्छना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पूछना । जिज्ञासा करना । (जैन) ।
 पृच्छा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. प्रश्न । सवाल । जानकारी के लिये प्रश्न २ भविष्य सबधी जिज्ञासा [को०] ।
 पृच्छय—वि० [सं०] जो पूछने योग्य हो ।
 पृच्छक(०)†—वि० [सं० पृच्छक] दे० 'पृच्छक' । उ०—सुन भो पृच्छक तोहि सनुन की आधीन एक वा होइगी । पै जो मन चाहि है सो तेरो कार्य होयगी । —पोद्दार अभि० ग्रं०, पृ० ४८४ ।
 पृष्णाका—सञ्ज्ञा सञ्ज्ञा [सं०] मादा पशु जो जवान हो । जवान मादा पशु [को०] ।
 पृतन—सञ्ज्ञा-पुं० [सं०] १ सेना । फौज । २ प्रतिपक्षी योद्धा [को०] ।
 पृतना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ सेना का एक विभाग जिसमें २४३ हाथी, २४३ रथ, ७२६ घुडसवार और १२१५ पैदल सिपाही होते हैं । उ०—घरु घरु मारु मारु सत्रद अपार फैल्यो इत उत चहै पर पृतना करै विहड । —गोपाल (शब्द०) । २ सेना । फौज । ३ युद्ध । लड़ाई ।
 पृतनानी—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पृतना नामक सेना के विभाग का अफसर । २ सेनापति ।
 पृतनापति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पृतनानी' ।
 पृतनायु—वि० [सं०] विपक्षी । द्वेषी । प्रतिरोधी [को०] ।
 पृतनापाट्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] इद्र ।
 पृतनासाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] इद्र ।
 पृतन्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सेना । फौज ।
 पृतन्यु—वि० [सं०] जो युद्ध करना चाहता हो । जो लड़ने के लिये तैयार हो ।
 पृथक्—वि० [सं० पृथक्, पृथग्] भिन्न । अलग । जुदा ।
 पृथक्करण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अलग करने का काम । विश्लेषण ।
 पृथक्क्रिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पृथक्करण' ।
 पृथक्क्षेत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक ही पिता परंतु भिन्न माता से उत्पन्न सतान ।
 पृथक्चर—वि० [सं०] अकेला या अलग चलनेवाला [को०] ।
 पृथक्ता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पुथक् या अलग होने का भाव । अलगाव ।
 पृथक्त्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुथक् होने का भाव । अलगाव ।
 पृथक्त्वचा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] मूर्वा लता ।
 पृथक्पिंड—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पृथक्पिण्ड] दूर का वह सबधी जो अलग पिंडदान करता है [को०] ।
 पृथगात्मता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. विरक्ति । वैराग्य । २ भेद । अंतर । ३. विशेषता । विशिष्टता [को०] ।
 पृथगात्मा^१—वि० [सं०] पुथक् । भिन्न । विशिष्ट [को०] ।
 पृथगात्मा^२—सञ्ज्ञा पुं० जीवात्मा [को०] ।
 पृथगात्मिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वैशिष्ट्य से पूर्ण । विशिष्टतायुक्त ।

पृथग्जन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पूर्व । देवकूप । २ नीच व्यक्ति । कमीना आदमी । ३ पापी ।
 पृथग्बीज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भिन्नार्वा ।
 पृथग्भाव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पुथक्ता । भिन्नता । २ अवस्थांतर । भिन्न अवस्था [को०] ।
 पृथग्भूप, पृथग्विध—वि० [सं०] भिन्न रूप और प्राकृति का । नाना प्रकार का [को०] ।
 पृथग्मी(०)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पृथग्मी] दे० 'पृथग्मी' । उ०—प्रथम अंश ते माया भयऊ । शुक्ल बीज पृथग्मी महँ ठएऊ ।—कवीर सा०, पृ० ६१२ ।
 पृथग्मी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पृथग्मी' ।
 पृथा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कुतिभोज की कन्या कुती का दूसरा नाम । यौ०—पृथापति । पृथासुत, पृथासूनु, पृथानदन = दे० 'पृथातनय' ।
 पृथाज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पृथा या कुती के पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन आदि । २ अर्जुन का पेठ ।
 पृथातनय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम (विशेषतः अर्जुन) ।
 पृथापति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पृथा के पति । राजा पाहु [को०] ।
 पृथिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] गोजर । कनखजूरा [को०] ।
 पृथिवी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पृथ्वी' ।
 यौ०—पृथिवीकप । पृथिवीक्षित् । पृथिवीनाथ, पृथिवीपरिपालक, पृथिवीभुजग = राजा । नरेश । पृथिवीभृत् = पर्वत । धरणीधर । पृथिवीमंडल = भूमंडल । पृथिविरुह = पृथिवी पर पैदा होनेवाले वृक्ष । पृथिवी लोक ।
 पृथिवीकप—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पृथिवीकम्प] दे० 'भूकम्प' ।
 पृथिवीक्षित्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] राजा ।
 पृथिवीजय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक दानव का नाम ।
 पृथिवीतोथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] महाभारत के अनुसार एक तीर्थ का नाम ।
 पृथिवीपति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ ऋषभ नामक ऋषिप । २ नृपति । राजा । ३. यम ।
 पृथिवीपाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] राजा ।
 पृथिवीप्लव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] समुद्र [को०] ।
 पृथिवीभुज्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] राजा ।
 पृथिवीलोक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मर्त्यलोक [को०] ।
 पृथिवीश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] राजा ।
 पृथिवीशुक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] राजा ।
 पृथी†—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पृथिवी] दे० 'पृथ्वी' । उ०—वहू तमोर वह सखस तहकीक कर, राम का नाम जो पृथी सादा ।—कवीर रे०, पृ० १५ ।
 पृथ^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] देवु, के पुत्र राजवि पृथु का एक नाम ।
 पृथीनाथ(०)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पृथिवी, हिं० पृथी+सं० नाथ] पृथिवी का स्वामी राजा ।

पृथ्वीपति^७—सज्ञा पुं० [हि० पृथ्वी + म० पति] पृथ्वीपति । राजा ।
उ०—कोटि भरव्व नरव्व असम्म, पृथीरति होन की चाह
जगेगी ।—सतवाणी०, भाग २, पृ० १२१ ।

पृथु^१—वि० [म०] १ चौड़ा । विस्तृत । २ बड़ा । महान् । ३
अधिक । अग्रगणित । अग्रमय । ४ कुमल । चतुर । प्रवीण ।
५. हल्ल । मोटा (गि०) । ६ प्रभूत । प्रचुर (को०) ।

पृथु^२—सज्ञा पुं० [म०] १ एक हाथ का मान । दो बालिषत की
नंबाई । २ अग्नि । ३ विष्णु । ४ शिव का एक नाम ।
५ एक ऋग्वेदेवा ग्ना नाम । ६ चौथे मन्वन्तर के एक सप्तपि
दा नाम । ७ पुराणानुसार एक दानव का नाम । ८ ताम्रम
मन्वन्तर के एक ऋषि का नाम । ९ इक्ष्वाकु वंश के पाँचवें
राजा का नाम जो त्रिशकु का पिता था । १०. राजा वेणु
के पुत्र का नाम ।

विशेष—पुराणों में कहा है कि जब राजा वेणु मरे, तब उनके
कोई मत्तान नहीं थी। इसलिये ब्राह्मण लोग उनके हाथ
पादपर हिलाने लगे। उस समय उन हाथों में से एक स्त्री
और एक पुरुष उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों ने उस पुरुष का नाम
'पृथु' रखा और उस स्त्री को उनकी पत्नी बनाया। इसके
उपरांत सब ब्राह्मणों ने मिलकर पृथु का राज्याभिषेक किया
और उन्हें पृथ्वी का स्वामी बनाया। उस समय पृथ्वी में से
अन्न उत्पन्न होना बंद हो गया जिससे सब लोग बहुत दुखी
हुए। उनका दुख देखकर पृथु ने पृथ्वी पर चलाने के लिये
गमान पर तीर चढ़ाया। यह देखकर पृथ्वी गो का रूप
धारण करके भागने लगी और जब भागती भागती थक गई
तब फिर पृथु की शरण में आई और कहने लगी कि ब्रह्मा ने
पहले मुझपर जो श्लोपधियाँ प्रादि उत्पन्न की थी, उनका
सोम दुग्धयोग करने लगे, इसलिये मैंने उन सबको अपने पेट
में रख लिया है। अब प्राप मुझे दुहकर वे सब श्लोपधियाँ
निकाल लें। इसपर पृथु ने मनु को बछड़ा बनाया और अपने
हाथ पर पृथ्वीरूपी गो से सब श्लोपधियाँ दुह ली। इसके
उपरांत पदह ऋषियों ने भी वृहस्पति को बछड़ा बनाकर
अपने नाओं में वेदमय पवित्र दूध दुहा और तब दैत्यों, दानवों
गंधर्वाँ, अप्सराओं, पितरों, मिदघों, विद्याधरो, सेचरो,
किन्नरों, मायावियों, यक्षाँ, राक्षसों, भूतो और पिशाचों प्रादि
ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार सुरा, आसव, सुदरता,
मधुरता, मय्य, परिणामा प्रादि मिद्वियाँ, सेचरी विद्या,
असर्धान विद्या, माया, आनव, विना फल के साँप, विच्छ
प्रादि अनेक पदार्थ दुहे। इसके उपरांत पृथु ने सतुष्ट होकर
पृथ्वी को 'दुहिता' कहकर संबोधन किया और तब उसके
बहुत से पर्वतो प्रादि को तोड़कर इसलिये सम कर दिया
जिसमें वर्षा का जल एक स्थान पर रुक न जाय, और तब
उसपर अनेक नगर और गाँव प्रादि बसाए। पृथु ने ६६
यज्ञ किए थे। जब वे तीनों यज्ञ करने लगे तब इन्द्र उनके यज्ञ
का घोंटा लेकर भागे। पृथु ने उनका पीछा किया। इन्द्र ने
अनेक प्रना के रूप धारण किए थे, जिनसे जैन, बौद्ध
और शैवालिक प्रादि मतों की सृष्टि हुई। पृथु ने इन्द्र से

अपना घोड़ा छीनकर उसका नाम 'विजितापव' रखा। पृथु
उस समय इन्द्र को भस्म करना चाहते थे, पर ब्रह्मा ने आकर
दोनों में मेल करा दिया। यज्ञ समाप्त करके पृथु ने सनत्कुमार
से ज्ञान प्राप्त किया और तब वे अपनी स्त्री को साथ लेकर
तपस्या करने के लिये वन में चले गए। वही उन्होंने योग के
द्वारा अपने इस भोगशरीर का अंत किया।

पृथु^३—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ काला जीरा । २ हिगुपत्री । ३.
अहिफेन । अफीम ।

पृथुक—सज्ञा पुं० [सं०] १ चिडवा । २ पुराणानुसार चाक्षुष
मन्वन्तर का एक देवगण । ३ बालक । लडका । ४
हिगुपत्री ।

पृथुका—सज्ञा स्त्री० [सं०] हिगुपत्री ।

पृथुकीर्ति^१—सज्ञा स्त्री० [सं०] पुराणानुसार पृथा (या वसुदेव ?) की
एक छोटी बहन का नाम ।

पृथुकीर्ति^२—वि० जिसकी कीर्ति बहुत अधिक हो ।

पृथुकोल—सज्ञा पुं० [सं०] बड़ा वेर ।

पृथुग—सज्ञा पुं० [सं०] चाक्षुष मन्वन्तर के देवताओं का एक भेद ।

पृथुग्रीव—वि० [सं०] मोटी गरदनवाला [को०] ।

पृथुच्छद—सज्ञा पुं० [सं०] १ एक प्रकार का डाम । २ हाथीकंद ।

पृथुत्ता—सज्ञा स्त्री० [सं०] ३. पृथु होने का भाव । २ पृथुत्व ।
विस्तार । फैलाव ।

पृथुत्व—सज्ञा पुं० [सं०] ३. 'पृथुता' ।

पृथुदर्शी—वि० [सं० पृथुदर्शिन] दूरदर्शी [को०] ।

पृथुपत्र—सज्ञा पुं० [सं०] १ लाल लहसुन । २ हाथीकंद ।

पृथुपलाशिका—सज्ञा पुं० [सं०] कचूर ।

पृथुपाणि—सज्ञा पुं० [सं०] जिसके हाथ बहुत लंबे या घुटनों तक
हों । आजानुवाह ।

पृथुवीजक—सज्ञा पुं० [सं०] मसूर [को०] ।

पृथुभैरव—सज्ञा [सं०] बौद्धों के एक देवता का नाम ।

पृथुयशा—वि० [सं० पृथुयशास्] जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली
हो । सुप्रसिद्ध [को०] ।

पृथुरोमा—सज्ञा पुं० [सं० पृथुरोमन्] पृथुलोमा । मछली ।

पृथुल—वि० [सं०] १. मोटा ताजा । २ दीर्घाकार । भारी ।
बड़ा । उ०—पीवर मासल अस, पृथुल उर, लवी बाँहें ।—
साकेत, पृ० ४१४ । ३ बहुत । डेर । अधिक ।

यौ०—पृथुलनयन, पृथुललोचन = बड़ी बड़ी आँखोंवाला । प्रायत
नेत्रोवाला । पृथुलवचा = चौड़े सीनेवाला । पृथुलधिक्रम =
अत्यंत पराक्रमी भूरवीर ।

पृथुला—सज्ञा स्त्री० [सं०] हिगुपत्री ।

पृथुलाक्ष—वि० [सं०] बड़ी बड़ी आँखोंवाला [को०] ।

पृथुलोमा—सज्ञा स्त्री० [सं० पृथुलोमन्] १ मछली । २. ज्योतिष में
मीन राशि ।

पृथुशिव—सज्ञा पुं० [सं० पृथुशिवम्] १ सोनापाठा । २ पीची घोष ।

पृथुशिरा—सज्ञा स्त्री० [सं०] काली जोक ।

पृथुशृंगक—सज्ञा पुं० [सं० पृथुशृङ्गक] मेढा ।

पृथुशेखर—सज्ञा पुं० [सं०] पहाड़ । पर्वत ।

पृथुश्रवा^१—सज्ञा पुं० [सं० पृथुश्रवस्] १ कार्तिकेय के एक अनुचर का नाम । २ पुराणानुसार त्रैलोक्य के एक पुत्र का नाम । ३ एक नाग (को०) ।

पृथुश्रवा^२—वि० १ अत्यधिक प्रसिद्ध । २ बड़े कानोवाला । जिससे कान बड़े हो ।

पृथुश्रोणी—वि० स्त्री० [सं०] भारी नितबोवाली ।

पृथुसंपद्—वि० [सं० पृथुसम्पद्] घनी । सपत्तिशाली (को०) ।

पृथुकध—सज्ञा पुं० [सं० पृथुस्कन्ध] सूधर ।

पृथूदक—सज्ञा पुं० [सं०] सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर का एक प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ ।

विशेष—पुराणों में कहा है कि राजा पृथु ने अपने पिता वेणु के मरने पर यही उनकी अत्येष्टि क्रिया की थी और बारह दिनों तक अभ्यागतों को जल पिलाया था । इसी से इसका यह नाम पड़ा । आजकल इस स्थान को पोहोसा कहते हैं ।

पृथूद्र—सज्ञा पुं० [सं०] १ मेढा । मेघ । २ जिसका पेट बहुत बड़ा हो । बड़े पेटवाला ।

पृथ्वीन्द्र—सज्ञा पुं० [सं० पृथ्वीन्द्र] राजा (को०) ।

पृथ्वी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. सौर जगत् का वह ग्रह जिसपर हम सब लोग रहते हैं । वह लोकपिंड जिसपर हम मनुष्य आदि प्राणी रहते हैं ।

विशेष—सौर जगत् में यह ग्रह दूरी के विचार से सूर्य से तीसरा ग्रह है । (सूर्य और पृथ्वी के बीच में बुध और शुक्र ये दो ग्रह और हैं) । इसकी परिधि लगभग २५००० मील और व्यास लगभग ८००० मील है । इसका आकार नारंगी के समान गोल है और इसके दोनों सिरे जिन्हे ध्रुव कहते हैं कुछ विपटे हैं । यह दिन रात में एक बार अपने अक्ष पर घूमती है और ३६५ दिन ६ घंटे ६ मिनट अर्थात् एक सौर वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है । सूर्य से यह ९,३०, ००, ००० मील की दूरी पर है । जल के मान से इसका घनत्व ५.६ है । इसके अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं और सूर्य की परिक्रमा करने के कारण ऋतुपरिवर्तन होता है । कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि इसका भीतरी भाग भी प्रायः ऊपरी भाग की तरह ही ठोस है । पर अधिकांश लोग यही मानते हैं कि इसके अंदर बहुत अधिक जलता हुआ तरल पदार्थ है जिसके ऊपर यह ठोस पपड़ी उसी प्रकार है जिस प्रकार दूध के ऊपर मलाई रहती है । इसके अंदर की गरमी बराबर कम होती जाती है जिससे इसके ऊपरी भाग का घनत्व बढ़ता जाता है । इसमें पाँच महाद्वीप और पाँच महासमुद्र हैं । प्रत्येक महाद्वीप में अनेक देश और अनेक प्रायद्वीप आदि हैं । समुद्रों में दो बड़े और अनेक छोटे छोटे द्वीप तथा द्वीपसूत्र भी हैं ।

बाधुनिक विज्ञान के अनुसार सारे सौर जगत् का उपादान पहले

सूक्ष्म ज्वलत नौहारिका के रूप में था । नौहारिका मडल के अत्यंत वेग से घूमने से उसके कुछ अणु अलग हो होकर मध्यस्थ द्रव्य की परिक्रमा करने लगे । ये ही पृथक् हुए अणु पृथ्वी, मंगल, बुध आदि ग्रह हैं जो सूर्य (मध्यस्थ द्रव्य) की परिक्रमा कर रहे हैं । ज्वलन वायुरूप पदार्थ ठंडा होकर तरल ज्वलत द्रव्य रूप में आया, फिर ज्यो ज्यो और ठंडा होता गया उसपर ठोस पपड़ी जमती गई । सपत्तिशाली के अनुसार परमात्मा से पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई । मनु के अनुसार महत्त्व, अहंकार तत्व और पंचतन्मात्राओं से इस जगत् की सृष्टि हुई है । प्रायः इसी से मिलता जुलता सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम कई पुराणों आदि में भी पाया जाता है । (विशेष—दे० सृष्टि) । इसके अतिरिक्त पुराणों में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार की कथाएँ भी पाई जाती हैं । कहीं कहीं यह कथा है कि पृथ्वी मधुकैटभ के मेद से उत्पन्न हुई जिससे उसका नाम 'मेदिनी' पड़ा । कहीं लिखा है कि बहुत दिनों तक जल में रहने के कारण जब विराट् पुरुष के रोमकूपों में मेल भर गई तब उस मेल से पृथ्वी उत्पन्न हुई । पुराणों में पृथ्वी शेषनाग के फन पर, कछुए की पीठ पर स्थित कही गई है । इसी प्रकार पृथ्वी पर होनेवाले उद्भिदों, पर्वतों और जीवों आदि की उत्पत्ति के संबंध में भी अनेक कथाएँ पाई जाती हैं । कुछ पुराणों में इस पृथ्वी का आकार त्रिकोना, कुछ में चौकोर और कुछ में कमल के पत्ते के समान बतलाया गया है पर ज्योतिष के ग्रंथों में पृथ्वी गोलाकार ही मानी गई है ।

पर्या०—अचला । अदिति । अनता । अरुणी । आद्या । इडा । इरा । इला । उर्वरा । उर्वी । कु । क्षमा । सामा । चित्ति । चोया । गो । गोत्रा । जगती । ज्या । धरणी । धरती । धरा । धरित्री । धात्री । निश्चला । पारा । भू । भूमि । महि । मही । मेदिनी । रत्नगर्भा । रत्नावती । रसा । वसुधरा । वसुधा । वसुमती । विपुला । श्मामा । सहा । स्थिरा । सागरमेखला ।

२. पंच भूतों या तत्त्वों में से एक जिसका प्रधान गुण गंध है, पर जिसमें गौण रूप से शब्द, स्पर्श रूप और रस ये चारों गुण भी हैं । विशेष—दे० 'भूत' । ३. पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जो मिट्टी और पत्थर आदि का है और जिसपर हम सब लोग चलते फिरते हैं । भूमि । जमीन । धरती । (मुहा० के लिये दे० 'जमीन') । ४. मिट्टी । ५. सत्रह अक्षरों का एक वर्णवृत्त जिसमें ८, ९, पर यति और अत में लघु गुरु होते हैं । जैसे—जु राम छवि ककण्ठ, निरखि भारसी संयुता । लगाय हिय सो घरी कर न दूर पृथ्वीसुता । ६. हिगुपत्री । ७. काला जीरा । ८. सोठ । ९. बड़ी इलायची ।

पृथ्वीका—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. बड़ी इलायची । २. छोटी इलायची । ३. काला जीरा । ४. हिगुपत्री ।

पृथ्वीकुरवक—सज्ञा पुं० [सं०] सफेद मदार या आक ।
 पृथ्वीखात—सज्ञा पुं० [सं०] गुफा । गुहा (को०) ।
 पृथ्वीगर्भ—सज्ञा पुं० [सं०] गणेश ।
 पृथ्वीगृह—सज्ञा पुं० [सं०] गुफा ।
 पृथ्वीज^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ सांभर नामक । २. वृक्ष । पेड़ (को०) ।
 ३ मंगल ग्रह (को०) ।
 पृथ्वीज^२—वि० जा पृथ्वी से उत्पन्न हुआ हो ।
 पृथ्वीतनया—सज्ञा स्त्री० [सं०] सीता (को०) ।
 पृथ्वीदल—सज्ञा पुं० [सं०] १ जमीन की सतह । वह धरातल जिसपर हम लोग चलते फिरते हैं । २ ससार । दुनिया ।
 पृथ्वीधर—सज्ञा पुं० [सं०] पवत । पहाड़ ।
 पृथ्वीनाथ—सज्ञा पुं० [सं०] राजा ।
 पृथ्वीपति—सज्ञा पुं० [सं०] राजा ।
 पृथ्वीपाल—सज्ञा पुं० [सं०] राजा ।
 पृथ्वीपुत्र—सज्ञा पुं० [सं०] मंगल ग्रह ।
 पृथ्वीमण्डल—सज्ञा पुं० [सं० पृथिवीमण्डल] भूमण्डल (को०) ।
 पृथ्वीश—सज्ञा पुं० [सं०] राजा ।
 पृथ्वीसुता—सज्ञा स्त्री० [सं०] जानकी । सीता । उ०—जु राम छवि ककरौं निरखि आरसी समुता । नगाय हिय सो धरी कर न दूर पृथ्वीसुता ।—(शब्द०) ।
 पृदाकु—सज्ञा पुं० [सं०] १ सों। २. विच्छू । ३. बाघ । ४ चीता । ५ हाथी । ६ वृष । पेड़ ।
 पृश्नि^१—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ सुतप नामक राजा की रानी का नाम । २ चितले रंग की गाय । चितकवरी गाय । ३ पिठवन । ४ रश्मि । किरण । ५ पृथिवी । धरती (को०) । ६ कृष्ण की माता देवकी का नाम (को०) ।
 पृश्नि^२—सज्ञा पुं० १ अनाज । २ वेद । ३ पानी । जल । ४ अमृत या दुग्ध । ५ एक प्राचीन ऋषि का नाम । ६ वामन । वीरा (को०) ।
 पृश्नि^३—वि० १ जिसका शरीर दुबला पतला हो । २ सफेद रंग का । ३ चितकवरी । ४ साधारण । मामूली । ५ छोटे कद का । ह्रस्वकाय (को०) ।
 पृश्निका—सज्ञा स्त्री० [सं०] जलकुभी ।
 पृश्निगर्भ—सज्ञा पुं० [सं०] श्रीकृष्ण ।
 पृश्निधर—सज्ञा पुं० [सं०] श्रीकृष्ण (को०) ।
 पृश्निपर्णी—सज्ञा स्त्री० [सं०] पिठवन लता ।
 पृश्निभद्र—सज्ञा पुं० [सं०] श्रीकृष्ण ।
 पृश्निशृंग—सज्ञा पुं० [सं० पृश्निशृङ्ग] १ विष्णु । २ गणेश ।
 पृश्नी—सज्ञा स्त्री० [सं०] जलकुभी ।
 पृषत्^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ चितला हिरन । चीतल पाटा । २ राजा द्रुपद के पिता का नाम । ३ एक प्रकार का सर्प । ४ रोहित नाम की मछली । ५ वृद्ध । ६ दाग । घन्बा (को०) ।

पृषत्^२—वि० १ चितकवरी । २ मिन । छिडका हुआ (को०) ।
 पृषत्—वि०, सज्ञा पुं० [सं०] १. 'पृषत्' । २ वायु का गहन । पवन की सयारी (को०) ।
 पृषतापति—सज्ञा पुं० [सं० पृषताम्पति] वायु । पवन (को०) ।
 पृषताश्व—सज्ञा पुं० [सं०] वायु । हवा ।
 पृषत्क—सज्ञा पुं० [सं०] १ बाण । २ गोल घन्टा (को०) ।
 पृषदश—सज्ञा पुं० [सं०] १. वायु । २. शिव (को०) ।
 पृषदश्व—सज्ञा पुं० [सं०] १. वायु । हवा । २. महाभारत के अनुसार एक राजपि का नाम । ३ भागवत के अनुसार विष्णु का पुत्र का नाम । ४. शिव (को०) ।
 पृषदाज्य—सज्ञा पुं० [सं०] दही मिला हुआ घी ।
 पृषद्ग—सज्ञा पुं० [सं०] हरिवंश के अनुसार वेदात्त मनु के एक पुत्र का नाम ।
 पृषद्बल—सज्ञा पुं० [सं०] वायु का घोड़ा (को०) ।
 पृषद्हरा—सज्ञा स्त्री० [सं०] मेनका की कन्या का नाम ।
 पृषभापा—सज्ञा स्त्री० [सं०] द्रु की पुरी । पूषभापा । अमरावती का एक नाम ।
 पृषाकरा—सज्ञा स्त्री० [सं०] तोलने का बाट ।
 पृषातक—सज्ञा पुं० [सं०] दही मिला हुआ घी ।
 पृषोदर^१—सज्ञा पुं० [सं०] वायु । हवा ।
 पृषोदर^२—वि० जिसका पेट छोटा हो ।
 पृषोद्यान—सज्ञा पुं० [सं०] छोटा उद्यान या बाग (को०) ।
 पृष्ट^१—वि० [सं०] १ पूछा हुआ । जो पूछा गया हो । २ सिक्त । सींचा हुआ (को०) ।
 पृष्ट^२—सज्ञा पुं० प्रश्न । जिज्ञासा । पूछताछ (को०) ।
 पृष्टा^३—सज्ञा पुं० [सं० पृष्ट] २० 'पृष्ठ' ।
 पृष्टहायन—सज्ञा पुं० [सं०] १ हाथी । हस्ती । २ एक प्रकार का मत्त (को०) ।
 पृष्टि^१—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ पूछने की क्रिया या भाव । पूछताछ । २ पिछला भाग । ३ स्पर्श (को०) । ४ प्रकाश किरण (को०) ।
 पृष्टि^२—सज्ञा स्त्री० [सं० पृष्टि (= पिछला भाग)] पृष्ठ । पीठ । उ०—दोऊ कर पुनि फेरि पृष्टि पीछे करि आचय ।—सुंदर० प्र०, भा० १, पृ० ४३ ।
 पृष्ठ—सज्ञा पुं० [सं०] १ पीठ । २. किसी वस्तु का वह भाग या तल जो ऊपर की ओर हो । ऊपरी तल । ३ पीछे का भाग । पीछा । ४ पुस्तक के पन्ने का एक ओर का तल । ५. पुस्तक का पत्रा । पन्ना । ६ मकान की छत (को०) । ७ चरम । शेष (को०) ।
 पृष्ठक—सज्ञा पुं० [सं०] पिछला भाग । पीठ की ओर का हिस्सा ।
 पृष्ठग—वि० [सं०] (घोड़े आदि पर) सवार । चढा हुआ (को०) ।
 पृष्ठगामी—वि० [सं० पृष्ठगामिन्] अनुयायी । विश्वासपात्र (को०) ।
 पृष्ठगोप—सज्ञा पुं० [सं०] वह सैनिक जो सेना के पिछले भाग की रक्षा के लिये नियुक्त हो ।

पृष्ठप्रथि^१—वि० [म० पृष्ठप्रथि] कुवडा [को०] ।
 पृष्ठप्रथि^२—सज्ञा स्त्री० कुवड [को०] ।
 पृष्ठमह—सज्ञा पुं० [सं०] घोडो का एक रोग ।
 पृष्ठचक्र—सज्ञा पुं० [सं० पृष्ठचक्रस्] १ केकडा । २ रीछ । भालू ।
 पृष्ठज—वि० [सं०] पीठ पर उत्पन्न । बाद का पैदा [को०] ।
 पृष्ठतः—क्रि० वि० [सं० पृष्ठतस्] १ पीछे । पीठ पीछे । २ पीछे से । ३ पीठ की ओर । पीछे की ओर । ४. पीठ पर । ५ गोपनीय ढग से । छिपकर [को०] ।
 पृष्ठतःप्रथित—सज्ञा पुं० [सं०] खड्ग चलाने का एक ढग । तलवार का एक हाथ ।
 पृष्ठतरपन—सज्ञा पुं० [सं०] हाथी की पीठ पर की बाहरी पेशियाँ [को०] ।
 पृष्ठताप—सज्ञा पुं० [सं०] मध्याह्न । दोपहर [को०] ।
 पृष्ठदृष्टि—सज्ञा पुं० [सं०] रीछ । भालू ।
 पृष्ठदेश—सज्ञा पुं० [म०] पिछला भाग [को०] ।
 पृष्ठपर्णी—सज्ञा स्त्री० [सं०] पिठवन लता ।
 पृष्ठपाती—वि० [सं० पृष्ठपातिन्] १ पृष्ठानुयायी । अनुगता । २ नियन्त्रक । ३ निरीक्षणरत । सावधान [को०] ।
 पृष्ठपोषक—सज्ञा पुं० [सं०] १. पीठ ठोकनेवाला । २ सहायक । मददगार ।
 पृष्ठपोषण—सज्ञा पुं० [सं०] मदद । सहायता । प्रोत्साहन ।
 पृष्ठफल—सज्ञा पुं० [सं०] किसी पिंड के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल ।
 पृष्ठभंग—सज्ञा पुं० [सं० पृष्ठभंग] युद्ध का एक ढग जिसमें शत्रु सेना का पिछला भाग आक्रमण करके नष्ट किया जाता है ।
 पृष्ठभाग—सज्ञा पुं० [सं०] १ पीठ । पृष्ठ । २ पिछला भाग ।
 पृष्ठभूमि—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. मकान की ऊपरी छत या मजिल । २ दे० 'पृष्ठिका' । बाद की घटनाओं या परिस्थितियों का विश्लेषण करने में सहायक पूर्व की घटनाएँ, अनुभव, ज्ञान या शिक्षा ।
 पृष्ठमर्म—सज्ञा पुं० [सं० पृष्ठमर्मन्] सुश्रुत के अनुसार पीठ पर के चौदह मर्मस्थान ।
 विशेष—इनपर आघात लगने से मनुष्य मर सकता है, अथवा उसका कोई अंग बेकाम हो जाता है । ये सब स्थान गरदन से झूतड तक मेरुदंड के दोनों ओर युग्म सख्या में हैं और इन सबके अलग अलग नाम हैं ।
 पृष्ठमांसाद्—सज्ञा पुं० [म०] वह जो पीठ पीछे किसी की बुराई करता हो । जुगुलखोर ।
 पृष्ठमांसादन—सज्ञा पुं० [सं०] पीठ पीछे किसी की निंदा करना । जुगुली करना ।
 पृष्ठयान—सज्ञा पुं० [सं०] (बोडे आदि पर) सवारी करना [को०] ।
 पृष्ठलग्न—वि० [सं०] अनुयायी । पीछे लगा रहनेवाला । पिछलगू [को०] ।

पृष्ठवंश—सज्ञा पुं० [सं०] रीढ ।
 पृष्ठवाट्—सज्ञा पुं० [सं० पृष्ठवाह्] दे० 'पृष्ठवाह्य' [को०] ।
 पृष्ठावास्तु—सज्ञा पुं० [सं०] एक मकान के ऊपर बना हुआ मकान अथवा एक खड के ऊपर दूसरे खड पर बना हुआ मकान ।
 पृष्ठवाह्य—सज्ञा पुं० [सं०] वह पशु जिसकी पीठ पर बोझ लादा जाता हो । लडुवा बैल ।
 पृष्ठशृंग—सज्ञा पुं० [म० पृष्ठशृङ्ग] जगली वकरा [को०] ।
 पृष्ठशृंगी—सज्ञा पुं० [सं० पृष्ठशृङ्गिन्] १ मेढ़ा । २ भसा । ३ हिजडा । षड । नामर्द । ४. भीमसेन का एक नाम ।
 पृष्ठानुग—वि० [सं०] पीछे चलनेवाला । अनुयायी [को०] ।
 पृष्ठानुगामी—वि० [म० पृष्ठानुगामिन्] दे० 'पृष्ठानुग' ।
 पृष्ठाशय—वि० [सं०] पीठ के बल सोनेवाला [को०] ।
 पृष्ठाथित—सज्ञा स्त्री० [सं०] पीठ की हड्डी रीढ़ ।
 पृष्ठिका—सज्ञा स्त्री० [म०] १. पिछला भाग । पिछला हिस्सा । २ मूर्ति, चित्र, विवरण आदि में सबसे पीछे का वह भाग जो अकित दृश्य या घटना का आश्रय होता है । पृष्ठभूमि । (सं० वैकग्राउड) दे० 'पृष्ठभूमि' ।
 पृष्ठेमुख—सज्ञा पुं० [सं०] कार्तिकेय के एक अनुचर का नाम ।
 पृष्ठोदय—सज्ञा पुं० [सं०] ज्योतिष में मेष, वृष, कर्क, धन, मकर और मीन ये छह राशियाँ जिनके विषय में यह माना जाता जाता है कि ये पीठ की ओर से उदय होती हैं ।
 पृष्ठ्य^१—वि० [सं०] पृष्ठ सबधी । पीठ का ।
 पृष्ठ्य^२—सज्ञा पुं० वह घोडा जिसकी पीठ पर बोझा लादा जाता हो ।
 पृष्ठ्यस्तोम—सज्ञा पुं० [सं०] यज्ञ का षडह्निक नामक एक समय-विभाग । षटश्रु या छह एकाह ।
 पृष्ठ्या—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ सामान ढोनेवाली घोडी । २ वेदी के उपर का किनारा ।
 पृष्ठ्यावलंब—सज्ञा पुं० [सं० पृष्ठ्यावलम्ब] यज्ञ का पाँच दिन का एक समयविभाग । यज्ञ के कुछ विशिष्ट पाँच दिन ।
 पृष्णि—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. पैर की एंडी । २ प्रकाशकिरण [को०] ।
 पृष्णिपर्णी—सज्ञा स्त्री० [सं०] पिठवन लता ।
 पेंजूष—सज्ञा पुं० [सं० पेञ्जूप, पिञ्जूप] कान का मँल । खँठ । पिञ्जूप [को०] ।
 पेंटर—सज्ञा पुं० [अ०] रग ।
 पेंटर—सज्ञा पुं० [अ०] १ चित्रकार । मुमव्वर । २ रग भरनेवाला । रगसाज ।
 पेंटिंग—सज्ञा स्त्री० [अ०] १ चित्रकारी । मुसव्वरी । २, रग भरने का काम । रगसाजी ।
 पेड—सज्ञा पुं० [सं० पेगड] मार्ग । रास्ता । पैदा [को०] ।
 पेडुलम—सज्ञा पुं० [अ०] दीवार में लगानेवाली घड़ी में हिलनेवाला टुकड़ा जो उसकी गति का नियन्त्रण करता है । घडी का लटकन । लगर ।
 पेंशन—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पेंशन' ।

पेंशनर—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] दे० 'पेन्शनर' ।

पेंस—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] एक अंग्रेजी सिक्का । पेनी ।

पेंसिल—सञ्ज्ञा स्त्री [अ०] दे० 'पेनसिल' ।

पें^१—सञ्ज्ञा पुं० [अनु०] पें पे का शब्द, जो रोने, बाजा फूंकने आदि से निकलता है ।

पें^२—अव्य० [हिं०] दे० 'पें' । उ०—पें निमित्त गिरद्वीप तब पुष्कर मुस्र हरि सार ।—नद० ग्र०, पृ० ६८ ।

पेंग^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पटेंग, पट (= पटड़ा) + वेग अथवा स० प्लवङ्ग] हिंडोले या भूले का भूलते समय एक ओर से दूसरी ओर को जाना ।

मुहा०—पेंग मारना = भूले पर भूलते समय उसपर इस प्रकार जोर पहुँचाना जिसमें उसका वेग बढ़ जाय और दोनों ओर वह दूर तक भूले । उ०—भोजाइन वैठाय पेंग मारत देवर गन ।—प्रेमघन०, भा० १, पृ० १० । पेंग घड़ाना या चढ़ाना = दे० 'पेंग मारना' । पेंग चढ़ना = जोर बढ़ना । अधिकता होना । उ०—अब सुनिए कि नशेवाजी के पेंग बढ़े पहले तो सिर्फ एक कोठी से लेन देन शुरू हुआ ।—फिसाना०, भा० ३, पृ० १५३ ।

पेंग^२—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का पक्षी ।

पेंगिया मैना—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पेंग + मैना] एक प्रकार की मैना (पक्षी) जिसे सतभैया भी कहते हैं । दे० 'सतभइया' ।

पेंघट—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का पक्षी जिसका शरीर मट-मंले रंग का, अंखि लाल और चोंच सफेद होती है ।

पेंघा—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] दे० 'पेंघट' ।

पेंच—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पेच] चालवाजी । चक्कर । दे० 'पेंच' उ०—सावधान हो पेंच न लैयो रहियो आप सँभारी ।—चरण० बानी०, पृ० ६७ ।

पेंचक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पेचक] दे० 'पेचक' ।

पेंचकश—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पेचकश] दे० 'पेचकश' ।

पेंच का घाट—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पेंच + घाट] जहाजों के ठहरने का पक्का घाट । (लश०) ।

पेंजनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] दे० 'पैजनी' ।

पेंठ—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पैठ' ।

पेंड़^१—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का सारस पक्षी जिसकी चोच पीली होती है ।

पेंड़^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्ड] १ दे० 'पेड़' । उ०—हलत पेंड़ रच्चयो अरुन्न नील कच्चयो ।—पृ० रा०, २५.१३३। २. दे० 'पेंड' । उ०—नवसिष्प भोर कथि थोर कालकोर कलकरी । आहुटठ पेंड भोम पड, छोडि छड उरवरी ।—पृ० रा०, २।२२४ ।

पेंड़ना—क्रि० सं० [देश०] दे० 'वेठना' ।

पेंड़ुकी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पण्डुक] १ पण्डुक पक्षी । फाखता । २ सुनारों का वह औजार जिससे फूँककर वे आग सुलगाते हैं । फूँकनी ।

पेंड़ुकी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पिराक] पिराक या गुफिया नाम का पकवान् । दे० 'गुफिया' ।

पेंड़ुली^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिण्डला] ककडी । पिण्डला ।

पेंदरा^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पेंदा या पेडू] पेडू ।

पेंदा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्ड] [स्त्री० अथवा० पेंदी] किसी वस्तु का निचला भाग जिसके आधार पर वह ठहरती या रखी जाती हो । बिल्कुल निचला भाग । जैसे, लोटे का पेदा । जहाज का पेंदा ।

मुहा०—पेंदे के बल बैठना = (१) चूतड़ देकर बैठना । पलथी मारकर बैठना । (व्यंग्य) । (२) हार मानना । दबना ।

पेंदे का हलफा = जिसका विकास न किया जा सके । शोछा ।

पेंदी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पेंदा] १ किसी वस्तु का निचला भाग ।

मुहा०—वे पेंदी का लोटा = अस्थिर व्यक्ति । दुलमुल नीति का व्यक्ति । ऐसा व्यक्ति जो कभी एक पक्ष का अनुयायी हो, कभी दूसरे का ।

२ गुदा । गाँड । ३. तोप या बंदूक की कोठी । ४ गाजर या मूली आदि की जड़ ।

पेंना^१—वि० [हिं०] दे० 'पैना' । उ०—भोहें कुटिल कमान सी सर से पेंनें नैन ।—पोद्दार अभि० ग्र०, पृ० ४२५ ।

पेंहडुली^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पेठा या पिण्डला (= ककरी)] १ ककरी या पेठा नामक लता । २. इस लता का फल जो कुदर के आकार का होता है और जिसकी तरकारी तथा ककरी बनती है । विशेष—दे० 'ककरी' ।

पे—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ०] तनखाह । वेतन । महीना । जैसे,—इस महीने की पे तुम्हें मिल गई ।

क्रि० प्र०—देना ।—मिलना ।—लेना ।

पेआन(पु)†—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रयाण, प्रा० पयाण] दे० 'प्रयाण' । उ०—ब्रह्मलोक ब्रह्म असथाना । तहाँ काल फिरि करे पेआना ।—सं० दरिया, पृ० ४ ।

पेउशां—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीयूष] दे० 'पेउसी' ।

पेउसां—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीयूष, पेऊस] दे० 'पेउसी' ।

पेउसरीं—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पीयूष, प्रा० पेऊस] दे० 'पेउसी' ।

पेउसीं—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पीयूष, प्रा० पेऊस + ई (प्रत्य०)]

१ व्याईं हुई गाय या भैंस का पहले दिन का अथवा पहले सात दिन का दूध जो बहुत गाढा और कुछ पीले रंग का होता है । यह दूध पीने के योग्य नहीं होता । इसे तेली भी कहते हैं । २ एक प्रकार का पकवान जो उक्त दूध में सोंठ और शक्कर आदि डालकर पकाया और जमाया जाता है । यह स्वादिष्ट और पुष्टिकर होता है । इदर । इन्नर ।

पेखक(पु)†—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रेक्षक, प्रा० पेखक] देखनेवाला । दर्शक । उ०—व्योम विभाजन विबुध बिलोकत खेखक पेखक छाँह छप ।—तुलसी (धन्व०) ।

पेखन(पु)†—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रेक्षण, प्रा० पेखण, पु० हिं० पेखण] १. देखने की क्रिया । प्रेक्षण । २. वह जो कुछ देखा जाय ।

तमाशा । दृश्य । उ०—जगु पेखन तुम देखनिहारे । विधि हरि शंभु नचावनि हारे ।—मानस, २।१२७ ।

पेखना^(१)—क्रि० स० [स० प्रेक्षण, प्रा० पेक्खण] देखना । अवलोकन करना । उ०—अमकण सहित श्याम तनु देखे । कहँ दुख समउ प्राणपति पेखे ।—तुलसी (शब्द०) ।

पेखना^(२)—सज्ञा पुं० [स० प्रेक्ष्य] १ वह जो कुछ देखा जाय । दृश्य । उ०—रगभूमि आएँ दसरथ के किसोर हैं । पेखनो सो पेखन चले हैं पुर नर नारि बारे बूढे अध पंगु करत निहोर हैं ।—तुलसी ग्र०, पृ० ३०६ । २ देखने का भाव । प्रेक्षण । उ०—सखि सबको मन हरि लेति, ऐन मन मनो पेखनो ।—नद० ग्रं०, पृ० ३८५ ।

पेगवरा—सज्ञा पुं० [स० पैगामबर, पैगवर] दे० 'पेगवर' । उ०—जाप का पेगवर आप का दरियाव । ताप का सेस ज्वाल दाप का कुरराव ।—रा० रू०, पृ० ६७ ।

पेग—सज्ञा पुं० [प्र०] उतनी शराब जितनी एक बार में सोडावाटर डालकर पीते हैं । शराब का गिलास । शराब का प्याला । जैसे,—एक और साहब लोग बैठे हुए पेग पर पेग उठा रहे थे ।

पेग^३—सज्ञा स्त्री० [हि० पैंग] दे० 'पेग' । उ०—लेत खरी पेगें छवि छाजँ उसकन में ।—भारतेंदु ग्रं०, भा० १, पृ० ३६० ।

पेच—सज्ञा पुं० [फा०] १ घुमाव । फिराव । लपेट । फेर । चक्कर । २ उलझन । झगड़ । कठिनता । उ०—कागज करम करसूति के उठाय धरे पचि पचि पेच मे परे हैं प्रेतनाह अव ।—पद्माकर (शब्द०) ।

क्रि० प्र०—डालना । पढ़ना ।

विशेष—उक्त दोनों अर्थों में कहीं कहीं लोग इसको स्त्रीलिंग भी बोलते हैं । गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक स्थान पर इसका व्यवहार स्त्रीलिंग में ही किया है । यथा—सोचत जनक पोच पेच परि गई है ।—तुलसी ग्रं०, पृ० ३१३ ।

३ चालाकी । चालबाजी । धूर्तता ।

क्रि० प्र०—पढ़ना ।—चलना ।

४. पगड़ी का फेर । पगड़ी की लपेट ।

क्रि० प्र०—कसना ।—घाँघना ।—देना ।

५ किसी प्रकार की कल । यत्र । मशीन । जैसे, रूई का पेच ।

६ यत्र का कोई विशेष अंग जिसके सहारे कोई विशेष कार्य होता हो । मशीन का पुरजा । ७ यत्र का वह विशेष अंग जिसको दधाने, घुमाने या हिलाने आदि से वह यत्र अथवा उसका कोई अंश चलता या रुकता हो ।

क्रि० प्र०—घुमाना ।—चलाना ।—दवाना ।

मुहा०—पेच घुमाना = ऐसी युक्ति करना जिससे किसी के विचार या कार्य आदि का रुख बदल जाय । तरकीब से किसी का मन फेरना । पेच हाथ में होना = किसी के विचारों को

परिवर्तन करने की शक्ति होना । प्रवृत्ति आदि बदलने का सामर्थ्य होना ।

८ वह कील या काँटा जिसके नुकीले आधे भाग पर चक्करदार गहारियाँ बनी होती हैं और जो ठोककर नहीं बल्कि घुमाकर जड़ा जाता है । स्क्रू ।

क्रि० प्र०—कसना ।—खोलना ।—जड़ना ।—निकालना ।

९ पतंग लड़ने के समय दो या अधिक पतंगों के डोर का एक दूसरे में फँस जाना ।

क्रि० प्र०—डालना ।

मुहा०—पेच काटना = दूसरे की गुड्डी या पतंग की डोर में अपनी डोर फँसाकर उसकी डोर काटना । गुड्डी या पतंग काटना । पेच लड़ाना = दूसरे की पतंग काटने के लिये उसकी डोर में अपनी डोर फँसाना । पेच छुटाना = दो पतंगों की फँसी हुई डोर का अलग अलग हो जाना ।

१० कुशती में वह विशेष क्रिया या घात जिससे प्रतिद्वंद्वी पछाड़ा जाय । कुशती में दूसरे को पछाड़ने की युक्ति । उ०—इक एक पुहुमि पछार देत उछारि पुनि उठि घाय । रह सावधान बखान करि पुनि गँसन पेच लगाया ।—रघुराज (शब्द०) ।

क्रि० प्र०—चलना ।—मारना ।—लगाना ।

११ युक्ति । तरकीब ।

क्रि० प्र०—निकालना ।

१२. तबले के किसी परत या ताल के बोल में से कोई एक टुकड़ा निकालकर उसके स्थान पर ठीक उतना ही बड़ा दूसरा कोई टुकड़ा लगा देना ।

क्रि० प्र०—लगाना ।

१३. एक प्रकार का आभूषण जो टोपी या पगड़ी में सामने की ओर खोसा या लगाया जाता है । सिरपेच । १४ सिरपेच की तरह का एक प्रकार का आभूषण जो कानों में पहना जाता है । गोशपेच । उ०—गोशपेच कुडल कलंगी सिरपेच पेच पेचन ते खँचि बिन बँचे वारि आयो है ।—पद्माकर (शब्द०) । १५ पेचिश । पेट का मरोड़ । दे० 'पेचिश' ।

क्रि० प्र०—उठना । पढ़ना ।

१६. दे० 'पेचताव' ।

पेचक^१—सज्ञा स्त्री० [फा०] १. बटे हुए तागे की गोलो या गुच्छी । २ बटा तथा लपेटा हुआ महीन तागा जिससे कपड़े सीते हैं ।

पेचक^२—सज्ञा पुं० [स०] [स्त्री० पेचिका] १ उल्लू पक्षी । २ जू । ३. बादल । ४ पलंग । चारपाई । ५ हाथी की पूँछ की जड़ । ६ सबक पर का विश्रामालय (को०) ।

पेचकश—सज्ञा पुं० [फा०] १ बढइयो और लोहारो आदि का वह औजार जिससे वे लोग पेच (स्क्रू) जड़ते अथवा निकालते हैं ।

विशेष—यह आगे से चपटा और कृद्ध मुकीला लोहा होता है जिसके पिछले भाग में पकड़ने के लिये दस्ता जड़ा रहता है ।

२ लोहे का बना हुआ वह घुमावदार पेच जिसकी सहायता से बोतल का काग निकाला जाता है।

विशेष—इसे पहले घुमाते हुए काग में धँसाते हैं और जब वह कुछ अदर चला जाता है तब ऊपर की ओर खींचते हैं जिससे काग बोतल के बाहर निकल आता है।

पेचकी—सज्ञा पुं० [सं० पेचकिन्] हाथी [को०]।

पेचताव—सज्ञा पुं० [फ्रा०] वह क्रोध जो विवशता आदि के कारण प्रकट न किया जाय। वह गुस्सा जो मन ही मन में रह जाय और निकाला न जा सके।

क्रि० प्र०—खाना।

पेचदार^१—वि० [फ्रा०] १ जिसमें कोई पेच लगा हो। जिसमें कोई कल लगी हो। पेचवाला। २ जिसमें कोई उलझाव हो। उलझाववाला। कठिन। दे० 'पेचीला'।

पेचदार^२—सज्ञा पुं० एक प्रकार का कसीदे का काम जिसमें काढ़ते समय फड़े लगाए जाते हैं।

पेचना—क्रि० सं० [फ्रा० पेच] दो चीजों के बीच में उसी प्रकार की एक तीसरी चीज इस प्रकार घुसेड देना जिससे साधारणतः वह दिखाई न पड़े। इस प्रकार लगाना जिसमें पता न लगे।

पेचनी—सज्ञा स्त्री० [हिं० पेच] चिकन या कामदानी के काम में एक सीधी लकीर पर काठा हुआ कसीदा।

पेचपाच—सज्ञा पुं० [फ्रा० पेच + अनु० पाच] दे० 'पेच'। उ०—छोड दे पेचपाच की आदत। बीच का खींचतान कर दे कम।—चुभते०, पृ० ३४।

पेचवाँ(पु)—सज्ञा पुं० [हिं०] पगडी आदि की लपेट पर का एक धामूपण। पेच। उ०—कर साफ अतर से मुखड़े पर, बेतरह पेचवाँ डाली है।—पोद्दार अभि० ग्रं०, पृ० ३६३।

पेचवान—सज्ञा पुं० [फ्रा०] १ बड़ी सटक जो फर्शी या गुडगुडी में लगाई जाती है। २. बडा हुक्का।

पेचा—सज्ञा पुं० [सं० पेचक] [स्त्री० पेची] उल्लू पक्षी।

पेचिका—सज्ञा स्त्री० [म०] उल्लू पक्षी की मादा।

पेचिल—सज्ञा पुं० [सं०] हाथी [को०]।

पेचिश—सज्ञा स्त्री० [फ्रा०] १ पेट की वह पीड़ा जो आँव होने के कारण होती है। मरोड। २ आँव के कारण एँठन होने से बार बार पाखाना जाने का रोग [को०]।

पेचीदगी—सज्ञा स्त्री० [फ्रा०] १ पेचीला होने का भाव। घुमावदार होने का भाव। २ उलझाव।

पेचीदा—वि० [फ्रा० पेचीदह] १ जिसमें बहुत कुछ पेच हो। पेचदार। २. जो टेढ़ा मेढ़ा और कठिन हो। उलझावदार। मुश्किल। ३ लिपटा हुआ [को०]।

पेचीला—वि० [हिं० पेच + ईला (प्रत्य०),] १ जिसमें बहुत पेच हो। घुमाव फिराववाला। २. जो टेढ़ा मेढ़ा और कठिन हो। उलझावदार। मुश्किल।

पेचु, पेचुक—सज्ञा पुं० [म०] एक शाक [को०]।

पेचुली—सज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार का शाक।

पेज^१—सज्ञा स्त्री० [म० पेय] रबड़ी। वसोधी।

पेज^२—सज्ञा पुं० [फ्रा०] १ पुस्तक का पृष्ठ। वरक। सफहा। पन्ना। २ सेवक। अनुचर। विशेषकर बाल अनुचर जो किसी पद मर्यादावाले या ऐश्वर्यशाली व्यक्ति की सेवा में रहता है। जैसे,—दिल्ली दरबार के अवसर पर दो देशी नरेशों के पुत्रों को महाराज जार्ज के 'पेज' बनने का समान प्रदान किया गया था जो महाराज का जामा पीछे से चढाए हुए चलते थे। ३ वह बालक या युवा व्यक्ति जो किसी व्यवस्थापिका परिपद के अधिवेशन में सदस्यों और अधिकारियों की सेवा में रहता है।

पेज^३—सज्ञा स्त्री० [म० प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रा० पद्दज्ञा, अप० पद्दज्ञ, हिं० पैज] पैज। प्रतिज्ञा। उ०—बल को भीम, पेज को परशुराम, चाचा वो युधिष्ठिर तेज प्रताप को, भान।—अधवरी०, पृ० १०६।

पेट^१—सज्ञा पुं० [म० पेट (= थैला)] १ शरीर में थैले के आकार का वह भाग जिसमें पहुँचकर भोजन पचता है। उदर।

विशेष—बहुत ही निम्न कोटि के जीवों में गले के नीचे का प्रायः सारा भाग पेट का ही काम देता है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी प्रकार की पाचन क्रिया होती ही नहीं और इसलिये उनमें पेट भी नहीं होता। पर उच्च कोटि के जीवों के शरीर के प्रायः मध्य भाग में थैले के आकार का एक विशेष अंग होता है जिसमें पाचन रस बनता और भोजन पचता है। मनुष्यों और चौपायों आदि में यह अंग पसलियों के नीचे और जननेंद्रिय से कुछ ऊपर तक रहता है। पाचक रस बनाने और भोजन पचानेवाले सब अंग, जैसे, भ्रामाशय, पक्वाशय, जिगर, तिल्ली, गुरदे आदि इसी के अंतर्गत रहते हैं। इसी के नीचे का भाग कटोरे के आकार का होता है जिसमें अर्ति और मुत्राशय रहता है। कुछ जीवों, जैसे पक्षियों आदि, में एक के बदले दो पेट होता है।

मुहा०—पेट खाना = दस्त खाना। (बव०)। पेट का कुत्ता = जो केवल भोजन के लालच से सब काम करता हो। केवल पेट के लिये सब कुछ करनेवाला। पेट कटना = खाने को कम मिलना। भूखे पेट रहना। उ०—पेट कटता देख जब रो पीटकर। लोग पीटा ही करेंगे छातियाँ।—चुभते० पृ० ३६। पेट काटना = बचाने के लिये कम खाना। जान बूझकर कम खाना जिसमें कुछ बचत हो जाय। पेट का घधा = (१) भोजन बनाने का प्रबंध। रसोई बनाने का ऋभट। (२) रोजी रोजगार ढूँढने का प्रबंध। जीविका का उपाय। (३) हलका कामकाज। मेहनत मजदूरी। पेट का पानी न पचना = रहा न जाना। रह न सकना। जैसे,—बिना सब हाल कहे तुम्हारे पेट का पानी न पचेगा। पेट का पानी हिलना = परिश्रम होना। मिहनत पढ़ना। उ०—हिल गए दिल भी न हिलना चाहिए। जायें हिल क्यों पेट का पानी

हिले। —चुभते०, पृ० ५७। पेट का पानी न हिलना = कुछ परिश्रम न पढना। जरा भी मिहनत या तकलीफ न होना। पेट का हलका = खुद्र प्रकृति का। ओछे स्वभाव का। जिसमें गभीरता न हो। पेट की आग = भूख। उ०—आगि बडवागि तें बडी है आगि पेट की।—तुलसी (शब्द०)। पेट की आग बुझाना = पेट में भोजन भोजन पहुँचाना। भूख दूर करना। उ०—काम हैं सुझ बुझ का करते। पेट की आग जो बुझाते हैं।—चोखे०, पृ० ३८। पेट की बात = गुप्त भेद। भेद की बात। उ०—पेट की बात जानना है तो पेट में पेट क्यों नहीं जाते।—चुभते०, पृ० ५३। पेट की मार देना या मारना = भूखा रखना। भोजन न देना। पेट के लिये दौड़ना = रोजी या जीविका के लिये उद्योग और परिश्रम करना। पेट के हाथ विकना = पेट के लिये कोई भी काम करना। आजीविकार्थ कोई भी बुरा भला काम करने के लिये बाध्य होना। उ०—बडी एक है। और पेट के हाथ तो विकी हुई है। कुछ ठिकाना है।—फिसाना०, भा० ३, पृ० ४२६। पेट को धोखा देना = ३० 'पेट काटना'। पेट खलाना = (१) अत्यंत दीनता दिखालाना। उ०—राम सुभाव सुने तुलसी प्रभु सो कही बारक पेट खलाई।—तुलसी (शब्द०)। (२) भूखे होने का संकेत करना। पेट को लगना = भूख लगना। पेट गड़ना = अपच के कारण पेट में रुद्ध होना। पेट गुड गुडाना = वादी के कारण आंतों में गुडगुड शब्द होना। पेट में वायु का विकार होना। पेट चलना = दस्त होना। बार बार पाखाना होना। पेट छूटना = (१) पेट साफ हो जाना। पेट का मल निकल जाना। (२) पेट की मोटाई का कम होना। दुबला हो जाना। पेट छूटना = दस्त होना। पेट जलना = (१) अत्यंत भूख लगना। (२) अत्यंत असंतुष्ट या क्रुद्ध होना। पेट जारी होना = दस्त लगना। दस्तों की बीमारी हो जाना। पेट दिखाना = (१) भूखे होने का संकेत करना। (२) पेट के रोग की पहचान कराना। पेट के रोग का निदान करना। पेट देना = अपना गुड भेद या विचार किसी को बतलाना। अपने मन की बात बतलाना। उ०—अपने पेट दियो तें उनको नाकबुद्धि तिय सबै कहैं री।—सूर (शब्द) पेट पकड़ना या पकड़े फिरना = परेशान होना। बहुत दुखी या तग होना। व्याकुल होना। पेट पाटना = जो कुछ मिल जाय उसी से पेट भर लेना। भूख के मारे खाद्य या अखाद्य का विचार छोड़कर खा लेना। पेट पानी होना = पतले दस्त आना। पेट पाल पालकर पलना = पेट भरकर जीना। केवल खाने कमाने में लगे रहना। उ०—सब दिनों पेट पाल पाल पले, मोहता मोह का रहा मेवा।—चोखे०, पृ० ४। पेट पालना = कठिनता से खाने भर को कमा लेना। जीवन निर्वाह करना। उ०—वेवसी को लपेट चित पट कर, पालना पेट मुँह पिटाना है।—चोखे०, पृ० २६। पेट पीठ एक हो जाना या पेट पीठ से लग जाना = (१) बहुत दुबला हो जाना (२) बहुत भूखे होना। पेट फूजना = (१) किसी बात को जानने या कहने के लिये

अथवा किसी पदार्थ को पाने आदि के लिये व्याकुल होना। किसी बात के लिये बहुत अधिक उत्सुक होना। बहुत अधिक हँसने के कारण पेट में हवा भर जाना (जिसके कारण और अधिक हँसा न जा सके)। (३) पेट में वायु का प्रकोप होना। पेट बाँधना = भूखे रहना। भूख शांत करने के लिये पेट में कुछ न डालना। उ०—आपका सेवक भी पेट बाँधकर सेवा नहीं करता।—किन्नर०, पृ० ८। पेट भरना = किसी प्रकार आजीविका चलना। कठिनाई से आजीविका चलाना। पेट मारना = (१) दे० 'पेट काटना'। (२) आत्मघात करना। आत्महत्या करना। उ०—हाथ जो आ जाय सोने की छुरी, पेट तो है मारता कोई नहीं।—चोखे०, पृ० २५। पेट मारकर मर जाना = आत्मघात करना। उ०—पेटो ना दिखानो कोऊ पेट मारि मरिहैं।—(शब्द०)। पेट में आँत न मुह में दाँत = वह जो बहुत बुद्धा हो। अत्यंत वृद्ध। पेट मुँह चलना = हैजा होना। उ०—दूसरे ही दिन मठ के एक साधू का पेट मुँह चलने लगा।—मैला०, पृ० ४६। पेट में खलबली पड़ना = (१) चिंता होना। फिर होना (२) व्याकुलता होना। धवराहट होना। पेट में चूहों का कलाबाजी खेलना = दे० 'पेट में चूहे दौड़ना'। पेट में चाँटे की गिरह होना = बहुत कम खाना। थोड़ा भोजन करना। पेट में ढाढ़ी होना = वचन ही में बहुत बुद्धिमान् होना। पेट में डालना = खा जाना। पेट में पाँव होना = अत्यंत छली या कपटी होना। चाखवाज होना। पेट में बल पड़ना = इतनी हँसी आना कि पेट में दर्द सा होने लगे। (कोई वस्तु) पेट में होना = अधिकार या चगुल में होना। गुप्त रूप से पास में होना। जैसे—तुम्हारी पुस्तक इन्हीं लोगों के पेट में है। पेट मोटा होना = घन बढ़ना। पूँजी बढ़ना। नाजायज ढग से संपत्ति की वृद्धि होना। उ०—जो निकल पावे निकाले पेट से। दिन व दिन है पेट मोटा हो रहा।—चुभते०, पृ० ४०। पेट मोटा हो जाना = बहुत घूसखोर हो जाना। अधिक रिश्वत लेने लगना। पेट लगना या लग जाना = भूख से पेट का अदर घँस जाना। पेट से पाँव निकालना = (१) किसी अच्छे आदमी का बुरा काम करने लग जाना। कुमार्ग में लगना। (२) बहुत इतराना। उ०—बहुत धानेदारी के बल पर न रहिएगा। देखा कि औरतें ही औरतें घर में हैं तो पेट से पाँव निकाले।—फिसाना०, भा० ३ पृ० २३१। (कोई वस्तु) पेट से निकालना = किसी के द्वारा उठाई या छिपाकर रखी हुई वस्तु को प्राप्त करना। हजम की हुई चीज पाना।

२. गर्भ। हमल।

थौ०—पेटपोड़ना।

मुहा०—पेट गदराना = गर्भ के लक्षण प्रकट होना। गर्भवती होने के चिह्न दिखाई देना। पेट गिरना = गर्भ गिरना। गर्भपात होना। पेट गिराना = गर्भ नष्ट करना। पेट गिरघाना = गर्भपात कराना। पेटघोटी = वह स्त्री जिसके गर्भ हो, परंतु संकित न होता हो। गर्भवती होने पर भी जिसके

गर्भ के लक्षण दिखाई न पड़ें। पेट छूटना = प्रसूता के गर्भाशय का अच्छी तरह साफ हो जाना। पेट ठढा रहना = बच्चों का सुख देखना। सतान का जीवित रहना। पेट दिखाना = दाईं से यह निश्चित कराना कि गर्भ है या नहीं। गर्भ होने या न होने की परीक्षा कराना। पेट फूलाना या फुला देना = गर्भवती कर देना। पेट फूलना = गर्भ रह जाना। पेट रखना = गर्भवती कर देना। पेट रखाना = किसी से सभोग कराके गर्भवती होना। पेट रखवाना = (१) गर्भवती होना। (२) गर्भवती होने की प्रेरणा करना। पेट रहना = गर्भ स्थित होना। गर्भ रहना। हमल रहना। पेटवाली = गर्भवती। पेट से होना = गर्भवती होना।

३ पेट के अंदर की वह शैली जिसमें खाद्य पदार्थ रहता और पचता है। पचनी। ओभर। ४ चक्की के पाटो का वह तल जो दोनों को जोड़ने से भीतर पड़े। ५ सिल आदि का वह भाग जो कूटा हुआ और खुरदरा रहता है और जिसपर रखकर कोई चीज पीसी जाती है। ६ अत करण। मन। दिल। उ०—चेटकी चवाइन के पेट की न पाई मैं।—ठाकुर (शब्द०)।

मुहा०—पेट में चूहे कूटना = दे० 'पेट में चूहे दौड़ना'। पेट में चूहे छूटना = दे० 'पेट में चूहे दौड़ना'। उ०—एक प्यादा बोला यहाँ पेट में चूहे छूटे हुए हैं।—फिसाना०, भा० ३, पृ० १७६। पेट में चूहे दौड़ना = (१) बहुत भूख लगना। (२) व्याकुल या चिंतित होना। व्यग्रता या खलवली होना। पेट में घुसना = भेद लेने के लिये मित्र बनना। रहस्य जानने के लिये मेल बढ़ाना। पेट में चूहों का डट पकना = दे० 'पेट में चूहे दौड़ना'। उ०—ख्वाब में हवा चमकता हो सितारा। पेट में डड पेलते चूहे, जर्बा पर लफज प्यारा।—कुक्र०, पृ० ५। पेट में छूरी घुसेड़ना = हस्या करना। जान लेना। उ०—काम हो कान के उठेहे जो, तो घुसेड़े न पेट में छूरी।—चुभते०, पृ० ५४। पेट में झलना = (१) कोई बात अपने मन में रखना। भेद प्रकट न होने देना। उ०—बात जो भेद डाल दे उसको, जो सकें डाल पेट में डालें।—चुभते०, पृ० ५३। (२) भोजन का नाम करना। भोजन के रूप में कोई अत्यंत तुच्छ वस्तु लेना। (३) जल्दी जल्दी भोजन करना। शीघ्रता से खाना। (४) अरुचिपूर्वक खाना। वेस्वाद भोजन करना। पेट में बैठना या पैठना = दे० 'पेट में घुसना'। उ०—जो चले काम पेट में पैठे, तो न तलवार पेट में डालें।—चुभते०, पृ० ५४। पेट में भरा पड़ा रहना = मन में होना या रहना। उ०—न जाने कहाँ का खटराग पेट में भरा पड़ा है।—चुभते० (दो दो बातें), पृ० ६। पेट में होना = मन में होना। शान में होना। जैसे, कोई बात पेट में होना।

७ पोली वस्तु के बीच का या भीतरी भाग। किसी पदार्थ के अंदर का वह स्थान जिसमें कोई चीज भरी जा सके। जैसे, बड़े पेटे की बोतल। ८ बटुक या तोप में का वह स्थान जहाँ गोली या गोला भरा जाता है। ९ गुंजाइश। समाई।

१० रोजी। जीविका। जैसे,—पेट के लिये सभी को कुछ न कुछ काम करना पड़ता है।

पेट^२ सजा पुं० [हि० पेट] रोटी का वह पार्श्व जो पहले तवे पर डाला जाता है।

पेट^३—सजा पुं० [सं०] १ पैला। २ पिटाग। सटुक। ३ समूह। राशि। ढेर। ४ उँगलियों के साथ खुली हुई हाथ की हथेली। थप्पड़। फापड़ [को०]।

पेटक—सजा पुं० [सं०] १. पिटारा। मजूपा। उ०—रघुवीर यथा मुकुता विपुल सव भुवन पटु पेटक भरे।—तुलसी (शब्द०)। ३ समूह। ढेर।

पेटकैयों—फि० वि० [हि० पेट + कैयों (प्रत्य०)] पेट के वल। पेटनट^७—सजा पुं० [हि०] पेट के लिये दर दर नाचनेवाला। उदरपूर्ति के लिये नट का काम करनेवाला व्यक्ति।

पेटपरस्त—वि० [सं० पेट + फा परस्त] पेट की चिंता में लीन रहनेवाला। उदरभर। पेटार्थी। उ०—परवस कायर कूर झालसी अथे पेटपरस्त। सुभता कुछ न वसत माँहिये भी खराव श्री खस्त।—भारतेंदु प्र०, भा० २, पृ० ३६७।

पेटपूजा—सजा स्त्री० [सं० पेट + पूजा] भोजन करना। खाना खाना।

पेटपोड़ना—सजा पुं० [सं० पेट + पोड़ना] अतिम संतान। वह सतान जिसके उपरांत और कोई सतान न हो।

पेटपोसुआ—सजा पुं० [सं० पेट + हि० पोसना] दे० 'पेट'।

पेटरिया—सजा स्त्री० [सं० पेटाल + हि० इया (प्रत्य०)] दे० 'पिटारी'।

पेटल—वि० [हि० पेट + ल (प्रत्य०)] बड़े पेटवाला। जिसका पेट बड़ा हो। तोदल।

पेटा^१—सजा पुं० [हि० पेट] १ किसी पदार्थ का मध्य भाग। बीच का हिस्सा। २. तफसील। व्योरा। पूरा विवरण। ३. बड़ा टोकरा। ४. सीमा। हद।

मुहा०—पेटे में आना = सीमा में आना। हद में पडना। पेटे में पडना = लगभग होना।—जैसे,—खर्च सी रुपये के पेटे में पड़ेगा।

५. घेरा। वृत्त। †६ गर्भ। हमल। पेट। ७ नदी के बहने का मार्ग। ८. नदी का पाट।

मुहा०—पेटे में आना = हूब जाना। पानी में लीन हो जाना। ६. पशुओं की अंतही। १० पतग या गुड्डी की डोर का झोल। उड़ती हुई गुड्डी की डोर का वह अण जो बीच में कुछ ढीला होकर लटक जाता है।

मुहा०—पेटा छोड़ना = उड़ती हुई गुड्डी का डोर बीच में से लटक या झूँक जाना। पेटा तोड़ना = उड़ती हुई गुड्डी की बीच में लटकती या झूमती हुई डोर तोड़ना।

पेटा^२—सजा स्त्री० [सं०] दे० 'पेट^३' [को०]।

पेटाक—सजा पुं० [सं०] झोला। पैला। बक्स [को०]।

पेटागि^७—सजा स्त्री० [सं० पेट + अग्नि, प्रा० अग्नि] पेट की

ज्वाला । भूख । उ०—जाति के सुजाति के कुजाति के पेटागि वश, खाए दूक सबके विदित बात दुनी सो ।—तुलसी (शब्द०) ।

पेटात्—वि० [हि० पेटार्थ] दे० 'पेटार्थ' ।

पेटार^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पेटक] पिटारा । उ०—तिल चारो पानिप सलिल अलक फद पल जार । मन पच्छी गहि कै किते डारे श्रवण पेटार ।—मुवारक (शब्द०) ।

पेटार^२—वि० १ पेटू । २. (ऐसा पात्र) जिसमें अधिक वस्तु अट सके । वहे पेट का (पात्र) ।

पेटारा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पेटालक] दे० 'पिटारा' । उ०—कनक किरीट कोटि पलंग पेटारे पीठ, काढ़त कहारु सभ जरे भरे भारही ।—तुलसी (शब्द०) ।

पेटारी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पेटारा] दे० 'पिटारी' । उ०—(क) नाम मथरा मदमति चेरि केकई केरि । अजस पिटारी ताहि करि गई गिरा मति केरि ।—तुलसी (शब्द०) । (ख) विसहर नार्चाहि पीठ हमारी । श्री घर मुँदहि घालि पेटारी ।—जायसी (शब्द०) ।

पेटारी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पेटिका] १ एक प्रकार का वृक्ष । पिटारी या मेटिका वृक्ष । २ दे० 'पिटारी' ।

पेटार्थी—वि० [सं० पेट + अर्थिन्] जो पेट भरने को ही सब कुछ समझता हो । भुक्खड । पेटू ।

पेटार्थु—वि० [सं० पेट + अर्थिन्] पेटार्थी ।

पेटिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. पिटारी नाम का वृक्ष । २ सडूक । पेटी । ३ छोटी पिटारी ।

पेटिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पेट + हि० इया (प्रत्य०), गुज० पेटियुं (= सीषा, एक समय का आहार)] सीषा । सिद्धा । एक पेट का आहार । उ०—तव भवारी सो कह्यो जो आज मोंको दीय पेटिया दीजियो ।—दो सो बावन०, भा० २, पृ० ११३ ।

पेटी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सडूकची । छोटा सडूक ।

पेटी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पेट] १ छाती और पेट के बीच का स्थान । पेट का वह भाग जहाँ त्रिवली पडती है । उ०—पेटी सुछवि लपेटी भल थल पाइ । पकरसि काम बनेठी राबु छिपाइ ।—रहीम (शब्द०) ।

मुहा०—पेटी पडना = तोड़ निकलना ।

२ कमर में बाँधने का तसमा । कमरवद । ३ चपरास ।

मुहा०—पेटी उतारना = पुलिस के सिपाही का मुश्तल या बर-खास्त किया जाना ।

४ हज्जामो की किसवत जिसमें वे कँची, छुरा आदि रखते हैं ।

५ वह डोरा जो बुलबुल की कमर में उसे हाथ पर बैठाने के लिये बाँधते हैं ।

क्रि० प्र०—बाँधना ।

पेटीकोट—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ०] लहंगे की तरह का एक वस्त्र जिसे स्त्रियाँ घोती या साडी के अदर पहनती हैं ।

पेटीबूजुवा—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति । जो निम्न

मध्यवर्ग का हो । उ०—जो कला आतिवाद या पदार्थवाद मूलक उपयोगितावाद में व्यक्त होती है वही कला है, वाकी सब पेटी बूजुवा या बूजुवा भावुकता है तो मैं आपसे कहता हूँ कि हम न केवल भूठ बोलते हैं वरन् आत्मप्रवचना भी करते हैं ।—कुंकुम (भू०), पृ० ८ ।

पेटू—वि० [हि० पेट] १ जिसे सदा पेट भरने की ही फिक्र रहे । पेटार्थी । २. जो बहुत अधिक खाता हो । भुक्खड ।

पेटेंट—वि० [अ०] १ किसी आविष्कारक के आविष्कार के सबब में सरकार द्वारा की हुई रजिस्टरी जिसकी सहायता से वह आविष्कारक ही अपने आविष्कार से अधिक लाभ उठा सकता है । दूसरे किसी को उसकी नकल करके अधिक लाभ उठाने का अधिकार नहीं रह जाता ।

विशेष—यह रजिस्टरी नए प्रकार की मशीनो, यन्त्रो, युक्तियो या औषधों आदि के सबब में होती है । ऐसी रजिस्टरी के उपरांत उस आविष्कार पर एकमात्र आविष्कारक का ही अधिकार रह जाता है ।

२. (वह आविष्कार या पदार्थ आदि) जिसकी इस प्रकार रजिस्टरी हो चुकी हो ।

पेटून—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] सरक्षक । पुष्पपोषक । सरपरस्त । जैसे, वे सभा के पेटून हैं ।

पेट्रोल—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ०] एक खनिज तेल जिसकी शक्ति से कारों मोटरों और हवाई जहाज आदि चलते हैं ।

पेठ—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पेठ] 'पेठ' ।

पेठा—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] १ सफेद रंग का कुम्हड़ा । विशेष—२ 'कुम्हड़ा' । २. पेठे की बनी एक मिठाई । कोहँडापाग ।

पेड़—वि० [अ०] १ जो चुका दिया गया हो । जो चुकता क दिया गया हो । २ जिसका महसूल, कर या भाडा आदि दिया गया हो । 'वैरिग' या 'वैरग' का उलटा ।

पेड़—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्ड] १ वृक्ष । दरखत । विशेष—दे० 'वृक्ष' मुहा०—पेड़ लगाना = वृक्ष का किसी स्थान पर जड़ पकडना पौधे आदि का जमना । पेड़ लगाना = वृक्ष या पौधे को किसी स्थान पर जमाना ।

२ आदि कारण । मूल कारण (व०) ।

पेड़की—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पड़क' । उ०—एक जोडा का डाल कर बैठा सिकुड़ जुड ।—निशा०, पृ० ३७ ।

पेड़ना—क्रि० सं० [हि०] दे० 'पेरना' । उ०—अभी मैं कोलू पेड़ते रहते ।—मैला०, पृ० २५८ ।

पेड़ा^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] बड़ा सडूक । बड़ी पिटारी [को०] ।

पेड़ा^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिण्ड] १ खोवा और खाँड से बनी हुई प्रसिद्ध मिठाई जिसका आकार गोल और चिपटा होता । गुँधे हुए आटे को लोई ।

पेड़ाइता—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पैड़ा ?] बटमार । मार्ग में खसोट करनेवाला । उ०—खाइ बूजी भगति है लोहर व

माहि । परगट पेडाइत बसे तहँ सत काहे कौ जाँहि । दाडू०,
पृ० २६१ ।

पेडारि—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पियड] एक प्रकार का वृक्ष ।

पैडिल—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ०] साइकिल का वह भाग जिसपर पैर रखकर चलाया जाता है । पाँवदान ।

पेडी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिएड] १ वृक्ष की पीड । पेड का तना । घड़ । काड । २ मनुष्य का घड़ । शरीर का ऊपरी भाग । ३ पान का पुराना पीषा । जैसे, पेडी का पान । ४ पुराने पीषे के पान । वह पान जो पुराना तोडा हुआ तो न हो, पर पुराने पीषो मे बाद में हुआ हो । उ०—हाँ तुम्ह नेह पियर भा पानू । पेडी हुँन सोनरास बखानू ।—जायसी अ०, पृ० १३५ । ५ वह कर जो प्रति वृक्ष पर लगाया जाय । ६ वह खेत जिसमें पहले ऊख बोया गया हो और जो फिर जो या गेहूँ बोने के लिये जोता जाय । ७ एक बार का काटा हुआ नील का पीषा । ८ दे० 'पेडी' ।

पेडू—सञ्ज्ञा [हि० पेड] १ नाभि और मूत्रेन्द्रिय के बीच का स्थान । उपस्थ । २ गर्भाशय ।

मुहा०—पेडू की थाँव = (१) किसी पुरुष के साथ स्त्री का वह प्रेम जो केवल कामवासना के कारण हो । (२) स्त्री की कामवासना ।

पेयाँ—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] पीना साँप । उ०—मैं रिणखोड छके मुख आया । पेयाँ जाँण नींद बस पाया ।—रा० रू०, पृ० २५८ ।

पेत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सुधा । पीयूष । २ घृत । घी । ३ छाग या मेघ [को०] ।

पेडड़ी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पिड़ी' ।

पेदर—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का बहुत बडा जगली पेड जिसके पत्ते हर साल झड जाते हैं ।

विशेष—इसकी लकड़ी भीतर से सफेद और बहुत मजबूत होती है । यह भेज, कुरसियाँ, अलमारियाँ और नावें बनाने तथा इमारत के काम में आती है । इसकी जड, पत्ते और फूल औषधि रूप में भी काम आते हैं । यह पेड मदरास और बंगाल मे अधिकता से होता ।

पेन^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ० पेन्] कलम । लेखनी ।

पेन^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ० पेडन] पीडा । दर्द । वेदना ।

पेन^३—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] लसोडे की जाति का एक वृक्ष जो गडवाल में होता है । इसकी लकड़ी मजबूत होती है । इसे 'कूम' भी कहते हैं ।

पेनशनिया—सञ्ज्ञा पुं० [अ० पेन्शन] वह जिसे पेंशन मिलती हो । पेंशन पानेवाला । पेंशनर ।

पेनाना①—क्रि० सं० [हि० पहिनाना, पेन्हाना] दे० 'पहनाना' । उ०—लाल कमली बोडे पेनाए, बेसु हरि थे कैसे बनाए ।—दक्खिनी०, पृ० १०३ ।

पेनिसिलिन—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ०] ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के

अतगंत प्रतिजीवाणु (एंटीबायोटिक) वर्ग की प्रमुख औषधि जिसका प्रयोग मुख्यतः अतपेणी (इट्टामस्वयुलर) इजेक्शन के रूप में किया जाता है । टिकिया के रूप में खाने तथा मलहम के रूप में लगाने में भी इसका व्यवहार होता है ।

विशेष—लदन सेंट मेरी चिकित्सालय के प्रो० अलेक्जेंडर पलेमिंग ने सन् १९२८ में स्वर्धन पट्टिकाओ (कल्चर प्लेटो) का सामान्य परीक्षण करते समय आकस्मिक रूप से इसका पता लगाया था । परंतु इसके वास्तविक सघटन, गुण और शक्तियों का सही ज्ञान दस वर्षों बाद प्राप्त हुआ । यह एक प्रकार की फफूँद या भुकड़ी है जिसके सापकं में आने पर अनेक दुस्साध्य रोगों के जनक और वाहक रोगाणु तत्काल नष्ट हो जाते हैं और रोग दूर हो जाता है । पेनिसिलिन का आविष्कार चिकित्सा जगत् मे वर्तमान शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है । दुष्टग्रण, पृष्ठग्रण, न्यूमोनियाँ, उपवण, सूजाक आदि अनेक असाध्य समझे जानेवाले रोगों की चिकित्सा में पेनिसिलिन रामबाण सिद्ध हुई है । पलेमिंग महोदय को इसके आविष्कार के उपलक्ष में 'सर' की उपाधि और नोबेल पुरस्कार मिला था ।

पेनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ०] इंग्लैंड मे चलनेवाला ताँवे का सिक्का जो एक शिलिंग का वारहवाँ भाग होता है । यह भारत के प्राय तीन (अथ प्राय. पाँच) पैसों के बराबर मूल्य का होता है ।

पेनीवेट—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] एक अंगरेजी तौल जो लगभग १० रत्ती के बराबर होती है ।

पेन्शन—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ०] वह मासिक या वार्षिक वृत्ति जो किसी व्यक्ति अथवा उसके परिवार के लोगों को उसकी पिछली सेवामों के कारण दी जाय ।

विशेष—जो लोग कुछ निश्चित समय तक किसी राजकीय (जैसे, शासन, सेना आदि) विभाग में काम कर चुकते हैं, उन्हें ईवृद्धावस्था में, नौकरी से अलग होने पर, कुछ वृत्ति दी जाती है जो उनके वेतन के आधे के लगभग होती है । सेना विभाग के कर्मचारियों के मारे जाने पर उनके परिवारवालों को, अथवा किसी राज्य को जीत लेने पर उस राजकुल के लोगों और उनके वंशजों को भी इसी प्रकार कुछ वृत्ति दी जाती है । इसी प्रकार की वृत्तियाँ पेन्शन कहलाती हैं ।

क्रि० प्र०—देना । —पाना । —मिलना । —लेना ।

पेन्शनर—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] वह जिसे पेन्शन मिलती हो । पेन्शन पानेवाला व्यक्ति ।

पेन्स—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] पेनी का बहुवचन । विशेष दे० 'पेनी' ।

पेन्सिल—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ०] लिखने का एक प्रसिद्ध साधन जिससे बिना दाघात या स्याही के ही लिखा जाता है ।

विशेष—यह प्राय. सुरमे, सीसे, रंगीन खडिया या इसी प्रकार की और किसी सामग्री की बनी हुई पतली लकी सलाई होती है । जो या तो कलम के आकार की गोल लकी लकड़ी

के अंदर लगी हुई होती है और या किसी घातु के खाने में अटकवाई हुई होती है।

पेहाना^१—क्रि० सं० [हि०] दे० 'पहाना'।

पेहाना^२—क्रि० प्र० [सं० पथ.स्ववन, प्रा० पद्यस्ववन] दुहते समय गाय, भैंस आदि के थन में दूध उतरना जिससे थन फूले या भरे जान पड़ते हैं। उ०—तेह तृण हरित चरे जब गाई।
—भाव अच्छे सिसु पाय पेहार्ई। —तुलसी (शब्द०)।

पेपर—सज्ञा पुं० [अ०] १ कागज। २ दस्तावेज। तमस्सुक, सनद या और कोई लेख जो कागज पर लिखा हो। ३ समाचारपत्र। सवादपत्र। अखबार। ४ वह छपा हुआ पत्र या पर्चा जिसमें परीक्षार्थियों से एक या अधिक प्रश्न किए गए हो। प्रश्नपत्र। जैसे,—इस बार मैट्रिकयूल्शन का अ प्रेजी का पेपर बहुत कठिन था। ५ प्रामिसरी नोट। सरकारी कागज। जैसे, गवर्नमेंट पेपर। ६. लेख। निबंध। प्रबन्ध।

पेपरमिट—सज्ञा पुं० [अ० विपरमित] दे० 'विपरमित'।

पेपरमिल—सज्ञा पुं० [अ०] कागज तैयार करनेवाली मिल, कारखाना या संस्थान।

पेपरवेट—सज्ञा पुं० [अ०] शीशा, पत्थर या घातु का वह साधन, जिसे कागजों पर उड़ने से रोकने के लिये रखा जाता है।

पेम^१—सज्ञा पुं० [सं० प्रेम, प्रा० प्रेम] दे० 'प्रेम'। उ०—राम सुपेमहि पोषत पानी। हरत सकल कलिकलुष गलानी।
—तुलसी (शब्द०)।

पेमचा—सज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का रेशमी कपड़ा। उ०—पेमचा हरिया औ चौधारी। साम, सेत, पीयर, हरियारी।
—जायसी ग्र०, पृ० १४५।

पेमा—सज्ञा स्त्री० [देश०] एक प्रकार की मछली जो ब्रह्मपुत्र, गंगा और इरावदी (बरमा) तथा बबई के जलाशयों में पाई जाती है। इसकी लंबाई ८ इंच होती है।

पेमेंट—सज्ञा पुं० [अ०] मूल्य देना। चुकाना। बेबाकी भुगतान। जैसे,—(क) तीन सारीख हो गई, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। (ख) बैंक ने पेमेंट बंद कर दिया।

क्रि० प्र०—करना। —होना।

पेय^१—वि० [सं०] १ पीने योग्य। जिसे पी सकें। २ जो पान किया जाय।

पेय^२—सज्ञा पुं० [सं०] १ पीने की वस्तु। वह चीज जो पीने के काम में आती हो। जैसे, पानी, दूध, शराब, आदि। २ जल। पानी। ३ दूध। दुग्ध।

पेया—सज्ञा स्त्री० [सं०] वैद्यक में चावलों की बनी हुई एक प्रकार की लपसी।

विशेष—यह किसी के मत से ग्यारह गुने, किसी के मत से चौदह गुने और किसी के मत से पंद्रह गुने पानी में पकाकर तैयार की जाती है। यह स्वेद और अग्निजनक तथा भूख, प्यास, र्लानि, दुर्बलता और कुष्ठ रोग की नाशक मानी जाती

है। २ मांड। ३. आदी। अदरक। ४ सोआ नामक साग। ५ सौंफ।

पेयाना^१—सज्ञा पुं० [सं० प्रयाण] दे० 'प्रयाण'। उ०—ज्ञानदीपक ग्रथ सपूरन कीन्हा। तब ही काल पेयाना दीन्हा। सं० दरिया, पृ० ४१।

पेयु—सज्ञा पुं० [सं०] १. अग्नि। अनल। २ सूर्य। दिवाकर। ३ सागर। समुद्र [को०]।

पेयूष—सज्ञा पुं० [सं०] १ वह दूध जो गी के बच्चा देने के सात दिन बाद तक निकलता है। ऐसा दूध स्वाद में अच्छा नहीं होता और हानिकारक होता है। पेउसी। २ अमृत। ३ ताजा घी।

पेरज—सज्ञा पुं० [सं०] १ 'पैरोज' [को०]।

पेरणी—सज्ञा स्त्री० [सं०] ताडव नृत्य का एक प्रकार [को०]।

पेरना^१—क्रि० सं० [सं० पीडन] १ दो भारी तथा कड़ी वस्तु के बीच में डालकर किसी तीसरी वस्तु को इस प्रकार दबाना कि उसका रस निकल आवे। जैसे, कोल्हू में तेल पेरना उ०—(क) ज्यों किसान बेलन में ऊषर्हि। पेरत लेत निचो पियूषर्हि।—निश्चल (शब्द०)। (ख) भृजी शूल क कोल्हून तिल ज्यों बहु बारन पेरो।—तुलसी (शब्द०)। २. कष्ट देना। बहुत सताना। उ०—जेहि बालि बली सो वर पेरघो।—केशव (शब्द०)। ३ किसी काम बहुत देर लगाना। आवश्यकता से बहुत अधिक विल करना। ४. किसी वस्तु को किसी यंत्र में डालकर घुमाना। ५ बोना। उ०—हुआ बोई च हासिल जो पेरी अथी—दक्खिनी०, पृ० ६०।

पेरना^२—क्रि० सं० [सं० प्रेरण] १ प्रेरणा करना। चलाना उ०—ये किरिट दशकधर केरे। आवत बालितनय के पेरे। तुलसी (शब्द०)। २ भेजना। पठाना। उ०—र० जो जुडती देख राणा, पेरियो भीम अ गज प्रमाणी।—रा० रू० पृ० ७३।

पेरना^३—क्रि० प्र० [हि० पेरना] दे० 'पैरना'। उ०—सूर्य तैसै ये लोचन, कृपा जहाज बिना बयो पेरे ॥—सूर०, १ १७८५।

पेरली—सज्ञा स्त्री० [?] ताडव नृत्य का एक भेद।

विशेष—इसमें अगविक्षेप अधिक होता है और अभिनय कम इसे देशी भी कहते हैं। इसका पेरणी नाम से भी उल्लेख है

पेरवा^१—सज्ञा पुं० [हि० पेरना] वह जो कोल्हू आदि में क चीज पेरता हो। पेरनेवाला।

पेरवाहा^१—सज्ञा पुं० [हि० पेरना] दे० 'पेरवा'।

पेरा^१—सज्ञा पुं० [हि० पीला] एक प्रकार की मिट्टी जिससे दीवार घर इत्यादि पोतने का काम लिया जाता है। इसका रंग पीलापन लिए हुए होता है। पोतनी मिट्टी।

पेरा^२—सज्ञा पुं० [सं० पियड] दे० 'पेडा'।

पेरा^३—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का तत्रवाद्य जो खरमुख आकार का होता था [को०]।

पेरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पीली] पीले रंग की रंगी हुई धोती जो विवाह में वर या बधू को पहनाई जाती है। इसे पियरी भी कहते हैं।

पेरु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सागर। समुद्र। २ सूर्य। ३. अग्नि। आग। ४ वह जो रक्षा करे। ५ वह जो पूति करे। पूरा करनेवाला। ५. मेरु नामक पर्वत। स्वर्ण पर्वत मेरु (को०)।

पेरोज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नीलमणि। पीरोजा [को०]।

पेरोल—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] वचन। शब्द। वचन पर विश्वास करके निश्चित अवधि के लिये कारागृह।

पेल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ जाना। गमन। २ अडकोप [को०]।

पेलक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अडकोप [को०]।

पेलड—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पेल (= अडकोप)] २० 'पेलहड'।

पेलना^१—क्रि० सं० [सं० पीडन] १ दबाकर भीतर घुसाना। जोर से भीतर ठेलना या धंसाना। दबाना। उ०—विपति द्रुत हृदि पश्चिनी के पात सम, पक ज्यों पताल पेलि पठवे कलुप को।—केशव (शब्द०)। २ ढकेलना। धक्का देना। उ०—(क) गिरि पहाड पवत कहें पेलहि। वृक्ष उचारि भांरि मुख मेलहि।—जायसी (शब्द०)। (ख) स्वामि काज इद्रासन पेलो।—जायसी (शब्द०)। ३ टाल देना। भ्रवशा करना। उ०—(क) जो न कियो परिर्न पन पेलि, पपाण परें पुहुमीपति के पन।—रघुराज (शब्द०)। (ख) भोरेहु भरत न पेलिहहि, मन सहै राम रजाइ। करिय न सोच सनेह बस, कहेउ भूप विलखाइ।—तुलसी (शब्द०)। (ग) जनक सुता परिहरी अकेली। आयहु तात वचन मम पेली।—तुलसी (शब्द०)। (घ) प्रगुपितु वचन मोह बस पेली। आयउ यहाँ समाज सकेली।—तुलसी (शब्द०)। ४ त्यागना। हटाना। फेरना। उ०—राज महाल को बालक पेलि के पालत लालत खुसर को।—तुलसी (शब्द०)। ५ जबरदस्ती करना। बल प्रयोग करना। उ०—कह्यो युवराज बोलि बानर समाज भाज खाहु फल सुनि पेलि पंठे मधुवन में।—तुलसी (शब्द०)। ६ प्रविष्ट करना। घुसेटना। ७ गुदामैथुन करना। (बाजारू)। ८ दे० 'पेरना'।

पेसना^२—क्रि० सं० [सं० प्रेरणा] १ आक्रमण करने के लिये सामने छोड़ना। डीलना। आगे बढ़ाना। उ०—(क) कुंभ-स्थल कुच दोड मयमता। पैलो सीहें संभारहु कता।—जायसी। (शब्द०)। (ख) जो लहि घावाहि ऊसका खेलहु। हस्तिहि केर जूह सब पेजहु।—जायसी (शब्द०)। (ग) (इतनी) बात के सुनते ही गजपाल ने गज पेला, ज्यों वह बलदेव जी पर दृष्टा, त्यों उन्होंने हाथ घुमाय एक थपेडा ऐसा मारा।—लल्लू (शब्द०)। २ उ० विताना। गुजारना। उ०—मातिथ्य विनय विवेक कौतुक समय पेलिअ सबहहि।—कीर्ति०, पृ० २८। ३ भेजना। पठाना। उ०—में भेले रे में भेले। परचढ दसू दिस पेले।—रघु० रू०, पृ० १५६।

पेलव—वि० [सं०] १. कोमल। मृदु। २ कृपा। दुर्बल। क्षीण। ३. विठल [को०]।

पेलवाना—क्रि० सं० [हि० पेलना का सकर्मक रूप] पेलने का काम दूसरे से कराना। दूसरे को पेलने में प्रवृत्त करना। दे० 'पेलना'।

पेला^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पेलना] १ तकरार। भगड़ा। उ०—कहा कहत तुमसो में ग्वारिनि। ली० है फिरति रूप त्रिभुवन को ऐ नौखी बनजारिनि। पेला करति देत नहि नीके तुम हो वढी वंजारिनि। सूरदास ऐसो गध जाके ताके बुद्धि पसारिनि।—सूर (शब्द०)। २ अपराध। कसूर। ३ आक्रमण। धावा। चढ़ाई। उ०—करघो गढा कोटा पर पेला। जहाँ सुनै छत्रसाल बुँदेला।—लाल (शब्द०)। ४. पेलने की क्रिया या भाव।

पेला^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] एक प्रकार का वाघ [को०]।

पेलास—सञ्ज्ञा पुं० [म०] मंगल और बृहस्पति के बीच का एक ग्रह जो सूर्य से २८३ करोड मील की दूरी पर है।

विशेष—चार वर्ष आठ मास में यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। आकार में यह ग्रह चंद्रमा से छोटा है। सन् १८०२ ई० में डाक्टर ब्रालवर्ज ने पहले पहल इसका पता लगाया था।

पेलो—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पेलिन्] घोडा [को०]।

पेलू—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पेलना + ऊ (प्रत्य०)] १ पेलनेवाला। वह जो पेलता हो। २ पति। खाविद। ३ जार। उपपति। ४ वह जो गुदामजन करता हो। (बाजारू)। ५ जबरदस्त। बलवान।

पेलो—अव्य० [हि०] दे० 'पहले'। उ०—साहब इधर? हमने पेले कहा।—भस्मावृत०, पृ० ६५।

पेलहड—सञ्ज्ञा पुं० [पेल या पेलक] अडकोप। पीता।

पेवई—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] दे० 'पैवद'। उ०—पाँच पेवद की बनी रे गुदडिया, तामे हीरा लाल लगावा।—कवीर० श०, भा० १, पृ० ४३।

पेवई—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रेम] प्रीति। प्रेम। उ०—दायज बसन भणिए धेनु घन हय गय सुसेवक सेवकी। दीन्ही मुदित गिरिराज जे गिरिजहि पियारी पे की।—तुलसी (शब्द०)।

पेवककड़ी—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पीना] दे० 'पियककड'।

पेवड़ी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पीत] १ पीले रंग की बुकनी। २ पीली रज। रामरज।

पेवरी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीत] पीला रंग।

पेवस—सञ्ज्ञा पुं० [म० पेयूप] १ हाल की ब्याई गाय या भैंस का दूध। २. दे० 'पेउसी'।

पेवसी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पेवस + ई] दे० 'पेवस'।

पेश^१—क्रि० वि० [फा०] सामने। आगे। समुख।

मुहा०—पेश आना = (१) बर्ताव करना। व्यवहार करना। (२) बर्तित होना। सामने आना। होना। पेश करना =

सामने रखना । दिखलाना । समुख उपस्थित कर देना । (२) भेंट करना । नजर करना । पेश जाना या चलना = वश चलना । अधिकार या जोर चलना । (किसी से) पेश पाना = जीतना । बाजी, होड, मुकाबिले आदि में बढ़ना । कृतकार्य होना ।

पेश^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पेशस्] १ वैदिक काल-का लहंगे की तरह का एक प्रकार का पहनावा जो नाचने के समय पहना जाता था और जिसमें सुनहला काम बना होता था । २. आकार । रूप । स्वरूप (को०) । ३. सोना (को०) । ४. कांति । चमक । प्रभा । (को०) । ५. आसूषण । सजावट (को०) ।

पेशकब्ज - सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पेशकब्ज] कटारी ।

पेशकश—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] १ नजर । भेंट । उपहार । २ सीगात । तोहफा । उ०—कीन भयो ऐसी वृपति को हूँ है यहि भाय । जाके डर गज पेशकश दिग्गज देत पठाय ।—गुमान (शब्द०) ।

पेशकार—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] २ किसी दफ्तर का वह कार्यकर्ता जो उस दफ्तर के कागज पत्र अफसर के सामने पेश करके उनपर उसकी आज्ञा लेता है । हाकिम के सामने कागज पत्र पेश करके उसपर हाकिम की आज्ञा लिखनेवाला कर्मचारी । पेश करने या उपस्थित करनेवाला व्यक्ति ।

पेशकारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] पेशकार का पद या स्थान । २ पेशकार का काम ।

पेशखेमा—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पेश + अ० खैमह्] १. सेना की खेमा, तबू आदि वह आवश्यक सामग्री जो उसके किसी स्थान पर पहुँचने से पहले उसके सुभीते के लिये भेजी जाती है । फौज का वह सामान जो पहले से ही आगे भेज दिया जाय । २ फौज का वह अगला हिस्सा जो आगे आगे चलता है । हरावल । ३ किसी बात या घटना का पूर्व लक्षण ।

पेशगाह—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] १ आँगन । अजिर । २ दरवार । राजसभा (को०) ।

पेशगो—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] वह धन या रकम जो किसी को किसी काम के करने के लिये उस काम के करने से पहले ही दे दी जाय । पुरस्कार या मजदूरी आदि का वह अंश जो काम होने से पहले ही दिया जाय । अगौडो । अगाऊ । अग्रिम धन ।

पेशगोई—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] पेशीनगोई । भविष्यवाणी । (को०) ।

पेशतर—क्रि० वि० [फा०] पहले । पूर्व ।

पेशताख—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पेशताक] एक प्रकार की मेहराव जो अच्छी इमारतों में दरवाजे के उपर और आगे की ओर निकली हुई बनाई जाती है ।

पेशदस्त—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] द० 'पेशकार' ।

पेशदस्ती—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] वह अनुचित कार्य जो किसी पक्ष की ओर से पहले ही । छेड़खानी । जबरदस्ती । ज्यादती ।

पेशदामन—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] सेवक । नीकर (को०) ।

पेशबंद—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] चारजामे में लगा हुआ वह दोहरा बंधन जो घोड़े के गर्दन पर से लाकर दूसरी ओर बाँध दिया जाता है ।

विशेष—इस बंधन के कारण चारजामा घोड़े की दुम की ओर नहीं खिसक सकता ।

पेशबंदी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] १ पहले से किया हुआ प्रबंध या बचाव की युक्ति । पूर्वचितित युक्ति । २ पद्यत्रय । छं. कपठ । घोखा ।

पेशराज—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पेश + हि० राज (=मकान बना वाला)] वह मजदूर जो राज भेमार के लिये पत्थर ढोकर लाता हो । पत्थर ढोनेवाला मजदूर ।

विशेष—कहीं कहीं पेशराज लोग ईंटों की खुनाई आदि का काम करते हैं ।

पेशरौ—वि० [फा०] १ अग्रगामी । २ पथप्रदर्शक । ३ सना भाग । हरावल ।

पेशल^१—वि० [सं०] १. मनोमुग्धकारी । मनोहर । सुदर । २ चतुर । प्रवीण । ३ धूर्त । चालाक । ४ कोमल । मृदु । ५ क्षीण । कुश । तनु । जैसे, कटि (को०) ।

पेशल^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ विष्णु । २ सौंदर्य । लावण्य सुंदरता (को०) ।

पेशलता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. सुंदरता । सौंदर्य । खूबसूरती । २. सुकुमारता । नजाकत । ३, धूर्तता । चालाकी ।

पेशवा—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] १. नेता । सरदार । अग्रगण्य । उ० पेशवा भी किए इमाम तुम्हें, ऐ शमल हाय सद ल , तुम्हें ।—कवीर सा०, पृ० ६८० । २. महाराष्ट्र राज्य प्रधान मंत्रियों की उपाधि ।

विशेष—मुसलमानों के राज्यकाल में दक्षिण की मुसल रियासतों के प्रधान मंत्री 'पेशवा' कहलाते थे । पर उ समय तक यह शब्द अधिक प्रसिद्ध नहीं हुआ था इसके उपरांत शिवाजी के प्रधान मंत्री भी पेशवा ही जाने लगे । यद्यपि आगे चलकर शिवाजी ने यह शब्द उ दिया था, तथापि कुछ दिनों के बाद फिर इसका प्रचार गया और धीरे धीरे यह शब्द 'प्रधान मंत्री' का पर्याय सा गया । आगे चलकर जब शिवाजी के राजवंश का ह्रास हो लगा, तब ये पेशवा लोग ही महाराष्ट्र साम्राज्य के - धरुव हुए । कई एक पेशवाओं के समय में महाराष्ट्र साम्राज्य शक्ति बहुत बढ़ गई थी ।

पेशवाई^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] किसी माननीय पुरुष के आने कुछ दूर आगे चलकर स्वागत करना । अगवाणी ।

पेशवाई^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पेशवा + ई (प्रत्य०)] १ पेशवा की शासनकला । २ पेशवा का पद या कार्य ।

पेशवाज—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पेशवान] वेष्याओ या नर्तकियों वह धाधरा जो वे नाचते समय पहनती हैं । इसका धरा उ अधिक होता है और इसमें प्रायः जरदोजी का काम व

रहता है। उ०—कहाँ है सब सुंदरी वार नारी, कहे पेश-
वाजें सजें आज मारी।—भारतेंदु प्र०, भा० २, पृ० ७०२।

पेशा—सज्ञा पुं० [फा० पेशह्] वह कार्य जो मनुष्य नियमित रूप से अपनी जीविका उपाजित करने के लिये करता हो। कार्य। उद्यम। व्यवसाय। जैसे, वकालत का पेशा, हलवाई का पेशा, मजदूरी का पेशा।

मुहा०—पेशा करना या कमाना = कसब कमाना। वेषयावृत्ति करना। रंडी बनकर जीविका उपाजित करना। (वाजारू)।

पेशानी—सज्ञा स्त्री० [फा०] १ ललाट। माल। कपाल। माथा।
उ०—नहीं है जाहिदों को मैं सैंतीकाम। लिखा है उनकी पेशानी में सिर का।—कविता० को०, भा० ४, पृ० १६।
२ किस्मत। प्रारब्ध। भाग्य। ३ किसी पदार्थ का ऊपरी और आगे का भाग।

मुहा०—पेशानी का खत = ललाट की लिखावट। भाग्यरेखा।
पेशानी पर बल आना या बल पकड़ना = क्रोध की स्थिति में ललाट पर के चमड़े का खिंचना। त्योरी चढ़ना।

पेशाब—सज्ञा पुं० [फ्रा०, तुल म० प्रसाव] १ मूत। मूत्र।

यौ०—पेशाबखाना।

मुहा०—पेशाब करना = (१) मूतना। (२) अत्यंत तुच्छ समझना। पेशाब की राह बहा देना = रडीवाजी में खर्च कर देना। पेशाब निकल पडना या खता होना = अत्यंत भयभीत होना। इतना डरना कि पेशाब निकल जाय। पेशाब बंद होना = (१) मूत्र का उत्तरना रुक जाना। (२) अत्यंत भयभीत हो जाना। (किसी के) पेशाब का चिराग जलना या पेशाब से चिराग जलना = अत्यंत प्रतापी होना। अत्यंत प्रभावशाली या विभयशाली होना।

२ वीय। घातु। ३ सतान। झोलाद।

पेशाबखाना—सज्ञा पुं० [फ्रा० पेशाबखानह्] वह स्थान जहाँ लोग मूत्र त्याग करते हैं। पेशाब करने की जगह।

पेशावर^१—सज्ञा पुं० [फ्रा०] किसी प्रकार का पेशा करनेवाला। व्यवसायी।

पेशावर^२—सज्ञा पुं० [फ्रा० पेशा+आवर (= आगे लानेवाला)। तुल० स० पुरुषपुर] भारत की पश्चिमी सीमा का एक प्रसिद्ध नगर।

पेशि—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'पेशी'^२ [को०]।

पेशिका—सज्ञा पुं० [सं०] मडा।

पेशी^१—सज्ञा स्त्री० [फा०] १ हाकिम के सामने किसी मुकदमे के पेश होने की क्रिया। मुकदमे की सुनवाई।

यौ०—पेशी का मुहरिर = वह मुहरिर जो मुकदमे के कागज पत्र पढ़कर हाकिम को सुनावे। पेशकार। मिसिलखवा।

२ सामने होने की क्रिया या भाव।

पेशी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ वज्र। २ तलवार की म्यान। ३ मडा। ४ जटामासी। ५ पकी हुई कली। ६ प्राचीन काल का एक प्रकार का ढोल। ७ एक प्राचीन नदी का

नाम। ८ एक राक्षसी का नाम। एक पिशाची का नाम। ९ चमड़े की वह थैली जिसमें गर्म रहता है। १० शरीर के भीतर मांस की गुल्थी या गाँठ।

विशेष—आधुनिक शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के भीतर मांसतंतुओं की बहुत सी छोटी बड़ी गुल्थियाँ या लच्छे से होते हैं जो कुछ सूत्रों के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इन सूत्रों को हटाने पर ये मांस के टुकड़े अलग अलग किए जा सकते हैं। इस प्रकार जो टुकड़े बिना चीरे फाड़े सहज में अलग किए जा सकें, उन्हें को पेशी या मांसपेशी कहते हैं। पेशियों में विशेषता यह होती है कि वे सुकड़ती और फैलती हैं। अनेक पेशियों के संयोग से शरीर में के पुँडे आदि बनते हैं। ये पेशियाँ अनेक आकार और प्रकार की होती हैं। कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई पतली, कोई मोटी, कोई लची और कोई चौड़ी होती हैं। मांसपेशियों के बीच बीच में झिल्लियाँ रहती हैं। ये पेशियाँ सहज में अपने स्थान से हटाई नहीं जा सकती क्योंकि ये कहीं न कहीं अपने नीचे रहनेवाली हड्डी से जुड़ी रहती हैं। इन्हीं पेशियों की सहायता से शरीर के अंग हिलते डोलते हैं। अंगों का संचालन, प्रसारण, सञ्चन, स्थितिस्थापन आदि इन्हीं पेशियों की सहायता से होता है। जैसे, कोई पेशी मुँह खोलने के समय होंठ को ऊपर उठाती है, कोई हाथ उठाने में सहायक होती है, कोई उसे मर्यादा से आगे बढ़ने से रोकती है, कोई गरदन को अधिक झुकने नहीं देती, कोई पेट के भीतर के किसी यंत्र को दबाए रखती है, और कोई मल अथवा मूत्र के त्यागने अथवा रोकने में सहायता देती है। कभी कभी शरीर के एक ही काम के लिये अनेक पेशियों की भी सहायता होती है। कुछ पेशियाँ ऐसी होती हैं जो इच्छा करते ही हिलाई झुलाई जा सकती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो इच्छा करने पर भी अपने स्थान में नहीं हट सकतीं। शरीर की सभी पेशियों का सम्बन्ध मस्तिष्क अथवा उसके निचले भाग के गतिवाहक सूत्रों से होता है। आधुनिक शरीर विज्ञान के ग्रन्थों में यह बतलाया गया है कि शरीर के किस अंग में कितनी पेशियाँ हैं। कुल पेशियों की संख्या भी निश्चित है। हमारे यहाँ वैद्यक में इन पेशियों को प्रत्यग में माना है और उनकी संख्या ५०० बतलाई गई है। यदि यह संख्या आधुनिक शरीर विज्ञान में बतलाई हुई संख्या के लगभग ही है तथापि दोनों के व्योरे में बहुत अधिक अंतर है।

११. पादुका। पादप्राण (को०)। १२ आच्छादन। ठक्कन (को०)।

१३ अच्छा पका चावल (को०)। १४ फलों का आवरण या छिलका (को०)।

पेशीकोश, पेशीकोप—सज्ञा पुं० [सं०] अडा (को०)।

पेशीनगोई—सज्ञा स्त्री० [फ्रा०] भविष्यकथन। भविष्यद्व्याणी।

पेशतर—क्रि० वि० [फ्रा०] पहले। पूर्व। पेशतर।

पेष—सज्ञा पुं० [सं०] पीसने या घूर्ण करने की क्रिया। पीसना (को०)।

पेषक—क्रि० [सं०] पेषण करनेवाला। पीसनेवाला (को०)।

पेपण

- पेपण—सज्ञा पुं [सं०] १. पीसना । २. तिधारा धूहड । ३. वह वस्तु जिससे कोई चीज पीसी या चूरा की जाय । खरल (को०) । ४. खलिहान । खलधान्य (को०) ।
- पेपण, पेपणी—सज्ञा स्त्री [सं०] सिल, खरल, चक्की आदि शिला जिसपर कोई चीज पीसी जाय ।
- पेपना^१—क्रि० सं० [सं० प्रेक्षणा, प्रेक्षणा] दे० 'पेखना' । उ०—पषावपी के पेपण, सब जगत भुलाना ।—कवीर ग्र०, पृ० १४६ ।
- पेपना^२—सज्ञा पुं दे० 'पेखना' ।
- पेपाक—सज्ञा पुं [सं०] दे० 'पेपणी' [को०] ।
- पेपि—सज्ञा स्त्री [सं०] वच ।
- पेपो—सज्ञा स्त्री [सं०] पिपाचिनी ।
- पेपीकरण—सज्ञा पुं [सं०] पीसना । चूर्ण करना ।
- पेस^१—वि० [फा०] दे० 'पेश' । उ०—(क) हेतुमान सहित बखाने 'हेतु' जाको नाम, चारो फल आठो सिद्धि दीवे ही को पेस है ।—दूलह (शब्द०) । (ख) मेवात घनी आए महेश, मोहिल्ल दुनापुर दिए पेस ।—पृ० रा० १।४२२ ।
- पेसकवज^(५)—सज्ञा स्त्री [फा० पेशकवज] कटारी । उ०—तहें घली घोर छुगी बगुरदा पेसकवज अरिन सौं ।—पद्माकर ग्र०, पृ० १६ ।
- पेसकस—सज्ञा पुं [फा० पेशकश] दे० 'पेशकश' । उ०—पेसकसे भेजत इरान फिरगान पति ।—भूषण ग्र०, पृ० ५० ।
- पेसबंद—सज्ञा पुं [फा० पेशबंद] दे० 'पेशबंद' । उ०—साखत पेसबंद भर पूजी । हीरन जटित हैकले दूजी ।—हम्मीर०, पृ० ३ ।
- पेसल—वि०, सज्ञा पुं [सं०] दे० 'पेशल' ।
- पेसवाई^(५)—सज्ञा स्त्री [हि० पेसवा + ई (प्रत्य०)] दे० 'पेशवाई' । उ०—साहजादे देखे हिम्मत निवाह । दुरग का भाई पेशवाई दुरग साह ।—रा० रू०, पृ० ११५ ।
- पेस्टल—सज्ञा पुं [अ०] एक प्रकार की रग की वस्ती, जिससे चित्र बनाए जाते हैं ।
- पै०—पेस्टल कलर=पेस्टल रग । पेस्टल ड्राइंग=वह चित्र जो पेस्टल रग से बना हो [को०] ।
- पेस्टल रग—सज्ञा पुं [अ० पेस्टल+हि० रंग] पेस्टल की वस्ती । पेस्टल ।
- पेस्वर—वि० [सं०] १. चलनेवाला । गतिशील । २. विनाशक । ध्वंसक [को०] ।
- पेहँटा^(५)—सज्ञा स्त्री [देश०] कचरी नाम की लता का फल जो कुंदरु के आकार का होता है और जिसकी तरकारी तथा कचरी बनती है । विशेष—दे० 'कचरी—१' ।
- पेहँटी—सज्ञा स्त्री [देश०] दे० 'पेहँटा' ।
- पेहँटल—सज्ञा स्त्री [देश०] दे० 'पेहँटा' ।
- पेहला^(५)—वि० [हि० पहला] दे० 'पहला' । उ०—कुंवर रमई

राजा भोज की । पेहलई श्रावण खेलावा जाई ।—रासो, पृ० १०८ ।

- पैंग—वि० [सं० पैङ्ग] १. मूषक सवधी । २. विंग वरुण का [को०] ।
- पैंगल—सज्ञा पुं [सं० पैङ्गल] विंगल का पुत्र या अत्तवः । २. विंगल प्रणीत ग्रथ [को०] ।
- पैंगल्य—सज्ञा पुं [सं० पैङ्गल्य] विंग वरुण । विंगल रग [को०] ।
- पैंगि—सज्ञा पुं [सं० पैङ्गि] निरुक्त के निर्माता महर्षि यास्क [को०] ।
- पैजूष—सज्ञा पुं [सं० पैङ्गूप] श्रवणेंद्रिय । कान [को०] ।
- पैट—सज्ञा पुं [अ०] पायजामे की तरह एक पोशाक । पतल
- पैडपातिक—वि० [सं० पैडपातिक] पिड अर्थात् भिक्षादि जीवनयापन करनेवाला [को०] ।
- पैडिक्य—सज्ञा पुं [सं० पैडिक्य] भिक्षा वृत्ति । भेद्य जीवि
- पैडिन्य—सज्ञा पुं [सं० पैडिन्य] भिक्षावृत्ति । भेद्य जीवि । भिक्षा द्वारा प्राप्त वस्तु [को०] ।
- पैकड़ा^१—सज्ञा पुं [हि० पाय + कड़ा] १. पैर का कड़ा । २. वे
- पैकड़ा^२—सज्ञा पुं [?] ऊँट की नकल ।
- पैंग^१—सज्ञा स्त्री [हि०] दे० 'पैंग' । उ०—एक वेर निज पैंग की होत ऊचाई । सम्हारि न सकी सयानि सरकि, उर आई ।—रत्नाकर, भा० १, पृ० १३ ।
- पैंग^२—सज्ञा पुं [हि०] दे० 'पैंग' । उ०—विष्व हमारा दिन घिरकर सँकरा होता आता है । प्राणों का आहत दो पैंग नहीं उड़ पाता है ।—चिंता, पृ० ५४ ।
- पैच^१—सज्ञा स्त्री [सं० प्रत्यञ्चा, प्रतञ्ची] घनुष की डोरी
- पैच^२—सज्ञा स्त्री [सं० पिच्छ] मोर की पूँछ ।
- पैचा^३—सज्ञा पुं [देश०] हाथ फेर । हेर फेर । लेन देन ।
- पै०—पैच उधार=हेर फेर । पलटा ।
- पैचना—क्रि० सं० [देश०] १. अनाज फटकना । पछोरना पलटना । फेरना ।
- पैचा—सज्ञा पुं [देश०] हथ उधार । हेर फेर । पलटा ।
- पै०—पैचा पैचा=हेर फेर । हेरा फेरी । उलट पुलट ।
- पैजना—सज्ञा पुं [हि० पाय + अनु० म्न, म्न] [स्त्री० पैजनी] पैर का एक आभूषण जो कड़े के आकार उससे मोटा और खोखला होता है । इसके भीतर क पडो रहती हैं जिससे चलने में यह वजता है ।
- पैजनि^(५)—सज्ञा स्त्री [हि०] दे० 'पैजनी—१' । उ० तट किकिनि, पैजनि पाइन । चलत घुटुरवनि चाइनि ।—नद० ग्र०, पृ० २४५ ।
- पैजनियाँ^(५)—सज्ञा स्त्री [हि०] दे० 'पैजनी' ।
- पैजनी—सज्ञा स्त्री [हि० पाय + अनु० म्न, म्न] १. और वच्चों का एक गहना जो कड़े की तरह पैर में जता है ।
- विशेष—यह खोखला होता है और इसके भीतर ककडि

गृहीत है जिसे चलने में यह झन झन वज्रता है। घोड़ों के पैर में भी उन्हें कभी कभी पहनाते हैं।

२ सगट या बेलगाड़ी के पहिए के आगे की वह टेढ़ी लकड़ी जिससे छेद में से घुरा निकला रहता।

पैठ—सज्ञा स्त्री [सं० पण्यस्थान, प्रा० पण्यट्ठा, अप० पण्यट्ठा प्रथवा सं० पण्य, प्रा० पण्य (वणिग्) + अप० ठाय < प्रा० ठाय, < मं० स्थान, प्रथवा देशी पण्यट्ठाया] १ हाट। बाजार। उ०—लेना हो तो लेइ ले उठी जात है पैठ।—कबीर (शब्द०)। २ हट्टी। दुकान। उ०—ऊधो ब्रज में पैठ करी।—सूर (शब्द०)। ३ वह दिन जिस दिन हाट लगती हो। बाजार का दिन। ४ दूमरी हूडी जो महाजन पहली हूडी के खो जाने पर लिख देता है।

पैठोर—नज्ञा पुं [हि० पैठ + ठौर] दुकान। हाट। उ०—ऐसी वस्तु श्रद्धेय मधुर मन जिनि आनहु और। ब्रजवनिता के नाहि काम को है तुम्हरे पैठोर।—सूर (शब्द०)।

पैड़—सज्ञा पुं [हि० पाय + ड (प्रत्य०) या सं० पाददण्ड, प्रा० पायदण्ड] १ चलने में एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर पैर रखना। डग।

क्रि० प्र०—भरना।

मुहा०—पैड़ भरना = (१) किसी देवता या तीर्थ की ओर पैर नापते चलना। (२) इस प्रकार शपथ खाना। जैसे—तू सब बोलता है तो गंगा की ओर चार पैड़ भर जा।

२ एक स्थान से उठाकर जितनी दूरी पर पैर रखा जाय उतनी दूरी। डग। पग। कदम। उ०—तीन पैड़ धरती हीं पाऊं परन कुटी एक छाऊं।—सूर (शब्द०)। ३ पथ। मार्ग। रास्ता। पगडडी। उ०—ब्रजमोहन तेड़े दरस पियासियां पैठरा उड़ीकी खलियां।—घनानंद, पृ० ४८४।

पैड़ा—सज्ञा पुं [हि० पैड़] १ रास्ता। पथ। मार्ग।

मुहा०—पैड़े परना = पीछे पडना। तग करने के लिये साथ लगे फिरना। बार बार तग करना। उ०—मानत नाहि हटक हारी हम पैड़े परे कन्हाई।—सूर (शब्द०)।

२ घुड़सार। अस्तबल। ३ प्रणाली। रीति। उ०—गोकुल गाँव को पैड़ो न्यारो (शब्द०)।

पैड़ायती—सज्ञा पुं [हि० पैड़ा] दे० 'पैड़ाइत'। उ०—पाँच पैड़ायता प्रगट पैड़ा दिया तास के बीच कोई संत जीया।—राम० धर्म०, पृ० ३८१।

पैड़ियाँ—सज्ञा पुं [दे०] कोल्हू में गन्ने भरनेवाला।

पैड़ो—सज्ञा पुं [हि०] प्रणाली। रीति। दे० 'पैड़ा'। उ०—सुदर कोउ न जानि सके यह गोकुल गाँव के पैड़ो ही न्यारो।—सुदर० प्र०, भा० २, पृ० ६४३।

पैठ—सज्ञा स्त्री [सं० पण्यकृत, प्रा० पण्यकृत] १ दाँव। बाजी। उ०—(क) माने पैठ पावत पचारि पातकी प्रचंड काल की करालता भले को होतु पोच है।—तुलसी (शब्द०)। (ख) चोर पैठ जस सँघ सँवारी। जुवा पैठे जस लाय

जुआरी।—जायसी (शब्द०)। २ लूमा खेलने का पाँसा। उ०—प्रमुदित पुलकि पैठे पूरे जनु विधि वस सुदर ढरे हैं।—तुलसी (शब्द०)।

पैठ—सज्ञा पुं [?] सात की सख्या (दलाल)।

पैठरा—सज्ञा पुं [हि०] दे० 'पैतरा'।

पैठरी—सज्ञा स्त्री [हि० पग + ठरी] पनही। पैठरी। उ०—वा के पग की पैठरी, मेरे तन को चाम।—कबीर सा०, पृ० ५।

पैतालिस—वि० [सं० पञ्चचत्वारिंशत्, प्रा० पञ्चचत्तालीसति, अप० पञ्चतालीस] जो गिनती में चालीस से पाँच अधिक हो। चालीस और पाँच।

पैतालिस—सज्ञा पुं चालीस से पाँच अधिक की सख्या या अंक जो इस प्रकार लिखा जाता है—४५।

पैतालीस—वि० [हि०] दे० 'पैतालिस'।

पैती—सज्ञा स्त्री [सं० पवित्री, प्रा० पविस्त्री, पइत्ती] १ कुश को एँठकर बनाया हुआ छल्ला जिसे श्राद्धादि कर्म करते समय उँगली में पहनते हैं। पवित्री। २ तवि या त्रिलोह की भँगूठी जो पवित्रता के लिये अनामिका में पहनी जाती है।

पैतीस—वि० [सं० पञ्चत्रिंशत्, प्रा० पञ्चत्तिसति, अप० पञ्चतीस] जो गिनती में तीस से पाँच अधिक हो। तीस और पाँच।

पैतीस—सज्ञा पुं तीस से पाँच अधिक की सख्या या अंक जो इस प्रकार लिखा जाता है—३५।

पैठना—क्रि० सं० [हि० पहनना] धारण करना। पहनना। उ०—नख सिख ले सब भुखन बनाई। बसनं भूलाभल पैठे आई।—स० दरिया, पृ० ३।

पैप्लेट—सज्ञा पुं [अ०] कुछ पन्नों की छोटी सी पुस्तक जिसमें किसी सामयिक विषय पर विचार किया गया हो। पुस्तिका। पर्चा।

पैया—सज्ञा स्त्री [हि० पाय] पैर। पाँव।

पैसठ—वि० [सं० पञ्चपष्टि, प्रा० पञ्चसष्टि] जो गिनती में साठ से पाँच अधिक हो। साठ और पाँच।

पैसठ—सज्ञा पुं साठ से पाँच अधिक की सख्या या अंक जो इस प्रकार लिखा जाता है—६५।

पै—अव्य [सं० परम्] १ पर। परतु। लेकिन। उ०—वरजत बार बार हैं तुमको पै तुम नेक न मानो।—सूर (शब्द०)। २ निश्चय। अवश्य। जरूर। उ०—सुख पाइहैं कान सुनें बतियाँ कल आपुस में कछु पै कहिहैं।—तुलसी (शब्द०)। ३ पीछे। अनंतर। बाद। उ०—(क) ऊधो! श्याम कहा पावेंगे प्रान गए पै आए—सूर (शब्द०)। (ख) कमल मानु देखे पै हँसा।—जायसी (शब्द०)।

पै—जो पै = यदि। अगर। उ०—जो पै रहनि राम सों नाहीं। ती नर खर कूकर सुकर से जाय जियत जग माही।—तुलसी (शब्द०)। तो पै = तो फिर। उस अवस्था में।

उ०—होते जो न, शशु रानी । पद वरदानी तेरे तो पे कौन सुनतो कहानी दीनजन की ।—चरणचन्द्रिका (शब्द०) ।

पै^२—[हि० पास, पहुँचा म० प्रति, प्रा० पडि, पड] १ पास । समीप । निकट । उ० (क) परतिज्ञा राखी मनमोहन फिर ता पे पठयो ।—सूर (शब्द०) । (ख) ता पे कही बहुत बिधि सो हम नेकु न दीनो कान ।—सूर (शब्द०) । २ प्रति । श्रोत । तरफ । उ०—सरसीरुह लोचन मोचत नीर चितै रघुनायक सीय पे है ।—तुलसी (शब्द०) ।

पै^३—प्रत्य० [सं० उपरि, हि० ऊपर] १ अधिकरण सूचक एक विभक्ति । पर । ऊपर । उ०—(क) चढे भ्रम पे वीर धाए सवे (शब्द०) । (ख) कोपि चढे दशकठ पे राम निशाचर सेन हिए हहरी ।—शकर (शब्द०) । (ग) बिहारी पे वारोगी मालती भाँवरी ।—हितहरिवश (शब्द०) । २ कारण सूचक विभक्ति । से । द्वारा । उ० दीनदयाल कृपालु कृपानिधि का पे कह्यो परै ।—सूर (शब्द०) ।

पै^४—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० आपत्ति (= दोष, भूल)] दोष । ऐव । नुक्स ।
क्रि० प्र०—धरना ।—निकालना ।

पै^५—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पय] दे० 'पय' । उ०—तन की तरसाइवो कोने बघी मन तो मिलिगी पे मिले जल जैसो ।—ठाकुर०, पृ० २६ ।

पै^६—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पद, पाद, प्रा० पय, पाय या फा०] पाँव । पैर । उ०—सा भग बाल उतकठ करि पे लग्यो परदच्छि फिरि ।—पृ० रा, २५।३५५ ।

पै^७—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] माडी देने की क्रिया । क्लफ चढाना ।
क्रि० प्र०—करना ।

पैकवर^१—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पैगुंवर] दे० 'पैगवर' । उ०—पीर पैकवर सवे सिधाए, मुहम्मद सिरपे रहन न पाए ।—सु दर ग्र०, भा० २ पृ० ८४७ ।

पैकड़ा^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पैकड़ा' । उ०—मेरी पग का पैकड़ा, मेरी गल की फाँसी ।—कवीर सा०, पृ० ७७ ।

पैकर^१—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पैकार (= इकट्ठा करनेवाला)] कपास से रुई इकट्ठी करनेवाला ।

पैकर^२—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पैकर] १ देह । शरीर । जिस्म । २ आकृति । शकल । उ०—उसी मसोह की पैकर की आमद, आमद है ।—भारतेंदु ग्र०, भा० २, पृ० ७८६ ।

पैकरमा^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० परिक्रमा] दे० 'परिक्रमा' । उ०—दे पैकरमा सीस नवाकें सुनि सुनि बचन अघाळें जी ।—चरण० बानी, पृ० ६६ ।

पैकरा—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाँय+कड़ा] पैरी । पाँव में पहनने का एक गहना ।

पैकहिना^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] दाईं । वच्चा उत्पन्न करनेवाली स्त्री । उ०—तवाँ महीना जब लागे, सासु सोवे अँगना हो, ललना, पीरा कब उठ जाय, पैकहिन बुलवायय हो ।—शुक्ल० अभि० ग्र०, पृ० १४३ ।

पैकाँ—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] तीर का नोक । बाण की अनी । उ०—तीरे मिजगाँ वरसते है मुझार । श्रावे पैकाँ का इस तरफ है ढाल ।—कविता को०, भा०४, पृ० २० ।

पैका^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पैकार ?] पैसा । दमही । उ०—गाँठि में न पैका कोऊ भयो रही साहूकार, बातनि ही मुहर रुपैया गनि गाहिए ।—सु दर ग्र०, भा०२, पृ० ४६४ ।

पैकान—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] १ बाण की नोक या अनी । २ बरछी की नोक [क्री०] ।

पैकार—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] १. थोड़ी पूँजी का रोजगारी । छोटा व्यापारी । फेरीवाल । फुटकर बेचनेवाला । २ युद्ध । लड़ाई । उ०—हुआ केलू आमदा पैकार को । न माना न जाना जहाँदार को ।—कवीर म०, पृ० ६८ ।

पैकारी—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पैकार] दे० 'पैकार' । उ०—पूँजी नामु निरजनु राता । सत्रु पैकारी सचे माता ।—प्राण०, पृ० १७५ ।

पैकी—सञ्ज्ञा पुं० [म० पायिक (= हरकारा, फेरी लगानेवाला)] मेले तमाशे आदि मे घूम घूमकर लोगो को हुक्का पिलानेवाला ।

पैकेट—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] पुलिदा । मुट्ठा । छोटी गठरी ।
क्रि० प्र०—बाँधना ।—भेजना ।

मुहा०—पैकेट खगाना = डाकघर में बाहर भेजने के लिये कोई पुलिदा देना ।

पैकट—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] दो पक्षों में किसी विषय पर होनेवाला कौल करार । प्रण । शर्त । जैसे, बगाल का हिंदू मुसलिम पैकट ।

पैखरी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पँखरी] दे० 'पँखुड़ी' । उ०—अवधू सहस दल अब देख । सेत रग जहँ पैखरी छवि अग्र डोर बिसेख ।—चरण० बानी, पृ० १२१ ।

पैखाना—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पाखानह] दे० 'पाखाना' ।

पैगवर—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पयगामवर, पैगुंवर] मनुष्यो के पास ईश्वर का संदेश लेकर आनेवाला । धर्मप्रवर्तक । जैसे, मूसा, ईसा, मुहम्मद ।

पैगवरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पैगु वरी] १ पैगवर होने का भाव । २ पैगवर का कार्य या पद । ३ एक प्रकार का गेहूँ ।

पैगवरी—वि० पैगवर सबधी ।

पैग^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पदक, प्रा० पत्रक, पग] डग । कदम । फाल । उ०—पैग पैग पर कुआँ बावरी । साजी बैठक श्रोत पाँवरी ।—जायसी ग्र०, पृ० ११ ।

पैगाम—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पैगाम] बात जो कहला भेजे । संदेश । उ०—कासिद् की जबाँ से उसके आगे । पैगाम व सलाम कुछ न निकला ।—कविता को०, भा०४, पृ० ४० । २ विवाह सवध बात जो कही या कहलाई जाय ।

मुहा०—पैगाम ढालना = सबध करने का संदेशा भेजना । सबध करने की बातचीत करना ।

पैगामवर—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पैगामवर] स देशवाहक । दूत [को०] ।
 पैगामी—सञ्ज्ञा पुं० [फ्रा० पैगामी] वह जा दूत का काम करे [को०] ।
 पैगोहा—सञ्ज्ञा पुं० [बरमी] बौद्ध मंदिर ।
 पैज (पु)¹—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिज्ञा > प्रतिज्ञा, प्रा० पतिञ्जा, अप० पञ्ज्वा] १ प्रतिज्ञा । प्रण । टेक । हठ । उ०—(क) पैज करी हनुमान निशाचर मारि सीय सुधि लाऊँ ।—सूर (शब्द०) । (ख) पैज करि कही हरि तोहि उवारी ।—सूर (शब्द०) ।

क्रि० प्र०—करना ।—बोधना ।
 २ प्रतिद्विधा । होड । किसी के विरोध में किया हुआ हठ । रीस । लागडाट । जिद । जैसे,—कुछ नहीं वह मेरी पैज से वहाँ जा रहा है ।
 मुहा०—पैज पड जाना = प्रतिद्विधा हो जाना । चखाचखी हो जाना । लागडाट हो जाना ।

पैज²—सञ्ज्ञा पुं० [म० पय, प्रा० पज्ज] पैतरा ।
 क्रि० प्र०—करना ।
 पैजनियाँ—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पैजनी' ।
 पैजनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पैजनी' ।
 पैजा—सञ्ज्ञा पुं० [म० पाद हिं० पाय + सं० जट, हिं० जड] लोहे का कडा जो किवाड के छेद में इसलिये पहनाया रहता है जिसमें किवाड उतर न सके । पायना ।

पैजामा—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पैजामह] दे० 'पायजामा' ।
 पैजार—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पैजार] जूता । पनही । जोडा । उ०—काल के सिर पैजार मारि के पार उतरना ।—पलटू०, पृ० ८४ ।
 यौ०—जूती पैजार = जूते से मारपीट । जूता चलाना । लड़ाई भगडा ।

पैकना—क्रि० अ० [म० प्रविध्य, प्रवेध] प्रवेश । करना । पैठना । उ०—रहै इकत शब्दु निरवाण । दरगहि पैके पति परवाण ।—प्राण०, पृ० १०१ ।
 पैटने—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] ढाँचा । स्वरूप । उ०—यह फूल कभी अप्रीतिकर या तुम्हारे पैटने में वेमेल नहीं होगा यही मानती हूँ ।—नदी०, पृ० ३५७ ।

पैट्रोमैक्स—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] छोटी गैस, जिसका आकार लालटेन की तरह होता है । लालटेन गैस । उ०—बड़े कमरे में पैट्रो-मैक्स जल रहा था ।—नो दुनियाँ, पृ० ६७ ।
 पैठ¹—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रविष्ट, प्रा० पइठ्ठ] १ घुसने का भाव । प्रवेश । दखल ।
 यौ०—घुस पैठ ।

२ गति । पहुँच । आना जाना । जैसे,—इस दरबार में उनकी पैठ नहीं है ।
 पैठ²—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पैठ] दे० 'पैठ' ।
 पैठना—क्रि० अ० [हिं० पैठ + ना (प्रत्य०)] घुसना । प्रविष्ट होना ।

प्रवेश करना । किसी वस्तु के भीतर या बीच में जाना । जैसे, घर में पैठना, पानी में पैठना । उ०—चलेउ नाइ सिर पैठेउ बागा ।—तुलसी (शब्द०) ।

संयो० क्रि०—जाना ।
 पैठाना—क्रि० सं० [हिं० पैठना] प्रवेश कराना । घुसाना । भीतर ले जाना ।
 संयो० क्रि०—देना ।—लेना ।

पैठार (पु)†—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पैठ + धार (प्रत्य०)] १. पैठ । प्रवेश उ०—घसगुन होहि नगर पैठारा रटहि कुर्माति कुखेत करारा ।—तुलसी (शब्द०) । २ प्रवेशद्वार । फाटक । दरवाजा । मुहाना ।

पैठारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पैठार] १ पैठ । प्रवेश । २ गति । पहुँच ।
 पैठी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पैठ] बदला । एवज ।
 पैठीनसि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक सृष्टिकार ऋषि [को०] ।
 पैड—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] १ सोखता या स्याहीसोख कागज की गद्दी । २ छोटी मुलायम गद्दी । जैसे इक पैड । ३ पत्र आदि लिखने के लिये कागजों की एक प्रकार की कापी । जैसे, लेटर पैड ।

पैडिक—वि० [सं०] पिडिका या पिडिका सबधी । फुसी सबधी [को०] ।
 पैड़ी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पैर] १ वह जिसपर पैर रखकर ऊपर चढ़ें । सीढ़ी । जैसे, हर की पैड़ी । २ कुएँ पर चरसा खींचनेवाले बैलों के चलने के लिये बना हुआ ढालवाँ रास्ता । ३. वह स्थान जहाँ सिंचाई के लिये जलाशय से पानी लेकर ढालते हैं । पौदर ।

पैतरा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पदान्तर, प्रा० पयातर] १ पटा । तलवार चलाने या कुश्ती लडने में घूम फिरकर पैर रखने की मुद्रा । वार करने का ठाट ।
 मुहा०—पैतरा बदलना = पटा चलाने या कुश्ती लडने में डब के साथ इधर उधर पैर रखना । पैतरा भाँजना = घूमते हुए पैर रखना और हाथ घुमाना ।

यौ०—पैतरेबाजी = धोखेबाज । चालबाज । बूर्त । पैतरेबाजी = धोखेबाजी । चालाकी ।
 २ झूल पर पडा हुआ पदचिह्न । पैर का निशान । खोज ।

पैतरी¹—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पैतरा] रेशम फेरने की परेती ।
 पैतरी—सञ्ज्ञा स्त्री [सं० पग + हिं० तरी] जूती । पनही ।
 पैतला—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पैदल' । उ०—पाँच पायक पेल पैतल मान का गढ लीण ।—राम० घर्म०, पृ० १५५ ।
 पैतला—वि० [हिं० पायँ + थल] उथला । छिड़ला । पायाव । पैयला ।

पैतलाय—वि० [?] सन्नह । १७ । (दलाल) ।
 पैताना—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पायँता' ।
 पैतामह—वि० [सं०] पितामह सबधी ।
 पैतामहिक—वि० [सं०] पितामह से प्राप्त (धन आदि) ।

- पैतृक^१—वि० [सं०] १ पितृ संबंधी । २ पुरुषैनी । पुरखों का । जैसे, पैतृक भूमि, पैतृक संपत्ति ।
- पैतृक^२—सञ्ज्ञा पुं० पितरों के लिये किया जानेवाला एक श्राद्ध [को०] ।
- पैतृमत्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ अविवाहित स्त्री का पुत्र । २ महान् व्यक्ति का पुत्र [को०] ।
- पैतृष्वसेय, पैतृष्वसीय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] फुफेरा भाई [को०] ।
- पैत्ता—वि० [सं०] पित्तज । पित्त से उत्पन्न ।
- पैत्तल—वि० [सं०] पीतल का बना हुआ [को०] ।
- पैत्तिक—वि० [सं०] पित्त संबंधी । पित्त का । पित्त से उत्पन्न ।
- पैत्र^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. अंगूठे और तर्जनी के बीच का भाग । पितृतीर्थ । २ पितृ सबंधी श्राद्ध आदि । ३ पितरों के लिये पवित्र दिन, मास या वर्ष [को०] ।
- पैत्र^२—वि० १. पितरों से संबंधित (श्राद्ध आदि) ।
- पैत्र्य—वि० [सं०] पितृ सबंधी ।
- पैथला—वि० [हिं० पाँच + थल] उथला । छिछला । पायाब ।
- पैद^१—क्रि० वि० [हिं० पैदल] दे० 'पैदल' । उ०—दोय लकड़ पैद चहुँ गढन कौद ।—ह० रासो, पृ० ६० ।
- पैदर^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पैदल' । उ०—विस सहस्र पैदर तुम लिष्वहु । गौरज गंमन मम रज रष्वहु ।—प० रासो०, पृ० १३७ ।
- पैदल^१—वि० [सं० पादतल, प्रा० पायतल] जो पाँच पाँच चले । जो सवारी आदि पर न हो । पैरों से चलनेवाला । जैसे, पैदल सिपाही, पैदल सेना ।
- पैदल^२—क्रि० वि० पाँच पाँच । पैरों से । सवारी आदि पर नहीं । जैसे, पैदल चलना, पैदल घूमना ।
- पैदल^३—सञ्ज्ञा पुं० १ पाँच पाँच चलना । पादचारण । जैसे, पैदल का रास्ता, पैदल का सफर । २ पैदल सिपाही । पाँच पाँच चलनेवाला योद्धा । पदाति । जैसे,—उसके साथ ५ हजार सवार और बीस हजार पैदल थे । ३ शतरज में वह नीचे दरजे की गोटी जो सीधा चलती और आधा मारती है ।
- पैदा^१—वि० [फा०] १ उत्पन्न । जन्मा हुआ । प्रसूत । जो पहले न रहा हो, नया प्रकट हुआ हो । जैसे, लडका पैदा होना, अनाज पैदा होना । २ प्रकट । आविर्भूत । घटित । उपस्थित । जैसे, रूग्णता पैदा होना । ३ प्राप्त । अर्जित । हासिल । कमाया हुआ । जैसे, रुपया पैदा करना, कमाल पैदा करना ।
- क्रि० प्र०—करना । होना ।
- पैदा^२—सञ्ज्ञा स्त्री० आय । आमदनी । अर्थागम । लाभ । जैसे,—उस नौकरी में बड़ी पैदा है ।
- पैदाइश—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] उत्पत्ति । जन्म ।
- पैदाइशी—वि० [फा०] १ जन्म का । जब से जन्म हुआ तभी का । बहुत पुराना । जैसे, पैदाइशी रोग । २ स्वाभाविक । प्राकृतिक । जैसे,—यह हुनर पैदाइशी होता है ।
- पैदावार—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] अन्न आदि जो खेत में बोने से प्राप्त

हो । उपज । फसल । जैसे,—इस खेत की पैदावार अच्छी नहीं है ।

- पैदावारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पैदावार] 'पैदावार' ।
- पैदाश^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पैदाइश] दे० 'पैदाइश' । उ०—कहता हूँ मैं मरिभम का पैदाश अक्वल । कलूँ जिफ्र ईसा का पीछे नकल ।—दक्खिनी०, पृ० ३५० ।
- पैधा^१—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पाधा' । उ०—गुरमुखि पैधा शब्द हल्लरा ।—प्राण०, पृ० १६७ ।
- पैना^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रयाण, हिं० पयान] १ नाली । २ पनाला ।
- पैना^२—वि० [सं० पैय (= घिसना), हिं० पैना] दे० 'पैना' । उ०—मोसो बयो न कहै इहा मैन हने सर पैन । राजिव नैन बसे कहा नहिं आए रग ऐन ।—स० सप्तक, पृ० २३५ ।
- पैनाणा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पहनना] दे० 'पहनना' । उ०—खाणा पीणा पंनणा मन की खुशी खुमार ।—प्राण०, पृ० २२५ ।
- पैना^३—वि० [सं० पैण (= घिसना, टेना)] [वि० स्त्री० पैनी] जिसकी धार बहुत पतली या काटनेवाली हो । चोखा । धारदार । तीक्ष्ण । तेज । उ०—परनारी, पैनी छुगी कवहु न लावो अंग (शब्द०) ।
- पैना^४—सञ्ज्ञा पुं० १ हलवाही की बेल हाँकने की छोटी छड़ी । २ लोहे का नुकीला छड़ । अकुश ।
- पैना^५—सञ्ज्ञा पुं० [?] धातु गलाने का मसाला ।
- पैना^६—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पैना' ।
- पैनाई^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पैना + ई (प्रत्य०)] पैनापन । उ०—खाई चाहि पैनि पैनाई । बार चाहि पातरि पतराई जायसी अं० (गुप्त), पृ० २२६ ।
- पैनाक—वि० [सं०] पिनाक सबंधी ।
- पैनाना^१—क्रि० सं० [हिं० पैना] छुरे आदि की धार को रग-रग कर पैनी करना । चोखा । करना । टेना ।
- पैनाना^२—क्रि० सं० [हिं०] दे० 'पहनाना' । उ०—सिरि छु पैषा प्रभि पैनाया ।—प्राण०, पृ० ११२ ।
- पैन्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पीनता । मोटापा । २ घनापन [को०] ।
- पैन्हना—क्रि० सं० [हिं०] दे० 'पहनना' ।
- पैपल—वि० [सं०] पीपल की लकड़ी का बना हुआ [को०] ।
- पैपलाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अथर्ववेद की एक धारा [को०] ।
- पैसक—सञ्ज्ञा स्त्री० [?] कलावसू की बनी हुई एक प्रकार की गूँह गोट जिसे अंगरखे, टोपी आदि के किनारे पर लगाते हैं । ले
- पैमाइश—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] मापने की क्रिया या भाव । . ५ जैसे, जमीन या खेत की पैमाइश ।
- पैमाना—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] वह वस्तु (छड़, डंडा, सूत, . २ वरतन आदि) जिससे कोई वस्तु मापी जाय । मापने की धारा । मानदंड ।
- पैमाल^१—वि० [फा० पैमाल] दे० 'पामाल' । उ०—काम

जीत कर क्रोध पैमाल कर, परम सुख धाम तहँ सुतं मेले ।—
कवीर श०, भा० १, पृ० ६७ ।

पैरा^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पायँ] पावँ । पैर । उ०—गुरु पैरा
लागी नाम लखा दीजो रे ।—धरम० श०, पृ० १६ ।

पैरा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाय्य (= निकृष्ट)] १ बिना सत का
अनाज का दाना । मारा युग्रा दाना । खोखला दाना । उ०—
मातु पिता कहँ सब घन तेरो मोरे लेखे पछोरन पैरा ।—
कवीर (शब्द०) । २. खुबख । दीन हीन ।

पैरा^२—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का बाँस ।

विशेष—यह पूरबी बगाल, चटगाँव और बरमा में बहुत होता
है । इसमें बड़े बड़े फल लगते हैं जो खाए जाते हैं । बसलोचन
भी इस बाँस में बहुत निकलता है । यह बाँस बहुत सीधा
जाता है और गाँठें भी इसमें दूर दूर पर होती हैं । चटगाँव में
इसकी चटाइयाँ बहुत बनती हैं । घरों में भी यह लगता है ।
इसे मूलीमतगा और तगाई का बाँस भी कहते हैं ।

पैरा^३—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पहिया] दे० 'पहिया' ।

पैरा^४—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पाँव' । उ०—दास गरीब दरस
भए, पैयन लगी जो लाय ।—कवीर म० पृ० ५८८ ।

पैरा^५—सञ्ज्ञा पुं० [म० पद + दयड, प्रा० पयदयड, अप० पयँड] १.
वह अंग या अवयव जिसपर खड़े होने पर शरीर का सारा
भार रहता है और जिससे प्राणी चलते फिरते हैं । गतिसाधक
अंग । पाँव । चरण ।

विशेष—दे० 'पाँव' । पैर शब्द से कभी कभी एडी से पजे तक
का भाग ही समझा जाता है ।

मुहा०—पैर छूटना = मासिक धर्म अधिक होना । रज लाव
अधिक होना । पैर की जूती = अत्यंत तुच्छ । दासी । सेविका ।
उ०—खेर, पैर की जूती जोरु, न मही एरु, दूसरी आती,
पर जवान लडके की सुध कर साँप लोटते, फटती छाती ।—
प्राय्या, पृ० २५ । (और मुहा० दे० 'पाँव' शब्द) ।

२ बूल आदि पर पडा हुआ पैर का चिह्न । पैर का निशान ।
जैसे,—बालू पर पड़े हुए पैर देखते चले जाओ ।

पैरा^६—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पायल, पायर] १ वह स्थान जहाँ खेत
से कटकर आई हुई फसल दाना भाड़ने के लिये फैलाई जाती
है । खलियान । २ खेत से कटकर आए खठन सहित अनाज
का अटाला ।

पैरा^७—सञ्ज्ञा पुं० [म० प्रदर] प्रदर रोग ।

पैर चठान—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पैर + ठठाना] कुशती का एक पंच
जिसमें बाँया पैर आगे बढ़ाकर बाएँ हाथ से जोड़ की छाती
पर धक्का देते और उसी समय दहने हाथ से उसके पैर के
घुटने को उठाकर और बायाँ पैर उसके दहने पैर में अड़ाकर
फुरती से उसे अपनी और खींचकर चित कर देते हैं ।

पैरगाड़ी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पैर + गाड़ी] वह हलकी गाड़ी जो
बैठे बैठे पैर दबाने से चलती है । जैसे, वाइसिकिल, ट्राइ-
सिकिल ।

पैरना^१—क्रि० अ० [सं० प्लवन, प्रा० पवण, हि० पौडना] तैरना ।

पानी के ऊपर हाथ पैर चलाते हुए जाना । उ०—(क)
पैरत थाके फिसवा सूर्म चार न पार ।—रातवाणी०,
पृ० ६६ । (ख) पैरवार दग ललन के पैर न पावत पार ।
—स० सप्तक पृ० ३५३ ।

सयो० क्रि०—जाना ।

मुहा०—पैरा हुआ = पारगत । दक्ष । निपुण ।

पैरना^२—क्रि० सं० [हि० पहिरना] दे० 'पहनना' । उ०—हरे रग
की अँगिया जो पड़े, जाइ रीमँ लंवरदार ।—बोदर अभि०
प्र० पृ० ८७७ ।

पैरवाजी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पैर + जा० याज + ई (प्रत्य०)] नृत्य में
पैरो की कुशल गति । उ०—नाच में इनके न तो कोई गति
है, न तोडा, न कोई पैरवाजी ।—प्रेमधन०, भा० २,
पृ० १५५ ।

पैरवार^३—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पैरना + वार (प्रत्य०)] पैरनेवाला ।
तैरनेवाला । उ०—छासिधु मुख रावरो लसे अनूप अपार ।
पैरवार दग ललन के पैर न पावत पार ।—स० सप्तक,
पृ० ३५३ ।

पैरवी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] १ कदम वा कदम चलना । अनुगमन ।
अनुगरण । २ आज्ञापालन । ३ पक्ष का मडन । पक्ष लेना ।
किसी बात के अनुकूल प्रयत्न । कोशिश । दौडपू । जैसे,
मुकदमे की पैरवी करना, किसी के लिये पैरवी करना ।

क्रि० प्र०—करना ।—होना ।

पैरवीकार—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] पैरवी करनेवाला ।

पैरहन—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] चोगे की तरह का एक लंबा पहनावा ।
उ०—खडा रहूँ दरवार तुम्हारे ज्यों घर का वदाजावा ।
नेकी की कुलाह सिर दीए, गले पैरहन साजा ।—सातवाणी०,
पृ० १०३ ।

पैरा^४—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पैर] १ आया हुआ कदम । पड़े हुए चरण ।
पौरा । जैसे,—वह का पैरा न जाने कैसा है कि जबसे आई
है कोई सुख से नहीं है । २ एक प्रकार का कडा जो पैर में
पहना जाता है । ३ किसी ऊँची जगह चढ़ने के लिये
लकड़ियों के बल्ले आदि रखकर बनाया हुआ रास्ता । उ०—
मन गरुवो कुच गिरिन पै सहजँ पहुँचि सके न । याही तें ले
डीठि के पैरे वाँधत नैन ।—स० सप्तक, पृ० १६६ ।

पैरा^५—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] एक प्रकार की दक्खिनी कपास जिसके
पेठ बहुत दिनों तक रहते हैं ।

विशेष—इसके डठल लाल रंग के होते हैं । रुई इसकी बहुत
साफ नहीं होती, उसमें कुछ ललाईपन या मूरापन होता है ।
यह कपास मध्यभारत से लेकर मद्रास तक होती है ।

पैरा^६—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिटक, प्रा० पिटा] लकड़ी का खाना जिसमें
सोनार अपने काँटे बाट रखता है ।

पैरा^७—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] दे० 'पयाल' ।

पैरा^८—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] १ लेख का उतना अक्षर जितने में कोई
एक बात पूरी हो जाय और जो इसी प्रकार के दूसरे अक्षर
से कुछ जगह छोड़कर अलग किया गया हो ।

विशेष—जिस पक्ति पर एक पैरा समाप्त होता है, दूसरा पैरा उस पक्ति को छोड़कर शीर किनारे से कुछ हटाकर प्रारम्भ किया जाता है।

५ टिप्पणी। छोटा नोट। जैसे,—सपादक ने इस विषय पर एक पैरा लिखा है।

पैराई—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पैरना, √पैर + आई (प्रत्य०)] १ पैरने या तैरने की क्रिया या भाव। २ तैरने की कला। ३. तैरने की मजदूरी।

पैराउ, पैराऊ (पु)—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पैरना] दे० 'पैराव'। उ०—(क) ग्रीष्म हूँ रितु में भरी दुहें कून पैराउ। खारे जल की वहति है नदी तिहारे गाठ।—मति० ग्रं०, पृ० ४४६। (ख) घरनी वरखे बादल भीजे भीट भया पैराऊ। हम उठाने ताल सुखाने चहले वीषा पाऊ।—कवीर (शब्द०)।

पैराऊ—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पैरना] १ तैरनेवाला। तैराक। † २. चतुर। कुशल। प्रवीण। उ०—सज असि त्राण पैराक वप वप साजिया। गपण छिन्नता माहा भयानक गाजिया।—रघु० रू०, पृ० १८८।

पैराकी—वि० [हि० पैरना] १ चतुर। प्रवीण। उ०—जिण साथ पैराकी जगारा, भव प्रक्रम दीख्या अगारा।—रघु० रू०, पृ० १५८।

पैरागाफ—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] दे० 'पैरा'।

पैराना—क्रि० सं० [हि० पैरना का प्रे० रूप] पैरने का काम कराना। तैराना।

संयो० क्रि०—देना।—लेना।

पैराउ (पु)†—वि० [हि० पैरना + आरा (प्रत्य०)] पैरनेवाले। पैराक। तैरनेवाले। तैराक। उ०—घन ह्य मतवारे पैरारे। चितवन घीच सिधु जा डारे।—इन्द्रा०, पृ० ४५।

पैराव—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पैरना + आव (प्रत्य०)] इतना पानी जिसे केवल तैरकर ही पार कर सकें। डुबाव।

पैराशूट—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] एक बहुत बड़ा छाता जिसके सहारे बेलून (गुब्बारा) धीरे धीरे जमीन पर उतरता और गिरकर टूटता फूटता नहीं।

पैरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पैर] १ पैर में पहनने का एक चौड़ा गहना जो कून या कसि का बनता है और जिसे नीष जाति की स्त्रियाँ पहनती हैं। २ अनाज के कटे हुए पीसे जो दायने के लिये फेंकाए जाते हैं। ३ अनाज के सूखे पीसों पर बेल चलाकर और उठा मारकर दाना झाड़ने की क्रिया। दायने का काम। दवाई।

क्रि० प्र०—करना।—होना।

४ भेड़ों के बाल कतरने का काम। ५ पेड़ी। सीढ़ी। ६ (पु) पेड़ी। पीड़ी। पुस्त (लाक्ष०)। उ०—तिनकी तरें पैरी पचास सुवास तें फिरि नहि फिरि।—पद्माकर ग्रं०, पृ० १५।

पैरेखना—क्रि० सं० [सं० परीक्षण] दे० 'पैरेखना'।

पैरोकार—संज्ञा पुं० [फा० पैरवीकार] दे० 'पैरवीकार'।

पैरोल—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] दे० 'पैरोल'।

पैल^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भागवत में वर्णित एक ब्राह्मण जिन्होंने वेदव्यास के सहिता विभाग करने पर ऋग्वेद का अच्ययन किया था।

पैल^२—अव्य० [अ० पइल] दे० 'पहले'। उ०—घावी करुंगा तेरा तमाशा। पैल तेरी गुडी काहुंगा।—दक्खिनी०, पृ० ६०।

पैला^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पृथुल या हि० फैलना] अधिकता। बहु-तायत। उ०—भोज रीभ भेनी भली, पावस पाणी पैल।—वांकी० ग्रं०, भा० २, पृ० ८।

पैलगी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पायँ + लगना] प्रणाम। अभिवंदन। पालागन।

पैलगी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पैलगी'।

पैलना (पु)†—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पैरना] तैरना। पैरना। उ०—मोह पवन झकोर दाहन दूर पैलव तीर।—चरण० वानी, पृ० ६०।

पैलव—वि० [सं०] १ पीलू के पेड़ का। २ पीलू संबधी। ३. की लकड़ी का बना हुआ।

पैला^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पैली] १. नाँद के आकार का मिट्टी का बरतन जिससे दूध दही ढाँकते हैं। बड़ी पैली। उ०—रया सब भाजन फोरि पराने। हाँक देत पैठत हैं पैला नेकू न मनाहि डराने।—सूर (शब्द०)। २. चार सेर अनाज की डलिया। चार सेर नाप का बरतन।

पैला^२—क्रि० वि० [देशी पहिल्ल, अ० पइल, हि० पहला] १ पहले। उ०—जाँण भलवकी जामगी, पैले दग्गी नाल रा० रू०, पृ० ३१०। २ उस शीर। उस पार। परला।

पैली^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पातिली, प्रा० पाहली] १ मिट्टी का एक चौड़ा बरतन जिसमें अनाज या तेल रखते हैं। २. या तेल नापने का मिट्टी का बरतन।

पैली (पु)^२—वि० स्त्री० [हि० परली] उस शीर का। दूसरी का। परली। उ०—सतगुरु काडे केस गहि हूवत इहि संसार दादू नाव चढ़ाइ करि, कीए पैली पार।—दादू०, पृ० ४।

पैवंद—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] १ कपड़े आदि का वह छोटा टुकड़ा जो किसी वड़े कपड़े आदि का छेद बंद करने के लिये जोड़ा सी दिया जाता है। चकती। घिगली। जोड़।

क्रि० प्र०—लगाना।

मुहा०—पैवद लगाना = (१) बात में बात जोड़ना। मिलाना। जैसे,—सारा सेख उनका लिखा है बीच बीच भाप भी पैवद लगाए हैं। (२) अचूरी या विगड़ी हुई बात में नई बात जोड़कर उसे पूरा करना या सुधारना।

२. किसी पेड़ की टहनੀ काटकर उसी जाति के दूसरे पेड़ -

टहनी में जोड़कर वांछना जिससे फल बढ़ जाये या उनमें नया स्वाद आ जाय ।

क्रि० प्र०—लगाना ।

३ मेल जोल का आदमी । इष्ट मित्र । सबधी ।

पैवदी^१—वि० [फा०] १ पैवद लगाकर पैदा किया हुआ । कलम और पैवद द्वारा बड़ा और मीठा बनाया हुआ (फल) । कलमी । जैसे, पैवदी वेर ।

यौ०—पैवदी मूँछ = चिपकाई हुई मरोहदार मूँछ ।

२ वगुंसकर । दोगला ।

पैवदी^२—सज्ञा पुं० बड़ा झाड़ । शफतालू ।

पैवस्त, पैवस्ता—वि० [फा० पैवस्तह्] (जल, दूध, घी आदि द्रव पदार्थ) जो भीतर घुसकर सब भागों में फैल गया हो । जिसने भीतर बाहर फैलकर तर कर दिया हो । सोखा हुआ । समाया हुआ । जैसे, सिर में तेल पैवस्त होना, दूध का रोटी में पैवस्त होना । उ०—चमत्कृत चीजों से वह आरास्ता और पैवस्ता है । —प्रमथन०, भा० २, पृ० २३४ ।

क्रि० प्र०—करना ।—होना ।

पैशल्य—सज्ञा पुं० [सं०] १ पेशलता । कोमलता । २ कुशलता । कोशल (को०) ।

पैशाच^१—वि० [सं०] १. पिशाच सबधी । पिशाच का । पिशाच का बनाया या किया हुआ । २. पिशाच देश का । जैसे, पैशाच भाषा ।

पैशाच^२—सज्ञा पुं० १ पिशाच । २. एक आयुषजीवी साध का नाम । एक लडाका दल । ३ एक प्रकार का हीन विवाह । दे० 'पैशाच विवाह' ।

पैशाचकाय—सज्ञा पुं० [सं०] सुश्रुत में कहे हुए कायो (शरीरो) में एक जो 'राजस काय' के अतर्गत है ।

विशेष—जूठा खाने की रुचि, स्वभाव का तीखापन, दुसाहस, स्त्रीलोलुपता और निर्लज्जता 'पैशाच काय' के लक्षण हैं ।

पैशाच विवाह—सज्ञा पुं० [सं०] आठ प्रकार के विवाहों में से एक जो सोई हुई कन्या का हरण करके या मदोन्मत्त कन्या को फुसलाकर छल से किया गया हो ।

विशेष—स्मृतियों में इस प्रकार का विवाह बहुत निन्दनीय कहा गया है ।

पैशाचिक—वि० [सं०] पिशाच सबधी । पिशाचों का । राक्षसी । घोर और बीभत्स । जैसे, पैशाचिक कांड, पैशाचिक कर्म ।

पैशाची—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. पिशाच देश की भाषा । एक प्रकार की प्राकृत भाषा ।

विशेष—कहा जाता है कि गुणादय की 'बडुकहा' इसी भाषा में थी ।

२ किसी घामिक कृत्य पर धी जानेवाली भेंट (को०) । ३. रात्रि । रात (को०) ।

पैशाच्य—सज्ञा पुं० [सं०] पिशाच होने का भाव । क्रूरता । निन्द्यता (को०) ।

पैशुन—सज्ञा पुं० [सं०] पिशुनता । जुगुलखोरी ।

पैशुन्य—सज्ञा पुं० [सं०] पिशुनता । । जुगुलखोरी ।

पैष्ट—वि० [सं०] पिष्ट से निमित्त । आटा आदि का बना हुआ (को०) ।

पैष्टिक^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ जो, चावल आदि अन्नो को सडाकर बनाया हुआ । मद्य । २ आटे आदि का तैयार पदार्थ, रोटी आदि (को०) ।

पैष्टिक^२—वि० आटे का बना हुआ । आटे का (को०) ।

पैष्टी—सज्ञा स्त्री० [सं०] पैष्टिक । यवादि अन्न निमित्त सुरा ।

पैसना^१—क्रि० प्र० [सं० प्रविश, प्रा० पइस + हिं० ना (प्रत्य०)] घुसना । पैठना । प्रवेश करना । उ०—(क) मेरे हित करिबे हरि कैसे । फुत्सित उदर दरी मे पैसे ।—नद० प्र०, पृ० २१६ । (ख) देवाले पैसे अ विका दरसे घणुं भाव हित प्रीति घणी । -वैलि०, दू० १०८ ।

पैसरा^१—सज्ञा पुं० [सं० परिश्रम] जजाल । झूठ । बखेडा । प्रयत्न । व्यापार । उ०—ऐसो है हरि पूजन ताता । पुनि पैसे केरि नहिं बाता ।—विश्र.म (शब्द०) ।

पैसा—सज्ञा पुं० [सं० पाद, प्रा० पाय (= चौपाई) + अश, प्रा० अश, या सं० पशाश] १ ताँदे का सबसे अधिक चलता सिक्का जो पहले आने का चौथा और रुपए का चौसठवाँ भाग होता था । पाव आना । तीन पाई का सिक्का ।

विशेष—मग्न स्वतंत्र भारत में दशमिक प्रणाली के सिक्के का प्रचलन हो गया है, जिसमें पैसा दशमिक प्रणाली के आधार पर रुपए का सोवाँ भाग होता है और आजकल यह सिक्का अलमूनियम का होता है ।

२. रुपया पैसा । धन । दौलत । माल । जैसे,—उसके पास बहुत पैसा है । उ०—साईं या ससार में मतलब का व्यवहार । जब तक पैसा पास में तबतक हैं सब यार ।—गिरिधर (शब्द०) ।

मुहा०—पैसा उठना = धन खर्च होना । पैसा उठाना = धन व्यर्थ नष्ट करना । फजूलखर्ची करना । पैसा कमाना = धन उपाजित करना । रुपया पैदा करना । पैसा डूबना = लगा हुआ रुपया नष्ट होना । घाटा होना । पैसा ढो ले जाना = सब धन खींच ले जाना । पैसा धोकर उठाना = किसी देवता की पूजा की मनोती करके अलग पैसा निकालकर रखना । पैसे का पचास होना = अत्यंत साधारण होना । टके मोल विकना । उ०—गुरुप्रा तो सस्ता भया पैसा केर पचास । राम नाम को बेचिके, करे सिध्द की आस ।—कवीर सा० सं०, पृ० १५ ।

पैसारा^१—सज्ञा पुं० [हिं० पैसन] १. पैठ । प्रवेश । उ०—कायापुर मे अलख भूलै, तहाँ कर पैसार ।—वरनी०, पृ० ३३ । २. भीतर जाने का मार्ग । प्रवेशद्वार ।

पैसारना—क्रि० प्र० [हिं० पैसार] घुसना । प्रवेश करना । पैठना ।

पैसारी^१—सज्ञा स्त्री० [हिं० पैसार] पैठ । पैसार । प्रवेश । उ०—आय नगर पैसारी कीन्हा । घर पूछे के चितवन कीन्हा ।—कवीर सा०, पृ० ४२३ ।

पैसिजर गाड़ी—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ० पैसिजर + हि० गाड़ी] मुसाफिरो को ले जानेवाली रेलगाड़ी । यात्री गाड़ी ।

पैसेवाला—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पैसा + वाला (प्रत्य०)] १ धनवान । मालदार । धनी । २. सराफ । ३ पैसा देवनेवाला । बट्टे पर रोजगी देनेवाला । बट्टेवाला ।

पैहचानना^(१)—क्रि० सं० [हि० पहचानना] दे० 'पहचानना' । उ०—उपजी प्रीति काम अंतर गत, तव नागर नागरि पहचानी । —पोद्दार अभि० प्र०, पृ० २३५ ।

पैहचाना, पैहचाना^(२)—क्रि० सं० [प्रा०, अ० पृष्ठ] दे० 'पहचानना' । उ०—(क) पथी एक सँदेसहउ डोलइ लग पहचाइ । —ढोला०, दू० १२३ । (ख) लग डोलइ पहचानाई । —ढोला०, दू० १२८ ।

पैहम—क्रि० वि० [फा०] अनवरत । लगातार । निरंतर । बराबर । उ०—कि चपमे खूँ चरुं से लखते दिल पैहम निकलते हैं । —भारतेंदु प्र०, भा०२, पृ० ८४८ ।

पैहरना^(१)—क्रि० सं० [हि० पहिरना] दे० 'पहनना' । उ०—पैहर न आछी चूनढी । —वी० रासी, पृ० ५५ ।

पैहरा—सञ्ज्ञा पुं० [दे०] कपास के खेत में रुई इकट्ठी करनेवाला । पैकर । बनिया ।

पैहरावना^(२)—क्रि० सं० [हि० पहिराना] दे० 'पहनना' । उ०—लेत बलाइ भाइ नव उपजत रीझि रसाल माल पैहरावत । —पोद्दार अभि० प्र०, पृ० ३६१ ।

पैहारी—वि० [सं० पयस + अहारी] केवल दूध पीकर रहनेवाला (साधु) ।

पैहेरना^(३)—क्रि० सं० [हि० पहिरना] दे० 'पहनना' । उ०—सोधे न्हाइ वैठी पैहेरि पट सुदर, जहाँ फुलवारी तहँ सुखवत अलक । —पोद्दार अभि० प्र०, पृ० १६२१ ।

पौं—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ०] १ लवी नाल या भोपे को फूँकने से निकला हुआ शब्द । २ लवी नाल के आकार का एक वाजा जिसमें फूँकने से 'पौं' शब्द निकलता है । भोपा । ३. मधोवायु निकलने का शब्द ।

मुहा०—पौं बोलना = (१) हार मानना । एककर बैठ रहना । (२) दीवाला निकलना । पुक्ख हो जाना ।

पौंकना^(१)—क्रि० प्र० [पौं से अ०] १ पतला पाखाना करना । २ अत्यंत भयभीत होना । बहुत डरना ।

पौंकना^(२)—सञ्ज्ञा पुं० चौपायो को पतला दस्त होने का रोग ।

पौंकना^(३)—वि० १. पोकनेवाला । पतला मल करनेवाला । बार बार पतला मल करनेवाला । २ भयासु । डरपोक ।

पौंका—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] बडा कतिगा जो पौषो पर उडता फिरता है । चोका ।

पौंगरा^(४)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पृथुक] बालक । शिशु । बच्चा ।

पौंगली—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पोंगा] १ दे० 'पोंगी' । २ वह नरिया जो दीवारा चाक पर से बनाकर उतारी गई हो (कुम्हार) ।

पौंगा^(५)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुटक (= खोखला भरतन)]

[स्त्री० अदपा० पोंगी] १ वाँस की नली । वाँस का मोखला पोर । २ टोन प्रादि की बनी हुई लवी खोखली नली जिसमें कागज पत्र रखते हैं । षोगा । ३ पाँव की नली ।

पौंगा^(६)—वि० १ पोला । २ मूर्ख । बुद्धिहीन । अहमक । उ० विमला ने कहा 'हँसी नहीं' मैं उस आह्वान को पतिवादी हूँ वह तो पोंगा ही है—किंतु वह जाय या न जाय ।—गदाधर सिंह (शब्द०) ।

पौंगापंथी^(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पोंगा + सं० पंथी] मूर्खों का कार्य मूर्खतापूर्ण कार्य ।

पौंगापंथी^(८)—वि० मूर्खतापूर्ण कार्य करनेवाला ।

पौंगी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पोंगा + ई (प्रत्य०)] छोटी पोली नली २ नरकुल की एक नली जिसपर जुनाहे तागा लपेटक ताना या भरनी करते हैं । ३ चार या पाँच अंगुल गी बाँ की पोली नली जो वाँस के बीजने की डाँडी में लगी हो है । हाँकनेवाले इसे पकड़कर बीजने को घुमाते हैं । ४ पुन बजाने की तुमड़ी । ५ ऊँख या वाँस प्रादि में दो गाँठों बीच का प्रदेश या भाग ।

पौंचना^(९)—क्रि० प्र० [प्रा० अ० पृष्ठ] दे० 'पहचानना' । उ० अर्जो लिखी फौजदार से गौंचे जिलिबदार, जाके दरवार चौपदार के कहिने ।—दक्खिनी० पृ० ४६ ।

पौछा^(१०)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुच्छ] दे० 'पूछ' ।

पौछन—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पौछना] किसी लगी हुई वस्तु का वह व भाग जो पोछने से निकले ।

पौछना^(११)—क्रि० सं० [सं० प्रोच्छन, प्रा० पौछन] लगी हुई गोली को जोर से हाथ या कपड़ा प्रादि से फेरकर उठाना या हटाना । जैसे, भाँख से घाँसु पोछना, कागज पर पड़ी कागज पोछना, कटोरे में लगा हुआ घी पौछकर खा जाना, नहाने बाद गोला बदन पोछना । उ०—(क) सुनि के उतर म पुनि पौछे । कौन पंख वाँषा बुधि श्रोछे ।—जाग (शब्द०) । (ख) पौछि डारे अजन भँगोछि डारे अंगूर दूर कीने भूषण, उतारि अंग अंग ते ।—रघुनाथ (शब्द०) २ पड़ी हुई गर्द, मेल प्रादि को हाथ या कपड़ा जोर फेरकर दूर करना । रगडकर साफ करना । जैसे,—पु पर गर्द पड़ी है पौछ दो । पैर पौछकर तब फर्श पर । उ०—गानहु विधि तन मच्छ छवि स्वच्छ रामिचे काज । पग पोछन को किए भूखन पायदाज ।—विहारी (शब्द०)

संयो० क्रि०—टालना ।—देना ।—जेना ।

यी०—झाड़ू पोछ ।

विशेष—जो वस्तु लगी या पड़ी हो तथा जिसपर कोई व लगी या पड़ी हो, अर्थात् आघार और आधेय दोनों इस के कर्म होते हैं । जैसे, कटोरा पोछना, पैर में लगी गर्द पौछना, कटोरे में लगा घी पोछना, पैर पौछना । अटके से नाक को झाड़ना और रगडकर साफ करने को पौछना कहते हैं पौछना^(१२)—सञ्ज्ञा पुं० [स्त्री० पौछनी] पौछने का कपड़ा । यह जो पौछने के लिये हो ।

पॉट—सञ्ज्ञा पुं० [अ० प्वाइट] अतरीप । (लश०) ।

पॉटा—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] नाक का मल ।

पॉटा—सञ्ज्ञा पुं० [अ० प्वाइट] रस्से का सिरा या छोर । (लश०) ।

पॉटी—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] एक प्रकार की छोटी मछली ।

पॉड़ना—क्रि० अ० [हिं० पौड़ना] दे० 'पौड़ना' । उ०—रूप चद नदा के घर पोडे हैं ।—दो सी वावन०, भा० १, पृ० १६३ ।

पॉन(७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पवन, हिं० पौन] दे० 'पवन' । उ०—नृप दीन हल्यो बहु चित्त चित्त । सुहल्या जनु पौनय पीप पतं ।—पृ० रा० १।११४ । (ख) सोई उपमा कविचद कये । सजे मनो पोन पवग रथे ।—पृ० रा०, २७।३२ ।

पॉइचना—क्रि० अ० [हिं०] दे० 'पहुँचना' । उ०—पोहवे भारण, प्राणियाँ, जल थल अवर जाय ।—बाँकी० प्र०, भा० २, पृ० ४४ ।

पॉइचाना—क्रि० सं० [हिं०] दे० 'पहुँचाना' । उ०—जानकी रहीला मठे मो जनक रे । जनक रे कर्ना पोहवाय जावाँ ।—रघु० ६०, पृ० १०५ ।

पो—वि० [सं०] शुद्ध । पवित्र । स्वच्छ [को०] ।

पोषा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुत्रक] १ सर्प का बच्चा । संपोला । २ कीड़ा । उ०—अवुभ ना बुभ भाल के कहे मद, पोषा पियद काहा कुसुम मकरद ।—विद्यापति, पृ० ६३ ।

पोषाना—क्रि० सं० [हिं० 'पोना' का प्र० रूप] १. पोने का काम कराना । २ गीले आटे की लोई की गीले रोटी के रूप में घना बनाकर पकानेवाले को सँकने के लिये देना । जैसे, रोटी पोषाना ।

सयो० क्रि०—देना ।—लेना ।

पोषारां—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पुमाल' ।

पोइत्री—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ०] काव्य । कविता । उ०—पोइत्री में बोलती थी, प्रोज मे बिलकुल अडी ।—कुकुर०, पृ० १६ ।

पोइणी, पोइन—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पद्मिनी, प्रा०, पठमिणी, अ०, राज० पोयण, पोइण] कमलिनो । पदमिनी । उ०—(क) जल पोइणिए छाइयउ, कहउ त पूगल जाँहि ।—ढोला०, पृ० २४५ । (ख) रम अ म तहै—भरे फुल्लि पोइन सुमृष्य नर ।—पृ० रा०, १३।६६ ।

पोइया^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पोयपह] घोड़े की दो दो पैर फँकते हुए दौड़ । सरपट चाल ।

मुहा०—पोइयाँ जाना = दोनों पैर फँकते हुए दौड़ना ।

पोइया^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पोइको, हिं० पोय, पोई] एक लता । दे० 'पोई' ।

पोइस^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा० पोयह, हिं० पोइया] सरपट चाल । दौड़ । उ०—रे मन जनम अकारथ खोइस । काखयमने सो भानि बनेई देखि देखि मुख रोइस । सूर श्याम बिनु कौन छुटावे चले जाहु भाई पोइस ।—सूर (शब्द०) ।

पोइस^२—अव्य० [फा० पोश] देखो । हटो । बचो ।

विशेष—गधे, खच्चर आदि लेकर चलनेवाले लोगों को छू जाने से बचने के लिये 'पोश' 'पोस' या 'पोइस पोइस' पुकारते चलते हैं ।

पोई^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पूतिका या पोदिक] एक लता जिसकी पत्तियों का लोग साग खाते हैं ।

विशेष—इसकी पत्तियाँ पान की सी गोल पर दल की मोटी होती हैं । इसमें छोट छोट फलों के गुच्छे लगते हैं जिन्हें पकने पर चिटियाँ माती हैं । पोई दो प्रकार की होती है—एक काले ढल की, दूसरी हरे ढल की । बरनात में यह बहुत उपजती है । पत्तियों का लोग साग खाते हैं । एक जगली पोई भी होती है जिसकी पत्तियाँ लंबी होती हैं । इसका साग अच्छा नहीं होता । पोई की लता में रेरे होते हैं जो रस्सी बटने के काम में आते हैं । वैद्यक में पोई गरम, रुचिकारक, कफशयक और निद्राजक मानी गई है ।

पर्या०—उपोदकी । कलमी । पिच्छला । मोहिनी । विशाला । मदशाका । पूतिका ।

पोई^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पोत] १ नरम कल्ला । अकुर । २ ईस का कल्ला । ईस की प्राँख ।

मुहा०—पोई फूटना = ईस में अँकुर निकलना ।

३ गेहूँ, ज्वार, बाजरे आदि का नरम और छोटा पोषा । जई । ४ गन्ने का पोर ।

पोई^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्युत या फा० पोयह] घोड़े की एक प्रकार की चाल । दे० 'पोइया' ।

पोका—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोप > पोख] दे० 'पोख', 'पोप' । उ०—अ हा पाले काछुई, बिन थन राखे पोका । यों करता सबकी करे, पाले तीनिउ लोक ।—कबीर सा० सं०, पृ० ८१ ।

पोकना^१—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] महए का पका हुआ फल ।

पोकना^२—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पोकना' ।

पोकना^३—क्रि० अ० दे० 'पोकना' ।

पोकना^४—वि० [देश०] १ पुलपुला । नाजुक । कमजोर । २ पोता । खोखला । ३ नि.सार । तत्वहीन । तत्वशून्य ।

पोकारना—क्रि० सं० [हिं०] दे० 'पुकारना' । उ०—सहस्र वर्षे प्रहण निर्घारा । आगम सत्य कबीर पोकारा ।—कबीर सा०, पृ० ६३५ ।

पोख—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोप] पालने पोसने का संबध या लगाव । पोस । उ०—कविरा पाँच पखेरुआ राखा पोख लगाय । एक जो प्राया पारधी ले गया सबे उढाय ।—कबीर (शब्द०) ।

पोखनरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पोखरा + नरी] ढरकी के बीच का गड्ढा जिसमें नरी लगाकर जुलाहे कपडा बुनते हैं ।

पोखना^१—क्रि० सं० [सं० पोपण] पालना । पोसना । उ०—अरे कलानिधि निरदई कहा नवी यह प्राय । पोखत अमिरित कलन जग बिरहिन हेत जराय ।—रसनिधि (शब्द०) ।

पोखना^२—क्रि० अ० गाय भैंस आदि का बच्चा देने का समय समीप

माने पर, हाथ पर आदि का ढीला पड़ जाना और धन का सज आना । थलकना ।

पोखर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुष्कर, प्रा० पुक्खर, पोक्खर] १ तालाव । पोखरा । २ पट्टेवाजी में एक वार जो प्रतिपक्षी की कमर पर दाहिनी ओर होता है ।

पोखरा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुष्कर, प्रा० पुक्खर, पोक्खर] [स्त्री० अल्पा पोखरी] वह जलाशय जो खोदकर बनाया गया हो । तालाव । सागर । उ०—पाँच भीट के पोखरा हो, जा में दस द्वार ।—कवीर श०, भा० २, पृ० ५२ ।

पोखराज—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुष्कराज] दे० 'पुखराज' ।

पोखरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पोखरा] छोटा पोखरा । तलैया ।

पोखार(७)—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पोखरा' ।—उ०—मजर अवीर कुमकुमा किसरि समगो प्रेम पोखार ।—भीखा श०, पृ० ४६ ।

पोगड—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोगण्ड] १ पाँच, से दस वर्ष तक की अवस्था का बालक ।

विशेष—कुछ लोग ५ से १५ तक पोगड मानते हैं ।

२ वह जिसका कोई अंग छोटा, बड़ा या अघिक हो । जैसे, छह उँगलियाँ होना, बायाँ हाथ दाहने से छोटा होना ।

पोगर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुष्कर, प्रा० पुक्खर, पोक्खर] हाथी का मुख । हाथी की सूँड़ का अग्र भाग । उ०—तिहि ठाम आइ उहि हस्तिनी । वोर लियो पोगर सुनिम ।—पृ० रा० २७।६ ।

पोच^१—वि० [फा० पूच] १. तुच्छ । झूठ । बुरा । निष्कृष्ट । नीच । उ०—(क) मिट्टी महा मोह जी को छूट्यो पोच सोच सी को जान्यो अवतार भयो पुरुष पुरान को ।—तुलसी (शब्द०) । (ख) भलो पोच कह राम को मोको नरनारी । विगरे सेवक स्वान सो साहेव सिर गारी ।—तुलसी (शब्द०) । (ग) भलेच पोच सब विधि उपजाए । गनि गुन दोष वेद बिलगए ।—तुलसी (शब्द०) । (घ) कहिहै जग पोच न सोच कछु फल लोचन आपनो तो लहिहै ।—तुलसी (शब्द०) । (च) कौन सुनै काके श्रवण काकी सुरति सकोच । कौन निडर कर आपको को उत्तम को पोच ।—सूर (शब्द०) । (छ) प्रीति भार लै हिए न सोचू । वही पथ भल होय कि पोचू ।—जायसी (शब्द०) । २ अशक्त । क्षीण । हीन ।

पोच^२—सञ्ज्ञा स्त्री० दे० 'पोची' ।

पोचारा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पुचारा' ।

पोची(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पोच] निचाई । हेठापन । बुराई । उ०—यद्यपि मों ते के कुमातु ते होइ आई अति पोची । सन्मुख गए सरन राखहिने रघुपति परम सँकोची ।—तुलसी (शब्द०) ।

पोछना—क्रि० सं० [सं० प्रोच्छन] दे० 'पोछना' । उ०—कुमकुम केर चोरि भलि फाउलि काँवन मेलि ए पोछी ।—विद्यापति, पृ० १०५ ।

पोजीशन—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पोजीशन] पद । मोहदा । स्थान ।

उ०—आखिर आदमी को कुछ तो अपने पोजाशन का ख्याल करना चाहिए ।—मान०, भा० १, पृ० ८५ ।

पोट^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पोट] १ गठरी । पोटली । बकुचा । मोटरी । उ०—(क) पहले बुरा कमाय के बाँधी विषय के पोट । कोटि कर्म फिरे पलक में जब आयो हरि ओट कवीर (शब्द०) । (ख) खुलि खेली ससार में बाँधि नहिं कोय । घाट जगाती क्या करे सिरपै पोट न होय । (शब्द०) । २. ढेर । अटाला । जैसे, दुख की पोट, गरीबी की पोट ।

पोट^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पृष्ठ, हिं० पुट्ट] पुस्तक के पन्नों की वजह जहाँ से जुजवदी या सिलाई होती है ।

पोट^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पोत (= वस्त्र)] मुर्दे के ऊपर की चादर कफन के ऊपर का कपड़ा ।

पोट^४—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ घर की नीचे । २. मेल । मिलान ।

पोटक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नौकर । भृत्य । सेवक । [को०] ।

पोटगल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ नरसल । नरकट । २ काश । काँस । ३ मछली । ४ एक प्रकार का साँप ।

पोटना(७)—क्रि० सं० [हिं० पुट] १ समेटना । बटोरना । उ० (क) ऐसे पोटि ओठ रस लेत । हठ सो परसि नख देत ।—गुमान (शब्द०) । (ख) पोटि भद्र तट कटी के लपेटि पटी सो कटी पटु छोरत ।—देव (शब्द०) २ हथियाना । पंजे में करना । फुसलाना । बात में लाना । उ०—ललिता के लोचन भिचाइ चद्रभागा सों, दुराइवे ल्याई वै तहाई 'दास' पोटि पोटि ।—भिखारी० अ भा० १, पृ० १४२ ।

पोटरी(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पोटली] दे० 'पोटली' ।

पोटल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पोटली । पोटरी [को०] ।

पोटलक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० पोटलिका] पोटली । पोटरी [को०] ।

पोटला—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोटलक] बड़ी गठरी ।

पोटली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पोटली] १. छोटी गठरी । बकुचा । २. भीतर किसी वस्तु को रखकर बटोरकर बँटा हुआ कपड़ा आदि । जैसे,—(क) घनाज को पोटली बाँधकर ले चला । (ख) सूजन पर नीम की पोटली बँसेको ।

पोटा^१—वि० [सं० प्लुत ?] तराबोर । उ०—मेह सुजल में महीं, सावण करता सैल ।—बाँकी० ग्रं०, भा० २ पृ० ७ ।

पोटा^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुट (=थैली) अथवा देशी, पोट्ट, पोट (=पेट)] [स्त्री० अल्पा० पोटी] १ पेट की यल उदराशय ।

मुहा०—पोटा तर होना = पास में घन होने से प्रसन्नता निश्चितता होना । पास में माल रहने से वेफिकी होना । २ कलेजा । साहस । सामर्थ्य । पित्ता । जैसे,—बिसका है जो उनके विषय कुछ कर सके । ३. समाई । आक बिसात । ४ आँख की पलक । ५ उँगली का छोर ।

पोटा^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोत] १ बिडिया का बच्चा जिसे पर न निकले हो। नेदा। २ अकुर। उ०—नाभी माहि भया कुष्ठ दोरघ पोटा सा दरसाया।—दरिया० बानी, पृ० ५६।

यौ०—बेंगी पोटे।

पोटा^४—सञ्ज्ञा पुं० [?] नाक का मल या श्लेष्मा।

क्रि० प्र०—बहना।

पोटा^५—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ वह स्त्री जिसमें पुरुष के से लक्षण हो। नृलक्षणा स्त्री। पुरुषलक्षणों से युक्त। जैसे, दाढ़ी या मुँछ के स्थान पर बाल उगना। २ दासी। ३ घड़ियाल।

पोटाश, पोटास—सञ्ज्ञा पुं० [अ० पोटाश] वह क्षार जो पहले जलाए हुए पौषो की राख से निकाला जाता था, पर अब कुछ खनिज पदार्थों से प्राप्त होता है।

विशेष—पौषो की राख को पानी में घोलकर निधारते हैं फिर उस निधरे हुए पानी को झोटाते हैं जिससे क्षार गाढ़ा होकर नीचे जम जाता है। चुकंदर की सीठी (चीनी निकालने पर बची हुई) और भेड़ों के ऊन से भी पोटास निकलता है। शोरा, जवाखार आदि पोटास ही हैं। पोटास शीघ्र और शिल्प में काम आता है।

पोटिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पिटिका। फोडा [क्रि०]।

पोटी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पोटा] दे० 'पोटा'।

पोटी^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ बडा नक्र। बडा घड़ियाल। २ गुह्य। गुदा [क्रि०]।

पोटेशियम साइनाइड—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] एक प्रकार का अत्यंत जहरीला भवेत और स्वच्छ पदार्थ जो कच्ची घातु से सोने को अलग करने और कीड़े मारने आदि के काम में आता है।

पोटल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पोटल'।

पोटलिका, पोटली—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] पोठली। गठरी [क्रि०]।

पोठी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [दश०] एक प्रकार की छोटी मछली। उ०—पोठी नाले के बाहर आकर उछल रही थी।—रति० पृ० ११४।

पोडु—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] कपान का अस्थितल। खोपड़ी के ऊपरी भाग की हड्डी [क्रि०]।

पोडु^१—सि० [सं० प्रौढ, प्रा० पोड] दे० 'पोड़ा'। उ०—(क) मान न करसि, पोड़ कइ लाडू। मान करत रिस मानै चाडू।—जायसी ग्र०, पृ० १३३। (ख) मोड़ी सुरति पोड़ पद लारी। तेज भास लखि सुरति निहारी।—घट०, पृ० २७१।

पोड़ा—वि० [सं० प्रौढ, प्रा० पोड] [स्त्री० पोड़ी] १ पुष्ट। बढ़ मजबूत। उ०—कही छटना छाज पिठारी है कहीं विकती खाट खटोला है। जब देखा खूब तो आखिर को ना पोड़ी खाट न चरखा है।—नजीर (शब्द०)। २. बढ़। कड़ा। कठिन। कठोर। उ०—तीखी हेर चीर गहि पोड़ा। कतन हेर कीन्ह जिय पोड़ा।—जायसी (शब्द०)।

मुहा०—जी पोड़ा करना—जी कडा करना। चित्त को बढ़ करना जिससे भय, पीड़ा दुःख आदि से विचलित न हो।

पोड़ाना^१—क्रि० प्र० [हिं० पोड़] १ बढ़ होना। मजबूत होना। २ पक्का पडना।

पोड़ाना^२—क्रि० सं० बढ़ करना। पक्का करना। छटना।

पोड़ाना^३—क्रि० सं० [हिं०] दे० 'पोड़ाना'। उ०—याखे श्री ठाकुर जी को पोड़ाइ बाहिर की टहल सो पहींचि प्रसाद ले मुरारीवास सोवते।—दो सो वावन०, भाग १, पृ० १०२।

पोत^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पशु पक्षी आदि का छोटा बच्चा। २ छोटा पौधा। ३ वह गर्भस्थ पिंड जिसपर भ्रूण न चढ़ी हो।

यौ०—पोतज = जो जरायुज न हो।

४ दस वर्ष का हाथी का बच्चा। ५ घर की नींव। ६ कपडा। पट। ७. कपडे की बुनावट। जैसे, जैसे—इस कपडे का पोत भच्छा नहीं है। ८ नौका। नाव। ९ जहाज।

यौ०—पोतधारी। पोतप्लव = मल्लाह। माभी। = पोतभग = पोत का दूटना। पोतरस = पतवार। पोतवणिक। पोतवाह।

पोत^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रोता, प्रा० पोता] १. माला या गुरिया का दाना। २ काँच की गुरिया का दाना। यह अनेक रंगों का होता है और कोशों के दाने के बराबर होता है। निम्न वर्ग की स्त्रियाँ इसे तागे में गूँथकर गले में पहनती हैं। इसे लोग छड़ी और नैच आदि पर भी लपेटते हैं। उससे सोनार गहनों को भी साफ करते हैं। उ०—(क) पतिव्रता मैली भली गले काँच की पोत। सब सखियन में देखिए ज्यो सुरज की जोत।—कवीर (शब्द०)। (ख) भीना कामरि काज कान्ह ऐसी नहि कीर्ज। काँच पोत गिर जाइ नद धर गयो न पूजै।—सूर (शब्द०)। (ग) फिरि फिरि कहा सिखावत मौन। यह मत जाइ तिन्हें तुम सिखवो बिनही यह मत सोहत। सुर आज लौं सुनी न देखी पोत पूतरी पोहत।—सूर (शब्द०)।

पोत^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रवृत्ति, प्रा० पठति] १ ढग। ढव। प्रवृत्ति। उ०—नीच हिए हुलसे रहै गहे गेंद के पोत। ज्यो ज्यो माथे मारिए त्यो त्यो ऊँचे होत।—बिहारी (शब्द०)। २ बारी। दाँव। पारी। पवसर। ओसरी।

मुहा०—पोत पूरा करना = कमी पूरी करना। ज्यो त्यो करके किसी काम को पूरा करना। पोत पूरा होना = कमी पूरी होना। ज्यो त्यो करके किसी काम का पूरा होना।

पोत^४—सञ्ज्ञा पुं० [फा० फोत] जमीन का लगान। मुकर।

पोतक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ दे० 'पोत'। २ बच्चा। शिशु। उ०—जो सब पातक पोतक डाकिनि।—मानस २। १३२। ३ महाभारत के अनुसार एक नाग का नाम।

पोतकी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पुतिका। पोई नाम की लता।

पोतड़ा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोत = (कपडा)] वह कपडा जो बच्चों के चूतड़ों के नीचे रखा जाता है। गतरा। उ०—रेसम हदा पोतडा पालणिए पोढाय।—बाँकी० प्र०, भा० २, पृ० २७।

यौ०—पोतहों के रईस = खानदानी अमीर ।

पोतदार—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पोत + दार] १ वह पुरुष जिसके पास लगान कर का रुपया रखा जाय । खजानची । २ पारखी । वह पुरुष जो खजाने में रुपया परखने का काम करता हो ।

पोतधारी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोतधारिन्] जहाज का मालिक [क्रो०] ।

पोतन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पवित्र । स्वच्छ । शुद्ध ।

पोतन^२—वि० पवित्र करनेवाला ।

पोतनहर^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [पोतन + हर (प्रत्य०)] १. वह वरतन जिसमें घर पोतने के लिये मिट्टी ढोलकर रखी हो । २ वह स्त्री जो घर पोते या घर पोतने का काम करती हो ।

पोतनहर^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पोत + नाह] अति । अतई ।

पोतना^१—क्रि० सं० [सं० प्लुत, प्रा० पुत्त + हि० ना (प्रत्य०) अथवा सं० पोतन (= पवित्र)] १ किसी गीले पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर फैलाकर लगाना । गीली तह चढ़ाना । चुपडना । जैसे, रोगन पोतना, तेल पोतना, चूना पोतना ।

संयो० क्रि०—देना ।—लेना ।

२ किसी गीले या सूखे पदार्थ को किसी वस्तु पर ऐसा लगाना कि वह उसपर जम जाय । जैसे, कालिख पोतना, अमीर पोतना, मिट्टी पोतना, धूल पोतना, रंग पोतना ।

सयो० क्रि०—देना ।—लेना ।

३ किसी स्थान को मिट्टी, गोबर, चूने आदि से लीपना । चूने मिट्टी, गोबर आदि का गोला लेप चढाकर किसी स्थान को स्वच्छ करना । जैसे, घर पोतना, अग्नि पोतना । उ०—(क) सोमरूप मल भयो पसारा । धवलसिरी पोतहि घर वारा ।—जायसी (शब्द०) । (ख) पोता मँडप अग्रर श्री चदन । देव भरा अरगज श्री वदन ।—जायसी (शब्द०) ।

सयो० क्रि०—ढालना ।—देना ।—लेना ।

पोतना^२—सञ्ज्ञा पुं० वह कपड़ा जिससे कोई चीज पोती जाय । पोतने का कपड़ा । पोता ।

पोतरी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पोत्री' । उ०—परबस मेरी पोतरी, श्री सिरजोर निदान ।—रा० रू०, पृ० ३३२ ।

पोतला—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पोतना] पराँठा । तबे पर घी पोतकर सँकी हुई चपाती ।

पोतवाणिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोतवाणिज्] वह व्यापारी जो समुद्र से व्यापार करता हो [क्रो०] ।

पोतवाह—सञ्ज्ञा सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नाविक । नाव चलानेवाला [क्रो०] ।

पोतवाहिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पोत + वाहिनी] जहाजों का वेडा ।

उ०—चलोगी चंपा, पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लादकर राजरानी सी जन्मभूमि के अक में ?—आकाश०, पृ० १४ ।

पोता^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पौत्र, + प्रा० पोत्त] बेटे का बेटा । पुत्र का पुत्र । उ०—तुम्हारे पोते के हमारी पोती का ब्याह होय तो बड़ा आनंद है ।—लल्लू (शब्द०) ।

पोता^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोत्त > पोता] १ यज्ञ में सोलह प्रधान ऋत्विजों में से एक । २. पवित्र वायु । वायु । ३. विष्णु ।

पोता^३—सञ्ज्ञा पुं० [फा० फोतद्] १ पोत । लगान । भूमिकर । २ अडकोष ।

पोता^४—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] कलेजा । साहस । पित्त । उ० 'पोटा' २ । उ०—वयों घरते घर धीर सवे भट होत कछू बल काहू के पोते ।—हनुमान (शब्द०) ।

पोता^५—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पोतना] १ पोतने का कपड़ा । कूची जिससे धरो में चूना फेरा जाता है । २ धुली हुई मिट्टी जिसका लेप दीवार आदि पर करते हैं ।

मुहा०—पोता फेरना = (१) दीवार आदि पर चूने मिट्टी आदि का लेप करके सफाई करना । (२) चौका लगाना । चौपट करना । (३) सफाई कर देना । सब कुछ लूट ले जाना ।

३ मिट्टी के लेप पर गीले कपड़े का पुचारा जो भवके से अर्क उतारने में वरतन के ऊपर दिया जाता है । उ०—नैन नीर सो पोता किया । तस मद चुवा वरा जस दिया ।—जायसी प्र०, पृ० ६५ ।

पोता^६—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोत] १५ या १६ अंगुल लंबी एक की मछली जो हिंदुस्तान की प्रायः सब नदियों में मिलती है ।

पोताई—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पोतना] दे० 'पुताई' ।

पोताच्छादन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] तबू । छोलदारी । डेरा ।

पोताधान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] छाँवर । मछलियों के बच्चों का समूह ।

पोताध्यक्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोत + अध्यक्ष] जहाज का स्वामी । उ०—किसके लिये ? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल होगा नायक । अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ ।—आकाश० पृ० ३ ।

पोतारना^(७)—क्रि० सं० [सं० प्रोत्साहन] उत्साहित करना । प्रोत्साहन देना । उ०—उण बेला उदाहरे, तोले प्रहास । रजपूताँ पोतारियाँ, भुज धारियाँ अकास ।—रा० रू०, पृ० २४३ ।

पोतारा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पोतना] दे० 'पुतारा' ।

पोतारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पुतारा] पोतने का कपड़ा ।

पोतास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का कपूर । वरास । भीमसे कपूर । विशेष—दे० 'कपूर' ।

पोती^(८)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पोत' । उ०—गर पोति ज विचारि, 'ससि चरन फदय डारि ।—पृ० रा०, १५।१५०

पोतिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पोई की बेल । २ वस्त्र । क०

पोतिया^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोत] १ वह कपड़े का टुकड़ा जिसे पहनते हैं या जिसे पहनकर लोग नहाते हैं । २ वह छोटी बेली जिसे लोग पास में लिए रहते और जिसमें चूना, तबू सुपारी आदि रखते हैं । छोटा बटुआ ।

पोतिया—सञ्ज्ञा पुं० [?] एक प्रकार का खिलौना ।

पोती^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पोता] पुत्र की पुत्री । बेटे की बेटा ।

पोती^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पोतना] १ मिट्टी का लेप जो हँडिया

पेंदी पर इसलिये चढाया जाता है जिसमें अधिक घाँच न लगे । २ पानी का वह पुतारा जो मद्य चुवाते समय बरतन पर फेरा जाता है । इससे भमके से उठी हुई भाप उस बरतन में जाकर ठंडी हो जाती है और मद्य के रूप में टपकती है । ३ पुतारा देने की क्रिया ।

पोती^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [देशी] शीशा [को०] ।

पोत्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] नावो का समूह [को०] ।

पोत्र^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सूत्र का खाँग । २ वज्र । ३. एक यज्ञपात्र जो पोता नामक याज्ञक के पास रहता है । ४ नाव । पोत । ५ नाव का ढाँढ । ६ हल की नोक या फाल [को०] । ७ वस्त्रखंड । वपडा । वस्त्र [को०] ।

पोत्र^२—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] [स्त्री० पोत्री, पोती] दे० 'पोत्र' । उ०—पुत्र घने पोत्रे बहुत भरु दिसे सपरवार ।—प्राण०, पृ० २५७ ।

पोत्रायुध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सूत्र ।

पोत्री—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोत्रिन्] सूत्र ।

पोथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] आघात । प्रहार [को०] ।

पोथकी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक नेत्ररोग जिसमें भ्राँख में खुजली और पीडा होती है, पानी बहता है और सरसो के बराबर छोटी छोटी लाल लाल फुसियाँ निकल आती हैं ।

पोथा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुस्तक, प्रा० पुत्थय, पोत्थय हिं० पोथी] १. कागजों की गड्डी । २ बडी पोथी । बडी पुस्तक (ब्यग या विनोद) । जैसे,—तुम इतना बडा पोथा लिए क्या फिरते हो ? ।

पोथिया^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोथिया] दे० 'पोथिया' ।

पोथियाँ—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुस्तिका, प्रा० पोत्थिया, पोत्थिया] दे० 'पोथी' ।

पोथी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पुस्तिका, प्रा० पोत्थिया] पुस्तक । उ०—पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ पडित भया न कोइ । एकै भक्षर प्रेम का पढे सो पडित होइ ।—कवीर (शब्द०) ।

यौ०—पोथीखाना—ग्रथागार । पुस्तकालय । जिस स्थान पर सिर्फ किताबें रखी जायें । उ०—बडी कठिनाइयो के बाद राज्य पुस्तकालय के पोथीखाना में सूरसागर की एक प्रति दो खडों में मिली—पोद्दार अभि० ग्र०, पृ० १२० । पोथी पडित—ऐसा पठित व्यक्ति जिसे केवल पुस्तकीय ज्ञान हो, व्यावहारिक ज्ञान न हो । उ०—पुराने आचार्यों से इस प्रकार का विनोद कोई बडा उस्ताद ही कर सकता था, निरा पोथीपडित कभी ऐसा करने की हिम्मत न करता ।—भा० ह० रू०, पृ० ६८८ ।

पोथी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पोत (= गट्टा)] लहसुन की गाँठ ।

पोदी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पोद' । उ०—इसकी पोद थोडे दिन पहले एक मनोहर वाग से उखाडकर सूरत में लगाई गई थी ।—श्रीनिवास ग्र०, पृ० १२ ।

पोदना—सञ्ज्ञा पुं० [अनु० फुदकना] १ छोटी चिडिया । उ०—कुछ लाल चिडे पोदने पिछे ही न खुष थे । पिदही भी समझती थी उसे भ्राँख का तारा ।—नजीर (शब्द०) । २ छोटे डील डील का पुरुष । नाटा आदमी । ठिगना आदमी ।

मुहा०—पोदना सा—बहुत छोटा सा । जरा सा ।

पोदीना—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पोदीनह्] दे० 'पुदीना' ।

पोद्दार^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोत, हिं० पोद + दार] १ वह मनुष्य जो गाँजे की जातियाँ उसके स्त्री० और पुं० भेद तथा खेती के ढग जानता हो ।

पोद्दार^२—स्त्री० पुं० [फा० फोतद्दार, हिं० पोतदार] १ दे० 'पोत-दार' । २ मारवाडी वैश्यों का एक वर्ग ।

पोना^१—क्रि० सं० [सं० पूष, हिं० पूवा + ना (प्रत्य०)] गीले आटे की लोई को हाथ से दबा दबाकर घुमाते हुए रोटी के आकार में बढाना । गीले आटे की चपाती गढ़ना । जैसे, आटा पोना, रोटी पोना । २ रोटी पकाना । उ०—(क) तुमहि भवे जेइय घर पोई । कमल न भेटाई, भेटाई कोई ।—जायसी (गन्द०) । (ख) सूर भ्राँखि मजीठ कीनी निपट काँची पोय ।—सूर (शब्द०) ।

पोना^२—क्रि० सं० [सं० पोत, प्रा० पोद्दश्च हिं० पोथ + ना (प्रत्य०)] पिराना । गूथना । पोहना । उ०—(क) हरि मोतियन की माल है पोई काँचे घाग । जतन करो भटका घना टूटे की कहुँ लाग ।—कबीर (शब्द०) । (ल) कंचन को कँडुला मनि मोतिनि द्विच वधनहे रह्यो पोइ (री) । देखत वर्न, कहत नहिँ आवे उपमा कौँ नहिँ कोइ (री) ।—सूर०, १०।१५८ । (ग) दिनकर कुज मनि निहारि प्रेम भगन प्राम नारि परसपर कहै सखि मनुराग ताग पोऊ । तुलसी यह ध्यान सुधन जा दिन मनि लाभ सघन कृपन ज्यों सनेह सोहिए सुगेह जोऊ ।—तुलसी (शब्द०) ।

पोना^३—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पोना' ।

पोप—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] ईसाइयों के कैथलिक संप्रदाय का प्रधान धर्मगुरु ।

विशेष—इसका प्रवान स्थान यूरोप में इटली राज्य का रोम नगर है । चौदहवीं शताब्दी तक ससार के सभी ईसाई धर्मावलंबी राज्यों पर पोप का बड़ा प्रभाव था । पंद्रहवीं शताब्दी में लूथर नामक एक नए संप्रदायस्थापक की शिक्षा से पोप का अधिकार घटने लगा, पर पुराने कैथलिक संप्रदाय के माननेवालों में पोप का अभी वैसा ही प्रादर है । उनका अभिप्रेक आदि उसी प्रकार किया जाता है जैसे महाराजाधो का होता है ।

यौ०—पोपखीला—धार्मिक आडंबर । झूठा प्रदर्शन । ढोंग ।

पोपला—वि० [हिं० पुलपुला] [वि० स्त्री० पोपली] १ जो भीतर के भराव के कम होने या न रहने के कारण पचक गया हो । पचका और सुकड़ा हुआ । २ बिना दाँत का । जिसमें दाँत न हों । जैसे, बुढ़्डी का पोपला मुँह । ३ जिसके मुँह से दाँत न हों । जैसे पोपला बुढ़्डी ।

पोपलाना—क्रि० प्र० [हिं० पोपला + ना (प्रत्य०)] पोपला होना । उ०—डाढी नाक याक मा मिलगै विना दाँत मुँह अस पोपलान । डाढिहि पर बहि बहि आवति है कवौँ तमाकू जो फाँकन ।—प्रताप (शब्द०) ।

पोपली

पोपली—सज्ञा स्त्री० [हि० पोपला] ग्राम की गुठली घिसकर बनाया हुआ बाजा जिसे लडके बजाते हैं ।

पोपो^१—सज्ञा स्त्री० [अनु०] मलत्याग करने की इद्रिय । गुदा ।

पोम^१—सज्ञा पुं० [सं० पद्म, प्रा० पडम, पोम] [स्त्री० पोमिन, पोमिनि, पोमिनी] दे० 'पद्म' ।

पोमाना^१—क्रि० प्र० [सं० प्रफुल्ल या सं० पद्म, प्रा० पडम, पोम] फूलना । गर्व करना । पुसत्व का अभिमान करना । उ०—पापड फोड पोमावही मन में मावडियाँह ।—बाँकी० प्र०, भा० २, पृ० १६ ।

पोमिन^१—सज्ञा स्त्री० [सं० पद्मिनी, प्रा० पोमिणी] दे० 'पद्मिनी' । उ०—पोमिन बन नहि चरहि नहिन सचरहि कुमुद बन । ईष पेत परहरहि जीर पर हुम विरत्त मन ।—पृ० रा०, ६ । १०१ ।

पोय^१—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पोई' ।

पोयण^१—सज्ञा स्त्री० [हि० पुरहन या प्रा० पोमिण] कमल । पुरहन । उ०—मेवाणो तिण माँह पोयण फूल प्रताप सी ।—अकवरी०, पृ० ४४ ।

पोया—सज्ञा पुं० [सं० पोत] १. वृक्ष का नरम पौधा । २. बच्चा । ३. साँप का छोटा बच्चा । सेंपोला ।

पोर^१—सज्ञा स्त्री० [सं० पर्व] १. उँगली की गाँठ या जोड़ जहाँ से वह झुक सकती है । २. उँगली में दो गाँठों या जोड़ों के बीच की जगह । उँगली का वह भाग जो दो गाँठों के बीच हो । ३. ईख, बाँस, नरसल, सरकडे आदि का वह भाग जो दो गाँठों के बीच हो । उ०—(क) श्रीति सीखिए ईख सो पोर पोर रस होय । (शब्द०) (ख) पोर पोर तन आपनो भनत विषायो जाय । तब मुरली नदलाल पै भई सुहागिन आय ।—स० सप्तक पृ० २१० ।

यौ०—पोर पोर = पोर पोर मे ।

४. रीढ़ । पीठ । उ०—मनमोहन खेलत चोगान । द्वारावती कोट कचन में रच्यो रुचिर मैदान । यादव वीर बराए इक इक, इक हलधर, इक अपनी और । निकसे सबै कुँवर असवारी उच्चश्रवा के पोर ।—सूर (शब्द०) ।

पोर^२—सज्ञा पुं० [?] जहाज की रखवाली या चौकसी करने-वाले कर्मचारी या मल्लाह । (लश०) ।

पोरसा^१—सज्ञा पुं० [सं० पुरुषत्व] पुरुष । स्वामी । उ०—(क) सतगुरु पारस पोरसा आखँ अभय भँडार ।—रज्जव०, पृ० १० । (ख) पारस नह नह पोरसो, पातर राखे पास ।—बाँकी० प्र०, भा० २, पृ० ३ ।

पोरा—सज्ञा स्त्री० [हि० पोर] १. लकड़ी का मंडलाकार टुकड़ा । लकड़ी का गोल कुदा । २. कुदे की तरह मोटा आदमी ।

पोरिया^१—सज्ञा स्त्री० [हि० पोर + इया (प्रत्य०)] चाँदी का एक गहना जो हाथ पर की उँगलियों की पोरों में पहना जाता है । यह छल्ले का सा होता है पर इसमें घुँघरू के गुच्छे या भन्वे लगे रहते हैं ।

पोरिया^२—सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पोरिया' । उ०—सो पोरिया प्रभुन कों खबरि करी ।—दो सौ बावन०, भा० १, पृ० १६ ।

पोरी^१—सज्ञा स्त्री० [देश०] एक प्रकार की कड़ी मिट्टी ।

पोरी^२—सज्ञा स्त्री० [सं० पर्व, हि० पोर] दे० 'पोर' । उ०—हि सहज विश्वास हृदय का अगुलियों की कोंपी पोरियाँ ।—हस०, पृ० २५ ।

पोरी^३—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पोरी' । उ०—अब सिध द्वार पोरी पर वैठिये को कौन को आज्ञा करत हो ।—दो बावन०, भा० १, पृ० २१८ ।

पोरुआ—सज्ञा पुं० [हि० पोर + उवा (प्रत्य०)] पोरिया । पोरिया

पोरुव—सज्ञा पुं० [अ०] बरामदा । दालान ।

पोरुंगीज—वि० [अ०] दे० 'पुतंगीज' ।

पोरुट—सज्ञा पुं० [पुर्त० पोर्टो] १. अगूर से बनी हुई एक की शराब ।

विशेष—यह भभके से नहीं चुमाई जाती, अगूर के रस को में सडाकर बनाई जाती है । इसमें मादकता नाम की होती है, इससे इसका सेवन पुष्टई के रूप में करते हैं । इसे द्राक्षासव कह सकते हैं ।

२. समुद्र या नदी के किनारे वह स्थान जहाँ जहाज माल रने या लादने या मुसाफिर उतारने या चढाने के लिये ब आकर ठहरते हैं । बदर । बदरगाह । जैसे, कलकत्ता । ३. समुद्र के किनारे, खाड़ी या नदी के मुहाने पर बना या प्राकृतिक स्थान जहाँ जहाज तूफान से अपनी रक्ष सकते हैं ।

पोरुटर—सज्ञा पुं० [अ०] वह जो बोझ ढोता हो । रेलवे स्टेशन और जहाज के डक पर मुसाफिरो का असबाब ढोनेवाला । रेलवे कुली । डक कुली । जैसे, दिन बँवई के विकटोरिया ठरमिनस स्टेशन के पोर्ट गहरी मार पीठ हो गई ।

पोल^१—सज्ञा पुं० [हि० पोला] १. शून्य स्थान । अवकाश । जगह । जैसे, ढोल के भीतर पोल । २. खोखलापन । का अभाव । सारहीनता । अंत सारशून्यता ।

यौ०—पोलदार = जिसमें पोल या खोखलापन हो । खोखला । पोलपाल = खोखलापन । जो भीतर से ए खाली हो । उ०—ये सब पोलपाल कर लेखा । मिथ्य कहे विन देखा ।—घट०, पृ० ५६२ ।

मुहा०—(किसी की) पोल खुलना = भीतरी दुरवस्था हो जाना । छिपा हुआ दोष या बुराई प्रगट हो । बडा फूटना । (किसी की) पोल खोलना = भीतरी दुः प्रगट करना । छिपे हुए दोष या बुराई को प्रगट व भडा फोडना ।

पोल^२—सज्ञा पुं० [सं०] १. एक प्रकार का फुलका । २. राशि (को०) । ३. मान । परिमाण (को०) ।

पोल^३—सज्ञा पुं० [सं० प्रतोली, प्रा० पथोली] १. कही ज

फाटक । प्रवेशद्वार । दरवाजा । उ०—(क) पोल जड़े रवि पेखतां घोखै षडिया दीह । मिटै न कदल जोधपुर बीवां घटे न बीह ।—रा० रू०, पृ० २५७ । (ख) रावली पोले आविया—वी० रासो, पृ० ६१ । २ अंगन । सहन ।

पोल^१—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] १ लकड़ी या लोहे आदि का बड़ा लट्ठा या खम्भा । २ जमीन की एक नाप जो ५ गज की होती है । ३ वह ५॥ गज की जरीव जिससे जमीन नापते हैं । ४ ध्रुव ।

पोला^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पर्व] दे० 'पोरे' । उ०—पोल पोल अगरा जग लूटी ।—प्राण०, पृ० ३३० ।

पोलक—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पूला] लवे वास के छोरे पर चरखी में बँधा हुआ पयाल किसे लुक की तरह जलाकर विगड़े हाथी को डराते हैं ।

पोलच—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पोल] १ वह परती भूमि जो पिछले वर्ष रबी बोने के पहले जोती गई हो, जीनाल । २ वह ऊसर या वजर भूमि जिसे जुते या दूटे तीन वर्ष हो गए हो

पोलचा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पोल] दे० 'पोलच' ।

पोला^१—वि० [हिं० फूलना या सं० पोल (= फुलका)] [स्त्री० पोली] १ जो भीतर से भरा न हो । जिसके भीतर खाली जगह हो । जो ठोस न हो । खोलला । जैसे, पोला बाम, पोली नली । २. अत सारशून्य । नि सार । तत्वहीन । सुख । उ०—है प्रभु मेरो ही सब दोस । वेप वचन विराग, मन अथ श्रीगुनन को कोस । राम प्रीति प्रतीति पोलो कपट करतव ठोस ।—तुलसी (शब्द०) । ३. जो भीतर से कड़ा न हो । जो दाब पढ़ने से नीचे धँस जाय । पुसपुला । उ०—पर हाथी बुद्धिमान होते हैं, बहुधा पोला स्थान देखकर चलते हैं ।—प्रावप्रसाद (शब्द०) ।

पोला^२—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पूला] १ सूत का लच्छा जो परेती पर लपेटने से बन जाता है । २ गट्टर । पूला । उ०—तब राजा और रानी दोनों नगे पाँव होकर घास का पोला अपने सिर पर धरकर एक भंगीछी अपने अपने गले में डाले आकर सत्य गुरु के चरणों पर गिरे ।—कबीर म०, पृ० ५०६ ।

पोला^३—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] एक छोटा पेड़ जो मध्यप्रदेश में बहुत होता है ।

विशेष—इसकी लकड़ी भीतर से बहुत सफेद और नरम निकलती है जिससे उसपर खुदाई का काम बहुत अच्छा होता है । वजन में भी यह भारी होती है । हल आदि खेती के सामान भी उससे बनाए जाते हैं । इसकी भीतरी छाल में रेशे होते हैं जो रस्ती बनाने के काम आते हैं । पेड़ बरसात में बीजों से उगता है ।

पोलाद—सञ्ज्ञा पुं० [फा० फौलाद] दे० 'फौलाद' ।

पोलारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पोल] छेनी के आकार का एक छोटा शीजर जिससे सोनार खोरिया, फगन, घुँघरू आदि के दानो को फिरफिरे में रखकर खलते हैं । यह तीन चार अंगुल का होता है और इसकी नोक पर छोटा सा गोख दाना बना रहता है ।

पोलाव—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पुलाव] दे० 'पुलाव' । उ०—कलिया तान पोलाव पेट भरि खाय कौ ।—पसद्व०, पृ० ६७ ।

पोलिन्द—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोलिन्द] जहाज का मस्तूल (क्रौ०) ।

पोलिंग वृथ—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] वह स्थान जहाँ कौंसिल आदि के निर्वाचन या चुनाव के भवसर पर वोट लिए जाते हैं । मतदानकक्ष ।

पोलिंग स्टेशन—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] वह स्थान जहाँ कौंसिल या म्युनिसिपल निर्वाचन के भवसर पर लोगो के वोट लिए और दर्ज किए जाते हैं । मतदानकेंद्र ।

पोलिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] फुलका । रोट । पूरी (क्रौ०) ।

पोलिटिकल—वि० [अ०] राज्यप्रवध सर्वधी । शासन सर्वधी । राजनीतिक । जैसे, पोलिटिकल काम, पोलिटिकल चाल ।

पोलिटिकल एजेंट—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] वह राजपुरुष जो दूसरे राज्य में अपने राज्य की ओर से उसके स्वत्व और व्यापारादि की रक्षा के लिये रहता है । राजप्रतिनिधि ।

पोलिया^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पोला] एक पोला गहना जिसे स्त्रियाँ परो में पहनती हैं ।

पोलिया^२—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पीर, राज० पोल] दे० 'पोरिया' ।

पोलिश—वि० [अ०] पोर्नड में सवधित । पोर्नड का ।

पोली^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] जगली कुसुम या बरें जिसका तेल अफरीदी मोमजामा बनाने के काम में आता है ।

पोली^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार की पूरी । पूमा । फुलका (क्रौ०) ।

पोलो—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] चौगान की तरह का एक अँगरेजी खेल जो घोड़े पर चढ़कर खेला जाता है ।

पोवना—क्रि० सं० [हिं० पोहना] दे० 'पोना' । उ०—अरुने ढग कोरनि डोगनि में मन को मनुका मनु पोवतु है ।—अनुराग वाग (शब्द०) ।

पोश—प्रत्य० [फा०] ढरनेवाला । छिपानेवाला जैसे, ऐबपोश ।

पोशाक—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] पहनने के कपड़े । वस्त्र । परिधान । पहनावा । उ०—कोन्हे हैं पोशाक कारी, भंग राग कज्जल की, लोहे के विभूषण, त्यो दूषण हथ्यार हैं ।—रघुराज (शब्द०) ।

मुहा०—पोशाक बदाना = कपड़े उतारना ।

विशेष—यह शब्द फारस से नहीं आया है, यहीं हिंदुस्तान में बना है ।

पोशाकी—सञ्ज्ञा पुं० [फा०] १. एक कपड़ा जो गाढ़े से बारीक और तनजैव से मोटा होता है । २. अच्छा कपड़ा । पोशाक ।

पोशिश—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] लिबास । कपड़ा । पहनावा । उ०—जिसे तूने अजर जामा पिन्हाना । हवस उसको न पोशिश परनियौ पर ।—कबीर म०, पृ० ४४४ ।

पोशीदगी—सञ्ज्ञा स्त्री० [फा०] गुप्ति । छिपाव ।

पोशीदा—वि० [फा० पोशीदह] गुप्त । छिपा हुआ ।

पोष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पोषण । पुष्टि । उ०—पादप ये इहि सीचते, पावै अँग भँग पोष । पूरबजा ज्यो वरणते सब

मानियों संतोष । —प्रियादास (शब्द०) । २ अभ्युदय । उन्नति । ३ आश्रय । वृद्धि । बढ़ती । ४ घन । ५ तुष्टि । संतोष । उ०—तेहि को होइ नाद पै पोषा । तव परि हूँकै होइ संतोषा । —जायसी (शब्द०) । (ख) कोऊ आवै भाव लै कोउ लै आवै अभाव । माधु दोऊ को पोष दै, भाव न गिनै अभाव । —कबीर (शब्द०) ।

पोषक—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पालक । पालनेवाला । २. वर्षक । बढ़ानेवाला । ३ सहायक ।

पोषण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० पोषित, पुष्ट, पोषणीय, पोष्य] १ पालन । २ वर्षन । बढ़ती । ३ पुष्टि । ४ सहायता । जैसे, पृष्ठपोषण ।

पोषध—सञ्ज्ञा पुं० [सं० उपवसथ > उपोषध > पोषध] उपवासव्रत (वीथ) ।

पोषन^७—वि० [सं० पोषण] पोषण करनेवाला । उ०—पुष्टि अजाद भजन, रस, सेवा, निज जन पोषन भरन । —नद० ग्र०, पृ० ३२६ ।

पोषना—क्रि० सं० [सं० पोषण] पालना । पोषण करना । उ०— (क) का मैं कीन जो काया पोषी । दोष माँहि आपुनि निर्दोषी । —जायसी (शब्द०) । (ख) साधव जू जो जन ते बिगरे । तउ कृपालु करनामय केशव प्रभु नहि जीय धरे । जैसे जननि जठर अ तरगत सुत अपराध करे । तौऊ जतन करे अरु पोसै निकसै अक भरे । —सूर०, १।११७ । (ग) राम सुप्रेमहि पोषत पानी । हरत सकल कलिकलुष गलानी । —तुलसी (शब्द०) । (घ) अजमेर चित्तौड जु बोलि विप्र पोष्या जाचक सतीख्या । —ह० रासो, पृ० ३३ ।

पोषयिता—वि० [सं० पोषयितृ] दे० 'पोषिता' ।

पोषयित्तु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कोकिल । कोयल [को०] ।

पोषर^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुष्कर] दे० 'पोखर' । उ०—ढोलत विपुल विहग बन, पियत पोषरनि बारि । —तुलसी ग्र०, पृ० १०६ ।

पोषित—वि० [सं०] पाला हुआ ।

पोषिता—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोषितृ] पोषक । पोषण प्रदान करनेवाला । भरणपोषण करनेवाला [को०] ।

पोषी—वि० [सं० पोषिन्] पोषक । पालक । भरणपोषण करनेवाला [को०] ।

पोष्टा^१—वि० [सं० पोष्ट] पालनेवाला ।

पोष्टा^२—सञ्ज्ञा पुं० कजा । करज ।

पोष्य^१—वि० [सं०] पालने योग्य । पालनीय । जिसका पालन पोषण कर्तव्य हो ।

विशेष—माता, पिता, गुरु, पत्नी, सतान, अभ्यागत, धरणागत इत्यादि पोष्य धर्म में हैं ।

पोष्य^२—सञ्ज्ञा पुं० भृत्य । नौकर । दास ।

पोष्यपुत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. बालक । पुत्र के समान पाला हुआ बच्चा । २ दत्तक पुत्र ।

पोष्यवर्ग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] माता, पिता, गुरु आदि जिनका पालन करना कर्तव्य है । दे० 'पोष्य' ।

पोष्यसुत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पोष्यपुत्र' [को०] ।

पोस^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोष] पालने की कृतज्ञता । पालनेवाले के साथ प्रेम या हेलमेल । जैसे,—कुत्ते बहुत पोस मानते हैं, तोते पोस नहीं मानते । २ तुष्टि । सतोष । उ०—कोऊ आवै भाव लै, कोउ लै आवै अभाव । साधु दोऊ को पोस दै, भाव न गिनै अभाव । —कबीर (शब्द०) ।

पोस^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोष] पोष महीना । पूस का मास । उ०—देखी सखी हिव लागँ छह पोस । —वी० रासो, पृ० ६७ ।

पोस^३—वि० [सं० पुष्ट] पुष्ट । श्रेष्ठ । उ०—बरनत हैं उल्लास सो, सकल सुकवि मति पोस । —भूषण ग्र०, पृ० ६१ ।

पोस^४—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पोश] चादर । बिछावन । उ०—लगी मिठाई रासि ब्रह्मँ दिसि दीपक धरे कतारी । पलंग पयफेनु मैनु सम पोस परयो रुचिकारी । —भारतेंदु ग्र० भा० २, पृ० ८५ ।

पोसत^७—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पोस्त] अफीम का ढोढ या ढोडा पोस्त । उ०—पोसत माँहि अफीम है वृक्षन में मधु जानि देह माँहि यौ आतमा सुदर कहत बखानि । —सुदर० ग्र० भा० २, पृ० ७८१ ।

पोसती^७—वि० [फा० पोस्ती] अफीमची । दे० 'पोस्ती' । उ०—जैसे काहू पोसती की पाग परी भूमि पर, हाथ लै के कहै पाग में तौ पाई ही । —सुदर० ग्र०, भा० २, पृ० ५८३ ।

पोसन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पोषण] पालन । रक्षा । उ०—मधु हूँ तें गए, सखी री ! अब हरि काले कोसन । यह है प्रति मेरे जिय, यह छाँडिन वह पोसन । —सूर (शब्द०)

पोसना—क्रि० सं० [सं० पोषण] १ पालना । रक्षा करना । उ०—राम सुस्वामि कुसेवक मो सो । निज दिसि देखि निधि पोसो । —तुलसी (शब्द०) । २ (पशु को) अह आदि देकर अपनी रक्षा में रखना । दाना पानी देकर रखना जैसे, कुत्ता पोसना । ३ आवृत करना । आच्छादित करना ४ पौछना ।

पोसपोन—वि० [अ० पोस्टपोन] दे० 'पोस्टपोन' ।

पोसाख^७—सञ्ज्ञा स्त्री [हि०] दे० 'पोशाक' । उ०—वडे दीठों फुरै, मत हिय माँहि पयदु । पुरुष तणी पोसाख कवाई आँण बयदु । —वाँकी० ग्र०, भा० २, पृ० २० ।

पोस्ट—सञ्ज्ञा स्त्री [अ०] १ जगह । स्थान । २ पद । ३ नक ४ डाकखाना । ५ स्तम्भ ।

पोस्टआफिस—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] डाकघर । डाकखाना ।

पोस्टकार्ड—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] एक मोटे कागज का टुकड़ा जिस पत्र लिखकर खुला भेजते हैं ।

पोस्टपोन—वि० [अ० पोस्टपोन] जो कुछ समय के लिये रोक दिया जाय । जिसका समय बढ़ा दिया जाय । मुलतवा स्थगित । जैसे,—मामला पोस्टपोन हो गया ।

- पोस्टवाक्स**—सब्जा पुं० [अ०] डाक रखने की पेट्टी। डाक रखने का थैला।
- पोस्टवैग**—सब्जा पुं० [अ०] दे० 'पोस्ट वाक्स'।
- पोस्टमार्टम**—सब्जा पुं० [अ० पोस्टमार्टम] १ मृत्यु का कारण आदि निश्चित करने के लिये मरने के बाद किसी प्राणी के शरीर की चीरफाड़। २ वह परीक्षा जो किसी प्राणी की लाश को चीर फाड़कर की जाय।
- पोस्टमास्टर**—सब्जा पुं० [अ०] डाकघर का सबसे बड़ा कर्मचारी। डाकघर का अधिकारी।
- पोस्टमैन**—सब्जा पुं० [अ०] डाकिया। इधर उधर चिट्ठी वांटने-वाला। चिट्ठीरसां।
- पोस्टर**—सब्जा पुं० [अ०] छपी हुई बड़ी नोटिस या विज्ञापन जो दीवारों पर चिपकाया जाता है। प्लैकड। जैसे,—सेवासमिति ने गारह भर में पोस्टर लगवा दिए थे जिसमें यात्रियों को धूर्तों से सावधान रहने को कहा गया था।
- क्रि० प्र०**—चिपकना।—चिपकाना।—निकालना।—लगाना।—लगाना।
- पोस्टरइक**—सब्जा स्त्री० [अ०] एक प्रकार की छापे की स्याही जो लकड़ी के अक्षर छापने में काम आती है।
- पोस्टल**—वि० [अ०] पोस्ट सबधी। डाक सबधी।
- पोस्टल आर्डर**—सब्जा पुं० [अ०] डाकघर से मिलनेवाला निश्चित मूल्य का छपा हुआ प्रमाणपत्र या कागज जिसको किसी भी डाकखाने से भुनाया जा सकता है।
- पोस्टल गाइड**—सब्जा पुं० [अ०] वह पुस्तक जिसमें डाक द्वारा चिट्ठी, पारसल आदि भेजने के नियम और डाकघरों के नाम आदि रहते हैं।
- पोस्टेज**—सब्जा स्त्री० [अ०] डाक द्वारा चिट्ठी, पारसल आदि भेजने का महसूल।
- पोस्त**—सब्जा पुं० [फ्रा०] १ छिलका। बककल। बकना। २ खाल। चमड़ा। ३ अफीम के पौधे का ढोंड। ४. अफीम का पौधा। पोस्ता।
- पोस्ता**—सब्जा पुं० [फ्रा० पोस्त] एक पौधा जिसमें से अफीम निकलती है।
- विशेष**—यह पौधा दो ठाई हाथ ऊँचा होता है। पत्तियाँ भाँग या गाँजे की पत्तियों की तरह कटावदार पर बहुत बड़ी और सुंदर होती हैं। डठलों में रोइयाँ सी होती हैं। फागुन चैत में पौधा फूलने लगता है। पौधे के बीचोबीच से एक लंबी पतली नाल (डठी) ऊपर की ओर जाती है जिसके सिरे पर चार पाँच पंखड़ियों का कटोरे के आकार का बहुर सुंदर गोल फूल लगता है। फारस और हिंदुस्तान में जो पोस्ता बोया जाता है उसका फूल भी सफेद और बीज के दाने भी सफेद होते हैं। पर रूम के राज्य में जो पोस्ता होता है उसके फूल प्याजी रंग के और दाने काले होते हैं। बहुत चटकीले लाल फूलवाले पौधे को ही 'गुलेलाला' कहते हैं जिसकी सुंदरता का फारसी के कवियों ने इतना वर्णन किया

है और जो शोभा के लिये बगीचों में लगाया जाता है। फूल के बीच में एक घुंठी सी होनी है जिसमें इधर उधर की किरनों के सिरों पर पुं० पराग होता है। पखड़ियों के ऋट जाने पर घुंठी बढ़कर डोडे (डेंड) के रूप में हो जाती है। इसी को पोस्ते वा डोडा था डेड कहते हैं।

डोडा तीन चार अंगुल का होता है। डोडे के कुछ बट जाने पर उसमें लोहे की नहरनी से खटा चोरा या पाँछ लगा देते हैं। पाँछ लगने से उसमें से हलके गुलाबी रंग का दूध निकलता है जो दूसरे दिन लाल रंग का होकर जम जाता है। यही जमा हुआ दूध अफीम है। एक डोडे से तीन चार बार दूध पोंछकर निकाला जा सकता है। फून की पखड़ियों को भी लोग मिट्टी के गरम तबे पर इकट्ठा करके गोल रोटों के रूप में जमाते हैं जिसे पत्तर कहते हैं। सुगे डोडो से राई के से सफेद सफेद बीज निकलते हैं जो पोस्ते के दाने कहलाते हैं और खाए जाते हैं। पोस्ते की जाति के २५ या २६ पौधे होते हैं। पर उनमें से अफीम नहीं निकलती। वे शोभा के लिये बगीचों में लगाए जाते हैं।

पोस्ती—सब्जा पुं० [फ्रा०] १ वह जो नधे के लिये पोस्ते के छोड़े को पीसकर पीता हो। उ०—पोस्ती पडे कुएँ में तो नहीं चैन है। २ आलसो आदमी। ३ गुडिया के आकार का कागज का एक खिलौना जिसके पेंदे में मिट्टी का ठोस गोल दिया सा भरा रहता है। पेंदे से ऊपर की ओर यह गावदुम होता जाता है। यह सदा खड़ा ही रहता है, लेटाने से या ऊपर से गिरने से तुरत खड़ा हो जाता है। इसे मतवाला या खडे खाँ भी कहते हैं।

पोस्तीन—सब्जा पुं० [फ्रा०] १. गरम और मुलायम रोएवाले समूर आदि कुछ जानवरों की खाल का बना हुआ पहरावा जिसे पामीर, तुर्किस्तान, मध्य एशिया के लोग पहनते हैं। २ खाल का बना हुआ कोट जिसमें नीचे की ओर वाल होते हैं। उ०—सर्द मुक्तवाले सदा ऊनी कपडे और पोस्तीनों में लिपटे रहते हैं।—शिवप्रसाद (शब्द०)।

पोहना^१—क्रि० सं० [सं० प्रोत, प्रा० पोइअ हि० पोय+ना (प्रत्य०)] १ पिराना। गूँथना। उ०—(क) लटकन लटकि रहे मुख ऊपर पंचरग मणुगण पोहे री। मानहुँ गुरु शनि शुक्र एक हूँ लाल भाव पर तोहे री।—सुर (शब्द०)। (ख) जुगुति वेधि पुनि पोहियहि रामचरित बर नाम। पहिरहि सज्जन विमल सर सोभा प्रति अनुराग।—तुलसी (शब्द०)। २ छेदना। उ०—इक एक सिर सरनिकर छेदे नभ उठत इमि सोहहीं। जनु कोवि दिनकर करनिकर जहँ तहँ विधु तुद पोहहीं।—तुलसी (शब्द०)। ३ लगाना। पीतना। उ०—भरोसो कान्ह को है मोहि। सुनहि जशोदा कस तपति भय तू जनि भ्याकुल होइ। पहिलै पूतना कपट रूप करि आइ स्तनवि विष पोहि। वीसी प्रवल सुदँ दिन बालक मारि दिखायो तोहि।—सूर०, १०। २६७६। ४. जड़ना। घुसाना। घँसाना। जमाना। उ०—भव जानी पिय बात तुम्हारी। मो सो तुम मुख ही की मिलवत भावति

पोहना^२

है वह प्यारी। भली करी यह बात जनाई प्रगट दिखाई मोहि। सूर श्याम यह प्रान पियारी उर में राखी पोहि।—सूर०, १०। २४१३। (ख) कं मधुपावलि मजु लसे श्ररविद लगी मकरदहि पाहे।—वेनी (शब्द०)।
५ पीसना। घिसना। ६. दे० 'पोना'।

पोहना^२—वि० [स्त्री० पोहनी] घुसनेवाला। भेदनेवाला। उ०—
यह चार भ्रग सी सोहनी, चार सैन्य मधि पोहनी। जुग चार चार श्रुति में विदित मृत्युपास मनमोहनी।—गोपाल (शब्द०)।

पोहमी^७—सज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पुहमी'। उ०—जहाँ पोहमी पवन नहि जल अकाश।—तुरसी श०, पृ० १४५।

पोहरा^१—सज्ञा पुं० [हि० पोहा] १ वह स्थान जहाँ पशु चराए जाते हैं या चरते हैं। चरहा। २. चरहा। घास या पशुओं के चरने का चारा। चरी।

पोहरा^७—सज्ञा पुं० [सं० प्रहर] दे० 'पहर'। उ०—कारण विण जग सूं करे, घाठ पोहर उपगार।—बाँकी श्र०, भा० २, पृ० ४७।

पोहरा^७—सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पहरा'। उ०—न को पिंड पोहरा न को चोर लागे। न को रेण सूता न को दिन्न जाये।—राम० धर्म०, पृ० १३३।

पोहा^१—सज्ञा पुं० [सं० पशु] पशु। चौपाया।

पोहिया^१—सज्ञा पुं० [हि० पोहा + इया] चरवाहा।

पोहोप^७—सज्ञा पुं० [सं० पुष्प] पुष्प। फूल। पुष्प। उ०—
इच्छया पोहोप चढाऊँ पूजा मनसा सेवा कीजै।—रामानद०, पृ० २७।

पौड—सज्ञा पुं० [अ०] दे० 'पाउड'।

पौडरीक^१—सज्ञा पुं० [सं० पौडरीक] १ स्थलपदम। पुडरी।
२. एक प्रकार का कुष्ठ जिसमें कमल के पत्ते के रग का सा वर्ण हो जाता है। ३ एक यज्ञ का नाम।

पौडरीक^२—वि० [वि० स्त्री० पौडरीकी] पुं० डरीक सबधी। पुडरीक निर्मित [को०]।

पौडरीय, पौडरीयक—सज्ञा पुं० [सं० पौडरीय, पौडरीयक] दे० 'पु डर्य' [को०]।

पौडर्य—सज्ञा पुं० [सं० पौडर्य] स्थलपदम।

पौड्र^१—वि० [सं० पौड्र] १ पुड्र देश का। २ पुड्र देश का निवासी या राजा।

पौड्र^२—सज्ञा पुं० १ भीमसेन के शाख का नाम। ३ मोटा गन्ना।
पोडा। पोडा। ३ पुड्र देश (विहार का एक भाग)। ४ पुड्र देश के वसुदेव का पुत्र जो 'मिथ्या वासुदेव' कहलाया। दे० 'पौडक'। ५ मनु के अनुसार एक जाति जो पहले क्षत्रिय थी पर पीछे सत्कारभ्रष्ट होकर वृषलत्व को प्राप्त हो गई थी। दे० 'पुड्र—६'।

पौड्रक—सज्ञा पुं० [सं० पौड्रक] १. एक प्रकार का मोटा गन्ना।
पोडा। २ एक पतित जाति। दे० 'पुड्र—६'।

विशेष—ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसी जाति को षोडिक

(कलवारिन) और वैश्य से उत्पन्न एक सकर जा लिखा है।

३ पुड्र देश का एक राजा।

विशेष—यह जराघ का सबधी था। इसके पिता का नाम वसुदेव था, इससे यह अपने को वासुदेव कहता था। राजा यज्ञ के समय भीम ने इसे हराया था। श्रीकृष्ण के समान भी भ्रपना रूप बनाए रहता था। नारद के द्वारा श्रीकृष्ण की महिमा सुनकर यह बहुत क्रुद्ध हुआ और कहने लगे मेरे अतिरिक्त और दूसरा वासुदेव है कौन। इसने एकल प्रादि वीरो को लेकर द्वारका पर चढ़ाई की पर कृष्ण हाथ से मारा गया।

पौड्रवत्स—सज्ञा पुं० [सं० पौड्रवत्स] वेद की एक शाखा का नाम।
पौड्रवर्धन—सज्ञा पुं० [पौड्रवर्धन] पुड्रवर्धन नगर।

पौड्रिक—सज्ञा पुं० [सं०] १ पोडा नाम का गन्ना। २ गोत्रप्रवर्तक ऋषि। ३ लवा नाम का पत्नी। ४ पौड्र नामक देश।

पौश्चलीय—वि० [सं०] पुश्चली सबधी। कुलटा सबधी। पु का [को०]।

पौश्चलेय—सज्ञा पुं० [सं०] पुश्चली या कुलटा का पुत्र [को०]।

पौश्चल्य—सज्ञा पुं० [सं०] कुलटापन। व्यभिचार [को०]।

पौसवन—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'पु सवन' [को०]।

पौसन^१—वि० [सं०] मानवीय। मानव के उपयुक्त। [को०]।

पौसन^२—सज्ञा पुं० मनुष्यता। पुरुषता। मानवता [को०]।

पौंचा—सज्ञा पुं० [हि० पाँच] साढे पाँच का पहाडा।

पौछना^७—क्रि० सं० [हि०] दे० 'पोछना'। उ०—वधन छती लपटाए। पौछत सु दर भ्रग सुहाए।—नद० प्र० २५५।

पौडई^१—वि० [हि० पौडा] पौडे के रग का। गन्ई।

पौडई^२—सज्ञा पुं० एक रग जो पौडे के रग से मिलता होता है।

विशेष—इसमें २० सेर टेसु का रग और १५ छटाईक पडती है। रग पीलापन लिए हरा होता है। इसे गन् कहते हैं।

पौडना^७—क्रि० सं० [हि०] दे० 'पौरना'। उ०—पौडत भव जले काहू पार न पावा।—धरम० श०, पृ० ७१।

पौडा—सज्ञा पुं० [सं० पौडक] एक प्रकार की बडी भ्रौ जाति की ईख या गन्ना।

विशेष—इसका छिलका कुछ कडा होता है पर इसमें बहुत अधिक होता है। यह ईख अधिकतर चूसने के में आती है। लोग इसके रस से गुड, चीनी आदि बनाते। पौडा दो प्रकार का होता है—सफेद और सुश्रुत ने पौडे को शीतल और पुष्ट कहा है। बहते हैं पि पहले पहल इस देश में चीन से आया।

- पर्या०—भोस्क । चशक । शतपोरक । कांठार । काण्डेनु ।
सूचिपत्रक । नैपाल । नीलपोर (काला गम्ना) ।
- पौड़ी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पीरी' ।
- पौड़ना—क्रि० सं० [हि०] दे० 'पौड़ना' ।
- पौरना—क्रि० अ० [म० प्लवन] तैरना । पेरना ।
- पौराकी^(१)—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पौरना] तैरनेवाला । तैराक । उ०—
निर्गुन त्रिविध धार अति धांकी । बूडि मुए भव सम
पौराकी ।—स० दरिया, पृ० २० ।
- पौरि^(२)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पीरी' ।
- पौरिया^(३)—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पौरिया' ।
- पौहन^(४)—सञ्ज्ञा पुं० [?] स्तुतिपाठ करनेवाला । उ०—गौहन वखाने
घनवान मुख घाने सुती, साहिब के साहिबी के पगोरो
म पाइगौ ।—सुदर ग्र० (जीवनी), भा० १, पृ० ६४ ।
- पौ^(५)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रवा, प्रा० पचा] पोसाला । पोसला । प्याऊ ।
- पौ^(६)—सञ्ज्ञा स्त्री० [म० पाद, प्रा० पाय, पचा (= किरन) या सं०
प्रभा] किरन । प्रकाश की रेखा । ज्योति ।
- मुहा०—पौ फटना = सवेरे का उजाला दिखाई पडना । सवेरा
होना । तडका होना । उ०—पौ फाटी, पागर हुमा, जागे
जीया खून । सब काहू को देत है चोंच समाना धुन । —
कवीर (शब्द०) ।
- पौ^(७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाद, प्रा० पाय, पाव] १ पैर । उ०—पौ
परि बारहि बार मनाएठ । सिर सौं खेलि पैत जिउ लाएउ ।
—जायसी ग्र०, पृ० १३७ । २ जड़ । मूल । उ०—पौ
बिनु पत्र, करह बिनु तूवा, बिनु जिन्मा गुन गावै । —कवीर
(शब्द०) ।
- पौ^(८)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पद, प्रा० पव (= कदम, डग)] पांसे की
एक बाल या दावें ।
- विशेष—फेंकने पर जब ताक आता है या दस, पचीस, बीस
आते हैं तब पौ होती है ।
- मुहा०—पौ बारह पडना = जीत का दाँव पडना । पौ बारह
होना = (१) जीत का दाँव पडना । (२) जीत होना ।
वन आना । भाग्य खुलना । लाभ का खुब भवसर मिलना ।
जैसे,—यहाँ तो सदा पौ बारह हैं ।
- पौआ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाद] दे० 'पौवा' ।
- पौगड^(१)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पौगण्ड] पाँच वर्ष से दस वर्ष तक की
अवस्था ।
- पौगड^(२)—वि० बालोचित । बालकीं के अनुरूप [को०] ।
- पौगडक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पौगण्डक] दे० 'पौगड' ।
- पौठ—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पर्वत, प्रा० पवट्ट] जीत की एक रीति
जिसके अनुसार प्रति वर्ष जोतने का अधिकार नियमानुसार
बदलता रहता है । वारी वारी गाँव के सब किसानों की
जोत में खेत जाता रहता है । भेजवारी ।
- पौड़ना^(३)—क्रि० अ० [हि०] दे० 'पौड़ना' ।

- पौड़ना^(४)—क्रि० अ० [सं० प्लवन] दे० 'पौरना' । उ०—घाट
अटक माने नहीं, पौड़ें जल धारा । —कवीर ग्र०, भा० ३,
पृ० १४ ।
- पौडर—सञ्ज्ञा पुं० [अ० पाउडर] १. चूर्ण । तुफानी । २ एक चूर्ण
जिसे लोग मुँह पर मलते हैं । उ०—सुभग रूज, .पौडर
से कर मुख रजित । —ग्राम्या०, पृ० ८३ ।
- पौड़ी^(५)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पर्व+दी (प्रत्य०)] १. लकड़ी का मोड़ा
जिसपर मदारी बंदर को नचाते समय बिठाता है ।
मुहा०—पौड़ी पर टिकना = पौड़ी पर बैठना । मोड़े पर बैठना ।
(मदारी) ।
‡२ मध्याय । परिच्छेद ।
- पौड़ी^(६)—सञ्ज्ञा स्त्री० [दे०] एक प्रकार की कड़ी मिट्टी ।
- पौड़ना—क्रि० अ० [म० प्रलोठन ? प्रा० पनुट्ट, देशी पवट्ट] १
सोना । शयन करना । उ०—(क) महलन माहीं पीठने
परिमल भंग लगाय । छत्रपती की छाक में गदहा लोट
बाय । —कवीर (शब्द०) । (ख) पुनि पुनि प्रभु कह सोवट्ट
ताता । पौड़े धरि पर उद जलजाता । —तुलसी (शब्द०) ।
२ सेटना । शयन की मुद्रा में होना । उ०—(क) लै सर ऊपर
खाट विछाई । पौठी दोऊ कत गर लाई । —जायसी
(शब्द०) । (ख) दूरहि ते देखे बलवीर । अपने बालसखा जु
सुदामा मलिन वमन अरु छोन धारीर । पौड़े हुते प्रयक परम
रुचि रुचिमणि चमर डुलावति तीर । उठि अकुलाय भगमने
जीने मिलत नैन भरि आए नीर । —सूर (शब्द०) ।
- पौड़ाना—क्रि० म० [हि० पौड़ना] १ डुलाना । झुनाना । इधर
से उधर हिलाना । २ सेटना । उ०—एक वार जननी
अन्हवाए । करि सिगार पालन पौड़ाए । —तुलसी (शब्द०) ।
३. सुलाना । शयन कराना । उ०—(क) सेज रुचिर रुचि
राम उठाए । प्रेम समेत पलंग पौड़ाए । —तुलसी (शब्द०) ।
(ख) चारो भ्रातन अमित जानि कै जननी तब पौड़ाए ।
चापत चरण जननि भव प्रपनी कछुक मधुर स्वर गाए ।
—सूर (शब्द०) ।
- पौठारना^(७)—क्रि० सं० [हि० पौठाना] दे० 'पौठाना' । उ०—
तापर नृप पौठारियो, दन्डि चरण चितु लाय । —२० रासी,
पृ० ११० ।
- पौण^(८)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पवन, प्रा० पवण] दे० 'पौन' ।
- पौण्य—वि० [सं०] १ पुण्यकर्मकारक । धार्मिक । २ पवित्र ।
शुद्ध । सन्धा ।
- पौतन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक जनपद ।
- पौतव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. कोटिल्य के अनुसार विक्री का माल
तोलेनेवाला । बया । डहीदार । २ एक परिमाण । मान ।
तोल (को०) ।
- पौतवाध्यन्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कोटिलीय अर्थशास्त्रानुसार माल की
तोल की निगरानी रखनेवाला अधिकारी ।
- पौतवापचार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कोटिल्य के अनुसार उचित से कम
तोलना । डही मारना ।

पौताना—सज्ञा पुं [सं० पाद, प्रा० पाव + संस्थान, प्रा० याय हिं० पौताना] १ दे० 'पैताना' । २ जुलाहो के करघे में लकड़ी का एक औजार ।

विशेष—यह चार अंगुल लंबा और चौकोर होता है । इसके बीच में छेद होता है जिसमें रस्सी लगाकर इसे पीसर में बांध देते हैं । कपड़ा बुनते समय यह करघे के गड्ढे में लटकता रहता है । इसे पैर के अंगूठे में फँसाकर ऊपर नीचे उठाते और दबाते हैं जिससे राख पीसर आदि दबते और उठते हैं ।

पौतिक—सज्ञा पुं [म०] एक प्रकार का मधु ।

पौतिनासिक्य—सज्ञा पुं [सं०] पीनस रोग ।

पौत्तलिक—वि० [सं०] १ पुतली का । पुतली संबंधी । २. प्रतिमा-पूजक । मूर्तिपूजक ।

पौत्तलिकता—सज्ञा स्त्री [सं० पौत्तलिक + हिं० ता (प्रत्यय)] पुतलियों की पूजा । मूर्तिपूजा । (अ० आइडोलेटरी) । उ०—इधर अग्नेजो के आने पर ईसाइयो के आदोलन के बीच जो ब्रह्मोसमाज बंगाल में स्थापित हुआ उसमें भी 'पौत्तलिकता' का भय कुछ कम न रहा ।—चितामणि, भा० २, पृ० १२५ ।

पौत्तिका—सज्ञा पुं [सं०] पुत्तिका नाम की मधुमक्खी का मधु । यह मधु घी के समान होता है और प्रायः नेपाल से आता है ।

पौत्र—सज्ञा पुं [सं०] [स्त्री० पौत्री] लड़के का लड़का । पोता ।

पौत्रिकेय—सज्ञा पुं [सं०] पुत्रिका का पुत्र । लड़की का लड़का जो अपने नाना की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो ।

पौत्री—सज्ञा स्त्री [सं०] १ पुत्र की पुत्री । पोती । २. दुर्गा [को०] ।

पौद्^१—सज्ञा स्त्री [सं० पोत] १ छोटा पोधा । नया निकलता हुआ पेड़ । २ वह कोमल छोटा पोधा जो एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाया जा सके ।

क्रि० प्र०—जमाना ।—लगाना ।

३. सतान । वश ।

पौद्^२—सज्ञा स्त्री [हिं० पाँव + पट] वह वस्त्र जो बड़े लोगों के मार्ग में इसलिये बिछाया जाता है कि वे उसपर से होकर चलें । पाँवड़ी । पाँवड़ा । उ०—(क) सबेरे बड़भागी अनुरागी प्रभु पाहन के, चाहन सों वात कहैं सबके विलास की । चले उपरोध मनो पीद लगी आनंद की, शोध प्राय गई शोध गई बनवास की ।—हनुमान (शब्द०) । (ख) गोपुर ते भूत पुर द्वारा । लगी पीद विस्तार अपारा ।—रघुराज (शब्द०) ।

पौदन्य—सज्ञा पुं [सं०] महाभारत के अनुसार एक नगर का नाम जहाँ अशोक राजा की राजधानी थी ।

पौदर—सज्ञा स्त्री [हिं० पाँव + डालना या धरना] १ पैर का चिह्न । २ वह राह जो पैर की रगड़ से बन गई हो । पगड़ंडी । ३ कुएँ के पास की वह ढालवाँ घोर कुछ चौड़ी जमीन जिसपर मोट या पुरवट खींचने के समय बैल आते जाते हैं । ४ वह राह जिसपर होकर कोई खींचनेवाला बैल घूमता या आता जाता है ।

पौदा—सज्ञा पुं [सं० पोत] १. नया निकला हुआ पेड़ । वह पेड़ अभी बढ़ रहा हो । २ छोटा पेड़ । क्षुप । गुल्म आदि ।

क्रि० प्र०—लगाना ।

३ रेशम या सूत का फुँदना जिसे बुलबुल की पेट्टी में बाँधते हैं ।

पौद्गलिक—वि० [सं०] १ पृद्गलसवधी । द्रव्य या भूत । २ जं सवधी । ३ विषयानुरक्त । स्वार्थी ।

पौधा^१—सज्ञा स्त्री [हिं०] दे० 'पौद' ।

पौधन—सज्ञा स्त्री [सं० पयस् + आधान] मिट्टी का वह बरत जिसमें खाना रखकर परोसा जाना है ।

पौधा^२—सज्ञा पुं [सं० पोत] १ नया निकलता हुआ पेड़ । वह पेड़ जो अभी बढ़ रहा हो । उगता हुआ नरम पेड़ । २ छोटा पेड़, क्षुप, गुल्म आदि । जैसे, आम का पौधा, नील का पौधा ।

क्रि० प्र०—लगाना ।

पौधि^३—सज्ञा स्त्री [हिं० पौध] दे० 'पौद' । उ०—प्रेम की पौधि प्यारी सुखत प्रनौधि दुख श्रौधि दिन बीते वही घोर घरिहीं ।—देव (शब्द०) ।

पौन पुनिक—वि० [सं०] [वि० स्त्री० पौन पुनिकी] जो बार बार हो । फिर फिर होनेवाला ।

पौनःपुन्य—सज्ञा पुं [सं०] बार बार होने का भाव । किसी का लगातार होना [को०] ।

पौन^१—सज्ञा पुं, स्त्री [सं० पवन] १ वायु । हवा । उ०—जस सीतल पौन परसि चटकी गुलाब की कलियाँ ।—भक्तेंदु प्र०, भा० १, पृ० २७२ ।

पौन^२—पौन का पूत = (१) हनुमान । (२) नाग । सर्प (के कारण) ।

२. जीव । प्राण । जीवात्मा । उ०—नी द्वारे का पीजरा पछी पौन । रहने को आचरज है गए अचमा कोन ।—न (शब्द०) । २ प्रेतात्मा । प्रेत । भूत ।

मुहा०—पौन चलाना या मारना = जादू करना । चलाना । मूठ चलाना । प्रयोग करना । पौन धिठान (किधी पर) भूत करना । किसी के पीछे प्रेत लगाना ।

पौन^३—वि० [सं० पाद + ऊन = पादोन, प्रा० पाओन] एक से चौथाई कम । तीन चौथाई । जैसे,—पौन घंटे में आएँगे

पौन^४—सज्ञा पुं [सं० पवन] ठगण का एक भेद जिसमें पहले पीछे सधु होते हैं ।

पौनरुक्त, पौनरुक्त्य—सज्ञा पुं [सं०] १ आनृत्ति । वार उक्त होना । २ व्यर्थता । अनुपयुक्तता [को०] ।

पौनर्णव—सज्ञा पुं [सं०] मल्लूकी तत्र के अनुसार एक नदी का सन्निपात ज्वर जिसमें रोगी लंबी रातें लेता है पीडा से बहुत तलफता है ।

पौनर्नव—वि० [सं०] पुनर्नवा सवधी । पुनर्नवा का [को०] ।

पौनर्भव^१—वि० [सं०] [वि० स्त्री० पौनर्भवा] १ पुनर्भू (

विवाह करनेवाली स्त्री) सबधी। पुनर्भू का। २ पुनर्भू से उत्पन्न।

पौनर्भव^२—सञ्ज्ञा पुं० १ पुनर्भू से उत्पन्न पुत्र।

विशेष—यह धर्मशास्त्र में सात प्रकार (जटाधर के मत से १२ प्रकार) के पुत्रों में अंतिम माना गया है।

२ वह पति जिसके साथ विधवा का या पति से परित्यक्ता स्त्री का पुनिविवाह हो।

पौनर्भवा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह कन्या जिसका किसी के साथ एक बार विवाह सस्कार हो गया हो और फिर दूसरी बार दूसरे के साथ विवाह किया जाय।

विशेष—कश्यप ने सात प्रकार की पौनर्भवा कन्याएँ मानी हैं, (१) वाचादत्ता, (२) मनोदत्ता, (३) कृत कोतुकमगला (जिसे ककण आदि बंधे हों), (४) उदकस्पर्शिता (संकल्प-पूर्वक दी हुई) (५) पाणिगृहीतिका, (६) अग्निपरिगता, और (७) पुनर्भूप्रभवा।

पौना^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाद + ऊन, प्रा० पाव + ऊन = पाऊन] पौन का पहाड़ा।

पौना^२—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पौना] [स्त्री० अरुपा० पौनी] काठ या लोहे की बड़ी करछी जिसका सिरा गोल और चिपटा होता है। इसके द्वारा पाग पर चढ़े कड़ाह में से पूरियाँ, कचोरियाँ आदि निकालते हैं।

पौनार—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पद्म + नाल, प्रा० पडमनाल] कमल के फूल की नाल या डठल।

विशेष—कमल की नाल बहुत नरम और कोमल होती है, उसके ऊपर महीन महीन रोइयाँ या काँटे से होते हैं।

पौनारि, पौनारी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पौनार'। उ०—(क) पहुँचहि छपी कमल पौनारी। जष छिपा कदली होइ वारी।—जायसी (शब्द०)। (ख) चदन गाम की भुजा सँवारी। जनु सो बेल कमल पौनारी।—जायसी (शब्द०)

पौनिया^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पावना] दे० 'पौनी'।

पौनिया^२—सञ्ज्ञा [हि० पौन] कपड़ा जिसका थान पौन थान के बराबर होता है और अर्ज भी कुछ कम होता है।

पौनी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पावना] १. गाँव में वे काम करनेवाले जिन्हें अनाज की राशि में से कुछ अश मिलता है। २ नाई बारी, घोड़ी आदि काम करनेवाले जो विवाह आदि उत्सवों पर इनाम पाते हैं। उ०—काढी कोरा कापर हो अरु काढी घी को मीन। जाति पाँति पहिराइ कै सब समदि छनीसौ पौनि।—सूर (शब्द०)। (ख) चली पौनि सब गोहने फूल डार ले हाथ। विश्वनाथ कइ पूजा पद्मावति के साथ।—जायसी (शब्द०)।

पौनी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पौना] छोटा पौना।

पौनी^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पूनी'। उ०—भाप लोग जो हमको पुराना इतिहास सुनाते हैं उसमें युद्ध क्या रेशम की डोरों और कपास की पौनियों से हुआ करते थे?—झासी०, पृ० २७।

पौने—वि० [हि० पौना] किसी सख्या में से चौथाई भाग कम। किसी सख्या का तीन चौथाई। जैसे, पौने दो, पौने छः इत्यादि।

विशेष—इसका प्रयोग सख्यावाचक शब्दों के साथ होता है।

मुहा०—पौने चार सेर = वनियों की बोलचाल में एक रुपए में पंद्रह सेर की चिकी। पौने सोलह आना = बहुत अधिक अश। अधिकश। बहुत सा। उ०—परतु ध्यान से देखने से उन लोगों की बातों में पौने सोलह आना झूठ निकलता है।—दुर्गाप्रसाद (शब्द०)। पौने सोलह आने = अधिक अश में। प्रायः। जैसे,—तुम्हारी बात पौने सोलह आने ठीक निकली।

पौमान^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पवमान] १ 'पवमान'। २ जलाशय। उ०—दासी दास भ्रमसरा नाना। वाग तडाग विविध पौमाना।—रघुनाथ (शब्द०)।

पौरदर^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पौरन्दर] ज्येष्ठा नक्षत्र का नाम।

पौरदर^२—वि० [वि० जी० पौरन्दरी] पुरदर सबधी। इद्र सबधी (को०)।

पौरंध्र—वि० [सं० पौरंध्र] स्त्रियों से संबन्धित। स्त्रियों का (को०)।

पौर^१—वि० [सं०] १ पुर सबधी। नगर का। २. नगर में उत्पन्न। ३. पैदू। उदरभरि। ४ पूर्व दशा या काल में उत्पन्न।

यौ०—पौरकन्या = नागरिक कन्याएँ। पौरकार्य = नगर सबधी काम काज। नागरिकों का काम। पौरजन। पौरजनपद = नगर और जनपद के निवासी। पौरमुख्य = पौरवृद्ध। पौरयोधित = दे० पौरस्त्री। पौरलोक। पौरवृद्ध। पौरसख्य। पौरस्त्री।

पौर^२—सञ्ज्ञा पुं० १ रोहिष या लसा नाम की घास। २ पुरु राजा का पुत्र। ३ नखी नामक गध द्रव्य। नख। ४ पुरवासी व्यक्ति। नागरिक (को०)।

पौर^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पौरि', 'पौरी'।

पौरक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. घर के बाहर का उपवन। पाई बाग। २. नगर के पास का उपवन (को०)।

पौरकृतस—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] महाभारत के अनुसार एक तीर्थ का नाम।

पौरगीय—वि० [सं०] पूर्वजन्म संबधी।

पौरजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नागरिक। नगर निवासी (को०)।

पौरना^१—क्रि० प्र० [हि०] दे० 'पैरना'।

यौ०—पौरनहार = पैरनेवाला। तैराक। उ०—अस्तुति वारिषि अगम अपारा। कोउ न जगत महँ पौरन हारा।—चित्रा० पृ० ३।

पौरलोक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नागरिक। पुरजन (को०)।

पौरव^१—वि० [सं०] [स्त्री० पौरवी] पुरु के वंश का। पुरु से उत्पन्न।

पौरव^२—सञ्ज्ञा पुं० १. पुरु का वंशज। पुरु की सत्ति। २ महाभारत में वर्णित उत्तरपूर्व का एक देश। ३ उक्त देश का निवासी। ४ उक्त देश का राजा।

पौरवी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ युधिष्ठिर की एक स्त्री का नाम।

२ वसुदेव की एक स्त्री का नाम । ३ संगीत में एक मूर्च्छना । इसका सरगम इस प्रकार है—घ, नि, स, रे, ग, म, प, । प, घ, नि, स, रे, ग, म, प, घ, नि, स, रे ।

पौरवृद्ध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्रमुख नागरिक । २. वयोवृद्ध [को०] ।

पौरस^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पौरुष] पुरुषार्थ । पौरुष । उ०—जिण रत्तिं सूँ रक्षा जग जाणुँ । पौरस अ स वण प्रगटाणुँ ।—रा० ६०, पृ०, ८ ।

पौरसख्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह मित्रता जो एक ही नगर या ग्राम में रहने से परस्पर होती है ।

पौरसो^७—वि० [हिं० पौरस + ई (प्रत्य०)] पौरुषयुक्त । जिसमें पौरुष हो । उ०—बोल पठायो खान सहब्वर । उठे पौरसो पूत अकब्वर ।—रा० ६०, पृ० ६४ ।

पौरस्त्य—वि० [सं०] १. पूर्वी । पूरव का । २. सबसे आगे का । ३. प्रथम । आगे होनेवाला [को०]

पौरस्त्री—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. अत पुर में रहनेवाली स्त्री । २. पुर या नगर की स्त्री ।

पौरांगना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पौराङ्गना] पौरस्त्री [को०] ।

पौराण^७—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पौर] आया हुआ कदम । पड़े हुए चरण । पैरा । जैसे,—बहू का पौरा न जाने कैसा है, जब से आई है घर में कोई सुखी नहीं है ।

मुहा०—पौरा उठना=समाप्त होना । अस्तित्व न रहना । उ०—अब यहाँ से भी मञ्जरिनो का पौरा उठा ही समझो ।—शराबी, पृ० ७६

पौराण^७—वि० [सं०] [वि० स्त्री० पौराणी] १. पुराणों में कहा या लिखा हुआ । २. पुराण संबंधी । ३. पुरा काल का । प्राचीन [को०] ।

पौराणिक^१—वि० [सं०] [वि० स्त्री० पौराणिकी] १. पुराणवेत्ता । २. पुराणपाठी । ३. पुराण संबंधी, पुराण का । जैसे पौराणिक कथा । ४. पूर्वकालीन । प्राचीन काल का ।

पौराणिक—सञ्ज्ञा पुं० अठारह मात्रा के छंदों की सञ्ज्ञा ।

पौरान^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुराण] दे० 'पुराण' । उ०—इक ब्रह्म पोष सम करत घोष । पौरान प्रगट इक वचत मोष ।—पृ० रा० ६ । ४४

पौरि^७—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रतोली, प्रा० पञ्चोली] दे० 'पौरी' । उ०—(क) आतुर जाय पौरि भयो ठाढ़ो कह्यो पौरिया जाई ।—सूर (शब्द०) । (ख) पौरिनु परे पहूँखा ऐसे । अति मादक मद पीए, जैसे ।—नंद अ०, पृ० २३० ।

पौरिदार^७—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पौरि + दा० दार (प्रत्य०)] दे० 'पौरिया' । उ०—कामरुदला के घर भावा । पौरिदार सो बात जनावा ।—हिं० क० का०, पृ० २१८ ।

पौरिया—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पौरी] द्वारपाल । डघोढ़ीदार । दरवान । उ०—(क) अति आतुर नृप मोहिं बुलायो । कौन काज ऐसी घटवयो है मन मन सोच बढ़ायो । आतुर जाय पौरि

मयो ठाढ़ो कह्यो पौरिया जाई । सुनत बुलाय महल लीनो सुफलक सुत गयो घाई ।—सूर (शब्द०) । (ख) साई इन न विरोधिए गुह, पंडित, कवि, यार । वेटा, वनिता पौरिया, यज्ञ कराचनहार ।—गिरधर (शब्द०) ।

पौरिष^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पौरुष] १. 'पौरुष' । उ०—जीतै क बुधिवल पौरिष, रुचि अपनी तै सरनि लीये ।—दाहूँ पृ० ६२७ ।

पौरी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रतोली, प्रा० पञ्चोली] घर के भीतर वह भाग जो द्वार में प्रवेश करते ही पड़े और थोड़ी दूर लंबी कोठरी या गली के रूप में चला गया हो । डघोड़ी उ०—(क) सेए सीताराम नहिं भजे न शंकर गौरि । जन गँवायो घादि ही परत पराई पौरि ।—तुलसी (शब्द०) (ख) राणा ! इक पंडित पौरि तुम्हारी ।—सूर (शब्द०) (ग) चाह भरी प्रति रिस भरी विरह भरी सब बात । संदेसे दूहुन के चले पौरि लौं जात ।—बिहारी (शब्द०) (घ) पौरि ली खेलन जाती न तो इन मालिन के मत में क्यों ?—देव (शब्द०) ।

पौरी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पौर] सीढी । पैड़ी । उ०—का पर अस ऊँच तुखारा । दुइ पौरी पहुँचे असवारा ।—य (शब्द०) ।

पौरी^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० पाँच + री] खडाऊँ । उ०—पाँच लेहु सभ पौरी । काटि घँसे न गहँ अँकरौरी । (शब्द०) ।

पौरकुत्स—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुरुकुत्स के गोत्र में उत्पन्न पुरुष ।

पौरकुत्सि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुरुकुत्स का पुत्र ।

पौरुक्ति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुनर्वचन । पुन कथन । दोहराना ।

पौरुखा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पौरुष] पौरुष । पुरुषार्थ । बल । उ०—माग्य पर वह भरोसा करता है जिसमें पौरुख होता ।—काया० पृ० २४६ ।

पौरुमह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का सामगान ।

पौरुमद्ग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का सामगान ।

पौरुमीढ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का सामगान ।

पौरुष^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पुरुष का भाव । पुरुषत्व । पु २. पुरुष का कर्म । पुरुषार्थ । ३. बलवीर्य । ४. साहस । मरदानगी । ४. उद्योग । उद्यम । क जैसे,—अपने पौरुष का भरोसा रखो, दूसरे की न रहो । ५. गहराई या उँचाई की एक माप । पुरसा उतना बौझ जितना एक आदमी उठा सके । ७. लिङ्गेन्द्रिय [को०] । ८. शुक्र । वीर्य [को०] । ९. सूर्य घड़ी [को०]

पौरुष^२—वि० पुरुष संबंधी । पुरुष की पूजा करनेवाला [को०] ।

पौरुषिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुरुषपूजक । पुरुष की पूजा वाला [को०] ।

पौरुपी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] स्त्री [को०] ।

पौरुषेय^१—वि० [सं०] १ पुरुष सबधी । पुरुष का । २ पुरुषकृत ।
श्रादमी का किया हुआ । ३ आध्यात्मिक ।

पौरुषेय^२—सञ्ज्ञा पुं० १ पुरुष का विकार । २ पुरुष का समूह । जन-
समुदाय । ३ पुरुष का कर्म । मनुष्य का काम । ४ रोज
की मजदूरी या काम करनेवाला मजदूर । ५. पुरुषहत्या ।
पुरुषवध (की०) ।

पौरुष्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ साहस । २ पुरुषत्व ।

पौरुहूत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुरुहूत या इद्र का अस्त्र । वज्र ।

पौरु—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] भूमि का एक भेद । एक प्रकार की मिट्टी
या जमीन जिसके कई भेद होते हैं ।

यौ०—पौरु केहरा = एक प्रकार की मिट्टी । यह मिट्टी सफेद
रंग की होती है और इसके ऊपर पतली पपड़ी सी जम जाती
है जिससे रेह और सज्जी बन सकती है । इस भूमि में रबी
और खरीफ दोनों फसलें होती हैं । पौरु केहरा अमीर = एक
मिट्टी । इसका रंग सफेदी लिए पीला होता है और इसमें
फसल अधिक वर्षा में उपजती है । पौरु कौड़िया = मिट्टी की
एक किस्म । यह मिट्टी ललाई लिए होती है । यह न गीली
होने से लसीली होती है और न सूखने पर फटती है । इसमें
खरीफ की फसल अच्छी होती है और पानी देने से इसमें
रबी की फसल भी होती है । पौरु तूसी = भूरे रंग की
मिट्टी । यह भूरे रंग की होती है । इसमें रबी नहीं उपज
सकती । पौरु दुरसन = इसकी मिट्टी कहीं ललाई और
कहीं कालापन लिए होती है । इसमें रबी की फसल अच्छी
होती है पर खरीफ के लिये पानी की अधिक आवश्यकता
पड़ती है ।

पौरैय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ नगर के समीप का स्थान, देश, ग्राम
आदि । २ नागर । नागरिक [को०] ।

पौरोगव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पाकशालाव्यक्ष ।

पौरोडाश—सञ्ज्ञा पुं० [स्त्री०] १ पुरोडाश से संबंधित वस्तु, व्यक्ति,
मन्त्र आदि । २ एक मन्त्र जिसका उच्चारण पुरोडाश के
निर्माण के समय किया जाता है [को०] ।

पौरोडाशिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुरोडाश मन्त्र का उच्चारण
करनेवाला पुरोहित [को०] ।

पौरोधस—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुरोध या पुरोहित का पद [को०] ।

पौरोभाग्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ दोष देखना । दोषदर्शन । २.
ईर्ष्या । द्वेष । डाह । ३ दुष्कृत्य । शरारत भरा कार्य [को०] ।

पौरोहित्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुरोहिताई । पुरोहित का कर्म ।

पौरुषपर्क—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का वैदिक कृत्य ।

पौरुषमास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक याग या इष्टिका जो पूर्णिमा के
दिन होती थी ।

पौरुषमासिक—वि० [सं०] १ पूर्णमासी से संबंधित । २. पूर्णिमासी
के दिन होनेवाला [को०] ।

पौरुषमासी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पूर्णमासी ।

विशेष—यज्ञों में प्रतिपदुत्तरा पूर्णमासी का ही ग्रहण होता
है । दो प्रकार की पूर्णमासी मानी गई है—एक पूर्वी जिसे
पंचदशी भी कहते हैं, दूसरी उत्तरा जिसे प्रतिपदुत्तरा
कहते हैं ।

पौरुषमास्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूर्णिमा को होनेवाला यज्ञ आदि ।

पौरुषमी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पूर्णिमा ।

पौरुषिम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सन्यासी । वैरागी [को०] ।

पौरुषिमा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पूर्णिमा [को०] ।

पौरुषी—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूर्ण कार्य । पूर्ण ।

पौरुषिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूर्ण का साधक कर्म ।

पौरुष—वि० [सं०] १ अतीत से संबंधित । अतीत का । २ पूर्व
से संबंधित । पूर्व का । ३ परंपरागत । परंपराप्राप्त [को०] ।

पौरुषदेहिक, पौरुषदैहिक—वि० [सं०] पूर्वजन्म से संबंधित । पूर्व-
जन्म में किया हुआ [को०] ।

पौरुषत्व—वि० [सं०] पूर्ण । पूर्व से संबंधित । पूर्व का । उ०—
हिंदी के आधुनिक समीक्षकों में पौरुषत्व पद्धति के आधार पर
शास्त्रीय पद्धति की व्याख्या करनेवाले हैं । —भालोचना०,
पृ० 'क' ।

पौरुषपर्या—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पूर्व और पर अर्थात् आगे और पीछे
का भाव । २ अनुक्रम । सिलसिला

पौरुषपौरुषिक—वि० [सं०] दशपरंपरागत । पुत्रैनी ।

पौरुषाहिक—वि० [सं०] [वि० स्त्री० पौरुषाहिकी] पौरुषसंबंधी ।

पौरुषिक—वि० [सं०] पूर्व में होनेवाला ।

पौल—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पौर' । उ०—सिध पौल के पार फार
नित उठ सठ आवै ।—तुलसी० ण०, पृ० १०४ ।

पौलस्तो—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] शूर्पणखा ।

पौलस्त्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० पौलस्त्यी] १. पुलस्त्य का पुत्र
या उनके वंश का पुरुष । २ कुवेर । ३ रावण, कुम्भकर्ण
और विभीषण । ४ चंद्र ।

पौलस्त्यो—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] शूर्पणखा ।

पौलतां—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पाव, पाठ + ता (प्रत्य०)] एक प्रकार
का खड़ाऊँ जिसमें खूँटी नहीं होती, छेद में बंधी हुई रस्ती
में अगूँठा फँसा रहता है । उ०—पीला पहिरि के हर जोतै
और सुयना पहिरि निरावै । कहै घाघ ये तीनों भकुमा सिर
बोका श्री गावै ।—घाघे (शब्द०) ।

पौलि^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ थोड़ा भुना हुआ जो सरसों आदि ।
२ फुलका । रोटी ।

पौलि^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पौली' । उ०—करि असुवारी
कुमर दोउ, उत्तरे पौलि सुछाण ।—ह० रासो, पृ० ६३ ।

पौलिया—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पौलिया' ।

पौलिश—वि० [यू० पालस ऐलेगजैड्रिनस] पुलिश कृत (ज्योतिष
का एक सिद्धांत) । पुलिश संबंधी ।

पौलो—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाव, पाठ + ली (प्रत्य०)] १. पैर का वह भाग जो खड़े होने पर जमीन से सँभलता रहता है एही से लेकर उँगलियों तक का भाग। उतना पैर जितने में जूता, खडाऊँ आदि पहनते हैं। २. पैर का निशान जो धूल, गीली मिट्टी आदि पर पड़ जाता है। पदचिह्न।

पौलूषि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पुलु वंश में उत्पन्न पुरुष। २. सत्ययज्ञ नामक एक ऋषि जो पुलु ऋषि के वंश में उत्पन्न हुए थे। इनका नाम शतपथ ब्राह्मण में आया है।

पौलोम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० पौलोमी] १. पुलोमा ऋषि का अपत्य या पुत्र। २. कौशीतक उपनिषद् के अनुसार देवियों की एक जाति का नाम। ३. इद्र (को०)।

पौलोमी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. इद्राणी। २. भृगु महर्षि की पत्नी का नाम।

पौलकस^१—वि० [सं०] पुलकस (एक सकर जाति) जाति संबधी।

पौलकस^२—सञ्ज्ञा पुं० पुलकस जाति का मनुष्य।

पौल्या^७—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पौल] दे० 'पौरिया'। उ०—रावली पौले आवीया, पौल्या वेगो बधावडँ जाह।—वी० रासो०, पृ० ६१।

पौवा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पाद, पादक हि० पाव] १. एक सेर का चौथाई भाग। सेर का चतुर्थांश। उ०—थोढ़न मेरा राम नाम, मैं रामहि को बनजारा हो। राम नाम का करो बनज मैं हरि मोरा बढवारा हो। सहस नाम को करो पसारा दिन दिन होत सवाई हो। कान तराजू सेर तिनपौवा उह किन ढोल बजाई हो।—कबीर (शब्द०)। २. मिट्टी या काठ आदि का एक बरतन जिसमें पाव भर पानी, दूध आदि आ जाय। ३. पान जो २६३ डोली हो। २६३ डोली पान। (तबोली)। ४. एक तरह का खडाऊँ। उ०—पौवा अघर अघार को चलत सो पाँव पिराय।—भीखा श०, पृ० ६६।

पौष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. वह महीना जिसमें पूर्णमासी पुष्य नक्षत्र में हो। पूस। २. एक उत्सव या पर्व (को०)। ३. सधर्ष। सड़ाई (को०)।

पौषना^७—क्रि० सं० [सं० पोषण] दे० 'पोसना'। उ०—पेचर भूचर जे जल के चर देत अहार चराचर पौष।—सुदर० ग्र०, भा० २, पृ० ४३२।

पौषो—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. पूस महीने की पूर्णिमा। पूष की पूर्णिमा २. पुष्य नक्षत्रयुक्त रात्रि (को०)।

पौष्कर^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पुष्कर मूल। २. पदम की जड़। भीसा। भसीड। ३. एरड का मूल। ४. स्थलपदम।

पौष्कर^२—वि० [सं०] [वि० स्त्री० पौष्करी] पुष्कर संबधी। नील वर्ण कमल से संबंधित (को०)।

पौष्कर मूल—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पुष्कर मूल।

पौष्कर साधि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. एक वैयाकरण ऋषि का नाम जिनके मत का उल्लेख महाभाष्य में है। २. पुष्करसद् नाम के ऋषि के गोत्र में उत्पन्न पुरुष।

पौष्करिणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] छोटा पोखरा। छोटा तालाव पुष्करिणी।

पौष्कल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. एक साम का नाम। २. एक प्रकार का अन्न (को०)।

पौष्कल्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. सपूर्णता। भरा पूरापन। २. विकसित स्थिति। २. आधिक्य। बहुलता (को०)।

पौष्टिक^१—वि० [सं०] [वि० स्त्री० पौष्टिकी] पुष्टिकारक। बलवी दायक। जैसे, पौष्टिक औषध।

पौष्टिक^२—सञ्ज्ञा पुं० १. वह कर्म जिससे धन जन आदि की वृद्धि हो २. वह कपडा जो मुडन के समय सिर पर डाला जाता है।

पौष्टो—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पुर नाम के राजा की एक स्त्री।

पौष्णी^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] रेवती नक्षत्र।

पौष्णी^२—वि० पुषा देवता संबधी। सूर्य संबधी। पुषा देवता (चर आदि)।

पौष्पी^१—वि० [सं०] [वि० स्त्री० पौष्पी] पुष्प संबधी। फूल का पुष्पनिमित्त।

पौष्पी^२—सञ्ज्ञा पुं० १. फूलों का निकाला हुआ मद्य। २. पुष्परेणु फूल की धूल। पराग।

पौष्पक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कुसुमाजन।

पौष्पी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. पुष्पपुर या पाटलिपुत्र। २. से बननेवाली एक शराब (को०)।

पौसरा—पुं० [हि०] दे० 'पौसला'।

पौसला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पय शाला] १. वह स्थान जहाँपर पिलाया जाता है। वह स्थान जहाँ सर्वसाधारण को जल पिलाया जाता है। प्याऊँ। सबील। २. प्यासो को पिलाने का प्रबंध।

क्रि० प्र०—बैठाना।—चलाना।

पौसाक^७—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि०] दे० 'पोशाक'। उ०—कवहुँ दुति वाल वषु रजत अमूषन अग। पच नदी पौसाक धरे किए सोह ढग।—भारतेंदु प्र०, भा० २, पृ० २१४।

पौसार—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० पाव + साल] लकड़ी का एक ढडा जो और राख के नीचे लगा रहता है। यह करधे के भीतर है। इसी को पैर से दबाकर राख को ऊँचा नीचा करते हैं।

पौसेरा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पाव + सेर] पाव सेर की तोल।

पौहकर^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुष्कर] पुष्कर तीर्थ। उ०—पौहकर नेम ले मधकर हर कुल मोड।—रा० ख०, पृ० ४

पौहरा^१—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'प्रहर'। उ०—बीसल देत रजीयो। च्यार पौहर नीतु विलसह भोग।—वी० २, पृ० ३०।

पौहरा^७—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'पहरा'। उ०—माहू मारजे, पौहरा जिर्का पडँठ। विन पौहरे थाहर वसे च बलवंत।—बाँकी० प्र०, भा० १, पृ० २३।

पौहारः—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पशु] पशु । जानवर । उ०—पक रही फसल लद रहे चना से बूट पट्टी है हरी मटर । तीमन को साग और पौहो को हरा, भरी पूरी घरती ।—मिट्टी०, पृ० ४४ ।

पौहारी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पयस (= दूध) + आहारी] वह जो केवल दूध ही पीकर रहे (अन्न आदि न खाय) । जैसे, पौहारी वावा ।

प्यंढ ①—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिरण्ड] दे० 'पिण्ड' । उ०—प्यंढ ब्रह्मंड कथे सब कोई । वाके आदि अरु मत न होई ।—कवीर प्र०, पृ० १४६ ।

प्यंडर ①—वि० [सं० पाण्डुर] दे० 'पांडुर-२' । उ०—प्यंडर केस कुसुम भये धौला सेत पलटि गइ बानी ।—कवीर प्र०, पृ० २२१ ।

प्यार ①—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] घान, कोदो के ठठल जिनसे दाना अलग कर दिया गया हो । पयाल । पयार । पुमार । उ०—जाड़े के बिनो में किसी गरम कोड़े के चारो ओर प्यार बिछा बिछा के अपने परिजनो के साथ सब बैठ कथा कह कह दिन बिताते हैं—भयामा०, पृ० ४४ ।

प्याऊ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रपा, हिं० प्याना (= पिलाना) + ऊ (प्रत्य०)] वह स्थान जहाँ सर्वसाधारण को पानी पिलाया जाता है । पोसरा । सबील ।

प्याज—सञ्ज्ञा पुं० [फा० प्याज या पियाज] एक प्रसिद्ध कंद जो विलकूल गोल गाँठ के आकार का होता है और जिसके पत्ते पतले लंबे और सुगंधराज के पत्तों के आकार के होते हैं ।

विशेष—इसकी गाँठ में ऊपर से नीचे तक केवल छिलके ही छिलके होते हैं । यह कंद प्रायः सारे भारत में होता है और तरकारी या मास के भसाले के काम में आता है । कहीं कहीं इसका उपयोग औषधो आदि में भी होता है । यह बहुत अधिक पुष्ट माना जाता है । इसकी गंध बहुत उग्र और अप्रिय होती है जिसके कारण इसका अधिक व्यवहार करने-वालों के मुँह और कभी कभी शरीर या पसीने से भी विकट दुर्गंध निकलती है । इसी लिये हिंदुओं में इसके खाने का बहुत अधिक निषेध है । यह बहुत दिनों तक रखा जा सकता है और कम सड़ता है ।

वैद्यक के अनुसार इसके गुण प्रायः लहसुन के समान ही हैं । वैद्यक में इसे मास और वीर्यवर्धक, पाचक, सारक, तीक्ष्ण, कठशोधक, भारी, पिच्छ और रक्तवर्धक, बलकारक, मेघा जनक, आँखों के लिये हितकारी रसायन, तथा जीर्णोष्ण, गुल्म, अरुचि, खाँसी, शोथ, आमदोष, कुष्ठ, अग्निमाद्य, कृमि, वायु और श्वास आदि का नाशक माना जाता है । इसमें से एक प्रकार का तेल भी निकलता है जो उत्तेजक और चेतनाजनक माना जाता है । प्याज को कुचलने से जो रस निकलता है वह बिच्छू आदि के काटे हुए स्थान पर लगाया भी जाता है और मूर्छा के समय उसे सुँघाने से चेतना आती है ।

पर्यां—सुकंदक । लोहितकंद । तीक्ष्णकंद । उष्य । मुख

दूषण । शूद्रप्रिय । कृमिघ्न । सुखगंधक । बहूपत्र । विष्णु-गंध । रोचन । पलांडु ।

प्याजी^१—वि० [फा०] प्याज के रंग का । हलका गुलाबी ।

प्याजो^२—सञ्ज्ञा पुं० [यज्ञ०] काले रंग का एक प्रकार का दाना जो प्रायः गेहूँ के साथ उत्पन्न होता और उसी के दानों के साथ मिल जाता है । मुनमुना । विशेष दे० 'मुनमुना' ।

प्यादा—सञ्ज्ञा पुं० [फा० पयादह्] १ पदाति । पैदल । सेना का पैदल सिपाही । २ दूत । हथकारा । ३ शतरंज के खेल में एक गोटी ।

प्यौ—प्यादापा = पैदल चलनेवाला । प्यादापाई = पैदल या चिना सवारी के चलना ।

प्यान^१—वि० [सं०] मोटा । स्थूल । पीन [को०] ।

प्यान ②—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रयान, हिं० पयान] दे० 'प्रयाण' । उ०—दिया लता न प्यान किया, मदर भया उजार । मर गए ते मर गए बाँचे बाँचनिहार ।—कवीर वी० (गियु०), पृ० २३६ ।

प्याना^१—वि० सं० [हिं०] दे० 'पिलाना' ।

प्यायन^१—वि० [सं०] शक्तिवर्धक । शक्ति या वृद्धिवाला [को०] ।

प्यायन^२—सञ्ज्ञा पुं० वृद्धि । वर्धन । बढ़ना [को०] ।

प्यायित—वि० [सं०] १ जो बढ गया हो । वृद्धिप्राप्त । २ जो मोटा हो गया हो । ३ शक्ति या पुष्टि प्राप्त [को०] ।

प्यार^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रीति, प्रिय अथवा प्रियक] १ मुहब्बत । प्रेम । चाह । स्नेह । २ वह स्पर्श, चुंबन, संबोधन आदि जिससे प्रेम सूचित हो । प्यार जनाने की क्रिया । जैसे, बच्चों को प्यार करना ।

मुहा०—प्यार का खिलौना = बालक शिशु । बच्चा । उ०—प्यार कर प्यार के खिलौने को, कौन दिल में पुलक नहीं छाई ।—चोखे०, पृ० १३ ।

प्यार^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पियाल] अचार या पियार नाम का वृक्ष जिसका बीज चिरींजी है ।

प्यौ—प्यार मेवा = पियाल मेवा । चिरींजी ।

प्यारा—वि० [सं० प्रिय] [वि० स्त्री० प्यारी] १. जिसे प्यार करें । जो प्रिय हो । प्रेमपात्र । प्रीतिपात्र । प्रिय । २. जो अच्छा लगे । जो भला मालूम हो । ३. जो छोटा न जाय । जिसे कोई अलग करना न चाहे । जैसे,—प्राण सबकी प्यारा होता है । ४. महँगा । अधिक मूल्यवान् ।

प्यारि ①—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० प्यारी] प्यारी । प्रिया । उ०—मोती सखि तुम कोटिक पठवो प्यारि न माने भाव ।—नंद प्र०, पृ० ३६८ ।

प्याला—सञ्ज्ञा पुं० [फा० प्यालह्, पियालह्] [स्त्री० अक्षया० प्याली] १. एक विशेष प्रकार का छोटा कटोरा जिसका ऊपरी भाग या मुँह नीचेवाले भाग या पेंदे की अपेक्षा कुछ अधिक चौड़ा होता है और जिसका व्यवहार साधारणतः

जल, दूध या शराब आदि पीने में होता है। छोटा कटोरा। वेला। जाम।

मुहा०—प्याला पीना या लेना = मद्य पीना। शराब पीना। प्याला देना = मद्य पिलाना। शराब पिलाना। प्याला भरना या लवरेज होना = मायु का पूरण होना। दिन पूरा होना।

२. जुलाहों का मिट्टी का वह बरतन जिसमें वे नरी भिगोते हैं।
३. गर्भाशय।

मुहा०—प्याला बहना = गर्भपात होना। गर्भ गिरना।
४. भीख मांगने का पात्र। कासा। खप्पर। ५. तोप या बहूक में वह गड्ढा या स्थान जिसमें रजक रखते हैं।

प्यावना—क्रि० सं० [हिं०] दे० 'पिलाना', 'प्याना'। उ०—कमल नैन कों प्रति भावत है, मय मय प्यावत धैया।—पोद्दार अभि० ग्रं०, पृ० २३४।

प्यावनि—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० प्यावना] पिलाने का कार्य। पिलाना। उ०—मैयन की वह गर लपटावनि। ज्ञमनि मधुर पयोधर प्यावनि।—नद० ग्रं०, पृ० २४५।

प्यास—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पिपासा] मुँह और गले के सूखने से होनेवाली वह अनुभूति जो शरीर के जलीय पदार्थ के कम हो जाने पर होती है। जल पीने की इच्छा। तृषा। तृष्णा। पिपासा।

विशेष—शरीर के सभी अंगों में कुछ न कुछ जल का अणु होता है जिससे सब अंगों की पुष्टि होती रहती है। जब यह जल शरीर के काम में आने के कारण घट जाता है तब सारे शरीर में एक प्रकार की सुस्ती मालूम होने लगती है और गला तथा मुँह सूखने लगता है। उस समय जल पीने की जो इच्छा होती है उसी का नाम प्यास है। जीवों के लिये भूख की अपेक्षा प्यास अधिक कष्टदायक होती है क्योंकि जल की आवश्यकता शरीर के प्रत्येक स्नायु को होती है। भोजन के बिना मनुष्य कुछ अधिक दिनों तक जी सकता है पर जल के बिना बहुत ही थोड़े समय में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। जो लोग प्यास के मारे मरते हैं वे प्रायः मरने से पहले पागल हो जाते हैं।

मुहा०—प्यास बुझाना = जल पीकर तृष्णा को शांत करना। प्यास लगना = प्यास मालूम होना। पानी पीने की इच्छा होना।

२. किसी पदार्थ आदि की प्राप्ति की प्रबल इच्छा। प्रबल कामना।

प्यासा—वि० [सं० पिपासित या पिपासु] जिसे प्यास लगी हो। जो पानी पीना चाहता हो। तृषित। पिपासायुक्त।

प्युनिटिव पुलिस—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ०] वह अतिरिक्त पुलिस दल जो किसी नगर या गाँव में, वहाँ वालों के दुष्ट आचरण अर्थात् नित्य उपद्रव आदि करने के कारण, निदिष्ट अवधि के लिये तैनात किया जाता है और जिसका खर्च गाँववालों से ही दंड स्वरूप लिया जाता है।

प्यून—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] प्यादा। सिपाही। चपरासी। हलकारा।

प्यूनसुक—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ०] वह डायरी या रजिस्टर जिसमें पत्रादि चढाए जाते हैं और उसे चपरासी लेकर जिसका पत्र होता है उसे देता है और पानेवाले का हस्ताक्षर उस डायरी या रजिस्टर पर ले लेता है।

प्युनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'पूनी'।

प्यूस—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीयूष] दे० 'पेवस'।

प्यूसी—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० प्यूस] दे० 'पेवसी'।

प्यो—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पिय, पिष्ठ] पति। स्वामी। खाविद। उ०—एकही दर्पण देखि कहै तिय नीके लगी पिय प्यो कहै प्यारी। देव सु बालम बाल को बाद बिलोकि भई बलि हीं बलिहारी।—देव (शब्द०)।

प्योरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [देश०] १. रुई की मोटी बत्ती। २. एक प्रकार का पीला रंग।

प्योसर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पीयूष] हाल की ब्याई हुई गो का दूध। उ०—सब हेरि धरी है साठी। लै उपर उपर ते काढ़ी। अति प्योसर सरिस बनाई। तेहि सोठ मिरच रुचिताई।—सूर (शब्द०)।

प्योसारी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पितृशाळा] स्त्री के लिये पिता का गृह। पीहर। मायका। उ०—परत फिराय पयोनिधि भीतर सरिता उलट बहाई। मनु रघुपति भयभीत सिधु पत्नी प्योसार पठाई।—सूर (शब्द०)।

प्यौदा—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० पैवद] दे० 'पैवद'।

प्यौ—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'पिय'। उ०—जा तिय को परदेसु तै आयो प्यो मतिराम।—मति० ग्रं०, पृ० ३१८।

प्यौर—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० प्रिय] १. पति। स्वामी। २. प्रियतम। उ०—हम हारो कै कै हहा पाइनु पारथी प्यौर। लेहु कहा अजहूँ किए तेह तरेरथी त्यौर।—बिहारी (शब्द०)।

प्यौसरी—सञ्ज्ञा पुं० [हिं० प्योसर] दे० 'पेवसी'।

प्यौसारी—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'प्योसार'। उ०—तू भँवर व बैठयो रहिओ, चल बस मेरे प्योसार।—पोद्दार अभि० ग्रं० पृ० ८७७।

प्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक उपसर्ग जो क्रियाओं में संयुक्त होने पर 'आगे', 'पहले', 'सामने', 'दूर' का अर्थ देता है, विशेषणों संयुक्त होने पर 'अधिक', 'बहुल', 'अत्यधिक' का अर्थ देता है जैसे, प्रकृष्ट, प्रमत्त आदि और संज्ञा शब्दों में संयुक्त होने पर 'प्रारंभ' (प्रयाण), 'उत्पत्ति' (प्रभव, प्रपौत्र), 'ल' (प्रवालभूसिक), 'शक्ति' (प्रभु), 'आकांक्षा' (प्रार्थना), 'स्वच्छता' (प्रसन्न जल), 'तीव्रता' (प्रकंप), 'या 'वियोग' (प्रेषित, प्रपणं वृक्ष), आदि का अर्थ देता है।

प्रकंप—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रकम्प] धरधराहट। कंपकंपी।

प्रकंपन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रकम्पन] १. कंपकंपी। धरधराहट। २. वायु। हवा। ३. महावात। आँधी (की०)। ४. एक नर का नाम। ५. एक राक्षस का नाम।

प्रकंपन^२—वि० हिलानेवाला । जो कंप उतपन्न करे ।
 प्रकम्पमान—वि० [सं० प्रकम्पमान] जो थरथरता हो । अत्यंत हिलता हुआ ।
 प्रकंपित—वि० [सं० प्रकम्पित] १ कंठता हुआ । कंपायमान ।
 २ हिलता हुआ । ३ कपित । कंपाया हुआ [को०] ।
 प्रकम्पी—वि० [सं० प्रकम्पित] कंठता हुआ । हिलना मूकना हुआ ।
 कंफने या हिलनेवाला [को०] ।
 प्रकच—वि० [सं०] जिसके सर के बाल खड़े हों । ऊर्ध्वकेश [को०] ।
 प्रकट^१—वि० [सं०] १ जो सामने आया हो । जो प्रत्यक्ष हुआ हो । जाहिर । जैसे,—इस नगर में प्लेग प्रकट हुआ है ।
 २ उत्पन्न । आविर्भूत । जैसे,—इतने में वहाँ एक राक्षस प्रकट हुआ । ३ स्पष्ट । व्यक्त । जाहिर ।
 प्रकट^२—प्रथम स्पष्टत । प्रकाश रूप से । सबके सामने [को०] ।
 प्रकटता—सञ्ज्ञा स्त्री [सं० प्रकट + हि० ता (प्रत्य०)] स्पष्टता ।
 दृष्टिगोचर होने का भाव । उ०—पनैसर्गिक घटा सी छा रही थी । प्रलय घटिका प्रकटता पा रही थी ।—साकेत, पृ० ५४ ।
 प्रकटन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रकट होने की क्रिया ।
 प्रकटना—क्रि० प्र० [सं० प्रकट + हि० ना (प्रत्य०)] प्रकट होना प्रादुर्भूत होना । दिखाई देना ।
 प्रकटित—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जो प्रकट हुआ हो । प्रकट किया हुआ ।
 प्रकटीकरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रकट या अभिव्यक्त होने का भाव । प्रकट करना [को०] ।
 प्रकटीभवन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अभिव्यक्त होना । जाहिर होना । प्रकट होना ।
 प्रकथन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] व्यक्त करना । घोषित करना । बताना [को०] ।
 प्रकर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ अगुह । अग्नर नामक गंध द्रव्य । २ पुंज । समूह । राशि । ३ खिला हुआ फूल या स्तवक । ४ सहारा । मदद । सहायता । ५ अधिकार । ६ खूब काम करनेवाला । वह जो किसी काम में बहुत होशियार हो । ७. समादर । सत्कार [को०] । ८ अपनयन । अपहरण । नारी अपहरण [को०] । ९ प्रज्ञालन । सक्षालन । मार्जन [को०] । १० रीति । परिपाटी परंपरा [को०] ।
 प्रकरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ उत्पन्न करना । अस्तित्व में लाना । २. किसी विषय को समझने या समझाने के लिये उसपर वाद विवाद करना । जिक्र करना । घृत्तात । ३ प्रसंग । विषय । ४ किसी ग्रथ के अंतर्गत छोटे छोटे भागों में से कोई भाग । किसी ग्रथ आदि का वह विभाग जिसमें किसी एक ही विषय या घटना आदि का वर्णन हो । परिच्छेद । अध्याय । ५. वह वचन जिसमें कोई कार्य प्रवश्य करने का विधान हो । ६ अवसर । काल । समय [को०] । ७. इष्य काव्य के अंतर्गत रूपक के दस भेदों में से एक ।
 विशेष—साहित्यदर्पण के अनुसार इसमें सामाजिक और प्रेम

संबन्धी कल्पित घटनाएँ होनी चाहिए और प्रधानतः शृंगार रस ही रहना चाहिए । जिस प्रकरण की नायिका वेश्या हो वह शुद्ध प्रकरण और जिसकी नायिका कुलवधू हो वह 'सकीर्ण प्रकरण' कहलाता है । नाटक की भाँति इसका नायक बहुत उच्च कोटि का पुरुष नहीं होता, और न इसका आख्यान कोई प्रसिद्ध ऐतिहासिक या पौराणिक वृत्त होता है । संस्कृत के मृच्छकटिक, मालतीमाधव आदि 'प्रकरण' के ही अंतर्गत हैं ।

प्रकरणी—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] प्रकरण के समान नाटिका ।
 प्रकरिका—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] प्रासंगिक कथावस्तु । प्रकरी [को०] ।
 प्रकरी—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] १ एक प्रकार का गान । २ नाटक में प्रयोजनसिद्धि के पाँच साधनों में से एक जिसमें किसी एक देशव्यापी चरित्र का वर्णन होता है । ३ नाटकीय वेशभूषा [को०] । ४ किसी जमीन का खुलता हिस्सा । आंगन [को०] । ५ चौराहा । चत्वर [को०] । ६ प्रासंगिक कथावस्तु के दो भेदों में से एक । वह कथावस्तु जो थोड़े काल तक चलकर रुक जाती या समाप्त हो जाती है । प्रासंगिक कथावस्तु का दूसरा भेद 'पताका' है ।
 प्रकर्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. उत्कर्ष । उत्तमता । २ अधिकता । बहुतायत । ३ श्रेष्ठता । सर्वोच्चता [को०] । ४ शक्ति । बल [को०] । ५. विशिष्टता । विशेषता [को०] । ६ विस्तार [को०] ।
 प्रकर्षक^१—वि० [सं०] उत्कर्ष करनेवाला ।
 प्रकर्षक^२—सञ्ज्ञा पुं० कामदेव की आख्या [को०] ।
 प्रकर्षण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रकर्ष । उत्कर्ष । महत्ता । वैभव । २ अधिकता । ३ खींचना । अलग करना [को०] । ४ आकुलता । व्यग्रता । विह्वलता [को०] । ५ हल चलाना । कपण [को०] । ६, लबाई । विस्तार [को०] । ७. कोडा । चाबुक [को०] । ८. उधार दिए गए धन का अधिक व्याज लेना [को०] ।
 प्रकर्षणोद्य—वि० [सं०] जो उत्कर्ष करने के योग्य हो । प्रकर्षण के योग्य ।
 प्रकर्षित—वि० [सं०] १ खींचा हुआ । २. जो (धन आदि) व्याज के रूप में अधिक प्राप्त या वसूल हो [को०] ।
 प्रकर्षी—वि० [सं० प्रकम्पित] १ उत्कर्षप्राप्त । प्रकर्षयुक्त । २. भागे ले चलनेवाला ।
 प्रकला—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] एक कला (समय) का साठवाँ भाग ।
 यौ०—प्रकलाविद् = (१) अधोष । अप्राज्ञ । अज्ञान (२) व्यापारी । वणिक् ।
 प्रकल्पक—वि० [सं०] उपयुक्त स्थान पर स्थित [को०] ।
 प्रकल्पना—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] निश्चित करना । स्थिर करना ।
 प्रकल्पित—वि० [सं०] १. निश्चित किया हुआ । स्थिर किया हुआ । २. बनाया हुआ । निर्मित [को०] ।
 प्रकल्पिता—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] एक प्रकार की प्रहेलिका ।
 प्रकल्प्य—वि० [सं०] निश्चित करने योग्य । स्थिर करने योग्य [को०] ।

प्रकाश—सञ्ज्ञा पुं० [स०] १ कशाघात । कोड़े से मारना । २. पीडा देना । कष्ट पहुँचाना । ३. दे० 'प्रकाशी' ।

प्रकाशी—सञ्ज्ञा स्त्री० [स०] शूक नामक रोग जिसमें पुरुषो की मूर्च्छेन्द्रिय सूज जाती है और जो इन्द्रिय को बढ़ानेवाली ओषधियों का प्रयोग करने से होता है ।

प्रकाश^१—सञ्ज्ञा पुं० [स० प्रकाश] १ स्कष । वृक्ष का तना । २ शाखा । डाल । ३ वृक्ष । पेड । ४ बाहु का ऊपरी भाग । बाँह का ऊपरी हिस्सा ।

प्रकाश^२—वि० १ बहुत बड़ा । २ बहुत विस्तृत । ३. उत्तम । उत्कृष्ट । प्रशस्त ।

प्रकाश^३—सञ्ज्ञा पुं० [स० प्रकाश] वृक्ष । पेड [को०] ।

प्रकाश^४—सञ्ज्ञा पुं० [स०] कामना । इच्छा ।

प्रकाश^५—वि० १ यथेष्ट । यथेप्सित । काफी । पूरा । २ काम-वासनायुक्त । रसिक । कामुक [को०] ।

यौ०—प्रकाशभुक् = इच्छानुहूल खानेवाला । यथेष्ट भोजन करनेवाला ।

प्रकाशाभिराम—वि० [स० प्रकाश + अभिराम] अत्यंत सुंदर । अति मनोहर । उ०—आपके 'प्रियप्रवास', 'चौखे चौपदे'—रचनाओं से प्रकाशाभिराम पड़ता तो प्रकट हो ही चुकी है । —रस क०, पृ० ३ ।

प्रकाशोद—सञ्ज्ञा पुं० [स०] एक वैदिक देवता ।

प्रकाश^१—सञ्ज्ञा पुं० [स०] १ भेद । किस्म । जैसे,—(क) मनुष्य कई प्रकार के होते हैं । (ख) चार प्रकार के फल । २. तरह । भाँति । जैसे,—इस प्रकार यह काम न होगा । ३ विशेषता । वैशिष्ट्य । भेद (को०) । ४ सद्गता । समानता । बारबरी ।

प्रकाश^२(पु)—सञ्ज्ञा स्त्री० [स० प्रकाश] चहार दीवारी । परकोटा । पोरा । जैसे,—(क) विशद राजमंदिर मणिमण्डित मजुल श्राठ प्रकारा ।—रघुराज (शब्द०) । (ख) तीनि प्रकार प्रजा निवसत चौथे मँह रघुकुल वीरा ।—रघुराज (शब्द०) ।

प्रकाश^३—वि० [स० प्रकाश + अन्तर] भिन्न प्रकार से । दूसरी तरह से । अन्य रूप में ।

प्रकाश^४(पु)—वि० [स० प्रकाश + हि० ई (प्रत्य०)] प्रकार का । किस्म का । प्रकारवाला । उ०—सुंदर भोजन विविध प्रकारी ।—नंद० ग्र०, पृ० २१३ ।

प्रकाश^५—सञ्ज्ञा पुं० [स०] १ वह जिसके भीतर पढ़कर चीजें दिखाई पड़ती हैं । वह जिसके द्वारा वस्तुओं का रूप नेत्रों को गोचर होता है । दीप्ति । आभा । आलोक । ज्योति । चमक । तेज ।

विशेष—वैज्ञानिकों के अनुसार जिस प्रकार ताप (ऊष्मा) शक्ति का एक रूप है उसी प्रकार प्रकाश भी । प्रकाश कोई द्रव्य नहीं है जिसमे गुरुत्व हो । प्रकाश पढ़ने पर भी किसी वस्तु की उतनी ही तोल रहेगी जितनी झेंधे में थी । प्रकाश के सबध में इधर वैज्ञानिकों का यह सिद्धांत (विद्युच्चुबकीय सिद्धांत) है कि प्रकाश एक प्रकार की तरंगवत् गति है जो किसी ज्योतिष्मान् पदार्थ के द्वारा ईधर या आकाशद्रव्य

में उत्पन्न होती है और चारों ओर बढ़ती है । जल में यदि पत्थर फेंका जाय तो जहाँ पत्थर गिरता है वहाँ जल में क्षोभ उत्पन्न होता है, जिससे तरंगें सठकर चारों ओर बढ़ने लगती हैं । ठीक इसी प्रकार ज्योतिष्मान् पदार्थ द्वारा ईधर या आकाशद्रव्य में जो क्षोभ उत्पन्न होता है वह प्रकाश की तरंगों के रूप में चलता है । यह आकाशद्रव्य विभु वा सर्वव्यापक पदार्थ है, जो जिस प्रकार ग्रहों और नक्षत्रों के बीच अंतरिक्ष में सर्वत्र भरा है उसी प्रकार ठोस से ठोस वस्तुओं के परमाणुओं और अणुओं के बीच में भी । अतः प्रकाश का वाहक यथार्थ में यही आकाशद्रव्य समझा जाता है । प्रकाशतरंगों की गति कल्पनातीत अधिक है । वे एक सेकंड में १८६२७२ मील या ९३१३६ कोस के हिसाब से चलती हैं । प्रकाश की जो किरनें निकलती हैं, यद्यपि वे सब की सब एक ही गति से गमन करती हैं तथापि तरंगों की लंबाई के कारण उनमें भेद होता है । तरंगें भिन्न भिन्न लंबाई की होती हैं । इससे किसी एक प्रकार की तरंगों से बनी हुई किरनें दूसरे प्रकार की तरंगों से बनी हुई किरनों से भिन्न होती हैं । यही भेद रंगों के भेद का कारण है । (दे० 'रंग') जैसे जिस तरंग की लंबाई ००००१६ इंच होती है वह बैंगनी रंग देती है, जिसकी लंबाई ००००२४ इंच होती है वह लाल रंग देती है । इसी प्रकार अनंत भेद हैं, जिनमें से कुछ ही हमारी चक्षुर्द्रिय को ग्राह्य हैं । पहले किरनें आदि पुराने तत्त्वविदों ने प्रकाश को कणिकामय वस्तु के रूप में माना था, पर पीछे वह विद्युच्चुबकीय तरंगों के रूप में माना गया, परन्तु प्रकाश सबधी कुछ घटनाएँ हैं जिनका समाधान विद्युच्चुबकीय तरंग सिद्धांत नहीं हो सकता है । अतः एक दूसरे सिद्धांत 'क्वांटम सिद्धांत' का सहारा लेना पड़ा है । इस सिद्धांत में एक नवीन कणिका का प्रतिपादन हुआ है । इसे 'फोटॉन' कहा गया है । यह कणिका द्रव्य नहीं है । यह पुंजित है । प्रत्येक फोटॉन में ऊर्जा का परिमाण प्रकाशतरंग आवृत्ति का अनुपाती होता है । इस फोटॉन सिद्धांत से सभी घटनाओं का पूरा पूरा समाधान हो जाता है । विद्युच्चुबकीय तरंग सिद्धांत से न हो सका था । इन शब्दों में न्यूटन द्वारा प्रतिपादित कणिका सिद्धांत का नवीन कणिकामय रूप है ।

२ विकास । स्फुटन । विस्तार । अभिव्यक्ति । ३ प्रकटन प्रकट होना । गोचर होना । देखने में आना । ४ प्रतिपाद्यता । ५. स्पष्ट होना । खुलना । साफ समझ में आना । ६ घोड़े की पीठ पर की चमक । ७ हास । हँसी । ८ किसी ग्रथ या पुस्तक का विभाग । ९ धूप । १०. कास्य घातु (को०) ।

प्रकाश^२—वि० १ प्रकाशित । जगमगाता हुआ । दीप्त । २ विकसित । स्फुटित । ३. प्रकट । प्रत्यक्ष । गोचर । ४ अतिप्रकाश । ५. स्पष्ट । समझ में आना ।

प्रकाशक^१—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रकाशिका] १ व्यक्त करने-वाला । प्रकाश करनेवाला । २ द्योतित । ३ प्रसिद्ध । ख्यात । प्रकट ।

प्रकाशक^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह जो प्रकाश करे । जैसे, सूर्य । २ वह जो प्रकट करे । प्रसिद्ध करनेवाला । जैसे, प्रथम प्रकाशक, समाचारपत्र प्रकाशक । ३ कौसा । ४ महादेव का एक नाम । ५ सूर्य (को०) ।

यौ०—प्रकाशकज्ञाता = तमचुर । मुर्गा ।

प्रकाशकर्ता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रकाशकर्तृ] सूर्य (को०) ।

प्रकाशकार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रकाशक' ।

प्रकाशकथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] खुले आम खरीद (को०) ।

प्रकाशता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रकाश का भाव या धर्म ।

प्रकाशघृष्ट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] घृष्ट नायक के दो भेदों में से एक । वह नायक जो प्रकट रूप से घृष्टता करे, झूठी सीगध खाए, नायिका के साथ साथ लगा फिरे, सबके सामने सकोच त्याग कर हँसी ठट्टा करे, झिझकने आदि पर भी न माने ।

प्रकाशन^१—वि० [सं०] प्रकाश करनेवाला । चमकीला । दीप्तिवान् ।

प्रकाशन^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. विष्णु का एक नाम । २. प्रकाशित करने का काम । प्रकाश में लाने का काम । ३. किसी पुस्तक के छप जाने पर उसको सर्वसाधारण में प्रचलित करने का काम । जैसे, पुस्तक प्रकाशन । पत्र प्रकाशन ।

यौ०—प्रकाशनाधिकार = पुस्तकादि के प्रकाशन का शर्तनामा । दे० 'कापीराइट' ।

प्रकाशनारी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वेश्या । रडी (को०) ।

प्रकाशमान—वि० [सं०] १. चमकता हुआ । चमकीला । प्रकाशयुक्त । २. प्रसिद्ध । मशहूर ।

प्रकाशवान्—वि० [सं० प्रकाशवत्] दे० 'प्रकाशमान' ।

प्रकाशवाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रकाश + वाह] प्रकाश लानेवाला, सूर्य । उ०—विस्तृत कर जन मन पथ, वाहित कर जीवन रथ, वन प्रकाशवाह, हरे अक्षर लोकायन । —अतिमा, पृ० १३४ ।

प्रकाशवियोग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] केशव के अनुसार वियोग के दो भेदों में से एक । वह वियोग जो सबपर प्रकट हो जाय ।

प्रकाशसयोग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] केशव के अनुसार संयोग के दो भेदों में से एक । वह संयोग जो सबपर प्रकट हो जाय ।

प्रकाशात्मक—वि० [सं०] चमकीला । आभासमय (को०) ।

प्रकाशात्मा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रकाशात्मन्] १ सूर्य । २ विष्णु । ३ शिव (को०) ।

प्रकाशात्मा^२—वि० चमकीला । ज्योतिमय (को०) ।

प्रकाशित—वि० [सं०] १ जिसमें से प्रकाश निकल रहा हो । चमकता हुआ । उ०—यह रतन दीप हरि प्रेम की सदा प्रकाशित जग रहै । —मारतेंदु प्र०, पृ० ४६६ । २ जिसपर प्रकाश पड़ रहा हो । चमकता हुआ । ३ जो प्रकाश में आ चुका हो । विज्ञापित । प्रकट । जैसे,—यह पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है ।

प्रकाशी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रकाशिन्] वह जिसमें प्रकाश हो । चमकता हुआ ।

प्रकाश्य^१—वि० [सं०] १ प्रगट करने योग्य । जाहिर करने योग्य । २ व्यक्त । प्रकट ।

प्रकाश्य^२—सञ्ज्ञा पुं० प्रकाश । ज्योति । चमक ।

प्रकाश्य^३—क्रि० वि० प्रकट रूप से । स्पष्टतया । नाटक में 'स्वगत' का उलटा ।

प्रकास^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रकाश] दे० 'प्रकाश' । उ०—पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका । बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका ।—मानस, ७।३१ (ख) सो वैष्णव विना उनके आगे अपने धर्म कैसे प्रकास करे ।—दो सो वावन०, भा० १, पृ० १०३ ।

प्रकासक^१—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रकाशक] दे० 'प्रकाशक' । उ०—(क) सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ।—मानस, १।११६ । उ०—मघन घने उद्गुनि गगनि अगनित करत उदोत । परम प्रकासक पै निसा निसानाथ तैं होत ।—स० सप्तक, पृ० ३६८ ।

प्रकासना^१—क्रि० सं० [सं० प्रकाश] प्रकाश करना । प्रकट करना । जाहिर करना । उ०—सुनि उद्भव सब वात प्रकासी । तुम चिन दुखित रहत अजवासी ।—विश्राम (शब्द०) ।

प्रकासिका^१—वि० स्त्री० [सं० प्रकाशिका] प्रकाशित करनेवाली । प्रकट करनेवाली । उ०—पुन्य प्रकासिका पाप विनासिका हीय हुलासिका सोहत कासिका ।—मारतेंदु प्र० भा० १, पृ० २८१ ।

प्रकास्य^१—वि० [सं० प्रकाश्य] दे० 'प्रकाश्य' । उ०—जगत प्रकास्य प्रकासक रामू ।—मानस, १।११७ ।

प्रकिरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ बिखेरना । छीटना । विकीर्ण करना । २ मिलाना । मिश्रण (को०) ।

प्रकिरती^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रकृति] दे० 'प्रकृति'—३ । उ०—पुरुष प्रकिरती पदवी पाई । सुद्ध सरगुन रचन पसारा है ।—कवीर श०, भा० १, पृ० ६१ ।

प्रकीन^१—वि० [सं० प्रकीर्ण] फैला हुआ । उ०—वनि जानि प्रकीन रूपान वन ।—पृ० रा०, २९।२७ ।

प्रकीर्ण^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ दुर्गंधवाला करज । पूतिकरज । २ अक्षय । प्रकरण । ३ चेंबर । ४ पागल । ५. उद्दह । उच्छ्रल । ६ फुटकर कविता । ७. अनेक प्रकार की फुटकर घस्तुओं का सकलन (को०) । ८ विस्तार । फैलाव (को०) । ९. विकीर्ण करना । बिखेरना । छितराना (को०) ।

प्रकीर्ण^२—वि० १ फैला हुआ । विस्तृत । २ बिखरा हुआ । छितराया हुआ । अस्तव्यस्त । खुँव । ३ मिला हुआ । मिश्रित । ४ तरह तरह का । अनेक प्रकार का ।

प्रकीर्णक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ चेंबर । २ अक्षय । प्रकरण । ३ विस्तार । ४ वह जिसमें तरह तरह की चीजें मिली हो । फुटकर । जैसे, प्रकीर्णक कविता, प्रकीर्णक पुस्तकमाला । ५ पाप जिसके प्रायश्चित्त का प्रथो में उल्लेख न हो ।

फुटकर पाप । ६ फुटकल सग्रह । ७ तुरगम । भ्रमव । घोडा (को०) । ८ घोडे के सिर पर लगनेवाली कलगी (को०) ।

प्रकीर्णकेशी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दुर्गा ।

प्रकीर्तन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ जोर जोर से कीर्तन करना । २ यश गान करना । ३ घोषणा करना ।

प्रकीर्तना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] नाम निर्देश करना । नामलेना । उल्लेख करना (को०) ।

प्रकीर्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रकीर्ति] १ घोषणा । २ प्रसिद्धि । ख्याति ।

प्रकीर्तित—वि० [सं०] १ कथित । घोषित । २ प्रथित । प्रसिद्ध । ख्यात । ३ प्रशंसित (को०) ।

प्रकीर्या—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० प्रकीर्या] १ दुर्गधवाला करज । २ रीठा करज ।

प्रकीर्य—वि० [सं०] प्रकिरण के योग्य । विखेरने योग्य (को०) ।

प्रकुच—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रकुञ्च] घाठ तोले या एक पल का मान ।

प्रकुज—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रकुञ्ज] दे० 'प्रकुच' ।

प्रकुथित—वि० [सं०] दूषित । दूषणयुक्त (को०) ।

प्रकुपित—वि० [सं०] १. जिसका प्रकोप बहुत बढ़ गया हो । जैसे, प्रकुपित कफ । २ हिलाया हुआ । कपित । क्षोभित (को०) । ३ जो बहुत क्रुद्ध हो । उ०—पहुँचे पुर मे प्रकुपित होकर घन्वी लक्ष्मण चारुचरित्र ।—साकेत, पृ० ३८७ ।

प्रकुप्त—वि० [सं०] दे० 'प्रकुपित' ।

प्रकुल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] साँचे में ढला हुआ शरीर । सौंदर्ययुक्त शरीर (को०) ।

प्रकुष्मांडी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रकुष्माण्डी] दुर्गा (को०) ।

प्रकूष्मांडी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रकूष्माण्डी] दुर्गा (को०) ।

प्रकृत—वि० [सं०] १ जो विशेष रूप से किया गया हो । आरब्ध । २ वास्तविक । यथार्थ । असली । सच्चा । ३. जो बनाया गया हो । पूरा किया हुआ । रचा हुआ । ४ जिसमें किसी प्रकार का विकार न हुआ हो । विकाररहित । अविकृत । ५ प्रकरणप्राप्त । प्रसंगप्राप्त (को०) । ६ अपेक्षित । आकांक्षित । इच्छित (को०) । ७ स्वभाववाला । प्रकृतिवाद् । ८ नियुक्त (को०) ।

प्रकृत^२—सञ्ज्ञा पुं० श्लेष अलकार का एक भेद ।

प्रकृतता—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रकृत होने का भाव । २ यथार्थता । असलियत ।

प्रकृतत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रकृत होने का भाव । २ यथार्थता । असलियत ।

प्रकृति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. स्वभाव । मूल या प्रधान गुण जो सदा बना रहे । तासीर । जैसे,—आलू की प्रकृति गरम है । २. प्राणी की प्रधान प्रवृत्ति । न छूटनेवाली विशेषता । स्वभाव ।

मिजाज । जैसे,—वह बड़ी छोटी प्रकृति का मनुष्य है जगत् का मूल बीज । वह मूल शक्ति अनेक रूपात्मक जिसका विकास है । जगत् का उपादान कारण । कुदरत

विशेष—साख्य में पुरुष और प्रकृति से अतिरिक्त और तीसरी वस्तु नहीं मानी गई है । जगत् प्रकृति का ही वि- अर्थात् अनेक रूपों में प्रवर्तन है । प्रकृति की विकृति परिणाम ही जगत् है । जिस प्रकार एकरूपता या नि- शेषता से परिणाम द्वारा अनेकरूपता की ओर सर्वा- गतिहोती है उसी प्रकार फिर अनेकरूपता से उस एकरूपता की ओर गति होती है जिसे स + वत् प्रलयावस्था या स्वरूपावस्था कहते हैं । प्रथम प्रकार गतिपरपरा को विरूप परिणाम और दूसरी प्रकार गतिपरपरा को स्वरूप परिणाम कहते हैं । स्वरूपावस्था प्रकृति अव्यक्त रहती है, व्यक्त होने पर ही वह कहलाती है । इन्हीं दोनों परिणामों के अनुसार ज- बनता और बिगड़ता रहता है । प्रकृति के परिणाम का इस प्रकार कहा गया है—प्रकृति से महत्त्व (बुद्धि महत्त्व से अहंकार, अहंकार से पंचतन्मात्र (शब्द तन्मा- रस तन्मात्र इत्यादि), पंचतन्मात्र से एकादश इन्द्रिय (ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय और मन) और उनसे फिर महाभूत । इस प्रकार ये चौबीसो तत्व जिनसे ससार बना प्रकृति ही के परिणाम हैं । जो क्रम कहा गया है वह १५ परिणाम का है । स्वरूप परिणाम का क्रम उलटा होता अर्थात् उसमें पंचमहाभूत एकादश इन्द्रिय रूप में, फिर इ- तन्मात्र रूप में, तन्मात्र अहंकार रूप में—इसी क्रम से । जगत् फिर नष्ट होकर अपने मूल प्रकृति रूप में आ- है । विशेष दे०—'साख्य' ।

४ राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र इन षट्को से युक्त राष्ट्र या राज्य ।

विशेष—इसी को शुक्रनीति में 'सप्ताग राज्य' कहा है । ७ राजा की सिर से, आमात्य की आँख से, मित्र की कान कोश की मुख से, दंड या सेना की भुजा से, दुर्ग की हाथ और जनपद की पैर से उपमा दी गई है ।

५. राज्य के अधिकारी कार्यकर्ता जो आठ कहे गए हैं । १. दे० 'षष्ट प्रकृति' । ५ परमात्मा (को०) । ६ नारी । (को०) । ७ स्त्री या पुरुष की जननेन्द्रिय (को०) । ८ मात जननी (को०) । ९ माया (को०) । १० कारीगर । ११ एक छद जिसमें २१, २१ अक्षर प्रत्येक चरण में हो (को०) । १२ प्रजा (को०) । १३ पशु । जतु (को०) । १४ वह मूल शब्द जिसमें प्रत्यय लगाते हैं । १५ जीवनक्रम (को०) । १६ (गणित में) निरूपक । गुणक (को०) । १७ जगत् (को०) । १८. सृष्टि के मूलभूत पाँच तत्व । च- भूत (को०) ।

प्रकृतिज—वि० [सं०] जो प्रकृति या स्वभाव से उत्पन्न हुआ हो ।
 प्रकृतिपुरुष—सद्वा पुं० [सं०] राज्यमन्त्री । मन्त्री [को०] ।
 प्रकृतिभाव—सद्वा पुं० [सं०] १ स्वभाव । २ सचि का वह नियम जिसमें दो पदों के मिलने से कोई विकार नहीं होता ।
 प्रकृतिमंडल—सद्वा पुं० [सं० प्रकृतिमण्डल] राज्य के स्वामी, आमात्य, सुहृद्, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और बल इन सारों अर्थों का समूह । २ प्रजा का समूह ।
 प्रकृतिमान्—वि० [प्रकृतिमत्] १ स्वभाविक । नैसर्गिक । सहज । २. सात्त्विक विचार का [को०] ।
 प्रकृतिलय—सद्वा पुं० [सं०] प्रकृति में मिल जाना । प्रलय होना [को०] ।
 प्रकृतिवशित्व—सद्वा पुं० [सं०] प्रकृति को अधिकार में लाने या रखने की शक्ति ।
 प्रकृतिशास्त्र—सद्वा पुं० [सं०] वह शास्त्र जिसमें प्राकृतिक बातों (जैसे, जीव, पशु, वनस्पति, भूगर्भ आदि) का विचार किया जाय ।
 प्रकृतिसिद्ध—वि० [सं०] स्वभाविक । प्राकृतिक । नैसर्गिक ।
 प्रकृतिसुभग—वि० [सं०] नैसर्गिक सुदर । स्वभावतः सुदर [को०] ।
 प्रकृतिस्थ—वि० [सं०] १ जो अपनी प्राकृतिक अवस्था में हो । अपने स्वभाव में स्थित । अपनी मामूली हालत में । २ स्वभाविक । नैसर्गिक ।
 प्रकृतिस्थ सूर्य—सद्वा पुं० [सं०] उत्तरायण उत्लघन करके प्राया हुआ सूर्य ।
 प्रकृतीश—सद्वा पुं० [सं०] प्रकृति अर्थात् प्रजा का स्वामी । राजा । शास्ता [को०] ।
 प्रकृत्यजीर्ण—सद्वा पुं० [सं०] साधारण या श्वाभाविक अजीर्ण ।
 प्रकृत्या—क्रि० वि० [सं०] प्रकृति से । स्वभावतया [को०] ।
 प्रकृष्ट—वि० [सं०] १ मुख्य । प्रधान । खास । २. उत्तम । श्रेष्ठ । ३. आकृष्ट । खिचा हुआ । ४. खींचा या बढ़ाया हुआ [को०] ।
 प्रकृष्टता—सद्वा स्त्री० [सं०] १ उत्तममता । उत्कृष्टता । श्रेष्ठता । मुख्यता । २. दीघता [को०] ।
 प्रक्रीट—सद्वा पुं० [सं०] १ शहरप्रनाह । परिखा । परकोटा । २ घुस्स ।
 प्रकोथ—सद्वा पुं० [सं०] सडना । दूषित होना [को०] ।
 प्रकोप—सद्वा पुं० [सं०] १ बहुत अधिक कोप । २ क्षोभ । ३ चंचलता । ४ किसी रोग की प्रबलता । बीमारी का अधिक और तेज होना । जैसे,—आजकल शहर में हैजे का बहुत प्रकोप है । ५ शरीर के वात, पित्त आदि का किसी कारण से विगड जाना जिससे रोग उत्पन्न होता है । जैसे,—उत्तको पित्त के प्रकोप के कारण ज्वर हुआ है । ६ आक्रमण । हमला [को०] । ७. विद्रोह ।
 प्रकोपक—सद्वा पुं० [सं०] किसी भूमि या धन का धर्मात्मा के हाथ से अधर्मी के हाथ में जाना । अधर्मी का लाभ (जिससे जनता को खेद या रोष हो) ।

प्रकोपण—वि०, सद्वा पुं० [सं०] दे० 'प्रकोपन' [को०] ।
 प्रकोपन^१—सद्वा पुं० [सं०] १ किसी के प्रकोप को बढ़ाना । उत्तेजित करना । २ गुस्सा करना । नाराज होना । विगडना । ३ क्षोभ । ४ वात, पित्त आदि का कोप । विशेष—दे० 'प्रकोप' । ५ चंचलता ।
 प्रकोपन^२—वि० [सं०] प्रकोप करानेवाला । क्षुब्ध करनेवाला । प्रकुपित करनेवाला [को०] ।
 प्रकोपित—वि० [सं०] उत्तेजित किया हुआ । क्षुब्ध । क्रुधित [को०] ।
 प्रकोष्ठ—सद्वा पुं० [सं०] १ कोहनी के नीचे का भाग । २ बड़े दरवाजे के पास की कोठरी । सदर फाटक के पास की कोठरी । ३ बड़ा आंगन जिसके चारों ओर इमारत हो ।
 प्रकोष्ठक—सद्वा पुं० [सं०] इमारत के सदर फाटक के पास का कक्ष या कमरा [को०] ।
 प्रकोष्णा—सद्वा स्त्री० [सं०] एक अप्सरा का नाम ।
 प्रक्कार^(५)—सद्वा पुं० [सं०] प्राकार । दे० 'प्राकार' । उ०—वर विहार प्रक्कार विपन वाटिका विराजिय ।—पृ० रा०, १८।१४ ।
 प्रक्खर^१—वि० [सं०] घटयत तीक्ष्ण, तीव्र या उग्र [को०] ।
 प्रक्खर^२—सद्वा पुं० १ घोड़े या हाथी के रक्षार्थ उन्हें पहनाने का कवच । पाखर । अश्वकवच । २ खच्चर । ३ श्वान । कुत्ता [को०] ।
 प्रक्रता—वि० [सं०] प्रक्रन्तु । १ उपक्रम करनेवाला । आरम्भकर्ता । २ दमन करनेवाला । ३ स्वायत्त करनेवाला । वध में करनेवाला [को०] ।
 प्रक्रति^(५)—सद्वा स्त्री० [हिं०] दे० 'प्रकृति'-३ । उ०—आदि भगम अविहार एक ईस्वर अविणासी । पछै प्रक्रति तत पच विविध सुर ईख जवासी ।—रा० रू०, पृ० ७ ।
 प्रक्रत्ती^(५)—सद्वा स्त्री० [हिं०] दे० 'प्रकृति' । उ०—प्रक्रत्ती पुरुष्व ।—पृ० रा०, २४।४०३ ।
 प्रक्रम—सद्वा पुं० [सं०] १ क्रम । सिलसिला । २ वह उपाय जो किसी कार्य के आरम्भ में किया जाय । उपक्रम । ३ अतिक्रम । उल्लघन । ४ अदसर । मौका ।
 प्रक्रमण—सद्वा पुं० [सं०] १ अच्छी तरह घूमना । खूब भ्रमण करना । २ पार करना । ३ आरम्भ करना । ४ अदसर होना । आगे बढ़ना ।
 प्रक्रमण्य—वि० [सं०] प्रक्रम के योग्य । उपक्रम योग्य [को०] ।
 प्रक्रमभग—सद्वा पुं० [सं०] प्रक्रमभङ्ग] साहित्य में एक दोष जो उस समय होता है जब किसी वर्णन में आरम्भ किए हुए क्रम आदि का ठीक ठीक पालन नहीं होता ।
 प्रक्रात^१—वि० [सं०] प्रक्रान्त । १ आरम्भ किया हुआ । २, क्रमण किया हुआ । ३. प्रसंगप्राप्त । प्रकरणप्राप्त । ४ विक्रमशाली । वीर । शूर [को०] ।
 प्रक्रात^२—सद्वा पुं० १ यात्रारम्भ । यात्रा का उपक्रम । २ प्रश्न या वाद का विषय [को०] ।

प्रक्रिया—सञ्ज्ञा स्त्री [म०] १ प्रकरण । २ क्रिया । युक्ति । तरीका । ३. राजाश्री का चँवर, छत्र आदि का धारण । ४ प्रकृष्ट कर्म । अच्छा कार्य (को०) । ५ उच्च पद या स्थान (को०) । ६ विशेष अधिकार (को०) । ७ ग्रथ का कोई अध्याय या विभाग । जैसे, उणादि प्रक्रिया (को०) । ८ किसी ग्रथ का प्रारम्भिक परिचयात्मक अथवा या अध्याय (को०) । ९ (व्याकरण) शब्द या प्रयोग का साधन या विधि (को०) । १० (वैद्यक) उपचार में औषधिनिर्देश । नुस्खा (को०) ।

प्रकीड—सञ्ज्ञा पुं [म०] क्रीडा । खेलकूद [को०] ।

प्रक्लान्न—वि० [सं०] १ आर्द्र । तर । गीला । २ वृष्ट । सतुष्ट । ३ दयाद्र । ४ सड़ा या गला हुआ [को०] ।

प्रक्लान्नवर्त्म—सञ्ज्ञा पुं [म०] १ एक रोग जिसमें आँख की पलकें बाहर से सूज जाती हैं और आँखों में कीचड़ भर जाता है । विशेष २—'क्लान्नवर्त्म' । २ वह मार्ग जो जल के कारण गीला हो ।

प्रक्लेद—सञ्ज्ञा पुं [सं०] आर्द्रता । नमी । तरी ।

प्रक्लेदन^१—सञ्ज्ञा पुं [सं०] तर करना । गीला करना । भिगोना ।

प्रक्लेदन^२—वि० आर्द्र करनेवाला [को०] ।

प्रक्लेदी—वि० [सं० प्रक्लेदिन्] तर करनेवाला । आर्द्र या गीला करनेवाला [को०] ।

प्रक्वण, प्रक्वाण—सञ्ज्ञा पुं [सं०] वीणा की ध्वनि [को०] ।

प्रक्वाथ—सञ्ज्ञा पुं [सं०] उबलना [को०] ।

प्रक्षु^१—वि० [सं० प्रक्षुक] पृथ्वीवाला । प्रश्नकर्ता । उ०—कल्प कलहस कोकि क्षीरनिधि छवि प्रक्ष हिमगिरि प्रभा प्रभु प्रगट पुनीत है ।—केशव (शब्द०) ।

प्रक्षण—सञ्ज्ञा पुं [म०] दे० 'प्रक्षयण' [को०] ।

प्रक्षय—सञ्ज्ञा पुं [सं०] क्षय । नाश । बरबाधी ।

प्रक्षयण—सञ्ज्ञा पुं [सं०] बरबाद करना । नाश करना ।

प्रक्षर—सञ्ज्ञा पुं [सं०] घोड़े की पाखर । दे० 'प्रखर' ।

प्रक्षरण—सञ्ज्ञा पुं [सं०] झरना । बहना ।

प्रक्षाम—वि० [सं०] दग्ध । जला या कुलसा हुआ [को०] ।

प्रक्षाल—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १ प्रायश्चित्त । २ दे० 'प्रक्षालन' ।

प्रक्षालन—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १ जल से साफ करने की क्रिया । धोना । २ जल जिससे कोई चीज साफ की जाय (को०) । ३ शुद्ध करने की वस्तु । शुद्धि का साधन (को०) । ४. स्वच्छ या साफ करना (को०) ।

प्रक्षालयिता—सञ्ज्ञा पुं [सं० प्रक्षालयितृ] पंर या चरण धोनेवाला विशेषतः प्रतिथियो के [को०] ।

प्रक्षालित—वि० [सं०] धोया हुआ । साफ किया हुआ । २ प्रायश्चिदा किया हुआ (को०) ।

प्रक्षाल्य—वि० [सं०] धोने या साफ करने के योग्य ।

प्रक्षिप्त—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १ फँका हुआ । २ डाला हुआ । अदर या भीतर छोड़ा हुआ (को०) । ३. जोड़ा या मिलाया हुआ

(को०) । ४, ऊपर से बढ़ाया हुआ । पीछे से मिलाया हुआ । जैसे,—(क) रामायण में लवकुश काठ प्रक्षिप्त है । (ख) इस पुस्तक में एक प्रकरण प्रक्षिप्त है ।

प्रक्षीण^१—वि० [म०] १ नष्ट । विध्वस्त । २ भ्रष्टहित । लुप्त । गायब [को०] ।

प्रक्षीण^२—सञ्ज्ञा पुं नष्ट होने या करने का स्थान । विनाशस्थल [को०] ।

प्रक्षीवित—वि० [सं०] मदहोश । नशे में मत्त [को०] ।

प्रक्षुण्ण—वि० [सं०] १ निर्दलित । मर्दित । २ चूर्ण किया हुआ । चूरा किया हुआ । ३. आघातित । ४ प्रचोदित । प्ररित [को०] ।

प्रक्षेप—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १ फेंकना । डालना । २. छितराना । बिखराना । ३ मिलाना । बढाना । ४. वह पदार्थ जो औषध आदि में ऊपर से डाला जाय । ५ गाढ़ी या रथ का बमस (को०) । ६. क्षेपक । प्रक्षिप्त मश (को०) । ७ वह मूल धन जो किसी व्यापारिक समाज या सस्था का प्रत्येक सदस्य लगा दे । हिस्सेदारों की धलगत अलग लगाई हुई पूंजी ।

प्रक्षेपण—सञ्ज्ञा पुं [म०] १. फेंकना । २. ऊपर से मिलाना । ३. जहाज आदि का चलाना । ४. निश्चित करना ।

प्रक्षेपणीय—वि० [सं०] प्रक्षरण के योग्य [को०] ।

प्रक्षेपलिपि—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] अक्षर लिखने की एक विशेष रीति ।

प्रक्षोभ, प्रक्षोभण—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १. ध्वराहट । वेचनी । २ कपन । हिलना डुलना (को०) ।

प्रक्षेडन—सञ्ज्ञा पुं [सं०] [स्त्री० प्रक्षेडना] जनरव । १ शोर-गुल । हल्ला । २ लोहे का बाण [को०] ।

प्रक्षेडा—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] १. अस्पष्ट नाद । कलरव । २ गर्जन । गभीर नाद [को०] ।

प्रक्षेडित^१—वि० [सं०] कोलाहलयुक्त । शोरगुल से भरा हुआ ।

प्रक्षेडित^२—सञ्ज्ञा पुं अस्पष्ट ध्वनि । रव । कलकल [को०] ।

प्रक्षेदन—सञ्ज्ञा पुं [म०] [स्त्री० प्रक्षेदना] नाराच । बाण [को०] ।

प्रखर^१—वि० [सं०] १ तीक्ष्ण । प्रचंड । जैसे, सूर्य की प्रखर किरण । २ धारदार । चोखा । पैना । ३ कठोर । बडा । रुक्ष (को०) ।

प्रखर^२—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १ खच्चर । २. कुत्ता । ३ घोड़े की पाखर ।

प्रखरता—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] प्रखर होने की क्रिया या भाव । तेजी ।

प्रखल—वि० [सं०] बहुत बडा दुष्ट ।

प्रखाद—वि० [सं०] खाने या निगलनेवाला [को०] ।

प्रख्य^१—वि० [सं०] १ श्रेष्ठ । वरिष्ठ । २ प्रत्यक्ष । व्यक्त । ३ रस्यु- २ सदृश । समान । तुल्य । (समासात् में प्रयुक्त) जैसे, अमृत प्रख्य, पाशांकप्रख्य [को०] ।

प्रख्य^२—सञ्ज्ञा पुं वृहस्पति । गुरु । सुराचार्य [को०] ।

प्रख्या—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] १. विख्याति । प्रसिद्धि । २. समता । बरा बरी । ३ उपमा । ४. प्रभा । काति । दीप्ति (को०) । इन्द्रियप्राप्तता । वेद्यता । गोचरता (को०) ।

प्रख्याप्त—क्रि० वि० [सं०] १ जिसे सब लोग जानते हैं । प्रसिद्ध ।

मशहूर। विख्यात। २ प्रसन्नतायुक्त। सुखी (को०)। ३
ज्ञापित (को०)।

प्रख्याति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ प्रख्यात होने का भाव। प्रसिद्धि।
विख्याति। २ वेद्यता। गोचरता। इन्द्रियग्राह्यता (को०)।

प्रख्यात—सञ्ज्ञा पुं० [पुं०] १. सूचना। खबर। वृत्त। २ खबर देना।
सूचना देने का काम। ३ ग्रहण या अनुभव करना [को०]।

प्रख्यापन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रसिद्ध करना। ख्यात करना।
२. सञ्चारित करना। सञ्चारण। ३. समाचार। सूचना [को०]।

प्रख्यापित—वि० [सं०] जिसको ख्यात किया गया हो। जिसकी
प्रसिद्धि वी गई हो। जिसके सबष में कहा गया हो। उ०—
वे नए से नए और अधिक भडकीले, प्रचारित एव प्रख्यापित
वादों से प्रभावित नहीं होते।—शुक्ल अभि० प्र०, पृ० १४२

प्रगष्ट—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रगष्ट] कधे से लेकर कोहनी तक का भाग।

प्रगही—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दुर्ग आदि का प्राकार जिसपर बैठकर दूर
दूर की चीजें देखते हैं। वाहरी दीवार।

प्रगंध—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रगन्ध] दहन पापडा।

प्रगट—वि० [सं० प्रकट] दे० 'प्रकट'।

प्रगटन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रकटन] दे० 'प्रकटन'।

प्रगटनार्थि—क्रि० प्र० [सं० प्रकटन] प्रगट होना। सामने आना।
जाहिर होना। उ०—प्रगटत दुरत करत छल भूरी।—
मानस, ३।२१।

प्रगटना^२—क्रि० म० व्यक्त करना। प्रकट करना। उ०—प्राण तजत
प्रगटेसि निज देहा।—मानस ३।२१।

प्रगटानार्थि—क्रि० सं० [सं० प्रकटन, हिं० प्रगटना का सक० रूप]
प्रकट करना। जाहिर करना।

प्रगटित—वि० [सं० प्रकटित] दे० 'प्रकटित'। उ०—जो षोड जोति
ग्रहमय, रसमय सबकी भाइ। सो प्रगटित निज रूप करि,
इहि तिसरे अघ्याइ।—नद प्र०, पृ० २३१।

प्रगट्टना^१—क्रि० प्र० [हिं०] दे० 'प्रगटना'। उ०—तिमिर तुलित
तुरकान प्रवल दिसि बिदिस प्रगट्टत।—मति० प्र०, पृ० ३६७।

प्रगट्टना^२—क्रि० सं० दे० 'प्रगटाना'। उ०—'मतिराम' एक दाता
निमनि जमजस अमल प्रगट्टियस।—मति० प्र०, पृ० ३६४।

प्रगडस^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रकट, प्रा० प्रगड, हिं० पगरा वा फा०
पगाह (=सवेरा)]। याप्रारभ का समय। सूर्य का प्रकाश।
तडका। सवेरा। पगरा। उ०—पुगल जाइ प्रगडस करइ,
करइ मारवणि दाइ।—ढोला०, दू० ३२७।

प्रगत—वि० [सं०] १ आगे गया हुआ। गत। २ जो पृथक् या
दूर हो। अलग। पृथक् [को०]।

यौ०—प्रगतजानु, प्रगतजानुक=जिसके घुटने एक दूसरे से
सघिक अंतराल पर हो। धनुषाकार आगे की ओर जिसकी
जानु निक्ली हो।

प्रगति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] आगे बढ़ना। तरक्की। उन्नति [को०]।

प्रगतिवाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रगति + वाद] १ वह सिद्धांत जिसमें

साहित्य को सामाजिक विकास का साधन माना जाता है।
२ सामान्य जनजीवन को साहित्य में व्यक्त करने का सिद्धांत।
एक साहित्यिक विचारधारा, जिसमें सामाजिक यथार्थ और
माक्स के आर्थिक क्षेत्र में प्रतिपादित सिद्धांतों के लिये विशेष
आग्रह रहता है।

विशेष—प्रगतिवाद का आरम्भ सन् १९४० के पूर्व ही हो गया
था। सामाजिक और आर्थिक उत्पीडन सबघी प्रगतिवादी
विचारों ने साहित्यकारों को सहज रूप से अपनी ओर आकृष्ट
किया, फलत अमिको, कृषको और सामाजिक उन्पीडितो
को केंद्र बनाकर साहित्य की रचना हुई। साहित्यिक
विचारधारा के अतिरिक्त प्रगतिवाद जनादोलन के रूप में
भी पनपा और सारे ससार को इसने प्रभावित किया। इस
रूप में इसने मानवमुक्ति के लिये सघर्ष किया, अग्यावहारिक
प्राचीन सस्कारो और रूढियों के निराकरण तथा समाज की
वर्गस्थिति को समाप्त करने की चेष्टा की।

प्रगतिवादी^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रगति + वादिन्] प्रगतिवाद का
अनुयायी।

प्रगतिवादी^२—वि० १ प्रगतिवाद के सिद्धांत पर चलनेवाला। प्रगति-
वादी विचारधारा को माननेवाला। २ प्रगतिवाद सबघी।
३ प्रगतिवाद के सिद्धांत पर आधृत।

प्रगतिशील—वि० [हिं० प्रगति + सं० शील] १ बराबर आगे बढ़ने-
वाला। उन्नतिशील। २ सुधारवादी। ३ जो प्रगतिवाद
का अनुयायी हो। ४ प्रगतिवाद सबघी। ५ प्रगतिवाद के
सिद्धांत पर आधारित।

प्रगम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूर्वानुराग। प्रथम प्रेम। प्रेमी और
प्रेमिका में अनुराग का प्रथम उदय [को०]।

प्रगमन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वि० प्रगमनीय] १ आगे बढ़ना। २.
उन्नति। तरक्की। ३. ऋगड़ा। लड़ाई। ४ दे० 'प्रगम'।
५ वह भाषण जिसमें कोई अच्छा उत्तर दिया गया हो।
अमूठा या माकूल जवाब।

प्रगर्जन, प्रगर्जित—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गरजना। गर्जन। चिल्लाहट
[को०]।

प्रगल्भ—वि० [सं०] १ चतुर। होशियार। २ प्रतिभाशाली।
संपन्न बुद्धिवाला। ३ उत्साही। साहसी। हिम्मती। ४.
समय पर ठीक उत्तर देनेवाला। हाजिरजवाब। ५
निर्मय। निडर। ६ बोलने में सकोच न रखनेवाला।
बकवादी। ७ गभीर। भरापूरा। ८ प्रधान। मुख्य।
९ निलज्ज। बेहया। घृष्ट। १ उद्धत। जिसमें नम्रता न
हो। ११. अभिमानी। १२ पुष्ट। प्रौढ़।

प्रगल्भता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. बुद्धिमत्ता। होशियारी। २
प्रतिभा। बुद्धि की संपन्नता। ३ उत्साह। ४ हाजिर-
जवाबी। वाक्चानुरी। ५ निर्भयता। सकोच का अभाव।
६. गभीरता। ७ प्रधानता। मुख्यता। ८ निलज्जता।
बेहयाई। घृष्टता। ९. उद्धतता। १० अभिमान। ११.

पुष्टता । प्रौढता । १२ वक्त्रवाद । व्यर्थ की वातचीत । १३. सामर्थ्य । शक्ति । अघ्यवसाय ।

प्रगल्भवचन—सज्ञा स्त्री [सं०] मध्या नायिका के चार भेदों में से एक । वह नायिका जो बातों ही बातों में अपना दुःख और श्लोघ प्रकट करे और उलाहना दे ।

प्रगल्भा—सज्ञा स्त्री [सं०] १. दे० 'प्रौढा' (नायिका) । २ धृष्ट स्त्री । कर्कशा स्त्री (को०) । ३ दुर्गा का एक नाम (को०) ।

प्रगसना(उ०)†—क्रि० घ० [सं० प्रकाश] प्रकट होना । प्रकाशित होना । व्यक्त होना ।

प्रगाढ^१—वि० [सं० प्रगाढ] १. बहुत अधिक । जैसे, प्रगाढ सकट । २. गाढा या गहरा । जैसे, प्रगाढ निद्रा । ३. कडा । कठोर । घना । ४. अच्युती तरह डुवाया या तर किया हुआ (को०) । ५. शक्तिशाली । दृढ़ (को०) । ६. बहुत आगे बढ़ा हुआ (को०) ।

प्रगाढ^२—सज्ञा पुं० १ तपस्या । तपश्चरण । २ अभाव । कष्ट । दुःख । कठिनाई (को०) ।

प्रगाढता—सज्ञा पुं० [सं० प्रगाढता] १ तीव्रता । अधिकता । २ गभीरता । गहराई । ३—साहित्यकार के जीवन और साहित्य में वह जितनी प्रगाढता से भक्तवर्त रहेगा ।—इति० आलो०, पृ० २४ । ३ कठिनता । कठिनाई ।

प्रगाता—वि०, सज्ञा पुं० [सं० प्रगात्] गानेवाला । अच्छा गायक ।

प्रगामी—सज्ञा पुं० [सं० प्रगामिन्] वह जो गमन करता हो । गता । जानेवाला ।

प्रगाथी—वि०, सज्ञा पुं० [सं० प्रगाथिन्] अच्छा गानेवाला । उत्कृष्ट गायक । प्रगाता ।

प्रगास(उ०)—सज्ञा पुं० [हि०] दे० 'प्रकाश' । उ०—अजपा जपे जीभ्या विना यह मूल प्रगास परसि लीजे ।—सं० दरिया, पृ० ६६ ।

प्रगासना(उ०)—क्रि० सं० [हि० प्रगासना] प्रकाशित करना । प्रगट करना । उ०—बीसल रास प्रगासता । नाल्ह कहइ जिणि आवइ हो खोडि ।—वी० रासो, पृ० ३ ।

प्रगोत^१—वि० [सं०] १ गायता हुआ । जो गाया गया हो । २. गायक । गानेवाला (को०) ।

प्रगीत^२—सज्ञा पुं० १ गीत । गाना (को०) । २ आधुनिक काव्यों में लिखे गए वे गीत जो काव्य होने के साथ ही अत्यधिक गेय होते हैं ।

प्रगीति—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का छंद ।

प्रगुण्य—वि० [सं०] १. चतुर । दक्ष । होशियार । २ प्रकृष्ट गुणो-वाला । उत्तम गुणवान् । ३ सरल । प्रकुटिल । सीधा । अनुकूल ।

प्रगुणन—सज्ञा पुं० [सं०] १ क्रमयुक्त करना । व्यवस्थित करना । २ सरल या अनुकूल करना (को०) ।

प्रगुणित—वि० [सं०] १ व्यवस्थित । समीकृत । २ चिकना या सीधा किया हुआ । अनुकूल किया हुआ (को०) ।

प्रगुणी—वि० [सं० प्रगुणिन्] गुणवान् ।

प्रगुण्य—वि० [सं०] १ विशेष । अधिक । २. उत्कृष्ट । उत्तम (को०) ।

प्रगृहीत—वि० [सं०] १ जो अच्छी तरह ग्रहण किया गया हो । २ जिसका उच्चारण बिना सध के नियमों का ध्यान रखे किया जाय ।

प्रगृह्य^१—वि० [सं०] १ जो ग्रहण करने के योग्य हो । २. जो बिना सध के नियमों का ध्यान रखे उच्चारण करने के योग्य हो ।

प्रगृह्य^२—सज्ञा पुं० १ स्मृति । २. वाक्य ।

प्रगे—क्रि० वि० [सं०] प्रात' । तडके । मवेरे (को०) ।

यौ०—प्रगेनिश, प्रगेणय = सुबह होने पर भी जो सोता रहे ।

प्रगेतन—वि० [सं०] प्रात कालीन । सुबह किया जानेवाला (को०) ।

प्रग्रह—सज्ञा पुं० [सं०] १ ग्रहण करने या पकड़ने का भाव या ढग । धारण । २ लडने का एक प्रकार । ३. सूर्य अथवा चंद्रमा के ग्रहण का आरंभ । ४ आदर । सत्कार । ५. अनुग्रह । कृपा । ६. उदता । ७. वाग । लगाम । ८. किरण । ९. रस्सी । डोरी । विशेषत तराजू आदि में बंधी हुई डोरी । १०. नेता । मार्गदर्शक । ११. किसी ग्रह के साथ रहनेवाला छोटा ग्रह । उपग्रह । १२. बांह । हाथ । १३. बंधुवा । कीदी । १४ कणिकार वृक्ष । कनियारी । १५ इन्द्रियदमन । इन्द्रियनिग्रह । १६ सोना । सुवर्ण । १७. विष्णु । १८ एक प्रकार का अमलतास । १९ नियमन (को०) । २०. घोड़े आदि पशुओं का साधना ।

प्रग्रह्या—सज्ञा पुं० [सं०] १ ग्रहण करने की क्रिया या भाव । धारण । २. सूर्य आदि के ग्रहण का आरंभ । ३. घोड़े आदि पशुओं को साधना । ४. तराजू आदि की डोरी । ५. नियमन (को०) । ६. बधन (को०) । ७. नेतृत्व करना । अगुआ बनना (को०) । ८. लगाम । वाग ।

प्रग्राह—सज्ञा पुं० [सं०] १. तराजू आदि की डोरी । २. लगाम । वाग । ३. ग्रहण । धारण । लेना (को०) ।

प्रग्रिह(उ०)—सज्ञा पुं० [सं० परिग्रह] दे० 'परिग्रह' ।

प्रग्रीव—सज्ञा पुं० [सं०] १. किसी मकान के चारों तरफ का वह घेरा जो लट्टे या चाँस आदि गाढकर बनाया जाता है । २. फरोखा । छोटी खिडकी । ३. अस्तबल । ४ वृक्ष का ऊपरी भाग । ५ आमोद प्रमोद करने का स्थान । रगभवन । ६. रंगा हुआ शिरोगृह या प्रासादशिखर (को०) ।

प्रघट(उ०)—वि० [सं० प्रकट, हि० प्रगट] दे० 'प्रकट' ।

प्रघटक—सज्ञा पुं० [सं०] सिद्धांत । नियम । विधि ।

प्रघटना(उ०)—क्रि० घ० [हि० प्रघट+ना] दे० 'प्रघटना' ।

प्रघटा—सज्ञा स्त्री [सं०] किसी शास्त्र के संबंध में जानकारी की प्रारंभिक छोटी छोटी बातें (को०) ।

यौ०—प्रघटाविद् = प्रघटा का जानकार । साधारण जानकार ।

प्रघट्टक^१—सज्ञा पुं० [सं०] १. सिद्धांत । नियम । विधि । २. प्रकरण । परिच्छेद ।

प्रघट्टक^२(उ०)—वि० [सं० प्रकट, हि० प्रगट, प्रघट] प्रगट करनेवाला ।

खोलनेवाला । प्रकाश करनेवाला । उ०—भट्ट प्रघट्टक कहूँ न दिखाही । द्वैताद्वैत कथा परिछाही ।—(शब्द०) ।

प्रघण^१—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १ वरामदा । अलिद । २ लोहे का मुदगर । ३ तवि का घडा ।

प्रघण^२—वि० [सं० प्रघन] अत्यधिक । बहुत अधिक । उ०—मह जाय पेखे छाह निरमल प्रघण हिम पांणी ।—रघु० ६०, पृ० १६१ ।

प्रघन—सञ्ज्ञा पुं [सं०] दे० 'प्रघण' ।

प्रघल^(१)—वि० [सं० प्रघल, या प्र+घन] १ उद्वह । उद्वत । प्रगल्भ । २ अत्यधिक । घना । उ०—प्रघल दल बल रीफ हक पल सकल बगसे स्याम ।—रघु० ६०, पृ० २२६ ।

प्रघस^१—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १ एक दैत्य जो रावण की सेना का मुख्य सेनानायक था और जिसे हनुमान ने प्रमदावन उजाडने के समय मारा था । २. दैत्य । राक्षस । ३. पेटुपन । अधिक भक्षण । खब्युपन (को०) ।

प्रघस^२—वि० भक्षक । खानेवाला ।

प्रघसा—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] कार्तिकेय की एक मातृका का नाम ।

प्रघाण—सञ्ज्ञा पुं [सं०] दे० 'प्रघण' [को०] ।

प्रघात—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १ आघात । मारना । २ युद्ध । सघर्ष । ३ पानी बहने का नल । ४ किसी वस्त्र का हाशिया या किनारा (को०) ।

प्रघान—सञ्ज्ञा पुं [सं०] दे० 'प्रघण' [को०] ।

प्रघास—सञ्ज्ञा पुं [सं०] एक प्रकार का चातुर्मास्य याग ।

प्रघुण—सञ्ज्ञा पुं [सं०] अतिथि । अन्वगत । पाहुना [को०] ।

प्रघूर्ण^१—वि० [सं०] १ घुमना हुआ । घूमनेवाला । २ चक्कर लगाता हुआ [को०] ।

प्रघूर्ण^२—सञ्ज्ञा पुं अतिथि [को०] ।

प्रघोर—वि० [सं०] अति कठिन । बहुत अधिक कठिन ।

प्रघोष—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १ ध्वनि । शोर । २ प्रबल शोर । जोर की आवाज [को०] ।

प्रघंड^१—वि० [सं० प्रचण्ड] [वि० स्त्री० प्रचडा] १ बहुत अधिक तीव्र । तेज । बहुत तीखा । उग्र । प्रखर । २ बहुत अधिक वेगवान् । प्रबल । ३ भयकर । ४ कठिन । कठोर । ५. दुस्सह । असह्य । ६ बडा । भारी । ७. पुष्ट । बलवान् । ८ बहुत गरम । ९ प्रतापी ।

यौ०—प्रचण्डघोण = बडी नासिकावाला । प्रचण्डमूर्ति = भीमकाय । प्रचण्डभैरव । प्रचण्डसूर्य = प्रज्वलित सूर्य से युक्त ।

प्रचण्ड^२—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १. शिव का एक गण । २. सफेद कनेर ।

प्रचण्डता—सञ्ज्ञा स्त्री [सं० प्रचण्डता] १ प्रचंड होने का भाव । तेजी । तीखापन । प्रबलता । उग्रता । २. भयकरता ।

प्रचण्डत्व—सञ्ज्ञा पुं [सं० प्रचण्डत्व] दे० 'प्रचण्डता' ।

प्रचण्डभैरव—सञ्ज्ञा पुं [सं० प्रचण्ड भैरव] नाटक एक का भेद । व्यायोग [को०] ।

प्रचण्डमूर्ति—सञ्ज्ञा पुं [सं० प्रचण्डमूर्ति] वरना वृक्ष ।

प्रचडा—सञ्ज्ञा स्त्री [सं० प्रचण्डा] १. सफेद दूब जिसके फूल सफेद होते हैं । २. दुर्गा । चडी । ३. दुर्गा को एक सखी ।

प्रचई^(१)—सञ्ज्ञा स्त्री [सं० परिचय] परिचय देनेवाली वस्तु ।

प्रचक्र—सञ्ज्ञा पुं [सं०] वह सेना जो प्रस्थित हो । चली हुई सेना । प्रस्थित चमू [को०] ।

प्रचक्षा—सञ्ज्ञा पुं [सं० प्रचक्षस्] बृहस्पति [को०] ।

प्रचपल—वि० [सं०] अत्यंत चंचल, अस्थिर या आकुल [को०] ।

प्रचय—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १ वेदपाठ विधि मे एक प्रकार का स्वर जिसके उच्चारण के विधानानुसार पाठक को अपना हाथ नाक के पास ले जाने की आवश्यकता पडती है । २. वीजगणित मे एक प्रकार का सयोग । ३. समूह । कुड । उ०—धर्मदास सुनियो चितलाई । लोक प्रचय भव देउं बतार्ई ।—कवीर सा०, पृ० ६६४ । ४. राशि । डेर । ५ वृद्धि । बढती । ६ लकडी आदि की सहायता से फूल या फल एकत्र करना ।

प्रचर—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १ मार्ग । रास्ता । २. रिवाज । रीति । परपरा (को०) ।

प्रचरण—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १ विचरण । चलना । फिरना । २. प्रचलित होना । प्रवारयुक्त होना (को०) । ३ प्रारम्भ । शुद्घात (को०) ।

प्रचरणो—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] सूवा [को०] ।

प्रचरना^(१)—क्रि० प्र० [सं० प्रचार] १. प्रचारित होना । चलना । फलना । उ०—यहू देश मे प्रचरो पूरो । नास्तिक वाद भयो सय दूरो ।—रघुराज (शब्द०) । २ छा जाना । फलना । पडना । उ०—लुथिय कोस पचह प्रचर परे सुगाइल मति ।—पृ० रा०, १६।५४४ ।

प्रचरित—वि० [सं०] १ प्रचलित । चलता हुआ । चालू । अभ्यस्त (को०) । २ गया हुआ (को०) ।

प्रचर्या—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] क्रम । रीति । विधि । सरणि [को०] ।

प्रचल^१—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १. वह जो बहुत अधिक चंचल हो । २ मोर । मयूर ।

प्रचल^२—वि० १. चंचल । अस्थिर । २. प्रचलित । चालू । ३ ठीक चलता हुआ । खूब चलनेवाला [को०] ।

प्रचलक—सञ्ज्ञा पुं [सं०] एक प्रकार का छोटा कीडा ।—(सुश्रुत) ।

प्रचलन—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १ चलन । प्रचार । २ हिलना डोलना । चलना फिरना (को०) । ३ पलायन । अपसरण । विरमण (को०) ।

प्रचला—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] १ वह निद्रा जो बैठे या खड़े हुए मनुष्य को आती है । २. वह पाप कर्म जिसके उदय से ऐसी निद्रा आती है । ३ सरट । कृकलास (को०) ।

प्रचलाक—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १ शराघात । बाण का प्रहार । २. मोर की वहि या पूछ । ३ सप । साँप [को०] ।

प्रचलाका—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] वर्षा की तीव्र झडी [को०] ।

प्रचलाकी—सञ्ज्ञा पुं [सं० प्रचलाकिन्] मयूर । मोर [को०] ।

प्रचलायन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] निद्रा के कारण सिर का झुक पडना [को०] ।

प्रचलायित—वि० [सं०] १. लुब्धकता हुआ । २. नींद आने के कारण जिसका सिर झुक गया हो [को०] ।

प्रचलित^१—वि० [सं०] १. जारी । चलता हुआ । जिसका चलन हो । जैसे, प्रचलित प्रथा, प्रचलित सिक्का, प्रचलित नाम । २. हिलता या कांपता हुआ (को०) । ३. गतिमय । गतिशील (को०) । ४. विह्वल । आकुल । सञ्जात (को०) ।

प्रचलित^२—सञ्ज्ञा पुं० प्रस्थान । प्रयाण [को०] ।

प्रचाय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. हाथ से कोई चीज इकट्ठा करना । २. राशि । ढेर । ३. वृद्धि । अधिकता । दे० 'प्रचय' ।

प्रचायक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० प्रचायिका] १. वह जो चयन करे । २. वह जो इकट्ठा करे । सग्रह करनेवाला । ३. ढेर लगानेवाला ।

प्रचायिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. फूलों का एकत्र करना । पुष्पचयन । २. फूल एकत्र करनेवाली स्त्री [को०] ।

प्रचार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. किसी वस्तु का निरंतर व्यवहार या उपयोग । चलन । रवाज । जैसे,—(क) आजकल अंगरखे का प्रचार कम हो गया है । (ख) इस ग्रन्थ का बहुत अधिक प्रचार है । २. प्रसिद्धि । ३. प्रकाश । ४. घोड़ों की आँख का एक रोग जिसमें आँखों के पासपास का मांस बढ़कर दृष्टि रोक लेता है । यह मांस काट डाला जाता है । ५. जाना । चलना । घूमना (को०) । ६. प्रगट होना । प्राना (को०) । ७. व्यवहार । आचार (को०) । ८. खेलने का मैदान । अभ्यास करने का स्थान (को०) । ९. चरागाह (को०) । १०. मार्ग । पथ (को०) । ११. सार्वजनिक घोषणा या विज्ञापन । (को०) । १२. गति । साचार । क्रियात्मकता (को०) ।

प्रचारक—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रचारिणी] फैलानेवाला । किसी वस्तु का चलन बढ़ानेवाला । प्रचार करनेवाला ।

प्रचारकार्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] व्याख्यानो, उपदेशो, पुस्तिकाओं और विज्ञापनों आदि के द्वारा किसी मत या सिद्धांत के प्रचार करने का ढग या काम । प्रीपैगडा । जैसे,—हिंदू महासभा की ओर से हरिहर क्षेत्र के मेले में बहुत अच्छा प्रचार कार्य हुआ ।

प्रचारण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. छितराना । विखेरना [को०] ।

प्रचारना^१—क्रि० सं० [सं० प्रचारण] १. प्रचार करना । फैलाना । २. ललकारना । सामना करने के लिये बुलाना । उ०—इंद्र आय तब असुर प्रचारयो । कियो युद्ध पै असुर न मारयो ।—सूर (शब्द) । ३. सुलगाना । आग को प्रज्वलित करना । उ०—जोग अग्नि जब हिए प्रचारी । पल मँह कीन्ह भसम रिसि जारी ।—चित्रा०, पृ० ५६ ।

प्रचारित—वि० [सं०] १. फैलाया हुआ । २. प्रचार किया हुआ । ३. जिसका प्रचार किया गया हो ।

प्रचारी—वि० [सं० प्रचारिन्] १. घूमने फिरनेवाला । २. दिखाई देनेवाला । ३. व्यवहार करनेवाला । चेष्टा करनेवाला [को०] ।

प्रचाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वीणा का वह अंग जहाँ से तूँवा सायुक्त होता है [को०] ।

प्रचलित—वि० [सं०] जिसका प्रचलन किया गया हो । जो चलाया गया हो ।

प्रचित^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. वह जिसका सग्रह किया गया हो । वह जो चुना गया हो । २. दृढ़क छद्म का एक भेद ।

प्रचित^२—वि० १. चयन किया हुआ । एकत्र किया हुआ । सगृहीत । सग्रह किया हुआ । २. भरा हुआ । परिपूर्ण । ३. अनुदात्त [को०] ।

प्रचुर^१—वि० [सं०] १. बहुत । अधिक । विपुल । जैसे, प्रचुर धन । २. पूर्ण । भरापुरा । जैसे, प्रचुरपुरुष (= जनाकीर्ण) । ३. बड़ा । विशाल (को०) ।

प्रचुर^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्र० + √चुर् (= चोरी)] वह जो चोरी करे । चोर ।

यौ०—प्रचुरपुरुष = चोर । तस्कर ।

प्रचुरता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रचुर होने का भाव । ज्यादाती । अधिकता ।

प्रचुरत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रचुरता' [को०] ।

प्रचूर^१—वि० [सं० प्रचूर] दे० 'प्रचुर' । उ०—एक तूँ एक तूँ पवन प्रचूरा । एक तूँ एक तूँ फिरत बधूरा ।—सु दर अं०, पृ० ८६८ ।

प्रचूर्ण^१—वि० [सं० प्रचूर्ण] दे० 'प्रचड' उ०—सुन श्रवन समझ न बँन, आवृत्त घाय प्रचूर्ण ।—पृ० रा०, १३ ७४ ।

प्रचेतसी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. कायफल । २. प्रचेता की कन्या ।

प्रचेता^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रचेतस्] १. एक प्राचीन स्मृतिकार ऋषि का नाम । २. वरुण का एक नाम । ३. बारहवें प्रजापति का नाम । ४. पुराणानुसार प्रयु के परपोते और प्राचीनवर्हि के दस पुत्र जिन्होंने दस हजार वर्ष तक समुद्र के भीतर रहकर कठिन तपस्या की और विष्णु से प्रजासृष्टि का वर पाया था । दस उन्हीं के पुत्र थे ।

प्रचेता^२—वि० १. चुनने या चयन करनेवाला । २. बुद्धिमान् । होशियार । चतुर ।

प्रचेता^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रचेतृ] सारथि । रथचालक [को०] ।

प्रचेय—वि० [सं०] १. जो चयन करने योग्य हो । जो चुनने या सग्रह करने योग्य हो । २. जो ग्रहण करने योग्य हो । ग्राह्य । ३. वृद्धि करने योग्य (को०) ।

प्रचेत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पीला चदन ।

प्रचेतक^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] घोडा ।

प्रचेतक^२—वि० बहुत अधिक चलनेवाला ।

प्रचोद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रचोदन' ।

प्रचोदक—वि० [सं०] प्रेरणा करनेवाला । उत्तेजित करनेवाला ।

प्रचोदन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्रेरणा । उत्तेजना । २. आज्ञा । ३. आज्ञा देना । आदेश देना (को०) । ४. कायदा । कानून । नियम । ५. प्रेरण (को०) ।

प्रचोदनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कटककारी । भटकटैया [को०] ।
 प्रचोदित—वि० [सं०] १ जिसे प्रेरणा की गई हो । प्रेरित । जो उत्तेजित किया गया हो । प्रोत्साहित । २ आदिष्ट । आज्ञात । निर्देशित (को०) । ३ जिसकी घोषणा की गई हो । घोषित (को०) । ४ प्रेषित (को०) ।
 प्रचोदनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कटककारी । कटेहरी । कटेरी । भटकटैया ।
 प्रचोदी—वि० [सं० प्रचोदिन्] प्रोत्साहित करनेवाला । प्रेरित करने वाला [को०] ।
 प्रचौ^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिषय] दे० 'परिषय' । उ०—जैमलहरा जाँणता जिसढी, साच प्रचौ पूरियो सही ।—वांकी० प्र०, भा० ३, पृ० १४५ ।
 प्रच्छक—वि० [सं०] पूछनेवाला । प्रश्न करनेवाला ।
 प्रच्छद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ कवच । २ वेठन । लपेटने या आच्छादित करने का कपडा । ३ चोगा ।
 यौ०—प्रच्छदपट = आच्छादन करने या ढकने का वस्त्र । जैसे, ओहार, चादर, आदि ।
 प्रच्छन्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रश्न करना । पूछना । जिज्ञासा करना । जानकारी लेना [को०] ।
 प्रच्छन्ना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पूछना । प्रश्न करना ।
 प्रच्छन्न^१—वि० [सं०] १ ढका हुआ । लपेटा हुआ । २ छिपा हुआ । गुप्त । गोपनीय ।
 यौ०—प्रच्छन्नतस्कर = गुप्त चोर । प्रच्छन्नचारी = छिपे तौर से काम करनेवाला । गुप्तचर ।
 प्रच्छन्न^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गुप्त द्वार । छिपा द्वार । चोर दरवाजा । २. झरोखा । खिडकी । गवाक्ष । [को०] ।
 प्रच्छन्नता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रच्छन्न होने का भाव । गोपनीयता । छिपाव । उ०—इस प्रच्छन्नता का उदाहरण कविकर्म का एक मुख्य अंग है ।—आचार्य०, पृ० १४६ ।
 प्रच्छद्क—वि० [सं०] वमन करानेवाला । जिससे वमन हो । उलटी लानेवाला । वमनकारक [को०] ।
 प्रच्छद्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ साँस की वायु को नाक के रास्ते बाहर निकालना । रेचन । २ वमन । कै । ३ श्लेष्मादि जिससे वमन हो । वमन करानेवाली वस्तु (को०) ।
 प्रच्छद्दिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. वह वस्तु जिससे वमन हो । वमन करानेवाली श्लेष्मा । २ वमन का रोग । कै ।
 प्रच्छादक^१—वि० [सं०] छिपाने, आच्छादित या आवृत करनेवाला । ढकनेवाला ।
 प्रच्छादक^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रच्छेदक' [को०] ।
 प्रच्छादन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रच्छादित] १ ढाँकने का भाव । ढाँकना । २ छिपाने का भाव । निगूहन । ३ शक्ति की पलक । ४. उत्तरीय वस्त्र ।
 यौ०—प्रच्छादन पट = दे० 'प्रच्छद पट' ।

प्रच्छादित—वि० [सं०] १ ढका हुआ । आवृत । २. छिपा हुआ । गुप्त । गोपित [को०] ।
 प्रच्छान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मुथुत के अनुसार घाव चीरने का एक प्रकार । २ घाव चीरना । फन्द लगाना [को०] ।
 प्रच्छाय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पनी छाया । २ पनी छायावाला स्थान [को०] ।
 प्रच्छालन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रचालन] २० 'प्रक्षालन' ।
 प्रच्छालना^२—क्रि० सं० [प्रचालन] २० 'प्रक्षारना' ।
 प्रच्छल—वि० [सं०] शुष्क । सूखा । जनरहित [को०] ।
 प्रच्छेदक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] लाम्ब क दस अंगो म म एन । प्रियतम को अन्ध नाविका म आमतक जानकर प्रेमविच्छेद के अनुभाग स तप्तहृदया नाविका का धीरुा क साथ गाना । (नाट्यशास्त्र) ।
 प्रच्छेदन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रच्छेद्य] छेदने या काटने की क्रिया । छोटे छोटे टुकड़ों में काटना ।
 प्रच्यय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रगति । विकास । २. हटना । पीछे हटना । ३ सरण । पतन । पात । अग [को०] ।
 प्रच्यवन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ धरण । भरना । बहना या रसना । २ हटना [को०] । ३. हानि [को०] ।
 प्रच्यावन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जिससे प्रच्यवन हो या जिकके द्वारा प्रच्यवन हो [को०] ।
 प्रच्यावित—वि० [सं०] किमी देज या स्थान से हटाया या नगमा हुआ [को०] ।
 प्रच्युत—वि० [सं०] १ गिरा हुआ । अपने स्थान से हटा हुआ । २. मार्मच्युत । पपत्रष्ट [को०] । ३ धरित । सूखा हुआ । झरा हुआ [को०] । ४. निर्वासित । दस से निकलता या भगाया हुआ [को०] ।
 प्रच्युति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] अपने स्थान से गिरने या टूटने का भाव । २. हानि । नुकसान [को०] ।
 प्रछन^१—क्रि० वि० [सं० प्रच्छन्नम्] छिपे तौर पर । प्रच्छन्न रूप से । गुप्त रूप से । उ०—ताम हस आयो समपि कक्षी महो शशिवृच । चाटुमान आयो प्रछन मिलन पान हर सिच । पृ० रा०, २५।२६३ ।
 प्रछारना^१—क्रि० सं० [सं० प्रचालन, हि० प्रच्छालना, प्रक्षालना] धोना । प्रक्षालन करना । उ०—कनक नोर कर त मुख धोवो, तकि के चरन प्रछारा ।—जग० श०, भा० १, पृ० ११ ।
 प्रछालना^२—क्रि० सं० [सं० प्रचालन] प्रक्षालन करना । धोना । उ०—पुनि उठे तबहि ततकाला । जल में मुख हाथ प्रछाला । —सु दर० प्र०, भा० १ पृ० १३३ ।
 प्रच्छेद^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रस्वेद] पसीना । प्रस्वेद ।
 प्रजक^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्यङ्क] पलंग । पर्यङ्क । उ०—(क) प्रजक जु जोई तलप सु सोई ।—पृ० रा०, ६२।६७ । (ख) हुजु दिय हृथ्य प्रजक संजोइय ।—पृ० रा०, ६२।४६ ।

प्रजघ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रजङ्घ] १ रावण की सेना का एक मुख्य राक्षस जिसे अगद ने मारा था । २ एक कपि का नाम (को०) ।

प्रजघा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रजङ्घा] उरु या जाँघ का निचला भाग (को०) ।

प्रजंत(पु)†—अन्वय [सं० पर्यन्त] दे० 'पर्यंत' । उ०—राधा जल विहरति सखियनि मँग । ग्रीव प्रजत नीर में ठाढी, छिरकति जल अपने अपने रँग ।—सूर०, १०।१७५३ ।

प्रज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पति । खाविद । शौहर (को०) ।

प्रजटी(पु)—वि० [सं० प्र+जटित] जटित । एकश्रित । सज्जित । उ०—तम तम तामस तमोगुन सी तोयद सी नीलम जटान पाटी जटा प्रजटी सी है ।—पजनेस०, पृ० ६ ।

प्रजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ गर्भधारण करने के लिये (पशुओं का) मैथुन । जोड़ा खाना । २ पशुओं के गर्भधारण करने का समय । ३ लिंग । पुरुषेन्द्रिय । ४ सतान उत्पन्न करने का काम । ५ जनक । जन्म देनेवाला ।

प्रजनक—वि० [सं० प्रजनन] [वि० स्त्री० प्रजनिका] उत्पन्न करनेवाला । जन्म देनेवाला । जनक । उ०—पहले जो भावात्मक निस्स ग, एक ही ऋषिकठ से निकला हुआ था, वह बाद को समुदाय के आनन्द का प्रजनक हुआ ।—गीतिका (भू०), प० १ ।

प्रजनन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ संतान उत्पन्न करने का काम । २ जन्म । ३. लिंग । पुरुषेन्द्रिय (को०) । ४ योनि । ५ शुक्र । वीर्य (को०) । ६ दाईं का काम । धात्रीकर्म (सुश्रुत) । ७ जन्म देनेवाला । पिता । जनक । ८ पशुकर्म । जोड़ा खाना (को०) । ९ सतति (को०) ।

प्रजनन^२—वि० प्रजनन करनेवाला । पैदा करनेवाला (को०) ।

प्रजनयिता—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रजनयितृ] दे० 'प्रजनक' ।

प्रजनिका—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] माता ।

प्रजनिष्णु—वि० [सं०] १. प्रजनन करनेवाला । उपजाऊ । २ बढ़नेवाला । जैसे, फसल (को०) ।

प्रजनुक—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ वह जो संतान उत्पन्न करता हो । २ शरीर । देह (को०) ।

प्रजनू—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] योनि । भग (को०) ।

प्रजन्य(पु)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्जन्य] दे० 'पर्जन्य-१' । उ०—नीरद, क्षीरद, भवुवह, वारिद, जलद, प्रजन्य ।—नद० प्र०, पृ० ११० ।

प्रजय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विजय । जय । जीत (को०) ।

प्रजरत्—वि० [सं० प्रजवत् > प्रज्वलत्] जलता हुआ । प्रज्वलित ।

प्रजरना(पु)—क्रि० प्र० [सं० (प्रत्य०) प्र+हि० जरना, या सं० √प्रज्वल्] अच्छा तरह जलना । उ०—प्रजरति नीर गुलाब के पिय की बात सिराति ।—विहारी (शब्द०) ।

प्रजलना(पु)—क्रि० प्र० [सं० प्रज्वलन] दे० 'प्रजरना' ऊ०—(क) जल महि पावक प्रजल्यउ पुज प्रकाश । कँवल प्रफुल्लित मझले अधिक सुवास ।—सुदर० प्र०, भा० १, पृ० ३७८ । (ख) खानखाना नवाब दे, खाँडे आग खिवत । जलवाला नर प्राजले तृणवाला जीवत ।—अकबरी०, पृ० १४२ ।

प्रजल्प—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ व्यथंकी या हृषर उधर की बात । गप । २ वह बात जो अपने प्रिय को प्रसन्न करने के लिये की जाय ।

प्रजल्पन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बातचीत । गपशप ।

प्रजल्पित—वि० [सं०] जिसके विषय में बात की जा चुकी हो (बातचीत) । जो (वातालाप) कथित हो । (को०) ।

प्रजवन—वि० [सं०] गतिशील । तेज (को०) ।

प्रजवित—वि० [सं०] १ प्रेरित । चालित । २ ग्राह्य (को०) ।

प्रजवी^१—वि० [सं० प्रजविन्] गतिशील । तीव्र गतिवाला ।

प्रजवी^२—सञ्ज्ञा पुं० दूत । चर । सवादवाहक (को०) ।

प्रजहित—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पुराण । २ गार्हपत्य अग्नि ।

प्रजातक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रजातक] यम ।

प्रजा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ सतान । श्रीलाद । २. वह जनसमूह जो किसी एक राजा के अधीन या एक राज्य के अंतर्गत रहता हो । ३. राज्य के निवासी । रिआया । रैयत । ४. प्रजनन । उत्पत्ति । उत्पादन (को०) । ५. शुक्र । वीर्य (को०) । ६. प्राणधारी । प्राण । जीव (को०) । ७ भारतीय गाँवों में छोटी जातियों के वे लोग जो बिना वेतन पाए ही काम करते हैं ।

विशेष—ऐसे लोगों को कभी किसी उत्सव पर अथवा ब्याह आदि में कुछ पुरस्कार दे दिया जाता है । नाऊ, वारी, भाट, नट, लोहार, कुम्हार, चमार, घोवी इत्यादि की गिनती 'प्रजा' में होती है ।

प्रजाकाम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जो पुत्र का अभिलाषी हो । जिसे पुत्र की इच्छा हो । पुत्रेप्सु ।

प्रजाकार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रजा उत्पन्न करनेवाले, ब्रह्मा । प्रजापति ।

प्रजागर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ विष्णु । २ प्राण । ३ जागरण । जगना । ४. नीद न आने का रोग । ५ सुरक्षा करनेवाला । रक्षक जन (को०) । ६. सावधानी । सतर्कता (को०) ।

प्रजागरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जागना । जागरण (को०) ।

प्रजागरा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक अप्सरा का नाम ।

प्रजागरूक—वि० [सं०] अच्छी तरह जागा हुआ । पूर्णतः सावधान या सचेत (को०) ।

प्रजागुप्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रचारक्षण । जनता की रक्षा (को०) ।

प्रजातनु—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रजातनु] १. सतान । श्रीलाद । २ वंश । कुल । वंशपरपरा ।

प्रजातन्त्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रजातन्त्र] वह शासनव्यवस्था जिसमें कोई राजा न होता हो, बल्कि राज्यपरिचालन के लिये

प्रजा द्वारा कोई एक व्यक्ति चुन लिया जाता हो। वह शासनव्यवस्था जो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा परिचालित हो।

विशेष—ऐसी व्यवस्था में उस चुने हुए व्यक्ति को प्रायः राजा के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, और वह प्रजा की चुनी हुई किसी सभा या समिति आदि की सहायता से कुछ निश्चित समय तक शासन का सब प्रबंध करता है। गणतंत्र।

प्रजातंत्रवादी—वि० [हि० प्रजातन्त्र + वादी] प्रजातंत्रिक शासन-व्यवस्था को माननेवाला। प्रजातंत्र का अनुयायी। †

प्रजात—वि० [सं०] उत्पन्न [को०]।

प्रजातंत्रिक—वि० [सं० प्रजातान्त्रिक] प्रजातंत्र से संबंधित। प्रजातंत्र का।

प्रजाता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह स्त्री जिसको घालक उत्पन्न हुआ हो। प्रसूतिका। जच्चा।

प्रजाति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ उत्पादन। प्रजनन। २ प्रजनन-शक्ति। ३ सतति। सतान। प्रजा [को०]।

प्रजाद्—वि० [सं०] सतानदाता। सतति देनेवाला [को०]।

प्रजाद्दा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] गर्भदा नाम की भ्रूषवि जिससे वाम्भुवन हुए होता है।

प्रजादान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चाँदी। रजत।

प्रजाद्वार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सूर्य का एक नाम। २ प्रजा या सतान उत्पन्न करने का साधन या उपाय।

प्रजाधर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विष्णु [को०]।

प्रजाध्यक्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रजापति। २ सूर्य।

प्रजानती—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पडिता। विदुषी [को०]।

प्रजानाथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ ब्रह्मा। २ मनु। ३. दक्ष। ४ राजा।

प्रजानिपेक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गर्भाधान [को०]।

प्रजाप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] राजा [को०]।

प्रजापति^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सृष्टि को उत्पन्न करनेवाला। वह जिसने सृष्टि उत्पन्न की है। सृष्टिकर्ता।

विशेष—वेदों और उपनिषदों से लेकर पुराणों तक में प्रजापति के सबंध में अनेक प्रकार की कथाएँ प्रचलित हैं। वैदिक काल में प्रजापति एक वैदिक देवता थे और वे ब्रह्मा के पुत्र तथा सृष्टिकर्ता माने जाते थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है कि ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति सृष्टि को उत्पन्न करने के उपरांत माया के वश में होकर भिन्न भिन्न शरीरों में बँध गए थे और देवताओं ने एक अश्वमेध यज्ञ करके उन्हें शरीरों से मुक्त किया था। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि प्रजापति ने अपनी उषा नाम की कन्या के साथ सभोग किया था जिससे मृग नक्षत्र की उत्पत्ति हुई थी और वे स्वयं तथा उषा दोनों मिलकर रोहणी नामक नक्षत्र के रूप में परिवर्तित हो गए थे। छांदोग्य उपनिषद् में लिखा है की इन्द्र ने प्रजापति से सूक्ष्म आत्मज्ञान तथा वैरोचन ने

स्थूल आत्मज्ञान प्राप्त किया था। पुरुषमेघ यज्ञ में प्रजापति के आगे पुरुष की बलि दी जाती है। पुराणों में ब्रह्मा के पुत्र अनेक प्रजापतियों का उल्लेख है। कहीं ये दस प्रजापति कहे गए हैं—(१) मरीचि। (२) अग्नि। (३) अगिरा। (४) पुलस्त्य। (५) पुलह। (६) ऋतु। (७) प्रचेता। (८) वशिष्ठ। (९) भृगु। (१०) नारद। और कहीं इन इक्कीस प्रजापतियों का उल्लेख है—(१) ब्रह्मा। (२) सूर्य। (३) मनु। (४) दक्ष। (५) भृगु। (६) धर्मराज। (७) यमराज। (८) मरीचि। (९) अगिरा। (१०) अग्नि। (११) पुलस्त्य। (१२) पुलह। (१३) ऋतु। (१४) वशिष्ठ। (१५) परमेष्ठी। (१६) त्रिवस्वाद्। (१७) सोम। (१८) कर्दम। (१९) क्रोध। (२०) अर्वाक् और (२१) क्रीत।

२ ब्रह्मा। ३. मनु। ४. राजा। ५. सूर्य। ६. अग्नि। आग। ७. विश्वकर्मा। ८. पिना। वाप। ९. घर का मालिक या बड़ा। वह जो परिवार का पालन पोषण करता हो। १०. एक तारा। ११. जामाता। दामाद। १२. एक प्रकार का यज्ञ। १३. साठ सवत्सरो में से पाँचवाँ सवत्सर। १४. विष्णु का एक नाम [को०]। १५. आठ प्रकार के विवाहों में से एक प्रकार का विवाह। विशेष—दे० 'प्राजापत्य'। १६. लिगेंद्रिय।

प्रजापति^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] गौतम बुद्ध को पालनेवाली गौतमी का नाम।

प्रजापाल, प्रजापालक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रजा का पालन करनेवाला—राजा।

प्रजापालन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रजा का पालन करना [को०]।

प्रजापालि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शिव [को०]।

प्रजापाल्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] राजपद। राजा का पद [को०]।

प्रजायी—वि० [सं० प्रजायिन्] [वि० स्त्री० प्रजायिनी] उत्पन्न करनेवाला। पैदा करनेवाला [को०]।

प्रजायिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] माता।

प्रजारना ५ †—क्रि० सं० [सं० (प्रत्य०) प्र + हि० जारना] अच्छी तरह जलाना। उ०—(क) वाजहि डोल देहि सब तारी। नगर फेरि पुनि पूछ प्रजारी।—तुलसी (शब्द०)। (ख) प्रभवत प्रजारि सो करत छार।—पु० रा०, ६।७४। २. उद्दीप्त करना। जलाना। उ०—विकसत नव बल्ली कुसुम निकसत परिमल पाय। परसि प्रजारति विरह हिय बरसि रहे को वाय।—विहारी (शब्द०)।

प्रजावती—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ भाई की स्त्री। २. बड़े भाई की स्त्री। ३. प्रियव्रत राजा की स्त्री का नाम। ४. बहुत से लड़कों की माता। वह स्त्री जिसे कई सवतों हो। ५. गम्बती स्त्री।

प्रजावृद्धि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] संतानों की बढ़ती। सततिवृद्धि [को०]।

प्रजाव्यापार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रजा का हितवितन या देख रेल [को०]।

प्रजासत्ता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह शासन व्यवस्था जिसमें किसी देश के निवासियों या प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन

श्रीर न्याय आदि का सारा प्रवष करते हैं। प्रजा द्वारा संचालित राज्यप्रवष। प्रजातंत्र।

प्रजासत्ताक—वि० [सं० प्रजा + सत्ता + क (प्रत्य०)] दे० 'प्रजातात्रिक'।

प्रजासत्तात्मक—वि० [सं० प्रजा + सत्ता + आत्मक] प्रजातात्रिक। प्रजासत्ताक।

प्रजासृक्—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रजासृज्] पितामह। ब्रह्मा [को०]।

प्रजाहित—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जल। पानी।

प्रजाहृदय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का साम [को०]।

प्रजित्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विजेता। विजय करनेवाला।

प्रजिन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हवा। वायु। [को०]।

प्रजीवन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जीविका। रोजी।

प्रजुष्ण^(५)—वि० [सं० प्रज्वलित] दे० 'प्रज्वलित'। उ०—प्रजुष्ण बन्ही करे प्राजा।—रघु० ६०, पृ० २०७।

प्रजुरना^(५)—क्रि० घ० [म० प्रज्वलन] दे० 'प्रजरना'। उ०—प्रजुरे पतिसाहि सु कोप कियं। मनु ज्वाल विसाल सुघृत दिय।—ह० रासो, पृ० ४६।

प्रजुलित^(५)—वि० [सं० प्रज्वलित] दे० 'प्रज्वलित'। उ०—परति आय चहुँ शोर तँ प्रजुलित वेदिन माह।—शकुतला, पृ० ६०।

प्रजेप्सु—वि० [सं०] सतान की कामनावाला। सतान का इच्छुक। पुत्रेप्सु [को०]।

प्रजेश, प्रजेश्वर—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १ राजा। २ प्रजापति।

प्रजेस^(५)—सञ्ज्ञा पुं० [म० प्रजेश] दे० 'प्रजेश'। उ०—लगे कहत हरिकथा रसाला। दक्ष प्रजेस भए तेहि काला।—मानस, ३६०।

यौ०—प्रजेसकुमारी = दक्षकन्या। सती। उ०—एहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी।—मानस, १६०।

प्रजोग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रयोग] दे० 'प्रयोग'।

प्रज्वरना^(५)—क्रि० घ० [हि० प्रजरना] जल उठना। भमक उठना। प्रज्वलित होना। उ०—(क) प्रज्वरिग रोस मँवात ह द।—पृ० रा०, ८।४। (ख) प्रज्वरिग सोम सुनि श्रवन दूत।—पृ० रा०, ८।११।

प्रज्जाल^(५)—वि० [सं० प्रज्वलित] जलता हुआ। प्रज्वलित। धक्कता हुआ। उ०—प्रज्जाल माल हिचाल हलि कलि कलाप कलि उरलहिय।—पृ० रा०, ३२। १५४।

प्रज्जटिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक छद जिसके प्रत्येक चरण में ३६ मात्राएँ होती हैं। इसे पदरी, पदटिका, प्रज्वलय और प्रज्वलिया भी कहते हैं।

प्रज्ञ^१—वि० [सं०] १ जिसकी बुद्धि या ज्ञान प्रकृष्ट हो। मतिमान। २. जानकार। ज्ञाता।

प्रज्ञ^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० प्रज्ञा] विद्वान् व्यक्ति। जानकार आदमी।

प्रज्ञता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पाठित्य। विद्वत्ता।

प्रज्ञप्त—वि० [सं०] १. ज्ञात। संसूचित। २. निश्चित। निर्धारित। जैसे, बैठने का स्थान (को०)।

प्रज्ञप्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. जताने का भाव। ज्ञात कराने की क्रिया या भाव। २. सूचना। ३. संकेत। इशारा। ४. ज्ञान। प्रकृष्ट बुद्धि। ५. दे० 'प्रज्ञप्ती'। ६. प्रतिज्ञा। करार। कौल (को०)।

प्रज्ञप्ती—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] जेनों की एक विद्यादेवी।

प्रज्ञा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. बुद्धि। ज्ञान। ज्ञप्ति। मति। २. एकाग्रता। ३. सरस्वती। ४. विदुषी। पठिता (को०)। ५. वासना या सास्कार (को०)।

प्रज्ञाकाय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बौद्धों के आचार्य मज्जुषोष का एक नाम।

प्रज्ञाकूट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक बोधिसत्व का नाम।

प्रज्ञाचक्षु^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रज्ञा + चक्षुस्] १. घृतराष्ट्र। २. बुद्धि-रुसी नेत्र। ज्ञानरूपी नेत्र। ज्ञाननेत्र।

प्रज्ञाचक्षु^२—वि० १. बुद्धिमान। २. ज्ञानी। ३. सूर। अर्थात् क्योंकि उनकी बुद्धि ही आँख का काम करती है (व्यय में भी)।

प्रज्ञात—वि० [सं०] ३. ज्ञात। समझा हुआ। २. विवेचित। ३. स्पष्ट। साफ। ४. प्रसिद्ध। विख्यात [को०]।

प्रज्ञान^१—सञ्ज्ञा पुं० (सं०) १. बुद्धि। ज्ञान। २. चिह्न। निशान। ३. चैतन्य। ४. विद्वान् पुरुष।

प्रज्ञान^२—वि० विवेकी। ज्ञानवान् [को०]।

प्रज्ञापन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विशेष रूप से कहना या जताना। बतलाना [को०]।

प्रज्ञापन पत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शुक्रनीति के अनुसार वह पत्र जो प्राचीन काल में राजा की शेर से याज्ञिकों या ऋत्विजों को बुलाने के लिये भेजा जाता था।

प्रज्ञापारमिता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] बौद्ध ग्रंथों के अनुसार दस पारमिताओं (गुणों की पराकाष्ठा) में से एक जिसे गौतम बुद्ध ने अपने मर्कट जन्म में प्राप्त किया था। उ०—तप की तारुण्यमयी प्रतिमा, प्रज्ञापारमिता की गरिमा।—लहर, पृ० ३४।

प्रज्ञामय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विद्वान्। पठित।

प्रज्ञाल—वि० [सं०] प्रज्ञावाला। विद्वान् [को०]।

प्रज्ञावाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विद्वत्तापूर्ण कथन। ज्ञानोक्ति [को०]।

प्रज्ञावान—वि० [सं० प्रज्ञावत्, प्रज्ञावान्] बुद्धिमान। ज्ञानी [को०]।

प्रज्ञावृद्ध—वि० [सं०] बुद्धि में बढ़ावडा। ज्ञानवृद्ध [को०]।

प्रज्ञासहाय—वि० [सं०] बुद्धिमान। ज्ञानवान्। विद्वान् [को०]।

प्रज्ञाहीन—वि० [सं०] अज्ञानी। मूर्ख [को०]।

प्रज्ञिल—वि० [सं०] बुद्धिमान्। प्रज्ञी [को०]।

प्रज्ञी—वि० [सं० प्रज्ञिन्] [वि० स्त्री० प्रज्ञिनी] प्रज्ञावाला। बुद्धिमान्। ज्ञानी [को०]।

प्रज्वलन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रज्वलनीय, प्रज्वलित] जलने की क्रिया । जलना ।

प्रज्वलित—वि० [सं०] १. जलता हुआ । घबकता हुआ । दहकता हुआ । २. द्योतित । दीप्त । चमकीला (को०) । ३. बहुत स्पष्ट । बहुत साफ ।

प्रज्वलिया—सञ्ज्ञा पुं० [?] एक छद्म जिसके प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं ।

प्रज्वार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. बुखार की गर्मी । २. एक गधर्व का नाम ।

प्रज्वालन—क्रि० सं० [सं०] जलाना । दहकाना ।

प्रज्हीन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. चारों ओर उड़ना । उड़ुयन का एक प्रकार । २. उड़ना । उड़ान (को०) ।

प्रण^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिज्ञा, प्रा० पङ्कण, या सं० पण (= मोल, बानी)] किसी काम को करने के लिये किया हुआ घटल निश्चय । प्रतिज्ञा ।

मुहा०—प्रण पारना = प्रण पूरा करना । प्रतिज्ञा निभाना ।

प्रण^२—वि० [सं०] पुराना । प्राचीन ।

प्रणख—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नाखून के आगे का भाग ।

प्रणत^१—वि० [सं०] १. बहुत झुका हुआ । २. प्रणाम करता हुआ । ३. नम्र । दीन । ४. वक्र । टेढ़ामेढ़ा (को०) । ५. दक्ष । कुशल (को०) ।

यौ०—प्रणतकाय=झुके हुए शरीर का । जिसका शरीर नम्र या वक्र हो ।

प्रणत^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्रणाम करनेवाला व्यक्ति । २. दास । सेवक । ३. भक्त । उपासक ।

यौ०—प्रणतपाल ।

प्रणतपाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० प्रणतपालिका] दीनो, दासों या भक्त जनो का पालन करनेवाला । दीनरक्षक ।

प्रणतपालक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रणतपाल ।

प्रणति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. प्रणाम । प्रणिपात । दडवत । २. नम्रता । ३. दिनती । अनुनय ।

प्रणदन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जोर की आवाज । गर्जन (को०) ।

प्रणदित्त—वि० [सं०] १. गजित । शब्दित । २. गुजित (को०) ।

प्रणधि—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रणधि] दूत । उ०—प्रणधि, दूत, जासूस ए छवि पावत हलकार ।—नद० प्र०, पृ० १०८ ।

प्रणपत्ति(पु)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रणति, या प्रणिपात] दे० 'प्रणिपात' । उ०—सुंदर सतगुरु वदिए नमस्कार प्रणपत्ति ।—सुदर० प्र०, भा० २, पृ० ६६६ ।

प्रणमन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. झुकना । २. प्रणाम करना । दडवत या नमस्कार करना ।

प्रणमना(पु)—क्रि० सं० [सं० प्रणमन] प्रणाम करना । उ०—(क) प्रणमू हणुमत षंजनीपूत ।—वी० रासो, पृ० १०१ । (ख) सदगुरु प्रणम किशोर सचिव भमरेश सवाई ।—रघु० रू०, पृ० ४ ।

प्रणम्य—वि० [सं०] प्रणाम करने के योग्य । वदनीय ।

प्रणय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्रीतियुक्त प्रार्थना । २. प्रेम । उ०—
द्रवित दोनो ही हुए पाकर प्रणय का ताप ।—शकु०, पृ० ६ ।
३. विश्वास । भरोसा । ४. निर्वाण । मोक्ष । ५. श्रद्धा ।
६. प्रसव । स्त्री का सतान उत्पन्न करना । ७. इच्छा । आकांक्षा (को०) । ८. अनुग्रह । उदारता । दया । कृपा (को०) । ९. नेता । नायक (को०) । १०. निर्देशन । पथप्रदर्शन (को०) ।

यौ०—प्रणयकलह । प्रणयकुपित । प्रणयकोप । प्रणयपेशल = प्रेमार्द्र । प्रणयप्रवर्ष = प्रेमाधिवय । प्रेम का क्षतिरेक । प्रणयभग । प्रणयमान = प्रेमजन्य मान या ईर्ष्यादि । प्रणयवचन । प्रणयविघात, प्रणयविहति = मैत्री टूटना । प्रेम में व्याघात होना ।

प्रणयकलह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नायक और नायिका का वह कलह जो प्रेमोद्भूत हो । झगडा (को०) ।

प्रणयकुपित—वि० [सं०] प्रेमसंबंधी कलह से क्रुद्ध या रुष्ट (को०) ।

प्रणयकोप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रणयकलह । प्रणयजन्य रुठना । मान (को०) ।

प्रणयन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. रचना । बनाना । करना । २. लिखना । लेखन । निबंदध करना (को०) । ३. लाना । ले आना (को०) । ४. ले जाना (को०) । ५. वितरण । बाँटना (को०) । ६. (दड आदि) देना । लगाना । ७. निर्माण । रचना (को०) । ८. होम आदि के समय अग्नि का एक संस्कार ।

प्रणयनीय—वि० [सं०] प्रणयन के योग्य (को०) ।

प्रणयभग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रणयभङ्ग] १. प्रेमसंबंध समाप्त होना । प्रीतिभग । २. अविश्वसनीयता (को०) ।

प्रणयविमुख—वि० [सं०] प्रेम से विमुख होना । प्रेमसंबंध न रखना (को०) ।

प्रणयाकुल—वि० [सं० प्रणय + आकुल] प्रेमविह्वल । कामातुर । उ०—श्याम चिरेया का जोडा प्रणयाकुल हो रहा था ।—भस्मावृत०, पृ० ११ ।

प्रणयार्थी—वि० [सं० प्रणयार्थिन्] [वि० स्त्री० प्रणयार्थिनी] प्रणय की कामना करनेवाला । प्रेमाभिलाषी । उ०—प्रणयार्थियों की कमी न होने से, उसे उनकी परवाह न थी ।—पिजरे०, पृ० २३ ।

प्रणयिता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] अनुरक्ति । प्रीति । आसक्ति (को०) ।

प्रणयिनो—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. वह जिसके साथ प्रेम किया जाय । प्रेमिका । २. स्त्री । पत्नी ।

प्रणयी^१—[सं० प्रणयिन्] [स्त्री० प्रणयिनी] १. जिसके साथ प्रेम हो । प्रेम करनेवाला । प्रेमी । २. स्वामी । पति । ३. उपासक । सेवा करनेवाला । पूजक (को०) ।

प्रणयी^२—वि० [सं०] १. प्रणययुक्त । प्रेमयुक्त प्रेमी । २. घनिष्ठ । जिगरी (को०) ।

प्रणव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. ओकार । ब्रह्मबीज । ओकार मन्त्र ।

२ त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) । ३ परमेश्वर । ४ एक प्रकार का मृदग, पटह या ढोल (को०) ।

प्रणवक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रणव । अकार (को०) ।

प्रणवना—क्रि० सं० [सं० प्रणमन] प्रणाम करना । नमस्कार करना । श्रद्धा और नम्रतापूर्वक किसी के सामने झुकना । उ०—
(क) पुनि प्रणवो पृथुराज समाना । पर अध सुनै सहस्र दस काना । —तुलसी (शब्द०) । (ख) प्रणवो पवनकुमार खलवनपावक ज्ञानधन । —तुलसी (शब्द०) ।

प्रणवट—वि० [सं०] दे० 'प्रणव', 'प्रणवट' ।

प्रणस—वि० [सं०] जिसकी नासिका बड़ी हो । दीघघोण (को०) ।

प्रणाडिका, प्रणाडो—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रणाली' (को०) ।

प्रणाद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ बहुत जोर से होनेवाला शब्द । २ वह शब्द जो आनन्द के साथ मुँह से निकले । आनन्दध्वनि । ३ कर्णनाद नाम का रोग जिसमें कानों में तरह तरह की भूँज सुनाई देती है । ४ आतं पुकार । गुहार (को०) । ५ घोरगुल । चिल्लाहट । हल्ला (को०) । ६ हर्षनाद का स्वर । जयध्वनि (को०) । ७ घोड़े की हिनहिनाहट । हेषा । हेषा (को०) ।

प्रणाम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ झुकना । नत होना । २ श्रद्धा की अभिव्यक्ति करना । हाथ जोड़ना । विनीत होना । ३ लेटकर दहवत करना (को०) ।

प्रणामांजलि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दोनों हाथ जोडकर प्रणाम करना । (को०) ।

प्रणामो—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रणामिन्] १ प्रणाम करनेवाला । नमन करनेवाला । झुकनेवाला । २ प्रमाण के साथ दी जानेवाली भेंट ।

प्रणायक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जो मार्ग दिखलाता हो । नेता । २ सेनानायक ।

प्रणाय्य—वि० [सं०] १ प्रीतिपात्र । प्रिय । २ विश्वस्त । ठीक । दुरुस्त । ३ अवाञ्छित । असमत । अयोग्य । ४ विरक्त । निस्पृह । ५ साधु (को०) ।

प्रणाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जल निकलने का मार्ग । पनाला ।

प्रणालिका—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पानी निकलने का मार्ग । परनाली । नाली । २ बहूक की नली ।

प्रणाली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. पानी निकलने का मार्ग । नाली । उ०—पर, ओ मानस के जल, मत वह नयन प्रणाली से तू छल छल । —अपलक, पृ० ७ । २. रीति । चाल । परिपाटी । प्रथा । ३ पद्धति । ढंग । तरीका । कायदा । ४ द्वार । ५ परपरा । ६ वह छोटा जलमार्ग जो जल के दो बड़े भागों को मिलाता हो ।

प्रणाश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. नाश । बरबादी । २ मृत्यु । मौत । ३ भागना । लुप्त होना ।

प्रणाशन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. नाश करने की क्रिया या भाव । २ विनाश । बरबादी ।

प्रणाशी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रणाशिन्] [स्त्री० प्रणाशिनी] नाश करनेवाला । वह जो नष्ट करे ।

प्रणिसित—वि० [सं०] चुंबित (को०) ।

प्रणिधान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ रखा जाना । २. प्रयत्न । ३. समाधि (योग) । ४ अत्यंत भक्ति । अति अधिक उपासना । ५ ध्यान । चित्त की एकाग्रता । ६ किसी कर्म के फल का त्याग । ७. अर्पण । ८ भक्ति । उ०—दुस्वर क्या है उसे विश्व में प्राप्त जिसे प्रभु का प्रणिधान ।—साकेत, पृ० ३८८ । ९ भावी जन्म के सबंध में किसी प्रकार की प्रार्थना । १०. प्रवेश । गति । ११. उपयोग । प्रयोग । व्यवहार ।

प्रणिधायी—वि० [सं० प्रणिधायिन्] प्रणिधान करनेवाला । दूत का प्रेषण या नियोजन करनेवाला (को०) ।

प्रणिधि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १, भेदिया । गुप्तचर । गोइ दा । २ प्रार्थना । ३ मांगना । ४ भेद लेना । रहस्य जानना (को०) । ५. पीछे पीछे चलनेवाला । अनुगत । अनुचर (को०) । ६. श्रवधान । ध्यान । सावधानी (को०) । ७ हाथी को हँकने की एक विधि (को०) । ८ चर वा जासूस भेजना (को०) ।

प्रणिधेय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ गुप्तचर भेजना । २ उपयोग । प्रयोग । नियोजन (को०) ।

प्रणिनाद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गंभीर ध्वनि । घोर निनाद (को०) ।

प्रणिपतन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] २ प्रणाम । २. पैर पहना ।

प्रणिपात—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रणाम । २ पैरो पर गिरना ।

प्रणिहित—वि० [सं०] १ जिसकी स्थापना की गई हो । स्थापित । २ मिला हुआ । मिश्रित । ३ पाया हुआ । प्राप्त । ४. रखा हुआ । सौंपा हुआ । ५ गुप्त रूप से ज्ञात (को०) । ६. सतर्क । सचेष्ट (को०) । ७. समाधिस्थित । समाधिस्थ (को०) । ८ कृत-निश्चय । कृतसकल्प (को०) ।

प्रणो—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ईश्वर ।

प्रणोत^१—वि० [सं०] १ रचित । बनाया हुआ । तैयार किया हुआ । निर्मित । उ०—कोट कलशो पर प्रणोत विहग है, ठीक जैसे रूप वैसे रंग हैं ।—साकेत, पृ० ५ । २ सस्कृत । सुधारा हुआ । सशोधित । ३ भेजा हुआ । ४ लाया हुआ । ५ फेंका हुआ । ६ पास पहुँचाया हुआ । ७. जिसका मन्त्र से सस्कार किया गया हो । ८. विहित (को०) । ९ (वंदनादि) लगाया हुआ । आरोपित (को०) ।

प्रणोत^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. वह जल जिसका मन्त्र से सस्कार किया गया हो । २. यज्ञ के मन्त्र से सस्कृत की हुई अग्नि । ३. अच्छी तरह पकाया हुआ भोजन ।

प्रणोता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. वह जल जो यज्ञ के कार्य के लिये वेदमन्त्रों को पढते हुए कुण्ड से निकाला जाता है और मन्त्रों के उच्चारण सहित छानकर रखा जाता है । २. वह पात्र जिसमें उपयुक्त जल रखा जाता है ।

प्रणोय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह वैदिक मन्त्र जिससे किसी चीज का सस्कार किया जाय ।

प्रणुत—वि० [सं०] स्तुत । प्रशंसित (को०) ।

प्रगुत्त^२—वि० [सं०] १. भगाया या हटाया हुआ । २. निकाला हुआ । निष्कासित [को०] ।

प्रगुन्न—वि० [सं०] १. फेंका हुआ । प्रेरित । २. प्रेषित । भेजा हुआ । ३. कर्पता या हिलता हुआ । ४. जो गति में लाया गया हो । ५. भगाया या हटाया हुआ [को०] ।

प्रयेजन—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १. स्नान करने का जल । नहाने का पानी । २. स्नान करना । नहाना । ३. धोना । पखारना । प्रक्षालन [को०] ।

प्रयेता—सञ्ज्ञा पु० [सं० प्रयेत्] [स्त्री० प्रयेत्री] १. निर्माण करनेवाला । बनानेवाला । कर्ता । २. रचयिता । लेखक । जैसे, पुस्तकप्रयेता । ३. नेता । अगुआ (को०) । ४. किसी मत या वाद का प्रवर्तक (को०) । ५. वादक (को०) ।

प्रयेय—वि० [सं०] १. जिसके लौकिक सस्कार हो चुके हो । २. अघीन । वशवर्ती । ३. जिसका नेतृत्व या पथप्रदर्शन किया जाय (को०) । ४. करने योग्य । अवश्य संपन्न करने योग्य (को०) । ५. ले जाने योग्य । जो ले जाया जाय । प्रापण्य (को०) ।

प्रयेद—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १. प्रेरण । संचालन । निर्देशन । २. प्रेषण । भेजना [को०] ।

प्रयेदिस—वि० [सं०] १. प्रेरित । प्रोत्साहित । २. निर्देशित । ३. संचालित । उ०—वीर राजपूत योद्धाओं की कहानियों से वह सदा प्रयेदित हुए हैं ।—प्रेम० शौर गोकर्ण, पृ० १०३ ।

प्रतग्या^७—सञ्ज्ञा स्त्री [सं० प्रतिज्ञा] दे० 'प्रतिज्ञा' । उ०—श्री महाराज के काम चाहे प्रतग्या के निवाह ।—रा० रू०, पृ० १५० ।

प्रतचा^७—सञ्ज्ञा स्त्री [सं० प्रत्यञ्चा] दे० 'प्रत्यचा' । उ०—रहें खुली ही म्यान प्रतचे नहि उतरें छन ।—भारतेंदु प्र०, भा० १, पृ० ५२४ ।

प्रत^१—अव्य० [हिं०] दे० 'प्रति' । उ०—श्री राजा धृतराष्ट्र सजे प्रत पूछत है ।—पोद्दार अभि० प्र०, पृ० ४८३ ।

प्रतउत्तर^७—सञ्ज्ञा पु० [सं० प्रति + उत्तर हिं०] जवाब । प्रत्युत्तर । उ०—प्रतउत्तर कर जोर कहि, सुनहु पगु महाराज ।—प० रासो, पृ० १७३ ।

प्रतक्ष^७—वि० [सं० प्रत्यक्ष] दे० 'प्रत्यक्ष' । उ०—अमली समली धारती, जाणि प्रतक्ष उगीयो धूर ।—बी० रासो, पृ० १६ ।

प्रतगू^७—सञ्ज्ञा पु० [हिं०] दे० 'प्रतिज्ञा' । उ०—सूतर सडगू सार नगू जन प्रतगू राख ए ।—राम० धर्म०, पृ०-२८१ ।

प्रतच्छ^७—वि० [सं० प्रत्यक्ष] दे० 'प्रत्यक्ष' । उ०—जान्यो नहि कहि तप किए इह फल होत प्रतच्छ ।—प्रज० प्र०, पृ० ११७ ।

प्रतक्षि^७—वि० [सं० प्रत्यक्ष] दे० 'प्रत्यक्ष' । उ०—प्रतक्षि विरह के सुनि अब लक्षिन । चकित होत तहें वडे विचच्छिन ।—नद० प्र०, पृ० १६२ ।

प्रतत्त—वि० [सं०] १. तना या फैला हुआ । विस्तृत । खबा चौड़ा । २. आवृत्त । ढका हुआ ।

प्रतित—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] १. विस्तार । फैलाव । २. लता । बल्ली (को०) ।

प्रतन—वि० [सं०] पुराना । प्राचीन ।

प्रतना^७—सञ्ज्ञा स्त्री [सं० पृतना] चमू । वाहिनी । पृतना । उ०—प्रतना ध्वजनी वाहिनी चमू बरुधिनि ऐन ।—अनेकार्थ०, पृ० १०५ ।

प्रतनु—वि० [सं०] १. क्षीण । दुबला । उ०—प्रतनु धरदिदु वर, पथ जलविदु पर, स्वप्न जागृति सुधर ।—अपरा, पृ० १२ । २. वार्गीक । सूक्ष्म । ३. बहुत छोटा । अत्यल्प । ४. तुच्छ ।

प्रतप—सञ्ज्ञा पु० [सं०] सूर्य की गर्मी । सूर्य का ताप [को०] ।

प्रतपत्र—सञ्ज्ञा पु० [सं०] प्रातपत्र । छाता । छत्र [को०] ।

प्रतपन—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १. तपाना । तप्त करना । २. उत्ताप । ताप । गरमी ।

प्रतपना^७—क्रि० प्र० [सं० प्रतपन] तपना । प्रभुत्व स्थापित होना । प्रातक फैलना । उ०—रूहड़ तणै तखत छयधारी । रायपाल प्रतपे रोसारी ।—रा० रू०, पृ० १३ ।

प्रतप्त—वि० [सं०] १. तपाया हुआ । जो बहुत गरम किया गया हो । २. पीड़ित । जो बहुत सताया गया हो [को०] ।

प्रतवव^७—सञ्ज्ञा पु० [सं० प्रतिविम्ब] दे० 'प्रतिविम्ब' । उ०—तरखातप टाप बगचरय । प्रतवव चमकत पखरय ।—रा० रू०, पृ० ८१ ।

प्रतमक—सञ्ज्ञा पु० [सं०] एक प्रकार का दमा ।

प्रतमाली—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] कटारी । (ढि०) ।

प्रतर—सञ्ज्ञा पु० [सं०] पार करना । तरण करना [को०] ।

प्रतर्क—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १. तर्क । वाद विवाद । २. अनुमान । सोचना विचारना । ३. शोधना । खोजना ।

प्रतर्कण—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १. वादविवाद करना । तर्क करना । २. संदेह (को०) । ३. तक शास्त्र (को०) ।

प्रतर्कना—सञ्ज्ञा स्त्री [सं० प्रतर्कण] ऊहापोह । सशय । संदेह । तक ।

प्रतर्क्य—वि० [सं०] तर्कनीय । तर्क करने योग्य । कल्पनीय [को०] ।

प्रतदन—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १. काशी का एक प्रख्यात राजा ।

विशेष—यह राजा दिवोदास का पुत्र था और इसका विवाह मदालसा के साथ हुआ था । यह राजा रामचंद्र जी के समय में था ।

२. एक प्रचीन ऋषि का नाम । ३. विष्णु । ४. ताड़ना । ताड़न । ५. ताड़ना करनेवाला ।

प्रतल—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १. हाथ की हथेली । पजा । २. सप्त अधोलोक में से एक । पाताल के सातवें भाग का नाम ।

प्रतष^७—वि० [सं० प्रत्यक्ष] दे० 'प्रत्यक्ष' । उ०—अणु भजिया भजिया तणी, दीखै प्रतष दुसाल ।—रघु० रू०, पृ० ४१ ।

प्रतान^१—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १. अतानक नामक रोग जिसमें वार बार मूर्च्छा आती है । २. एक प्राचीन ऋषि का नाम । ३. बेल । लता । उ०—अतती बिसनी बल्ली बल्ली लता प्रतान ।

—अनेकार्थं, पृ० ८८ । ४. रेशा या लतास्तु । ५. प्रस्तार ।
विस्तार (को०) ।

प्रतान^२—वि० [सं०] १ विस्तृत । लवा चौड़ा । २ रेशेदार ।
जिसमें रेशे हों ।

प्रतानिनी—सज्ञा स्त्री० [सं०] फैलनेवाली लता । वल्ली (को०) ।

प्रतानी—वि० [सं० प्रतानिन्] [वि० स्त्री० प्रताभिनी] १ फैलने-
वाला । विस्तृत होनेवाला । फैला हुआ । २ रेशेदार ।
जिसमें रेशे हों (को०) ।

प्रताप—सज्ञा पुं० [सं०] १ पौरुष । मरदानगी । वीरता । २. बल,
पराक्रम आदि महत्त्व का ऐसा प्रभाव जिसके कारण उपद्रवी
या विरोधी शांत रहें । तेज । इकवाल । ३. मदार का पेड़ ।
४ रामचंद्र के एक सखा का नाम । ५ युवराज का छत्र ।
६ ताप । गरमी ।

प्रतापन^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ पीडन । कष्ट पहुँचाना । २ कुंभी-
पाक नरक । ३ विष्णु । ४. शिव (को०) ।

प्रतापन^२—वि० क्लेश देनेवाला । वष्ट देनेवाला ।

प्रतापघान^१—वि० [सं० प्रतापयन्] [वि० स्त्री० प्रतापवती]
प्रतापयुक्त । जिसमें प्रताप हो । इकवालमद ।

प्रतापवान^२—सज्ञा पुं० १. विष्णु । २ शिव का नाम (को०) ।

प्रतापस—सज्ञा पुं० [सं०] १. सफेद मदार । २ महाद्व तपस्वी (को०) ।

प्रतापी^१—वि० [सं० प्रतापिन्] १ प्रतापवान् । इकवालमद ।
जिसका प्रताप हो । २ सतानेवाला । दुःखदायी ।

प्रतापी—सज्ञा पुं० [सं०] रामचंद्र के एक सखा का नाम । उ०—
हुवन प्रताप तहाँ, परम प्रतापी राम वचन उचारे हैं ।—
रघुराज (शब्द०) ।

प्रतारक—सज्ञा पुं० [सं०] १ वचक । ठग । २ घूर्त । चालाक ।

प्रतारण—सज्ञा पुं० [सं०] १ वचना । ठगी । २. घूर्तता ।

प्रतारणा—सज्ञा स्त्री० [सं०] प्रतारण । वचना । ठगी ।

प्रतारित—सज्ञा पुं० [सं०] जो ठगा गया हो ।

प्रतिचा—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रत्यञ्चा वा पतञ्जिका] घनुष को डोरी ।
ज्या । चिल्ला ।

प्रति^१—अव्य० [सं०] एक उपसर्ग जो शब्दों के आरम्भ में लगाया
जाता है और निम्नांकित अर्थ देता है—१. विरुद्ध ।
विपरीत । जैसे, प्रतिकूल, प्रतिकार । २ सामने । जैसे,
प्रत्यक्ष । ३ बदले में । जैसे, प्रत्युत्कार, प्रतिहिंसा, प्रति-
व्वनि । ४. हर एक । एक एक । जैसे, प्रत्येक, प्रतिदिन,
प्रतिक्षण । उ०—कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु
चरित नाना विधि करहीं ।—मानस १।१४० । ५ समान ।
सदृश । जैसे प्रतिनिधि, प्रतिकृति । प्रतिलिपि । ६ मुका-
बले का । जोड़ का । जैसे, प्रतिभट, प्रतिवादी, प्रत्युत्तर ।
इसके अतिरिक्त कहीं कहीं यह उपसर्ग 'रूपर', 'अश',
'अप्रमाण' आदि का भी अर्थ देता है ।

प्रति^२—अव्य० १. सामने । मुकाबिले में । २ ओर । तरफ । लक्ष्य
किए हुए । जैसे, किसी के प्रति श्रद्धा रखना ।

प्रति^३—सज्ञा स्त्री० १. नकल । कापी । २. एक ही प्रकार की कई
वस्तुओं में अगल अगल एक एक वस्तु । अदद । जैसे,—
इस पुस्तक की दस प्रतियाँ ले लो ।

प्रतिउत्तर—सज्ञा पुं० [सं० प्रति + उत्तर, प्रत्युत्तर] दे० 'प्रत्युत्तर' ।
उ०—प्रति उत्तर उद्दपति न दिय त्रिया क्रोव मन मानि ।
—प० रासो, पृ० १० ।

प्रतिकंचुक—सज्ञा पुं० [सं० प्रतिकञ्चुक] शत्रु । दुश्मन ।

प्रतिक—वि० [सं०] एक कार्षापण में क्रीत । एक कार्षापण मूल्य
का (को०) ।

प्रतिकर—सज्ञा पुं० [सं०] १ प्रतिशोध । बदला । २ प्रतिरोध ।
विक्षेप । ३ क्षतिपूर्ति । ४ फैलाव । विस्तीर्णता (को०) ।

प्रतिकरणीय—वि० [सं०] १ जिसका प्रतिकार किया जाय ।
२ जो प्रतिरोध करने योग्य हो (को०) ।

प्रतिकर्तव्य—वि० [सं०] १ जो चुकाया जाय (जैसे, ऋण आदि) ।
२ जिसका प्रतिकार किया जाय । ३ (रोगादि) जिसकी
चिकित्सा की जाय (को०) ।

प्रतिकर्ता—वि० पुं० [सं० प्रतिकर्तृ] १ प्रतिशोध करनेवाला । प्रति-
कार करनेवाला । २ क्षतिपूर्ति करनेवाला (को०) ।

प्रतिकर्म—सज्ञा पुं० [सं० प्रतिकर्मन्] १. वेश । भेस । २. प्रतीकार ।
बदला । ३. वह कर्म जो किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित हो ।
किसी कार्य के होने पर होनेवाला कार्य । किसी काम
के जवाब में होनेवाला काम । ४ शरीर को सँवारना ।
अगकर्म ।

प्रतिकर्ष—सज्ञा पुं० [सं०] एक स्थान पर करना । एकत्र करना ।
संयोजन (को०) ।

प्रतिकश—वि० [सं०] कशाघात को न माननेवाला (घोड़ा) । सर-
कश (को०) ।

प्रतिकष—सज्ञा पुं० [सं०] १. नेता । २. सहायक । ३. दूत ।
वार्ताहर । चर (को०) ।

प्रतिकामिनी—सज्ञा स्त्री० [सं०] सपत्नी । सीत ।

प्रतिकाय—सज्ञा पुं० [सं०] १. पुतला । प्रतिरूप मूर्ति । चित्र ।
२ शत्रु । शरि । ३. लक्ष्य । शरव्य (को०) ।

प्रतिकार—सज्ञा पुं० [सं०] १. वह कार्य जो किसी कार्य को रोकने
दवाने अथवा उसका बदला चुकाने के लिये किया जाय ।
प्रतीकार । बदला । जवाब । किसी बात का उचित उपाय ।
जैसे,—(क) छाते से धूप का प्रतिकार हो जाता है । (ख)
घ्राप अपने पाप का कुछ प्रतिकार कीजिए । उ०—वां.
पीसकर, थोठ काटकर, करता है वह ऋद्ध प्रहार ।
हंस हंसकर ही प्रभु सवका करते हैं पल मे प्रतिकार ।
साकेत, पृ० ३६३ । २ विकित्सा । इलाज । ३. एक का
की स धि जिसमें कृत उपकार के बदले उपकार किया जा
(को०) । ४. साहाय्य । सहायता (को०) ।

प्रतिकारक—सञ्ज्ञा पुं० [म०] प्रतिकार करनेवाला । बदला चुकाने-वाला ।

प्रतिकारी—वि० [सं० प्रतिकारिन्] प्रतिकार करनेवाला । प्रतिरोध करनेवाला [को०] ।

प्रतिकार्य—वि० [सं० प्रतिकार्यं] जो प्रतिकार करने के योग्य हो । जिसका प्रतिकार किया जा सके ।

प्रतिकाश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्रतिरूप । प्रतीकाश । २ सादृश्य । तुल्यता [को०] ।

प्रतिकितव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जुआरी के मुकाबले में लूमा खेलनेवाला जुआरी । जुआरी का जोड़ ।

प्रतिकुचित्त—वि० [सं० प्रतिकुञ्चित्त] टेढ़ा । झुका हुआ [को०] ।

प्रतिकूप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] परिखा । खाई ।

प्रतिकूल^१—वि० [सं०] १ जो अनुकूल न हो । खिलाफ । उलटा । विरुद्ध । विपरीत । २ कष्टकर । अरुचिकर [को०] । ३ हठी । दुराग्रही [को०] ।

यौ०—प्रतिकूलकारी, प्रतिकूलकृत, प्रतिकूलचारी = विरुद्ध आचरण या काम करनेवाला । प्रतिकूलदर्शन = जिसका दर्शन अप्रिय वा अशुभ हो । प्रतिकूलप्रवर्ती । प्रतिकूलवाद । प्रतिकूलवृत्ति = विरोधी ।

प्रतिकूल^२—सञ्ज्ञा पुं० १ वह जो विरोध या प्रतिकूलता करे । प्रतिपक्षी । विरोधी । २ विरोध । प्रतिरोध [को०] ।

प्रतिकूलता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रतिकूल आचरण । प्रतिकूल होने का भाव या क्रिया । विरोध । विपरीतता ।

प्रतिकूलत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रतिकूलता' ।

प्रतिकूलप्रवर्ती—वि० [सं० प्रतिकूलप्रवर्तिन्] १ (पोत) जो गलत मार्ग पर हो । २ (जीम) जो अनुचित बोले [को०] ।

प्रतिकूलवाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विरोध । खडन । २ शत्रुता [को०] ।

प्रतिकूला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सौत । सपत्नी ।

प्रतिकूलिक—वि० [सं०] शत्रु । विरोधी [को०] ।

प्रतिकृत^१—वि० [सं०] १. जिसका बदला हो चुका हो । जिसके जवाब या बदले में कोई बात की जा चुकी हो । २ जिसका उपाय किया जा चुका हो । जिसके विरुद्ध प्रयत्न किया जा चुका हो ।

प्रतिकृत—सञ्ज्ञा पुं० १ विरोध । २ हरजाना । क्षतिपूर्ति [को०] ।

प्रतिकृति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ प्रतिमा । प्रतिमूर्ति । २. तसवीर । चित्र । ३ प्रतिविम्ब । छाया । ४. बदला । प्रतीकार । ५ पूजा ।

प्रतिकृत्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जो प्रतिकार करने के योग्य हो ।

प्रतिकृष्ट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह जो बहुत ही निन्दित या बुरा हो । निकृष्ट । २ दो बार का जोता हुआ खेत ।

प्रतिकोप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] किसी विरोध के प्रति क्रोध का होना [को०] ।

प्रतिक्रम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रतिकूल कार्य । विपरीत आचार । विपरीत क्रम [को०] ।

प्रतिक्रांति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रत्ति+क्रान्ति] एक क्रांति के विरोध-स्वरूप होनेवाली दूसरी क्रांति । उ०—इस तरह युगहर की क्रांति दबा दी गई और प्रतिक्रांति का पल्ला भारी रहा ।—फिन्नर०, पृ० २० ।

प्रतिक्रिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ प्रतिकार । बदला । २ एक और कोई क्रिया होने पर उसके परिणामस्वरूप दूसरी और होनेवाली क्रिया । ३ सजावट । सत्कार । ४. शमन या निवारण का उपाय ।

प्रतिक्रियावादी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिक्रिया + वादिन्] किसी कार्य के विरोध में कार्य करनेवाला व्यक्ति [को०] ।

प्रतिकृष्ट—वि० [सं०] दीन । दया करने योग्य [को०] ।

प्रतिक्रूर—वि० [सं०] प्रतिकार में क्रूर । अत्यन्त निर्दय [को०] ।

प्रतिक्रोध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह क्रोध जो किसी के क्रोध करने पर उत्पन्न हो [को०] ।

प्रतिकृण—वि० [सं०] हर दम । हर क्षण । निरन्तर ।

प्रतिकृत्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] रक्षक । रक्षा करनेवाला ।

प्रतिकृप्त^१—वि० [सं०] १. रोका हुआ । २. फँका हुआ । ३. भेजा हुआ । ४. निन्दित । ५. अपवादप्रस्त [को०] । ६. बुलाकर वापस किया हुआ [को०] । ७. स्पर्धा के कारण किसी के द्वारा तिरस्कृत [को०] । ८. जिसे क्षति या घोट पहुँचाई गई हो [को०] ।

प्रतिकृप्त—सञ्ज्ञा पुं० शोषण । दवा [को०] ।

प्रतिकृत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] छींक । छिक्का [को०] ।

प्रतिकृप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ फेंकना । २. रोकना । ३. तिरस्कार । ४. होठ । स्पर्धा [को०] ।

प्रतिकृपण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रतिकृप' [को०] ।

प्रतिकृर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह मूढ़ गर्भ जिसमें बालक हाथ पैर बाहर निकालकर अपने घड़ और सिर से योनि मार्ग को रोक दे ।

प्रतिकृत्य—वि० [सं०] बहुत प्रसिद्ध ।

प्रतिकृत्यति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] बहुत अधिक प्रसिद्धि ।

प्रतिकृत^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वापस होना । लौटना । २ पक्षियों की एक प्रकार की गति । पक्षियों का आगे पीछे इधर उधर उड़ना ।

प्रतिकृत^२—वि० १ लौटा हुआ । जो वापस आया हो । २ भूला हुआ । विस्मृत [को०] । ३ इधर उधर या आगे पीछे की ओर उड़ता हुआ [को०] ।

प्रतिकृत्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वापस जाना । लौटना [को०] ।

प्रतिकृत्यना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] किसी गर्जन या हुंकार के उत्तर में गरजना [को०] ।

प्रतिकृत्य—वि० [सं०] निन्दित । अपवादयुक्त [को०] ।

प्रतिगामिता—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] प्रतिगामी होने का भाव । वापस लौटने या पीछे जाने की स्थिति । उ०—प्रगतिवादी वधुप्रो की प्रगतिशीलता, जैसा मैं कह चुका, वास्तव में प्रतिगामिता है ।—प्र० सा०, पृ० ७६

प्रतिगिरि—सञ्ज्ञा पुं० [स०] १. छोटा पहाड़ । पहाड़ी । २. वह जो देखने में पहाड़ के समान हो ।

प्रतिगृह—अव्य० [स०] प्रत्येक घर में । घर घर [को०] ।

प्रतिगृहीत—वि० [स०] १. जो ले लिया गया हो । अंगीकृत । २. जो ग्रहण कर लिया गया हो । ३. विवाहित (को०) ।

प्रतिगृहीता—सञ्ज्ञा स्त्री० [स०] वह स्त्री जिमका पाणिग्रहण किया गया हो । धर्मपत्नी ।

प्रतिगृह्य—वि० [स०] जो ग्रहण करने योग्य हो । लेने लायक ।

प्रतिगृह्य—अव्य० [स०] दे० 'प्रतिगृह्य' ।

प्रतिग्या(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [म० प्रतिज्ञा] दे० 'प्रतिज्ञा' ।

प्रतिग्रह—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १. स्वीकार । ग्रहण । २. उस दान का लेना जो ब्राह्मण को विधिपूर्वक दिया जाय । इस प्रकार का दान लेना ब्राह्मण के छह कर्मों में से एक है । ३. परूढना । अधिकार में लाना । ४. पाणिग्रहण । विवाह । जैसे, दारप्रतिग्रह । ५. ग्रहण । उपराग । ६. स्वागत । अभ्यर्थना । ७. विरोध करना । मुकाबला करना । ८. उत्तर देना । जवाब देना । ९. सेना का पिछला भाग । १०. उगालदान । पीकदान । ११. अनुग्रह । भेंट । उपहार (को०) । १२. श्रवण करना । सुनना (को०) । १३. स्वीकरण (को०) । १४. कर्त्तन करनेवाला । काटने छाटनेवाला । जैसे, केश-प्रतिग्रह = नापित (को०) । १५. ग्रहण करनेवाला । वह जो ग्रहण करे । ग्रहीता (को०) ।

प्रतिग्रहण—सञ्ज्ञा पुं० [स०] १. प्रतिग्रह । विधिपूर्वक दिया हुआ दान भेंट आदि लेना । २. आदान । ग्रहण । स्वीकार (को०) । ३. विवाह । पाणिग्रहण (को०) । ४. पात्र । वर्तन (को०) ।

प्रतिग्रही—सञ्ज्ञा पुं० [स० प्रतिग्रहीन्] प्रतिग्रह लेनेवाला । दान लेनेवाला ।

प्रतिग्रहीता—सञ्ज्ञा पुं० [म० प्रतिग्रहीन्] १. दान ग्रहण करने या लेनेवाला । प्रतिग्रही । २. पति (को०) ।

प्रतिग्राह—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १. प्रतिग्रह । ग्रहण करना । लेना । २. पीकदान । उगालदान ।

प्रतिग्राहक—वि० सञ्ज्ञा पुं० [स०] प्रतिग्रह लेनेवाला । दान लेनेवाला ।

प्रतिग्राही—वि० सञ्ज्ञा पुं० [स० प्रतिग्राहिन्] दान लेनेवाला । उ०—प्रतिग्राही जीवै नहीं दाता नरकै जाय ।—तुलसी ग्र०, पृ० १४८ ।

प्रतिग्राह्य—वि० [स०] ग्रहण करने योग्य । लेने लायक । स्वीकरणीय ।

प्रतिघ^१—सञ्ज्ञा पुं० [स०] १. श्लोघ । गुस्सा । २. मारना । ३. मार-पीट । लडाईं । ४. मुर्छा । बेहोशी । ५. रुकावट । विरोध । बाधा । ६. शत्रु । दुश्मन ।

प्रतिघ^२—वि० १. रुकावट डालनेवाला । बाधक । विरोधी । २. प्रतिकूल । विरुद्ध । शत्रुता करनेवाला ।

प्रतिघात—सञ्ज्ञा स्त्री० [स०] १. वह आघात जो किसी दूसरे के आघात करने पर किया जाय । २. वह आघात जो एक आघात लगने पर आपसे आप उत्पन्न हो । टक्कर । ३. रुकावट । बाधा । ४. दूरीकरण । निवारण (को०) । ५. मारना । मारण (को०) ।

प्रतिघातक—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [म०] प्रतिघात करनेवाला । शत्रु । वैरी । प्रतिघाती ।

प्रतिघातन—सञ्ज्ञा पुं० [स०] १. जान से मार डालना । प्राणघात । हत्या । २. बाधा । रुकावट । निवारण ।

प्रतिघाती^१—सञ्ज्ञा पुं० [स० प्रतिघातिन्] [स्त्री० प्रतिघातिनी] प्रतिघात करनेवाला । शत्रु । वैरी । दुश्मन । ढकेलनेवाला । प्रतिद्वंद्वी ।

प्रतिघाती^२—वि० १. मुकाबला करनेवाला । विरोध करनेवाला । प्रतिद्वंद्वी । २. टक्कर मारनेवाला ।

प्रतिघ्न—सञ्ज्ञा पुं० [म०] शरीर । वदन ।

प्रतिचक्र—सञ्ज्ञा पुं० [स०] शत्रुमेना । परचक्र (को०) ।

प्रतिचक्षण—सञ्ज्ञा पुं० [स०] श्रवलोकना । देखना ।

प्रतिचंद्र—सञ्ज्ञा पुं० [स० प्रतिचन्द्र] आकाशीय उत्पात । चन्द्र-भास (को०) ।

प्रतिचार—सञ्ज्ञा पुं० [स०] बनाव । सजाव । शृंगार । प्रसाधन (को०) ।

प्रतिचारित—वि० [स०] प्रचारित । विज्ञापित । घोषित (को०) ।

प्रतिचारो—वि० [स० प्रतिचारिन्] अभ्यास करनेवाला । मशक करनेवाला (को०) ।

प्रतिचिंतन—सञ्ज्ञा पुं० [स० प्रतिचिन्तन] फिर से विचार करना । पुनर्विचार ।

प्रतिचिकीर्षा—स्त्री० [स०] प्रतिकार या विरोध करने की इच्छा (को०) ।

प्रतिचोदित—वि० [स०] प्रेरित । उकसाया हुआ । उत्तेजित (को०) ।

प्रतिच्छंद—सञ्ज्ञा पुं० [स० प्रतिच्छन्द] आकार । मूर्ति । प्रतिभा । चित्र (को०) ।

प्रतिच्छदक—सञ्ज्ञा पुं० [स० प्रतिच्छन्दक] दे० 'प्रतिच्छद' ।

प्रतिच्छदन—सञ्ज्ञा पुं० [म०] आवरण । आच्छादन (को०) ।

प्रतिच्छन(७)—क्रि० वि० [स० प्रति + चण] प्रत्येक क्षण । हर समय । उ०—साहि तनै सरजा तव द्वार प्रतिच्छन दान के दुंदुभि वाजै ।—भूषण ग्र०, पृ० २७ ।

प्रतिच्छन्न—वि० [स०] १. आवृत । आच्छादित । २. छिपा हुआ । अप्रकट । गुप्त (को०) ।

प्रतिच्छवि—सञ्ज्ञा स्त्री० [स०] प्रतिच्छाया । प्रतिबिंब । परछाईं । उ०—अरण्य जलज के शोण कोण ये, नव तुपार के ब भरे । मुकुर चूर्ण बन रहे प्रतिच्छवि, कितनी साथ लि बिखरे । —कामायनी, पृ० ३७६ ।

प्रतिच्छा(७)†—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रतीक्षा] दे० 'प्रतीक्षा' ।
 प्रतिच्छाया—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. चित्र । तस्वीर । २. मिट्टी पत्थर
 आदि की घनी हुई मूर्ति । ३. परछाई । प्रतिबिंब ।
 प्रतिच्छायायिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रतिच्छाया [को०] ।
 प्रतिच्छायित—वि० [सं०] प्रतिच्छाया युक्त । चित्रित । प्रतिबिंबित ।
 उ०—चिर निराशा नीरधर से, प्रतिच्छायित अश्रु सर में ।
 मधुप मुखर मरद मुकुलित में सजल जलजात रे मन ।—कामा-
 यनी, पृ० २१७ ।
 प्रतिच्छेद—सज्ञा पुं० [सं०] १. वाधा । रुकावट । विरोध । २. छेदन
 करना । खंडित करना [को०] ।
 प्रतिच्छवि—सज्ञा पुं० [सं० प्रति + हिं० छवि] दे० 'प्रतिच्छवि' । उ०—
 तू बहती सरिता के जलपर, देख रहा अपनी प्रतिच्छवि नर ।
 —मधुज्वाल, पृ० ६६ ।
 प्रतिच्छाई—सज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'प्रतिच्छाया'—३ ।
 प्रतिच्छाई—सज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'प्रतिच्छाया'—३ ।
 प्रतिच्छाई—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रति + हिं० छाई] दे० 'प्रतिच्छाया' ।
 प्रतिच्छाया—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिच्छाया] प्रतिबिंब । परछाई ।
 प्रतिजघा—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिजघ्] जाँघ का अगला भाग ।
 प्रतिजन्म—सज्ञा पुं० [सं०] पुनः जनमना । फिर पैदा होना [को०] ।
 प्रतिजन्य—वि० [सं०] प्रतिकूल । विरोधी । वैरी । विरुद्ध [को०] ।
 प्रतिजल्प—सज्ञा पुं० [सं०] परामर्श । समति । सलाह ।
 प्रतिजल्पक—सज्ञा पुं० [सं०] १. आदरणीय, अनुकूल या योग्य
 कथन । परामर्श । २. नम्र पर वक्र उत्तर [को०] ।
 प्रतिजागर—सज्ञा पुं० [सं०] १. खूब अच्छी तरह ध्यान देना । खूब
 होशियार रखना । सचेत रहना । सावधान रहना । २. रक्षा ।
 प्रतिजागरण—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रतिजागर' [को०] ।
 प्रतिजिह्वा—सज्ञा स्त्री० [सं०] गले के अंदर की घटी । कौवा । छोटी
 जीभ ।
 प्रतिजिह्विका—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रतिजिह्वा' [को०] ।
 प्रतिजीवन—सज्ञा पुं० [सं०] फिर से जन्म होना । नया जन्म ।
 प्रतिज्ञता—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिज्ञ + हिं० या (प्रत्य०)] प्रतिज्ञा लेने
 का भाव । उ०—जिसके अर्थ बहुत कुछ आत्मत्याग, देशा-
 नुराग, दृढप्रतिज्ञता आदि गुणों की आवश्यकता है ।—प्रेम-
 घन०, भा० २, पृ० २३७ ।
 प्रतिज्ञान्तर—सज्ञा पुं० [सं० प्रतिज्ञान्तर] तर्क में एक निग्रह स्थान ।
 विशेष—दे० 'निग्रहस्थान' ।
 प्रतिज्ञा—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. भविष्य में कोई कर्तव्य पालन करने,
 कोई काम करने या न करने आदि के सबंध में दृढ निश्चय ।
 वह दृढतापूर्वक कथन या विचार जिसके अनुसार कोई कार्य
 करने या न करने का दृढ़ संकल्प हो । किसी बात को अवश्य
 करने या कभी न करने के संबन्ध में वचन देना । प्रण । जैसे—
 भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं ब्राजन्म विवाह न करूँगा ।
 २. शपथ । सौगद । कसम । ३. अभियोग । दावा । ४. न्याय

में अनुमान के पाँच खंडों या अवयवों में से पहला अवयव ।
 वह वाक्य या कथन जिससे साध्य का निर्देश होता है । उस
 बात का कथन जिसे सिद्ध करना हो । ५. स्वीकार । स्वी-
 करण । अंगीकरण [को०] ।

प्रतिज्ञात^१—वि० [सं०] १. जिसके सबंध में प्रतिज्ञा की जा चुकी
 हो । स्वीकार किया हुआ । २. करने या हो सकने योग्य ।
 साध्य ।

प्रतिज्ञात^२—सज्ञा पुं० प्रतिज्ञा । वादा । वचन [को०] ।

प्रतिज्ञातार्थ—सज्ञा पुं० [सं०] वक्तव्य । कथन [को०] ।

प्रतिज्ञान—सज्ञा पुं० [सं०] १. स्वीकृति । स्वीकरण । राजीनामा ।
 २. प्रतिज्ञा । वादा । वचन [को०] ।

प्रतिज्ञापत्र, प्रतिज्ञापत्रक—सज्ञा पुं० [सं०] वह पत्र जिसपर कोई
 प्रतिज्ञा लिखी हो । वह कागज जिसपर शर्तें लिखी हों ।
 इकरारनामा ।

प्रतिज्ञापालन—सज्ञा पुं० [सं०] प्रतिज्ञा पूरी करना । प्रण पूरा
 करना । वचन निभाना [को०] ।

प्रतिज्ञाभंग—सज्ञा पुं० [सं० प्रतिज्ञाभङ्ग] वादा पूरा न करना ।
 वचन न निभाना [को०] ।

प्रतिज्ञाविरोध—सज्ञा पुं० [सं०] न्याय के अनुसार एक प्रकार का
 निग्रहस्थान । दे० 'निग्रहस्थान' ।

प्रतिज्ञाविवाहित—वि० [सं०] जिसकी शादी हो गई हो [को०] ।

प्रतिज्ञासन्ध्यास—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का निग्रह स्थान ।
 दे० 'निग्रहस्थान' ।

प्रतिज्ञाहानि—सज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार का निग्रहस्थान ।
 विशेष—दे० 'निग्रहस्थान' ।

प्रतिज्ञेय—सज्ञा पुं० [सं०] १. वह जो प्रतिज्ञा करने में समर्थ हो ।
 प्रतिज्ञा कर सकने योग्य । २. वह जो स्तुति या प्रशंसा करे ।
 स्तुति करनेवाला । प्रशंसा करनेवाला ।

प्रतितंत्र—सज्ञा पुं० [सं० प्रतितन्त्र] अपने मत से विरुद्ध मत का शास्त्र ।
 वह शास्त्र जिसके सिद्धांत अपने शास्त्र के सिद्धांतों के प्रति-
 कूल हो ।

प्रतितत्रसिद्धात—सज्ञा पुं० [सं० प्रतितत्रसिद्धान्त] वह सिद्धांत जो
 कुछ शास्त्रों में हो और कुछ में न हो । जैसे, मीमांसा में
 'शब्द' को नित्य माना है परंतु न्याय में वह अनित्य माना
 जाता है ।

प्रतितर—सज्ञा पुं० [सं०] १. नाव का डण्ड । नाव खेने का बल्ला ।
 २. नाव को खेनेवाला । कणधार । केवट ।

प्रतिताल, प्रतितालक—सज्ञा पुं० [सं०] सगीत में ताल का एक प्रकार
 जिसमें कातार, समराग्य, वैकुण्ठ और वाञ्छित ये चारो
 ताल हैं ।

प्रतिताली—सज्ञा स्त्री० [सं०] दरवाजे की चाबी । कुजी । तापी [को०] ।

प्रतितुलन—सज्ञा पुं० [सं० प्रति + तुलन] तुलना । समता । समतुलन ।
 समानीकरण । उ०—जिंदा जातियों के इतिहास में उन दोनो

प्रवृत्तियों का प्रतिबुलन बराबर होता रहता है।—भा० ६०
रू०, पु० ६०६।

प्रतिबन्धी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार का रोग जिसमें गुदा अथवा
मूत्राशय से पीडा उठकर पेट तक पहुँचती है।

प्रतिद्वन्द्व—वि० [सं० प्रतिद्वन्द्व] अविषवस्त। अविनयी। घृष्ट [को०]।

प्रतिदत्त—वि० [सं०] १ लौटाया हुआ। वापस किया हुआ। २
बदले में दिया हुआ।

प्रतिदान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ ली या रखा हुई चीज को लौटाना।
वापस करना। २ एक चीज लेकर दूसरी चीज देना। परि-
वर्तन। विनिमय। बदला।

प्रतिदारण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. सघर्ष। युद्ध। लड़ाई। २. चीरना।
फाटना [को०]।

प्रतिदिवा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिदिवन्] १ सूर्य। रवि। २ दिवस।
दिन [को०]।

प्रतिदूत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह दूत जो बदले में भेजा जाय [को०]।

प्रतिदृष्ट—वि० [सं०] १. देखा हुआ। अवलोकित। दृष्टिगत। २.
प्रसिद्ध। ख्यात [को०]।

प्रतिदृष्टान्तसम—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिदृष्टान्तसम] न्याय में एक प्रकार
की जाति।

प्रतिदेय—वि० [सं०] १. जो प्रतिदान करने योग्य हो। जो बदलने
या लौटाने योग्य हो। २ जो (वस्तु आदि) क्रय करके फिर
लौटाई जाय [को०]।

प्रतिद्वन्द्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिद्वन्द्व] १. दो समान व्यक्तियों का
विरोध। बराबरवालों का झगडा। २. विरोधी। शत्रु [को०]।

प्रतिद्वन्द्विता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिद्वन्द्विता] बराबरवाले की लड़ाई।
समान बल या बुद्धिवाले व्यक्ति का विरोध। अपने से
समान व्यक्ति का विरोध। १ प्रतिद्वन्द्वी होने का भाव।

प्रतिद्वन्द्वी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिद्वन्द्वी] बराबरी का विरोधी।
मुकाबले का लड़नेवाला। शत्रु।

प्रतिद्वन्द्वी—वि० १. प्रतिकूल। विरोधी। २. शत्रुतापूर्ण [को०]।

प्रतिधा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] आलेख्य [को०]।

प्रतिधान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. रखना। स्थापित करना। २. निरा-
करण [को०]।

प्रतिधावन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] आक्रमण। हमला [को०]।

प्रतिधि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सध्या के समय पढ़ा जानेवाला एक प्रकार
वैदिक स्तोत्र।

प्रतिधुनि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिधुनि] दे० 'प्रतिध्वनि'। उ०—
केइ अपनी प्रतिधुनि सों अरें। गारि देह बहुरथो हंसि परें।
नद० प्र०, २६०।—

प्रतिध्वनि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. वह शब्द जो (उत्पन्न होने पर)
किसी वाक्पदार्थ से टकराने के कारण लौटकर अपने

उत्पन्न होने के स्थान पर फिर से सुनाई पड़ता है। अपनी
उत्पत्ति के स्थान पर फिर से सुनाई पड़नेवाला शब्द। प्रति-
नाद। प्रतिशब्द। प्रतिश्रुत। गुंज। भावाज। वाजगशत।
जैसे,—(क) दूर की पहाड़ी से मेरी पुकार की प्रतिध्वनि
सुनाई पड़ी। (ख) उस गुब्बद के नीचे जो कुछ कहा जाय,
उसकी प्रतिध्वनि बराबर सुनाई पड़ती है।

विशेष—वायु में क्षोभ होने के कारण लहरें उठती हैं जिनसे शब्द
की उत्पत्ति होती है। जब इन लहरों के मार्ग में दीवार या
चट्टान आदि की तरह का कोई भारी वाक्पदार्थ आता है
तब ये लहरें, उससे टकराकर लौटती हैं जिनके कारण वह शब्द
फिर उस स्थान पर सुनाई पड़ता है जहाँ से वह उत्पन्न हुआ
था। यदि वायु की लहरों को रोकनेवाला पदार्थ शब्द उत्पन्न
होने के स्थान के ठीक सामने होता है तब तो प्रतिध्वनि
उत्पन्न होने के स्थान पर ही सुनाई पड़ती है। पर यदि वह
इधर उधर होता है तो प्रतिध्वनि भी इधर या उधर सुनाई
पड़ती है। यदि लगातार बहुत से शब्द किए जायें तो सब
शब्दों की प्रतिध्वनि साफ नहीं सुनाई पड़ती, पर शब्दों की
समाप्ति पर अन्तिम शब्द की प्रतिध्वनि बहुत ही साफ सुनाई
पड़ती है। जैसे, यदि किसी बहुत बड़े तालाब के किनारे या
किसी बड़े गुब्बद के नीचे खड़े होकर कहा जाय 'हाथो या
घोडा' तो प्रतिध्वनि में 'घोडा' बहुत साफ सुनाई देगा।
साधारणत प्रतिध्वनि उत्पन्न होने में एक सेकेंड का नवाँ
भाग लगता है, इसलिये इससे कम अंतर पर जो शब्द होंगे
उनकी प्रतिध्वनि स्पष्ट नहीं होगी। शब्द की गति प्रति सेकेंड
लगभग ११२५ फुट है, अतः जहाँ वाक्पद स्थान शब्द उत्पन्न
होने के स्थान से (११२५ का चूट का भाग) ६२ फुट से
कम दूरी पर होगा, वहाँ प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी ? सबसे
अधिक स्पष्ट प्रतिध्वनि उसी शब्द की होती है जो सहसा और
जोर का होता है। प्राय बहुत बड़े बड़े कमरों, गुब्बदों,
तालाबों, कूपों, नगर के परकोटों, जगलों, पहाड़ों और तरा-
इयों आदि में प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। किसी किसी स्थान
पर ऐसा भी होता है कि एक ही शब्द की कई कई प्रति-
ध्वनियाँ होती हैं।

२. शब्द से व्याप्त होना। गुंजना। ३. दूसरों के भावों या
विचारों आदि का दोहराया जाना। जैसे,—उनके व्याख्यान
में केवल दूसरों की उक्तियों की प्रतिध्वनि ही रहती है।

प्रतिध्वनित—वि० [सं०] प्रतिध्वनि से परिपूर्ण। गुंजित [को०]।

प्रतिध्वान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रतिध्वनि'।

प्रतिध्वानित—वि० [सं०] गुंजित। प्रतिध्वनित [को०]।

प्रतिनन्दन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिनन्दन] १. वह अभिनन्दन जो आधी-
वाँद देते हुए किया जाय। २. स्वागत करना [को०]। ३.
घन्यवाद देना [को०]। ४. वधाई देना [को०]।

प्रतिनप्ता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिनप्त] प्रपत्र। पुत्र का पोत्र [को०]।

प्रतिनमस्कार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नमस्कार के बदले में किया गया
नमस्कार। प्रत्यभिवादन।

प्रतिनव—वि० [सं०] नया । ताजा । नूतन [को०] ।

प्रतिना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पृतना] दे० 'पृतना' ।

प्रतिनाडी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिनाडी] छोटी नाडी । उपनाडी । विशेष—दे० 'नाडी' ।

प्रतिनाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रतिध्वनि' ।

प्रतिनादित—वि० [सं०] गुंजित । प्रतिध्वनित । [को०] ।

प्रतिनायक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नाटको और काव्यो आदि में नायक का प्रतिद्विती पात्र । जैसे, रामायण में राम का प्रतिनायक गवण है ।

प्रतिनाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का रोग जिसमें नाक के नथने में कफ रुकने से श्वास चलना बंद हो जाता है ।

प्रतिनिधि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रतिमा । प्रतिमूर्ति । २ वह व्यक्ति जो किमा दूसरे की ओर से कोई काम करने के लिये नियुक्त हो । दूसरे का स्थानापन्न होकर काम करनेवाला ।

विशेष—(क) हमारे यहाँ प्राचीन काल से धार्मिक कृत्यों आदि के लिये प्रतिनिधि नियुक्त करने की प्रथा है । यदि कोई मनुष्य नित्य या नैमित्तिक आदि कर्म आरम्भ करने के उपरांत बीच में ही असमर्थ हो जाय तो वह उसकी पूर्ति के लिये किसी दूसरे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि स्वरूप नियुक्त कर सकता है । (ख) आजकल साधारणतः सर्व-साधारण की ओर से सभाओं आदि में, विचार प्रकट करने और मत देने के लिये, अथवा किसी राज्य या वृहे आदमी की ओर से किसी बात का निर्णय करने के लिये लोग प्रतिनिधि बनाकर भेजे जाते हैं ।

३ जमानतदार । प्रतिभू । जामिन (को०) । ४ प्रतिविब (हिं०) । ५ वह वस्तु या द्रव्य जो किसी वस्तु के अभाव में प्रयुक्त हो (को०) ।

प्रतिनिधित्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रतिनिधि होने की क्रिया या भाव । प्रतिनिधि होने का काम ।

प्रतिनियत—वि० [सं०] १. दृढ़ । कपरहित । स्थिर । २. पूर्व-निश्चित । पहले से तै किया हुआ [को०] ।

प्रतिनियम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. अलग अलग व्यवस्था । २. सामान्य नियम । सामान्य व्यवस्था [को०] ।

प्रतिनिर्जित—वि० [सं०] १ स्वकायप्रयुक्त । अपने काम में प्रयुक्त । २ जीता हुआ । विजित [को०] ।

प्रतिनिर्देश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रतिनिर्देश्य] फिर से कहना । दुबारा कहना [को०] ।

प्रतिनिर्घातन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह अपकार जो किसी अपकार के बदले में किया जाय ।

प्रतिनिवर्तन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रतिनिवर्तित] १ लौटना । वापस होना । २ निवारण । वारण [को०] ।

प्रतिनिवासन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बोद्ध भिक्षुओं के पहनने का एक वस्त्र ।

प्रतिनिविष्ट—वि० [सं०] जो स्थिर या दृढ़ हो [को०] ।

यौ०—प्रतिनिविष्ट मूर्ख = महामूर्ख । जडमति ।

प्रतिनिष्क्रय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बदला [को०] ।

प्रतिनोद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पीछे करना । दूर हटाना [को०] ।

प्रतिप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] राजा शातनु के पिता का नाम ।

प्रतिपक्ष^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ ण्यु । वैरी । दुश्मन । २. प्रतिवादी । उत्तर देनेवाला । ३ सादृश्य । समानता । बराबरी । ४ विरोधी पक्ष । विरुद्ध दल । विरुद्ध पक्ष । दूसरे फरक की बात ।

प्रतिपक्ष^२—वि० समान । मदृश [को०] ।

प्रतपक्षता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] विरोधिता । बाधा । विरोध ।

प्रतिपक्षित—वि० [सं०] १ प्रतिपक्ष का । विरोधी दल में गया हुआ । २. न्याय में (वह हेतु) जो सत्प्रतिपक्ष दोष से युक्त हो [को०] ।

प्रतिपक्षी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिपक्षिन्] विपक्षी । विरोधी । शत्रु ।

प्रतिपक्ष्यु^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिपक्ष] दे० 'प्रतिपक्ष' ।

प्रतिपक्ष्यु^४—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिपक्षिन्] दे० 'प्रतिपक्षी' । उ०—प्रतिपक्ष्यु की मान मारि अपनी विस्तारै ।—ब्रज० प्रं०, पृ० ११२ ।

प्रतिपत्—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] 'प्रतिपद' ।

यौ०—प्रतिपत्सूर्य = एक प्रकार का वाद्य । नगाडा ।

प्रतिपत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ प्राप्ति । पाना । २ ज्ञान । ३ अनुमान । ४ देना । दान । ५. कार्य रूप में जाना । ६ प्रतिपादन । निरूपण । किसी विषय का निर्धारण । ७ प्रमाणपूर्वक प्रदर्शन । जो में बैठाना । ८ मानना । स्वीकृति कायल होना । ९ पदप्राप्ति । धाक । प्रतिष्ठा । साख । १०. आदरसत्कार । ११. प्रवृत्ति । १२. निश्चय । दृढ़ विचार । १३ परिणाम । १४ गौरव । १५ ढग । तरीका (को०) । १६ सवाद (को०) ।

प्रतिपत्तिकर्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिपत्तिकर्मन्] आद्य आदि में वह कर्म जो सबके अंत में किया जाय । सबके पीछे किया जानेवाला कर्म ।

प्रतिपत्तिदत्त—वि० [सं०] कार्यसंपादन में चतुर [को०] ।

प्रतिपत्तिपटह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह ढोल जिसे बजवाने का अधिकार केवल अभिजात वर्ग के लोगो (सरदारों) को था ।

प्रतिपत्तिभेद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] समतिभेद । मतभेद [को०] ।

प्रतिपत्तिमान्—वि० [सं० प्रतिपत्तिमत्] १ प्रतिपत्तियुक्त । बुद्धिमान । २. चतुर । कार्य में दक्ष । ३ प्रसिद्ध । मशहूर । ख्यात [को०] ।

प्रतिपत्तिविशारद—वि० [सं०] चतुर । कुशल [को०] ।

प्रतिपत्रफला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] करेली ।

प्रदिपद्—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ मार्ग । रास्ता । २ आरम्भ । ३. पक्ष की पहली तिथि । प्रतिपदा । परिवा । ४ बुद्धि । समझ । ५. श्रेणी । पक्ति । ६. प्राचीन काल का एक प्रकार

का बहा ढोल । ७ अग्निप्रवेश (को०) । ८ प्रारंभ के श्लोक ।
धुरू के छद (को०) । ९ अग्नि की जन्मतिथि ।

प्रतिपद—क्रि० वि० [सं०] पद पद पर । प्रत्येक पग पर [को०] ।

प्रतिपदा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] किसी पक्ष की पहली तिथि । प्रतिपद् ।
परिवा ।

प्रतिपदी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रतिपदा [को०] ।

प्रतिपन्न—वि० [सं०] १ अवगत । जाना हुआ । २ अगोक्षित ।
स्वीकृत । अपनाया हुआ । ३ प्रचंड । ४ प्रमाणित । सावित ।
निश्चित । स्थापित । निर्धारित । निरूपित । ५ भरा पूरा ।
६ शरणागत । ७ स मानित । जिसकी प्रतिष्ठा की गई हो ।
८ प्राप्त । जो मिला हो । ९ पराभवग्रस्त । पराभूत
(को०) । १० आरंभित । जो प्रारंभ किया गया हो (को०) ।
११ कृत । किया हुआ (को०) ।

प्रतिपन्नक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बौद्ध शास्त्रों के अनुसार श्रोतापन्न,
सकृदागामी, अनागामी और अर्हंत ये चार पद ।

प्रतिपन्नत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रतिपन्न होने का भाव ।

प्रतिपर्ण शिफा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] मूसाकानी । द्रवती ।

प्रतिपाण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जुए में प्रतिपक्षी का रखा हुआ दाँव ।
बदले में लगाई हुई बाजी ।

प्रतिपात—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कौटिल्य के अनुसार किसी क्षति की
पूर्ण पूर्ति । नुकसान का पूरा बदला या हरजाना ।

प्रतिपादक—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अच्छी तरह समझाने या कहने-
वाला । प्रतिपादन करनेवाला । २ प्रतिपन्न करनेवाला ।
३. निर्वाह करनेवाला । ४ उत्पादक । उत्पन्न करनेवाला ।
५. देनेवाला । प्रदायक (को०) । ६ पुरस्कृत करनेवाला ।
उन्नायक (को०) ।

प्रतिपादन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ अच्छी तरह समझाना । भली-
भाँति ज्ञान कराना । प्रतिपत्ति । २ निष्पादन । निरूपण ।
किसी बात का प्रमाणपूर्वक कथन । ३ प्रमाण । सवृत ।
४ उत्पत्ति । ५. दान । ६. पुरस्कार । ७. वापस करना ।
प्रत्यर्पण (को०) । ८. आरंभण । उपक्रमण (को०) ।

प्रतिपादनमान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार
बहुत अधिक वेतन या जागीर आदि देकर प्रतिष्ठा बढ़ाना ।

प्रतिपाद्यता—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिपाद्यत्व] १ अध्यापक ।
शिक्षक । २ देनेवाला । प्रदाता । ३ प्रतिपादक । निर्देशक ।
प्रदर्शक [को०] ।

प्रतिपादित—वि० [सं०] १ जिसका प्रतिपादन हो चुका हो ।
जो अच्छी तरह कह या समझा दिया गया हो । २ जिसका
निश्चय हो चुका हो । निर्धारित । निरूपित । ३ जो दिया
गया हो । ४ उत्पादित । उद्भूत (को०) ।

प्रतिपाद्य—वि० [सं०] १. प्रतिपादन के योग्य । निरूपण करने
के योग्य । कहने के योग्य । समझाने के योग्य । २. देने के
योग्य ।

प्रतिपाप^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह कठोर और पापरूप व्यवहार जो
किसी पापी के साथ किया जाय ।

प्रतिपाप^२—वि० बुराई के बदले बुराई करनेवाला [को०] ।

प्रतिपार^(७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिपाल] दे० 'प्रतिपाल' । उ०—
ध्रुव जन प्रह्लाद रटत कुली के कुँअर रटत । द्रुपदसुता
रटत नाथ, नाथन प्रतिपार री ।—नद० ग्र०, पृ० ३२३ ।

प्रतिपारना^(७)—क्रि० सं० [सं० प्रतिपालन] प्रतिपालन करना ।
पालना ।

प्रतिपाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जो पालन करे । पालन या रक्षण
करनेवाला । पोषक । रक्षक । उ०—जो नहिं करतै, भावती
रूप, भूप प्रतिपाल ।—स० सप्तक, पृ० १८४ ।

प्रतिपालक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पालनकर्ता । पालन पोषण करने-
वाला । पोषक । रक्षक । उ०—बोले बचन नीति प्रतिपालक ।
—मानस० ५।५० । २ राजा । नृपेश ।

प्रतिपालन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पालन करने की क्रिया या भाव ।
पालन । २ रक्षा करने की क्रिया या भाव । रक्षण । उ०—
बहु बिधि प्रतिपालन प्रभु कीन्हो । परम कृपालु ज्ञान तोहि
दीन्हो ।—तुलसी ग्र०, पृ० ५२४ । ३ निर्वाह । तामील ।

प्रतिपालना^(७)—क्रि० सं० [सं० प्रतिपालन] ३ पालन पोषण
करना । पालना । उ०—एहि प्रतिपालउं सबु परिवाह ।—
मानस, २।१०० । २ रक्षा करना । वचाना । ३. निर्वाह
करना । तामील करना । उ०—प्रतिपालि आयसु कुशल देखन
पाय पुनि फिर आइहो ।—मानस, २।१५१ ।

प्रतिपालनोय—वि० [सं०] प्रतिपालन के योग्य । प्रतिपाल्य [को०] ।

प्रतिपालित—वि० [सं०] १. पालन किया हुआ । २ रक्षित ।
३ जिसका अभ्यास किया गया हो (को०) । ४ जिसका अनु-
गमन या निर्वाह किया गया हो (को०) ।

प्रतिपाल्य—वि० [सं०] १ पालन करने योग्य । जिसका पालन
करना उचित या धर्म हो । २ रक्षा करने के योग्य । जिसकी
रक्षा करना उचित हो ।

प्रतिपित्तु—वि० [सं०] किसी वस्तु को पाने के लिये इच्छुक [को०]

प्रतिपिष्ट—वि० [सं०] १ चूर्णित । निष्पावित । घषित । २
पीडित । निदलित । ३ परस्पर एक दूसरे द्वारा प्रहरित य
प्राघातित (को०) ।

प्रतिपुरुष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. वह पुरुष जो किसी दूसरे पुरुष
स्थान पर होकर काम करे । प्रतिनिधि । २ वह पुतला ज
प्राचीन काल में चोर लोग घुसने के पहले घर में फँका कर
थे । (जब इस प्रतिपुरुष के फँकने पर घर के लोग किस
प्रकार का शोर नहीं करते थे, तब चोर घर में घुसते थे ।
३ सहकारी । वह जो साथ में काम करे ।

प्रतिपुस्तक—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] किसी मूल ग्रन्थ की प्रतिलिपि [को०]

प्रतिपूजक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रतिपूजन करनेवाला । अभिवाद
करनेवाला ।

प्रतिपूजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अभिवादन प्रत्यभिवादन । साहचर्य
सलामत ।
प्रतिपूजा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रतिपूजन । अभिवादन ।
प्रतिपूज्य—वि० [सं०] जो अभिवादन करने पर, अभिवादन किए
जाने के योग्य हो ।
प्रतिपूरुष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रतिपुरुष' ।
प्रतिपोषक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सहायता करनेवाला । समर्थक । मदद
करनेवाला ।
प्रतिप्रणाम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रणाम के बदले में किया जानेवाला
प्रणाम । प्रतिनमस्कार । प्रत्यभिवादन [को०] ।
प्रतिप्रत्त—वि० [सं०] प्रत्यागत [को०] ।
प्रतिप्रदान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वापस करना । प्रतिदान । २ वह
जो विवाह आदि में दिया हुआ हो [को०] ।
प्रतिप्रभ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अग्नि वष के एक ऋषि का नाम ।
प्रतिप्रभा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रतिबिम्ब । परछाईं ही ।
प्रतिप्रयाण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वापस होना । लौटना [को०] ।
प्रतिप्रश्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रश्न के बदले में किया जानेवाला
प्रश्न । २ उत्तर । जवाब [को०] ।
प्रतिप्रसव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ किसी भ्रवसर पर कोई ऐसे काम
के लिये स्वच्छदता जो और भ्रवसरो पर निषेध हो । जिस
बात का एक स्थान पर निषेध किया गया हो, उसी का किसी
विशेष भ्रवसर के लिये विधान । किसी बात के लिये एक
स्थान पर निषेध और दूसरे स्थान पर आज्ञा । जैसे, रविवार
शुक्रवार, द्वादशी को श्राद्ध में तर्पण करने का निषेध है ।
पर अयन, विपुव, सक्रांति या ग्रहण के समय अथवा तीर्थस्थान
में रविवार, शुक्रवार, द्वादशी को भी तिल से श्राद्ध करने
की आज्ञा है ।
प्रतिप्रसूत—वि० [सं०] १ जिसके विषय में और स्थानों में तो
निषेध हो पर किसी विशेष स्थान में विधान हो । जिसके
विषय में प्रतिप्रसव हो । २ पुनर्भावित [को०] ।
प्रतिप्रस्थाता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिप्रस्थातृ] सोमयाजी १६ ऋत्विजो
में से छठा ऋत्विज ।
प्रतिप्रस्थान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शत्रु या विरोधी पक्ष से मिल
जाना [को०] ।
प्रतिप्रहार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रत्याघात' [को०] ।
प्रतिप्राकार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दुर्ग के बाहर की ओर का प्राकार ।
बाहरी परकोटा ।
प्रतिप्रिय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रत्युपकार । उपकार के बदले की सेवा
या कृपा [को०] ।
प्रतिप्लवन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पीछे की ओर कूदना या प्लवन [को०] ।
प्रतिफल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रतिबिम्ब । छाया । २. परिणाम ।
नतीजा । ३ वह बात जो किसी बात का बदला देने या लेने
के लिये की जाय ।

प्रतिफलन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ 'प्रतिफल' [को०] ।
प्रतिफला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वाक्घो । वकूनी ।
प्रतिफलित—वि० [सं०] १ प्रतिबिम्बित । प्रतिच्छायायित । उ०—
भगवान् गरीचिमाली की किरणों से किये गये वस्तुओं पर प्रति-
फलित होती है । —रसकलम, पृ० १७ । २ प्रतिकृत ।
प्रतिशोरित [को०] ।
प्रतिफलक—वि० [सं०] फूला हुआ । गुणित । प्रफुल्ल [को०] ।
प्रतिवध—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिवध] १ रोक । रुकावट । घटकाव ।
२ विघ्न । बाधा । ३ बदोयस्त । प्रवध । ४ निराशा ।
आशाभंग । निराशय [भी०] । ५ सवध । सपक । लगाव
[को०] । ६ बधन । बाधना । बाधने की क्रिया या भाव ।
८ (दशन०) सदा बना रहनेवाला अविच्छेद सवध [को०] ।
प्रतिवधक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिवधक] १. वह जो रोकता हो ।
रोकनेवाला । २. बाधा डालनेवाला । विघ्न करनेवाला ।
३ वृक्ष । पट । ४ शाखा [को०] ।
प्रतिवधकता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिवधकता] १ रुकावट । रोक ।
अवचन । २ विघ्न । बाधा ।
प्रतिवधवान्—वि० [सं० प्रतिवधवान्] प्रतिवधयुक्त [को०] ।
प्रतिवधि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिवधि] १ 'प्रतिवधी' ।
प्रतिवधी—वि० [सं० प्रतिवधिन्] १ बाधक । अवरोधक ।
२ बाधनेवाला । ३. बाधाओं से प्रस्त । कठिनाई से भरा
हुआ [को०] ।
प्रतिवधी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिवधी] १. वह प्रापति या इतराज
जो समान रूप से दोनों पक्षों पर लागू हो । २. प्रापति ।
इतराज । विरोध [भी०] ।
प्रतिवधु—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिवधु] वह जो वधु के समान हो ।
प्रतिवद्ध—वि० [सं०] १ बँपा हुआ । २ जिसमें किसी प्रकार का
प्रतिवध हो । जिसमें कोई रुकावट हो । ३ जिसमें कोई
बाधा डाली गई हो । ४. नियंत्रित । ५. निसर्गत । सवद्ध
या सयुक्त । पूर्णतः अविच्छेद्य । जैसे, धूम और अग्नि
[को०] । ६ सञ्चित । जडा या पिरोया हुआ [को०] । ७.
दूर या अलग किया हुआ । दूरीकृत [को०] । ८. निराश ।
हताश [को०] ।
प्रतिबल^१—वि० [सं०] १. समर्थ । शक्त । २. बराबर की ताकत-
वाला । शक्ति में समान ।
प्रतिबल^२—सञ्ज्ञा पुं० १. शत्रुसेना के भिन्न भिन्न दलों का सामना
करने की शक्ति या सामान ।
विशेष—कौटिल्य ने लिखा है कि हस्तिसेना का मुकाबला करने-
वाली हस्तिसेना, शकटगर्भ, कुज, प्रास, शल्य आदि से युक्त
सेना है । जिस सेना में पापाण, लकुट (लाठियाँ), कवच,
कचग्रहणी आदि अधिक हों, वह रथ सेना के मुकाबले के लिये
ठीक है, इत्यादि ।
२. शत्रु । दुश्मन । वैरी [को०] ।

प्रतिषाधक—वि० [सं०] १. बाधा करनेवाला । बाधक । रोकने-
वाला । २. कष्ट पहुँचानेवाला । पीडा देनेवाला ।

प्रतिबाधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ विघ्न । बाधा । २ पीडा । कष्ट ।

प्रतिबाधित—वि० [सं०] १ हटाया या रोका हुआ । निवारित ।
२ बाधित । बाधायुक्त-। पीडित [को०] ।

प्रतिबाधी—वि० [सं० प्रतिवधिन्] १. बाधक । बाधा डालनेवाला ।
२. विरोधी । शत्रु । प्रतिकूल [को०] ।

प्रतिषाहु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वाँह का अगला भाग । २ पुराणा-
नुसार प्रवफल्क के एक पुत्र और अक्रूर के भाई का नाम ।

प्रतिबिंब—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिबिम्ब] १ परछाईं । छाया । २ मूर्ति ।
प्रतिमा । ३ चित्र । तस्वीर । ४ शीशा । दर्पण । उ०—
हँसे हँसत अनरसे अनरसत प्रतिबिंबन ज्यों भाई ।—तुलसी
(शब्द०) । ५ झनक ।

प्रतिबिम्बक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिबिम्बक] परछाईं के समान पीछे
पीछे चलनेवाला । अनुगामी ।

प्रतिबिम्बन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिबिम्बन] २. प्रतिबिंब करने की
क्रिया या स्थिति । २ प्रतिच्छायित होना । ३ तुलना ।
समता [को०] ।

प्रतिबिम्बवाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिबिम्बवाद] १. वेदात का वह
सिद्धात जिसके अनुसार यह माना जाता है कि जीव वास्तव
में ईश्वर का प्रतिबिंब मात्र है । २ एक साहित्यिक
विचारधारा ।

प्रतिबिंबित—वि० [सं० प्रतिबिम्बित] १ जिसका प्रतिबिंब पडता
हो । जिसकी परछाईं पडती हो । २. जो परछाईं के कारण
दिखाई पडता हो । ३. जो झलकता हो । जो कुछ स्पष्ट रूप
से व्यक्त होता हो । जिसका आभास मिलता हो ।

प्रतिबिंबी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिबिम्ब+हि० ईं (प्रत्य०)] वर्णण ।
शीशा । उ०—प्रतिबिंबी आदरस पुनि मुकुर सुकर तिय
लेत ।—अनेकार्थ०, पृ० ३६ ।

प्रतिबीज—वि० [सं०] जिसका बीज नष्ट हो गया हो । जिसकी
उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो गई हो ।

प्रतिबुद्ध—वि० [सं०] १. जागा हुआ । २ जो जाना हुआ हो ।
प्रसिद्ध । ३. जिसकी उन्नति हुई हो । उन्नत । ४ प्रफुल्ल ।
विकसित [को०] ।

प्रतिबुद्धि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ विपरीत बुद्धि । उलटी समझ । २.
प्रतिबोध । जागरण [को०] ।

प्रतिबेबु—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] छाया । प्रतिबिंब । परछाईं । उ०—
जेव प्रतिबेबु समनि में भासे प्रतिमा को गुन गैऊ ।—स०
दरिया, पृ० १४७ ।

प्रतिबोध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. जागरण । जागना । २. ज्ञान । समझ ।
३. स्मृति या स्मरण ।

प्रतिबोधक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह जो प्रतिबोध करावे । २
जगानेवाला । ज्ञान उत्पन्न करनेवाला । ४ शिक्षा देनेवाला ।
५ तिरस्कार करनेवाला ।

प्रतिबोधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ जगाना । ज्ञान उत्पन्न कराना ।

प्रतिव्यंब—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] दे० 'प्रतिबिंब' । उ०—भलकंत
घगतर टोप भिवै । रस चाह निसा प्रतिव्यंब रखै ।—रा०
रू०, पृ० ३३ ।

प्रतिभट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वरावर का योद्धा । समान शक्तिवाला
योद्धा । उ०—जेहि कहूँ नहि प्रतिभट जग जाता ।—
मानस, १।१८० । २ वह जिससे युद्ध होता हो । मुकाबला
करनेवाला । उ०—प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा ।—मानस,
१।१८२ । ३ शत्रु । वैरी । दुश्मन ।

प्रतिभटता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वैर । शत्रुता । दुश्मनी ।

प्रतिभय^१—वि० [सं०] भयकर ।

प्रतिभय^२—सञ्ज्ञा पुं० भय । डर ।

प्रतिभा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ बुद्धि । समझ । २. वह असाधारण
मानसिक शक्ति जिसकी सहायता से मनुष्य आपसे आप,
विशेष प्रयत्न किए बिना ही, किसी काम में बहुत अधिक
योग्यता प्राप्त कर लेता और दूसरों से आगे बढ़ जाता है ।
असाधारण बुद्धिबल या योग्यता जिसकी अभिव्यक्ति बहुधा
साहित्य, कला या विज्ञान आदि में होती है ।

यौ०—प्रतिभाशाली । प्रतिभावान् ।

३ दीप्ति । चमक । (शब्०) । ४ उपयुक्तता । औचित्य [को०] ।

प्रतिभाकूट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक बोधिसत्व का नाम ।

प्रतिभात—वि० १. चमकीला । ज्योतिर्मय । २. जात । समझा
हुआ । उ०—किंतु भूप को हाय न यह कुछ ज्ञात था, काश्यप
दर्शन योगमात्र प्रतिभात था ।—शकु०, पृ० ४६ ।

प्रतिभान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. बुद्धि । समझ । २ प्रभा । चमक ।
३. प्रतीत होना । जान पडना [को०] । ४ प्रगल्भता [को०] ।

प्रतिभानवान्—वि० [सं०] १. प्रतिभान या प्रतिभायुक्त । २.
बुद्धिमान् । ३. प्रगल्भ [को०] ।

प्रतिभानु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सत्यमामा के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण
के एक पुत्र का नाम ।

प्रतिभान्वित—वि० [सं०] जिसमें प्रतिभा हो । प्रतिभाशाली ।

प्रतिभामुख—वि० [सं०] १ प्रत्युत्पन्न मति । कुशाग्रबुद्धि । २.
धृष्ट । प्रगल्भ [को०] ।

प्रतिभावान्—वि० [सं० प्रतिभावत्] १ प्रतिभान्वित । प्रतिभाशाली ।
जिसमें प्रतिभा हो । २ दीप्तिमान् । चमकदार । ३.
प्रगल्भ [को०] ।

प्रतिभाशाली—वि० [सं० प्रतिभाशालिन्] [वि० स्त्री० प्रतिभाशालिनी]
जिसमें प्रतिभा हो । प्रतिभायुक्त ।

प्रतिभाषा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. उत्तर । जवाब । २. वह जो
किसी उत्तर के उत्तर में कहा जाय । प्रत्युत्तर । वादी का
कथन । मुद्दे का वयान ।

प्रतिभासंपन्न—वि० [सं० प्रतिभासम्पन्न] जिसमें प्रतिभा हो ।
प्रतिभाशाली ।

प्रतिभास—सज्ञा पुं० [सं०] १ आकृति । आकार । २ भ्रम । धोखा । मिथ्याज्ञान । ३ प्रकाश । चमक ।

प्रतिभासन—सज्ञा पुं० [सं०] जान पडना । प्रतीत होना । च्योतित होना । व्यक्त होना ।

प्रतिभाहानि—उच्चा स्त्री० [सं०] १ प्रतिभा की हानि । बुद्धिहीनता । बुद्धि का अभाव । २ प्रकाश पर छुति का अभाव । अंधकार । अंधेरा [को०] ।

प्रतिभिन्न—वि० [सं०] १ विभक्त । जो अलग हो गया हो । विभाजित । २ जिसका भेदन किया गया हो (को०) ।

प्रतिभू—सज्ञा पुं० [सं०] व्यवहार शास्त्र में वह व्यक्ति जो ऋण देनेवाले (उक्तमण) के सामने ऋण लेनेवाले (अशमण) की जमानत करे । जमानत में पडनेवाला । जामिन । लतनक ।

प्रतिभेद—सज्ञा पुं० [सं०] १ प्रभेद । अंतर । फर्क । २ प्राविष्कार । रहस्य का स्पष्टीकरण (को०) ।

प्रतिभेदन—सज्ञा [सं०] १ विभाग करना । भेद उत्पन्न करना । २ खोलना । ३ विदीर्ण करना । फाटना (को०) ।

प्रतिभोग—सज्ञा पुं० [सं०] उपभोग ।

प्रतिभोजन—सज्ञा पुं० [सं०] विहित आहार [को०] ।

प्रतिमडक—सज्ञा पुं० [सं० प्रतिमण्डक] शालक राग का एक भेद ।

प्रतिमडल—सज्ञा पुं० [सं० प्रतिमण्डल] सूर्य आदि चमकते हुए मडल का घेरा । परिवेश ।

प्रतिमडित—वि० [सं० प्रतिमण्डित] शलकृत । मडित [को०] ।

प्रतिमन्त्रित—वि० [सं० प्रतिमन्त्रित] मन्त्र से पवित्र किया हुआ ।

प्रतिम—अव्य० [सं०] समान । सदृश ।

विशेष—इस शब्द का व्यवहार केवल योगिक में, शब्द के अंत में होता है । जैसे, मेघप्रतिम = मेघ के समान ।

प्रतिमत—सज्ञा पुं० [सं० प्रति + मत] भिन्न मत । विरोधी मत । उ०—यदि हम काव्य सवधी इन विविध संप्रदायों के उन्नत प्रारंभिक निरूपणों को उनका मत मानें तो वे द्वितीय स्थिति के विवेचन प्रतिमत कहे जा सकते हैं ।—न० सा० न० प्र०, पृ २३ ।

प्रतिमर्श—सज्ञा पुं० [सं०] सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार की निरो-वस्ति जो नस्य के पाँच भेदों के अंतर्गत है ।

विशेष—प्रतिमर्श प्रायः प्रातः काल सोकर उठने के समय, नहाने घोने, या दिन को सोकर उठने के उपरांत अथवा संध्या समय किया जाता है । इसमें श्लोषधियाँ डालकर पकाया हुआ घी नाक के नथनों में चढ़ाया जाता है जिससे नाक का मल निकल जाता है, दाँत मजबूत होते हैं, आँखों की ज्योति बढती है, और शरीर हलका हो जाता है । भिन्न भिन्न समय के प्रतिमर्श का भिन्न भिन्न परिणाम बतलाया गया है ।

प्रतिमल्ल—सज्ञा पुं० [सं०] विरोधी मल्ल । प्रतिस्पर्धी योद्धा [को०] ।

प्रतिमा—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ किसी वी वास्तविक अथवा कल्पित आकृति के अनुसार बनाई हुई मूर्ति या चित्र आदि । अनुकृति ।

२ मिट्टी, पत्थर या धातु आदि की बनी हुई देवताओं की मूर्ति जिसकी स्थापना या प्रतिष्ठा करके पूजन किया जाता हो । देवमूर्ति । ३. प्रतिविम्ब । छाया । ४ हाथियों के दाँत पर का पीतल या ताँबे आदि का बंधन । ५ तीलने का वाट । बटगरा । माप । ६ प्रतीक । चिह्न (को०) । ७ साहित्य का एक अलंकार जिसमें किसी मुख्य पदार्थ या व्यक्ति की स्थापना का अनुमान होता है । जैसे,—‘हैं जीवित हैं जगत में अग्नि वाली आधार । प्राणपिया उनिहार यह ननदी बदा अघार’ । इसमें विदेग गए हुए पति के अभाव में नाविष्ठा ने पति के समान आकृतिवादी नन्द को ही उगता स्थानापन्न बताया है, इसलिये यह प्रतिमा पलकार है ।

यी०—प्रतिमागत = चित्र या मूर्ति में स्थित । प्रतिमाचन्द्र = चन्द्रमा वा प्रतिविम्ब । प्रतिमापरिचारक = मूर्ति की सेवा करनेवाला । पुजारी । प्रतिमापूजन, प्रतिमापूजा = मूर्तिपूजा ।

प्रतिमान—सज्ञा पुं० [सं०] १. प्रतिविम्ब । परतीही । २ हाथों का मस्त्रक । हाथों के दोनों पटे दाँतों के बीच का स्थान । ३. समानता । बराबरी । ४ नृणांत । उदाहरण । ५ प्रतिविधि । ६ बटगरा । मान । वाट (को०) । ७ विरोधी । शत्रु । दुश्मन () । ८. चित्र । अनुकृति । मूर्ति । प्रतिमा (को०) ।

प्रतिमानीकरण—सज्ञा पुं० [सं० प्रतिमान + करण] प्रतिमान स्थिर करना । स्वल्प या व्यसथा निश्चित करना । बसोटी उपस्थित करना ।

प्रतिमाया—सज्ञा स्त्री० [सं०] माया के उत्तर में भाया । द्रवजाल या जादू या जसावी जादू [को०] ।

प्रतिमाला—सज्ञा स्त्री० [सं०] स्मरण शक्ति का परिचय देने के लिये दो आदमियों का एक दूसरे के पीछे लगातार श्लोक या कविता पढ़ना ।

विशेष—कभी कभी एक के श्लोक का अंतिम पद लेकर दूसरा उसी अक्षर से आरंभ करनेवाला श्लोक पढ़ता है । उसे अस्याक्षरी कहते हैं । जो प्रागे नहीं कह सकता उसकी हार समझी जाती है ।

प्रतिमान—पठ्य० [सं०] प्रत्येक महीने में । हर महीने ।

प्रतिमास्य—सज्ञा पुं० [सं०] १ महानारत के अनुनार एक प्राचीन देश का नाम । २. इस देश का निवासी ।

प्रतिमित—वि० [सं०] १ जिसका अनुकरण किया गया हो । जिसकी नकल की गई हो । २. जिसकी तुलना की गई हो । ३. प्रतिविवित । प्रतिच्छावित [को०] ।

प्रतिमुक्त—वि० [सं०] १ पहना हुआ (कपडा आदि) । २. जिसका त्याग कर दिया गया हो । जो छोड़ दिया गया हो । ३. जो बंधा हुआ हो । ४ जो फँका हुआ हो । प्रक्षिप्त (को०) । ५ मुक्त । स्वतंत्र किया हुआ (को०) ।

प्रतिमुख—सज्ञा पुं० [सं०] १ नाटक की पाँच अंगसंधियों में से एक जिसमें विलाम, परितर्प, नर्म (परिहास), प्रगमन, विरोध, पयुंसासन, पुष्प, वज्र, उपन्यास और वयसंहार

आदि का वर्णन होता है। २. किसी चीज का पीछे का भाग। ३. प्रश्न का उत्तर (को०)।

प्रतिमुख^२—वि० १ सामने खड़ा हुआ। स मुख उपस्थित। २. नजदीक। निकटस्थ। समीप [को०]।

प्रतिमुद्रा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] मुहर का चिह्न [को०]।

प्रतिमूर्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] किसी की आकृति को देखकर बनाई हुई मूर्ति या चित्र आदि। प्रतिमा।

प्रतिमूषिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार का चूहा।

प्रतिमोक्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मुक्ति। मोक्ष की प्राप्ति।

प्रतिमोक्षण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रतिमोक्ष'।

प्रतिमोचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ खोलना। बंधन से मुक्त करना। २ प्रतिकार। बदला (को०)।

प्रतिमोचित—वि० [सं०] बंधनमुक्त। मुक्त किया हुआ [को०]।

प्रतियत्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ लालच। प्राप्ति या लाभ की इच्छा। २ उपग्रह। ३ कैदी। वदी। ४ संस्कार। ५ प्रयत्न। चेष्टा। उद्योग। (को०)। ६ रचना। निर्माण (को०)। ७ प्रतीकार (को०)। ८ निग्रह (को०)।

प्रतियाग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह यज्ञ जो किसी विशेष उद्देश्य से किया जाय [को०]।

प्रतियातन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बदला लेना। प्रतिशोध [को०]।

प्रतियातना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. प्रतिमा। मूर्ति। २ तुल्य या समान पीडा (को०)।

प्रतियान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] लौटना। वापस आना।

प्रतियाम—क्रि० वि० [सं०] प्रत्येक पहर। हर समय। उ०—कामना काम प्रतियाम मानव सहे, विषव होकर रहे स्वर्ग का सुस्थान।—आराधना, पु० ३४।

प्रतियुद्ध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बराबरी का युद्ध।

प्रतियुक्त—वि० [सं०] समुक्त। बँधा हुआ [को०]।

प्रतियूथप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शत्रु पक्ष के हाथियों के समूह का नायक [को०]।

प्रतियोग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ शत्रुता। विरोधी पदार्थों का संयोग। ३ वह जिससे किसी पदार्थ का परिणाम नष्ट हो जाय। मारक। ४. वह उद्योग जो फिर से किया जाय। पुनरुद्योग। ५. सहयोग। सहायता।

प्रतियोगिता—[सं०] १ प्रतिद्वंद्विता। चढ़ा ऊपरी। मुकाबला। २. विरोध। शत्रुता।

प्रतियोगी^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ हिस्सेदार। शरीक। २. शत्रु। विरोधी। वैरी। ३ सहायक। मददगार। ४. साथी। ५. बराबरवाला। जोड़ का। प्रतिद्वंद्वी।

प्रतियोगी^२—वि० १ मुकाबले का। बराबरी का। २. मुकाबला करनेवाला। सामना करनेवाला।

प्रतियोद्धा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतियोद्धृ] १ शत्रु। विरोधी। २. मुकाबले का। बराबर का लड़नेवाला।

प्रतियोध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रतियोद्धा' [को०]।

प्रतियोधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रतियोद्ध' [को०]।

प्रतियोधी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतियोधिन्] दे० 'प्रतियोद्धा' [को०]।

प्रतिरभ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिरम्म] दे० 'प्रतिलभ' [को०]।

प्रतिरक्षण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] रक्षा। हिफाजत।

प्रतिरक्षा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] रक्षा। हिफाजत।

प्रतिरथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ बराबरी का लड़नेवाला। वह जो मुकाबला करे, विशेषत रथी। २ पुराणानुसार यदुवशी वज्राश्व के पुत्र का नाम।

प्रतिरव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रतिध्वनि। २ प्राण। ३. भगडा। मतभेद [को०]।

प्रतिरसित—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रतिध्वनि।

प्रतिराज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शत्रु राजा।

प्रतिरात्र—क्रि० वि० [सं०] हर रात। प्रत्येक रात [को०]।

प्रतिरुद्ध—वि० [सं०] १. अवरुद्ध। रुका हुआ। २. फँसा हुआ। घटका हुआ। धिरा हुआ। बाधित।

प्रतिरूप^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्रतिमा। मूर्ति। २ तसवीर। चित्र। ३. प्रतिनिधि। ४. वह जो रूप, आकार आदि में किसी के तुल्य हो (को०)। ५. महाभारत के अनुसार एक दानव का नाम।

प्रतिरूप^२—वि० १ समान। एकरूप। वैसा ही। २. सुंदर। ३. उपयुक्त। अनुकूल। ४ समुद्ध। सामने। अभिमुख [को०]।

प्रतिरूपक^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्रतिच्छाया। प्रतिबिंब। २ चित्र। मूर्ति [को०]।

प्रतिरूपक—वि० सं० दे० 'प्रतिरूप'।

प्रतिरोद्धा—वि० [सं० प्रतिरोद्धृ] १ विरोधी। शत्रुता करनेवाला। २. बाधा डालनेवाला। रोकनेवाला।

प्रतिरोध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ विरोध। २ रूकावट। रोक। बाधा। ३ तिरस्कार। ४ प्रतिबिंब। ५ चोरी। डकैती (को०)। ६ प्रतिबंध (को०)। ७ धरना। धर लेना (को०)।

प्रतिरोधक^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० प्रतिरोधिका] १. वह जो प्रतिरोध करे। रोकने या बाधा डालनेवाला। बाधक। २ चोर, ठग, डाकू आदि। ३. विरोधी। वह जो विरोध करे (को०)। ४ धरने या धावृत करनेवाला।

प्रतिरोधक^२—वि० रोकनेवाला। अवरोध करनेवाला। बाधक।

प्रतिरोधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रतिरोध करने की क्रिया या भाव।

प्रतिरोधित—वि० [सं०] जो रोका गया हो। जिसमें बाधा डाली गई हो।

प्रतिरोधी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिरोधिन्] दे० 'प्रतिरोधक'।

प्रतिरोपित—वि० [सं०] जो पुन रोपा गया हो, जैसे पीघा ।

प्रतिलभ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिलभम्] १ बुरी चाल । कुरीति । २ दोष कलक । डलजाम । ३ प्राप्ति । लाभ । ४ निंदा । दुर्वचन । कुवाच्य । गाली ।

प्रतिलक्षण—सञ्ज्ञा पुं० [म०] लक्ष्म । चिह्न [को०] ।

प्रतिलाभ—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १ शालक राग का एक भेद । २ लाभ । प्राप्ति । पाना फिर से प्राप्त करना । उ०—जिमि प्रतिलाभ लोम भ्रषिकाई ।—मानस ६ ।

प्रतिलिखित—वि० [सं०] उत्तरित । जिसका उत्तर दिया गया हो [को०] ।

प्रतिलिपि—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं०] लेख की नकल । किसी लिखी हुई चीज की नकल । जैसे,—उस पत्र की एक प्रतिलिपि मेरे पास भी आई है ।

प्रतिलोम^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ कमीना मनुष्य । नीच आदमी । २ कौटिल्य के अनुसार 'उपाय' में बताई हुई युक्तियों से उलटी युक्ति । कौटिल्य ने इसके १५ भेद बतलाए हैं ।

प्रतिलोम^२—वि० १. प्रतिकूल । विपरीत । २ जो नीचे से ऊपर की ओर गया हो । जो सीधा न हो । उलटा । ३ नीच । ४ अनुलोम का उलटा । ५ वाम । बायाँ [को०] ।

प्रतिलोमक^१—वि० [सं०] विपरीत । उलटा [को०] ।

प्रतिलोमक^२—सञ्ज्ञा पुं० उलटा क्रम । विपरीत क्रम । [को०]

प्रतिलोमज—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] १. वह जिसके पिता और माता दोनों अलग अलग जाति के हो । वरुणसकर । २ नीच वर्ण के पुरुष और उच्च वर्ण की कन्या से उत्पन्न सतान । जैसे,—सूत—क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न ।
 वैदेहिक—वैश्य " " " " " " ।
 चाटाल—शूद्र " " " " " " ।
 मागध—वैश्य " " क्षत्रिया " " " ।
 क्षत्रिया—शूद्र " " " " " " ।
 आयोगच—" " " वैश्या " " " ।

प्रतिलोम विवाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह विवाह जिसमें पुरुष नीच वर्ण का और स्त्री उच्च वर्ण की हो ।

प्रतिवक्ता—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिवक्तृ] १ उत्तर देनेवाला । २ विधि आदि की व्याख्या करनेवाला [को०] ।

प्रतिवच—सञ्ज्ञा पुं० [म० प्रतिवचस्] दे० 'प्रतिवचन' [को०] ।

प्रतिवचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ उत्तर । जवाब । २ प्रतिध्वनि ।

प्रतिवनिता—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं०] सपत्नी । सौत [को०] ।

प्रतिवत्सर—० क्रि वि० [सं०] प्रत्येक वर्ष । हर साल । प्रति वर्ष ।

प्रतिवर्षिक—वि० [सं०] समान रंगवाला । तुल्य । सदृश [को०] ।

प्रतिवर्तन, प्रतिवर्तन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] झोट घाना । वापस घाना । उ०—दोनों का समुचित प्रतिवर्तन जीवन में शुद्ध विकास हुआ ।—कामायनी, पृ० ७६ ।

प्रतिवर्ध—वि० [मं० प्रतिवर्धन्] जोड़ । बराबरी का [को०] ।

प्रतिवसथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गाँव । ग्राम ।

प्रतिवस्तु—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] १ समान वस्तु । सदृश वस्तु । २ वह वस्तु जो बदले में दी जाय । ३ (माहित्य में) उपमान । [को०] ।

प्रतिवस्तूपम(पु)—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'प्रतिवस्तूपमा' उ०—वाक्यन को जुग होत जहँ, एकै अरथ समान । जुदो जुदो करि भाषिए प्रतिवस्तूपम जान । भूषण प्र० पृ० ६६ ।

प्रतिवस्तूपमा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह काव्यालंकार जिसमें उपमेय और उपमा के साधारण धर्म का वर्णन अलग अलग वाक्यों में किया जाय । जैसे, सोहत भानु प्रताप सों लसत चाप सो शूर ('तापेन आजते सूर्यं शूरश्चापेन राजते'—चंद्रालोक, ५ । ४८) । यहाँ दोहे का पूर्वार्ध उपमान वाक्य है और उत्तरार्ध उपमेय । एक में 'सोहत' और दूसरे में 'लसत' शब्द द्वारा साधारण धर्म कहा गया है ।

प्रतिवहन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] उलटी ओर ले जाना । विरुद्ध दिशा में ले जाना ।

प्रतिवाक—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं० प्रतिवाच्] उत्तर । जवाब [को०] ।

प्रतिवाक्य^१—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] दे० 'प्रतिवचन' ।

प्रतिवाक्य^२—वि० उत्तर देने योग्य । जवाब देने लायक [को०] ।

प्रतिवाणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] किमी उत्तर को सुनकर कही हुई बात । प्रत्युत्तर ।

प्रतिघात—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वेल का पेड़ । २. विपरीत वायु । सामने की हवा [को०] ।

प्रतिवाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. वह बात जो किसी दूसरी बात अथवा सिद्धांत का विरोध करने के लिये कही जाय । वह कथन जो किसी मत को मिथ्या ठहराने के लिये हो । विरोध । खंडन । जैसे,—प्रनेक पत्रों ने उस समाचार का प्रतिवाद किया है । २ विवाद । वहम । ३ उत्तर । जवाब ।

प्रतिवादक—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] प्रतिवाद करनेवाला । वह जो प्रतिवाद करे ।

प्रतिवादिता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ प्रतिवाद का भाव । २. प्रतिवादी का धर्म ।

प्रतिवादी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिवादिन्] १. वह जो प्रतिवाद करे । प्रतिवाद या खंडन करनेवाला । २ वह जो किसी बात में तर्क करे । ३. वह जो वादी की बात का उत्तर दे । प्रतिपक्षी ४ शत्रु । विरोधी [को०] ।

प्रतिघाप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. श्लोषधियों का वह चूर्ण जो किसी काढ़े आदि में डाला जाय । २ कल्क । ३ घातु को भस्म करने का काम । ४ चूर्ण । नुकीनी ।

प्रतिवार^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दूर रखना । रक्षा करना । रक्षाना [को०] ।

प्रतिवार^२—क्रि० वि० [मं०] प्रतिदिन । रोज रोज [को०] ।

प्रतिवारण—सञ्ज्ञा पुं० [दे०] १. रोकना । मना करना । २. शत्रु का हाथी [को०] ।

प्रतिवारित—वि० [सं०] रोका हुआ । निवारित किया हुआ [को०] ।

प्रतिवार्ता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रत्युत्तर सवाद या समाचार [को०] ।
 प्रतिवास—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. सुगम । सुवास । खुशबू । २. पडोस । समीप का निवास ।
 प्रतिवासर—क्रि० वि० [सं०] हर दिन । रोज रोज [को०] ।
 प्रतिवासरिक—वि० [सं०] प्रतिदिन का । नित्य का । दैनिक ।
 प्रतिवासित—वि० [सं०] जो बसाया गया हो । जो आवाद किया गया हो [को०] ।
 प्रतिवासिता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पडोस का निवास या रहना । प्रतिवास का भाव ।
 प्रतिवासी—सञ्ज्ञा पुं० [म० प्रतिवासिन्] [स्त्री० प्रतिवासिनी] पडोस में रहनेवाला । पडोसी ।
 प्रतिवासुदेव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जैनियों के अनुसार विष्णु या वासुदेव के नौ शत्रु जो नरक में गए थे । इनके नाम इस प्रकार हैं—(१) अश्वघ्रीव, (२) तारक, (३) मोदक, (४) मधु, (५) निशुभ, (६) बलि, (७) प्रह्लाद, (८) रात्रण और (९) जरासघ ।
 प्रतिवाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार अक्रूर के एक भाई का नाम ।
 प्रतिवाहु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक यादव का नाम ।
 प्रतिविध्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिविन्ध्य] द्वीपदी के गर्भ से उत्पन्न युधिष्ठिर के पुत्र का नाम ।
 प्रतिविब—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिविम्ब] दे० 'प्रतिबिम्ब' ।
 प्रतिविघात—सञ्ज्ञा पुं० [म०] प्रत्याघात । निवारण । रोकना [को०] ।
 प्रतिविधान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्रतीकार । उ०—प्रतिविधान में क्या कहें वता, इस अनर्थ का भी कही पता ।—साकेत, पृ० ३१४ । २. चौकसी । एहतियात । सावधानी [को०] ।
 प्रतिविधि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रतीकार ।
 प्रतिविधिभ्रसा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] विरोध या बदले की इच्छा [को०] ।
 प्रतिविधित्सु—वि० [सं०] प्रतिकारेच्छु ।
 प्रतिविरुद्ध—वि० [म०] विरोधी । विद्रोही [को०] ।
 प्रतिविशिष्ट—वि० [सं०] १. अत्युत्तम । सर्वोत्तम । २. प्रसाधारण अच्छा या बुरा [को०] ।
 प्रतिविष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह वस्तु या पदार्थ जिससे विष का प्रसर दूर हो [को०] ।
 प्रतिविषा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वितृष्णा । अतिविषा । अतीस ।
 प्रतिविष्णु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विष्णु के प्रतिद्वंद्वी राजा मुचकुद का एक नाम ।
 प्रतिविष्णुक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मुचकुद नामक फूल का पौधा ।
 प्रतिविहित—वि० [सं०] निवारित [को०] ।
 प्रतिषोत—वि० [सं०] आच्छादित । आवृत । ढँका या दबाया हुआ [को०] ।
 प्रतिषीर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रतिपक्षी योद्धा । विरोधी व्यक्ति [को०] ।

प्रतिवीर्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिवीर्य] वह जिसमें प्रतिरोध करने के लिये यथेष्ट बल हो ।
 प्रतिवृष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शत्रुपक्षीय साँड । बैल ।
 प्रतिवेदित—वि० [सं०] जाना या जनाया हुआ । ज्ञात ।
 प्रतिवेदी—वि० [सं०] जानने समझनेवाला । ज्ञाता ।
 प्रतिवेल—क्रि० वि० [सं०] हर समय । प्रति काल [को०] ।
 प्रतिवेश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पडोस । २. घर के सामने या पास का घर । पडोस का मकान ।
 प्रतिवेशी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिवेशिन्] [स्त्री० प्रतिवेशिनी] पडोस में रहनेवाला । पडोसी ।
 प्रतिवेश्म^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिवेश्मन्] दे० 'प्रतिवेश' ।
 प्रतिवेश्म^२—क्रि० वि० [सं०] घर घर । मकान मकान [को०] ।
 प्रतिवेश्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पडोसी [को०] ।
 प्रतिवैर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बदला । वैर का प्रतिशोध [को०] ।
 प्रतिव्यूह—वि० [सं०] व्यूहवद्ध । अपने अपने निर्धारित क्रम के अनुसार स्थित [को०] ।
 प्रतिव्यूह—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १. व्यूह का निर्माण । व्यूहन । २. झुंड । समूह [को०] ।
 प्रतिशंका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिशङ्कन] वह शका जो बराबर बनी रहे ।
 प्रतिशब्द—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रतिध्वनि । गूँज ।
 प्रतिशम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. नाश । २. मुक्ति ।
 प्रतिशयन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] किसी कामना की सिद्धि की इच्छा से देवता के स्थान पर खाना पीना छोड़कर पडा रहना । धरना देना ।
 प्रतिशयित—वि० [सं०] प्रतिशयन करनेवाला । कामनासिद्धि के लिये धरना देनेवाला [को०] ।
 प्रतिशाखा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] शाखा से निकली हुई शाखा । प्रशाखा [को०] ।
 प्रतिशाप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शाप के बदले में दिया जानेवाला शाप [को०] ।
 प्रतिशासन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भृत्य आदि को भेजना । किसी कार्य से सेवक या अपने से छोटे को बुलाकर भेजना । २. आदेश देना । आज्ञा देना । ३. विरोधी शासन या दूसरे का शासन [को०] ।
 प्रतिशास्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] भृत्यादि द्वारा समाचार भेजना [को०] ।
 प्रतिशिष्ट—वि० [सं०] १. प्रसिद्ध । विख्यात । २. प्रसवीकृत । प्रत्याख्यात । निराकृत । ३. प्रेषित । भेजा हुआ (हूत आदि) ।
 प्रतिशिष्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शिष्य का शिष्य ।
 प्रतिशीन—वि० [सं०] तरल । पिघला हुआ । घुनेवाला । क्षरणशील [को०] ।
 प्रतिशीर्षक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] निष्क्रय [को०] ।

प्रतिशोध—सज्ञा पुं० [सं० प्रति + शोध] वह काम जो किसी बात का बदला चुकाने के लिये किया जाय। बदला।

विशेष—संस्कृत में यह शब्द इस अर्थ में नहीं मिलता। हिंदी में बंगला से आया हुआ जान पड़ता है।

प्रतिश्या, प्रतिश्यान—सज्ञा स्त्री० [सं०] 'प्रतिश्याय'।

प्रतिशयाय—सज्ञा पुं० [सं०] १ जुकाम। सरदी। २ पीनस रोग।

प्रतिश्रम—सज्ञा पुं० [सं०] परिश्रम। मेहनत।

प्रतिश्रय—सज्ञा पुं० [सं०] १ वह स्थान जहाँ यज्ञ होता है। यज्ञशाला। २ सभा। ३ स्थान। ४ निवास। गृह। घर। ५ आसरा। सहारा। आश्रय (को०)। ६ वादा। वचन (को०)। ७ सहायता। मदद (को०)।

प्रतिश्रयण—सज्ञा पुं० [सं०] स्वीकृति। मजूरी।

प्रतिश्रव—सज्ञा पुं० [सं०] १ अंगीकार। स्वीकृति। मजूरी। २ प्रतिज्ञा। ३ प्रतिष्वनि (को०)।

प्रतिश्रवण—सज्ञा पुं० [सं०] १ श्रवण करना। सुनना। २ प्रतिज्ञा। ३ मजूरी देना। स्वीकार करना। ४ बनाए रखना। रक्षा करना (को०)।

प्रतिश्रुत्—सज्ञा स्त्री० [सं०] 'प्रतिश्रुति'।

प्रतिश्रुत—वि० [सं०] स्वीकार किया हुआ। मज़ूर किया हुआ। प्रतिज्ञात।

प्रतिश्रुति—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. प्रतिष्वनि। २. प्रतिज्ञा। इकरार। ३ रजामदी। मजूरी। स्वीकृति। अनुमति। ४ वसुदेव के एक पुत्र का नाम।

प्रतिश्रुत्का—सज्ञा पुं० [सं०] एक वैदिक देवता।

प्रतिश्रोता—सज्ञा पुं० [सं० प्रतिश्रोतृ] अनुमति देनेवाला। मज़ूर करनेवाला।

प्रतिषिद्ध—वि० [सं०] जिसके विषय में प्रतिषेध किया गया हो। निषिद्ध। २ खंडित (को०)।

प्रतिषेद्धा—वि०, सज्ञा पुं० [सं० प्रतिषेद्ध] प्रतिषेध करनेवाला। प्रतिषेधक (को०)।

प्रतिषेध—सज्ञा पुं० [सं०] १ निषेध। मनाही। उ०—प्रतिषेध आपका भी न सुनूँगा रण में।—साकेत, पृ० २१६। २. खडन। ३ एक प्रकार का अर्थालंकार जिसमें किसी प्रसिद्ध निषेध या अंतर का इस प्रकार उल्लेख किया जाय जिससे उसका कुछ विशेष अर्थ निकले। जैसे, सिय ककण को छोरिबो घनुष तोरिबो नाहि'। यहाँ यह तो सिद्ध ही है कि घनुष तोड़ना और बात है, और ककण खोलना और बात। पर इस कथन से यहाँ यह तात्पर्य है कि आप घनुष तोड़ने में वीर हो सकते हैं, पर यह वीरता ककण खोलने में काम न आवेगी।

प्रतिषेधक—सज्ञा पुं० [सं०] प्रतिषेध करनेवाला। मान करनेवाला। रोकनेवाला।

प्रतिषेधन—सज्ञा पुं० [सं०] प्रतिषेध करने की क्रिया या स्थिति (को०)।

प्रतिषेधाक्षर—यज्ञा पुं० [सं०] प्रतिषेध या निषेध करनेवाले शब्द या वर्ण (को०)।

प्रतिषेधोपमा—सज्ञा स्त्री० [सं०] उपमा अलंकार या एा भेद। निषेध द्वारा तुलना (को०)।

प्रतिष्क—सज्ञा पुं० [सं०] दून। चर।

प्रतिष्कश—सज्ञा पुं० [सं०] १ मुफिया। गुप्तचर। दून। २ कोटा। चाबुक (को०)।

प्रतिष्कप—सज्ञा पुं० [सं०] चाबुक। चमटे का कोटा (को०)।

प्रतिष्कस—सज्ञा पुं० [सं०] चर। दून (को०)।

प्रतिष्कभ—सज्ञा पुं० [सं० प्रतिष्कम्भ] १ स्तम्भ या निश्चल होने की क्रिया या भाव। २ प्रतिपद्य। गोक (को०)।

प्रतिष्कव—वि० [सं०] स्तम्भित। रका या रोक हुआ (को०)।

प्रतिष्क^१—वि० [सं०] प्रसिद्ध। प्रख्यात। मशहूर।

प्रतिष्क^२—सज्ञा पुं० जैनियों के अनुमान सुपाश्व नामक वृत्ताहृत के पिता का नाम।

प्रतिष्ठा—स्त्री० स्त्री० [सं०] १, स्थापना। रखा जाना। २ स्थिति। ठहराव। ३ देवता की प्रतिमा की स्थापना। ४ स्थान। जगह। ५ मानमर्यादा। गौरव। ६, प्रख्याति। प्रसिद्धि। ७ यज्ञ। कीर्ति। ८ आदर। सत्कार। इज्जत। ९ मंदिरों की वृत्ति। आश्रय। ठिकाना। १० यज्ञ की समाप्ति। ११. शरीर। १२ पृथ्वी। १३. व्रत का उद्यापन। १४ एक प्रकार का छद। १५ चार वर्णों का वृत्त। १६. वह उपहार जो वर का बड़ा भाई वर को देता है। १७ पैर। पाद (को०)। १८ निवास। घर (को०)। १९ मस्कार विशेष (को०)। २०. परिधि। सीमा (को०)।

प्रतिष्ठाता—वि० [सं० प्रतिष्ठातृ] प्रतिष्ठित करनेवाला। नींव डालनेवाला। उ०—स्वितन जरगुस्थ, मज्जा मत का प्रतिष्ठाता उससे पहले ही हुआ था।—प्रा० भा०, पृ०, पु० ७४।

प्रतिष्ठान—सज्ञा पुं० [सं०] १ स्थापित या प्रतिष्ठित करने की क्रिया। रखना। धैठाना। स्थापन। २ देवमूर्ति की स्थापना। ३ जड़। नींव। मूल। ४ पदवी। ५. स्थान। जगह। ६. वह कृत्य जो व्रत आदि की समाप्ति पर किया जाय। व्रत आदि का उद्यापन। ७ सस्थान। ८. कोई व्यापारिक सस्था या सघटन। ९ दे० 'प्रतिष्ठानपुर'।

प्रतिष्ठानपुर—सज्ञा पुं० [सं०] १ प्राचीन काल का एक नगर।

विशेष—यह नगर गंगा यमुना के संगम पर वर्तमान भूँसी नामक स्थान के पास पास था। पहले चद्रवशी राजा पुल्हरवा की राजधानी यही थी। यहाँ समुद्रगुप्त और हर्षगुप्त ने एक किला बनवाया था जिसका गिरा पड़ा अथ अवकव वर्तमान है।

२. गोदावरी के तट पर महाराष्ट्र देश का एक प्राचीन नगर जो राजा शालिवाहन की राजधानी था।

प्रतिष्ठापत्र—सज्ञा पुं० [सं०] वह पत्र जो किसी की प्रतिष्ठा का सूचक हो। प्रतिष्ठा करने के लिये दिया जानेवाला पत्र। समानपत्र।

प्रतिष्ठापन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. देवता आदि की मूर्ति स्थापित करने का काम । २. स्थापित करना । प्रतिष्ठित करना ।

प्रतिष्ठापना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिष्ठापन] स्थापित करना । नींव डालना । स्थापना । उ०—पुराने लागे 'सामान्य' की प्रतिष्ठापना उस विरोध के विरुद्ध कर गये जो मनुष्य की सर्वभूत सामान्यता को नहीं मानता था ।—काव्यशास्त्र, पृ० १४ ।

प्रतिष्ठापार्यता—वि० सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिष्ठापयित्] प्रतिष्ठापन करनेवाला सस्थापक [को०] ।

प्रतिष्ठापित—वि० [सं०] जिसका प्रतिष्ठापन किया गया हो [को०] ।

प्रतिष्ठापान्—वि० [सं० प्रतिष्ठावत्] जिसकी प्रतिष्ठा हो । इज्जतदार ।

प्रतिष्ठिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] आधार । नींव । मूल [को०] ।

प्रतिष्ठित^१—वि० [सं०] १. जिसकी प्रतिष्ठा हुई हो । आदर-प्राप्त । इज्जतदार । जैसे—(क) हिंदी का प्रतिष्ठित पत्र । (ख) चार प्रतिष्ठित सज्जन । २. जिसकी प्रतिष्ठा की गई हो । जो स्थापित किया गया हो । जैसे,—वहाँ शिव जी की एक मूर्ति प्रतिष्ठित की गई है । ३. पूर्ण । परिसमाप्त [को०] । ४. पदाभिषिक्त । पदासीन । ५. निश्चित [को०] । ६. प्राप्त । पाया हुआ [को०] । ७. जीवन में स्थापित । द्विवाहित [को०] ।

प्रतिष्ठित^२—सञ्ज्ञा पुं० १. विष्णु । २. कच्छप । कूर्म [को०] ।

प्रतिष्ठिति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] स्थापित करने या होने का भाव या कार्य । प्रतिष्ठान ।

प्रतिसकाश—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिसङ्काश] सादृश्य । तुल्यता [को०] ।

प्रतिसक्रम—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिसङ्क्रम] १. प्रतिच्छाया । प्रतिबिंब । २. प्रलय । नाश [को०] ।

प्रतिसंक्रात—वि० [सं० प्रतिसङ्क्राति] प्रतिविवित [को०] ।

प्रतिसंख्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिसङ्ख्या] १. चेतना । २. सांख्या-नुसार ज्ञान का एक भेद ।

प्रतिसंख्यानिरोध—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिसंख्यानिरोध] वैनाशिक बौद्ध दार्शनिकों के अनुसार बुद्धपूर्वक भावपदाय का नाश ।

प्रतिसंगी—वि० [सं० प्रतिसङ्गिन्] साथ लगा रहनेवाला । निरंतर साथ रहनेवाला [को०] ।

प्रतिसचर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिसञ्चर] १. पुराणानुसार प्रलय का एक भेद । २. पीछे जाना [को०] । ३. सचरण । सचार [को०] । २. नित्य आगमन का स्थान [को०] ।

प्रतिसदेश—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिसन्देश] उत्तर । जवाब [को०] ।

प्रतिसंधान—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिसन्धान] १. अनुसंधान । ढूँढना । खोजना । २. साथ साथ जोड़ना । मिलाना । ३. दो युगों का सञ्क्राति या सधि काल [को०] । ४. आत्मनियंत्रण । आवेशादि को वशीभूत कर लेना [को०] । ५. स्तवन । स्तुति । प्रशंसा [को०] । ६. स्मृति । स्मरण । अनुचितन [को०] । ७. शोषधि । उपचार । उपाय [को०] ।

प्रतिसंधानिक—सञ्ज्ञा पुं० [प्रतिसन्धानिक] राजाओं आदि की स्तुति करनेवाला । मागध ।

प्रतिसंधि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिसन्धि] १. त्रियोग । विद्योह । २. अनुसंधान । ढूँढना । ३. पुनर्जन्म [को०] । ४. परिसमाप्ति [को०] । ५. दो युगों का सञ्क्राति काल [को०] ।

प्रतिसंधित—वि० [सं० प्रतिसन्धित] दृढीकृत । स्थिरीकृत [को०] ।

प्रतिसन्धेय—वि० [प्रतिसन्धेय] १. प्रतिसधि के योग्य । अनुसन्धेय । २. प्रतीकार्य ।

प्रतिसंलयन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूर्णतः विरक्ति या एकान्वास करना [को०] ।

प्रतिसल्लोचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. 'प्रतिसलयन [को०] ।

प्रतिसचिद्—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] किसी विषय का पूर्ण ज्ञान [को०] ।

प्रतिसंवेदक—वि० [सं०] किसी विषय का सागोपाग ज्ञान करानेवाला । विषय की पूर्ण जानकारी देनेवाला [को०] ।

प्रतिसंवेदन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अनुभव । परीक्षण [को०] ।

प्रतिसस्तर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मैत्रीपूर्ण उपचार या आदर समान [को०] ।

प्रतिसहार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. चापम लेना । २. कम करना । सक्षिप्त करना । ३. त्यागना । ४. समेटना । मिलाना । समर्पण [को०] ।

प्रतिसहृत्—वि० [सं०] १. वापस लिया हुआ । २. कम या सक्षिप्त किया हुआ । परीक्षित [को०] ।

प्रतिसम—वि० [सं०] १. जो देखने में समान न हो । २. गुकाबले का । बराबरीवाला [को०] ।

प्रतिसर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. सेवक । नोकर । २. सेना का पिछला भाग । ३. व्याह में पहनने का ककण । ४. ककण नाम का गहना । ५. जाड़ू का मंत्र । ६. जन्म का भर आना । ७. माला । ८. प्रातःकाल । सवेरा । ९. रक्षक । देखरेख करनेवाला व्यक्ति [को०] । १०. वह सूत्र जो रक्षा की दृष्टि से मणिवध या गले में पहना जाता है । रक्षासूत्र [को०] ।

प्रतिसर—वि० अनुवर्ती । अस्वतंत्र । पराधीन [को०] ।

प्रतिसरण—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] किसी वस्तु पर या उसके सहारे उठेपना या लेटना [को०] ।

प्रतिसरा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. सेविका । दासी । २. तस्मा । पट्टी ।

प्रतिसर्ग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पुराणानुसार वे सब सृष्टियाँ जो रुद्र, विराट्पुरुष, मनु, यक्ष और मरुचि आदि ब्रह्मा के मानसपुत्रों ने उत्पन्न की थी । २. प्रलय । ३. पुराणों का वह ऋण जिसमें प्रतिसर्ग अर्थात् सृष्टि प्रलय का वणन होता है [को०] ।

प्रतिसर्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. एक रुद्र का नाम । (वेदिक) । २. विवाह के समय हाथ में बाँधा जानेवाला कगन ।

प्रतिसव्य—वि० [सं०] जो सव्य अर्थात् अनुकूल न हो । विपरीत । प्रतिकूल [को०] ।

प्रतिसांधानिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिसांधानिक] मागध । प्रति-संधानिक [को०] ।

प्रतिसामंत—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिसामन्त] शत्रु । दुश्मन । शत्रु [को०] ।

प्रतिसारण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. दूर हटाना । अलग करना । २.

सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का अग्निकार्य जिसमें गरम घी या तेल आदि की सहायता से कोई स्थान जलाया जाता है। बवासीर, भगदर, अर्बुद रोगों में यह विधेय है। ३ इस काय में प्रयुक्त होनेवाला उपकरण या भोजार (को०)। ४ मसूहों में से बहनेवाला खून बंद करने के लिये, उनकी सृजन दूर करने के लिये अथवा यों ही मुँह साफ करने के लिये किसी प्रकार का चूर्ण या अवलेह आदि लेकर उँगली से दातों या मसूहों आदि पर मलने की क्रिया। मजन।

प्रतिसारणीय^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार की क्षारपाकविधि जो कुष्ठ, भगदर, दाद, कुष्ठत्रण, भाँई, मुहाँसे और बवासीर आदि में अधिक उपयोगी होती है।

प्रतिसारणीय^२—वि० [म०] प्रतिसारण के योग्य। हटाकर दूसरे पर ले जाने के योग्य।

प्रतिसारा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] बौद्ध तांत्रिकों के अनुसार एक प्रकार की शक्ति जिसका मंत्र धारण करने से सब प्रकार की विघ्न-बाधाओं का दूर होना माना जाता है।

प्रतिसारित—वि० [सं०] १ अपधारित। दूरीकृत। २ मरहम पट्टी किया हुआ [को०]।

प्रतिसारो—वि० [सं०] विरोध या उलटी दिशा में जानेवाला [को०]।

प्रतिसीरा—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] यवनिका। परदा।

प्रतिसूर्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सूर्य का मङ्गल या घेरा। २ आकाश में होनेवाला एक प्रकार का उत्पात जिसमें सूर्य के सामने एक और सूर्य निकला हुआ दिखाई देता है। ३ गिरगिट।

प्रतिसूर्यक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ कृकलास। २ दे० 'प्रतिसूर्य' [को०]।

प्रतिसृष्ट—वि० [म०] १ प्रेषित। भेजा हुआ। २ प्रस्थापित। निराकृत। ३ अनुष्ठित। दत्त। प्रदत्त। ४ क्षीव। मत्त। मतवाला [को०]।

प्रतिसेना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] शत्रु की सेना। दुश्मन की फौज।

प्रतिसोभा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] छिरेटा नाम की बेल। महिषवल्ली। छिरहटा।

प्रतिस्कंध—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिस्कन्ध] पुराणानुसार कातिकेय के एक अनुचर का नाम।

प्रतिस्त्री—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] दूसरे की स्त्री। परकीया। परस्त्री [को०]।

प्रतिस्नात—वि० [म०] नहाया हुआ। कृतस्नान। जो नहा चुका हो [को०]।

प्रतिस्नेह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह प्रभाव जो किसी के प्रेम करने पर व्यक्त हो। प्रेम का प्रतिदान [को०]।

प्रतिस्पन्द—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिस्पन्द] स्पन्दन। स्फुरण [को०]।

प्रतिस्पर्द्धा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ किसी काम में दूसरे से बढ़ जाने की इच्छा या उद्योग। लाग डीट। चढ़ा ऊपरी। २. झगडा।

प्रतिस्पर्द्धा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिस्पर्द्धा] १ वह जो प्रतिस्पर्धा करे। मुकाबला या बराबरी करनेवाला। २ उद्द। विद्रोही।

प्रतिस्पर्धा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रतिस्पर्द्धा'।

प्रतिस्फलन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] फैलाव। विस्तार।

प्रतिश्याय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रतिश्याय'।

प्रतिस्त्राव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का रोग जिसमें नाक में से पीला या सफेद रंग का बहुत गाढ़ा कफ निकलता है।

प्रतिस्वन, प्रतिस्वर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रतिध्वनि। प्रतिशब्द [को०]।

प्रतिहंता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिहन्तृ] १ रोकनेवाला। बाधक। २ मुकाबले में खड़ा होकर मारनेवाला।

प्रतिहत—वि० [सं०] १ अवरुद्ध। रुका या रोका हुआ। २ हटाया हुआ। ३ फेंका हुआ। ४. गिरा हुआ। ५. निराश। ६. कुठित। जो कोठ हो गया हो। जैसे, दत्त (को०)। ७. अपने शत्रु के द्वारा पीछे हटाया हुआ (संन्य)।

विशेष—कौटिल्य ने प्रतिहत सेना को हताग्रवेग सेना से अच्छा कहा है, क्योंकि यह छिन्न भिन्न भाग को फिर से जोड़कर युद्ध के योग्य हो सकती है।

यौ०—प्रतिहतधी, प्रतिहतमति = (१) विरोधी। (२) जिसकी मति अवरुद्ध हो। अवरुद्ध ज्ञान।

प्रतिहित—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ रोकने या हटाने की चेष्टा। २. वह आघात जो किसी के आघात करने पर किया जाय। प्रतिघात। ३. टक्कर। ४. क्रोध। गुस्सा। ५. कुठ। निराशय (को०)।

प्रतिहनन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बदले में आघात करना। प्रत्याघात [को०]।

प्रतिहरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ विनाश। बरबादी। २ निवारण। हटाना (को०)।

प्रतिहर्ता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिहर्तृ] १ यज्ञ में उद्गाता का सहायक। यज्ञादि में १६ ऋत्विजों में से बारहवाँ ऋत्विज। २ वह जो विनाश करे। ३ वह जो निवारण करे या हटावे।

प्रतिहस्त, प्रतिहस्तक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रतिनिधि।

प्रतिहार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ द्वारपाल। दरवान। ह्योढ़ीदार। उ०—प्राण। प्रतीक्षा में प्रकाश श्रो, प्रेम बने प्रतिहार।—युगवाणी, पृ० ६१।

यौ०—प्रतिहारभूमि = वह स्थान जहाँ प्रतिहार बैठता है। ह्योढ़ी। प्रतिहाररक्षो = द्वाररक्षिका। प्रतिहारी।

२ द्वार। दरवाजा। ह्योढ़ी। ३ प्राचीन काल का एक राज-कर्मचारी जो सदा राजाओं के पास रहा करता था और जो राजाओं को सब प्रकार के समाचार आदि सुनाया करता था। बह्मणा पद लिखे ब्राह्मण या राजवंश के लोग इस पद पर नियुक्त किए जाते थे। ४ चौबदार। नकीव। ५. सामवेद गान का एक भग। ६. मायावी। ऐंद्रजालिक। बाजीगर। ७. एक प्रकार की सधि। दे० 'प्रतीहार—२'। ८. इद्रजाल। बाजीगरी (को०)। ९. हटाना। पीछे करना। निवारण करना (को०)। १०. पुराण के अनुसार परमेष्ठी के पुत्र (को०)।

प्रतिहारक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ इद्रजाल दिखानेवाला। बाजीगर। २. वह प्रतिहार जो सामगान करता हो। ३ बुलावा देनेवाला या आमत्रण करनेवाला राज्याधिकारी।

विशेष शुक्रनीति में लिखा है कि जो मनुष्य अस्त्र शस्त्र चलाने में कुशल हो, दृढांग हो, आलसी न हो और जो नम्र होकर दूसरो को बुला सके वह इस पद के योग्य होता है।

प्रतिहारण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ द्वार। दरवाजा। २ द्वार आदि में प्रवेश करने की आज्ञा।

प्रतिहारतर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार एक प्रकार का अस्त्र जिसका उपयोग दूसरो के चलाए हुए अस्त्रो को निष्फल करने के लिये होता है।

प्रतिहारस्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ह्चोढीदारी। प्रतिहार या द्वारपाल का काम या पद।

प्रतिहारी^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतिहारिन्] [वि० स्त्री० प्रतिहारिणी] द्वारपाल। डेवढीदार। द्वाररक्षक। उ०—आकर 'लघु कुमार आते हैं' बोली नत हो प्रतिहारी। 'आवे' कहा भरत ने, तत्क्षण आए वे धन्वाधारी।—साकेत पृ० ३७२।

प्रतिहारी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] द्वार की रक्षा करनेवाली महिला। द्वारपालिका [को०]।

प्रतिहार्य^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] इद्रजाल। जादूगरी। बाजीगरी [को०]।

प्रतिहार्य^२—वि० जिसका प्रतिहार या निवारण किया जाय। जो पीछे हटाया जाय [को०]।

प्रतिहास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. कनेर। २. सफेद कनेर। ३. हँसी के बदले में हँसी [को०]।

प्रतिहिंसा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] [वि० प्रतिहिंसित] १. यह हिंसा जो किसी हिंसा का बदला चुकाने के लिये की जाय। वैर निकालना। २. वैर चुकाना। बदला लेना।

प्रतिहिंसित—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रतिहिंसा' [को०]।

प्रतिहित—वि० [सं०] रखा हुआ। स्थापित [को०]।

प्रतीधक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतीन्धक] विदेह नाम का एक देश [को०]।

प्रतीक^१—वि० [सं०] १. प्रतिकूल। विरुद्ध। २. जो नीचे से ऊपर की ओर गया हो। उलटा। विलोम।

प्रतीक^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पता। चिह्न। निशान। २. किसी पद्य या गद्य के आदि या अंत के कुछ शब्द लिखकर या पढ़कर उस पूरे वाक्य का पता बतलाना। ३. अंग। अवयव। ४. मुख। मुँह। ५. आकृति। रूप। सूरत। ६. प्रतिरूप। स्थानापन्न वस्तु। वह वस्तु जिसमें किसी दूसरी वस्तु का आरोप किया गया हो। ७. प्रतिमा। मूर्ति। ८. वसु के पुत्र और ओषधान के पिता का नाम। ९. मरु के पुत्र का नाम। १०. परचल। ११. अण। भाग। हिस्सा [को०]। १२. किसी वस्तु का सामने का हिस्सा [को०]। १३. लालटेन। दीपक [को०]। १४. प्रतिलिपि। प्रतिलेख [को०]।

प्रतीकवाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतीक + वाद] आधुनिक काव्य का एक आंदोलन या सिद्धांत, जिसमें काव्यरचना का मुख्य आधार प्रतीक अनुध्वनिमूलक स्वर आदि होते हैं।

विशेष—प्रतीकवाद का आरंभ सन् १८८६ में फ्रांस में कवि जीन मोरेआस के प्रतीकवाद (सिंबोलिज्म) विषयक घोषणा-

पत्र के प्रकाशित होने के साथ होता है। यह उन्नीसवीं शताब्दी के स्थूल काव्यसिद्धांतों के विरोध में उत्पन्न हुआ था। प्रतीकवादियों का सिद्धांत था कि प्रतीकों के माध्यम से वे अधिक संवेद्य काव्य का निर्माण कर सकते हैं। अतः यह काव्य स्थूल घटनाओं को गोपन प्रतीतियों के रूप में व्यक्त करता है। प्रतीकवाद आधुनिक युग का प्रमुख साहित्यिक आंदोलन है।

प्रतीकार—सञ्ज्ञा पुं० सं० [सं०] १. वह काम जो किसी के किए हुए अपकार का बदला चुकाने अथवा उसे निष्फल करने के लिये किया जाय। प्रतिकार। बदला। उ०—अगर जयनाथ होते तो उन्हें कुछ न कुछ प्रतीकार अवश्य करना पड़ता।—रति०, पृ० १३। २. चिकित्सा। इलाज। दे० 'प्रतिकार'।

प्रतीकारसंधि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रतीकारसंधि] कामदवीय नीति के अनुसार वह संधि जो उपकार के बदले में उपकार करने की शर्त करके की जाय, जैसी राम और सुग्रीव के बीच हुई थी।

प्रतीकार्य—वि० [सं०] जो प्रतीकार के योग्य हो। निष्फल करने के योग्य। बदला चुकाने या व्यर्थ करने के लायक।

प्रतीकाश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रतिकाश' [को०]।

प्रतीकोपासना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. किसी विशेष पदार्थ में (जैसे, सूर्य, ईश्वर के नाम, मन इत्यादि) व्यापक ब्रह्म की भावना करके उसे पूजना और यह मानना कि हम उसी ब्रह्म की पूजा करते हैं। २. किसी के प्रतीक की उपासना। प्रतिमादि का पूजन।

प्रतीक्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रतीक्षक' [को०]।

प्रतीक्षक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. वह जो प्रतीक्षा करता हो। आसरा देखनेवाला। २. वह जो पूजा अर्चन करता हो। पूजा करनेवाला। पूजक।

प्रतीक्ष्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्रतीक्षा करना। आसरा देखना। २. कृपादृष्टि। मेहरवानी की नजर। ३. अपेक्षा। आशा। उम्मीद [को०]। ४. आदर। संमान। इज्जत [को०]। ५. प्रसिद्धा, वचन आदि पूर्ण करना [को०]। ६. देखना। ७. न देना [को०]।

प्रतीक्षा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. किसी व्यक्ति अथवा काल के या किसी घटना के होने के आसरे में रहना। किसी कार्य होने या किसी के आने की आशा में रहना। आसरा। इंतजार। प्रत्याशा। जैसे,—(क) मैं एक घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। (ख) वे इस मास की समाप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उ०—हूब वची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पैठ जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ। पृ० ३१८। २. किसी का भरण पोषण करना। प्रतिपालन। ३. पूजा। ४. समान [को०]। ५. ध्यान देना। ६. चिन्ता करना [को०]।

प्रतीक्षित—वि० [सं०] १. जिसकी प्रतीक्षा की जाय। १५५-

प्रतीर—सञ्ज्ञा पुं० [म०] किनारा । तट । उ०—पूरी निर्मल नीर से बह रही थी पास ही मालिनी । वृक्षाली जिसके प्रतीर पर थी, भूरि प्रभा मालिनी ।—शकु०, पृ० १६ ।

प्रतीवृत्ता—वि० स्त्री० [म० पतिव्रता, पुं० हिं० पतिवृत्ता] 'पतिव्रता' उ०—जोगी कहै प्रतीवृत्ता । सुरोस हुई नच्यत । प्रीव धारो छावधो छइ मास वसात ।—दी० रासो, पृ० ६४ ।

प्रतीवाप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह औषध जो पीने के लिये काढ़े आदि में मिलाया जाय । २ देवी उपद्रव । ३ फेंकने की क्रिया । ४ किसी चीज को बदलने के लिये उसे किसी दूसरी चीज में मिलाना । घातु आदि का मिश्रण करना ।

प्रतीवेश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रतिवेश । पडोस ।

प्रतीवेशी—सञ्ज्ञा पुं० [म० प्रतीवेशिन्] पडोस में रहनेवाला । पड़ोसी ।

प्रतीवेश्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन देश का नाम ।

प्रतीष्ट—वि० [सं०] स्वीकृत । प्राप्न [को०] ।

प्रतीह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार परमेष्ठी के एक पुत्र का नाम जिसका जन्म सुवर्चला के गर्भ से हुआ था ।

प्रतीहार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ दे० 'प्रतिहार' । २ संधि का एक भेद । वह मेल या संधि जो कोई यह कहकर करता है कि पहले मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ पीछे तुम मेरा करना ।

प्रतीहारी^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रतिहारी' ।

प्रतीहारी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० द्वाररक्षिका । प्रतिहारी ।

प्रतीहास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कनेर ।

प्रतुंदक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रतुन्दक] जीवक नाम का साग ।

प्रतुद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वे पक्षी जो अपना भक्ष्य चोंच से तोड़कर खाते हैं । २. कोचने या भेदन का उपकरण । वह जिससे कोई वस्तु तोड़ी या भेदी जाय (को०) ।

प्रतुष्टि—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] सतोष । संतुष्टि । तृप्ति [को०] ।

प्रत्यूषी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] स्नायु की दुर्बलता से होनेवाला एक रोग जिसमें गुदा से पीडा उत्पन्न होकर भ्रौंठियो तक पहुँचती है ।

प्रतूद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक वैदिक ऋषि का नाम जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है ।

प्रतूर्ण, प्रतूर्त्त—वि० [म०] वेगवान । तीव्र [को०] ।

प्रतेक—वि० [सं० प्रत्येक] दे० 'प्रत्येक' । उ०—पल्लव पृहुप प्रतेक पैग में कछु लागि आवत ।—रत्नाकर, भा०१, पृ० १२ ।

प्रतूत्तिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] विस्तर । गद्दा । तोषक [को०] ।

प्रतोद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पेना । श्रीगी । शकुश । २ चावुक । कोडा । हटर । ३ एक प्रकार का सामगन ।

प्रतोली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ वह चौड़ा रास्ता जो नगर के मध्य से होकर निकला हो । चौड़ी सड़क । शाहराह । राजपथ । २

वीथी । गली । कूचा । ३ दुर्ग का वह द्वार जो नगर की ओर हो । ४ फोडो आदि पर पट्टी बाँधने का एक ढंग । इस ढंग की पट्टी ढोडी आदि पर बाँधी जाती है । ५. इन ढंग में बाँधी हुई पट्टी । ६ किले के नीचे होकर जानेवाला रास्ता ।

प्रतोप—सञ्ज्ञा पुं० [न०] १. सतोप । तुष्टि । २. पुराणानुसार स्वायंभू मनु के एक पुत्र का नाम ।

प्रतोपना—वि० सं० [सं० प्रतोपण] प्रतोप देना । सतोप देना । समझाना बुझाना । थापवस्त करना । उ०—राम प्रतोपी मातु सब कहि विनीत वर वैन ।—राम०, १।३६२ ।

प्रत्त—वि० [सं०] १ प्रदत्त । दिया हुआ । उपहृत । २. विवाह में प्रदत्त [को०] ।

प्रत्न—वि० [सं०] १ पुराना । प्राचीन । २ परपराप्राप्त । परपरागत (को०) ।

प्रत्नतत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जिसमें प्राचीन काल की बातों का विवेचन हो । पुरातत्व ।

प्रत्यग^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रत्यङ्ग] १ शरीर का कोई अग्रधान या गौण अंग । २ विभाग । खंड । परिच्छेद । ३. प्रत्येक अंग । हर एक अवयव । ४ एक अत्य का नाम [को०] ।

प्रत्यंग^२—वि० प्रत्येक अंग में । हर एक अवयव में [को०] ।

प्रत्यंगिरा^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रत्यङ्गिरस्] पुराणानुसार चाक्षुप मन्वंतर के अंगिरस के पुत्र एक ऋषि का नाम ।

प्रत्यंगिरा^२—सञ्ज्ञा स्त्री० १. सिरस का पेड । २ विसखोपरा । ३. तांत्रिकों की एक देवी का नाम ।

प्रत्यंच—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० पतञ्चिका] धनुष की डोरी जिसमें लगाकर बाण छोड़ा जाता है । नितला ।

प्रत्यंचा—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० प्रत्यञ्च] दे० 'प्रत्यंच' । उ०—वाम पाणि में प्रत्यंचा है, पर दक्षिण में एक जटा ।—साकेत, पृ० ३६७ ।

प्रत्यंचित—वि० [सं० प्रत्यञ्चित] पूजित । अर्चित । सम्मानित [को०] ।

प्रत्यञ्जन—सञ्ज्ञा पुं० [म० प्रत्यञ्जन] १. श्रांस में अञ्जन लगाकर उसे अर्चना करना । २ लेपन करना ।

प्रत्यंत—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रत्यन्त] १ म्लेच्छों के रहने का देश । २. सीमा (को०) ।

प्रत्यंतपर्वत—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रत्यन्तपर्वत] वह छोटा पहाड जो किसी बड़े पहाड के पास हो ।

प्रत्यक्—वि० वि० [सं०] १ पीछे । विपरीत दिशा में । २ पश्चिम । ३. विरोध में (को०) । ४. पहले । पूर्व काल में (को०) ।

प्रत्यक—वि० [हिं०] दे० 'प्रत्यक्ष' । उ०—नोउ कष्ट करे अति करि प्रत्यक आतम तत्व न पैपै । सु दर भूलि गयो निज रूपि है कर कंकण दर्पण देखै ।—तु दर श०, भा०२, पृ० ५६६ ।

प्रत्यक्चेतन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. योग के अनुसार वह पुरुष जिसे चित्तवृत्ति बिलजुल निर्मल हो चुकी हो, जिसने आत्मज्ञा हो चुका हो और जो प्रत्यक्ष आदि का जप करके ४४

स्वरूप पहचानने में समर्थ हो चुका हो। अंतरात्मा। ३ परमेश्वर।

प्रत्यक्षपर्याय—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. दती वृक्ष। मूसाकानी २. श्रवामार्ग। चिचडा।

प्रत्यक्षपुष्पी—सज्ञा स्त्री० [सं०] २० 'प्रत्यक्षपर्याय'।

प्रत्यक्षश्रेणी—सज्ञा स्त्री० [सं०] दती वृक्ष। मूसाकानी।

प्रत्यक्ष—वि० [सं०] १ जो देखा जा सके। जो आँखों के सामने हो। उ०—स्वप्न था वह जो देखा, देखूँगी फिर क्या अभी ? इस प्रत्यक्ष से मेरा परिप्राण कहाँ अभी।—साकेत, पृ० ३०७। २ जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो सके। जो किसी इंद्रिय की सहायता से जाना जा सके। ३ सुस्पष्ट। साफ (को०)।

प्रत्यक्ष—सज्ञा पुं० चार प्रकार के प्रमाणों में से एक प्रमाण जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।

विशेष—गौतम ने न्यायसूत्र में कहा है कि इंद्रिय के द्वारा किसी पदार्थ का जो ज्ञान होता है, वही प्रत्यक्ष है। जैसे, यदि हमें सामने आग जलती हुई दिखाई दे अथवा हम उसके ताप का अनुभव करें तो यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 'आग जल रही है'। इस ज्ञान में पदार्थ और इंद्रिय का प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। यदि कोई यह कहे कि 'वह किताब पुरानी है' तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसमें जो ज्ञान होता है, वह केवल शब्दों के द्वारा होता है, पदार्थ के द्वारा नहीं, इसलिये यह शब्दप्रमाण के अंतर्गत चला जायगा। पर यदि वही किताब हमारे सामने आ जाय और मैली कुचेली या फटी हुई दिखाई दे तो हमें इस बात का अवश्य प्रत्यक्ष ज्ञान हो जायगा कि 'यह किताब पुरानी है'। प्रत्यक्ष ज्ञान किसी के बड़े हुए शब्दों द्वारा नहीं होता, इसी से उसे अव्यपदेश्य कहते हैं। प्रत्यक्ष को अव्यभिचारी इसलिये कहते हैं कि उनके द्वारा जो वस्तु जैसी होती है उसका वैसा ही ज्ञान होता है। कुछ नैयायिक इस ज्ञान के कारण को ही प्रमाण मानते हैं। उनके मत से 'प्रत्यक्ष प्रमाण' इंद्रिय है, इंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान 'प्रत्यक्ष ज्ञान' है। पर अव्यपदेश्य पद से सूत्रकार का अभिप्राय स्पष्ट है कि वस्तु का जो निर्विकल्पक ज्ञान है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है।

नवीन ग्रन्थकार दोनों मतों को मिलाकर कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण अर्थात् प्रत्यक्ष तीन प्रमाण हैं—(१) इंद्रिय, (२) इंद्रिय का संबंध और (३) इंद्रियसंबंध से उत्पन्न ज्ञान। पहली अवस्था में जब केवल इंद्रिय ही कारण हो तो उसका फल वह प्रत्यक्ष ज्ञान होगा जो किसी पदार्थ के पहले पहल सामने आने से होता है। जैसे, वह सामने कोई चीज दिखाई देती है। इस ज्ञान को 'निर्विकल्पक ज्ञान' कहते हैं। दूसरी अवस्था में यह ज्ञान पड़ता है कि जो चीज सामने है, वह पुस्तक है। यह 'सविकल्पक ज्ञान' हुआ। इस ज्ञान का कारण इंद्रिय का संबंध है। जब इंद्रिय के संबंध से उत्पन्न ज्ञान कारण होता है, तब यह ज्ञान कि यह किताब

अच्छी है अथवा बुरी है, प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। यह प्रत्यक्ष ज्ञान ६ प्रकार का होता है—(१) चाक्षुष प्रत्यक्ष, जो किसी पदार्थ के सामने आने पर होता है। जैसे, यह पुस्तक नई है। (२) श्रावण प्रत्यक्ष, जैसे, आँखें बंद रहने पर भी घंटे का शब्द सुनाई पड़ने पर यह ज्ञान होता है कि घंटा बजा। (३) स्पर्श प्रत्यक्ष, जैसे वरफ हाथ में लेने से ज्ञान होता है कि वह बहुत ठंडा है। (४) रसायन प्रत्यक्ष, जैसे, फल खाने पर जान पड़ता है कि वह मीठा है अथवा खट्टा है। (५) ग्राह्य प्रत्यक्ष, जैसे, फूल सूँघने पर पता लगता है कि वह सुगंधित है और (६) मानस प्रत्यक्ष जैसे, मुख, दुःख, दया आदि का अनुभव।

प्रत्यक्ष—क्रि० वि० आँखों के आगे। सामने। जैसे, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि उस पार पानी बरसता है।

प्रत्यक्षज्ञान—सज्ञा पुं० [सं०] प्रत्यक्ष दर्शन में प्राप्त ज्ञान। वह ज्ञान जो प्रत्यक्ष दर्शन से प्राप्त हो। चाक्षुष प्रमाण।

प्रत्यक्षता—सज्ञा स्त्री० [सं०] प्रत्यक्ष होने का भाव।

प्रत्यक्षत्व—सज्ञा पुं० [सं०] २० 'प्रत्यक्षता'।

प्रत्यक्षदर्शन—सज्ञा पुं० [सं०] साक्षी। प्रत्यक्षदर्शी [को०]।

प्रत्यक्षदर्शी—सज्ञा पुं० [सं०] प्रत्यक्षदर्शिनः। वह जिनमें प्रत्यक्ष रूप से कोई घटना देखी हो। साक्षी। गवाह।

प्रत्यक्षफल—वि० [सं०] जिसका परिणाम स्पष्ट हो। जिसका नतीजा साफ हो।

प्रत्यक्षभोग—सज्ञा पुं० [सं०] किसी वस्तु का उपयोग उसके स्वामी की जानकारी में करना [को०]।

प्रत्यक्षलक्षण—सज्ञा पुं० [सं०] वह नमक जो भोजन पक चुकने पर वाद में अलग से डालने के लिये दिया जाय। खाद्य पदार्थ में पकने के समय डाले हुए नमक के अतिरिक्त पीछे से दिया जानेवाला नमक।

विशेष—शास्त्रों में श्राद्ध आदि अवसरों पर इस प्रकार नमक देने का निषेध है।

प्रत्यक्षवाद—सज्ञा पुं० [सं०] प्रत्यक्ष + वाद] वह सिद्धांत जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण को ही माना जाय। इंद्रियजन्य ज्ञान को सत्य माननेवाला सिद्धांत। उ०—इस बठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है।—स्कंद०, पु० ५।

प्रत्यक्षवादी—सज्ञा पुं० [सं०] प्रत्यक्षवादिन् [स्त्री०] प्रत्यक्षवादिनी] वह व्यक्ति जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण माने, और कोई प्रमाण न माने। वह मनुष्य जो इंद्रियजन्य ज्ञान को ही सत्य माने, जैसे, चार्वाक।

प्रत्यक्षविधान—सज्ञा पुं० [सं०] वह (विधि आदि) जो स्पष्ट हो। वह जिसका विधान प्रत्यक्ष रूप से हो [को०]।

प्रत्यक्षविहित—वि० [सं०] सीधे या प्रत्यक्ष रूप से उपभुक्त या आस्वाद्य [को०]।

प्रत्यक्षसिद्ध—वि० [सं०] जो प्रत्यक्ष या चाक्षुष प्रमाण से सिद्ध हो। उ०—युवराज। यह अनुमान नहीं है, यह प्रत्यक्षसिद्ध है।—स्कंद०, पु० ६।

प्रत्यक्षी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रत्यक्षिन्] व्यक्तिगत रूप से देखनेवाला साक्षी । प्रत्यक्ष या साक्षात् द्रष्टा । वह व्यक्ति जिसने प्रत्यक्ष रूप से देखा हो [को०] ।

प्रत्यक्षीकरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] आँखों से दिखला देना । इन्द्रिय द्वारा ज्ञान करा देना । सामने लाकर प्रत्यक्ष करा देना । उ०—इन स्थलों के वर्णन में हमें हाट, वाट, नदी, निर्भर, ग्राम, जनपद इत्यादि न जाने कितने पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण मिलता है ।—चित्तमणि, भा० २, पृ० ३ ।

प्रत्यक्षीकृत—वि० [सं०] जिसका प्रत्यक्षीकरण हुआ हो । जो आँखों से देखा गया हो [को०] ।

प्रत्यक्षीभूत—वि० [सं०] जिसका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा हुआ हो । जो प्रत्यक्ष हुआ हो ।

प्रत्यग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] 'प्रत्यक्' का समासगत रूप ।

प्रत्यगत(पु)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रत्यागत] कुशती का एक पेच । प्रत्यागत । उ०—जे मल्लयुद्धहि पेच वत्तिषा गतहु प्रत्यगतादि ।—रघुराज (शब्द०) ।

प्रत्यगात्मा—उच्चा पुं० [सं० प्रत्यगात्मन्] व्यापक ब्रह्म । परमेश्वर ।

प्रत्यगाशा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पश्चिम दिशा [को०] ।

यौ०—प्रत्यगाशापति = पश्चिम दिशा के स्वामी, वरुण ।

प्रत्यग्या(पु)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा] दे० 'प्रतिज्ञा' । उ०—अचरज देखि राजा तव रहा । मिली प्रत्यग्या जो गुन कहा ।—हिंदी प्रेमगाथा, पृ० १८६ ।

प्रत्यग्र^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार उपरिचर वसु के एक पुत्र का नाम ।

प्रत्यग्र^२—वि० १. नया । ताजा । २. शुद्ध । पवित्र (को०) ।

प्रत्यग्रगधा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रत्यग्रगन्धा] स्वर्णयूथिका । सोनसूही ।

प्रत्यग्रथ—[सं०] दक्षिण पाचाल या अहिच्छत्र नामक देश । विशेष—दे० 'अहिच्छत्र' ।

प्रत्यग्रवय—वि० [सं०] यौवन से परिपूर्ण । जो भरी या बढ़नी अवानी में हो [को०] ।

प्रत्यङ्मुख—वि० [सं०] पश्चिम की ओर मुँह किए हुए [को०] ।

प्रत्यच्छ—वि० [सं० प्रत्यक्ष] दे० 'प्रत्यक्ष' । उ०—श्रीठाकुर जी प्रत्यच्छ मुरारीदास सो वार्ता करते ।—दो सो वावन०, भा० १, पृ० १०० ।

प्रत्यध्मान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का वात रोग ।

प्रत्यनंतर—वि० [सं० प्रत्यनन्तर] सन्निकट । समीपवर्ती । प्रत्यासन्न [को०] ।

प्रत्यनीक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. कविता का वह अर्थालंकार जिसमें किसी के पक्ष में रहनेवाले या सबकी के प्रति किसी हित या अहित का किया जाना वर्णन किया जाय । जैसे, (क) तो मुख छवि सो हारि जग भयो कलक समेत । सरद इडु अरविद मुख अरवदन दुख देत ।—मतिराम (शब्द०) । (ख) अपने भोग के जानि के यौवन नृपति प्रवीन । स्तन मन नैन निर्वंभ को बढ़ो हजाफा कीन ।—विहारी (शब्द०) । (ग)

तै जीत्यो निज रूप तें मदन वैर यह मान । बेधत तुव अनु-रागिनी, हक संग पाँचौ वान ।—(शब्द०) । २. शत्रु । दुश्मन ३. प्रतिपक्षी । विरोधी । मुकाबला करनेवाला । ४. प्रतिवादी । ५. विघ्न । बाधा ।

प्रत्यनुमान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] तर्क में वह अनुमान जो किसी दूसरे के अनुमान का खंडन करते हुए किया जाय ।

प्रत्यपकार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह अपवार जो किसी अपकार के बदले में किया जाय ।

प्रत्यभिज्ञा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. वह ज्ञान जो किसी देखी हुई चीज को, अथवा उसके समान किसी और चीज को, फिर से देखने पर हो । स्मृति की सहायता से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान । २. वह अभेद ज्ञान जिसके अनुसार ईश्वर और जीवात्मा दोनों एक ही माने जाते हैं । ३. कश्मीर का एक शैव दर्शन या शैवाहृतवाद । दे० 'प्रत्यभिज्ञादर्शन' ।

प्रत्यभिज्ञात—वि० [सं०] जाना हुआ । पहचाना हुआ [को०] ।

प्रत्यभिज्ञादर्शन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] माहेश्वर संप्रदाय का एक दर्शन जिसके अनुसार भक्तवत्सल महेश्वर ही परमेश्वर माने जाते हैं ।

विशेष—इस दर्शन में तंतु आदि जड़ पदार्थों को पट आदि कार्यों का कारण न मानकर केवल महेश्वर को सारे जगत् का कारण माना है, और कहा है कि जिस प्रकार ऋषि आदि बिना सीसयोग के ही मानसपुत्र उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार महादेव भी जड़ जगत् की किसी वस्तु की सहायता के बिना ही केवल अपनी इच्छा से जगत् का निर्माण करते हैं । इस मत के अनुसार किसी कार्य का कारण महेश्वर के अतिरिक्त और कुछ ही हो नहीं सकता । महेश्वर को न तो कोई सृष्टि करने के लिये नियुक्त या उत्तेजित करता है और न उसे किसी पदार्थ की सहायता की आवश्यकता होती है । इसी लिये उसे स्वतंत्र कहते हैं । जिस प्रकार दर्पण में मुख दिखाई देना है, उसी प्रकार जगदीश्वर में प्रतिबिम्ब पढ़ने के कारण सब पदार्थ दिखाई देते हैं । जिस प्रकार बहुरूपिए तरह तरह का रूप धारण करते हैं उसी प्रकार महेश्वर भी स्थावर जगत् आदि का रूप धारण करते हैं और इसी लिये यह सारा जगत् ईश्वरात्मक है । महेश्वर ज्ञाता और ज्ञान स्वरूप है, इसलिये घट पट आदि का जो ज्ञान होता है, वह सब भी परमेश्वर स्वरूप ही है ।

इस दर्शन के अनुसार मुक्ति के लिये पूजापाठ और जपतप आदि की कोई आवश्यकता नहीं, केवल प्रत्यभिज्ञा या इस ज्ञान की आवश्यकता है कि ईश्वर और जीवात्मा दोनों एक ही हैं । इस प्रत्यभिज्ञा की प्राप्ति होते ही मुक्ति का होना माना जाता है । इसी लिये इसे प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहते हैं । इस दर्शन के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं माना जाता है । इसी लिये इस मत के लोग कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान और क्रियाशक्ति है वही परमेश्वर है, और जिसमें ज्ञान और क्रियाशक्ति नहीं है, वह परमेश्वर नहीं है । परमेश्वर सब स्थानों में और स्वतः प्रकाशमान है । जीवात्मा

में परमात्मा का प्रकाश होने पर भी जबतक यह ज्ञान न हो कि ईश्वर के ईश्वरता आदि गुण हमसे भी हैं, तबतक मुक्ति नहीं हो सकती। यही जीवात्मा और परमात्मा के संबन्ध में इस दर्शन का सिद्धांत है। पदार्थनिर्णय के संबन्ध में प्रत्यभिज्ञान दर्शन और रसेश्वर दर्शन के मत आपस में मिलते जुलते हैं।

प्रत्यभिज्ञान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सद्यः वस्तु को देखकर किसी पहले देखी हुई वस्तु का स्मरण हो आना। स्मृति की सहायता से होनेवाला ज्ञान। २ पहचान। स्मारक वस्तु या चिह्न।

प्रत्यभिज्ञेय—वि० [सं०] पहचान के योग्य। प्रत्यभिज्ञान के योग्य। जानने योग्य। उ०—किंतु जो भी हो, निजी तुम प्रथम मेरे, प्रेय प्रत्यभिज्ञेय।—हरी घास०, पृ० १५।

प्रत्यभियोग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार वह अभियोग जो अभियुक्त अपने वादी अथवा अभियोग लगाने वाले पर लगावे। किसी के अभियोग लगाने पर उलटे उसपर अभियोग लगाना। वह अभियोग जो अभियुक्त अभियोग चलानेवाले पर चलावे। मुद्दालेह का मुद्दे पर भी दावा करना।

विशेष—व्यवहार शास्त्र के अनुसार ऐसा करना वजित है। अभियुक्त जब तक अपने आपको निर्दोष न प्रमाणित कर ले तब तक उसे वादी पर कोई अभियोग लगाने का अधिकार नहीं है।

प्रत्यभिवाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह आशीर्वाद जो किसी पूज्य या बड़े का अभिवादन करने पर मिले।

प्रत्यभिवादन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रत्यभिवाद'।

प्रत्यभिन्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शत्रु। दुश्मन।

प्रत्यय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ विश्वास। एतबार। यकीन। उ०—यदि पूरा प्रत्यय न हो तुम्हें इस जन पर, तो चढ़ सकते हैं राजदूत तो घन पर।—साकेत, पृ० २३७। २. प्रमाण। सबूत। उ०—प्रभु की नाममुद्रिका देकर परिचय, प्रत्यय, धैर्य दिया।—साकेत, पृ० ३८६। ३. विचार। खयाल। भावना। ४. ज्ञान। बुद्धि। समझ। ५. व्याख्या। शरह। ६. कारण। हेतु। ७. आवश्यकता। जरूरत। ८. प्रख्याति। प्रसिद्धि। ९. चिह्न। लक्षण। १०. निर्णय। फैसला। ११. समति। राय। १२. स्वाद। जायका। १३. सहायक। मददगार। १४. विष्णु का एक नाम। १५. वह रीति जिसके द्वारा छंदों के भेद और उनकी सख्या जानी जाय।

विशेष—छंद शास्त्र में ६ प्रत्यय हैं—(१) प्रस्तर, (२) सूची, (३) पाताल, (४) उद्दिष्ट, (५) नष्ट, (६) मेरु, (७) खड-मेरु, (८) पताका और (९) मकंटी।

१६ व्याकरण में वह अक्षर या अक्षरसमूह जो किसी धातु या मूल शब्द के अंत में, उसके अर्थ में कोई विशेषता उत्पन्न करने के उद्देश्य से लगाया जाय। जैसे, 'बढ़ा' (शब्द) अथवा 'लडना' के 'लड' (धातु) के अंत में जोड़ा जानेवाला 'आई' शब्दसमूह (जिसके जोड़ने से 'बढ़ाई' या 'लडाई' शब्द बनता है) प्रत्यय है।

विशेष—इसी प्रकार मुखंता में 'ता' लडकपन में 'पन', शीतल

में 'ल', दयालु में 'लु', प्रक्षरण में 'श' विकाळ में 'भाळ', उठान में 'आन', घुमाव में 'आव' आदि प्रत्यय हैं। उपसर्ग क्रियापदों या शब्दों के आदि में और प्रत्यय अंत में लगता है अतः इसे परसर्ग भी कहते हैं।

१७ छेद। छिद्र। रघ्न (को०)।

प्रत्ययकारी—वि० [सं० प्रत्ययकारिन्] विश्वास उत्पन्न करनेवाला। समझदारी से युक्त (को०)।

प्रत्ययकारिणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] मुदा। मुहर। विश्वासदायक चिह्न (को०)।

प्रत्ययत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रमाणत्व। उ०—जो असत् है उसका प्रत्ययत्व नहीं है।—सपूर्णानंद अमि० प्र०, पृ० ३६१।

प्रत्ययन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रतीति होना। प्रतीत होना (को०)।

प्रत्ययप्रतिभू—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जमानतदार जो किसी को महाजन से यह कहकर कज दिलावे कि मैं इसे जानता हूँ, यह बड़ा ईमानदार, साधु और विश्वास करने के योग्य है।

प्रत्ययवाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रत्यय+वाट] एक दार्शनिक सिद्धांत जिसमें यह माना जाता है कि हमारा समस्त ज्ञान विचारों से उत्पन्न है, भौतिक जगत् के पदार्थों से नहीं। आइडियलिज्म। उ०—यह इण्डिया जर्मन दार्शनिकों के प्रत्ययवाद से मिला जिसके प्रवर्तक काट थे।—चिंतामणि, भा० २, पृ० ७६।

प्रत्ययसर्ग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सांख्य शास्त्र में महत्त्व या बुद्धि से उत्पन्न सुष्टि।

प्रत्ययाधि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह गिरवी या रेहन जो रुपया वसूल होने के इतमिनान या साख के लिये रखा जाय।

प्रत्ययित—वि० [सं०] १ जिसे विश्वास हुआ हो। विश्वस्त। २ आप्त (को०)।

प्रत्ययी—वि० [सं० प्रत्ययिन्] १ विश्वास करनेवाला। भरोसा रखनेवाला। २ विश्वास करने योग्य। विश्वसनीय (को०)।

प्रत्यरा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह नाभि जिसमें चक्र या पहिए की धराएँ ढह करने के लिये जड़ी जाती हैं (को०)।

प्रत्यर्क—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का प्रतिपूर्यं।

प्रत्यर्थ—वि० [सं०] उपयोगी। लाभकर।

प्रत्यर्थ^२—सञ्ज्ञा पुं० १ उत्तर। जवाब। २ विरोध। शत्रुता (को०)।

प्रत्यर्थक, **प्रत्यर्थिक**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शत्रु। विरोधी (को०)।

प्रत्यर्थी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रत्यर्थिन्] १ प्रतिवादी। मुद्दालेह। २. शत्रु। दुश्मन।

प्रत्यर्पण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मिला हुआ धन किसी को देना। दान में पाया हुआ धन फिर दान करना।

प्रत्यर्पित—वि० [सं०] वापस किया हुआ। लौटाया हुआ (को०)।

प्रत्यवनेजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पुनः प्रक्षालन। फिर धोना। २. पुनराचमन (को०)।

प्रत्यवमर्श—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ अनुसंधान करना। पता लगाना। अच्छे बुरे का विचार करना।

प्रत्ययमर्शन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रत्ययमर्शन' ।
 प्रत्यवर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जो सबसे अधिक निकृष्ट हो। सबसे खराब। निकृष्टतम।
 प्रत्यवरूढि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रत्यवरोह'—१, -२।
 प्रत्यवरोध, प्रत्यवरोधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बाधा। अडचन। रोक [को०]।
 प्रत्यवरोह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ अवरोहण। उतरना। २ सीढ़ी। ३ वैदिक काल का एक प्रकार का गृह्य उत्सव जो अग्रहन मास में होता था।
 प्रत्यवरोहण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रत्यवरोह'।
 प्रत्यवलोकन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पर्यवेक्षण। देखना। निरीक्षण। दर्शन। उ०—स्पष्ट ही केवल यात्रा का प्रत्यवलोकन काफी नहीं है।—नदी०, पृ० ८।
 प्रत्यवसान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भोजन। खानापीना।
 प्रत्यवसित—वि० [सं०] १ खाया पिया हुआ। २ जिसने पुराना (बुरा) जीवन ग्रहण कर लिया हो [को०]।
 प्रत्यवस्कन्द—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रत्यवस्कन्द] दे० 'प्रत्यवस्कन्दन' [को०]।
 प्रत्यवस्कन्दन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रत्यवस्कन्दन] व्यवहार शास्त्र के अनुसार प्रतिवादी का वह उत्तर जो वादी के कथन का खडन करने के लिये दिया जाय। जवाबदावा। जवाबदेही।
 प्रत्यवस्थाता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रत्यवस्थातृ] १ विरोधी। शत्रु। २. प्रतिपक्ष। प्रतिवादी। मुद्दालेह [को०]।
 प्रत्यवस्थान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. हटाया। अलग करना। २. शत्रुता। विरोध [को०]।
 प्रत्यवहार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सहार। मार डालना। २ प्रलय। विनाश [को०]। ३ लड़ने के लिये तैयार सैनिकों को लड़ने से रोकना।
 प्रत्यवाय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह पाप या दोष जो शास्त्रों में बतलाए हुए नित्य कर्म के न करने से होता है। २ उलटफेर। भारी परिवर्तन। ३ जो नहीं है उसका न उत्पन्न होना या जो है उसका न रह जाना। ४ विघ्न। बाधा [को०]। ५. पाप [को०]। ६. दुरदृष्ट। दुर्भाग्य [को०]। ७ निर्दिष्ट कर्म के विरुद्ध आचरण [को०]।
 प्रत्यवेक्षण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] किसी बात को बहुत अच्छी तरह देखना, समझना या जाँचना। भली भाँति जानना।
 प्रत्यवेक्षा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] बीछो में पाँच प्रकार के बोध या ज्ञान में से एक का नाम [को०]।
 प्रत्यवेक्षा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रत्यवेक्षण' [को०]।
 प्रत्यशमा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रत्यशमन्] गेरू। गैरिक धातु।
 प्रत्यष्ठीला—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का वात रोग जिसमें नाभि के नीचे पेट में एक गुठली सी हो जाती है जिसमें पीडा होती है। यदि गुठली में पीडा न हो तो उसे 'वातष्ठीला' कहते हैं। गुठली मलमूत्र के द्वार रोक देती है जिसके कारण रोगी मलमूत्र का त्याग नहीं कर

सकता। उ०—श्रीर जो गाँठ तिरछी प्रगट भई होय तो उसको प्रत्यष्ठीला कहते हैं।—माधव०, पृ० १४६।

प्रत्यस्तमय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ समाप्ति। प्रत। खातमा। २ अस्तमन। (सूर्य का) डूबना या अस्त होना [को०]।

प्रत्याकरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रतिक्रिया। प्रत्याख्यान। उ०—शायद इसी का प्रत्याकरण हो जो पीछे मेरे लिये जरूरी हो पडता है।—सुखदा, पृ० ५४।

प्रत्याकार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] खड्गकोश। म्यान [को०]।

प्रत्याक्रमण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] आक्रमण के विरोध में आक्रमण। एक पक्ष से आक्रमण हो जाने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे पक्ष से आक्रमण।

प्रत्याख्यात—वि० [सं०] १ अस्वीकृत। २ निषिद्ध। रोक हुआ। ३ अतिक्रमित। आगे बढ़ा हुआ। ४ दूरीकृत। अलग किया हुआ। ५ सुचित। प्रख्यात। ख्यात। प्रसिद्ध [को०]।

प्रत्याख्यान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ खडन। २ निराकरण।

प्रत्यागत^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पैतरे का एक प्रकार। उ०—गत प्रत्यागत में श्रीर प्रत्यावर्तन में दूर वे चले गए।—लहर, पृ० ७३। २ कुशती का एक पेश।

प्रत्यागत^२—वि० जो लौट आया हो। वापस आया हुआ।

प्रत्यागति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पीछे लौटना। वापस होना [को०]।

प्रत्यागम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रत्यागमन' [को०]।

प्रत्यागमन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ लौट आना। वापसी। २ दोबारा आना। तुनरागमन।

प्रत्याघात—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ चोट के बदले की चोट। वह आघात जो किसी आघात के बदले में हो। २ टक्कर।

प्रत्याचार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सद्व्यवहार। अनुकूल व्यवहार [को०]।

प्रत्यादान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुन ले लेना। फिर से ले लेना। पुन-प्राप्ति [को०]।

प्रत्याताप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह स्थान जहाँ घाम बराबर रहती हो। सूर्यातिप्रयुक्त स्थान [को०]।

प्रत्यादित्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रतिसूर्य'।

प्रत्यादिष्ट—वि० [सं०] १. स स्तुत। स्वीकृत। २ अस्वीकृत। निराकृत। ३ पृथक् किया हुआ। अलग किया हुआ। ४ चेतया हुआ। सावधान किया हुआ। ५. घोषित। सूचित। ६ विजित। हराया हुआ [को०]।

प्रत्यादेश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] 'आदेश' से उलटा लाभ। वह लाभ जो लौटाना पड़े।

विशेष—कौटिल्य ने इसे बुरा कहा है, केवल कुछ विशेष अवस्थामों में ही ठीक बताया है।

प्रत्यादेशाभूमि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कौटिल्य के अनुसार वह भूमि जिसको लौटा देना पड़े।

प्रत्यादेश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ खडन। २. निराकरण। ३. आकाशवाणी। ४ आज्ञा। आदेश [को०]। ५. चैतावनी

(की०) । ६. निवारण (की०) । ७. शमिदा करने, हेय बनाने या हटानेवाला (की०) ।

प्रत्याधान—सञ्ज्ञा पुं० पुं० [सं०] वस्तुओं को जमा रखने की जगह । वह स्थान जहाँ वस्तुएँ जमा की जायें । आगार [की०] ।

प्रत्याध्मान—सञ्ज्ञा पुं० [म०] एक प्रकार का वात रोग जिसमें पेट फूलता है और नाभि के ऊपर कुछ पीड़ा होती है । उ०— और वही रोग ग्रामाणय में उत्पन्न होय तो उसको प्रत्याध्मान कहते हैं ।—माधव०, पृ० १४५ ।

प्रत्यानयन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वापस लाना । फिर से प्राप्त करना [की०] ।

प्रत्यानीत—वि० [सं०] वापस लाया हुआ । पुनः प्राप्त [की०] ।

प्रत्यापत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] १ लौटना । वापसी । वापस होना । २ विरक्ति होना । वैराग्य [की०] ।

प्रत्याम्नान^१—वि० [सं०] प्रतिनिधित्व करनेवाला । प्रतिनिधि [की०] ।

प्रत्याम्नाय^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ निगमन । अनुमान वाक्य का पाँचवाँ अययव । २ प्रतिनिधि [की०] ।

प्रत्याय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] राजस्व । कर ।

प्रत्यायक—वि० [सं०] १ विश्वास देनेवाला । विश्वासदायक । २ व्याख्या करनेवाला ।

प्रत्यायन—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १ (वहूँ को) घर ले आना । विवाह करना । २ (सूर्य का) अस्त होना । ३ विश्वास पैदा करना । ४ व्याख्या करना [की०] ।

प्रत्यायित—सञ्ज्ञा पुं० [म०] वह दूत या प्रतिनिधि जो पूर्णतः विश्वस्त हो [की०] ।

प्रत्यारंभ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पुनः शुरू करना । पुनरारम्भ । २ निरोध । निषेध । निवारण [की०] ।

प्रत्याद्र^१—वि० [सं०] स्वच्छ । नूतन । ताजा [की०] ।

प्रत्यालीढ^२—सञ्ज्ञा पुं० [म०] प्रत्यालीढ] घनुप चलानेवाला के बैठने का एक प्रकार जिसमें वे घनुप चलाने के समय बायाँ पैर आगे बढ़ा देते हैं और दाहिना पैर पीछे खींच लेते हैं ।

प्रत्यालीढ^३—वि० साया हुआ । भुक्त ।

प्रत्यावर्तन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] लौट आना । वापस आना । उ०— गत प्रत्यागत में और प्रत्यावर्तन में दूर वे चले गए ।—सहर, पृ० ७३ ।

प्रत्याशा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] आशा । उम्मेद । भरोसा ।

प्रत्याशी—वि० [सं०] प्रत्याशिन] १ आशा करनेवाला । इच्छुक । चाहनेवाला । उ०—स्त्री का हृदय था, एक दुलार का प्रत्याशी, उसमें कोई मलिनता न थी ।—तितली, पृ० ८३ । २ (चुनाव में) उम्मीदवार ।

प्रत्याश्रय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह स्थान जहाँ आश्रय लिया जाय । पनाह लेने की जगह ।

प्रत्याश्वास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुनः श्वास लाना । फिर से साँस लेना [की०] ।

प्रत्याश्वासन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ढाढम । धैर्य । सात्पना [की०] ।

प्रत्याश्वस्त—वि० [सं०] आश्वासन प्राप्त । आश्वस्त । जिसे सात्पना दी गई हो [की०] ।

प्रत्यासकलित—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रत्यासकलित] पक्ष और विपक्ष की बातों को मिलाकर विचार करना [की०] ।

प्रत्यासग—सञ्ज्ञा पुं० [म०] प्रत्यासन्न] सवध । संयोग । लगान [की०] ।

प्रत्यासत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] निकटता । गामीप्य । नजदीकी । २ सं० 'प्रासत्ति' । ३ निरुद्ध सवध [की०] । ४ प्रसन्नता । उत्फुल्लता [की०] ।

प्रत्यासन्न—वि० [सं०] पास आया हुआ । निकट पहुँचा हुआ ।

यौ०—प्रत्यासन्नमरण । प्रत्यासन्नमृत्यु = जिसकी मृत्यु निकट हो । जो मरणा सन्न हो ।

प्रत्यासर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सेना का पिछला भाग । २ एक के बाद दूसरा ब्यूह के क्रम से संयोजित सेना । वह सेन्यस्थिति जिसमें एक के बाद दूसरा ब्यूह हो [की०] ।

प्रत्यासार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ३० 'प्रत्यासर' ।

प्रत्यास्वर^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सूर्य जो डूबने के बाद पुनः उगा हो ।

प्रत्यास्वर^२—वि० पुनः लौटनेवाला । जैसे, सूर्य । २ पुनः दीप्त । पुनः चोतित होनेवाला [की०] ।

प्रत्याहत—वि० [सं०] प्रतिरोधित । निवारित । हटाया हुआ [की०] ।

प्रत्याहरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ इन्द्रियनिग्रह । प्रत्याहार । २ हटाना । पीछे करना । ३. निग्रहण [की०] ।

प्रत्याहार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. योग के आठ अंगों में से एक अंग जिसमें इन्द्रियों को उनके विषयों से हटाकर चित्त का अनुसरण किया जाता है । जैसे, यदि आँखें किसी सुन्दर रूप पर बुरे भाव से जा पड़ें तो उन्हें वहाँ से हटाकर अपने चित्त को शांत करना । इसका अभ्यास बहुत ही कठिन माना जाता है । इन्द्रियनिग्रह । उ०—प्रत्याहार धारणा ध्यान, लं समाधि लावै ठिकठीना ।—मुदर प्र०, भा २, पृ० ८६२ । २ प्रलय । सृष्टि का विनाश [की०] । ३ हटाना । पीछे करना [की०] । ४ संक्षेप । सारसंग्रह [की०] । ५ निग्रह करना । निग्रहण [की०] । ६ व्याकरण में विभिन्न वर्ण-समूह को समीपित रूप से संक्षेप में ग्रहण करने की पद्धति या संकेत । जैसे, 'अण्' से अ इ उ और अच् से समग्र स्वर वर्ण—अ, इ, उ, ऋ, ए और औ, इत्यादि ।

प्रत्याहृत—वि० [सं०] वापस बुलाया हुआ [की०] ।

प्रत्याहृत—वि० [सं०] १. वापस लिया हुआ । फिर से प्राप्त किया हुआ । २ निगृहीत । जिसका निग्रह किया गया हो । ३ हटाया या पीछे खींचा हुआ [की०] ।

प्रत्युक्त—वि० [सं०] उत्तरित । जिसका जवाब दिया गया हो । उत्तर में कहा हुआ [की०] ।

प्रत्युक्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] जवाब । उत्तर ।

प्रत्युच्चार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रत्युच्चारण' ।

प्रत्युच्चारण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुनः उक्ति । पुनः कथन [की०] ।

प्रत्युज्जीवन—सज्ञा पुं० [म०] मरे हुए व्यक्ति का फिर से जी उठना । पुनर्जीवन ।

प्रत्युत्^१—सज्ञा पुं० [सं०] किसी दूसरे के पक्ष का खडन या अपने पक्ष का मडन करने के लिये विपरीत भाव । विपरीतता ।

प्रत्युत्^२—अव्य० वल्कि । वरन् । इसके विरुद्ध । जैसे,—वे लोग माने नहीं प्रत्युत् और भी आगे बढ़ने लगे ।

प्रत्युत्क्रम—सज्ञा पुं० [सं०] १. वह उद्योग जो कोई कार्य आरम्भ करने के लिये किया जाय । २. वह आक्रमण जो युद्ध के समय सबसे पहले हो । ३. युद्ध का उपक्रम । लड़ाई की तैयारी (को०) ।

प्रत्युत्क्रान्ति—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रत्युत्क्रान्ति] दे० प्रत्युत्क्रम [को०] ।

प्रत्युत्तर—सज्ञा पुं० [सं०] उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर । जवाब का जवाब ।

प्रत्युत्थान—सज्ञा पुं० [सं०] १. किसी बड़े या पूज्य के आने पर उसके स्वागत और आदर के लिये आसन छोड़कर उठ खड़ा होना । अभ्युत्थान । २. शत्रु आदि का सामना करने के लिये उठकर खड़ा होना (को०) । ३. लड़ाई की तैयारी करना (को०) । ४. किसी काम को करने की व्यवस्था करना (को०) ।

प्रत्युत्थित—वि० [सं०] जो मिलने वा सामना करने के लिये उठ खड़ा हुआ हो [को०] ।

प्रत्युत्पन्न—वि० [सं०] १. जो फिर से उत्पन्न हुआ हो । २. जो ठीक समय पर उत्पन्न हुआ हो ।

यौ०—प्रत्युत्पन्नबुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति = (१) जो तुरंत ही कोई उपयुक्त बात या काम सोच लेई। ठीक समय पर जिसकी बुद्धि काम कर जाय । तत्पर बुद्धिवाला । (२) ठीक समय पर काम देनेवाली बुद्धि । अक्सर पढ़ते ही उपयुक्त कार्य कर दिखानेवाली बुद्धि । उ०—उसके साथी अपनी हास्योद्दीपक उक्तियों और प्रत्युत्पन्नमति के लिये प्रसिद्ध थे ।—अकबरी०, पृ० २३ ।

प्रत्युत्पन्नार्थ कृच्छ्र—वि० [सं०] (राज्य या राष्ट्र) जो अर्थ-संकट में पड़ गया हो, अर्थात् जिसके शासन का खर्च आमदनी से न सधता हो ।

प्रत्युदाहरण—सज्ञा पुं० [सं०] विरोधी उदाहरण । विपरीत उदाहरण [को०] ।

प्रत्युद्गत—वि० [सं०] १. आसन से उठकर किसी के आदरार्थ आगे बढ़ा हुआ । २. विरोध में गया हुआ [को०] ।

प्रत्युद्गति—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रत्युद्गमन' [को०] ।

प्रत्युद्गम—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रत्युद्गमन' [को०] ।

प्रत्युद्गमन—सज्ञा पुं० [सं०] किसी के आने पर उसका स्वागत करने के लिये उठकर खड़ा हो जाना । अभ्युत्थान ।

प्रत्युद्गमनीय^१—वि० [सं०] १. सामने या पास रखने योग्य । २. समान के योग्य । पूज्य ।

प्रत्युद्गमनीय^२—सज्ञा पुं० एक प्रकार का वस्त्र (अघोवस्त्र और उत्तरीय) जो प्राचीन काल में यज्ञों में या भोजन के समय पहना जाता था ।

प्रत्युद्गार—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का वायु रोग ।

प्रत्युद्धरण—सज्ञा पुं० [सं०] १. फिर से प्राप्त करना । २. फिर से उठाना [को०] ।

प्रत्युधम—सज्ञा पुं० [सं०] विरोधी प्रयत्न । प्रतिक्रिया । प्रति-रोध [को०] ।

प्रत्युपकार—सज्ञा पुं० [सं०] वह उपकार जो किसी उपकार के बदले में किया जाय । एक भलाई के बदले में की जानेवाली दूसरी भलाई ।

प्रत्युपकारी—सज्ञा पुं० [सं० प्रत्युपकारिन्] उपकार का बदला देने-वाला । वह जो किसी उपकार के बदले में उपकार करे ।

प्रत्युपदेश—सज्ञा पुं० [सं०] उपदेश के परिवर्तन में कथित उपदेश । राय के बदले में राय [को०] ।

प्रत्युपन्न—वि० [सं०] दे० 'प्रत्युत्पन्न' [को०] ।

प्रत्युपमान—सज्ञा पुं० [सं०] १. सदृश की प्रतिमूर्ति या रूप । उपमान का उपमान । २. उपमान । प्रतिमान [को०] ।

प्रत्युपलब्ध—[सं०] पुन प्राप्त । फिर से प्राप्त [को०] ।

प्रत्युपस्थान—सज्ञा पुं० [सं०] पढोस । परोस [को०] ।

प्रत्युपस्थित—वि० [सं०] १. पहुँचा या अभी प्राया हुआ । २. उप-स्थित [को०] ।

प्रत्युप्त—वि० [सं०] १. जटित । खचित । वैठाय हुआ । २. उप्त । बोया हुआ [को०] ।

प्रत्युलूक—सज्ञा पुं० [सं०] १. काक । कौआ । २. उलूक के समान एक पक्षी [को०] ।

प्रत्युष—सज्ञा पुं० [सं० प्रत्युष, प्रत्युप्स्] प्रभात । तडका ।

प्रत्युद्ध—वि० [सं०] १. प्रत्याख्यात । निराकृत । २. तिरस्कृत । उपेक्षित । ३. अतिक्रमित । ४. आच्छादित । आवृत । पिनद्ध [को०] ।

प्रत्युष—सज्ञा पुं० [सं०] १. प्रभात । तडका । प्रात काल । २. सूर्य । ३. एक वसु का नाम ।

प्रत्युह—सज्ञा पुं० [सं०] विघ्न । बाधा । उ०—कहत कठिन समुभक्त कठिन साधत कठिन विवेक । होइ धुनाकर न्याय जो, पुनि प्रत्युह अनेक ।—मानस, ७।११८ ।

प्रत्येक—वि० [सं०] समूह अथवा बहुते में से हर एक, शलग अलग । जैसे,—(क) प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है । (ख) प्रत्येक बालक को एक एक नारंगी दो । (ग) प्रत्येक पत्र पर दस्तखत करो ।

प्रत्येकत्व—सज्ञा पुं० [सं०] प्रत्येक का भाव या धर्म ।

प्रत्येकबुद्ध—सज्ञा पुं० [सं०] एक बुद्ध का नाम । पच्चेक बुद्ध ।

प्रथन—सज्ञा पुं० [सं०] १. एक प्रकार का गुल्म । २. विस्तार । ३. प्रकाश में लाने की क्रिया या भाव । ४. विखराना । विखेरना (को०) । ५. फेंकना (को०) । ६. विखराने या फैलाने का स्थान (को०) ।

प्रथम^१—वि० १. गणना में जिसका स्थान सबसे पहले हो । जो गिनती में सबसे पहले आवे । पहला । आदि का । अथवा । उ०—एक मोहनहि अगनित तरुनि तकति प्रथमहि डीठि

श्रकवारि में भरति कसि । — घनानद, पृ० ४७६ । २ सर्व-
श्रेष्ठ । सबसे अच्छा । ३ प्रधान । मुख्य ।

यौ०—प्रथम पुरुष ।

प्रथम^२—क्रि० वि० [सं०] पहले । पेशतर । आगे । आदि मे ।

प्रथमक—वि० [सं०] पहला । प्रथम [को०] ।

प्रथमकल्प—सज्ञा पुं० [सं०] १ सबसे अच्छा ढग या उपाय । २
प्रधान या मुख्य नियम [को०] ।

प्रथमकवि—सज्ञा पुं० [सं०] आदि कवि । वाल्मीकि । उ०—प्रथम
कवि का ज्यो सु दर छद ।—कामायनी, पृ० ४५ ।

प्रथमकल्पिक—वि० [सं०] जो माघना की प्रथम सीढी पर
हो [को०] ।

प्रथमकारक—सज्ञा पुं० [सं०] व्याकरण मे 'कर्ता' (कारक) ।

विशेष— दे० 'कर्ता' ।

प्रथमकुसुम—सज्ञा पुं० [सं०] सफेद फूल के अगस्त का वृक्ष ।
श्वेत अगस्त ।

प्रथमज—वि० [सं०] १ जो पहले उत्पन्न हुआ हो । जिसका जन्म
पहले हुआ हो । २ जो सबसे पहले गर्भ से उत्पन्न हुआ हो ।
३ बड़ा । ज्येष्ठ ।

प्रथमतः—क्रि० वि० [सं० प्रथमतम्] पहले से । सबसे पहले ।

प्रथमदर्शन—सज्ञा पुं० [सं०] पहली बार देखना [को०] ।

प्रथमधार—सज्ञा स्त्री० [सं०] पहली वर्षा । प्रथम दृष्टि [को०] ।

प्रथमनवनीत—सज्ञा पुं० [सं०] वह दूध जो गाय के ब्याने के सी
दिन बीत जाने पर दुहा जाता है [को०] ।

प्रथमनिर्दिष्ट—वि० [सं०] जिसका उल्लेख या कथन पहले हुआ
हो । पूर्वकथित [को०] ।

प्रथमपुरुष—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'उत्तम पुरुष' ।

प्रथममगल—सज्ञा पुं० [सं० प्रथममगल] बहुकल्याण या शुभ [को०] ।

प्रथमयौवन—सज्ञा पुं० [सं०] युवावस्था का प्रथम चरण । चढ़ती
जवानी [को०] ।

प्रथमरात्र—सज्ञा स्त्री० [सं०] रात का पहला पहर [को०] ।

प्रथमवयस्—सज्ञा पुं० [सं०] बालकाल । बाल्यावस्था [को०] ।

प्रथमवयसी—वि० [सं० प्रथमवयसिन्] नई उम्र का । छोटी
अवस्थावाला [को०] ।

प्रथमवसति—सज्ञा स्त्री० [सं०] मूल निवास । मूल स्थान [को०] ।

मूलवित्ता—स्त्री० [सं०] पहली स्त्री । पहली पत्नी [को०] ।

प्रथमसाहस—सज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन व्यवहार शास्त्र के अनुसार
एक प्रकार का साहस दंड जिसमे ३५० पण तक जुमाना
होता था । यह दंड साधारण अपराधों के लिये होता था ।

प्रथमस्कान—सज्ञा पुं० [सं०] वेदमंत्र उच्चारण करने के समय
सबसे नीचा या धीमा स्वर ।

प्रथमस्वर—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का सामगान ।

प्रथमा—सज्ञा स्त्री० [सं०] १, मदिरा । धराव । (तांत्रिक) ।

उ०—(क) कृष्णदेव बलदेव सुजानी । प्रथमा पिवत सदा
ज्यो पानी ।—निश्चल (शब्द०) । (ख) सकल पिए प्रथमा
मतिवारे । पूजत शक्ति मगन मन सारे ।—निश्चल (शब्द०) ।
२, व्याकरण का कर्ता कारक ।

प्रथमार्द्ध—सज्ञा पुं० [सं०] पहले का आधा भाग । शुरु का आधा ।
पूर्वार्द्ध ।

प्रथमार्ध—सज्ञा पुं० [सं०] पूर्वाध । शुरु का आधा ।

प्रथमाश्रम—सज्ञा पुं० [सं०] चार प्रजा के आश्रमों में पहला,
ब्रह्मचर्याश्रम [को०] ।

प्रथमी(पुं०)†—सज्ञा स्त्री० [सं० पृथिवी] दे० 'पृथ्वी' ।

प्रथमेतर—वि० [सं०] पहले के अतिरिक्त । दूसरा [को०] ।

प्रथमोदित—वि० [सं०] पहले कहा हुआ । प्रथम कथित [को०] ।

प्रथा—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ रीति । रिवाज । प्रणाली । नियम ।
२ ख्याति । प्रसिद्धि ।

प्रथागत—वि० [सं० प्रथा + गत] रीति के अनुसार । परपरानु-
सार । परंपराप्राप्त । उ०—यह धर्म की बेड़ी नहीं है,
कदापि नहीं, प्रथागत पतिव्रत भी नहीं ।—मान०, भा० १,
पृ० ३२२ ।

प्रथित^१—वि० [सं०] १ प्रख्यात । मशहूर । २ परंपरागत । रीति
के अनुकूल । ३ प्रचलित । ४, दिखाया हुआ । प्रदर्शित
(को०) । ५ विस्तृत (को०) ।

प्रथित^२—सज्ञा पुं० १, पुराणानुसार स्वरोचिष मनु के पुत्र का
नाम । २, विष्णु (को०) ।

प्रथिति—सज्ञा स्त्री० [सं०] रपाति । प्रसिद्धि ।

प्रथिमा—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रथिमन्] चौड़ाई । विस्तार ।
फैलाव [को०] ।

प्रथिवी—सज्ञा स्त्री० [सं०] पृथ्वी । धरा [को०] ।

प्रथी†—सज्ञा स्त्री० [सं० पृथ्वी] दे० 'पृथ्वी' । उ०—प्रथी वायु
गेनाय तेजस लाल ।—पृ० रा०, १, ३६४ ।

प्रथु^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ विष्णु । २ दे० 'पृथु' ।

प्रथु(पुं०)†—वि० [सं० पृथु] स्थूल । दे० 'पृथु' । उ०—प्रथुल, प्रासु,
परिणाह, प्रथु, धारत तुंद विशाल ।—नद प्र०, पृ० ८७ ।

प्रथुक^१—सज्ञा पुं० [सं०] चिचडा [को०] ।

प्रथुक(पुं०)†—वि० [हिं०] दे० 'पृथुक' । उ०—अवर पच सामंत
धष । दीनी प्रथुक पथार ।—पृ० रा०, ५, २६७ ।

प्रथुरोम(पुं०)†—सज्ञा स्त्री० [सं० पृथुलोमन्] दे० 'पृथुलोमा' । उ०—सफरी
अनमिष मत्स तिमि प्रथुरोमा पाठीन ।—अनेकार्थ०, पृ० ८० ।

प्रथुल(पुं०)†—वि० [सं० पृथुल] दे० 'पृथुल' । उ०—प्रथुल, प्रासु,
परिणाह, प्रथु, अरत तुद त्रिणाल । दीर्घ स्वास जो भरत
बलि, का कगून है बाल ।—नद० प्र०, पृ० ८७ ।

प्रथ्वी—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रथिवी] दे० 'पृथ्वी' । उ०—तिनकी देह
छाया नहि होई । सर्व प्रथ्वी प्रमानिक सोई ।—कवीर सा०,
पृ० ६३५ ।

प्रद—वि० [सं०] देनेवाला । जो दे । दाता ।

विशेष—इस शब्द का प्रयोग सदा योगिक शब्दों के अंत में होता है । जैसे, मोक्षप्रद, आनंदप्रद, कामप्रद ।

प्रदक्षणा^(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रदक्षिणा] दे० 'प्रदक्षिण' । उ०—
दे प्रदक्षणां दस्वै चढै । उस नगरी सम सोभी पडै ।
—प्राण०, पृ० २७४ ।

प्रदक्षिण^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] देवपूजन आदि के समय देवमूर्ति आदि को दाहिनी ओर कर, भक्तिपूर्वक उसके चारो ओर घूमना । परिक्रमा । उ०—उभय घरी मँह दीन्ह में सात प्रदक्षिण घाय ।—तुलसी (शब्द०) ।

विशेष—साधारण बोलचाल में इस शब्द के साथ केवल 'करना' क्रिया का ही प्रयोग होता है । पर कही कही, और विशेषत कविता में इसके साथ 'लगना', 'देना' आदि क्रियाओं का भी व्यवहार होता है जैसा ऊपर के उदाहरण से प्रकट है ।

यौ०—प्रदक्षिणाक्रिया = परिक्रमा । प्रदक्षिणा । प्रदक्षिणपट्टिका = प्रागिन । अंगना ।

प्रदक्षिण^२—वि० १ समर्थ । योग्य । २, दाहिनी ओर स्थित (को०) । ३ अनुकूल । विनम्र (को०) । ४ शुभ । मंगल । सुलक्षण (को०) ।

प्रदक्षिणा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रदक्षिण' ।

प्रदक्षिणार्चि—वि० [सं०] जिसकी लपट या ज्वाला दाहिनी ओर हो (अग्नि) ।

प्रदग्ध—वि० [सं०] अच्छी तरह दग्ध या जला हुआ (को०) ।

प्रदच्छिन^(७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रदक्षिण] परिक्रमा । प्रदक्षिण ।
उ०—कोन्ह प्रणाम प्रदच्छिन लाई ।—तुलसी (शब्द०) ।

प्रदत्त^१—वि० [सं०] जो दिया जा चुका हो । दिया हुआ ।

प्रदत्त^२—सञ्ज्ञा पुं० एक गधर्व का नाम ।

प्रदर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ स्त्रियों का एक रोग जिसमें उनके गर्भाशय से सफेद या लाल रंग का लसदार पानी सा बहता है, जिसमें कभी कभी दुर्गंध भी होती है ।

विशेष—इसमें रोगी स्त्री को वेदना होती है और उसका शरीर दिन पर दिन सुखता जाता है । जिसमें स्याव सफेद रंग का होता है उसे श्वेत और जिसमें लाल रंग का होता है उसे रक्त प्रदर कहते हैं । वैद्यक के अनुसार यह रोग मद्यपान, गर्भपात, अधिक मैथुन, शोक, उपवास आदि के कारण होता है । यह रोग प्रायः सतान उत्पन्न होने के उपरांत हुआ करता है ।

२ वाण । तीर । २. फोड़ने या तोड़ने का भाव । ४ छिद्र । सष । दरार (को०) । ५ सेना का इतस्तव होना । सेना का अस्तव्यस्त होना (को०) ।

प्रदर्प—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रचंड अभिमान । अत्यधिक घमंड । उ०—
सुदर प्रदर्प दर्प उन्नत उतग जुगम केषो कुच आकृत अनग
कर ढारे री ।—पद्मनेस०, पृ० ३६ ।

६-५७

प्रदर्श—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ रूप । आकार आकृति । २. आदेश । निर्देश (को०) ।

प्रदर्शक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ दिखलानेवाला । समझानेवाला । वह जो कोई चीज दिखलावे । जैसे, पर्यप्रदर्शक । २. वह जो दर्शन करे । दर्शक । ३. गुह । ४ सिद्धांत । वाद । मत (को०) । ५ अनागतदर्शी । भविष्यवक्ता (को०) ।

प्रदर्शन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ दिखलाने का काम । २. दे० 'प्रदर्शनी' । ३ समझाना । व्याख्या करना (को०) । ४ संकेत । इशारा (को०) । ५ उदाहरण (को०) । ६ भविष्यवाणी (को०) । ७ रूप । आकार (को०) ।

प्रदर्शनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह स्थान जहाँ तरह तरह की चीजें लोगों को दिखलाने के लिये रखी जायें । नुमाइश । जैसे, कृषिप्रदर्शनी, शिल्पप्रदर्शनी, कपडों की प्रदर्शनी ।

प्रदर्शित—वि० [सं०] १ जो दिखलाया गया हो । दिखलाया हुआ । २ समझाया हुआ । सिखाया हुआ । बताया हुआ (को०) ।

प्रदर्शी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रदर्शित] वह जो देखता हो । दर्शक । २. दिखानेवाला । प्रदर्शक (को०) ।

प्रदल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वाण । तीर ।

प्रदव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ताप । दाह । ज्वलन (को०) ।

प्रदव्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दावाग्नि (को०) ।

प्रदाता^१—वि० [सं० प्रदाह] दाता । देनेवाला ।

प्रदाता^२—सञ्ज्ञा पुं० १ वह जो खूब दान देता है । बहुत बड़ा दानी । २ इद्र । ३ वह जो विवाह में कन्यादान करता है (को०) । ४ विश्वेदेवा के अतर्गत एक देवता का नाम ।

प्रदान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] देने की क्रिया । देना । उ०—नुम अन्य प्रदान करो, न करो ।—अर्चना, पृ० ४४ । २ दान । बखशीस । ३ विवाह । शादी । ४ अंकुश । सृष्टि । ५ वलि । नैवेद्य (को०) । ६ प्रत्याख्यान । खडन (को०) ।

प्रदानक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] उपहार । भेंट । दान (को०) ।

प्रदानकृपण—वि० [म०] देने में हीला करनेवाला । कजूस (को०) ।

प्रदानशूर—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १ बोधिसत्व का नाम । २ बहुत बड़ा दानी । दानवीर (को०) ।

प्रदाय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भेंट । प्रदानक । उपहार (को०) ।

प्रदायक—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० प्रदायिका] देनेवाला । जो दे ।

प्रदायी—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रदायित] [स्त्री० प्रदायिनी] देनेवाला । जो दे ।

प्रदाव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दावाग्नि । जगल की आग ।

प्रदाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ ज्वर आदि के कारण अथवा और किसी कारण शरीर में होनेवाली जलन । दाह ।

विशेष—प्रदाह कभी सारे शरीर में, कभी किसी अंग में जैसे, मूत्रद्वय, सिर या फेफड़े, और कभी किसी अंग के बहुत ही

थोड़े बरसा मे होता है। ज्वर आदि का प्रदाह सारे शरीर में श्रौं व्रण आदि होने से पहले किसी थोड़े से स्थान में होता है। शरीर के अंदर किसी प्रकार का आघात या उपद्रव होने, स्नायु में किसी प्रकार की उत्तेजना आदि होने अथवा श्रौं किसी प्रकार का आघात होने पर प्रदाह उत्पन्न होता है। कभी कभी जहरीले जानवरों के काटने या अधिक गरमी पहुँचने के कारण भी प्रदाह होता है। जिस स्थान पर प्रदाह होता है उस स्थान पर कभी कभी सूजन आदि भी हो जाती है, या वहाँ से कुछ तरल पदार्थ निकलने लगता है।

२ विनाश। वरवादी। विध्वंस। प्रलय (की०)।

प्रदिक्—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रदिक्] २० 'प्रदिशा' [की०]।

प्रदिग्ध^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विशेष प्रकार से पका हुआ मास।

प्रदिग्ध^२—वि० स्निग्ध किया हुआ। तेल या घी से चुपड़ा। चिकना किया हुआ।

प्रदिग्य—वि० [सं०] दे० 'दिव्य'। उ०—प्रथम प्रदिग्य मुद भजित अमीत छिद्र ध्रुव विक्षमा प्रपन्न गुण प्रतिकर कुंद।—पञ्जनेस०, पृ० २४।

प्रदिशा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रदिश] दो मुख्य दिशाओं के बीच का कोना। कोण। विदिशा।

प्रदिष्ट—वि० [सं०] १ प्रदर्शित। संकेतित। २ निर्देशित। आदेशित। ३ स्थिर किया हुआ। नियत किया हुआ [की०]।

प्रदिष्टाभय—वि० [सं०] जिसे राज्य की घोर से रक्षा का वचन मिला हो। राज्य द्वारा संरक्षित।

प्रदीप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ दीपक। दीप्ता। चिराग। २ रोशनी। प्रकाश। ३ वह जिससे प्रकाश हो। ४ संपूर्ण जाति का एक राग जिसे गाने का समय तीसरा पहर है। किसी किसी के मत से यह दीपक राग का एक पुत्र है।

विशेष—ग्रंथादि के अंत में लगने पर इसका अर्थ व्याख्या करने या स्पष्ट करनेवाला और वश या कुलवाचक शब्दों के साथ लगने पर ज्योतिष करनेवाला, रोशन करनेवाला अर्थ देता है। जैसे, काव्यप्रकाशप्रदीप, काव्यप्रदीप, वशप्रदीप, कुलप्रदीप।

प्रदीपक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० प्रदीपिका] १ प्रकाशक। प्रकाश में लानेवाला। प्रकाशित करनेवाला। २ उद्दीप्त करनेवाला। उकसानेवाला (की०)। ३ नौ प्रकार के विषों में से एक प्रकार का भयकर स्थावर विष जिसके सूँघने मात्र से मनुष्य मर जाता है।

विशेष—यह विष के एक पीछे की जड़ है जिसके पत्ते खसूर के से होते हैं और जो समुद्र के किनारे बहुतायत से पैदा होता है। इसे प्रदीपन भी कहते हैं।

प्रदीपति^०—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रदीप्ति] दे० 'प्रदीप्ति'।

प्रदीपन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्रकाश करने का काम। उजाला करना। २ उज्वल करना। चमकाना। ३ एक प्रकार का

भयकर विष जिसे प्रदीपक भी कहते हैं। विशेष—^० 'प्रदीपक'।

प्रदीपन^२—वि० १ प्रज्वलित करनेवाला। २ प्रकाशित करनेवाला। ३ उत्तेजित करनेवाला। उत्तेजक [की०]।

प्रदीपिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ छोटा दीपक। २ एक रागिनी जो किसी किसी के मत से दीपक राग की स्त्री है। ३ व्याख्या। भाष्य [की०]।

प्रदीप्त—वि० [सं०] १ जलता हुआ। जगमगाता हुआ। जिसमें प्रकाश हो। प्रकाशमान। प्रज्वलित। २, जिसमें दीप्ति हो। उज्वल। चमकदार। चमकीला। ३ उठाना हुआ। फेंकना हुआ [की०]। ४ उत्तेजित। जगाया हुआ [की०]।

प्रदीपप्रज्ञ—वि० [सं०] नीदलानुद्धि। जिसमें बुद्धि तेज हो [की०]।

प्रदीप्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १, रोशनी। प्रकाश। २, चमक। आभा।

प्रदीपणा^०—सञ्ज्ञा पुं० [हि०] २० 'प्रदक्षिण'। उ०—घन्य दीहा-हउ घाज की। देर प्रदीपणा लागइ द्यह पाई।—वी० रामो०, पृ० ६६।

प्रदुमन^०—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रदुमन] २० 'प्रद्युम्न'। उ०—कृष्ण के भयो प्रदुमन वारा।—कवीर सा०, पृ० ४७।

प्रदुष्ट—वि० [सं०] १ विगड़ा हुआ। भ्रष्ट। २ बुरा। दुष्ट। पापी। ३ विषयी। कामुक [की०]।

प्रदूपक—वि० [सं०] १ नष्ट करनेवाला। २ दूषित करनेवाला।

प्रदूपण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १, नष्ट करना। चोपट करना। २ दूषित करना। दोषगुक्त करना [की०]।

प्रदूषित—वि० [सं०] भ्रष्ट। विगड़ा हुआ। विकृत [की०]।

प्रदृप्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] गर्व। अभिमान। प्रदर्प [की०]।

प्रदेय^१—वि० [सं०] १ जो देने योग्य हो। दान करने योग्य। देने (या विनाह करने) के योग्य (कन्या)।

प्रदेय^२—सञ्ज्ञा पुं० वह जो कुछ उपहार में दिया जाय। भेंट। नजर।

प्रदेश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ किसी देश का वह बड़ा विभाग जिसकी भाषा, रीतिव्यवहार, जलवायु, वासनपद्धति आदि उसी देश के अन्य विभागों की इन सब बातों से भिन्न हों। प्रात। सूबा। २ स्थान। जगह। मुकाम। ३ भ्रूगुठे के अगले सिरे से लेकर तर्जनी के अगले सिरे तक की दूरी। छोटा दिचा या वालिशन। ४ अंग। अवयव। ५ सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार की तंत्र युक्ति। ६ दीवार। ७ सञ्ज्ञा। नाम। ८ दिखाना। निर्देश करना (की०)। ९ व्याकरण में उदाहरण या निर्देशन। उदाहरण या उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण [की०]।

प्रदेशकारी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रदेशकारिन्] योगियों का एक संप्रदाय।

प्रदेशन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह जो कुछ किसी बड़े या राजा को उपहार के रूप में दिया जाय। भेंट। नजर। २ परामर्श। उपदेश। सलाह (की०)। ३ दिखलाना। दिखाना (की०)।

प्रदेशनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] भ्रूगुठे के पास की उँगली। तर्जनी।

प्रदेशित—वि० [सं०] दिखलाया हुआ [को०] ।

प्रदेशिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] 'प्रदेशिनी' ।

प्रदेशो—वि० [सं०] प्रदेश संबंधी । प्रदेश का ।

प्रदेशीय—वि० [सं०] प्रदेश का । प्रदेश से संबंधित ।

प्रदेष्टा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रदेष्ट] प्रदेशविशेष के कर वी घसुली का प्रवध करनेवाला और चोर, डाकुप्रो आदि को दंड देकर शांति रखनेवाला अधिकारी ।

विशेष—इसका कार्य आजकल के कलक्टर के कार्य से मिलता जुलता होता था ।

प्रदेह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह श्रावण या लेप आदि जो फोड़े पर, उसे दबाने के लिये लगाया जाय । २ सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का व्यजन ।

प्रदोष^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सव्याकाल । रजनीमुख । सूर्य के अस्त होने का समय ।

विशेष—कुछ लोग रात के पहले पहर को भी प्रदोष कहते हैं । २. वह अंधेरा जो सव्या समय होता है । ३. त्रयोदशी का व्रत जिसमें दिन भर उपवास करके सव्या समय शिव का पूजन करके तब भोजन करना होता है । यह व्रत प्रायः पुत्र को कामना से किया जाता है । ४. अव्यवस्था (को०) । ५. बड़ा दोष । भारी अपराध ।

प्रदोष^२—वि० दुष्ट । पाजी ।

प्रदोषक—वि० [सं०] प्रदोष काल में उत्पन्न [को०] ।

प्रदोहन—स्त्री० पुं० [सं०] दोहन करना । दुहना [को०] ।

प्रद्वटिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [?] ३० 'पञ्चटिका' ।

प्रद्यु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुण्य जिससे उत्तम लोक स्वर्ग की प्राप्ति होती है [को०] ।

प्रद्युत्तित—वि० [सं०] घोषित । प्रकाशित । प्रज्वलित [को०] ।

प्रद्युम्न^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. कामदेव । कंदर्प । २. श्रीकृष्ण के वृष्टे पुत्र का नाम । ३. नड्वला के गर्भ से उत्पन्न मनु के एक पुत्र का नाम । ४. वैष्णवों के अनुसार चतुर्व्यूहात्मक विष्णु के एक अक्ष का नाम । (शेष तीन अक्षों के नाम वासुदेव, स कर्षण और अनिरुद्ध हैं ।)

प्रद्युम्न^२—वि० अत्यंत बली । बहुत बड़ा वीर ।

प्रद्युम्नक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कामदेव । कंदर्प [को०] ।

प्रद्योत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ किरण । रश्मि । दीप्ति । आभा । २. चमक । ३. प्रकाशित करना या होना । ४. एक यक्ष का नाम । ५. उज्जैनी के प्राचीन नरेश का नाम (को०) ।

प्रद्योतन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सूर्य । २. चमक । दीप्ति । ३. चमकना । घोषित होना ।

प्रद्योतन^२—वि० चमकीला । चमकनेवाला ।

प्रद्रव^१—वि० [सं०] तरल । द्रव [को०] ।

प्रद्रव^२—सञ्ज्ञा पुं० दौड़ना । भागना । पलायन [को०] ।

प्रद्राव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. भागना । दौड़ना । पलायन करना । २. तेजी से दौड़ना या भागना [को०] ।

प्रद्रावो—वि० [सं० प्रद्रावित्] दौड़नेवाला । भागनेवाला । पलायन-शील [को०] ।

प्रद्वार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] द्वार के घास पास या आगे का भाग । दरवाजे का धगला भाग ।

प्रद्वेप, प्रद्वेपण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. णजुता । वैर । दुपमनी २. घृणा ।

प्रद्वेपी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] महाभारत के अनुसार दीर्घतमा ऋषि की स्त्री का नाम ।

प्रधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह जिसके पास बहुत अधिक धन हो । २. युद्ध । लड़ाई । ३. दारण । विदारण (को०) । ४. युद्ध से लूट का धन (को०) । ५. विध्वंस । विनाश (को०) ।

प्रधमन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. वैद्यक में वह क्रिया जिसमें कोई श्रावण या घृण आदि नाक के रास्ते, जोर से भुँघाकर ऊपर चढाया जाय । २. वैद्यक में एक प्रकार की सुँघनी ।

प्रधर्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रधर्षण' ।

प्रधर्षक—वि० [सं०] १. आक्रमण करनेवाला । कष्ट देनेवाला । सतानेवाला । २. बलात्कार करनेवाला । सतीत्व नष्ट करनेवाला [को०] ।

प्रधर्षण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रधर्षक] १. अपमान । घनादर । २. जबरदस्ती किसी स्त्री का सतीत्व भंग करना । बलात्कार । ३. आक्रमण ।

प्रधर्षित—वि० [सं०] १ जिसपर आक्रमण किया गया हो । २. जिसका अनादर किया गया हो । ३. (वह स्त्री) जिसके बलात्कार किया गया हो । ३. उद्दंड । उद्धत । अमानि (को०) ।

प्रधा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दक्ष प्रजापति की एक कन्या जो क को ब्याही गई थी ।

प्रधान^१—वि० [सं०] १ मुख्य । खास । २. सर्वोच्च । श्रेष्ठ ।

प्रधान^२—सञ्ज्ञा पुं० १ नेता । मुखिया । सरदार । २. सचिव मंत्री । वजीर । ३. ससार का उपादान कारण प्रवृत्ति । ४. बुद्धि । समझ । ५. ईश्वर । परमात्मा । ६. सेनाध्यक्ष । महापति । ७. एक राजपि का नाम । प्रकृति (को०) ।

प्रधानक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सांख्य के अनुसार बुद्धि तत्व ।

प्रधानकर्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रधानकर्मन्] सुश्रुत के अनुसार तंत्र प्रकार के कर्मों में से एक कर्म जो रोग की उत्पत्ति हो जाने पर किया जाता है ।

प्रधानत—क्रि० वि० [सं० प्रधानतस्] प्रधान रूप से । मुख्य से । मुख्यतया [को०] ।

प्रधानता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रधान होने का भाव, धर्म, या पद ।

प्राधानधातु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] शरीर के सब धातुओं में से प्रधान शुक और वीर्य ।

प्रधानपुरुष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ राज्य या शासन आदि का प्रमुख व्यक्ति । २. शिव [को०] ।

प्रधानसभिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] द्यूतगृह का मुखिया । जुमाघर का प्रधान [को०] ।

प्रधानमंत्री—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रधानमन्त्रिन्] किसी देश, राज्य या राष्ट्र का वह प्रमुख व्यक्ति जो सभी मंत्रियों से बड़ा होता है तथा शासन का प्रधान संचालक होता है ।

प्रधानांग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रधानाङ्ग] १ मुख्य अवयव । प्रधान भग । २ राज्य का प्रसिद्ध व्यक्ति [को०] ।

प्रधानात्मा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रधानात्मन्] विष्णु [को०] ।

प्रधानाध्यापक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] किसी शिक्षासंस्था का मुख्य शिक्षक जो अध्यायन के साथ संस्था की व्यवस्था भी करता है ।

प्रधानाभात्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रधान मंत्री । मंत्रिसमूह में प्रधानता-प्राप्त मंत्री ।

प्रधानी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० प्रधान + ई (प्रत्य०)] प्रधान का पद या कर्म ।

प्रधानोत्तम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ युद्धेषु । वीर । २. लब्धप्रतिष्ठ । अत्यंत प्रसिद्ध । विश्रुत [को०] ।

प्रधारण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ रक्षण । गुप्ति । २ धारण करना [को०] ।

प्रधारणा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] मस्तिष्क को किसी एक और या किसी विषय पर जमाना [को०] ।

प्रधावन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वायु । हवा । २ धावक । दौड़ने-वाला [को०] । ३ मलना । साफ करना [को०] ।

प्रधावित—वि० [सं०] दौड़ता हुआ । तीव्र गति से युक्त । उ०—भूले हुए बलेश को, हो रहे प्रधावित तुम्हारे तीर्थ देश को ।—बापू, पृ० १६ ।

प्रधि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पहिए का धुरा । २ कुर्पा [को०] । ३ मंडल । चक्र [को०] । ४. खड । विच्छेद [को०] ।

प्रधी^१—वि० [सं०] प्रकृष्ट बुद्धिवाला । अत्यधिक चतुर [को०] ।

प्रधी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० प्रकृष्ट मति । उत्कृष्ट बुद्धि [को०] ।

प्रधीर—वि० [सं०] धीरधारी । धैर्यवान् । धैर्यशील । उ०—भोले अक निकस उरोज उकसन लागे हियरस पीकर को पजन प्रधीरें जे ।—पजनेस०, पृ० ५ ।

प्रधूपित—वि० [सं०] १. तप्त । तपाया हुआ । २. दीप्त । चमकता हुआ । ३. जिसे सताप या दुःख हुआ हो । ४. सुवासित । धूपित [को०] ।

प्रधूपिता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ वह दिशा जिसर सूर्य बढ़ रहा हो । २ कृष्टपीडित । दुःख में पड़ी हुई नारी [को०] ।

प्रधूमित—वि० [सं०] धुएँ से भरा हुआ । भीतर ही भीतर जलने-वाला [को०] ।

प्रध्मापित—वि० [सं०] वायु से पूरित किया हुआ । फूँका हुआ । वजाया हुआ [को०] ।

प्रध्यान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विशिष्ट ध्यान या चिंतन । गभीर चिंतन । प्रगाढ़ चिंतन [को०] ।

प्रधृष्ट—वि० [सं०] १. धवित । अपमानित । तिरस्कृत । २. उद्द । घमडी । उद्धत [को०] ।

प्रध्मापन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वायु के आवागमन को ठीक रखने के लिये श्वास नली को ठीक करने का उपचार या प्रक्रिया [को०] ।

प्रध्वस—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. नाश । विनाश । नष्ट हो जाना । २. साह्य के मत से किसी वस्तु-की अतीत अवस्था ।

विशेष—साह्य मतवाले यह नहीं मानते कि किसी वस्तु का नाश नहीं होता है । इसलिये वे किसी पदार्थ की अतीत अवस्था को ही प्रध्वस कहते हैं ।

प्रध्वसक—वि० [सं०] विनाशक । नाश करनेवाला ।

प्रध्वसाभाव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] न्याय के अनुसार पाँच प्रकार के अभावों में से एक प्रकार का अभाव । वह अभाव जो किसी वस्तु के उत्पन्न होकर फिर नष्ट हो जाने पर हो ।

प्रध्वसित—वि० [सं०] विनष्ट । वरवाद [को०] ।

प्रध्वसी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रध्वंसिन्] १ नाश करनेवाला । वह जो नष्ट करे । २ नष्ट होनेवाला । क्षयशील । नाशशील [को०] ।

प्रध्वस्त^१—वि० [सं०] जो नष्ट हो गया हो । जिसका प्रध्वंस हो चुका हो ।

प्रध्वस्त^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] तांत्रिकों के अनुसार एक प्रकार का मंत्र ।

प्रन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रण] दे० 'प्रण' ।

प्रनत^१—वि० [सं० प्रणत] दे० 'प्रणत' । उ०—सरनागत भारत प्रनतनि को दे दे अभयपद और निवाहैं ।—तुलसी प्र०, पृ० ४१३ ।

यौ०—प्रनतपाल । प्रनतपालक । प्रनतपालिका = दे० प्रणतपाली ।

प्रनति^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रणति] दे० 'प्रणति' ।

प्रनप्ता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रनप्तृ] नाती का पुत्र । परनाती । पनाती [को०] ।

प्रनमन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रणमन] दे० 'प्रणमन' ।

प्रनमना^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रणमना] दे० 'प्रणमना' ।

प्रनय^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रणय] दे० 'प्रणय' । उ०—(क) प्रीति प्रनय विनु मद ते गुनी ।—मानस, ३।१५ । (ख) राव रक सब एक से लगत प्रनय रस सोत ।—भारतेंदु ग्रं०, भा० ३, पृ० ३६८ ।

प्रनयाम^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणायाम] दे० 'प्राणायाम' । उ०—वैसाख मास फल पूरन जोग जुक्ति प्रनयाम ।—भीखा० शं०, पृ० ४३ ।

प्रनर्तित—वि० [सं०] १. कपायमान किया हुआ । कपित । २. कुलाया हुआ । ३. नृत्य करता हुआ । नाचता हुआ [को०] ।

प्रनव^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रणव] दे० 'प्रणव' ।

प्रनवना^७—क्रि० सं० [हिं०] दे० 'प्रणवना' । उ०—(क) प्रनवो दीनवधु दिनदानी ।—मानस, १।१५ । (ख) प्रनवों सवनि कपट छल त्यागे ।—मानस, १।१४ (ग) प्रथमहिं प्रनवों प्रेममय, परम जोति जो आहि ।—नंद प्र०, पृ० ११७ ।

प्रनष्ट—वि० [सं०] १ गायब । लुप्त । अदृश्य । २ नष्ट । अष्ट । बुरी तरह नष्ट । ३ भगा हुआ । पलायित [को०] ।

प्रनाम—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रणाम] दे० 'प्रणाम' । उ०—गुरुहिं प्रनाम मनहिं मन कीन्हा ।—मानस, १।२६१ । (ख) कौसल्या कल्याणमय मूर्ति करत प्रनामु । सगुन सुमगल काज सुम कृपा करहिं सिय रामु ।—तुलसी प्र०, पृ० ६३ ।

प्रनामी^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रणामिन्] प्रणाम करनेवाला । जो प्रणाम करे ।

प्रनामी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रणाम + हिं० ई (प्रत्य०)] वह धन या दक्षिणा जो गुरु, ब्राह्मण या गोस्वामी आदि को शिष्य या भक्त लोग प्रणाम करने के समय देते हैं । प्रणामी ।

प्रनायक—वि० [सं०] १ नेतारहित । नायकविहीन । २. नायकों में श्रेष्ठ या प्रधान [को०] ।

प्रनार^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रनाल] प्रणाली । पनारा । उ०—कज्जल प्रमान प्रवत ठरयो रत्तधार बुठठत जलु । कचन प्रनार ह्वै सुरश्रविक इह ओपम दीसत पलु ।—गु० रा०, ७।१४४ ।

प्रनाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रणाली । पनारा । परनाला । उ०—तन छिद्र कालं, रुधिजा प्रनाल । बहै धार पगंगं, निनारध रग ।—पृ० रा०, १।६४२ ।

प्रनालिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रणाली] रीति । पद्धति । सरणि । प्रणाली । उ०—तव श्रीगुसाई जी आप कृपा करिकै नित्य की तथा बरस दिन की सब उत्सवन की प्रकार प्रनालिका लिखि पठाए ।—दो सी बावन०, भा० १, पृ० २४८ ।

प्रनाली^७—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रणाली' ।

प्रनाशन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रणाशन] दे० 'प्रणाशन' ।

प्रनासन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रणाशन] दे० 'प्रणाशन' ।

प्रनिघातन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हत्या । वध [को०] ।

प्रणिपात^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रणिपात] दे० 'प्रणिपात' ।

प्रनृत्^१—वि० [सं०] जो नृत्य करता हो । नाचनेवाला । नर्तक [को०] ।

प्रनृत्^२—सञ्ज्ञा पुं० नाच । नृत्य [को०] ।

प्रपञ्च—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रपञ्च] १. पाँच तत्वों का उत्तरोत्तर अनेक सेदों में विस्तार । स सार । सृष्टि । भवजाल । उ०—विधि प्रपञ्च गुन प्रवगुन साना ।—तुलसी (शब्द०) । २ एक से उत्तरोत्तर अनेक होने का क्रम । विस्तार । फैलाव । ३. सांसारिक व्यवहारों का विस्तार । दुनिया का जजाल । उ०—(क) परमारथी प्रपञ्च वियोगी ।—तुलसी (शब्द०) । (ख) सपने होइ भिखारि नृप रंक नाकपति होय । जागे

लाभ न हानि कछु तिमि प्रपञ्च जिय जोय ।—तुलसी (शब्द०) । ४. बखेडा । झगडा । झगडा । झमेला । उ०—देहु, कि लेहु अजस करि नाही । मोहि न बहुत प्रपञ्च सुहाही ।—तुलसी (शब्द०) । ५. आडवर । ढोंग । छल । धोखा । उ०—रचि प्रपञ्च भूपहि अपनाई । रामतिलक हित लगन धराई ।—तुलसी (शब्द०) । ६. विपर्यास । प्रतिकूलता । वैभरीत्य [को०] । ७. राशि । सचय । पुंज [को०] । ८. व्याख्या । विस्तार । विरलेपण [को०] । ९. नाटक में परिहासजनक कथन । अस गत या भोडा कथन [को०] ।

प्रपञ्चक—वि० [सं० प्रपञ्चक] १. दिखानेवाला । प्रदर्शन करनेवाला । २. विकास करनेवाला । ३. सागोपाग व्याख्या करनेवाला । विस्तार से दिग्दर्शित करानेवाला [को०] ।

प्रपञ्चन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रपञ्चन] [वि० प्रपञ्चित] विस्तार बढ़ाना । तूल देना ।

प्रपञ्चबुद्धि—वि० [सं० प्रपञ्चबुद्धि] बृहत् । धोखेबाज [को०] ।

प्रपञ्चवचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. आडवर या ढोंग से भरी बात । २. विस्तृत बातचीत । व्योरे की बात [को०] ।

प्रपञ्चित—वि० [सं० प्रपञ्चित] १. जो विस्तृत किया गया हो । फैलाया या विस्तार किया हुआ । २. भ्रमयुक्त । ३. जिससे भूल हुई हो । प्रतारित । जो छला गया हो ।

प्रपञ्ची—वि० [सं० प्रपञ्चिन्] १. प्रपञ्च रचनेवाला । २. छली । कपटी । ढोंगी । आडवर फैलानेवाला । ३. झगडालु । बखेडिया ।

प्रपञ्च—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पक्ष का सिरा या छोर, जैसे, पक्षिव्यूहबद्ध सेना का [को०] ।

प्रपतन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. उड़ जाना । २. नीचे गिरना । पतन । ३. वह स्थान जिसपर से कोई वस्तु गिरे । ४. मृत्यु । नाश । समाप्ति । ५. चट्टान । ६. आक्रमण [को०] ।

प्रपतित—वि० [सं०] १. उड़ा हुआ । जो उड़ गया हो । २. गिरा हुआ । नीचे आया हुआ । ३. नष्ट । बरबाद । ४. मरा हुआ । मृत [को०] ।

प्रपत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] अनन्य शरणागत होने की भावना । अनन्य भक्ति । उ०—वैष्णव ग्रथन सकल पढायो । पुनि प्रपत्ति को धर्म सुनायो ।—रघुराज (शब्द०) ।

प्रपथ—वि० [सं०] शिथिल । थका साँदा ।

प्रपथ्य—वि० [सं०] जो विशेष हित करे । अत्यंत हितकर [को०] ।

प्रपथ्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] हरीतकी । हड ।

प्रपद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पैर का झगला भाग ।

प्रपद्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पहुँच । पैठ । प्रवेश [को०] ।

प्रपदीन—वि० [सं०] प्रपद्म सबधी । पैर के पजे का । पैर के झगले भाग से संबद्ध [को०] ।

प्रपन्न—वि० [सं०] १. प्राप्त । २. आया हुआ । पहुँचा हुआ ।

३ शरण में आया हुआ। शरणागत। आश्रित। ४. कण्ट-
ग्रस्त। दीन। दुखी (को०)।
प्रपलायन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भाग जाना। पलायन करना [को०]।
प्रपलायित—वि० [सं०] १ भागा हुआ। भग्न। भगोड़ा। २
पराजित। हारा हुआ [को०]।
प्रपन्नाङ्ग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रपन्नाङ्ग] चक्रमर्दक। चकवैड।
प्रपर्ण^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गिरा हुआ पत्ता।
प्रपर्ण^२—वि० (पेड़ आदि) जो पत्तों से रहित हो [को०]।
प्रपलायी—वि० [सं०] १ भग्न। भगोड़ा। भागनेवाला [को०]।
प्रपलाश—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रपर्ण'।
प्रपा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पीसरा। प्याऊ। वह स्थान जहाँ प्यासों
को पानी पिलाया जाता है। २ कूप। कुम्हा (को०)। ३
जलप्रणाली (को०)। ४ पशुओं के जल पीने का हौज (को०)।
५ यज्ञशाला।
प्रपाक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ घाव आदि का पकना। २. दाह।
जलन। प्रदाह [को०]।
प्रपाठ, प्रपाठक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वेद के अध्यायों का एक अंश।
२ श्रौत ग्रंथों का एक अंश।
प्रपाण्ण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ हस्ताग्र। हाथ का अगला सिरा।
२ हथेली [को०]।
प्रपाण्डु—वि० [सं० प्रपाण्डु] अत्यधिक श्वेत [को०]।
प्रपात—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पहाड़ या चट्टान का ऐसा किनारा
जिसके नीचे कोई रोक न हो। खड़ा किनारा जहाँ से गिरने
पर कोई वस्तु बीच में न रुक सके। भृगु। भ्रतट। २. एक
प्रकार की उडान। ३ एकवारगी नीचे गिरना। ४ ऊँचे
से गिरती हुई जलधारा। निर्भर। झरना। दरी।
५. एकाएक। हमला। आकस्मिक आक्रमण (को०)। ६.
किनारा। तट (को०)।
प्रपातन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जमीन आदि पर गिराना या नीचे की
ओर फेंकना [को०]।
प्रपातांबु—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रपाताम्बु] प्रपात का जल। झरने का
पानी [को०]।
प्रपाती—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रपातिन्] वह पर्वत या शिला जिसके आगे
कोई रोक न हो [को०]।
प्रपाथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सड़क। मार्ग [को०]।
प्रपादिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मयूर। मोर।
प्रपान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्याऊ। पीसला। २ एक पेय (को०)।
प्रपानक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] फलों के गूदे, रस आदि को पानी में
घोलकर नमक, मिर्च, चीनी आदि देकर बनाई हुई पीने की
वस्तु। पन्ना। उ०—अनेक सुदर और स्वादिष्ट पेय पदार्थों
से बने हुए प्रपानक रस का आनंद वह पा सकता है।—रस
क०, पृ० १६।
प्रपापलिका—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह स्त्री जो पीसरा चलाती हो [को०]।

प्रपालन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पालन। पोषण। रक्षण [को०]।
प्रपाली—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रपालिन्] बलदेव का एक नाम।
प्रपिता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रपितामह] दे० 'प्रपितामह'। उ०—हमारा
प्रपिता अनभिज्ञतावश माया चक्का में पड़ा हुआ किर्पाँ खा
रहा है।—कवीर म०, पृ० २१५।
प्रपितामह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० प्रपितामही] १ परदादा। दादा
का बाप। बाप का दादा। २ परब्रह्म। ३. कृष्ण (को०)।
प्रपितामही—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] परदादी।
प्रपितृव्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] परदादा का भाई।
प्रपीडक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रपीडक] सतानेवाला। बहुत कष्ट देनेवाला।
२. पीसने या दवानेवाला।
प्रपीडन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रपीडन] [वि० प्रपीडित] १ बहुत अधिक
कष्ट देना। २. दवाना। ३. धारक श्रापध।
प्रपीत—वि० [सं०] वायुपूरित। स्फीत। फेना हुआ [को०]।
प्रपीति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पीना। पान करना [को०]।
प्रपीन—वि० [सं०] दे० 'प्रपीत' [को०]।
प्रपील(७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पिपीलक] दे० 'पिपीलक'। उ०—
सुमत रोम राजय। प्रपील पति छाजय।—पृ० रा०, २५। ३२६।
प्रपुंज—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रपुञ्ज] वड़ा समूह। भारी झुंड। उ०—
विकसित कमलावली चले प्रपुंज चचरीक, गुजत कल कोमल
धुनि त्यागि कंज न्यारे।—तुलसी (शब्द०)।
प्रपुत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० प्रपुत्री] पुत्र का पुत्र। पोता।
प्रपुनाङ्ग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रपुनाङ्ग] दे० 'प्रपुन्नाट'।
प्रपुन्नङ्ग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रपुन्नङ्ग] दे० 'प्रपुन्नाट'।
प्रपुन्नाट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चक्रमर्दक। चकवैड।
प्रपुन्नाङ्ग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रपुन्नाङ्ग] दे० 'प्रपुन्नाट'।
प्रपुन्नाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रपुन्नाट'।
प्रपूरक—वि० [सं०] १ पूरा करनेवाला। पूर्ण करनेवाला।
२ सतुष्ट करनेवाला [को०]।
प्रपूरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ भरना। पूर्ण करना। सतुष्ट करना।
तुष्ट करना। ३ संबद्ध करना। लगाना। ४. झुकाना।
जैसे धनुष [को०]।
प्रपुराण—वि० [सं०] अत्यंत पुराना। बहुत काल का [को०]।
प्रपूरिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कटकारी। कटेरी। भटकटैया।
प्रपूरित—वि० [सं०] पूर्ण। भरा हुआ [को०]।
प्रपूर्ण—वि० [सं०] पूर्ण। भरा हुआ। युक्त। उ०—इसलाम
कलाओं से प्रपूर्ण जन जनपद।—तुलसी०, पृ० ६।
प्रपूर्वग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ परब्रह्म। ईश्वर। २ भविष्यनीकुमार
का नाम [को०]।
प्रपौडरीक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रपौडरीक] पौडरीक। पुडरी का पौधा।
प्रपौत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० प्रपौत्री]। पड़पोता। पुत्र का पोता।
पोते का पुत्र।

प्रपौत्री—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पडपोती । पुत्र की पोती । पोते की पुत्री ।

प्रप्रायन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सृजन [को०] ।

प्रफुङ्गना—क्रि० अ० [सं० प्र + स्फुटन] दे० 'प्रफुल्लना' ।

प्रफुल्लद^७—वि० [हि० प्रफुल्लना] दे० 'प्रफुल्ल' । उ०—प्रफुल्लद पकज जाण पटपद हिये वृ ह्रषावियर्षा ।—रघु० १२६, पृ० १२६ ।

प्रफुल्लना^७—क्रि० अ० [सं० प्रफुल्ल] फूलना । खिलना । विकसित होना ।

प्रफुल्ला^७—सञ्ज्ञा स्त्री० [प्रफुल्ल (=खिला हुआ)] १. कुमुदिनी । कुँई । उ०—प्रफुला हार हिए लसे सन की वेदी भाल । राखति खेत खरी खरी खरे उरोजन बाल ।—बिहारी (शब्द०) ।

विशेष—पं० हरिप्रसाद ने इस दोहे का जो संस्कृत अनुवाद आर्या छंद में किया है । उसमें यही अर्थ लिया है—लसित कुमुदिनीमाला ग्रामीणा क्षण कुसुमतिलकमाला । उन्नत पयोधरेय रक्षित बालोत्थिता क्षेत्रम् ।

२. कमलिनी । कमल । उ०—छूर्वांग जो, तू रे ! भवें कहुँ याको तनक हू । कहुँ तोको बदी पकरि प्रफुला के उदर में ।—लक्ष्मणसिंह (शब्द०) ।

प्रफुल्लित^७—वि० [सं० प्रफुल्ल] १. खिला हुआ । कुसुमित । उ०—मुख देखत शोभा एक भावत मनो राजीव प्रकाश । अरुण भागमन देखिकै प्रफुल्लित भए हुलास ।—सुर (शब्द०) । २. प्रफुल्ल । आनदित । उ०—अंगुरिन में अंगुरी कर हिए । प्रफुल्लित फिरे सग हूरि लिए ।—लल्लू (शब्द०) । ३. जागृत । उ०—मलयगिरि वासी हू पवन काम अग्नि प्रफुल्लित करत ।—ब्रज० प्र०, पृ० १०१ ।

प्रफुल्लत—वि० [सं०] खिला हुआ । विकसित । प्रफुल्ल [को०] ।

प्रफुल्लि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] विकास । प्रफुल्ल होना [को०] ।

प्रफुल्ल—वि० [सं०] १. विकाशयुक्त । खिला हुआ । विकसित । प्रस्फुटित । जैसे, प्रफुल्ल कुसुम । २. कुसुमित । फूला हुआ । जिसमें फूल लगे हों । ३. खुला हुआ । जो मुँदा हुआ न हो जैसे, प्रफुल्ल नेत्र । ४. प्रसन्न । हँसता हुआ । आनदित । जैसे, प्रफुल्ल वदन ।

यौ०—प्रफुल्लनयन । प्रफुल्लनेत्र । प्रफुल्ललोचन । प्रफुल्लवदन ।

प्रबंध—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रबन्ध] १. प्रकृष्ट बधन । बाँधने की डोरी आदि । २. बंधान । कई वस्तुओं या बातों का एक में ग्रथन । योजना । ३. पूर्वापर सगति । बंधा हुआ सिलसिला । ४. एक दूसरे से सबद्ध वाक्यरचना का विस्तार । लेख या अनेक सबद्ध पद्यों में पूरा होनेवाला काव्य । निबध । उ०—दुर-जोधन अवतार नृप सत सौवत सकबध । भारत्य सम किय भुषन मँह ताठे चद्र प्रबध ।—प० रासो, पृ० १ ।

विशेष—फुटकर पद्यो को प्रबध नहीं कहते, प्रकीर्णक कहते हैं । ५. आयोजन । सपाय । ६. व्यवस्था । बंदोबस्त । इंतजाम ।

उ०—इतै इंद्र अति कोह के औरै किए प्रबंध । नंदनदहू को लखत नहिँ ऐसो मति को अघ ।—व्यास (शब्द०) ।

प्रबंधक—वि० सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रबन्धक] प्रबंधकर्ता । प्रबंध करने-वाला [को०] ।

प्रबंधकरूपना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रबन्धकरूपना] १. प्रबंधरचना । संदर्भरचना । २. ऐसा प्रबंध जिसमें थोड़ी सी सत्य कथा में बहुत सी बात ऊपर से मिलाई गई हो ।

प्रबंधकाव्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रबन्धकाव्य] काव्य का एक भेद जो मुक्तक काव्य के विपरीत है और जिसमें जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध उल्लेख किया जाता है, जैसे रामचरित-मानस । उ०—कही तो प्रबंधकाव्य और कही मुक्तककाव्य के कृत्रिम विभेद खड़े कर सुरदास जी की हेठी दिखाई गई है ।—पोद्दार अभि० ग्रं०, पृ० १०७ ।

प्रबधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रबन्धन] १. प्रकृष्ट बधन । डोरी आदि बाँधने की वस्तु । २. बाँधने का कार्य । बाँधना [को०] ।

प्रब^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रभु] प्रभु । स्वामी । मालिक । ईश्वर । उ०—साधु सग कबहुँ नहिँ कौन्हा, नहिँ कीरति प्रब गाई । जन नानक मे नही कोउ गुन, राखि सेहु सरनाई ।—संत वाणी०, भा० २, पृ० ५० ।

प्रब^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्व, पुं० हिं० प्रब्व] दे० 'पर्व' ।

प्रबच्छति प्रेयसी^७—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं०] दे० 'प्रवत्स्यत्प्रेयसी' । उ०—कही प्रबच्छति प्रेयसी, आगतपतिका वाम ।—मति० ग्रं०, पृ० २१४ ।

प्रबध्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] इद्र [को०] ।

प्रबर्ह—वि० [सं०] सर्वोत्कृष्ट । सर्वश्रेष्ठ । सर्वप्रधान [को०] ।

प्रबल^१—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रबला] १. बलवान् । प्रचड । २. जोर का । तेज । तुद । उग्र । उ०—कबहुँ प्रबल चल मारत जहँ तहँ मेघ बिलाहि ।—तुलसी (शब्द०) । ३. कष्टकर । हानिकर । खतरनाक [को०] । ४. भारी । घोर । महान् । उ०—लपठ भूपट भरराने हहराने बात भरराने भट परघो प्रबल परावनो ।—तुलसी (शब्द०) । ५. हानिकर । नुकसान-देह [को०] ।

प्रबल^२—सञ्ज्ञा पुं० १. एक दैत्य का नाम । २. पल्लव । कोयल [को०] ।

प्रबला^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रसारिणी नाम की ओषधि ।

प्रबला^२—वि० स्त्री० १. बहुत बलवती । २. प्रचडा ।

प्रबलिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पहेली । प्रहेलिका । बुझौवल [को०] ।

प्रबाधक—वि० [सं०] १. विरोध करनेवाला । हटानेवाला । २. सतानेवाला । कष्टकर । ३. अलग रखने या रोकने-वाला । पीछे रखनेवाला । ४. अस्वीकार करनेवाला । न माननेवाला [को०] ।

प्रबाधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. कष्ट देना । सताना । २. अस्वीकार करना । न मानना । ३. अलग रखना । दूर रखना [को०] ।

प्रवाधित—वि० [सं०] १. सताया हुआ । पीडित । २. बलपूर्वक आगे किया हुआ । आगे बढ़ाया हुआ [को०] ।

प्रवाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पत्तलव । कोपल । उ०—रसाल का वृक्ष अपने विशाल हाथों को पिप्पल के चचन प्रवालो से मिलाता है । —श्यामा०, पृ० ४१ । २. दे० 'प्रवाल ।'

प्रवालक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक पक्ष ।

प्रवालपद्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] रक्त कमल । लाल कमल [को०] ।

प्रवालफल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] लाल चदन ।

प्रवालभस्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रवालभस्मन्] मूँगे का भस्म जो एक श्रौषधि है [को०] ।

प्रवालवर्ण—वि० [सं०] मूँगे के रंग का लाल [को०] ।

प्रवालिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जीवशाक ।

प्रवास(पु)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रवास] दे० 'प्रवास' । उ०—कहि पूरव धनुराग भरु मान प्रवास विचारि । रस सिंगार वियोग के तीन भेद निरधारि ।—मति० ग्रं०, पृ० ३५० ।

प्रवाह(पु)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रवाह] दे० 'प्रवाह' । उ०—कवि मतिराम जाकी चाह ब्रजनारिन को, देह भ्रूसुवान की प्रवाह भोजियतु है ।—मति० ग्रं०, पृ० २८३ ।

विशेष—यह शब्द पु लिंग है, पर उदाहरण में कवि ने स्त्रीलिंग प्रयोग किया है ।

प्रवाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हाथ का अगला भाग । पहुँचा ।

प्रवाहुक—अव्य० [सं०] १ सीध में । एक लाइन में । २ समतल में । सतह के बराबर ।

प्रविसना(पु)—क्रि० प्र० [सं० प्रविश] दे० 'प्रविसना' । उ०—दधि द्रव हरद भरि कनक थार । बहु गौन करत प्रविसत बाल ।—ह० रासी, पृ० ३२ ।

प्रवीन(पु)—वि० [सं० प्रवीण] दे० 'प्रवीण' । उ०—सोच करो जिन होहु सुखी मतिराम प्रवीन सबे नर नारी । मजुल बजुल कुजन में घन, पुज सखी । ससुरारि तिहारी ।—मति० ग्रं०, पृ० २६० ।

प्रवीर(पु)—वि० [सं० प्रवीर] दे० 'प्रवीर' ।

प्रवुद्ध^१—वि० [सं०] १. प्रवाध युक्त । जागा हुआ । २. होश में आया हुआ । जिसे चेत हुआ हो । ३. पठित । ज्ञानी । ४. विकसित । प्रफुल्ल । खिला हुआ । ५. सजीन (को०) ।

प्रबुद्ध नञ्ज्ञा पुं० १ नव योगेश्वरों में से एक योगेश्वर । २ ऋषभदेव के एक पुत्र जो भागवत के अनुसार परम भागवत थे ।

प्रबुध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] महान् सत । श्रेष्ठ महात्मा [को०] ।

प्रबोध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ जागना । नीद का हटना । २. यथार्थ ज्ञान । पूर्ण बोध । ३. सात्वता । आश्वासन । ढाढस । तसल्ली । दिलासा । उ०—आनदधन हित वरस दरस पद परस प्रबोध प्रसादहि दीज ।—घनानन्द, वृ० ३४४ ।

क्रि० प्र०—करना ।

४ चेतानवी ।

क्रि० प्र०—देना ।

५ महाबुद्ध की एक अवस्था । ६ विकाश । खिलना । ७. सुगम को पुन तेज करना । गध दीप्त करना (को०) । ८ व्याख्या करना । सुस्पष्ट करना । विस्तृत करना (को०) ।

प्रबोधक^१—वि० [सं०] १ जगानेवाला । २. चेतानेवाला । ३. समझानेवाला । ज्ञानदाता । ४. सात्वता देनेवाला । ढाढस देनेवाला ।

प्रबोधक—सञ्ज्ञा पुं० वह व्यक्ति जिसका काम राजा को जगाना हो । राजा को जगानेवाला । स्तुतिपाठक [को०] ।

प्रबोधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. जागरण । जागना । २. जगाना । नीद से उठाना । ३. यथार्थ ज्ञान । बोध । चेत । ४. बोध कराना । जताना । ज्ञान देना । चेत कराना । समझाना बुझाना । ५. विकास या विकसित करने का कार्य । ६. सात्वता या सात्वता देने का कार्य । ७. गध को दीप्त करना (को०) ।

क्रि० प्र०—करना ।—होना ।

प्रबोधनप्रणाली—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रबोधन + प्रणाली] अध्यापन की एक विधि [को०] ।

प्रबोधना(पु)—क्रि० सं० [सं० प्रबोधन] १ जगाना । नीद से उठाना । २ सजग करना । सचेत करना । होशियार करना । जताना । ३. समझाना बुझाना । मन में बात विठाना । उ०—(क) कहि प्रिय वचन विवेकमय कीन्ह मातु परितोष । लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगति विपिन गुन दोष ।—तुलसी (शब्द०) । (ख) प्रभु तव मोहि बहु भाँति प्रबोधा ।—तुलसी (शब्द०) । ४. सिखाना । पाठ पढ़ाना । पढ़ी पढ़ाना । उ०—सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित । तेह वछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधी क्व वरी ।—तुलसी (शब्द०) । ५. ढाढस देना । तसल्ली देना । उ०—(क) कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरज घट्ट प्रबोधेसि रानी ।—तुलसी (शब्द०) । (ख) जननी अ्याकुन देखि प्रबोधत धीरज करि नीके जदुराई । सूर श्याम को नेकु नहीं डर जनि रोई, तू जसुमति माई ।—सूर (शब्द०) ।

प्रबोधनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कार्तिक शुक्लपक्ष की एकादशी जिस दिन विष्णु भगवान् सोकर उठते हैं । देवोत्थान एकादशी । २. जवासा । धमासा ।

प्रबोधित—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रबोधिता] १ जो जगाया गया हो । जागा हुआ । २ जिसका प्रबोध किया गया हो । ३ ज्ञानप्राप्त ।

क्रि० प्र०—करना ।—होना ।

प्रबोधिता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक वर्षावृत्त जिसके प्रत्येक चरण में (स ज स ज ग) सगण, जगण फिर सगण, जगण और अत में गुरु होता है । इसे सुनदिनी और मजुभाषिणी भी कहते हैं । दे० 'सुनदिनी' ।

प्रबोधिनो—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. कार्तिक शुक्ल एकादशी । पुराणानुसार इस दिन भगवान् विष्णु सोकर उठते हैं । २. जवासा ।

प्रबध(पु)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पव] दे० 'पव' । उ०—फिर पूछी पृथि

राज नृप, कही चद कवि सब्ब । होतु सुकातिक मास माह, दीपमालिका प्रब्व ।—पृ० रा०, २३।१ ।

प्रध्वत^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्वत] दे० 'पर्वत' । उ०—(क) धरि कच्छ रूप सरूपय । धरि मद प्रध्वत पृष्ठय ।—पृ० रा०, २।१०६ । (ख) सिर नाइ षाइ नरनाह तत्र प्रध्वत सम प्रध्वत भिरे ।—पृ० रा०, ७।८२ ।

प्रभग—सञ्ज्ञा पुं० [म० प्रभङ्ग] १. तोड़ना । विदलित करना । २. पूर्णत पराजय । ३. वह जो तोड़े फोड़े या विदलित करे [को०] ।

प्रभंजन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रभञ्जन] १. तोड़ फोड़ । उखाड़ पखाड़ । नाग । उ०—त्रिविधि प्रभजन चलि सुरभि करत प्रभजन धीर । तन मन गजन अलि प्रभृत बिन मनरजन वीर ।—स० सप्तक, पृ० २५० । २. प्रचंड वायु । महावात । घ्रांषी । ३. हवा । वायु । उ०—त्रिविधि प्रभजन चलि सुरभि करत प्रभजन धीर ।—स० सप्तक, पृ० २५० ।

यौ०—प्रभंजनसुत = हनुमान ।

४ मणिपुर का राजा (महाभारत) ।

प्रभजन^२—वि० नष्ट करनेवाला । तोड़फोड़ करनेवाला [को०] ।

प्रभ—वि० [सं०] प्रभायुक्त । प्रकाशमय । चमकदार (समासांत में प्रयुक्त) जैसे, नीलाजनप्रभ । उ०—जहाँ चहकते विहग, वदलते क्षण क्षण विद्युत्प्रभ घन ।—प्राच्या, पृ० १३ ।

प्रभग्न—वि० [सं०] १. तोड़ा हुआ । धूर धूर किया हुआ । २. पराजित [को०] ।

प्रभत^७—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रभ ?] प्रभुत्व । प्रशंसा । श्रेष्ठता । शोभा । शावाशी । उ०—वस राखो जीभ कहै हम धाँको कड़वा बोल्यौ प्रभत किसी ।—बाँकी० प्र०, भा० ३, पृ० १०३ ।

प्रभद्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नीम ।

प्रभद्रक^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पंद्रह अक्षरों का एक वर्णवृत्त । दे० 'प्रभद्रिका' ।

प्रभद्रक^२—वि० अत्यंत सुंदर । श्लीव सलोता [को०] ।

प्रभद्रा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रसात्रिणी लता ।

प्रभद्रिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पंद्रह अक्षरों की वर्णवृत्ति जिसके प्रत्येक चरण में नगण, भगण फिर जगण और अंत में रगण होता है । जैसे,—निज भुज राघवेंद्र दससीस ढाड़ हूँ ।

प्रभव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. उत्पत्ति का कारण । उत्पत्तिहेतु । २. उत्पत्तिस्थान । आकर । ३. जन्म । उत्पत्ति । ४. सृष्टि । ससार । ५. जल का निर्गम स्थान । वह स्थान जहाँ से कोई नदी आदि निकले । उद्गम । ६. प्रभाव । पराक्रम । ७. साठ सवत्सरो में एक सवत्सर । इस सवत्सर में वृष्टि अधिक होती है और प्रजा निरोग और सुखी रहती है । ८. विष्णु का एक नाम [को०] । मूल [को०] । १०. ऋद्धि । सीमाग्य । उदय । अम्युदय [को०] ।

प्रभवन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. उत्पत्ति । २. आकर । ३. मूल । ४. अधिष्ठान ।

प्रभविता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रभवितृ] प्रभु । प्रधान शासक [को०] ।

प्रभविष्णु^१—वि० [म०] १. प्रभावशील । अग्रगण्य । उ०—व्यक्ति को समाज में सफल, ध्यानंदपूर्ण, प्रभविष्णु एव कलात्मक जीवन जीने की कला सीखना होगा ।—स० दशन, पृ० ११० । २. शक्तियुक्त । ताकतवर । समर्थ । शक्त [को०] ।

प्रभविष्णु^२—सञ्ज्ञा पुं० १. प्रभु । स्वामी । अधीश्वर । २. विष्णु ।

प्रभविष्णुता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रभावित करने की शक्ति । प्रभावात्मकता । दूसरों पर असर डालने का सामर्थ्य । उ०—पूर्व प्रभविष्णुता के लिये काव्य में हम भी सत्वगुण की मत्ता आवश्यक मानते हैं ।—रस०, पृ० ६६ ।

प्रभांजन—सञ्ज्ञा स्त्री० [म० प्रभाञ्जन] शोभाजन । सहजन का पेड़ ।

प्रभा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. दीप्ति । प्रकाश । आभा । चमक । २. किरण । रश्मि । ३. सूर्य का चित्र । ४. सूर्य की एक पत्नी । ५. एक अक्षरा का नाम । ६. एक द्वादशाक्षर वृत्ति जिसे मदाकिनी भी कहते हैं । ७. दुर्गा [को०] । ८. कुबेर की पुरी । अलका [को०] । ९. एक गोपी का नाम [को०] । ९. स्वर्भानु की कन्या का नाम जो नहुष की माता थी [को०] ।

यौ०—प्रभाकर । प्रभाकरी । प्रभाकीट । प्रभापल्लवित = प्रभा से व्याप्त । जिसपर प्रभा फैली हो । प्रभाप्रसु । प्रभाप्ररोह = प्रकाशरश्मि । प्रभाभिद् = अत्यंत दीप्त । प्रभासदल । प्रभालेपी ।

प्रभाउ^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रभाव] दे० 'प्रभाव' । उ०—तिमिर अक्षित सब लोक ओक लखि दुखित दयाकर । प्रगट कियो अद्भुत प्रभाउ भागवत विभाकर ।—नंद० प्र०, पृ० ४ ।

प्रभाकर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. सूर्य । २. चंद्रमा । ३. पगि । ४. मदार का पीषा । आक । ५. समुद्र । ६. एक नाग का नाम । ९. मार्कंडेय पुराण के अनुमार आठवें मन्वतर के देवगण के एक देवता । ८. एक प्रसिद्ध मोमानक । ९. कुशद्वीप के एक वर्ष का नाम । १०. शिव का एक नाम [को०] । ११. एक रत्न । पद्म राग [को०] ।

प्रभाकरवर्द्धन—सञ्ज्ञा पुं० [म०] स्याएवोश्वर (यासेर) के एक राजा जो विक्रम सवत् ६०० के पूर्व राज्य करते थे । विशेष—इन्हीं के पुत्र महाप्रतापी हर्षवर्द्धन हुए जिनकी राजधानी कान्यकुब्ज थी और जिनके समाकवि वाणभट्ट थे । ये सूर्योपासक थे ।

प्रभाकरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] बोधिसत्वों की तृतीय प्रवस्था जो प्रमुदिता और विमला के उपरांत प्राप्न होती है ।

प्रभाकीट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] खद्योत । जुगुनू ।

प्रभाग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. विभाग का विभाग । २. भिन्न वा भिन्न । जैसे, ३ का ३ इत्यादि ।

प्रभात^१—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १. प्रातःकाल । नपेरा । २. एक देवता जो सूर्य और प्रभा से उत्पन्न माना गया है ।

यौ०—प्रभातकरणीय = वे कार्य जिन्हें प्रातःकाल करना उचित

हो। प्रातःकालीन कृत्य। प्रभातकल्प = प्रभात सा। सुवह
की तरह। प्रभातकाल = सुवह। सवेरा। प्रभातप्राय = दे०
'प्रभातकल्प'।

प्रभात^३—वि० जो स्पष्ट, साफ या चोतित होने लगा हो [को०]।

प्रभातफेरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रभात + हि० फेरी] प्रातःकालीन
भामूहिक भ्रमण जो धार्मिक या किसी अन्य उत्सव को
मनाने के उद्देश्य से किया जाता है। इस भ्रमण पर भजन,
कीर्तन अथवा उद्देश्यबोधक नारे भी लगाते हैं।

प्रभाती—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ प्रत्यूष और प्रभास नामक वसुधो की
माता (महाभारत)। २ एक प्रकार का गीत जो प्रातः-
काल गाया जाता है। ३ दतुअन। दातुन। दतधावन।

प्रभान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ज्योति। दीप्ति। प्रकाश।

प्रभापन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रकाशयुक्त करना। प्रकाशित करना।
दीप्तियुक्त करना [को०]।

प्रभापाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक बोधिसत्व।

प्रभापूर्य—वि० [सं०] १ प्रभापूर्ण। दीप्तिमान्। कांतियुक्त।
२ ज्योतित या दीप्त करनेवाला। दीप्ति या प्रभा भरने-
वाला। उ०—भारत के नभ का प्रभापूर्य। शीतलच्छाय
सास्कृतिक सूर्ये।—तुलसी०, पृ० ३।

प्रभामण्डल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रभामण्डल] प्रकाशचक्र। प्रकाश का
धरा [को०]।

प्रभाय^(७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रभाव, प्रा० पहाय, पहाय, प्यहाय]
दे० 'प्रभाव'। उ०—श्रीपति कृपा प्रभाय, सुखी बहुदिवस
निरतर।—प्रेमघन०, भा० १, पृ० १।

प्रभारक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक नाग।

प्रभालेपी—वि० [सं० प्रभालेपिन्] १. प्रभामण्डित। ज्योति से आवृत।
२. जिससे ज्योति निकलती हो। जो चमक देता हो [को०]।

प्रभाव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ उद्भव। प्रादुर्भाव। २ सामर्थ्य।
शक्ति। कोई बात पैदा कर देने की ताकत। असर। जैसे,—
मत्र का बड़ा प्रभाव है। उ०—सुखदेव कह्यो सुनो हो राव।
जैसे है हरिभक्ति प्रभाव।—सूर (शब्द०)। ३ महिमा।
माहात्म्य। ४ इतना मान या अधिकार कि जो बात चाहे
कर या करा सके। साख या दबाव। जैसे,—राजा के
दरबार में उसका बहुत कुछ प्रभाव है। ५ भत करण को
किमी और प्रवृत्त करने का गुण। ६. प्रवृत्ति पर होनेवाला
फल या परिणाम। असर। जैसे,—उसपर शिक्षा का कुछ
प्रभाव नहीं पड़ा।

क्रि० प्र०—डालना।—पढ़ना।—जमना।

७ मार्कंडेय पुराण में वर्णित स्वरोषिष मनु के एक पुत्र जो
कलावती के गर्भ से उत्पन्न थे। ८. प्रभा के गर्भ से उत्पन्न
सूर्य के एक पुत्र। ९ सुयीव के एक मन्त्री का नाम। १०.
कीप और दड से उत्पन्न राजतेज। प्रताप [को०]। ११.
विस्तार [को०]।

प्रभावक—वि० [सं०] प्रमुख। शक्तिशाली। प्रधान। प्रभाव-
वाला [को०]।

प्रभावकर—वि० [सं०] प्रभाव डालनेवाला। प्रभावक।

प्रभावज^१—वि० [सं०] प्रभाव से उत्पन्न। प्रभावजात।

प्रभावज^२—सञ्ज्ञा पुं० १ एक प्रकार का रोग जो देवता, ऋषि,
वृद्धादि के शाप या ग्रहादि के हेरफेर से उत्पन्न होता है।
२ एक प्रकार की राजशक्ति जो कोष और दंड के रूपा में
व्यक्त होती है।

प्रभावती^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ महाभारत के अनुसार सूर्य की
पत्नी का नाम। २ तेरह अक्षरों का एक छंद जिसे 'रुचिरा'
कहते हैं। ३ शिव के एक गण की वीणा का नाम। ४.
कुमार के एक अनुचर मातृगण का नाम। ५ महाभारत के
अनुसार अग देश के राजा चित्ररथ की रानी। ६. प्रभाती
नाम का एक राग या गीत। ७ सगीत में एक श्रुति [को०]।

प्रभावती—वि० स्त्री० प्रभावाली। कातिमती।

प्रभावन—वि० [सं०] १ प्रमुख। प्रधान। २ प्रभावशाली।
प्रभावक। ३ रचनात्मक। ४ स्पष्ट करनेवाला। प्रगट
करनेवाला [को०]।

प्रभावना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] उद्भावना। प्रकाश।

प्रभाववाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रभाव + वाद] काव्य का प्रधान गुण
हृदय को प्रभावित करना है यह माननेवाला साहित्यिक मत
या सिद्धांत। (अ० इम्प्रेसनिज्म)।

प्रभाववादी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रभाव + वादिन्] वह जो प्रभाववाद
का सिद्धांत मानता हो। उ०—प्रभाववादियों के अनुसार
किसी काव्य की ऐसी आलोचना कि 'यहाँ रूपक का निर्वाह
बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ यतिभंग है, यहाँ रसविरोध है,
यहाँ पूर्णास है, यहाँ च्युनसस्कृति या पतस्पर्क है', कोई
आलोचना नहीं।—चिंतामणि, भा० २, पृ० ६२।

प्रभाववान्—वि० [सं० प्रभाववत्] १. शक्तिशाली। प्रतापी।
२ असरदार। प्रभावित करनेवाला [को०]।

प्रभावान्—वि० [सं० प्रभावत्] प्रभायुक्त। दीप्तिमय [को०]।

प्रभावान्वित—वि० [सं०] १ प्रभावित। २ प्रभावमय। प्रभाव-
युक्त [को०]।

प्रभावान्विति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रभावित होने की स्थिति। प्रभाव
की अन्विति। असर।

प्रभावित—वि० [सं०] जिसने प्रभाव ग्रहण किया हो। जिसपर
प्रभाव पड़ा हो। उ०—हैं समाज सुख साधक दुख बाधक
ए। देश प्रेम प्रसाद प्रभावित फरहरे।—पारिजात, पृ० ७।

प्रभावी—वि० [सं० प्रभाविन्] [स्त्री० प्रभाविनी] प्रभावान्।
शक्तिशाली। २ प्रभावित करनेवाला। असरदार [को०]।

प्रभावोत्पादक—वि० [सं० प्रभाव + उत्पादक] प्रभाव उत्पन्न करने-
वाला। प्रभावशाली। उ०—इन रचनाओं में उनकी शैली
के अनुरूप ही उनके विचार भी अधिक स्पष्ट एवं प्रभावी-
त्पादक हो गए हैं।—युगात (भू०), पृ० 'ज'।

प्रभाष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक वसु का नाम।

प्रभास^१—वि० [सं०] पूर्ण प्रभायुक्त।

प्रभास^२—सज्ञा पुं १ दीप्ति । ज्योति । २ एक प्राचीन तीर्थ जिसे सोम तीर्थ भी कहते हैं । गुजरात में सोमनाथ का मंदिर इसी तीर्थ के अंतर्गत था । ३. एक वसु । ४. कुमार का एक अनुचर गण । ५. अष्टम मन्वतर का एक देवगण । ६. जैनों के एक गणाधिप का नाम (को०) ।

प्रभासन—सज्ञा पुं [सं०] दीप्ति । ज्योति ।

प्रभासना^(५)—क्रि० अ० [सं० प्रभासन] प्रकाशित होना । भासित होना । दिखाई पड़ना । उ०—जागृत में जु प्रपच प्रभासत सो सब बुद्धि विलास बन्यो है ।—निश्चल (शब्द०) ।

प्रभासी^१—वि० [सं० प्रभास] प्रकाशित या व्यक्त करनेवाला । उ०—अगू लत्त गत्त प्रभासी प्रभुत्त । मनी नीलसीत कटो पट्ट पीत ।—पृ० रा०, २।३६ ।

प्रभास्वर—वि० [सं०] अधिक दीप्तिमान् । अत्यंत चमकीला [को०] ।

प्रभिन्न^१—वि० [सं०] १. पूर्ण भेदयुक्त । २. बँटा हुआ । विभक्त । टुकड़े टुकड़े किया हुआ (को०) । ३. अलग किया हुआ । पृथक् किया हुआ (को०) । ४. विकसित । खिला हुआ (को०) । ५. बदला हुआ । परिवर्तित (को०) । ६. विकृत किया हुआ (को०) । ७. ढीला या शिथिल किया हुआ (को०) । ८. नशे में लाया हुआ । मदोन्मत्त (को०) ।

प्रभिन्न^२—सज्ञा पुं मतवाला हाथी ।

प्रभिन्नकरट—वि० [सं०] (हाथी) जिसके गडस्थल से मद चू रहा हो [को०] ।

प्रभिन्नाजन—सज्ञा पुं [सं० प्रभिन्नाञ्जन] एक प्रकार का अंजन जो तेल में तैयार किया जाता है [को०] ।

प्रभीत—वि० [सं०] अत्यंत भयभीत ।

प्रभु^१—सज्ञा पुं [सं०] १. वह जो अनुग्रह या निग्रह करने में समर्थ हो । जिसके हाथ में रक्षा, दंड और पुरस्कार हो । अधिपति । नायक । २. जिसके आश्रय में जीवन निर्वाह होता हो । जो रोजी चलाता हो । स्वामी । मालिक । ३. ईश्वर । भगवान् । ४. श्रेष्ठ पुरुष का संबोधन । जैसे, प्रभो ! अपराध क्षमा करो । ५. शब्द । ६. पारद । पारा । ७. बबई प्रात के कायस्थो की उपाधि । ८. विष्णु । उ०—प्रभुवन की मूरत दूष ना पीवत, सीर पछार नामा रोवत ।—दक्षिणी०, पृ० १६ । ९. शिव (को०) । १०. ब्रह्मा (को०) । ११. इंद्र (को०) । १२. सूर्य (को०) । १३. अग्नि (को०) ।

प्रभु^२—वि० १. शक्तिशाली । बलवान् । २. योग्य । समर्थ । पर्यपित । ३. प्रतिस्पर्धी । बराबरीवाला । ४. स्थायी । शाश्वत [को०] ।

प्रभुत्^(५)—सज्ञा पुं [सं० प्रभुत्व] प्रभुत्व । प्रभाव । उ०—जगपत हित मुखदुत इण भति जिम, प्रभुत हुवत दिन रयणपंत ।—रघु० ६०, पृ० १२१ ।

प्रभुता—सज्ञा स्त्री [सं०] १. बड़ाई । महत्त्व । उ०—प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेह ।—मानस, २।६ । २. हुकूमत । शासनाधिकार । उ०—प्रभुता पाइ काहि मद नाही ।—तुलसी (शब्द०) । ३. वैभव । ४. साहिबी । मालिकपन ।

प्रभुवाई—सज्ञा स्त्री [सं० प्रभुता + हिं ई (प्रत्य०)] दे० 'प्रभुता' ।

उ०—अतुलित बल अतुलित प्रभुताई । मैं मतिमद जान पाई ।—मानस, ३।२ ।

प्रभुत्त^(५)—सज्ञा पुं [सं० प्रभुत्व] दे० 'प्रभुत्व' । उ०—अगू गत्त प्रभासी प्रभुत्त ।—पृ० रा०, २।३६ ।

प्रभुत्व—सज्ञा पुं [सं०] प्रभुता ।

प्रभुभक्त^१—वि० [सं०] स्वामी की सच्ची सेवा करनेवाला । न. हलाल ।

प्रभुभक्त^२—सज्ञा पुं अच्छी नस्ल का घोडा [को०] ।

प्रभुराई^(५)—सज्ञा पुं [सं० प्रभु + हिं राय] ईश्वर । भगवान् । उ०—यह कहि गुप्त भए प्रभुराई ।—कवीर सा० पृ० ४५५ ।

प्रभुशक्ति—सज्ञा स्त्री [सं०] कोष और सेना का बल ।

प्रभुसत्ता—सज्ञा स्त्री [सं० प्रभु + सत्ता] राज्य या देश पर अक्ष और अनुल्लघ्य शासन का अधिकार । पूर्ण अधिकार ।

प्रभुसिद्धि—सज्ञा स्त्री [सं०] वह कार्य जो प्रभुशक्ति से सिद्ध हो

प्रभु^(५)—सज्ञा पुं [सं० प्रभु] दे० 'प्रभु' । उ०—चल्यो गयो विप्र क्षिप्र गति कतहुं न अटक्यो । प्रभु जान बहमन्थ, रिय पायनि लटक्यो ।—नद० अ०, पृ० २०४ ।

प्रभुत^१—वि० [सं०] १. जो अच्छी तरह हुआ हो । भूत । उद्गत । निकला हुआ । उत्पन्न । ३. उन्नत । ४. प्रचुर बहुत अधिक । बहुत ज्यादा ।

प्रभुत^२—सज्ञा पुं पंचभूत । तत्व । उ०—राघव की चतुरंग च चपि घूरि उठी जल हू थल छाई । मानो प्रताप हू धूम सो केसवदास प्रकास न माई । मेटि के पच प्रभूत क विधि रेनुमयी नव रीति चलाई । दुःख निवेदन को भव को भूमि किषी सुरलोक सिघाई ।—केशव (शब्द०) ।

प्रभूतता—सज्ञा स्त्री [सं०] १. अधिकता । बहुतायत । २. राशि अवार । ढेर [को०] ।

प्रभूतत्व—सज्ञा पुं [सं०] दे० 'प्रभूतता' [को०] ।

प्रभूतांश—सज्ञा पुं [सं० प्रभूत + अंश] अधिक अंश । अधिक न उ०—'सवर्यो सा' कहने का स्पष्ट अभिप्राय यह है । पूर्ण सवर्यो तो नहीं होता, किंतु प्रभूतांश में उससे लजुलता है ।—संपूर्णानंद अभि० अ०, पृ० २०७ ।

प्रभूति—सज्ञा स्त्री [सं०] १. उत्पत्ति । २. शक्ति । ३. प्रचुरता अधिकता । ज्यादाती ।

प्रभूषण—वि० [सं०] योग्य । शक्तिशाली । क्षम [को०] ।

प्रभूत्^(५)—सज्ञा स्त्री या पुं [सं० परभूत] कोकिल । उ०—त्रिविध प्रभजन चलि सुरभि करत प्रभजन घीर । मन गजन अलि प्रभूत विन मनरजन घरी ।—स० स पृ० २५० ।

प्रभृति^१—अभ्य [सं०] इत्यादि । आदि । वगैरह ।

प्रभृति^२—सज्ञा स्त्री आरम्भ । शुरुवात । आदि । जैसे, इंद्रप्रभृति देवत

विशेष—प्रभिवर चहुशीहि समाप्त में इसका प्रयोग प्राप्त होता है।

प्रभेद—सं० पुं० [सं०] १ भेद। विभिन्नता। २ स्फोटन। फोड़कर गिराना। ३ उद्गम स्थान (को०)। ४ विभाग। अंतर (को०)।

प्रभेदक—सि० [सं०] १ फाड़नेवाला। टुकड़े टुकड़े करनेवाला। २ ध्वंस करनेवाला। भंग करनेवाला (को०)।

प्रभेदन—सि० [सं०] १ 'प्रभेदक' (को०)।

प्रभेदिका—संज्ञा स्त्री० [सं०] वेधने या छेदने का एक अस्त्र।

प्रभेद(ि) —पुं० [सं० प्र+भेद, प्रा० भेव] प्रभेद। भेद। भिन्नता।

प्रभ्रश—संज्ञा पुं० [सं०] गिरना। पतन। पात (को०)।

प्रभ्रशयु—संज्ञा पुं० [सं०] पीनस रोग।

प्रभ्रशित—१ सि० [सं०] फेंका या गिराया हुआ। २ वंचित। विनाशित। विधुषित। ३ भ्रमल किया हुआ। निकाला हुआ (को०)।

प्रभ्रशी—सि० [सं० प्रभ्र शिन्] गिरनेवाला। भ्रमल होनेवाला (को०)।

प्रभ्रष्ट—सि० [सं०] १ गिरा हुआ। २ टूटा हुआ।

प्रभ्रष्ट—संज्ञा पुं० दे० 'प्रभ्रष्टक' (को०)।

प्रभ्रष्टक—संज्ञा पुं० [सं०] शिखावलविनी माला। सिर से लटकती हुई माला।

प्रभ्रडल—संज्ञा पुं० [सं०] पहिए का बाहरी हिस्सा या बाहरी हिस्से का मट (को०)।

प्रभ्रंध—संज्ञा पुं० [सं० प्रभ्रन्ध] लकड़ी जिससे अग्नि पैदा करते हैं (को०)।

प्रभ्रं—सि० [सं० परम] १ श्रेष्ठ। प्रधान। उ०—इल रखवाल पयो प्रम असी।—रा० ६०, पृ० १४। २ परम। अत्यंत। उ०—मनुर बजोध्या श्रोखा मंडल। एतां माद धाम प्रम उज्वल।—रा० ६०, पृ० ३६३।

प्रभ्रग्न—सि० [सं०] दूया हुआ। तीन। निमग्न (को०)।

प्रभ्रणा—सि० [सं० प्रमणस्] १ 'प्रमना' (को०)।

प्रभ्रत—सि० [सं०] १ सोचा हुआ। विचारित। २ होशियार। चालाक। धतुर (को०)।

प्रभ्रति—संज्ञा पुं० [सं०] १ ज्यवन ऋषि के एक पुत्र का नाम। २ यह जिसकी बुद्धि उत्कृष्ट हो। प्रकृष्ट मतिवाला (को०)।

प्रभ्रत्त—सि० [सं०] १ उन्मत्त। मत्तवाला। मत्त। नशे में धूर। उ०—पीठे पूर्वेषा प्रभ्रत्त जन को है याद आती न ज्यों।—सं०, पृ० २१। २ पागल। विकल्पित। वावला। ३ जिसकी बुद्धि ठिकाने न हो। जो सावधान या सचेत न हो। जो सवरदार न हो। अमावधान। ४ भ्रुष्टि या भूल करनेवाला (को०)। ५ करणीय कार्य को न करने-कामना (को०)।

वै०—प्रभ्रतगीत = प्रमाद या भ्रमवधानता से गाया हुआ गीत। प्रभ्रतचित्त = प्रभ्रत्त चित्त का। प्रमादी। लापरवाह।

प्रभ्रत्ता—संज्ञा स्त्री० [सं०] १ मस्ती। २ पागलपन। ३ भ्रमवधानता। लापरवाही (को०)।

प्रमथ—संज्ञा पुं० [सं०] १ मथन या पीड़ित करनेवाला। २ वह जो मथन करे। ३ शिव के एक प्रकार के गण या पारिपद जिनकी संख्या ३६ करोड़ बताई गई है।

विशेष—कालिका पुराण में लिखा है कि प्रमथों में से कुछ तो भोगविमुख, योगी और त्यागी हैं और कुछ कामुक, भोगपरायण और शिव की क्रीडा में सहायक हैं। प्रमथ गण वड़े मायावी कहे गए हैं।

वै०—प्रमथनाथ। प्रमथपति। प्रमथाधिप। प्रमथेश्वर। ३. घोडा। अश्व। ४ धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।

प्रमथन—संज्ञा पुं० [सं०] १. मथना। २ पीड़ित करना। दुःख पहुंचाना। क्लेश देना। यत्रणा देना। ३ नष्ट करना। क्षति पहुंचाना (को०)। ४. वध करना। नाश करना।

प्रमथनाथ—संज्ञा पुं० [सं०] महादेव। शिव।

प्रमथा—संज्ञा स्त्री० [सं०] १ हरीतकी। हड। २. पीडा।

प्रमथाधिप—संज्ञा पुं० [सं०] शिव। प्रमथनाथ।

प्रमथास्तय—संज्ञा पुं० [सं०] दुःख या यत्रणा का स्थान। नरक।

प्रमथित^१—सि० [सं०] १. खूब मथा हुआ। २. पीड़ित किया हुआ (को०)। ३. कुचला, रौंदा या नष्ट किया हुआ (को०)। ४ जिसका वध किया गया हो। मारा हुआ (को०)।

प्रमथित^२—संज्ञा पुं० मट्टा, जिसमें ऊपर से पानी न मिला हो।

प्रमथी—सि० [सं० प्रमथिन्] नष्ट करनेवाला (को०)।

प्रमथेश्वर—संज्ञा पुं० [सं०] शिव।

प्रमद^१—संज्ञा पुं० [सं०] १ मतवालापन। उ०—प्रमद आलस से भिला है।—प्रचंता, पृ० १०६। २ धतूरे का फल। ३. हर्ष। मानद।

वै०—प्रमदकानन। प्रमदवन। ४. एक प्रकार का दान। ५. वशिष्ठ के एक पुत्र का नाम।

प्रमद^२—सि० मत्त। मतवाला।

प्रमदक—संज्ञा पुं० [सं०] १. परलोक को न माननेवाला। नास्तिक। २ वह जो कामी हो। कामुक। भोगी।

प्रमदकानन—संज्ञा पुं० [सं०] वह उपवन या वन जिसमें नरेश और रानियाँ आनन्दोत्सव मनाती हैं। प्रमोदवन (को०)।

प्रमद्वन—संज्ञा पुं० [सं०] विषय की कामना। कामेच्छा (को०)।

प्रमद्वन—संज्ञा पुं० [सं०] प्रमदकानन। श्रीडोद्यान।

प्रमदा—संज्ञा स्त्री० [सं०] १ युवती स्त्री। सुदरी स्त्री। २ माल-कंगनी। प्रियंगु। ३. एक वृत्त। एक छंद (को०)। ४ कन्या राशि (को०)।

वै०—प्रमदाकानन, प्रमदावन = श्रीडोद्यान। प्रमदवन। प्रमदावन = स्त्री। महिला। प्रमदा।

प्रमद्वर—सि० [सं०] प्रमदयुक्त। वेपरवाह। असावधान (को०)।

प्रमन—सि० [सं० प्रमन्स्, प्रमना] १ हर्षयुक्त। प्रसन्न। उ०—काषाकारिक का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमन।—

गुजन, पृ० ६४ । २. सावधान । सजग । उ०—हैं वही मल्लपति, वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन ।—अपरा, पृ० ४४ ।

प्रमना—वि० [सं० प्रमनस्] हर्षयुक्त । प्रसन्न ।

प्रमन्यु^१—वि० [सं०] १ बहुत क्रुद्ध । २. दुखी । सत्रस्त (को०) ।

प्रमन्यु^२—सज्ञा पुं० अति क्रोध । अत्यंत कोप ।

प्रमय—सज्ञा पुं० [सं०] १ मृत्यु । मौत । २ वध । घातन । हिंसन । ३ पतन । नाश । विनाश [को०] ।

प्रमर्दन^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ अच्छी तरह मर्दन । अच्छी तरह मलना दलना । २ खूब कुचलना । रौंदना । ३ दमन करना । नष्ट करना । ४ विष्णु ।

प्रमर्दन^२—वि० मर्दन करनेवाला ।

प्रमर्दित—वि० [सं०] कुचला हुआ । रौंदा हुआ । दलित [को०] ।

प्रमर्दिता—वि० [सं० प्रमर्दितृ] कुचलनेवाला । रौंदनेवाला । दलने वाला [को०] ।

प्रमर्दी—वि० [सं० प्रमर्दिन्] ३० 'प्रमर्दिता' ।

प्रमा—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ चेतना । ज्ञान । बोध । २ शुद्ध बोध । यथार्थ ज्ञान । जहाँ जैसी बात है वहाँ वैसा अनुभव (न्याय) । ३. नीव । ४ माप ।

प्रमाण^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ वह कारण या मुख्य हेतु जिससे ज्ञान हो । वह बात जिससे किसी दूसरी बात का यथार्थ ज्ञान हो । वह बात जिससे कोई दूसरी बात सिद्ध हो । सद्बत ।

विशेष—प्रमाण न्याय का मुख्य विषय है । गौतम ने चार प्रकार के प्रमाण माने हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और शब्द । इन्द्रियों के साथ संबन्ध होने से किसी वस्तु का जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष है । लिंग (लक्षण) और लिंगी दोनों के प्रत्यक्ष ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान को अनुमान कहते हैं । (दे० न्याय) । किसी जानी हुई वस्तु के सादृश्य द्वारा दूसरी वस्तु का ज्ञान जिस प्रमाण से होता है वह उपमान कहलाता है । जैसे, गाय के सदृश ही नील गाय होती है । आप्त या विश्वासपात्र पुरुष की बात को शब्द प्रमाण कहते हैं । इन चार प्रमाणों के अतिरिक्त मीमांसक, वेदाती और पौराणिक चार प्रकार के और प्रमाण मानते हैं—ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सभवा और अभाव । जो बात केवल परंपरा से प्रसिद्ध चली आती है वह जिस प्रमाण से मानी जाती है उसको ऐतिह्य प्रमाण कहते हैं । जिस बात से बिना किसी देखी या सुनी बात के अर्थ में आपत्ति आती हो उसके लिये अर्थापत्ति प्रमाण है । जैसे, मोटा देवदत्त दिन को नहीं खाता, यह जानकर यह मानना पड़ता है कि देवदत्त रात को खाता है क्योंकि बिना खाए कोई मोटा हो नहीं सकता । व्यापक के भीतर व्याप्य—अग्नी के भीतर अंग—का होना जिस प्रमाण से सिद्ध होता है उसे सभवा प्रमाण कहते हैं । जैसे, सेर के भीतर छटाँक का होना । किसी वस्तु का न होना जिससे सिद्ध होता है वह अभाव प्रमाण है । जैसे चूहे निकलकर बैठे हुए हैं इससे बिल्ली यहाँ नहीं है । पर नैयायिक इन चारों को अलग प्रमाण नहीं मानते, अपने चार प्रमाणों

के अंतर्गत मानते हैं । और किन किन दर्शनों में कौन - प्रमाण गृहीत हुए हैं यह नीचे दिया जाता है ।—

चार्वाक—केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ।

बौद्ध—प्रत्यक्ष और अनुमान ।

सांख्य—प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ।

पातञ्जल—प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ।

वैशेषिक—प्रत्यक्ष और अनुमान ।

रामानुज पूर्णप्रज्ञ—प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ।

धर्मशास्त्र में किसी व्यवहार या अभियोग के निर्याय में च प्रमाण माने गए हैं—लिखित (दस्तावेज), भुक्ति (कब्जा साक्ष्य (गवाही) और दिव्य । प्रथम तीन प्रकार के मानुष कहलाते हैं ।

२ एक अलंकार जिसमें आठ प्रमाणों में से किसी एक का प्रयोग होता है । जैसे अनुमान का उदाहरण—घन गर्जन दाहिने दमक धुरवागन धावत । आयो बरषा काल अब हूँ बिरहिनि अत ।

विशेष—प्राय सब अलंकारवालों ने केवल अनुमान अलंकार ही माना है, प्रत्यक्ष आदि और प्रमाणों को अलंकार न माना है । केवल भोज ने आठ प्रमाणों के अनुसार अलंकार माना है जिनका अनुकरण अल्पय दीक्षित (कुवलयानंद में) किया है । काव्यप्रकाश आदि में प्रत्यक्ष अलंकार को लेकर प्रमाणालंकार नहीं निरूपित हुआ है ।

३ सत्यता । सचाई । उ०—कान्हू जू कैसे दया के निधान जानो न काहू के प्रेम प्रमानहि ।—दास (शब्द०) । ४ प्रतीति । दृढ धारणा । यकीन । उ०—अंतरजामी राम । तुम सर्वज्ञ सुजान । जो फुर कहहुँ तो नाथ मम कीजिय प्रमान ।—तुलसी (शब्द०) । (ख) जो तुम तजहु, अश्रान प्रभु यह प्रमान मन मोरे । मन, वच, कर्म नरक सुं वहँ जहँ रघुबीर निहोरे ।—तुलसी (शब्द०) । ५ याथापत्ति । साख । मान । आदर । ठीक ठिकाना । उ०—पुरुषारथ जो बकै ताको कौन प्रमान । करनी जतुक ज्यो गरजन सिंह समान ।—दीनदयाल गिरि (शब्द०) । ६ प्रामाणिक बात या वस्तु । मानने की बात । आधीन । उ०—रण मारि अक्षकुमार बहु विधि इद्रिजि युद्ध कै । अति ब्रह्म शस्त्र प्रमाण मनि सो वश्य मो युद्ध कै ।—केशव (शब्द०) । ७ इयत्ता । हृद । निदिष्ट परिमाण, मात्रा या संख्या । अदाज । जैसे, प्रमाण ही इतना, इतना बड़ा या यह होता है । उ०—कौन है तू, कित जाति चली, बलि, बीती निसा धि प्रमान ।—पद्माकर (शब्द०) । (ख) अतल, वितल सुतल तलातल और महातल जान । पाताल और रमिलि कै सातो भुवन प्रमान ।—सूर (शब्द०) । ८ मूलधन । १० प्रमाणपत्र । आदेशपत्र । उ०—रत्न सौं बोलि कह्यो कुलपूज्य आयो है प्रमान हौं तो पै जायही ।—हनुमान (शब्द०) । ११ विष्णु का एक (को०) । १२. सघटन । एका (को०) । १३. नियम (को०)

प्रमाण^२—वि० १ सत्य । प्रमाणित । चरितार्थ । ठीक घटना हुआ ।
उ०—(क) वरख चारिदस विपिन बसि करि पितु वचन
प्रमान । आइ पाय पुनि देखिहौं मन जनि करसि गलान ।—
तुलसी (शब्द०) । (ख) मिलहिं तुमहिं जब सप्त ऋषीसा ।
तब जानेउ प्रमान बागीसा ।—तुलसी (शब्द०) । २ मान्य ।
माना जानेवाला । स्वीकार योग्य । ठीक । उ०—(क) कहि
न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनु बान । नाइ रामपद
कमल सिर बोले गिरा प्रमान ।—तुलसी (शब्द०) । (ख)
कहि मेज्यो सु नवाब जो सो सब सुनी सुजान । कही, कि कही
नवाब सो हमको सबै प्रमान ।—सूदन (शब्द०) । ३ परि-
माण मे तुल्य । बढ़ाई आदि में बराबर । उ०—पन्नग प्रचड
पति प्रभु की पनच पीन पर्वतारि पर्वत प्रमान पावई ।—
केशव (शब्द०) ।

प्रमाण^३—अव्य० अवधि या सीमासूचक शब्द । पर्यंत । तक । उ०—
(क) कंदुक ह्व ब्रह्माड उठावौं । सत जोजन प्रमान लै
धावौं ।—तुलसी (शब्द०) । (ख) घनु लीन मडल कीन
सबकी आखि तेहि छन डैपि गई । तेहिं तानि कान प्रमान
शब्द महान घरनी कैंपि गई ।—गोपाल (शब्द०) ।

प्रमाणक^१—वि० [सं०] परिमाण, मान या विस्तार का (समासात
में प्रयुक्त) ।

प्रमाणक^२—सञ्ज्ञा पुं० दे० 'प्रमाण' [को०] ।

प्रमाणकुशल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अच्छा तर्क करनेवाला ।

प्रमाण कोटि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रमाण मानी जानेवाली बातों
या वस्तुओं का धरा । जैसे, आचारनिरणय में तत्र प्रमाण
कोटि में नही है ।

प्रमाणज्ञ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ शिव । २ वह जो प्रमाण अप्रमाण
का जानकार हो । प्रमाण को जाननेवाला [को०] ।

प्रमाणत—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रमाणतस्] प्रमाणपूर्वक । प्रमाण के
अनुकूल [को०] ।

प्रमाणदृष्ट—वि० [सं०] प्रमाण के रूप में उपस्थित करने योग्य
शास्त्रादि समत । प्रमाण कोटि का [को०] ।

प्रमाणना—क्रि० सं० [सं० प्रमाण + हि० ना (प्रत्य०)] दे०
'प्रमानना' ।

प्रमाणपत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह लिखा हुआ कागज जिसपर का
लेख किसी बात का प्रमाण हो । साटिफिकेट ।

प्रमाणपुरुष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जिसके निरणय को मानने के
लिये दोनों पक्ष के लोग तैयार हों ।

प्रमाणप्रवीण—वि० [सं०] तर्क में कुशल [को०] ।

प्रमाणभूत—वि० [सं०] प्रामाणिक । प्रमाण स्वरूप [को०] ।

प्रमाणवचन, प्रमाणवाक्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रामाणिक कथन ।
प्रमाणभूत कथन । [को०] ।

प्रमाणशास्त्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] तर्क शास्त्र [को०] ।

प्रमाणसूत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] माप करने का सूत्र [को०] ।

प्रमाणाधिक—वि० [सं०] अत्यंत अधिक । २ परिमाण से
ज्यादा [को०] ।

प्रमाणिक—वि० [सं०] दे० 'प्रामाणिक' ।

प्रमाणािका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] नगस्वरूपिणी वृत्त का दूसरा
नाम । इस छंद के प्रत्येक चरण में एक जगण, एक रगण,
एक लघु और एक गुरु होते हैं । जैसे—नमामि भक्त वत्सल ।
कृपालु शील कोमल । भजामि ते पदावुज । अकामिना
स्वधामद ।—तुलसी (शब्द०) ।

प्रमाणित—वि० [सं०] प्रमाण द्वारा सिद्ध । सावित । निश्चित ।
सत्य ठहराया हुआ ।

प्रमाणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रमाणिका या नगस्वरूपिणी छंद
का नाम ।

प्रमाणीक—वि० [सं० प्रामाणिक] दे० 'प्रामाणिक' । उ०—क्षमावत
भारी । दयावत ऐसे, प्रमाणीक आगे भए सत जैसे ।—सु दर०
प्र०, भा० १, पृ० २५६ ।

प्रमाणीकृत—वि० [सं०] प्रमाण रूप से जिसका स्वीकार किया
गया हो । जो प्रमाण रूप से निश्चित हो ।

प्रमातव्य—वि० [सं०] मारने योग्य । वध्य ।

प्रमाता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रमातृ] १, वह जो प्रमा ज्ञान को प्राप्त
करे । वह जिसे प्रमा ज्ञान हो । प्रमाणी द्वारा प्रमेय के
ज्ञान को प्राप्त करनेवाला । उ०—प्रमाता जीव भी प्रकृत
है, क्योंकि वह भी अपरा प्रकृत है ।—ककाल, पृ० १८ ।
२, ज्ञान का कर्ता आत्मी या चेतन पुरुष । ३ विषय से
भिन्न विषयी । द्रष्टा । साक्षी । ४, असेनिक न्यायाधीश ।
दीवानी मजिस्ट्रेट । व्यवहार या विधि के अनुसार दंड देने-
वाला अधिकारी (को०) ।

प्रमातामह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० प्रमातामही] परनाना [को०] ।

प्रमातामही—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] परनानी ।

प्रमातृत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चेतनता । ज्ञेयता । प्रमाता होने की
स्थिति, क्रिया या भाव । उ०—परतु उसके प्रमातृत्व का
उपशम नही होता ।—संपूर्णानंद अभि० प्र०, पृ० १४८ ।

प्रमात्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] निर्दिष्ट संख्या ।

प्रमाथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १, मथन । २ दुःख देना । पीडन । ३
किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध सभोग । ४, मर्दन ।
नाश करना । मारना । ५, प्रतिद्वंद्वी को भूमि पर पटककर
उसपर चढ़ बैठना और घसा देना । ६, बलपूर्वक हरण ।
छीन सखोट । ७, महाभारत के अनुसार घृतराष्ट्र के एक
पुत्र का नाम । ८, शिव के एक गण का नाम । ९, स्कंद के
अनुचर का नाम ।

प्रमाथिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक षष्परा का नाम ।

प्रमाथी^१—वि० [सं० प्रमाथिन्] [स्त्री० प्रमाथिनी] १, मथने-
वाला । २, दुःख करनेवाला । दुःखाधी । ३ पीडित करने-
वाला । नाश करनेवाला । प्रमाथ करनेवाला ।

प्रमाथी^२—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] १. रामायण के अनुसार एक राक्षस का नाम। यह खर का साथी था। २ एक यूथपति वदर जो रामचंद्र जी की सेना में था। ३. बृहत्संहिता के अनुसार बृहस्पति के ऐंद्र नामक तीसरे युग का दूसरा सवत्सर। यह निकृष्ट माना गया है। ४ वह श्रौषध जो मुख, घ्राँस, कान आदि छिद्रों से कफादि के सच्य को हटा दे। ५ घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।

प्रमाद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ किसी कारण से कुछ को कुछ जानना और कुछ का कुछ करना। वह अनवधानता जो किसी कारण से हो। भूल। चूक। भ्रम। भ्रांति। २ अत करण की दुर्बलता। ३ योगशास्त्रानुसार समाधि के साधनों की भावना न करना। या उन्हें ठीक न समझना। यह नौ प्रकार के अतरायों में चौथा है। इससे साधक को चित्तविक्षेप होता है। ४ लापरवाही। भयकर भूल (को०)। ५ मद। नशा। उन्माद (को०)। ६. विपत्ति। सक्क (को०)।

प्रमादवान्—वि० [सं० प्रमादवत्] १ नशे में चूर। मदोन्मत्त। २. पागल। विक्षिप्त। ३ लापरवाह। असावधान (को०)।

प्रमादिक—वि [सं०] प्रमादशील। भूलचूक करनेवाला।

प्रमादिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. वह कन्या जिसे किसी ने दूषित कर दिया हो। २. असावधान या लापरवाह महिला (को०)।

प्रमादित—वि० [सं०] जिसका उपहास हुआ हो। हेय। तिरस्कृत। उपेक्षित (को०)।

प्रमादिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] हिंडोल राग की एक सचहरी का नाम।

प्रमादी^१—वि० [सं० प्रमादिन्] [वि० स्त्री० प्रमादिनी] १. प्रमादयुक्त। असावधान रहनेवाला। भूलचूक करनेवाला। २ मत्त। क्षीव। मतवाला (को०)। ३ पागल। विक्षिप्त (को०)।

प्रमादी^२—सञ्ज्ञा पुं० १. बृहस्पति के शक्राग्निदेवत नामक दशम युग का दूसरा सवत्सर। इसमें लोग आलसी रहते हैं, क्रान्तियाँ होती हैं और लाल फूल के पेड़ों के बीज नष्ट हो जाते हैं। २. वह जो पागल या भावला हो।

प्रमादोन्मत्त—वि० [सं० प्रमाद् + उन्मत्त] प्रमाद या अनवधानता। उ०—हमारे भाई मुखंताप और प्रमादोन्मत्त अचेत हो। —प्रेमघन०, भा० २, पृ० ६६।

प्रमान^(१)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रमाण] १ इयत्ता। सीमा। प्रमाण। उ०—(क) अपनी गाँठि को द्रव्य भेंट की जाकों जैसी सक्ति हली सो ता प्रमान काइत भए।—दो सी वाकन०, भा १, पृ० २२५। २ सबूत। उ०—प्रगटत है पूरव की करनी, तजु मन सोच अजान। सुरदास गुन कहें लग वरनौ, विधि के अक प्रमान।—सतवाणी०, भा० २, पृ० ६७।

विशेष—इस शब्द के अन्य अर्थ और उदाहरण 'प्रमाण' में देखिए।

प्रमानना—क्रि० सं० [सं० प्रमाण + हिं० ना (प्रत्य०)] १ प्रमाण मानना। सत्य मानना। ठीक समझना। उ०—(क)

नंद गोप वृषभानु जसोदा सबहि गोप कुल जानो। करौ उपाय बची जो चाही मेरो बचन प्रमानो।—सूर (शब्द०)। (ख) बोले बचन तबहि अकुलानो। सुनहु राम मन वचन प्रमानो।—पद्माकर (शब्द०)। २ प्रमाणित करना। साबित करना। सबूत देना। उ०—यहि अनुमान प्रमानियत तिय तन जोवन जोनि। ज्यो मेहँदी के पात में अलख ललाई होति।—पद्माकर (शब्द०)। ३. स्थिर करना। ठहराना। निश्चित करना। करार देना। उ०—(क) जोगीश्वर वपु धरि हरि प्रगटे जोग समाधि प्रमान्यो।—सूर (शब्द०)। (ख) जासु सुना नृपतिहि छलि लीनी। यह अनीति जाके सँग कीनी। जाने तदपि बुरो नहि मान्यो। व्याह तुम्हारो शुद्ध प्रमानो।—लक्ष्मण (शब्द०)।

प्रमानी^(१)—वि० [सं० प्रमाणिक] मानने योग्य। प्रमाण योग्य। माननीय। उ०—गुरु बोले शिष की सुनि बानी। शकर को मत परम प्रमानी।—निश्चल (शब्द०)।

प्रमापक^१—वि० [सं०] प्रमाणित करनेवाला।

प्रमापक^२—सञ्ज्ञा पुं० दे० 'प्रमाण' (को०)।

प्रमापण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मारण। नाश।

प्रमापयिता—वि० [सं० प्रमापयितृ] [वि० स्त्री० प्रमापयित्री] १. घातक। नाशकारक। २. अनिष्टकारक। हानि पहुँचानेवाला।

प्रमापित—वि० [सं०] ध्वस्त। नष्ट। हत (को०)।

प्रमापी—वि० [सं०] मारने या ध्वस्त करनेवाला (को०)।

प्रमायु—वि० [सं०] नाशशील। क्षर। ध्वंसशील

प्रमायुक—वि० [सं०] दे० 'प्रमायु'।

प्रमार्जक—वि० [सं०] १ पोछनेवाला। साफ करनेवाला। २. हटानेवाला। दूर करनेवाला।

प्रमार्जन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ धोना। साफ करना। २ पोछना। झाड़ना। ३ हटाना। दूर करना। निवृत्त करना।

प्रमित—वि० [सं०] १ परिमित। २. निश्चित। ३ अल्प। थोड़ा। ४ जिसका यथार्थ ज्ञान हुआ हो। प्रमाणों द्वारा जिसको प्रमा नामक ज्ञान प्राप्त हुआ हो। ५ ज्ञात। विदित। अवगत। ६ अवधारित। प्रमाणित।

प्रमिताक्षरा—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं०] एक द्वादशाक्षर वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में सगण, जगण, धोर अत मे दो सगण होते हैं। उ०—हरषाय जाय सिय पाँय परी। ऋपिनारि सँघि सिर गोद घरी। बहु अग राग अँग अग रये। बहु भाँति ताहि उपदेश दये।—केशव (शब्द०)।

प्रमिति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह यथार्थ ज्ञान जो प्रमाण द्वारा प्राप्त हो। प्रमा।

प्रमीढ़—वि० [सं० प्रमीड] १ गाढ़ा। घना। २ मूत्र होकर निकला हुआ।

प्रमीत—वि० [मं०] १ मृत। मरा हुआ। २ यज्ञ के लिये मारा हुआ (पशु)। ३. नष्ट। विलीन। उ०—अपनी जर्जर—वीणा के उलके से तारो का संगीत।

जिसमें प्रतिदिन क्षणमगुर लय बुदबुद होते रहे प्रमीत ।
—इत्यलम्, पृ० २५ ।

प्रमीति—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ हनन । वष । २ मृत्यु ।

प्रमीलन—सज्ञा पुं० [सं०] निमीलन । मूँदना ।

प्रमीला—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ तंद्रा । २ धकावट । शैथिल्य ।
ग्लानि । ३ मुद्रण । मूँदना । ४ अजुन की एक स्त्री का
नाम जो एक स्त्रीराज्य की रानी थी (को०) ।

प्रमीलिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] निद्रा । नीद (को०) ।

प्रमीलित—वि० [सं०] जिसकी आँखें बंद हों (को०) ।

प्रमीली^१—वि० [सं० प्रमीलित्] [वि० स्त्री० प्रमीलिनी] निमीलित
करनेवाला । आँखें मुँदानेवाला ।

प्रमीली^२—सज्ञा पुं० [सं०] एक दैत्य ।

प्रमुक्त—वि० [सं०] १ जो मुक्त कर दिया गया हो । जिसके बंधन
ढीले कर दिए गए हो । उ०—सौरभ प्रमुक्त प्रेयसी के
हृदय से हो तुम प्रति देश युक्त ।—अनामिका, पृ० २१ ।
२ स्वतंत्र । मुक्त (को०) । ३ त्यागा हुआ । परित्यक्त (को०) ।
४ फेंका हुआ । प्रक्षिप्त (को०) ।

प्रमुक्ति—सज्ञा स्त्री० [सं०] मुक्तता । स्वतंत्रता (को०) ।

प्रमुख^१—क्रि० वि० [सं०] १ समुख । सामने । आगे । २ उस
समय । तत्काल ।

प्रमुख^२—वि० १. प्रथम । पहला । २ मुख्य । प्रधान । श्रेष्ठ । ३
मान्य । प्रतिष्ठित । अग्रभा ।

प्रमुख^३—अश्व्य० इससे आरम्भ करके और और । इन मुख्यों के
अतिरिक्त और और । इत्यादि । वगैरह । उ०—बधुक सुमन
अरुण पद पकज अकुश प्रमुख चिह्न धरि आए ।—धूर
(शब्द०) ।

प्रमुख^४—सज्ञा पुं० १ आदि । आरम्भ । २ समूह । ३ पुन्नाग । ४
मुख (को०) । ५ सम्मानयुक्त व्यक्ति । आदरणीय व्यक्ति
(को०) । ६ अघ्याय, परिच्छेद आदि का आरम्भ (को०) ।

प्रमुग्ध—वि० [सं०] १. चेतनारहित । २. मूढ़ । हतबुद्धि । ३.
अत्यंत सुदर । अतीव सलोना (को०) ।

प्रमुच्च—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रमुचि' ।

प्रमुचि—सज्ञा पुं० [सं०] एक ऋषि का नाम ।

प्रमुचु—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रमुचि' ।

प्रमुद्—वि० [सं० प्रमुद्] हृष्ट । आनंदित ।

प्रमुदा^१—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रमदा] दे० 'प्रमदा' । उ०—प्रमुदा
प्राण समान नहीं बिसरत एक छिन ।—पृ० २०, १।३७० ।

प्रमुदित—वि० [सं०] हर्षित । आनंदित । प्रसन्न । उ०—(क)
प्रमुदित पुर नर नारी सब सर्जहि सुमगल चार ।—मानस,
२।२३ । (ख) तव मन्त्रायन विषे सुभट मन्त्रिन नै जे वचन
कहे ते रानी जसखान प्रमुदित हो कही कै थाँकी छत्रिय घमं
सव्यो छै ।—प० रासो, पृ० ६६ ।

यौ०—प्रमुदिष्वदन = प्रसन्नमुख । प्रमुदितहृदय = आंतरिक
आनंदयुक्त । प्रसन्नचित्त ।

प्रमुदितवदना—सज्ञा स्त्री० [सं०] वारह अक्षरो की एक वर्णवृत्ति
जिसे मदाकिनी भी कहते हैं । दे० 'मदाकिनी' ।

प्रमुपित—वि० [सं०] १ ले लेना । चुरा लेना । २ अचेत । मूढ़ ।
हतबुद्धि (को०) ।

प्रमुपिता—सज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार की प्रहेलिका (को०) ।

प्रमूकना^१—[सं० प्रमुञ्चन, प्रमोचन] छोड़ना । मुक्त करना ।
उ०—गात संवारण में गमे, ऊमर काय अजाण । आखर
प्राण प्रमूकणो, खाल हुसी मन खाण ।—बाँकी० प्र०,
भा० २, पृ० ४३ ।

प्रमूढ—वि० [सं०] १. अत्यंत मूर्ख । जड़ । वेवकूफ । २ व्याकुलित ।
अमित । चकगता हुआ (को०) ।

प्रमूढता—सज्ञा स्त्री० [सं०] मिरगी घाने के पूर्व का एक लक्षण
जिसमें इन्द्रियां शिथिल होने लगती हैं ।—माधव०,
पृ० १३० ।

प्रमृत^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ मरण । मृत्यु । २ मनु के अनुसार हल
जोतकर जीविका करने का काम । कृषि ।

विशेष—हल चलने में मिट्टी में रहनेवाले बहुत से जीव मर जाते
हैं इससे चरो मृत कहते हैं ।

प्रमृत^२—वि० १ दृष्टि की सीमा से दूर । मोक्षल । २ मरा हुआ ।
मृत । निष्प्राण । ३ ढँका हुआ । आधृत (को०) ।

प्रमृष्ट—वि० [सं०] १. निरस्त । २ माजित । चमकाया हुआ ।
साँजा घोया । पोंछा हुआ ।

प्रमेय^१—वि० [सं०] १. जो प्रमाण का विषय हो सके । वह
जिसका बोध करा सके । २ जिसका मान बताया जा सके ।
जिसका भ्रदाज करा सके । ३ अवधार्य । अवधारण योग्य ।
जिसका निर्धारण कर सके ।

प्रमेय^२—सज्ञा पुं० १. वह जो प्रमा या यथार्थ ज्ञान का विषय हो ।
वह जिसका बोध प्रमाण द्वारा करा सके । वह वस्तु या बात
जिसका यथार्थ ज्ञान हो सके ।

विशेष—ज्ञान का विषय बहुत सी वस्तुएँ हो सकती हैं पर
न्याय दर्शन में गौतम ने उन्हीं वस्तुओं को प्रमेय के अंतर्गत
लिया है जिनके ज्ञान से मोक्ष या अपवर्ग की प्राप्ति होती
है । ये वारह हैं—आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन,
प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, सुख और अपवर्ग । यद्यपि
वैशेषिक के द्रव्य, गुण, बर्म सामान्य, विशेष और समवाय
सब पदार्थ ज्ञान के विषय हैं तपपि न्याय में गौतम ने वारह
वस्तुओं का ही प्रमेय के अंतर्गत विचार किया है ।

२ परिच्छेद ।

प्रमेसर^१—सज्ञा पुं० [सं० परमेश्वर] दे० 'परमेश्वर' । उ०—
पूरण पुरस प्रमाण प्रमेसर । सुकवि सघार वार अप्रेश्वर ।—
रा० ६०, पृ० ४ ।

प्रमेह—सज्ञा पुं० [सं०] एक रोग जिसमें मूत्रमार्ग से शुक्र तथा
शरीर की और धातुएँ निशला करती हैं । धातु गिरने
का रोग ।

विशेष—युष्मत् के अनुसार दिन को सोने, काम न करने, वरा-वर आलस्य में पड़े रहने, शीतल स्निग्ध वस्तुएँ और मीठी वस्तुएँ बहुत अधिक खाने से यह रोग हो जाता है। हाथ पैर में जलन, शरीर का भारी रहना, मूत्र श्वेत और मीठा लिए होना, आलस्य और प्यास, तालू, दाँत, जीभ आदि में मेल जमना, प्रमेह के पूर्वलक्षण हैं। वैद्यक में २० प्रकार के प्रमेह गिनाए गए हैं जिनमें से उदकमेह, इक्षुमेह, सोद्रमेह, सुरामेह, पिष्टमेह, शुक्रमेह, सिकतामेह, शीतमेह, शानैर्मेह और लालमेह तो कफज हैं, क्षारमेह, नीलमेह, कालमेह, हरिद्रामेह, माजिष्ठमेह और रक्तमेह पित्तज हैं और वसामेह, मज्जामेह, क्षौद्रमेह और हस्तिमेह वातज हैं। सब प्रकार के प्रमेह चिकित्सा न होने पर मधुमेह हो जाते हैं जिसमें मिठास लिए मधु मा गाढा मूत्र निकलता है। इस रोग में रोगी या तो बहुत दुर्बल हो जाता है या बहुत मोटा। इस प्रकार सूजाक और बहुमूत्र प्रमेह रोग के अतर्गत ही आ जाते हैं यद्यपि डाक्टरों चिकित्सा में ये भिन्न भिन्न रोग माने गए हैं।

प्रमेही—वि० [म० प्रमेहिन्] प्रमेह रोग युक्त।

प्रमोक्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मुक्ति। मोक्ष। छुटकारा। २ त्याग। छोड़ना। फेंकना।

प्रमोक्षण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चंद्र या सूर्य ग्रहण की समाप्ति [को०]।

प्रमोचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ अच्छी तरह मोचन। अच्छी तरह छुड़ाना। २ खूब हरण करना।

प्रमोचनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] गोडुवा। एक प्रकार की ककड़ी। गोमा ककड़ी।

प्रमोद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ हर्ष। आनंद। प्रसन्नता। उ०—चहूँ कोद वाढ्यो प्रमोद आनंद पयोद वरसत दपति सोभासपति विसतारी।—घनानंद, पु० ४२६। २ सुख। ३ बृहस्पति के पहले युग के चौथे वर्ष का नाम। (यह शुभ माना जाता है)। ४. एक सिद्धि का नाम। दे० 'पमोदा'। ५. कुमार के एक अनुचर का नाम। ६. एक नाग का नाम। ७. उत्कृष्ट या तीव्र सुगंध (को०)। ८. एक प्रकार का चावल (को०)।

प्रमोदक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का जड़हन।

प्रमोदन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विष्णु का नाम।

प्रमोदन^२—नि० हर्षकारक।

प्रमोदवन—सञ्ज्ञा पुं० [म० प्रमोद+वन] आनंदवन। श्रीडास्थल। उ०—नए गाँव की तरफ से देखा प्रमोदवन।—कुकुर०, पु० ५८।

प्रमोदसद्रक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार की शोषण जो गाढ़े दही और चीनी में भिचें, पीपल, लौंग, कपूर मलकर उसमें अनार के पके दाने डालकर बनती है। इससे दीपन होता है तथा थकावट और प्यास दूर होती है।

प्रमोदा^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] साह्य के अनुसार आठ प्रकार की सिद्धियों में से एक।

विशेष—यह आधिदैविक दुःखों के नष्ट होने पर प्राप्त होती है।

प्रमोदा^१—वि० स्त्री० [म० प्रमोद] प्रमुद्रिता। आनदिता।

उ०—छीनूँगी निधि नहीं किसी सौभागिनि, पुण्य प्रमोदा की। सात वारना नहीं कहीं तू, गोद गरीब यशोदा की।—हिम०, पृ० ५६।

प्रमोदित^१—वि० [म०] प्रमोदयुक्त। आनदित। हर्षित।

प्रमोदित^२—सञ्ज्ञा पुं० कुवेर।

प्रमोदिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] त्रिगिनी।

प्रमोदी—वि० [म० प्रमोदिन्] १ हर्षजनक। २. हर्षयुक्त।

प्रमोधना—क्रि० सं० [सं० प्रबोधन, हिं० प्रबोधना] समझाना।

उ०—सतगुर वपुरा क्या करे, जे सिप ही माँहें चूक। भावे त्यूँ प्रमोधि लै, ज्यु, वसि बजाई फूक।—कवीर ग्रं०, पृ० ३।

प्रमोह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मोह। २ मूर्छा।

प्रमोहन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मोहित करना। २ वह अस्त्र जिसके प्रयोग से शत्रुदल में प्रमोह की उत्पत्ति हो।

प्रमोहित—वि० [सं०] १ मूढ़। मूर्ख। २. धवड़ाया हुआ। स्तब्ध (को०)।

प्रमोही—वि० [म० प्रमोहिन्] मोहजनक।

प्रम्लान—वि० [सं०] १ मुरझाया हुआ। सूखा हुआ। जैसे, प्रम्लान कुसुम। २ मैला। गदा (को०)।

प्रम्लोचा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक अप्सरा।

प्रयंक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पर्यङ्क] 'पर्यंक'।

प्रयंत—प्रव्यं० [म० पर्यन्त] दे० 'पर्यंत'। उ०—काम काल के लोक में मारे जान सुजान। सु दर ब्रह्मा आदि है कोट प्रयत बषान।—सुंदर० ग्रं०, भा० २, पृ० ७०६।

प्रयत्—वि० [म०] १ पवित्र। सयत। उ०—नहीं जानती थो माँ। तेरी प्रयत प्रसा की प्रथम किरन। मुझको इतना गौरव देगी छूकर मेरा म्लान वदन।—वीणा, पृ० ५१। २ नम्र। दीन। ३ प्रयत्नशील। ४ वशी। इन्द्रियों को वश में करनेवाला (को०)।

प्रयतात्मा—वि० [म० प्रयतात्मन्] सयत प्रात्मावाला। जितेंद्रिय। सयमी।

प्रयत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सयम।

प्रयत्न—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १ वह क्रिया जो किसी कार्य को, विशेषतः कुछ कठिन कार्य को, पूरा करने के लिये की जाय। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये की जानेवाली क्रिया। विशेष यत्न। प्रयास। अथर्वसाय। चेष्टा। कोशिश। जैसे,—विना प्रयत्न के कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। २ न्यायसूत्र के अनुसार आत्मा के छह गुणों अथवा साधनचिह्नों में से एक। प्राणियों की क्रिया। जीवों का व्यापार।

विशेष—नैयायिकों के अनुसार प्रयत्न तीन प्रकार के होते हैं—प्रवृत्ति, निवृत्ति, और जीवनयोनि। ग्रहण का व्यापार

प्रवृत्ति है, त्याग का व्यापार निवृत्ति। ये दोनों इच्छा और द्वेषपूर्वक होते हैं। श्वास प्रश्वास आदि व्यापार जो इच्छा और द्वेषपूर्वक नहीं होते जीवनयोनि प्रयत्न कहलाते हैं।

३ वर्णों के उच्चारण में होनेवाली क्रिया।

विशेष—उच्चारण प्रयत्न दो प्रकार का होता है—आभ्यन्तर और बाह्य। ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वागिन्द्रिय की क्रिया को आभ्यन्तर प्रयत्न कहते हैं और ध्वनि के अंत की क्रिया को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आभ्यन्तर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के चार भेद हैं—(१) विघृत—जिनके उच्चारण में वागिन्द्रिय खुली रहती है, जैसे, स्वर। (२) स्पृष्ट—जिनके उच्चारण में वागिन्द्रिय का द्वार बंद रहता है, जैसे, 'क' से 'म' तक २५ व्यंजन। (३) ईषत् विघृत—जिनके उच्चारण में वागिन्द्रिय कुछ खुली रहती है, जैसे य र ल व। (४) ईषत् स्पृष्ट—श ष स ह। बाह्य प्रयत्न के अनुसार दो भेद हैं श्रघोप और घोप। श्रघोप वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का उपयोग होता है। कोई नाद नहीं होता, जैसे—क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, श ष और स। घोप वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है—शेष व्यंजन और सब स्वर।

प्रयत्नपक्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रयत्न+पक्ष] प्रयत्न या उद्योग का पहलू। लोकरजन के लिये की जानेवाली क्रियाओं का कलाप। उ०—साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को ग्रहण करनेवाले कुछ ऐसे कवि भी होते हैं जिनका मन सिद्धावस्था या उपयोग पक्ष की ओर नहीं जाता, जैसे भूषण।—रस०, पृ० ५६।

प्रयत्नवान्—वि० [सं० प्रयत्नवत्] [वि० ली० प्रयत्नवती] प्रयत्न में लगा हुआ।

प्रयत्नशील—वि० [सं०] प्रयत्न में लगा हुआ। प्रयत्नवान्।

प्रयत्नशैथिल्य—सञ्ज्ञा पुं० [म०] साधारण लोग जिस प्रकार आसन मारकर बैठते हैं उसे शिथिल अर्थात् दूर करके योग में कही हुई रीतियों के अनुसार आसन पर जप करना। (योग)।

प्रयसा—सञ्ज्ञा ली० [सं०] एक राक्षसी जिसे रावण ने सीता को समझाने के लिये नियत किया था।

प्रयस्त—वि० [सं०] १ पकाया हुआ। सिंकाया हुआ। २ मसालेदार। जिसमें मसाले पड़े हो। ३ उत्सुक। जिज्ञासु। ४ विखरा हुआ (को०)।

प्रयाग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ बहुत से यज्ञों का स्थान। २ एक प्रसिद्ध तीर्थ जो गंगा यमुना के संगम पर है।

विशेष—जान पड़ता है जिस प्रकार सरस्वती नदी के तट पर प्राचीन काल में बहुत से यज्ञादि होते थे उसी प्रकार आगे चलकर गंगा यमुना के संगम पर भी हुए थे। एसी लिये प्रयाग नाम पड़ा। यह तीर्थ बहुष प्राचीन काल से प्रसिद्ध है और यहाँ के जल से प्राचीन राजाओं का अभिषेक होता था।

इस बात का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। वन जाते समय श्रीगमचंद्र प्रयाग में भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर होते हुए गए थे। प्रयाग बहुत दिनों तक कोशल राज्य के अंतगत था। अशोक आदि बौद्ध राजाओं के समय यहाँ बौद्धों के अनेक मठ और विहार थे। अशोक का स्तंभ श्वेतक किले के भीतर खड़ा है जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति खुदी हुई है। फाहियान नामक चीनी यात्री सन् ४१४ ई० में आया था। उस समय प्रयाग कोशल राज्य में ही लगता था। प्रयाग के उस पार ही प्रतिष्ठान नामक प्रसिद्ध दुर्ग था जिसे समुद्रगुप्त ने बहुत दृढ़ किया था। प्रयाग का अक्षयवट बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध चला आता है। चीनी यात्री हुएसांग ईसा की सातवीं शताब्दी में भारतवर्ष में आया था। उसने अक्षयवट का देखा था। आज भी लाखों यात्री प्रयाग आकर इस वट का दर्शन करते हैं जो सृष्टि के आदि से माना जाता है। वर्तमान रूप में जो पुराण में मिलते हैं उनमें मत्स्यपुराण बहुत प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। इस पुराण के १०२ अध्याय से लेकर १०७ अध्याय तक में इस तीर्थ के माहात्म्य का वर्णन है। उसमें लिखा है कि प्रयाग प्रजापति का क्षेत्र है जहाँ गंगा और यमुना बहती हैं। साठ सहस्र वीर गंगा की और स्वयं सुयं जमुना की रक्षा करते हैं। यहाँ जो वट है उसकी रक्षा स्वयं शूलपाणि करते हैं। पाँच कुंड हैं जिनमें से होकर जाह्नवी बहती है। माघ महीने में यहाँ सब तीर्थ आकर वास करते हैं। इससे उस महीने में इस तीर्थवास का बहुत फल है। संगम पर जो लोग अग्नि द्वारा देह विसर्जित करते हैं वे जितने रोम हैं उतने सहस्र वष स्वर्ग लोक में वास करते हैं। मत्स्य पुराण के उक्त वर्णन में ध्यान देने की बात यह है कि उसमें सरस्वती का कहीं उल्लेख नहीं है जिसे पीछे से लोगों ने त्रिवेणी के भ्रम में मिलाया है। वास्तव में गंगा और यमुना की दो ओर से आई हुई दो धाराओं और एक दोनों की समिलित धारा से ही त्रिवेणी हो जाती है।

३ यज्ञ (को०)। ४ इद्र (को०)। ५ घोडा (को०)।

प्रयागमय—सञ्ज्ञा पुं० [म०] इंद्र (को०)।

प्रयागवाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रयाग + चाला (प्रत्य०)] प्रयाग तीर्थ का पड़ा।

प्रयाचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. मिक्षा मांगना। २. प्रार्थना करना। गिहगिहाना (को०)।

प्रयाज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दर्शपूर्णमास यज्ञ के अंतर्गत एक अंग यज्ञ।

प्रयाण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ गमन। प्रस्थान। जाना। यात्रा। कूच। रवानगी। उ०—जैसी आज्ञा, उठा विभीषण, यह कह उसने किया प्रयाण। जँचा इसी में तात, मुझे भी निज पुलस्त्य कुल का कल्याण।—साकेत, पृ० ३६१। २ युद्धयात्रा। चढ़ाई। ३ मारभ। किसी काम का छिड़ना। ४. ससार से विदाई। मृत्यु (को०) ५ घोड़े की पीठ (को०)। ६ किसी जानवर का पिछला भाग (को०)।

प्रयाणक—सज्ञा पुं० [सं०] १ यात्रा । प्रस्थान । प्रयाण । २. गमन । गतिशीलता [को०] ।

प्रयाणकाल—सज्ञा पुं० [सं०] १ जाने का समय यात्रा का समय । २ इस लोक से प्रस्थान का समय । मृत्यु का समय ।

प्रयाणपटह—सज्ञा पुं० [सं०] युद्धयात्रा में प्रस्थानकाल के समय बजनेवाला नगाडा । घोंसा [को०] ।

प्रयाणपुरी—सज्ञा स्त्री० [सं०] दक्षिण में कावेरी नदी के तट पर एक प्राचीन तीर्थ जिसका माहात्म्य स्कंदपुराण में वर्णित है ।

प्रयाणभंग—सज्ञा पुं० [सं० प्रयाणभङ्ग] यात्राभंग । यात्रा करते समय बीच में रुकना [को०] ।

प्रयाणसमय—सज्ञा पुं० [सं०] २० 'प्रयाणकाल' ।

प्रयात^१—वि० [सं०] १ गत । गया हुआ । २ मृत । मरा हुआ । ३ सोया हुआ ।

प्रयात^२—सज्ञा पुं० १ खूब चलने या जानेवाला । २ वह जो खूब चले अथवा जाय । ३ ऊँचा किनारा जिसपर से गिरने से कोई वस्तु एकदम नीचे चली जाय । करार । भृगु । ३ रात्रियुद्ध [को०] ।

प्रयान^७—सज्ञा पुं० [सं० प्रयाण] ३० 'प्रयाण' । उ०—विचारी वियोगिनी वनिताओं के प्रातः प्रयान करने लगे ।—प्रमथन०; भा०२, पृ० १० ।

प्रयापण—सज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रयापणीय, प्रयापित, प्रयाप्य] १ प्रस्थान कराना । भगाना । चलता करना । २ आगे जाना ।

प्रयापन—सज्ञा पुं० [सं०] ३० 'प्रयापण' [को०] ।

प्रयापित—वि० [सं०] १ आगे बढ़ाया हुआ । आगे किया हुआ । २ भेजा हुआ । प्रेरित किया हुआ [को०] ।

प्रयाप्त—सज्ञा पुं० [सं०] १ देश या काल सबधी दीर्घता । लंबाई । २ सधम । वर्षा हुआ आचरण । ३ अभाव । दुष्काल । दुष्प्राप्यता । महेंगी । किसी वस्तु के अभाव के कारण ग्राहकों की होड । ४ कदर ।

प्रयाल^७—सज्ञा पुं० [?देश०] म्यान । कोष । उ०—जीभ भली तालू के तरें । खरग भली प्रयाल में धरें ।—इत्रा०, पृ० ८२ ।

प्रयात्ता—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रियात्ता] दाख । उ०—गुडा, प्रयाला, गोस्तनी, चारुफला पुनि सोइ ।—नद० प्र०, पृ० ४ ।

प्रयास—सज्ञा पुं० [सं०] १ प्रयत्न । उद्योग । कोशिश । २ श्रम । मेहनत । उ०—विनु प्रयास रघुनाथ ढहाए ।—तुलसी (शब्द०) । ३ इच्छा ।

प्रयासी—वि० [सं० प्रयास + ई (प्रत्य०)] १ प्रयास करनेवाले । श्रमी । उद्योगी । २ काव्यप्रतिभा रहित । कला विरहित । (लाक्ष०) । उ०—ये कहां के बल पर कारीगरी के मजमून बाँधने के प्रयासी कवि न थे ।—आचार्य०, पृ० १३३ ।

प्रयुक्त^१—वि० [सं०] १ अच्छी तरह जोड़ा हुआ । पूर्ण रूप से युक्त । २ अच्छी तरह मिला हुआ । संमिलित । ३. जिसका

खूब प्रयोग किया गया हो । जो खूब काम में लाया गया हो । व्यवहार में आया हुआ । ४ जो किसी काम में लगाया गया हो । प्रेरित । ५ प्रकृष्ट ममाधिस्थ [को०] । ६ निदायुक्त । अत्यंत निदित [को०] । ७ सूद पर दिया हुआ । (घन) जो ब्याज पर दिया गया हो [को०] । ८ चलाया या फेंका हुआ । प्रेरित । जैसे, मत्त, भास्त्र, आदि । ९ निकाला हुआ । खींचकर बाहर किया हुआ । जैसे म्यान से अस्त्र आदि [को०] ।

यौ०—प्रयुक्तसंस्कार = चमकाया हुआ । साफ किया हुआ (रत्नादि) ।

प्रयुक्त^२—सज्ञा पुं० कारण । हेतु [को०] ।

प्रयुक्ति—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ प्रयोजन । लक्ष्य । उद्देश्य । २ प्रयोग । ३. प्रेरणा । ४ परिणाम । फल [को०] । ५ उद्योग । चेष्टा । प्रयत्न [को०] ।

प्रयुत^१—वि० [सं०] १ खूब मिला हुआ । २. मिला जुना । गडबड़ । अस्पष्ट । ३ सहित । समेत । ४ दस लाख ।

प्रयुत^२—सज्ञा पुं० दस लाख की सख्या ।

प्रयुतेश्वर—सज्ञा पुं० [सं०] स्कंदपुराण में वर्णित एक तीर्थ ।

प्रयुत्सु—सज्ञा पुं० [सं०] १. योद्धा । २ मेढा । ३ सन्ध्यासी । ४. इन्द्र । ५. वायु ।

प्रयुद्ध—सज्ञा पुं० [सं०] १. युद्ध । सग्राम । २ वह जो प्रचंड युद्धकारी हो [को०] ।

प्रयोक्ता—सज्ञा पुं० [सं० प्रयोक्त्] १ प्रयोगकर्ता । जैसे, शब्द-प्रयोक्ता । उ०—विना प्रयोक्ता के हुए, यहाँ भोग भी रोग ।—साकेत, पृ० २५२ । २ नियोजित करनेवाला । ३ ऋण देनेवाला । उत्तमर्ण । महाजन । ४ प्रधान अभिनय करनेवाला । सूत्रधार । ५. वाण चलानेवाला । कमनैत [को०] । ६ प्रेरक । प्रेरणा प्रदान करनेवाला [को०] । ७ माध्यम । वाहक [को०] ।

प्रयोग—सज्ञा पुं० [सं०] १. आयोजन । अनुष्ठान । साधन । किसी कार्य में योग । किसी काम में लगना । २ किसी काम में लाया जाना । व्यवहार । इस्तेमाल । बरता जाना । जैसे, बल का प्रयोग करना, विजली का प्रयोग करना, जल का प्रयोग करना, शब्द का प्रयोग करना । उ०—रस है बहुत परतु सखि, विप है विषम प्रयोग ।—साकेत, पृ० २५२ । ३ प्रक्रिया । अमल । क्रिया का साधन । विधान । जैसे,—(क) उस वैज्ञानिक ने रसायन के वहन से प्रयोग दिखाए । (ख) केवल पुस्तक पढ़ने से व्यवहार ज्ञान न होगा, प्रयोग देखो ।

यौ०—प्रयोगज्ञ । प्रयोगचतुर । प्रयोगनिपुण । प्रयोगविधि = प्रयोग बतानेवाली पद्धति या प्रयोग करने की विधि । प्रयोगवीर्य = प्रयोग की शक्ति । प्रयोगशाला । प्रयोग-शास्त्र = कल्पसूत्र ।

४ तांत्रिक उपचार या साधन जो बारह कहे जाते हैं—मारण, मोहन, उच्छादन, कीलन, विद्वेषण, कामनाशन, स्तम्भन वशीकरण, भ्राकपण, वदिमोचन, कामपूरण और वाक्प्रसारण ।

५ अभिनय । नाटक का खेल । स्वांग भरना । ६ रोगी के दोषों तथा देश, काल और अग्नि का विचारकर औषध की व्यवस्था । उपचार । ७ यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान का बोध करनेवाली विधि । पद्धति । ८ दृष्टांत । निदर्शन । ९ साम, दंड आदि उपायो का अवलंबन । १० धन की वृद्धि के लिये ऋणदान । रुपया बढ़ने के लिये सुद पर दिया जाना । ११ घोड़ा । १२ अनुमान के पाँचों अवयवों का उच्चारण । १३ प्रसेपण । फेंकना (को०) । १४ प्रारंभ । शुरुआत (को०) । १५ परिणाम । फल (को०) । १६ समिश्रण । सबद्धता (को०) ।

प्रयोगज्ञ—वि० [सं०] दे० 'प्रयोगनिपुण' ।

प्रयोगत—अव्य० [सं० प्रयोगतत्] १ प्रयोग की दृष्टि से । २ परिणामत । ३ कार्य की दृष्टि से । कार्यत । ४ प्रयोगानुसार (को०) ।

प्रयोगनिपुण—वि० [म०] कुशल अभ्यासी (को०) ।

प्रयोगवाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रयोग + वाद] आधुनिक काव्य की एक विशिष्ट धारा ।

विशेष—प्रयोगवाद अंग्रेजी शब्द एकसेपरिमेंटलिज्म की छाया है जिसमें नए मार्गों का अन्वेषण तथा शिल्प और विषय दोनों को नवीनता प्राप्त होती है । यह वाद मुख्यतः प्राचीन काव्यधारा की परंपरा—छंद, भाव, विषय, भाषा आदि का विरोध करता है । विषय और शिल्प दोनों क्षेत्रों में विदेशी कवियों का प्रभाव प्रयोगवाद पर बहुत अधिक है । विषय की दृष्टि से प्रयोगवादी कवि किसी एक सिद्धांत के अनुवर्ती नहीं हैं ।

प्रयोगातिशय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नाटक में प्रस्तावना का एक भेद जिसमें प्रयोग करते करते घुणाक्षर न्याय से (आपसे आप) दूसरे ही प्रकार का प्रयोग कौशल से हो जाता हुआ दिखाया जाय और उसी प्रयोग का आश्रय करके पात्र प्रवेश करें । जैसे, कुदमाला नाम के संस्कृत नाटक में सूत्रधार ने वृत्त्य के लिये अपनी भार्या को बुलाने के प्रयोग द्वारा सीता और लक्ष्मण का प्रयोग सूचित किया और उस प्रयोग का अवलंबन करके सीता और लक्ष्मण ने प्रवेश किया ।

प्रयोगार्थ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह गौण कार्य जिससे मुख्य कार्य की सिद्धि हो । प्रत्युत्क्रम ।

प्रयोगार्ह—वि० [सं०] जिसका प्रयोग किया जाय । प्रयोग के योग्य ।

प्रयोगार्हता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ प्रयोग की उपयोगिता या व्यावहारिकता । २ प्रयोग में आने की योग्यता या शक्ति ।

प्रयोगी^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रयोगिन्] प्रयोग करनेवाला व्यक्ति । व्यवहार में लानेवाला । अनुष्ठानकर्ता ।

प्रयोगी^२—वि० १ प्रयोक्ता । जो प्रयोग करे । २ प्रेरक । ३ लक्ष्य वा उद्देश्यवाला । उद्देश्ययुक्त (को०) ।

प्रयोग्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सवारी में जोटा जानेवाला घोड़ा या कोई अन्य जानवर । सवारी खींचनेवाला पशु (को०) ।

प्रयोजक^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रयोगकर्ता । अनुष्ठान करनेवाला । २ काम में लगानेवाला । प्रोत्साहक । प्रेरक । ३ नियता । व्यवस्था रखनेवाला । इतजाम रखनेवाला । ४ वह जिसके सामने किसी के पास धन जमा किया जाय या जो अपने सामने किसी से किसी के यहाँ धन जमा करावे । ५ कार्य रूप में करके दिखानेवाला । प्रदर्शन करनेवाला (नाटक) । ६ ग्रथादि का लेखक । लेखक (को०) । ७ आरंभक । संस्थापक । प्रवर्तक (को०) । ८ शास्ता । व्यवस्थाकार (को०) ।

प्रयोजक—वि० १ काम में नियुक्त करनेवाला । २ प्रेरक । ३ प्रभावशाली (को०) । ४ कारणभूत (को०) ।

प्रयोजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. कार्य । काम । अर्थ । जैसे,—तुम्हारा यहाँ क्या प्रयोजन है ? २ उद्देश्य । अभिप्राय । मतलब । गरज । आशय ।

विशेष—न्याय में जो सोलह पदार्थ माने गए हैं उनमें 'प्रयोजन' चौथा है । जिस उद्देश्य से प्रवृत्ति होती है उसका नाम है प्रयोजन । तत्त्वदृष्टि से धात्यतिक दुखनिवृत्ति ही सत्तार में मुख्य प्रयोजन है, शेष सब गौण प्रयोजन हैं । जैसे, भोजन के लिये हम रसोई पका रहे हैं, इसमें भोजन करना एक प्रयोजन है, रसोई पकाने के लिये ईंधन आदि इकट्ठा करते हैं इनसे रसोई बनाना भी प्रयोजन हुआ । पर जब हम इस बात का विचार करते हैं कि भोजन क्यों करते हैं तो क्षुधा के दुख की निवृत्ति मुख्य प्रयोजन ठहरती है और शेष प्रयोजन गौण हो जाते हैं । इसी प्रकार सत्तार में जितने प्रयोजन हैं सांसारिक निवृत्ति के आगे वे गौण ठहरते हैं ।

३ उपयोग । व्यवहार । उ०—यह वस्तु तुम्हारे किस प्रयोजन की है । ४ लाभ । फायदा (को०) ।

प्रयोजनवती लक्षणा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह लक्षणा जो प्रयोजन द्वारा वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करे ।

विशेष—लक्षणा दो प्रकार की होती है, प्रयोजनवती और रूढि । 'बहुत सी तलवारें मैदान में आ गईं' इस वाक्य में यदि हम तलवार का अर्थ तलवार ही करके रह जाते हैं तो अर्थ में बाधा पड़ती है । इससे प्रयोजनवश हमें तलवार का अर्थ तलवारवद सिपाही लेना पड़ता है । अतः जिस लक्षणा द्वारा यह अर्थ लिया वह प्रयोजनवती हुई । पर कुछ लक्ष्यार्थ रूढि हो गए हैं । जैसे 'कार्य में कुशल' । कुशल का शब्दार्थ कुशल इकट्ठा करनेवाला होता है, पर यह शब्द दक्ष या निपुण के अर्थ में रूढि हो गया है । इस प्रकार का अर्थ रूढि लक्षणा द्वारा प्रकट होता है ।

प्रयोजनवान्—वि० [सं० प्रयोजनवत्] [वि० स्त्री० प्रयोजनवती] १ प्रयोजन रखनेवाला । मतलब रखनेवाला । २ मतलबी । स्वार्थी (को०) । ३ उपयोगी । हितकर । उपयुक्त (को०) ।

प्रयोजनीय—वि० [सं०] [सञ्ज्ञा स्त्री० प्रयोजनीयता, प्रयोज्यता] काम का । मतलब का । प्रयोग के लायक ।

प्रयोजनीयता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रयोज्यता' ।

प्रयोज्य^१—वि० [सं०] १ प्रयोग के योग्य । काम में लाने लायक । बरतने लायक । २ काम में लगाए जाने योग्य । नियुक्त करने योग्य । प्रेरित करने योग्य । ३. आचरण योग्य । कर्तव्य ।

प्रयोज्य^२—सञ्ज्ञा पुं० १ प्रेष्य भृत्य । नौकर । २. वह धन जो किसी काम में लगाया जाय ।

प्रयोज्यता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रयोजनीयता । व्यावहारिकता ।

प्ररक्षण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] रक्षण । रक्षा [को०] ।

प्ररुदित—वि० [सं०] बहुत अधिक रोता हुआ [को०] ।

प्ररुह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ऊपर को बढ़नेवाला (अंकुर, वल्ला, पौधा आदि ।)

प्ररुद्ध—वि० [सं० प्ररुद्ध] १. पूरी तरह उगा हुआ । पूर्ण विकसित । २ अंकुरित । उत्पन्न । ३. जिसकी जड़ गहरी हो । बद्धमूल । ४ लवा उगा हुआ, जैसे केश [को०] ।

प्ररुद्धि—वि० [सं० प्ररुद्धि] बढना । बढाव । बाढ़ । वृद्धि [को०] ।

प्ररूपण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [सञ्ज्ञा स्त्री० प्ररूपणा] १ आज्ञापन (जैन) । २. समझाना (को०) ।

प्ररोचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ रुचि सपादन । रुचि दिलाना । चाह पैदा करना । शौक पैदा करना । २ मोहित करना । ३ उत्तेजित करना । ४. दे० 'प्ररोचना' ।

प्ररोचना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ रुचि सपादन । चाह या रुचि उत्पन्न करने की क्रिया । २ उत्तेजना । बढावा । ३. नाटक के अभिनय में प्रस्तावना के बीच, सूत्रधार, नट, नटी आदि का नाटक और नाटककार की प्रशंसा में कुछ कहना जिससे दर्शको को रुचि उत्पन्न हो । ४ अभिनय के बीच आगे आनेवाली बात का रुचिकर रूप में कथन ।

प्ररोधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चढाना । ऊपर उठाना ।

प्ररोह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ आरोह । चढाव । २ ऊपर की ओर निकलना । उगना । जमना । ३ उत्पत्ति । ४ अंकुर । अंकुश । कल्ला । ५. नदीवृक्ष । तुन का पेड़ । ६ प्रकाश किरण (को०) । ७ सतान । सतति (को०) । ८ गड । अर्बुद (को०) ।

प्ररोहण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ आरोह । चढाव । २ भूमि से निकलना । उगना । जमना । ३ उत्पत्ति । ४ अंकुश । अंकुर (को०) ।

प्ररोहभूमि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] उर्वरा भूमि । उपजाऊ जमीन । वह भूमि जहाँ घास पौधे उगें ।

प्ररोहशास्त्री—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वे वृक्ष जिनकी कलम लगाने से लग जाय ।

प्ररोही—वि० [सं० प्ररोहिन्] १ उगने या जमनेवाला । उत्पन्न होनेवाला । २ अभिवर्धनशील । बढ़नेवाला [को०] ।

प्रलम्फन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रलम्फन] १ कूदना । २. कूदने की क्रिया या भाव [को०] ।

प्रलम्बी^१—वि० [सं० प्रलम्ब] १ नीचे की ओर दूर तक लटकता हुआ । उ०—अतिहि लचीली अति प्रलम्ब विन रोग ।—प्रेमघन०, भा० १, पृ० ७१ । २ लंबा । अधिक लंबा । उ०—कुद इदु वर गौर सरीरा । भुज प्रलम्ब परिघन मुनि चीरा ।—मानस, १।१०६ । ३ टंगा हुआ । टिका हुआ । ४ निकला हुआ । किसी ओर को बढा हुआ । ५ काम में ढीला । णिधिल । सुम्त ।

प्रलम्ब^२—सञ्ज्ञा पुं० १ लटकाव । झुलाव । २ शाखा । डाल । टहनी । ३ लतांकुर । टुनगा । ४ खीरा । ५ रांगा । ६. काम में णिधिलता या टालटाल । व्यथ का विलव । ७. पयोधर । स्तन । ८ एक प्रकार का हार । ९ गाथा (को०) । १० एक दानव जिसे बलराम ने मारा था । उ०—जय जय जय बलभद्र वीर धरी गभीर अविलव प्रलम्ब हारी ।—घनानंद, पृ० ५५० ।

विशेष—श्रीमद्भागवत् में कथा है कि एक बार कृष्ण बलराम गोपों के बालकों के साथ खेल रहे थे । प्रलवासुर भी गोपवेष में उनके साथ मिलकर खेलने लगा । लड़के यह कहकर कुपती लडने लगे कि जो हारे वह जीतनेवाले को कंधे पर बिठाकर चले । प्रलव हांग और बलराम को कंधे पर लेकर भागने लगा । पर बलराम का भार इतना अधिक हो गया कि वह आगे न चल सका । अत में उसने अपना रूप प्रकट किया और थोड़ी देर युद्ध करके बलराम के हाथ से मारा गया ।

यौ०—प्रलवधन = प्रलवमथन । प्रलवभुज = प्रलवबाहु । प्रलवहा = बलराम ।

प्रलम्बक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रलम्बक] सुगंध तृण ।

प्रलम्बन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रलम्बन] अवलवन । सहारा लेना । लटकना ।

प्रलम्बबाहु—वि० [सं० प्रलम्बबाहु] जिसकी भुजाएँ लंबी हो । लंबी बाहोवाला । आजानुबाहु ।

प्रलम्बमथन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रलम्बमथन] बलराम ।

प्रलम्बहा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रलम्बहान्] बलराम [को०] ।

प्रलम्बाड—वि० [सं० प्रलम्बाड] जिसका अडकोप लटकता हुआ हो । बडे अडकोपवाला [को०] ।

प्रलम्बित—वि० [सं० प्रलम्बित] खूब नीचे तक लटकाया हुआ ।

प्रलम्बी—वि० [सं० प्रलम्बिन्] [वि० स्त्री० प्रलम्बिनी] १, दूर तक लटकनेवाला । लंबा । २. अवलवन करनेवाला । सहारा लेनेवाला ।

प्रलम्भ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रलम्भ] १. लाभ । प्राप्ति । मिलना । २ छल । धोखा ।

प्रलम्भन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रलम्भन] [वि० प्रलम्ब] १. लाभ होना । प्राप्ति होना । २. छल । धोखा ।

प्रलकाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रलयकाल] दे० 'प्रलयकाल' । उ०—
जगे प्रलकाल भयानक भूत । इसे दुइ दंति भिरे अदभूत ।—
पृ० रा०, ६।१५८ ।

प्रलपन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रलपित] १. कहना । कथन ।
२ वकनाद करना । प्रलाप । बकना । ३. विलपना । दुखडा
रोना । विलाप (को०) ।

प्रलपित^१—वि० [सं०] कहा हुआ । कथित [को०] ।

प्रलपित^२—सञ्ज्ञा पुं० वार्ता । कथन । वात । प्रलपन [को०] ।

प्रलपत्र—वि० [सं०] १ जिसे घोखा दिया गया हो । जो छला
गया हो । २ पकडा हुआ । लिया हुआ [को०] ।

प्रलयंकर—वि० [सं० प्रलयङ्कर] [वि० स्त्री० प्रलयकरी] प्रलयकारी ।
सर्वनाशकारी ।

प्रलय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ लय को प्राप्न होना । विलीन होना ।
न रह जाना । २ भू आदि लोको का न रह जाना । ससार
का तिरोभाव । जगत् के नाना रूपों का प्रकृति में लीन
होकर मिट जाना ।

विशेष—पुराणों में ससार के नाश का वर्णन कई प्रकार से
भाया है । कूर्म पुराण के अनुसार प्रलय चार प्रकार का होता
है—नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यतिक । लोक में जो
बराबर क्षय हुआ करता है वह 'नित्य प्रलय' है । कल्प के
अंत में तीनों लोकों का जो क्षय होता है वह नैमित्तिक या
'ब्राह्म प्रलय' कहलाता है । जिस समय प्रकृति के महदादि
विशेष तक विलीन हो जाते हैं उस समय 'प्राकृतिक प्रलय'
होता है । ज्ञान की पूर्णविस्था प्राप्त होने पर ब्रह्म या चित्
में लीन हो जाने का नाम 'आत्यतिक प्रलय' है । विष्णु
पुराण में 'नित्य प्रलय' का उल्लेख नहीं है । ब्रह्म और
प्राकृत प्रलयों के वर्णन पुराणों में एक ही प्रकार के हैं ।
अनावृष्टि द्वारा चराचर का नाश, बारह सूर्यों के प्रचंड ताप
से जल का शोषण और सब कुछ भस्म होना, फिर लगातार
घोर वृष्टि होना और सब जलमय हो जाना, केवल प्रजापति
का या विष्णु का रह जाना वर्णित है । एक हजार चतुर्गुण
का ब्रह्मा का एक दिन और उतने ही की एक रात होती है
इसी रात में वह प्रलय होता है जिसे 'ब्राह्म प्रलय' कहते हैं ।
प्राकृतिक प्रलय में, पहले जल पृथ्वी के गघगुण को विलीन
करता है जिससे पृथ्वी नहीं रह जाती, जल रह जाता है ।
फिर जल का गुण जो रस है उसे अग्नि विलीन कर लेती है
जिससे जल नहीं रह जाता, अग्नि रह जाती है । फिर वायु
तेज को भी विलीन कर लेती है और वायु ही रह जाती है,
फिर वायु का गुण जो स्पर्श है उसे आकाश विलीन कर
लेता है और केवल आकाश ही रह जाता है जिसका गुण
शब्द है । फिर यह शब्द भी अहंकार तत्व में और अहंकार
तत्व महत्त्व में और अंत में महत्त्व भी प्रकृति में लीन हो
जाता है ।

नैययिक दो प्रकार के प्रलय मानते हैं—खडप्रलय और महा-
प्रलय । पर नभ्य न्यायवाले महाप्रलय नहीं मानते । सांख्य

के अनुसार सृष्टि और प्रलय दोनों प्रकृति के परिणाम हैं ।
प्रकृति का परिणाम दो प्रकार का होता है—स्वरूप परिणाम
और विरूप परिणाम । प्राकृति के उत्तरोत्तर विचार द्वारा जो
विरूप परिणाम होता है उससे सृष्टि होती है और सृष्टि का
जो फिर उलटा परिणाम प्रकृति के स्वरूप को और होने
लगता है उससे प्रलय होता है । तब मत्त्व मत्त्व में, रजस्
रजस् में, तमस् तमस् में मिल जाता है तब प्रलय होता है ।
स्वरूप परिणाम जब होने लगता है उस समय पहले महाभूत
पञ्चतन्मात्र में विलीन होते हैं, फिर पञ्चतन्मात्र और एकादश
इन्द्रियाँ अहंकार तत्व में, फिर यह अहंकार महत्त्व में और
अंत में महत्त्व भी प्रकृति में लीन हो जाता है । उस समय
एकमात्र प्रकृति ही रह जाती है । इस प्रकार ससार अपने
मूल कारण प्रकृति में लय को प्राप्न हो जाता है

३ साहित्य में एक सात्विक भाव जिसे किमी वस्तु में तमय
होने से पूर्व स्मृति का लोप हो जाता है । ४. मूर्धा । त्रेशी ।
५ मृत्यु । नाश (को०) । ६ पोकार (को०) । ७ व्याक
संहार या विनाश (को०) ।

प्रलयकर—वि० [सं०] दे० 'प्रलयंकर' ।

प्रलयकारी—वि० [सं० प्रलयकारिन्] दे० 'प्रलयकर' ।

प्रलयकाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रलय का समय । वह समय जब
समस्त ससार का नाश हो ।

प्रलयजलधर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रलय काल के मेघ । प्रलय के समय
के बादल [को०] ।

प्रलयपयोधि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रलय के समय का समुद्र ।

प्रलायगिनि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रलय + अग्नि] प्रलय कर भाग ।
प्रत्यत भयकर और विनाशकारी अग्नि । उ०—इहकत ज्वाला
सो महि कैसी । अति दुस्सह प्रलायगिनि जैसी ।—बंदीर
सा० । पृ० ४३६ ।

प्रलाटाट—वि० [सं०] जिसका ललाट चौड़ा हो । प्रणस्त ललाट-
वाला [को०] ।

प्रलव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ अर्द्धो तरह काटना । पूर्ण रूप से छेदन ।
२ टुकडा । धज्जी । ३. लेश । लव ।

प्रलवित्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] काटने का औजार [को०] ।

प्रलाप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ कहना । बकना । कथन । २ दुखपूर्ण
रुदन । दुखडा रोना (को०) । ३ निरर्थक वाक्य । व्यर्थ की
बकवाद । अनाप शनाप वात । पागलो की सी बहबड ।

विशेष—ज्वर आदि के वेग में लोग कभी कभी प्रलाप करते हैं ।
वियोगियों की दस दशाओं में एक प्रलाप भी है ।

प्रलापक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ एक प्रकार का सन्निपात जिसमें रोगी
अनाप शनाप बकता है, उसके शरीर में पीडा और कप होता
है । उसका चित्त ठिकाने नहीं रहता । २ प्रलाप करनेवाला ।
बकवादी (को०) ।

प्रलापहा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रलापहन्] कुलत्पांजन । एक प्रकार का
अजन ।

प्रलापी—वि० [मं० प्रलापिन्] [वि० स्त्री० प्रलापिनी] प्रलाप करनेवाला । व्यर्थ बकनेवाला । अड बड बकनेवाला । उ०—
सुनेहि न सवन अलीक प्रलापी ।—मानस, ६।२५ ।

प्रलापु(७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रलाप] दे० 'प्रलाप' । उ०—सूर समर करनी करहि, कहि न जनावहि आपु । विद्यमान रन पाय रिपु, कायर करहि प्रलापु ।—मानस, १।२७४ ।

प्रलिप्त—वि० [सं०] लिप्त । लिपा हुआ । लगा हुआ [को०] ।

प्रलीन—वि० [सं०] १ समाया हुआ । तिरोहित । २ विनष्ट । नष्ट । प्रलयप्राप्त [को०] । ३ छिपा हुआ । लीन । निमग्न । [को०] । ४ चेटानूय । जडवत् ।

प्रलीनता—सञ्ज्ञा स्त्री० [म०] १. प्रलय । नाश । विलीनता । तिरोभाव । २ चेटानाश । जडत्व ।

प्रलीनेन्द्रिय—वि० [सं० प्रलीनेन्द्रिय] जिसकी इन्द्रियाँ चेटारहित हो । शिथिल इन्द्रियोवाना [को०] ।

प्रलुठित—वि० [सं०] १ भूमि पर पतित । गिरा हुआ । २ उछलता कूदता हुआ [को०] ।

प्रलुप्त—वि० [म०] जो लुप्त किया गया हो [को०] ।

प्रलुब्ध—वि० [मं०] लुब्ध । लालच मे पडा हुआ [को०] ।

प्रलुब्धा—वि० स्त्री० [सं०] वह (स्त्री) जो अनुचित रूप से प्रेम करती हो [को०] ।

प्रलून—वि० [सं०] काटा हुआ । कतित ।

प्रलेप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. किसी गीली दवा को पीड़ित अंग पर चढाने की प्रिया । अंग पर कोई गीली दवा छोपना या रखना । २ लेप । पुट्टिस ।

प्रलेपक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ लेप करनेवाला । २ एक प्रकार का जीर्ण ज्वर ।

विशेष—यह ज्वर वात, कफ से उत्पन्न होता है । इसमे पसीने के ससर्ग से चमड़ा लिपा हुआ अर्थात् भीगा सा रहता है और ज्वर बहुत थोडा थोडा रहता है । यह ज्वर अत्यंत कष्ट-साध्य है ।

प्रलेपन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] लेप करने की प्रिया । पोतने का काम ।

प्रलेप्य^१—वि० [सं०] लेप करने योग्य ।

प्रलेप्य^२—सञ्ज्ञा पुं० कुचित केश । घुँघराले बाल ।

प्रलेह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मास का एक व्यजन जो मास के छोटे छोटे खड वाटकर घी में तलकर बनाया जाता है । कोरमा ।

प्रलेहन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चाटना ।

प्रलै(७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रलय] दे० 'प्रलय' । उ०—मेरे जान मेरी जान लेन पाछे आवति है सूल लिए कोप भरी प्रलै कपाली सी ।—पोद्दार अभि० ग्रं०, पृ० ४६१ ।

प्रलोक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परलोक] दे० 'परलोक' । उ०—लोक प्रलोक सब मिले देव इ द्र हू होइ । सु दर दुरलभ संत जन क्यों करि-पावै कोइ ।—सु दर० ग्रं०, भा० २, पृ० ७४४ ।

प्रलोठन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. भूमि पर लुठकना । २ उछलना । कूदना [को०] ।

प्रलोप—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] छत्रस । नाश ।

प्रलोभ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] लालच । अत्यंत लोभ ।

प्रलोभक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रलोभन देनेवाला । लालच देनेवाला ।

प्रलोभन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ लोभ दिखाना । लालच दिखाना । किसी को किसी और प्रवृत्त करने के लिये उसे लाभ की आशा देने का काम । जैसे,—तुम उसके प्रलोभन में मत आना । २ वह वस्तु जिमसे लालच उत्पन्न हो । ललचानेवाली वस्तु [को०] ।

प्रलोभनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] रेत । बालू [को०] ।

प्रलोभित—वि० [सं०] प्रलोभ में आया हुआ । ललचाया हुआ । मूग्ध । मोहित ।

प्रलोभी—वि० [सं० प्रलोभिन्] प्रलोभ में फँसनेवाला । लुब्ध ।

प्रलोल—वि० [मं०] १ अत्यंत चंचल । २ उत्तेजित । अत्यंत कपित । क्षुब्ध [को०] ।

प्रलौ(७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रलय प्रा० पलव] दे० 'प्रलय' । उ०—चपै न सीम साहाव सक, धक धकि धर करिही प्रलौ । पृ० रा०, १३।३१ ।

प्रवंग, प्रवगम—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रवङ्ग, प्रवङ्गम] १. वदर । २. पक्षी [को०] ।

प्रवचक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रवञ्चक] वचन करनेवाला । भारी ठग । धोखेवाज । भारी धूर्त । उ०—तोडा गया पुल प्रत्यावर्तन के पथ में अपने प्रवचको से ।—लहर, पृ० ५६ ।

प्रवंचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रवञ्चन] धोखा देना । ठगना । वचना [को०] ।

प्रवंचना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रवञ्चना] छल । ठगपना । धूर्तता ।

प्रवचित—वि० [सं० प्रवञ्चित] जो ठगा गया हो । जिसने धोखा खाया हो ।

प्रवद(७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रवन्ध] दे० 'प्रवध' । निवध । उ०—कथिमथि कहेव सो छद प्रवदे अविगति जेहि पहिचानी ।—सं० दरिया, पृ० १३६ ।

प्रवक्ता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रवक्तृ] १ अच्छी तरह बोलने या कहनेवाला । २ वेदादि का उपदेश देनेवाला । अच्छी तरह समझाकर कहनेवाला ।

प्रवग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पक्षी ।

प्रवचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रवचनीय] १ अच्छी तरह समझाकर कहना । अर्थ खोलकर बताना । २. व्याख्या । ३ वेदांग ।

प्रवचनपटु—वि० [मं०] सुवक्ता । बातचीत मे कुशल [को०] ।

प्रवचनीय^१—वि० [मं०] बताने या समझाकर कहने योग्य ।

प्रवचनीय^२—सञ्ज्ञा पुं० प्रवक्ता । अच्छी तरह समझाकर कहनेवाला ।

प्रवच्छतिप्रेयसी(७)—सञ्ज्ञा स्त्री० [मं० प्रवत्स्यप्रेयसी] दे० 'प्रवत्स्य-त्पिका' । उ०—होनहार पिय के विरह, विकल होय जो बाल । ताहि प्रवच्छतिप्रेयसी वरनत बुद्धि बिसाल ।—मति० ग्रं०, पृ० ३१५ ।

प्रवल्यावसित—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रवज्यावसित' ।

प्रवट—सज्ञा पुं० [सं०] गोधूम । गेहूँ ।

प्रवण^१—सज्ञा पुं० [सं०] १. क्रमश नीची होती हुई भूमि । ढाल । उतार । २. पहाड़ का किनारा । ३. चौराहा । ४. उदर । पेट । ५. क्षण । ६. आहुति ।

प्रवण^२—वि० १. ढालुवाँ । जो क्रमश नीचा होता गया हो । २. झुका हुआ । नत । ३. किसी बात की ओर ढला हुआ । प्रवृत्त । रत । ४. नम्र । विनीत । ५. व्यवहार में खरा । जो कुटिल न हो । सीधा हिसाब रखनेवाला । ६. उदार । दूसरे की बात सुनने और माननेवाला । ७. अनुकूल । मुवाफिक । ८. स्निग्ध । ९. लवा । १०. निपुण । ११. वक्र । टेढ़ा । तिर्यक् (को०) । १२. सीधा खड़ा । जिससे गिरने पर कहीं टिकान न मिले । जैसे, पहाड़ का खड़ा किनारा (को०) ।

प्रवणता—सज्ञा स्त्री० [सं०] प्रवण होने का भाव ।

प्रवस्यत्—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रवस्यती, प्रवस्यती] जो परदेस जानेवाला हो । जो यात्रा पर जानेवाला हो [को०] ।

प्रवस्यत्पत्तिका—[सं०] वह नायिका जिसका पति विदेश जानेवाला हो ।

विशेष—भुग्वा, मध्या और स्वकीया, परकीया आदि भेदों से इसके भी कई भेद हो जाते हैं ।

प्रवस्यत्प्रेयसी—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रवस्यत्पत्तिका' ।

प्रवस्यद्भर्तृका—सज्ञा स्त्री० [सं०] प्रवस्यत्पत्तिका ।

प्रवदन—सज्ञा पुं० [सं०] घोपणा ।

प्रवप—वि० [सं०] बहुत मोटा । स्थूलकाय [को०] ।

प्रवपण—सज्ञा पुं० [सं०] मु डन सस्कार । मु डन क्रिया [को०] ।

प्रवयण—सज्ञा पुं० [सं०] १. बुने हुए कपड़े का ऊपरी भाग । २. वशा । कोडा । चादक [को०] ।

प्रवया—वि० [सं०] प्रवयम् १. वृद्ध । वृद्धा । २. पुराना [को०] ।

प्रवर^१—वि० [सं०] १. श्रेष्ठ । बड़ा । मुख्य । प्रधान । जैसे, वीर-प्रवर । उ०—देखें वे, हँसते हुए प्रवर, जो रहे देखते सदा समर ।—अनामिका, पृ० ११६ । २. सर्वप्रधान । सबसे ज्येष्ठ (को०) ।

धौ०—प्रवर समिति ।

प्रवर^२—सज्ञा पुं० १. किसी गोत्र के अतर्गत विशेष प्रवर्तक मुनि । जैसे, जमदग्नि गोत्र के प्रवर्तक ऋषि जमदग्नि, श्रौर्व और वशिष्ठ, गर्ग गोत्र के गार्ग्य, वीस्तुभ और मांडव्य इत्यादि । २. सतति । ३. अग्र की लकड़ी । ४. भावरण । आच्छादन (को०) । ५. शरीर का ऊपरी वस्त्र । उपरना । दुपट्टा (को०) । ६. आवाहन । पुकार (को०) । ७. यज्ञ के समय अग्नि का आवाहन (को०) ।

प्रवरगिरि—सज्ञा पुं० [सं०] मगध देश के एक पर्वत का प्राचीन नाम । इसे आजकल 'बराबर पहाड़' कहते हैं ।

प्रवरजन—सज्ञा पुं० [सं०] गुणी ध्यवित । अच्छे गुणवाला व्यक्ति [को०] ।

प्रवरकल्याण—[सं०] अत्यंत सुदर । बहुत सुवसूरत [को०] ।

प्रवरण—सज्ञा पुं० [सं०] १. देवनाग्री का आवाहन । २. वर्षा ऋतु के अंत में होनेवाला वीधो का एक उत्सव ।

प्रवरललिता—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रवरललित] एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, रगण और एक गुण होता है । जैसे,—यमी नामे रागादिक सकल जजाल भाई । यही ते धेरे ना प्रवरललिता ताहि जाई । अहो, मेरे भीता यदि चहुहु ससार जीता । तजी सारे रागा भजहु भवहा राम सीता ।

प्रवरचाहन—सज्ञा पुं० [सं०] अश्विनीकुमार ।

प्रवरसमिति—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रवर = समिति] किसी विशेष विषय पर गभीर विचार के बाद सुनिश्चित मत व्यक्त करने के लिये बनाई हुई समिति ।

प्रवरा—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. अगुह । अग्र की लकड़ी । २. दक्षिण की एक छोटी नदी जो गोदावरी में मिलती है । इसका नाम पयोधरा भी मिलता है ।

प्रवर्ग—सज्ञा पुं० [सं०] १. होमाग्नि । हवन करने की अग्नि । २. विष्णु का एक नाम (को०) । ३. सोम याग संबंधी एक उत्सव (को०) ।

प्रवर्त—सज्ञा पुं० [सं०] १. कार्यारम्भ । ठानना । उ०—जव रन होत प्रवर्त रचत परि हृदय गतं नव ।—गोपाल (शब्द०) । २. एक प्रकार के मेघ । ३. गोल आकार का एक प्राचीन आभूषण (अथर्व०) ।

प्रवर्तक—सज्ञा पुं० [सं०] १. किसी काम को चलानेवाला । संचालक । कोई बात ठानने या उठानेवाला । २. आरम्भ करनेवाला । चलानेवाला । अनुष्ठान या प्रचार करनेवाला । जारी करनेवाला । जैसे, मतप्रवर्तक, धर्मप्रवर्तक । उ०—किसी उक्ति की तरह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अथर्ववृत्ति छिपी है तो काव्य की समरसता पाई जायगी ।—रस०, पृ० ३६ । ३. काम में लगानेवाला । प्रवृत्त करनेवाला । प्रेरित करनेवाला । ४. उभारनेवाला । उकसानेवाला । ५. गति देनेवाला । ६. निकालनेवाला । ईजाद करनेवाला । ७. नाटक में प्रस्तावना का वह भेद जिसमें सूत्रधार वर्तमान समय का वर्णन करता हो और उसी का सबब लिए पात्र का प्रवेश हो । ८. न्याय करनेवाला । विचार करनेवाला । पच ।

प्रवर्तन—सज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रवर्तित, प्रवर्तनीय, प्रवर्त्य] १. कार्य आरम्भ करना । ठानना । २. कार्य का संचालन । काम को चलाना । ३. प्रचार करना । जारी करना । ४. उत्तेजना । प्रेरणा । उकसाना । उभारना । ५. प्रवृत्ति । उ०—विघ्न और बाधा की दशा में प्रेम काम करता हुआ नहीं दिखाई देता, एक ओर कष्ट और दूसरी ओर क्रोध का प्रवर्तन ही देखा जाता है ।—रस०, पृ० ७७ ।

प्रवर्तना—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. प्रवृत्तिदान । प्रवृत्त करने की क्रिया ।

प्रवर्तयिता

उत्तेजना । प्रेरणा । २ किसी काम में लगाने या नियुक्त करने की क्रिया । नियोजन ।

प्रवर्तयिता—वि० [स० प्रवर्तयितृ] प्रवर्तन करनेवाला [को०] ।

प्रवर्तित—वि० [सं०] १ ठाना हुआ । आरब्ध । २ चलाया हुआ । ३ निकाला हुआ । ४ उत्पन्न । पैदा । ईजाद किया हुआ । ५ उभारा हुआ । उत्तेजित । प्रेरित । ६ ज्वलित । जलाया हुआ । प्रज्वलित (को०) । ७ सूचित (को०) । ८ शुद्ध किया हुआ । पवित्र (को०) ।

प्रवर्ती^१—वि० [सं० पर + वर्तिन्] वाद का । परवर्ती । उ०—इतना कहने के बाद मैं इस श्रव्याय के प्रवर्ती भाग पर आता हूँ । शुक्ल अभि० प्र०, पृ० ७२ ।

प्रवर्ती^२—वि० [सं० प्रवर्तिन्] प्रवर्तन करनेवाला [को०] ।

प्रवर्द्धक—वि० [सं०] बढ़ानेवाला । वृद्धिकारक । उ०—प्रबल भाव सदैव ही प्रतिपक्ष का । है प्रवर्द्धक वीर जन के वक्ष का ।—शकुं०, पृ० ४३ ।

प्रवर्द्धन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विवर्द्धन । बढ़ती । वृद्धि ।

प्रवर्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] घनघोर वर्षा । जोर की वर्षा [को०] ।

प्रवर्षण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. वर्षा । बारिश । उ०—जिस प्रवर्षण भूमि उर्वर, जिस तपन मरु धूम धूसर, जिस पवन लहरा दिगतर, ज्ञान तेरा ही वहाँ है ।—आराधना, पृ० ३५ । २. बरसात की पहली वर्षा (को०) । ३ किष्किवा के समीप का एक पर्वत जिसपर श्रीराम और लक्ष्मण ने निवास किया था ।

प्रवर्षी—वि० [सं० प्रवर्षिन्] [वि० स्त्री० प्रवर्षिणी] १ वृष्टि करनेवाला । वर्षा करनेवाला । २ बौद्धार करनेवाला । जैसे बाणों की [को०] ।

प्रवर्ह—वि० [सं०] प्रधान । श्रेष्ठ ।

प्रवलाकी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रवलाकिन्] १. मोर । मयूर । २ सर्प । सर्प ।

प्रवसथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रस्थान । २ प्रवास ।

प्रवसन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ विदेश में जाना या रहना । बाहर जाना । २. मृत्यु (को०) ।

प्रवह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ लूख बहाव । २ कुड जिसमें नाली द्वारा जल जाय । ३ सात वायुओं में से एक वायु ।

विशेष—यह वायु भावह वायु के ऊपर है और हसी के द्वारा ज्योतिष्क पिंड आकाश में स्थित है ।

४. वायु । पवन (को०) । ५ अग्नि की सात जिह्वाओं में से एक । ६ घर, नगर आदि से बाहर निकलना ।

प्रवहण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ ले जाना । २ कन्या को ब्याह देना । ३ छोटा परदेदार रथ । बहली । ४ डोली । ५ नाव । पोत ।

प्रवहणोनिकाय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कामगर लोगो का सस्थान [को०] ।

प्रवहमान—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रवहमाना] प्रवाहयुक्त । बहता हुआ । प्रवाहित । उ०—(क) प्रवहमान थे निम्न देश में, शीतल शत शत निर्भर ऐसे ।—कामायनी, पृ० २५८ । (ख) प्रवहमान पार्वत्य नदियो का मार्ग भिन्न किया था ।—प्रा० भा० प०, पृ० ५८ ।

प्रवहमानता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रवाहित होने का भाव । प्रवाह-शीलता ।

प्रवह्नि, प्रवह्निका,—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पहेली ।

प्रवह्नी, प्रवह्नीका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रहेलिका [को०] ।

प्रवाण^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रमाण] इयत्ता । सीमा । अवधि । दे० 'प्रमाण' । उ०—राजा सोभत दल प्रवाणी, यूँ सिधा सोभंत सुधि बुधि की वाँणी ।—गोरख०, पृ० २४ ।

प्रवाँन^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रमाण] दे० 'प्रमाण-१' उ०—भक्ति योग अब सुनहु सयाना । बुद्धि प्रवाँन जु करौ बखाना ।—सु दर० प्र०, भा०१, पृ० ६५ ।

प्रवाँनना^३—क्रि० सं० [सं० प्रमाणन, पुहि० प्रमानना] दे० 'प्रमानना' । उ०—अज्ञान अपेक्षा ज्ञान वध की अपेक्षा मोक्ष, द्वैत की अपेक्षा सु ती अद्वैत प्रवाँनिए ।—सु दर०, प्र०, भा०२, पृ० ६२५ ।

प्रवाक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] घोषणा करनेवाला ।

प्रवाच—वि० [सं०] १ बहुत बोलनेवाला । इधर उधर फी हाँकनेवाला । २ शेखी बधारनेवाला । ३ युक्तिपटु । अचछी बहस करनेवाला ।

प्रवाचक—वि० [सं०] १ अचछा वक्ता । वाग्मी । वाक्पटु । २ अर्थव्यजक । अर्थवाचक ।

प्रवाचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ अचछी तरह कहना । घोषणा । २ नाम । अभिधान । उपाधि (को०) ।

प्रवाच्य^१—वि० [सं०] १ अचछी तरह कहने योग्य । २ निदनीय । प्रवाच्य^२—सञ्ज्ञा पुं० साहित्यिक कृति या रचना [को०] ।

प्रवाड़ा^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रवाद, हिं० पँवाड़ा, पवाड़ा, पवारा] दे० 'पवाड़ा' । उ०—(क) पढै सु कवि जो वक्ष प्रवाड़ा । हुमै वतीत आव दीहाड़ा ।—रा० रू०, पृ० १२ । (ख) दीसै नाहर देखियाँ सह प्रवाड़ा साच ।—वाँकी० प्र०, भा०१, पृ० २६ ।

प्रवाण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वस्त्र का अचल बनाना या सज्जित करना [को०] ।

प्रवाणि, प्रवाणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] जुलाहों की ढरकी या भरनी [को०] ।

प्रवात^४—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ हवा का भौंका । तेज हवा । उ०—पर अंत को अकाल ही के मेघ तो थे क्षण मे प्रवात से विथुर गए आकाश खुल गया ।—श्यामा०, पृ० ७ । २ स्वच्छ या ताजा वायु (को०) । ३ वह स्थान जहाँ खूब हवा हो । ४ ढाल । उतार । प्रवण ।

प्रवात^२—वि० हवा से हिलता हुआ । भोके खाता हुआ । जिसमें तीव्र वायु लगती हो ।

प्रवातसार—सञ्ज्ञा पुं० [म०] बुद्ध ।

प्रवाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ परस्पर वाक्य । वातचीत । २ कहना । बोलना । व्यक्त करना (को०) । ३ चुनौती । ललकार (को०) । ४ वह वात जो लोगों के बीच फैली हुई हो पर जिसके ठीक होने का निश्चय न हो । जनश्रुति । जनरव । ५ झूठी बदनामी । अपवाद ।

प्रवादक—वि० [सं०] बाजा बजानेवाला [को०] ।

प्रवादी—वि० पुं० [सं० प्रवादिन्] प्रवाद करनेवाला [को०] ।

प्रवान(पु)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रमाथ] दे० 'प्रमाण' । उ०—(क) सो भुज कठ कि तन असि घोरा, सुनु सठ असि प्रवान पन मोरा । —तुलसी (शब्द०) । (ख) मुकुत न भए हूवे भगवाना । तीनि जनम द्विज वचन प्रवाना ।—मानस, १।१२३ ।

प्रवार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रवर । २ वस्त्र । आच्छादन । ३ उत्तरीय वस्त्र । चादर या दुपट्टा ।

प्रवारण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ निषेध । २ काम्यदान । वह दान जो किसी कामना से किया जाय । ३ कमनीय वस्तुओं का दान । उत्तम वस्तुओं का दान (को०) । ४ इच्छापूर्ति । कामना पूरी करना (को०) । ५ महादान (को०) । ६ आच्छादन । प्रवार (को०) । ७ वर्षा ऋतु बीतने पर होनेवाला बौद्धों का एक उत्सव ।

प्रवाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. मूंगा । विद्रुम । २. किशलय । कोपल । कोमल पत्ता । ३. वीणादंड । सितार या तबूरे की लकड़ी ।

प्रवास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. अपना घर या देश छोड़कर दूसरे देश में रहना । विदेश में रहना । परदेश का निवास । २. विदेश । यौ०—प्रवासगत = विदेश गया हुआ । प्रवासपर = प्रवास में आसक्त । प्रवासस्थ, प्रवासस्थित = प्रवास पर गया हुआ ।

प्रवासन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रवासित, प्रवास्य] १. देश या पुर से बाहर निकालना । देशनिकाला । २. वध । ३. प्रवास । बाहर रहना (को०) ।

प्रवासित—वि० [सं०] १. देश से निकाला हुआ । २. हत । मारा हुआ ।

प्रवासी—वि० [सं० प्रवासिन्] [वि० स्त्री० प्रवासिनी] विदेश में निवास करनेवाला । परदेश में रहनेवाला ।

प्रवास्य—वि० [सं०] जो देश से निकाले जाने के योग्य हो । जिसे देशनिकाला देना उचित हो ।

प्रवाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. जल । स्रोत । पानी की गति । बहाव । २. बहता हुआ पानी । धारा । ३. कार्य का बराबर चला चलना । काम का जारी रहना । ४. चलता हुआ काम । व्यवहार । ५. फुकाव । प्रवृत्ति । ६. अच्छा वाहन या घोड़ा । ७. चलता हुआ क्रम । तार । सिलसिला । जैसे, वाणी का प्रवाह । ८. तालाब । झील (को०) । ९. उत्तम घोड़ा (को०) ।

प्रवाहक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जो अच्छी तरह वहन करे । अच्छी तरह वहन करनेवाला । २. राक्षस ।

प्रवाहण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रवाहित] १. डोया जाना । २. बहाया जाना ।

प्रवाहणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] मलद्वार में सबसे ऊपर की कुडली जो मल को बाहर फेंकती है ।

प्रवाहिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. बहानेवाली । २. अतीसार या ग्रहणी रोग का एक भेद । ३. बहनेवाली अर्थात् नदी । सरिता जिममें प्रवाह रहना है । उ०—

प्रवाहित—वि० [सं०] १. जो बहाया गया हो । २. जो डोया गया हो ।

प्रवाहिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] नदी (को०) ।

प्रवाही^१—वि० [सं० प्रवाहिन्] [वि० स्त्री० प्रवाहिनी] १. बहानेवाला । २. प्रवाहवाला । बहनेवाला । ३. तरल । द्रव ।

प्रवाही^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] बालुका । बालू । रेत ।

प्रविकट—वि० [सं०] अत्यंत विस्तृत । विशाल (को०) ।

प्रविकर्षण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] खीचना । आकर्षण । तानना (को०) ।

प्रविकीर्ण—वि० [सं०] १. बिखरा हुआ । छितरा हुआ । २. अलग अलग । विघटित (को०) ।

यौ०—प्रविकीर्णकामा = वह औरत जिसके अनेक प्रमी हो ।

प्रविख्यात—वि० [सं०] १. प्रसिद्ध । विख्यात । मशहूर । २. आदर । आदरणीय । समानित (को०) ।

प्रविख्याति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रसिद्धि । ख्याति ।

प्रविग्रह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सधिमग ।

प्रविचय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. अनुसाधान । खोज । २. परीक्षण । परीक्षा ।

प्रविचर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विवेक । विचारणा । विवेचन (को०) ।

प्रविचित—वि० [सं०] सिद्ध । परीक्षित (को०) ।

प्रविचेतन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बोध । समझ । ज्ञान (को०) ।

प्रवितत—वि० १. फैला हुआ । अत्यंत विस्तृत । २. बिखरा हुआ । अस्तव्यस्त । जैसे, बाल (को०) ।

प्रविदार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] खुलना । स्फोट । [को०]

प्रविदारण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पूर्ण रूप से विदारण । २. युद्ध । ३. भीड़भाड़ । जनसमदं (को०) । ४. स्फुटन । खिलना । खुलना । (को०) ।

प्रविद्ध—वि० [सं०] फेंका हुआ । क्षिप्त । अपाकृत (को०) ।

प्रविद्रुस—वि० [सं०] अस्तव्यस्त या तितर बितर किया हुआ । भगाया हुआ (को०)

प्रविधान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. विचार करना । २. कार्य रूप में परिणत करना । ३. वह साधन जो काम में लाया गया हो (को०) ।

प्रविधि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] विधि । ढंग । तरीका ।

प्रविध्वस्त—वि० [सं०] १ फेंका हुआ। उत्क्षिप्त। २ कपित।
धुन्ध [को०]।

प्रविपल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विपल का लघुतम अर्थ [को०]।

प्रविर—सञ्ज्ञा पुं० [म०] पीतकाष्ठ। एक प्रकार का चदन।

प्रविरत—वि० [सं०] हटा हुआ। विरत [को०]।

प्रविरल—वि० [सं०] १ जो बहुत बड़े अंतराल के कारण अलग हो गया हो। अलग। पृथक्। २ बहुत कम। अत्यल्प।

प्रविलय, प्रविलयन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पिघलना। २ पूर्णतः लय या समाप्त हो जाना [को०]।

प्रविचर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पट्टमकाठ या पदम वृक्ष। पदमख।
विशेष—३० 'पदम'।

प्रविक्र—वि० [सं०] १. पूर्णतः निर्जन। पूर्णतः एकाकी।
२. निश्चित। तीक्ष्ण। तीव्र। तिग्म। (को०)। ३ अलग।
विच्छिन्न। पृथक् [को०]।

प्रविवेक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूर्णतः निर्जन स्थान। पुरी तीर से निर्जनता [को०]।

प्रविश्लेष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अलगव। विभक्तता [को०]।

प्रविषण्ण—वि० [सं०] निराश। खिन्न [को०]।

प्रविषय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] क्षेत्र। प्रसर [को०]।

प्रविषा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] अतीस। अतिविषा।

प्रविष्ट—वि० [सं०] घुसा हुआ। पैठा हुआ। भीतर पहुँचा हुआ।
उ०—प्रिय, प्रविष्ट हो, द्वार मुक्त है, मिलन योग तो नित्य युक्त है।—साकेत, पृ० ३११।

प्रविसना^७—क्रि० अ० [सं० √ प्रविश्] घुमना। पैठना। उ०—
प्रविसि नगर कीजै सब काजा।—तुलसी (शब्द०)।

प्रविसृत—वि० [सं०] १ दौड़ा हुआ। प्रपलायित। २ साहसी।
हिम्मतवर। उग्र [को०]।

प्रविस्तर, प्रविस्तार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] फैलाव। घेरा [को०]।

प्रवीण—वि० [सं०] १ अच्छा गाने, बजाने या बोलनेवाला। २.
निपुण। कुशल। दक्ष। चतुर। होशियार।

प्रवीणता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] निपुणता। चतुराई। कुशलता।

प्रवीत^७—वि० [सं० पवित्र ?] पवित्र। उ०—याँ महाराणी
उच्चरै, सुहृदैं तजौ सचीत। परवाही खग धार दे, जमणा
धार प्रवीत।—रा० रू०, पृ० ३०।

प्रवीन^७—वि० [सं० प्रवीण] ३० 'प्रवीण'।

प्रवीन^७—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्र + वीण] अच्यौ वीणा। सुदर
वीणा।

प्रवीर^१—वि० [सं०] सुभट। धेष्ठ योद्धा। अच्छा वीर। भारी
योद्धा। बहादुर। उ०—शेर पचनद का प्रवीर रणजीत
सिंह आब भरता है देखो।—जहर, पृ० ६१। २ उत्तम।
श्रेष्ठ।

प्रवीर^२—सञ्ज्ञा पुं० १० भौत्य मनु के एक पुत्र। २ वह जो सर्वश्रेष्ठ

वीर हो (को०)। ३ माहिष्मती के राजा नीलध्वज के पुत्र जो
ज्वाला के गर्भ से उत्पन्न थे।

विशेष—इनकी कथा जैमिनी भारत में इस प्रकार है। जब
युधिष्ठिर का अश्वमेध का घोड़ा माहिष्मती में पहुँचा तब
राजकुमार प्रवीर बहुत सी स्त्रियों को लिए एक उपवन में
क्रीडा कर रहे थे। अपनी प्रेयसी मदनमजरी के बहने से
राजकुमार घोड़े को पकड़ लाए। घोर युद्ध हुआ जिसमें
नीलध्वज हारने लगे। सूर्य नीलध्वज के जामाता थे और वर
 देने के कारण उन्हीं के घर रहते थे। सूर्य के समझाने पर
नीलध्वज ने घोड़े को अर्जुन को लौटाना चाहा। पर उनकी
स्त्री उन्हें धिक्कारने लगी और उसने युद्ध करने के लिये
उत्तेजित किया। युद्ध में प्रवीर तथा और बहुत से राजवश
के लोग मारे गए। तब नीलध्वज ने घोड़े को वापस कर
दिया। इसपर ज्वाला क्रुद्ध होकर अपने भाई के पास चली
गई और उसे अर्जुन से युद्ध करने के लिये उभारने लगी।
जब भाई ने भी उसे अपने यहाँ से भगा दिया तब वह नौका
पर चढ़कर गंगा पार कर रही थी। गंगा देवी को उसने बहुत
फटकारा कि तुमने अपने सात पुत्रों को डुबा दिया और तुम्हारे
आठवें पुत्र भीष्म की यह गति हुई कि अर्जुन ने शिखंडी को
सामने करके उसे मार डाला। इसपर गंगादेवी ने क्रुद्ध
होकर शाप दिया कि ६ महीने में अर्जुन का सिर कटकर
गिर पड़ेगा। यह सुनकर ज्वाला प्रसन्न होकर आग में कूद
पड़ी और अर्जुन के वध की इच्छा से तीक्ष्ण वाण होकर
बभ्रुवाहन के तूणीर में जा विराजी। यह कथा महाभारत
में नहीं है।

प्रवृत्—वि० [सं०] चुना हुआ। चयन किया हुआ [को०]।

प्रवृत्^१—वि० [सं०] १ प्रवृत्तिविशिष्ट। किसी बात की ओर झुका
हुआ। रत। तत्पर। लगा हुआ। जैसे, किसी कार्य में प्रवृत्त
होना। २. प्रस्तुत। उद्यत। तैयार। ३. जिसकी उन्वत्ति
या आरंभ हुआ हो। उत्पन्न। आरंभ। ४ लगाया हुआ।
नियुक्त। ५. निश्चित (को०)। ६. बाधा रहित। निर्वाध
(को०)। ७. निर्विवाद (को०)। ८. वतुलाकार (को०)।
९. बहता हुआ। प्रवाहित (को०)।

प्रवृत्^२—सञ्ज्ञा पुं० १ एक गोलाकार आभूषण। २. क्रिया।
व्यापार। कार्य [को०]।

प्रवृत्तक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. रगमच पर प्रवेश करना। २. एक
मात्रावृत्त [को०]।

प्रवृत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ प्रवाह। बहाव। २ झुकाव। मन
का किसी विषय की ओर लगाव। लगन। जैसे,—उसकी
प्रवृत्ति व्यापार की ओर नहीं है। ३. वार्ता। वृत्त। हाल।
बात। ४. यज्ञादि व्यापार। ५. न्याय में एक यत्न विशेष।

विशेष—वाणी, बुद्धि और शरीर से कार्य के आरंभ को प्रवृत्ति
कहते हैं। राग द्वेष भले बुरे कामों में प्रवृत्त कराते हैं।
इष्टसाधनता ज्ञान प्रवृत्ति का और द्विष्टसाधनता ज्ञान
निवृत्ति का कारण होता है।

६ प्रवैतन । काम का चलना । ७ सासारिक विषयों का ग्रहण । संसार के कामों में लगाव । दुनिया के घबे में लीन होना । निवृत्ति का उलटा । ८ उत्पत्ति । आरम्भ । ९ शब्दार्थ-बोधक शक्ति (को०) । १० भाग्य । किस्मत । (को०) । ११ उज्जयिनी का एक नाम (को०) । १२ (गणित में) गुणक । गुणक अक (को०) । १३ हाथी का मद ।

यौ०—प्रवृत्तिज्ञ । प्रवृत्तिनिमित्त = प्रवृत्ति का कारण । किसी विशिष्ट अर्थ में शब्दप्रयोग का कारण । प्रवृत्तिपराङ्मुख = जिसकी समाचार देने में रुचि न हो । प्रवृत्तिपुरुष = गुणचर । प्रवृत्तिमार्ग = भौतिक जीवन के कार्यव्यापारों में आसक्ति । प्रवृत्तिखेख = मार्गदर्शन करानेवाला । आलेख । प्रवृत्तिविज्ञान ।

प्रवृत्तिज्ञ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जासूस । खुफिया (को०) ।

प्रवृत्तिविज्ञान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बाह्य पदार्थों से प्राप्त ज्ञान । (बोद्ध दर्शन) ।

प्रवृद्ध^१—वि० [सं०] १ वृद्धियुक्त । खूब बढ़ा हुआ । २ प्रौढ़ । खूब पक्का । ३ विस्तृत । खूब फैला हुआ । विशाल । ४ उग्र । घमडी । गविष्ठ (को०) ।

प्रवृद्ध^२—सञ्ज्ञा पुं० १ तलवार के ३२ हाथों में से एक जिसे प्रसृत भी कहते हैं । इनमें तलवार की नोक से शत्रु का शरीर दूँ भर जाता है । २ अयोध्या के राजा रघु का एक पुत्र जो गुरु के शाप से १२ वर्ष के लिये राक्षस हो गया था ।

प्रवेक—वि० [सं०] उचम । प्रधान ।

प्रवेग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रकृष्ट वेग । तीव्र गति (को०) ।

प्रवेष्ट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] यव । जी ।

प्रवेण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का वकरा । (वाल्मीकि रामायण) ।

प्रवेणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ वेणी । केशविन्यास । २ हाथी की पीठ पर का रगविरगा झूल । ३. एक नदी । (महा-भारत) । ४. धारा का प्रवाह । जलादि का बहाव (को०) ।

प्रवेता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रवेत्] सारथी । रथवान ।

प्रवेदन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ज्ञात कराना, व्यक्त या जाहिर करना (को०) ।

प्रवेध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ बाण का छोटा जाना । २ एक विशेष प्रकार की माप (को०) ।

प्रवेप, प्रवेपक, प्रवेपथु, प्रवेपन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कपन । कपना । हिलना डोलना (को०) ।

प्रवेरित—वि० [सं०] इधर उधर फँका हुआ । इतस्तत क्षिप्त या विकीर्ण (को०) ।

प्रवेत्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पीली भुँग ।

प्रवेश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. अन्तर्निवेश । भीतर जाना । घुसना । पैठना । दखल । २ गति । पहुँच । रसाई । जैसे,—वहाँ तक उनका प्रवेश नहीं है । ३. किसी विषय की जानकारी । जैसे—न्यायशास्त्र में उनका ऐसा प्रवेश नहीं है । ४ द्वार ।

५ नाटक में किसी पात्र का रगमच पर प्रवेश (को०) । ६. उद्देश्योन्मुखता (को०) । ७ किसी लग्न या राशि में सूर्य का गमन (को०) । ८ आना । उपस्थित होना जैसे रात । (को०) । १० व्यवहार । उपयोग (को०) । ११ पदघति । ढग (को०) । १२. प्राय । प्रागम (को०) ।

प्रवेशक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रवेश करनेवाला । २ नाटक के अभिनय में वह स्थल जहाँ कोई पात्र दो अंकों के बीच की घटना का (जो दिखाई न गई हो) परिचय अपने वार्तालाप द्वारा देता है ।

प्रवेशद्वार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रवेश करने का मार्ग (को०) ।

प्रवेशन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रविष्ट, प्रवेशनीय, प्रवेशित, प्रवेश्य] १. भीतर जाना । घुसना । पैठना । २. सिद्धद्वार । ३ से जाना । प्रवेश कराना । पहुँचाना (को०) । ४. स्त्री-प्रसंग । रतिक्रिया । संभोग (को०) ।

प्रवेशनिषेध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] किसी के आने वा प्रवेश को निषिद्ध ठहराने का आदेश ।

प्रवेशना^(७)—क्रि० अ०, क्रि० सं० [सं० प्रवेशन] ३० 'प्रवेशना' ।

प्रवेशपत्र—सञ्ज्ञा पुं० [प्रवेश+पत्र] १ वह प्रमाणपत्र जिसके आधार पर सबद्ध स्थान या कार्यक्रम में भाग लिया जा सकता है । टिकट । २ वह प्रमाणपत्र जिसके आधार पर विदेशयात्रा की जाती है और जो विदेश में प्रवेश करते समय अधिकारियों को दिखाया जाता है ।

प्रवेशशुल्क—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह द्रव्य जो किसी स्थान या सस्या में प्रवेश का अधिकार पाने के लिये दिया जाय ।

प्रवेशिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ वह पत्र, चिट्ठी या चिह्न जिसे दिखाकर कहीं प्रवेश करने पाएँ । २ प्रवेश के लिये दिया जानेवाला धन । दाखिला ।

प्रवेशित—वि० [सं०] १ प्रवेश कराया हुआ । घुसाया या पैठाया हुआ । २. पहुँचाया हुआ (को०) ।

प्रवेश्य^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कौटिल्य अर्थशास्त्रानुसार देश के भीतर आनेवाला मान । आयात ।

प्रवेश्य^२—वि० [सं०] प्रवेश के योग्य । जिसमें प्रवेश हो सके । २ जिसका प्रवेश कराया जाय । ३ जो बजाया जाय, जैसे वाद्य आदि (को०) ।

प्रवेश्यशुल्क—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] देश के भीतर आनेवाले माल का महसूल । आयात कर ।

प्रवेश^(७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परिवेश] परिधि । मडल । घेरा ।

प्रवेष्ट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ बाहु । २ बाहु का निचला भाग । पहुँचा । ३ हाथी के दाँत पर का मास । हाथी का मसूडा । ४ हाथी की पीठ का मांसल भाग जिसपर सवारी होती है । ५. हाथी की भूस (को०) ।

प्रवेष्टक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दाहिना हाथ ।

प्रवेष्टा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रवेष्टा] १ प्रवेश करनेवाला । २ प्रवेश करानेवाला (को०) ।

प्रवेशना^१—क्रि० अ० [स० प्रवेश] प्रवेश करना । घुसना । पैठना ।
उ०—सो सिय मम हित लागि दिनेसा । घोर बननि महँ
कीन्ह प्रवेशा ।—रामाश्वमेध (शब्द०) ।

प्रवेशना^२—क्रि० स० प्रविष्ट करना । घुसाना ।

प्रव्यक्त—वि० [स०] स्फुट । व्यक्त । प्रकट [को०] ।

प्रव्यक्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [स०] आविष्करण । प्रकाशन । व्यक्ति [को०] ।

प्रव्याहरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बोलने, भाषण करने वा वाद करने
का स्थान [को०] ।

प्रव्याहार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ भाषण । कथन । उक्ति । २ वाद
का बढ़ना । कथन या भाषण का जारी रहना । ३ ध्वनि ।
आवाज । शब्द । रव [को०] ।

प्रव्याहृत—वि० [सं०] १. भविष्य के रूप में कथित । २ उक्त ।
कथित [को०] ।

प्रव्रजन—सञ्ज्ञा पुं० [स०] [वि० प्रव्रजित] १. घर वार छोड़कर प्रव्रज्या
या संन्यास लेना । २ बाहर जाना । परदेश जाना [को०] ।

प्रव्रजित^१—वि० [सं०] १ संन्यासी । २. गृहत्यागी ।

प्रव्रजित^२—सञ्ज्ञा पुं० १. संन्यासी । वह व्यक्ति जिसने चतुर्थ आश्रम
ग्रहण कर लिया हो । २ बौद्ध या जैन भिक्षु का एक
शिष्य । ३. संन्यास आश्रम । चतुर्थ आश्रम [को०] ।

प्रव्रजिता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. जटामासी । २. गोरखमुडी ।
३. तपस्विनी । तापसी [को०] ।

प्रव्रज्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ संन्यास । भिक्षाश्रम । २ जाना ।
बाहर जाना । विदेशगमन [को०] । ३ तृतीय आश्रम ।
वानप्रस्थ [को०] ।

क्रि० प्र०—ग्रहण करना ।—जेना ।

प्रव्रज्यावसित—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जो संन्यास ग्रहण करके उससे
च्युत हो गया हो ।

विशेष—प्रव्रज्याभ्रष्ट व्यक्ति को प्रायश्चित्त करना होता है ।
पर प्रायश्चित्त करने पर भी उसके साथ स्नानपान का व्यवहार
नहीं रखना चाहिए ।

प्रव्रज्याव्रत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नेपाली बौद्धों के यहाँ का एक सास्कार
जो हिंदुओं के यज्ञोपवीत के ढग पर होता है ।

प्रव्रश्चन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] खुखडी जिससे लकड़ी काटी जाय । काठ
काटने की कुल्हाड़ी [को०] ।

प्रव्राज^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] संन्यासी [को०] ।

प्रव्राज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ बहुत नीची जमीन । २ संन्यास ।

प्रव्राजक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० प्रव्राजिका] संन्यासी [को०] ।

प्रव्राजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रव्रजन' ।

प्रशस^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रशंसा] दे० 'प्रशंसा' ।

प्रशस^२—वि० [सं० प्रशंस्य] प्रशंसा के योग्य । उ०—(क) गए जहाँ
हस संत वानो सो प्रशस देखि जानि के बँधाए राजा पास

लैके आए हैं ।—प्रियादास (शब्द०) । (ख) मत्री प्रसिद्ध
प्रशस तू ।—पूर्ण (शब्द०) ।

प्रशसक—वि० [सं०] १. प्रशंसा करनेवाला । स्तुति करनेवाला ।
२. खुशामदी । चाटुकार ।

प्रशसन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वि० प्रशसनीय, प्रशंसित, प्रशस्य] १
गुणकीर्तन । गुणों का वर्णन करते हुए स्तुति करना ।
सराहना । तारीफ करना । २ धन्यवाद । साधुवाद ।

प्रशंसना^१—क्रि० स० [सं० प्रशंसन] सराहना । गुणानुवाद
करना । बखानना । तारीफ करना । उ०—(क) रचि लक्ष्य
विविध प्रकार मुनिवर तिन्हें भेदन को कहैं । अरु हस्त-
लाभ देखि सुतन प्रशसि उर आनंद गहैं ।—लवकुशचरित्र
(शब्द०) । (ख) ताके पुत्र अनूपम भाही । वेद पुराण
प्रशसत जाही ।—सबलसिंह (शब्द०) ।

प्रशसना^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रशंसा । प्रशसन ।

प्रशसनीय—वि० [सं०] सराहने योग्य । स्तुत्य [को०] ।

प्रशसा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ गुणवर्णन । स्तुति । बडाई । श्लाघा ।
तारीफ । २ कीर्ति । ख्याति । प्रसिद्धि [को०] ।

क्रि० प्र०—करना ।—होना ।

यौ०—प्रशसालाप = प्रशसा । श्लाघा । प्रशसामुखर = उच्च स्वर
से गुण वर्णन करनेवाला । प्रशसोपमा ।

प्रशसित—वि० [सं०] जिसकी प्रशंसा हुई हो । प्रशसायुक्त ।
सराहा हुआ ।

प्रशसो—वि० [सं० प्रशसिन्] दे० 'प्रशसक' [को०] ।

प्रशसोपमा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] उपमालकार का एक भेद जिसमें
उपमेय की अधिक प्रशंसा करके उपमान की प्रशंसा धोतित
की जाती है । जैसे,—जो शशि शिव सिर धरत हैं सो तव
बदन समान ।

प्रशस्य—वि० [सं०] प्रशंसा करने योग्य । प्रशसनीय ।

प्रशक्य—वि० [सं०] १ शक्ति भर करनेवाला । २. किया जाने
योग्य । जो किया जा सके ।

प्रशत्तरो—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] नदी । सरिता [को०] ।

प्रशत्त्वा, प्रशवा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रशत्त्वन्, प्रशत्वन्] समुद्र ।

प्रशम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ शमन । उपशम । शांति । २ निवृत्ति ।
नाश । ध्वंस । भागवत के अनुसार रतिदेव के पुत्र का
नाम ।

प्रशमन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ शमन । शांति । २ नाशन । ध्वंस
करना । ३ मारण । वध । ४. प्रतिपादन । ५ दान [को०] ।
६. दवाना । वध में करना । स्थित करना । ७ सत्राजित
के भाई का नाम । ८ अस्त्रप्रहार ।

प्रशमित—वि० [सं०] जो शांत हो । जो नीरव हो । उ०—प्रशमित
है वातावरण, नमितमुख सांध्यकमल ।—अपरा, पृ० ३८ ।

प्रशल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हेमंत ऋतु । दे० 'प्रसल' [को०] ।

प्रशस्त^१—वि० [सं०] १ प्रशसनीय । सुदर । २ जिसकी प्रशंसा

की गई हो (को०) । ३ श्रेष्ठ । उत्तम । भव्य । ४ विस्तृत । व्यापक । उ०—अकबर कालीन कवियों के लिये काव्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया था ।—अकबरी०, पृ० ७ । ५ स्वच्छ साफ । चौड़ा । जैसे, प्रशस्त ललाट (को०) ।

प्रशस्त^२—सञ्ज्ञा पुं० सञ्ज्ञा स्त्री० करजोड़ी नाम की जड़ी । हृत्थाजोड़ी ।

प्रशस्तपाद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्राचीन आचार्य जिनका वैशेषिक दर्शन पर 'पदाथधमसग्रह' नामक ग्रन्थ प्रवक्तक मिलता है । इसे कुछ लोग वैशेषिक का भाष्य मानते हैं ।

प्रशस्ताद्रि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ एक देश का नाम । बृहत्संहिता के मत से यह देश ज्येष्ठा, पूर्वा, मूल और शतभिष के अधिकार में है । २ एक पर्वत (को०) ।

प्रशस्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ प्रशंसा । स्तुति । २ वह प्रशंसा-सूचक वाक्य जो किसी को पत्र लिखते समय पत्र के आदि में लिखा जाता है । सरनामा । ३ किसी की प्रशंसा में लिखी गई कविता (को०) । ४ राजा की और से एक प्रकार के आज्ञापत्र जो पत्थरों की चट्टानों या ताम्रपत्रादि पर खोदे जाते थे और जिनमें राजवश और कीर्ति आदि का वर्णन होवा था । ५ वर्णन । विवरण (को०) । ६ प्राचीन पुस्तकों के आदि और अंत की कुछ पक्तियाँ जिनसे पुस्तक के कर्ता, विषय, कालादि का परिचय मिलता हो ।

प्रशस्य—वि० [सं०] १ प्रशंसा के योग्य । प्रशसनीय । २ श्रेष्ठ । उत्तम ।

प्रशात^१—वि० [सं० प्रशान्त] १ चञ्चलतारहित । स्थिर । २ शांत । निश्चल वृत्तिवाला । ३ मृत । मरा हुआ (को०) । ४ वशीकृत वश में लाया हुआ । सघाया हुआ (को०) ।

यौ०—प्रशातकाम = जिसकी कामनाएँ पूरी हो गई हों । सतुष्ट । प्रशातचित्त = जिसका चित्त शांत हो । शातचित्त । प्रशातचेष्ट = जिसने प्रयत्न करना छोड़ दिया हो । जिसकी चेष्टा शांत हो गई हो । प्रशातथाव = जिसकी सब बाधाएँ दूर हो गई हो ।

प्रशात^२—सञ्ज्ञा पुं० एक महासागर जो एशिया के पूर्व एशिया और अमरीका के बीच में है । (प्राधुनिक भूगोल) ।

प्रशातात्मा—वि० [सं० प्रशान्तात्मन्] जिसका चित्त शांत हो । प्रशातचित्त (को०) ।

प्रशातोर्ज—वि० [सं० प्रशान्तोर्ज] जिसकी शक्ति शांत या क्षीण हो गई हो (को०) ।

प्रशाति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रशान्ति] १ शांति । २ स्थिरता । ३ शमन (को०) ।

प्रशाख—वि० [सं०] १ जिसकी कई शाखाएँ हो । जिसकी फैली हुई शाखाएँ हों । २ (वह भ्रूण) जिसके निर्माण का पाँचवाँ महीना हो । तबतक भ्रूण में हाथ और पैर बन जाते हैं (को०) ।

प्रशाखा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] शाखा की शाखा । टहनी । पतली शाखा ।

प्रशाखिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] छोटी टहनी ।

प्रशासक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ शासन करनेवाला । शास्ता । उ०—
ऐसे वयोवृद्ध विद्वान् अनथक कार्यकर्ता और अनुभवी प्रशासक के आदरार्थ जो प्रयास मध्यप्रदेश माहिल्य संमेलन द्वारा किया जा रहा है, उसका मैं स्वागत करता हूँ ।—शुक्ल अभि० ग्रं० (सदेश), पृ० १ । २. आचार्य । उपदेष्टा ।

प्रशासकीय—वि० [सं०] प्रशासन से संबंधित । प्रशासन का ।

प्रशासन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ कर्तव्य की दिक्षा जो शिष्य आदि को दी जाय । २ शासन ।

प्रशासित—वि० [सं०] १ जिसका अज्ञान शामन किया गया हो । २ शिक्षित । ३ प्राप्त । आदिष्ट (को०) ।

प्रशासिता—सञ्ज्ञा पुं० वि० [सं० प्रशामित] १ शासनकर्ता । शासक । २ सलाह देनेवाला । परामर्शदाता (को०) ।

प्रशास्ता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रशास्त्र] १ होता का महकरी एक ऋत्विक् जिसे मित्रावरुण भी कहते हैं । २. ऋत्विक् । ३ मित्र । ४ शासनकर्ता । राजा । शासक ।

प्रशास्त्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ एक याग का नाम । २. प्रशास्ता का कर्म । ३ प्रशास्ता के सोमपान करने का पात्र ।

प्रशिक्षण—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्र (उप०) + शिक्षण] किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिये दी जानेवाली शिक्षा । शिक्षण । शिक्षा ।

प्रशिक्षित—वि० [सं०] १ अत्यंत डोला । २ अत्यंत दुर्बल या पतला । अत्यंत सूक्ष्म या कृश (को०) ।

प्रशिक्षिष्ट—वि० [सं०] २० 'प्रशिक्षित' (को०) ।

प्रशिक्षिष्टि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ अनुशासन । शिक्षा । उपदेश । २. आदेश । आज्ञा ।

प्रशिक्ष्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. शिष्य का शिष्य । २ परंपरागत शिष्य ।

प्रशिक्षु—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] आज्ञा । अनुशासन ।

प्रशीत—वि० [सं०] शीत से जमा हुआ (को०) ।

प्रशुद्धि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पवित्रता । शुद्धता । स्वच्छता (को०) ।

प्रशुश्रुक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वाल्मीकीय रामायण के अनुसार मरु देश के एक राजा का नाम ।

प्रशून—वि० [सं०] सूजा हुआ (को०) ।

प्रशोचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वैद्यक की एक क्रिया का नाम जिसमें रोगी के ब्रण आदि को जला देते हैं । दागना ।

प्रशोप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सूखना । शुष्कता । खुश्की (को०) ।

प्रशोषण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सोखना । सुखाना । २ एक राक्षस जो बच्चों में सुखही रोग फैलाता है ।

प्रश्चोतन, प्रश्च्योतन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] च्चना । टपकना । रिसना । मदस्त्राव (को०) ।

प्रश्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ किसी के प्रति ऐसे वाक्य का कथन जिससे कोई बात जानने की इच्छा सूचित हो । पूछनाछ । जिज्ञासा । सवाल । जैसे,—पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए तब कुछ कहिए ।

क्रि० प्र०—करना ।—होना ।

२ वह वाक्य जिससे कोई बात जानने की इच्छा प्रकट हो ।
सवाल । पूछने की बात । ३ विचारणीय विषय । ४. एक
उपनिषद् ।

विशेष—यह अथर्ववेदीय उपनिषद् मानी जाती है । इसमें ६
प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के सात से सोलह तक मंत्र हैं ।
सब मिलाकर ६७ मंत्र हैं । इसमें प्रजापति से सृष्टि की उत्पत्ति
का विषय अलंकारों द्वारा बताया गया है और अद्वैत मत
निरूपित हुआ है । प्रथम प्रश्न कात्यायन जी करते हैं कि यह
प्रजा कहाँ से उत्पन्न हुई । इसका उत्तर विस्तार से दिया
गया है । दूसरा प्रश्न भार्गव वैदिक का है कि कौन देवता प्रजा
का पालन करते हैं और कौन अपना बल दिखाते हैं । इसके
उत्तर में प्राण नाम का देवता बड़ा बताया गया है क्योंकि
उसके बल से सब इन्द्रियाँ अपना अपना कार्य करती हैं ।
तीसरा प्रश्न षड्वलायन जी करते हैं कि प्राण किन प्रकार
बड़ा है और किस प्रकार उसका सर्वत्र वाह्य और अंतरात्मा
से है । चौथा प्रश्न सीटार्थणी गार्ग्य ने किया है कि
पुरुषों में कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता
है, कौन सुख भोगता है । उत्तर में पुरुष की तीनों अवस्थाएँ
दिखाकर आत्मा सिद्ध की गई है । पाँचवाँ प्रश्न शैब
सत्यकामा ने श्रीकार के अर्थ और उपासना के सबध में किया
है । छठा प्रश्न सुकेशा भरद्वाज का है कि सोलह कलाओंवाला
पुरुष कौन है ।

५ भविष्य की जिज्ञासा । ६. किसी प्रथादि का कोई छोटा अर्थ
(को०) । ७. दे० 'वैदल' ।

प्रश्नकथा—सज्ञा स्त्री० [सं०] ऐसी कहानी जिसमें प्रश्न हो [को०] ।

प्रश्नदूती—सज्ञा स्त्री० [सं०] पहली । बुझौवल ।

प्रश्नपत्र—सज्ञा पुं० [सं० प्रश्न + पत्र] वह पत्र जिसपर परीक्षाधिकारियों
से पूछे जानेवाले प्रश्न अंकित रहते हैं । पर्चा ।

प्रश्नवादी—सज्ञा पुं० [सं० प्रश्नवादिन्] ज्योतिषी [को०] ।

प्रश्नविवाक—सज्ञा पुं० [सं०] १. शुक्ल यजुर्वेदसंहिता के अनुसार
प्राचीन काल के विद्वानों का एक भेद जो भावी घटनाओं के
विषय में प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे । २. पच । सरपच ।

प्रश्नव्याकरण—सज्ञा पुं० [सं०] जैनियों के एक शास्त्र का नाम ।

प्रश्नातीत—वि० [सं० प्रश्न + अतीत] जिससे प्रश्न न किया जा
सके । जिसके पास प्रश्न न पहुँच सके ।—उ०—भाज तुम
नरराज प्रश्नातीत ।—साकेत, पृ० १६६ ।

प्रश्नि—सज्ञा पुं० [सं०] १ जलकुम्भी । २ महाभारत के अनुसार
एक ऋषि ।

प्रश्नी—वि० [सं० प्रश्निन्] प्रश्न पूछनेवाला । जिज्ञासु [को०] ।

प्रश्नोत्तर—सज्ञा पुं० [सं०] १ सवाल जवाब । प्रश्न और उत्तर ।
सवाद । २ पूछताछ । ३ वह काव्यालंकार जिसमें प्रश्न और
उत्तर रहते हैं ।

प्रश्नोपनिषद्—सज्ञा स्त्री० [सं०] एक उपनिषद् । विशेष १०
'प्रश्न'-४ ।

प्रश्नविधि—सज्ञा स्त्री० [सं०] विप्रवास । भरोमा [को०] ।

प्रश्नय^१—सज्ञा पुं० [सं०] शिथिलता । ढिलाई । ढीलापन [को०] ।

प्रश्नय^२—सज्ञा पुं० [सं०] १. आश्रयस्थान । २ टेक । सहारा ।
आधार । ३ विनय । नम्रता । शिष्टता । ४ स्नेह । प्रणय ।
धनुराग (को०) । ५ महाभारत में वर्णित घर्म से उत्पन्न एक
देवता ।

प्रश्नयणा—सज्ञा पुं० [सं०] सौजन्य । शिष्टाचरण । विनय । नम्रता ।
दे० 'प्रश्नय' ।

प्रश्नयो—वि० [सं० प्रश्नयिन्] १ शिष्ट । सुजन । भलामानुस । २
शात । नम्र । विनीत ।

प्रश्नचरण—सज्ञा पुं० [सं०] रामायण के अनुसार एक पर्वत ।

प्रश्नित—वि० [सं०] विनीत ।

प्रश्नतथ—वि० [सं०] १ ढीलाढाला । शिथिल । २ शक्तिहीन ।
क्लात [को०] ।

प्रश्निल्लष्ट—वि० [सं०] १ मिलाजुला । २ सधिप्राप्त । ३. विचारयुक्त ।
युक्तियुक्त । सयुक्तिक (को०) ।

प्रश्नलेष—सज्ञा पुं० [सं०] घनिष्ठ 'सवध' । २. सवि होने में स्वरो
का परस्पर मिल जाना ।

प्रश्नवास—सज्ञा पुं० [सं०] १ वह वायु जो नथने से बाहर निकलती
है । बाहर आती हुई साँस । २ वायु के नथने से बाहर
निकलने की क्रिया ।

प्रष्टव्य—वि० [सं०] १ पूछने योग्य । २ पूछने का । जिसे पूछना
हो । जैसे, प्रष्टव्य बात ।

प्रष्टा—वि० [सं० प्रष्टृ] पूछनेवाला । प्रश्नकर्ता ।

प्रष्टि^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ वह घोड़ा या बैल जो तीन घोड़ों के रथ
या तीन बैलों की गाड़ी में आगे जोता जाता है । २ दाहिनी
ओर का घोड़ा या बैल । ३ तिपाईं ।

प्रष्टि^२—वि० पास खड़ा हुआ । पास का । पार्श्वस्थ ।

प्रष्टि^३—वि० [सं०] १ अग्रगामी । अगुवा । २ आगे की ओर
स्थित (को०) । ३ प्रधान । प्रमुख । श्रेष्ठ (को०) ।

थौं—प्रष्टवाह = कृषि कर्म में शिक्षित युवा बैल ।

प्रष्ट^४—अव्य० [सं० पृष्ठ] पीछे । उ०—श्री गुरु मेरे इष्ट प्रष्ट
ओरै पहिचानूँ ।—नट०, पृ० १० ।

प्रष्टौही—सज्ञा स्त्री० [सं०] वह गाय जो पहलेवहल गामिन
हुई हो ।

प्रसख्या—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रसख्यया] १ सब संन्यासों का योग ।
जोड । कुल । मीजान । टोटल । २. चिंता । मनन ।

प्रसख्यान—सज्ञा पुं० [सं० प्रसख्यान] १ सम्प्रक्ष्यान । सत्य
ज्ञान । २ आत्मानुभावान । ध्यान । ३ गणना (को०) । ४
प्रसिद्धि । ख्याति (को०) । ५ प्राप्ति । उपलब्धि । अदा-
यगी (को०) ।

प्रसग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसङ्ग] १ मेल । संबन्ध । लगाव । संगति ।
२ बातों का परस्पर संबन्ध । विषय का लगाव । अर्थ की संगति । जैसे,—शब्दार्थ पूरा न जानकर भी वे प्रसग से अर्थ लगा लेते हैं । ३ व्याप्तिरूप संबन्ध । ४ स्त्रीपुरुष-सायोग । जैसे, स्त्रीप्रसग ।

क्रि० प्र०—करना ।—होना ।

५. अनुरक्ति । लगन । ६ वात । वार्ता । विषय । उ०—(क) भवष सरिस प्रिय मोहि न सोऊ । यह प्रसग जानइ कोउ कोऊ ।—तुलसी (शब्द०) । (ख) जस मानस जेहि विधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु । अब सोइ कहीं प्रसग सब सुमिरि उमा वृषकेतु ।—तुलसी (शब्द०) । ७. उपयुक्त सायोग । भवसर । मोका । उ०—तब तैं सुधि कछु नाही पाई । विनु प्रसंग तहें गयो न जाई ।—सूर (शब्द०) ८ हेतु । कारण । उ०—करिहिहि विप्र होम मख सेवा । तेहि प्रसग सहजहि वस देवा ।—तुलसी (शब्द०) । ९ विषयानुक्रम । प्रस्ताव । प्रकरण । १० विस्तार । फैलाव । उ०—कर सर धनु, कटि रुचिर निपग । प्रिया प्रीति प्रेरित वन दीपिन विचरत कपट कनकपृग सग । भुज विशाल, कमनीय कष उर श्रमसीकर सोहै सांवरे भ्रग । मनु मुकुतामणि मरकत गिरि पर लसत ललित रवि किरन प्रसग ।—तुलसी (शब्द०) । ११ अनुचित संबन्ध (को०) । १२ साराण (को०) । १३ प्राप्ति । उपलब्धि (को०) ।

प्रसगयान—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसङ्गयान] कामदकीय नीति के अनुसार किसी स्थान पर चढ़ाई करने की बात प्रसिद्ध कर किसी दूसरे स्थान पर चढ़ाई कर देना ।

प्रसगप्राप्त—वि० [सं० प्रसङ्ग+प्राप्त] वह जिसकी चर्चा आ गई हो । वह जिसका जिक्र हो रहा हो । प्रासंगिक । उ०—प्रसंगप्राप्त साधारण सभी वस्तुओं का वर्णन कवि का कर्तव्य है ।—रस०, पृ० १०३ ।

प्रसगविध्वंस—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसङ्गविध्वंस] मानमोचन के छद्म उपायों में से एक । झूठा भय दिखाकर मानिनी के चित्त में भ्रम उपजाकर उसका मान छुड़ाना । प्रसगविभ्रंश ।

प्रसंगविभ्रंश—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसङ्गविभ्रंश] मानमोचन के छद्म उपायों में अतिम । प्रसगविध्वंस ।

प्रसगसम—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसङ्गसम] न्याय में जाति के अंतर्गत एक प्रकार का प्रतिषेध जो प्रतिवादी की ओर से होता है । इसमें प्रतिवादी कहता है कि साधन का भी साधन कहो और इस प्रकार वादी को उलझन में डालना चाहता है । जैसे, वादी ने कहा—

प्रतिज्ञा—शब्द अनित्य है ।

हेतु—क्योंकि वह उत्पन्न होता है ।

उदाहरण—जैसे घट ।

इसपर प्रतिवादी कहता है कि यदि घट के उदाहरण से शब्द अनित्य ठहराते हो तो यह भी साधित करो कि घट अनित्य है । फिर जब वादी घट की अनित्यता का हेतु देता है तब प्रतिवादी कहता है कि उस हेतु का भी हेतु दो । इस प्रकार का प्रतिषेध 'प्रसगसम' कहलाता है ।

प्रसगासन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसङ्गासन] कामदकीय नीति के अनुसार किसी दूसरे पर चढ़ाई करने के गुप्त उद्देश्य से प्राप्त शत्रु के साथ संधि करके शृंषाप धठना ।

प्रसंगी—वि० [सं० प्रसङ्गिन] १ प्रसगयुक्त । २ अनुरक्त । ३ आकस्मिक (को०) । ४ गोण । अमुख्य (को०) । ६. सहवास करनेवाला (को०) ।

प्रसघ^१—वि० [सं० प्रसङ्ग] श्रेणीबद्ध ।

प्रसघ^२—सञ्ज्ञा पुं० १ भारी भीट । वृद्ध बटा समूह (को०) ।

प्रसंजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसञ्जन] १. युक्त करना । लगाना । मिलाना । २ काम में लाना । उपयोग में लाना (को०) ।

प्रसघ^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्र+सन्धि] शरीर के सघिस्यल । शरीर के अवयवों का जोड़ । उ०—दत्त जुगल सुदर चमर करि है शोभा रुचिर प्रमथ है ।—रा० रू०, पृ० ३६८ ।

प्रसधान—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसन्धान] सधि । योग ।

प्रसन—वि० [सं० प्रसन्न] २० 'प्रसन्न' । उ०—छमेहु सकल धपराध धव होइ प्रसन वर देहु ।—मानस १।१०१ ।

प्रसस^३—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रशसा] २० 'प्रशसा' । उ०—अरु जदु धर्मसील को वस । सो पुनि तुम करि भले प्रसस ।—नंद० प्र०, पृ० २१८ ।

प्रसंसक^३—वि० [सं० प्रशंसक] प्रशंसा करनेवाला । स्तुति करनेवाला । उ०—वस प्रसंसक विरिद चुनावहि ।—मानस, १।३१६ ।

प्रससना^३—क्रि० सं० [सं० प्रशसन] प्रशंसा करना । बटाई करना । २० 'प्रशसना' । उ०—वह विधि उमहिं प्रससि पुनि बोले कृपानिधान ।—मानस, १।१२० ।

प्रससा^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रशसा] २० 'प्रशसा' । उ०—दुख सुख सरिस प्रससा गारी ।—मानस, २।१३० ।

प्रस^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० स्पर्श, हिं परस] २० 'स्पर्श' । उ०—बूच विहाणे ऊगरो, सोष घरो शृद्ध कोट । उरे समदां देस प्रस, जया गिरदां भोट ।—रा० रू०, पृ० १५६ ।

प्रसक्त—वि० [सं०] १ सश्लिष्ट । लगा हुआ । २ जो बराबर लगा रहे । न छोड़नेवाला । सदा का । ३ सबद्ध । भासक्त । ४ प्रस्तावित । ५ स्थायी । नित्य (को०) । ६ प्राप्त । मिला हुआ (को०) । ७ खुला हुआ । व्यक्त । स्फुटित (को०) । ८ दे० 'प्रयुक्त' (को०) ।

प्रसक्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. प्रसग । सपकं । २ अनुमिति । ३ आपत्ति । ४ व्याप्ति । ५ प्राप्ति । उपलब्धि (को०) ६. अव्यवसाय । प्रवत्त । चेष्टा (को०) ।

प्रसज्य—वि० [सं०] १ जो सबद्ध किया जाय । २ समव । समुक्तिन । ३ जिसे प्रयोग में लाया जाय । जो प्रयुक्त किया जाय (को०) ।

प्रसज्यप्रतिषेध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का निषेध जिसमें विधि की अप्रधानता और निषेध की प्रधानता होती है । जैसे,

अतिरात्र यज्ञ में षोडशी नामक सोमरसपूर्ण पात्र को ग्रहण न करे ।

प्रसतान^(५)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रस्थान] दे० 'प्रस्थान' । उ०—
तम मन जाणियो प्रसतान मृत दसशिर तयो ।—रघु० ४०,
पृ० १२६ ।

प्रसताव^(५)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रस्ताव] दे० 'प्रस्ताव' । उ०—प्रसताव
भाव तिन कहि उचार । जोगिनिय बोल आदीतवार । पहराइ
वेस बदलाय भेस । इम कियो राजद्वारहु प्रवेस ।—पृ० रा०,
१।३७३ ।

प्रसति^(५)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रसृति] प्रसृति । प्रसार । फैलाव ।
उ०—प्रति कूच कूचनि प्रसति, चाहुआन न करै विषम ।—
पृ० रा०, १६।१५६ ।

प्रसत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. प्रसन्नता । २. निर्मलता । शुद्धि ।

प्रसत्त्वरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रतिपत्ति । प्राप्ति ।

प्रसत्वा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसत्त्वन्] १. धर्म । २. प्रजापति ।

प्रसद्^(५)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसि + शब्द, प्रशब्द] प्रतिष्वनि । जोर
की आवाज । उ०—सुनिव सूर नर हृक्क धक्क बज्जी
चावदिदसि । नरन सद्द कानन प्रसद्द (सिंह) किन्नो सु
क्रोध प्रसि ।—पृ० रा०, १७।६ ।

प्रसन्न^(५)—वि० [सं० प्रसन्न] दे० 'प्रसन्न' । उ०—(क) प्रसन्न भयो
किषी सुदर स्यामा, सदा बसौ वृंदावन घामा ।—नद०
प्र०, पृ० १६२ । (ख) सब कारज सिधि लहै, प्रसन्न जासौं
जग वदन ।—पोद्दार अभि० प्र०, पृ० ४२७ ।

प्रसन्न^१—वि० [सं०] १. सतुष्ट । तुष्ट । २. खुश । हर्षित । प्रफुल्ल
३. अनुकूल । उचित । ४. निर्मल । स्वच्छ । ५. शांत (को०) ।
६. कृपालु (को०) ।

यौ०—प्रसन्नकल्प । प्रसन्नजल = प्रसन्नसलिल । प्रसन्नमुख =
प्रसन्नवदन । प्रसन्नवदन । प्रसन्नसलिल ।

प्रसन्न^२—सञ्ज्ञा पुं० महादेव ।

प्रसन्न^३—वि० [फा० पसंद] मनोनीत । पसंद । उ०—(क)
उनके इस कर्म को विद्वान लोग प्रसन्न नहीं करते ।—दयानंद
(शब्द०) । (ख) मैं इस बात को मानता हूँ पर यह पूछता
हूँ कि क्या कोई जो अंगरेजी जानता हो इस बात को प्रसन्न
करेगा कि केवल एक लिपि प्रचलित होवे ? कभी नहीं ।—
सरस्वती (शब्द०) ।

प्रसन्नकल्प—वि० [सं०] १. प्रसन्न के तुल्य या समान । शांत तुल्य
२. सध्याय [को०] ।

प्रसन्नता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. तुष्टि । सतोष । २. प्रफुल्लता ।
हर्ष । आनंद । ३. अनुग्रह । कृपा । प्रसाद । ४. स्वच्छता ।
निर्मलता । शुद्धि । ५. सुस्पष्टता । व्यक्तता (को०) ।

प्रसन्नवदन—वि० [सं०] जिसका मुख प्रसन्न हो । जिसके चेहरे
से प्रसन्नता टपकती हो । उ०—हे सखा, विभीषण बोले
भाज प्रसन्नवदन ।—अपरा, पृ० ४४ ।

प्रसन्नसलिल—वि० [सं०] जिसका जल निर्मल या स्वच्छ हो [को०] ।
प्रसन्नाध—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसन्नाध] घोड़े का एक रोग जिसमें
उसकी आँख देखने में तो ज्यों की त्यों रहती है पर उसे
दिखाई नहीं पड़ता । यह प्रसाध्य रोग है और अच्छा नहीं
होता ।

प्रसन्ना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. वह मद्य जो खींचने में पहले उतरता
है । वैद्यक में इसे गुल्म वात, अर्ण, शूल और कफनाशक
माना है । २. प्रसन्न करना (को०) ।

प्रसन्नात्मा^१—वि० [सं० प्रसन्नात्मन्] जो सदा प्रसन्न रहे ।
प्रसन्नात करण । आनंदी ।

प्रसन्नात्मा^२—सञ्ज्ञा पुं० विष्णु ।

प्रसन्नित^(५)—वि० [सं० प्रसन्न + हि० इत (प्रत्य०)] आनंदित ।
हर्षित । खुश । उ०—निशि दिन करेहु नयन लखि काजा ।
जाते रहै प्रसन्नित राजा ।—जायसी (शब्द०) ।

प्रसन्नैरा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार की मदिरा ।

प्रसभ^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जबर्दस्ती । बलात्कार [को०] ।

प्रसभ^२—क्रि० वि० १. बलपूर्वक । हठात् । २. अत्यधिक । ३. साग्रह ।
पुन पुनः । सनिर्वध [को०] ।

प्रसभदमन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बलपूर्वक दमन करना । बलात् वशवर्ती
कर लेना [को०] ।

प्रसभहरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जबर्दस्ती छीन लेना या हर
लेना [को०] ।

प्रसयन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. बाँधने की रज्जु । २. जाल । फद [को०] ।

प्रसर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. आगे बढ़ना । बढ़ना । विस्तार । २.
फैलना । फैलाव । प्रसार । ३. दृष्टि का फैलाव । आँख की
पहुँच । ४. वेग । तेजो । ५. समूह । राशि । ६. वैद्यक शास्त्रा-
नुसार वात पित्तादि प्रकृतियों का संचार या घटाव बढ़ाव ।
७. व्याप्ति । ८. प्रकर्ष । प्रधानता । प्रभाव । ९. युद्ध । १०.
नाराच नामक अस्त्र । ११. प्रलय । विनाश (को०) । १२.
वीरता । साहस । १३. बाढ । बढिया । १४. एक प्रकार का
पौधा जो भूमि के ऊपर फैलता है । १५. अवकाश । अवसर
(को०) । १६. एक प्रकार का नृत्य (को०) ।

प्रसरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रसरणीय, प्रसरित] १. आगे
बढ़ना । २. खिसकना । सरकना । ३. फैलना । फैलने की
क्रिया या भाव । फैलाव । ४. व्याप्ति । ५. विस्तार । ६.
उत्पत्ति । ७. अपने काम में प्रवृत्त होना । ८. स्वभाव की
मधुरता (को०) । ९. सेना का लूटपाट के लिये इधर उधर
फैलना ।

प्रसरणशील—वि० [सं० प्रसरण + शील] [वि० स्त्री० प्रसरण-
शीला] जो फैल सके । फैलनेवाला । उ०—जिसकी प्रसरण-
शीला प्रतिभा विभूति से विवर्तमान ।—स पूर्णानंद अभि०
प्र०, पृ० ११२ ।

प्रसरणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ प्रसरण । फैलाव । पसार । २ शत्रु को चारो ओर से घेरना [को०] ।

प्रसरा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रसारणी लता । गधाली । परसन ।

प्रसरित—वि० [सं०] १ फैला हुआ । पसरा हुआ । २ विस्तृत । ३ आगे को बढ़ा हुआ । स्थान से आगे को खसका हुआ ।

प्रसर्ग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. निक्षेपण । किसी चीज को ऊपर से छोड़ना । गिराना । २ वर्षण । बरसाना ।

प्रसर्जन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ निक्षेप । गिराना । डालना । २ वर्षण । बरसाना ।

प्रसर्प—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ गमन । २ यज्ञार्थ 'सदस' में जाना (को०) । ३ एक प्रकार का सामगान ।

प्रसर्पक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सहकारी ऋत्विज् । २ वह दर्शक जो यज्ञ में बिना बुलाए प्राया हो ।

प्रसर्पण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रसरण । गमन । जाना । २ खिसकना । ३ घुसना । पेटना । ४. सेना का चारो ओर फैलना । ५ शरण का स्थान । रक्षास्थान । ६ गति । चलने का भाव या कार्य । ७ यज्ञार्थ 'सदस' में जाना । (को०) ।

प्रसर्पणी—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रसरणी'—२ [को०] ।

प्रसर्पी—वि० [सं० प्रसर्पिन्] १ रेंगनेवाला । २ गतिशील । ३ यज्ञ की सभा में जानेवाला ।

प्रसल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हेमंत ऋतु ।

प्रसवती—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रसवन्ती] वह स्त्री जिसे प्रसववेदना हो । प्रसवपीडाग्रस्त स्त्री [को०] ।

प्रसव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ बच्चा जनने की क्रिया । जनन । प्रसूति । २ जन्म । उत्पत्ति । ३ अपत्य । बच्चा । सतान । ४. फल । ५ फूल । ६ वृद्धि । बढ़ती । ७. निकास । ८ आदेश । आज्ञा (को०) ।

यौ०—प्रसवकाल । प्रसवगृह = प्रसूतिगृह । सीरी । प्रसवधर्मी^१ । प्रसवपीडा = प्रसव की व्यथा । प्रसववाधन । प्रसववेदना । प्रसवव्यथा = प्रसव के समय स्त्री को होनेवाली पीर वा पीडा । प्रसवस्थली । प्रसवस्थान ।

प्रसवक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पियार का वृक्ष । चिरींजी का पेड़ ।

प्रसवकाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] उत्पत्ति का समय । जनन का अवसर ।

प्रसवधर्मी—वि० [सं० प्रसवधर्मिन्] १. प्रसव करनेवाला । पैदा करनेवाला । २. उपजाऊ । फलप्रद [को०] ।

प्रसवन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रसवनीय] बच्चा जनना । बच्चा पैदा करना ।

प्रसवना^१—क्रि० अ० [सं० प्रसवन] पैदा होना । उत्पन्न होना ।

प्रसवना^२—क्रि० सं० उत्पन्न करना । पैदा करना ।

प्रसवबधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसवबन्धन] वह पतला सींका जिसके सिरे पर पत्ता या फूल लगता है । नाल ।

प्रसवस्थली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] माँ [को०] ।

प्रसवस्थान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. वह स्थान जहाँ प्रसव कराया जाता है । प्रसूतिगृह । २ घोसला । नीड [को०] ।

प्रसविता^१—वि० [सं० प्रसवितृ] [वि० स्त्री० पसवित्री] जन्म देनेवाला उत्पादक । उत्पन्न करनेवाला ।

प्रसपिता^१—सञ्ज्ञा पुं० पिता । जनक । बाप ।

प्रसवित्री—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] माता [को०] ।

प्रसविनी—वि० स्त्री० [सं०] उत्पन्न करनेवाली । जननेवाली । उ०—वीर कन्यका, वीर प्रसविनी, वीरवधू जग जानी । हरिश्चंद्र (षष्ठं) ।

प्रसवी—वि० [सं० प्रसविन्] [वि० स्त्री० प्रसविनी] १. प्रसवशील । २ उत्पादक । प्रभव करनेवाला । जन्म देनेवाला । उत्पन्न करनेवाला ।

प्रसव्य^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वाई ओर गे परिक्रमा करना । प्रदक्षिण का उलटा ।

प्रसव्य^२—वि० १. प्रतिकूल । २. वामवर्ती । वार्या । याम भाग में स्थित (को०) । ३. प्रसवनीय । ४ अनुकूल (को०) ।

प्रसह—सञ्ज्ञा [सं०] दे० 'प्रसाह्' [को०] ।

प्रसह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पक्षियों का एक भेद । वे पक्षी जो ऋपाटा मारकर अपना भक्ष्य या शिकार पकड़ते हैं । शिकारी विडिया । जैसे, कौभा, गीघ, वाज, उल्लू, चील, नीलकंठ इत्यादि ।

विशेष—वैद्यक में इन पक्षियों का मास उष्णवीर्यं बताया गया है और कहा गया है कि जो इसका मास खाते हैं उन्हे शोष, भस्मक और शुक्रक्षय रोग हो जाता है ।

२ अमलतास का पेड़ । ३ विरोध । प्रतिरोध [को०] ।

प्रसहन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ हिंसक पशु । २ आलिंगन । ३ सहन । क्षमा । सहनशीलता । ४ परामभव करना । पराभूत करना (को०) । ५ प्रतिरोध । अवरोध (को०) ।

प्रसहन^२—वि० सहनशील ।

प्रसहा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कटाई । वृहती ।

प्रसह्य—क्रि० वि० [सं०] हठात् । बलपूर्वक [को०] ।

प्रसह्यधौर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जवरदम्ती माल छीननेवाला ।

प्रसह्यहरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जवरदस्ती हर ले जाना । जैसे चन्द्रिय कन्याओं का हरण करते थे ।

प्रसात्तिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] अणुग्रीहि । सावै ।

प्रसाद^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रसन्नता । २ अनुग्रह । कृपा । मिहर्-वानी । ३. निर्मलता । स्वच्छता । सफाई । ४ स्वास्थ्य । ५ वह वस्तु जो देवता को चढ़ाई जाय । ६ वह पदार्थ जिसे देवता या बड़े लोग प्रसन्न होकर अपने भक्तों या सेवकों को दें । देवता या बड़े की देन । जैसे,—यह सब प्राप ही का प्रसाद है । उ०—यह मैं तोही मैं लखी भक्ति अपूरब बाल । लहि प्रसाद माला जु भी तन कदव की माल ।—बिहारी (षष्ठं) । ७ देवता, गुरुजन आदि को देने पर बची हुई वस्तु जो काम में लाई जाय । ८ भोजन । (भक्त और साधु) ।

मुहा०—प्रसाद पाना = खाना । भोजन करना । उ०—तृण शय्या श्री शल्प रसोई पाधो स्वल्प प्रसाद । पैर पसार चलो निद्रा लो मेरा आशीर्वाद—श्रीधर (शब्द०) ।

६. काव्य का एक गुण । जिसकी भाषा स्वच्छ और साधु हो, जिसमें समस्त पद कम हो, और जटिल ग्रामीण शब्दन आए हो और सुनने के साथ ही जिसका भाव श्रोता की समझ में आ जाय । १० शब्दालंकार के अंतर्गत एक वृत्ति । कोमला वृत्ति । ११ धर्म की पत्नी मूर्ति से उत्पन्न एक पुत्र ।

यौ०—प्रसादपट्ट = सम्मानार्थ राजा द्वारा प्रदत्त शिरोवस्त्र । प्रसादपट्टक = राजा की कृपा को द्योतित करनेवाला शासन-पत्र । प्रसादपराङ्मुख । प्रसादपात्र = अनुग्रह का पात्र । कृपापात्र । प्रसादस्थ ।

प्रसाद^(७)—सञ्ज्ञा पुं० [हि० प्रासाद] दे० 'प्रासाद' । उ०—ग्रह प्रसाद (तोरन) उक्तग ध्वज जत्रह सकटावै ।—पृ० २०, ७।१७१ ।

प्रसादक^१—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रसादिका] १. अनुग्रह-कारक । २. निर्मल । ३. प्रसन्न करनेवाला । ४. प्रीतिकर ।

प्रसादक^२—सञ्ज्ञा पुं० १. प्रसाद । २. देवधन । ३. बधुए का साग । ४. कौटिल्य के अनुसार देश या धन आदि का अधार्मिक के हाथ से निकलकर किसी धार्मिक के पास जाना । धार्मिक पुरुष का लाभ जिससे जनता को प्रसन्नता होती है ।

प्रसादन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्रसन्न करना । २. निर्मल करना । स्वच्छ करना (को०) । ३. राजकीय शिविर । राजा का खेमा (को०) । ४. अन्न ।

प्रसादन^२—वि० प्रसन्न करनेवाला । प्रसन्नता देनेवाला । स्वच्छ, निर्मल या शुद्ध करनेवाला ।

प्रसादना^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. सेवा । परिचर्या । २. स्वच्छ, निर्मल या प्रसन्न करना (को०) ।

प्रसादना^(७)—क्रि० सं० [सं० प्रसादन] प्रसन्न करना । उ०—बहु भाँति वगारे जो या व्रज मे अति आनन ओप अमूप कला । द्विजदेव जू चद्रिका की छवि जाकी प्रसादि रही सिगरी अचला । निरख्यो जब तैं इन नैनचकोरन बीतत ज्यो जुग एक पला । चहुँघा, सखि, चाँदनी चौक में डोलत चद अमद सो नदलला ।—द्विजदेव (शब्द०) ।

प्रसादनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रसादनी' ।

प्रसादनीय^(७)—वि० [सं०] प्रसन्न करने योग्य ।

प्रसादपराङ्मुख—वि० [सं०] १. जो किसी की कृपा की परवाह न करे । २. जो किसी का पक्ष लेने से विमुख हो गया हो (को०) ।

प्रसादपात्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जो कृपा पाता हो । कृपापात्र ।

प्रसादस्थ—वि० [सं०] १. अनुकूल । कृपालु । दयालु । २. प्रसन्न । हृष्ट (को०) ।

प्रसादांत—वि० [सं० प्रसाद + अन्त, तुल्य भ० कामेडी] जिसका अंत हर्षकारी हो । हास्यप्रधान । प्रहसनात्मक । उ०—हमने

नाटक के तीन वर्ग किए हैं दुःखात, सुखात और प्रसादात ।—हि० ना०, पृ० २१ ।

प्रसादिनी—वि० [सं० प्रसाद + हि० इनि (प्रत्य०)] प्रसन्न करनेवाली । अनुग्रह करनेवाली । उ०—विचर रही निर्मम अवाव तुम विश्वविषादिनि, लोकप्रसादिनि ।—रजत०, पृ० ७६ ।

प्रसादी^१—वि० [सं० प्रसादिव्] १. प्रसन्न करनेवाला । २. प्रीति करनेवाला । प्रीतिकर । ३. शात । ४. अनुग्रह करनेवाला । कृपा करनेवाला । ५. निर्मल । स्वच्छ ।

प्रसादी^२—सञ्ज्ञा स्त्री० [हि० प्रसाद + ई] १. देवताओं को चढाया हुआ पदार्थ । २. नैवेद्य । ३. वह पदार्थ जो पूज्य और बड़े लोग छोटे को दें । बड़ों को देन । उ०—तब श्री गुसाईं जी अपने प्रसादी उपरेना उढ़ायो ।—दो सौ बावन०, भा० २, पृ० १११ । ४. देवता को बलि चढाए हुए पशु का मास ।

प्रसाधक^१—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रसाधिका] १. भूपक । अलंकृत करनेवाला । २. सपादक । निर्वाह करनेवाला । सपादन करनेवाला । ३. राजाओं को वस्त्र आभूषणादि पहनानेवाला ।

प्रसाधक^२—सञ्ज्ञा पुं० वह सेवक जो राजा या स्वामी को वस्त्र-आभूषणादि पहनाने के कार्य पर नियुक्त हो (को०) ।

प्रसाधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. वेष । २. अलंकार । शृंगार । ३. कधी । ४. सपादन । ५. महाबला लता ।

प्रसाधनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कधी । दत्तपत्रिका ।

प्रसाधिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. निवार धान । २. प्रसाधन करनेवाली स्त्री (को०) ।

प्रसाधित—वि० [सं०] १. सँवारा हुआ । सजाया हुआ । २. सुसंपादित । ३. सिद्ध । प्रमाणित (को०) ।

प्रसार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. विस्तार । फैलाव । पसार । २. संचार । ३. गमन । ४. निर्गम । निकास । ५. इधर उधर जाना । फिरना । ६. कौटिल्य अर्थशास्त्रानुसार युद्ध के समय वह सहायता जो जंगल आदि पडने से प्राप्त हो जाय । ७. खोलना । जैसे, मुख प्रसार (को०) । ८. फेंकना । उत्क्षेपण । जैसे, धूलि प्रसार (को०) । ९. क्रय विक्रय की दुकान । व्यापारी की दुकान । बनिए की दुकान (को०) ।

प्रसारक—वि० [सं०] फैलानेवाला । विस्तृत करनेवाला ।

प्रसारण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रसारित, प्रसार्य] १. फैलाना । पसारना । विस्तृत करना ।

विशेष—वैशेषिक में जो पाँच प्रकार के कर्म कहे गए हैं उनमें एक कर्म यह भी है ।

२. बढ़ाना । ३. शत्रु को चारों ओर से घेरना (को०) । ४. खोलना । प्रदर्शित करना (को०) । ५. सप्रसारण । व्याकरण में य् व् र् ल् का ह् उ ऋ एव लृ में बदलना (को०) ।

प्रसारणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. गधप्रसारिणी नाम की लता ।

२. दे० 'प्रसारिणी'—५ [को०] ।

प्रसारिणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. गधप्रसारिणी लता । २. सजालु ।

लाजवती । ३ (सगीत में) मध्यम स्वर की चार श्रुतियों में दूसरी श्रुति । ४ देवघाम्य । ५ शत्रु को चारों ओर से घेरना [को०] ।

प्रसारित—वि० [सं०] १ फैलाया हुआ । पसारा हुआ । २ बँचने के लिये प्रदर्शित या रखा हुआ (को०) ।

प्रसारी—वि० [सं० प्रसारिन्] [वि० स्त्री० प्रसारिणी] १ फैलानेवाला । २ फैलानेवाला (को०) ।

प्रसार्य, प्रसाद्य—वि० [सं०] फैलाने योग्य । प्रसारणीय ।

प्रसाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ शौर्य । शक्ति । २ इंद्र का एक नाम [को०] ।

प्रसाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ आत्मशासन । २ वश में करना [को०] ।

प्रसित^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पीव । मवाद ।

प्रसित^२—वि० १ बँधा हुआ । आवद्ध । २ लगा हुआ । आसक्त । ३ अतीव स्पष्ट । अत्यंत साफ [को०] ।

प्रसिति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ रस्सी । २ रश्मि । ३ ज्वाला । लपट । ४ जाल (को०) । ५ आक्रमण । हमला (को०) । ६ पहुँच । सीमा (को०) । ७ श्रेणी । क्रम । सिलसिला (को०) । ८ शक्ति । प्रभाव । ९ पथ । मार्ग (को०) । १० उत्क्षेपण । फेंकना [को०] ।

प्रसिद्ध—वि० [सं०] १ भूषित । अलंकृत । २ ख्यात । विख्यात । मशहूर ।

प्रसिद्धक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक विदेहवंशी राजा जो मऊ का पुत्र था ।

प्रसिद्धता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] ख्याति ।

प्रसिद्धि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ ख्याति । २ भूषा । बनाव सिंगार । ३ सफलता । सिद्धि (को०) ।

प्रसिध^१—वि० [सं० प्रसिद्ध] दे० 'प्रसिद्ध' । उ०—दिष्पेसु नयन पुहकरि प्रसिध कियो पाय हन ध्रुव करि ।—पृ० रा० १।५८२ ।

प्रसीदिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] छोटा उपवन । छोटी वाटिका [को०] ।

प्रसुत^१—वि० [सं०] दबाकर निचोड़ा हुआ ।

प्रसुत^२—सञ्ज्ञा पुं० एक संख्या का नाम ।

प्रसुप्त^१—वि० [सं०] १ सोया हुआ । निद्रित । २ खूब सोया हुआ । ३ अक्रिय । निष्क्रिय (को०) । ४. जिसमें सञ्ज्ञा न हो । सञ्ज्ञाहीन (को०) । ५. मुँदा हुआ । सपुटित (पुष्प आदि) ।

प्रसुप्त^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] योग में अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन चारों बलेशो का एक भेद या अवस्था जिसमें किसी बलेश की चित्त में सूक्ष्म रूप से अवस्थिति तो रहती है, पर उसमें कोई कार्य करने की शक्ति नहीं रहती ।

प्रसुप्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ गाढ़ी नींद । नींद । उ०—इस प्रसुप्ति से जगा रही जो बतग, प्रिया सी है वह कौन ?—अपरा, पृ० ११० । २ सञ्ज्ञाहीनता । सवेदनहीनता [को०] । ३ निष्क्रियता । निश्चेष्टता (को०) ।

प्रसू^१—वि० स्त्री० [सं०] जननेवाली । उत्पन्न करनेवाली । जैसे, वीर-प्रस = वीर (पुत्र) पैदा करनेवाली ।

प्रसू^२—सञ्ज्ञा स्त्री० १ माता । जननी । २ घोड़ी । ३ लता । वल्ली (को०) । ४ नरम घास । अकुर । ५ कृषा । ६. केना ।

प्रसूका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ अषषगधा । असगध । २ घोड़ी (को०) ।

प्रसूत^१—वि० [सं०] [स्त्री० प्रसूता] १ उत्पन्न । सजात । पैदा । २ प्रसव किया हुआ । पैदा किया हुआ (को०) । ३ उत्पादक ।

प्रसूत^२—सञ्ज्ञा पुं० १ कुसुम । फूल । २ चाक्षुष मन्वन्तर के एक देवगण का नाम । ३ एक रोग का नाम जो स्त्रियों को प्रसव के पीछे होता है । इसमें प्रसूता को ज्वर होता है और दस्त आते हैं ।

प्रसूत^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रस्वेद] एक रोग का नाम जिसमें रोगी के हाथ और पैर से पसीना छूटा करता है ।

प्रसूता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ वच्चा जननेवाली स्त्री । वह जिसने वच्चा जना हो । जच्चा । २ घोड़ी ।

प्रसूति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ प्रसव । जनन । २. उद्भव । उ०—तुलसी सूसो सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति ।—तुलसी ग्रं०, पृ० ६७ । ३. कारण । प्रकृति । ४ उत्पत्तिस्थान । ५ सातति । अपत्य । ६. जिस स्त्री ने प्रसव किया हो । प्रसूता । ७. दक्ष प्रजापति की स्त्री का नाम जिनसे सती का जन्म हुआ था ।

यौ०—प्रसूतिगृह । प्रसूतिज । प्रसूतिज्वर । प्रसूतिवायु ।

प्रसूतिका^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह स्त्री जिस को वच्चा हुआ हो । प्रसूता ।

प्रसूतिका^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दुःख ।

प्रसूतिगृह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह स्थान जहाँ वच्चे का जन्म हो । सौरी ।

प्रसूतिज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रसव से उत्पन्न होनेवाली पीढा । प्रसववेदना [को०] ।

प्रसूतिज्वर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह ज्वर जो प्रसव के बाद स्त्री को आने लगता है । दे० 'प्रसूत'^२—३ ।

प्रसूतिवायु—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह वायु जो प्रसववेदना के समय गर्भ में उत्पन्न होती है [को०] ।

प्रसून^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पुष्प । फूल । उ०—बाल गुलाब प्रसून कों भव न चलावे फेरि । परी लाल के गात में खरी खरोटे हेरि ।—स० सप्तक, पृ० २४० ।

यौ०—प्रसूनबाण, प्रसूनशर = कामदेव । प्रसूनरससंभवा = फूलों की शर्करा । चीनी जो पुष्प से बनाई गई हो । २ फल ।

प्रसून^२—वि० उत्पन्न । जात । पैदा ।

प्रसूनक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. फूल । मुकुल । २. कली । ३ एक प्रकार का फंदब (को०) ।

प्रसूनाजलि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रसूनाञ्जलि] दे० 'पुष्पाजलि' ।

प्रसूनेषु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कामदेव [को०] ।

प्रसूत^१—वि० [सं०] १ फैला हुआ । २ प्रवृद्ध । बढ़ा हुआ । ३. विनीत । ४. भेजा हुआ । गया हुआ । प्रेरित । ५ लगा हुआ ।

लीन । तत्पर । नियुक्त । ६. प्रचलित । ७. हृदयलोलुप । लंपट । ८. तीव्र । तेज (को०) । ९. पका हुआ । पक्व (को०) । १०. प्रदर्शित । व्यक्त किया हुआ (को०) । ११. उपयुक्त अर्थ जाननेवाला । सूक्ष्मायंगामी (को०) । १२. लवा [को०] ।

प्रस्तुत^३—सञ्ज्ञा पुं० १. गहरी की हुई हथेली । अर्धाजलि । २. हथेली भर का मान । पसर । दो पल का मान ।

प्रस्तुतज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] महाभारत के अनुसार एक प्रकार का पुत्र जो व्यभिचार से उत्पन्न हो । जैसे, कुड और गोलक ।

प्रस्तुता—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] र्धाष [को०] ।

प्रस्तुति—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] १. फैलाव । विस्तार । २. सतति । संतान । ३. अर्धाजलि । गहरी की हुई हथेली । ४. सोलह तोले के बराबर का एक मान । पसर । ५. आगे बढ़ना । अग्रगामिता (को०) ।

प्रस्तुत्वर—वि० [सं०] चारो ओर फैलनेवाला या फैला हुआ [को०] ।

प्रस्तुष्ट—वि० [सं०] १. उत्पन्न । २. त्यक्त । परित्यक्त । ३. निर्बंध । स्वच्छद । प्रतिबंधहीन (को०) ।

प्रस्तुष्टा—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] १. युद्ध का एक दौंव । २. अगुलियाँ जो फैलाई गई हो । फैलाई हुई उँगलियाँ (को०) ।

प्रसेक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. सेचन । सींचना । २. निचोड । निसोथ । ३. छिडकाव । ४. द्रव पदार्थ का वह अंश जो रस रसकर निचुडे या टपके । पसेव । ५. एक असाध्य रोग । पेशाव के साथ मनी आने का रोग । जिरियाने । (सुश्रुत) । चरक के अनुसार मुँह से पानी छूटना और नाक से श्लेष्मा गिरना । ७. वमन । कै (को०) । ८. स्रुवा या चमचा का अग्रभाग वा कटोरी (को०) ।

प्रसेकी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रसेकिन्] सुश्रुत के अनुसार एक रोग का व्रण जिसमे से पीप निकलता रहे [को०] ।

प्रसेद^(७)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रस्वेद] पसीना । उ०—(क) हरि हित मेरो कहैया । देहरी चढ़त परत गिरि गिरि करपल्लव जो गहत है री मैया । भक्ति हेतु यशुदा के भाए चरण धरणि पर धरैया । जिनहि चरण छलिवो बलि राजा नखप्रसेद गगा जो वहैया ।—सूर (शब्द०) । (ख) देखत तेरे खेत है तन प्रसेद सो बोर । या मे तेरी खोर कहू या कछु मेरी खोर ?—रसनिधि (शब्द०) ।

प्रसेदिका—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] छोटी वाटिका । प्रसीदिका [को०] ।

प्रसेन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रसेनजित' ।

प्रसेनजित—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भागवत् के अनुसार सत्यमामा के पिता सत्राजित् के एक भाई का नाम ।

विशेष—प्रसेनजित के पास एक मणि 'स्यमतक' नाम की थी (विशेष देखिए स्यमतक शब्द) । जिसे पहनकर वह एक दिन शिकार खेलने गया । वहाँ एक सिंह उसे मार मणि लेकर चला । मार्ग में जाववान् ने सिंह को मार मणि छीन ली । सत्राजित् ने प्रसेनजित् के न आने पर कृष्णचंद्र पर यह अपवाद लगाया कि उन्होंने प्रसेन को मणि के लोभ से मार

डाला । कृष्णचंद्र इस अपवाद को मिटाने के लिये जगल में गए । उन्होंने मार्ग में प्रसेन और उसके घोडे को मरा पाया । आगे चलने पर सिंह भी मरा हुआ मिला । झूठे हुए वे आगे वढे और एक गुफा में उन्हें जाववान् मिला । उसने अपनी कन्या जाववती को मणि के साथ कृष्णचंद्र को अर्पित किया । कृष्णचंद्र मणि और जाववती को लेकर आए और उन्होंने सत्राजित् को मणि देकर अपना कलक मिटाया ।

प्रसेव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रसेवक' ।

प्रसेवक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. धीन की तूँबी । २. सूत की थैली । थैला । ३. थैली बनानेवाला पुरुष । ४. चमड़े का थैला या कुप्पी (को०) ।

प्रस्कदन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रस्कन्दन] १. भ्रूषण । फलांग । २. वह जगह जहाँ से फलांग ली जाय (को०) । ३. शिव । महादेव । ४. विरेचन । जुलाव । ५. प्रतीसार ।

प्रस्कदिका—सञ्ज्ञा स्त्री [सं० प्रस्कन्दिका] १. प्रतीसार । २. विरेचन । जुलाव [को०] ।

प्रस्कण्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वैदिक सद्योपासना मे प्रयुक्त सूर्योपस्थान मंत्र के एक ऋषि का नाम ।

प्रस्कन्न^१—वि० [सं०] १. पतित । समाज का नियम भंग करनेवाला । २. गिरा हुआ । ३. कूदा हुआ (को०) । ४. पराभूत । पराजित । हारा हुआ (को०) ।

प्रस्कन्न^२—सञ्ज्ञा पुं० १. घोडे के एक रोग का नाम ।

विशेष—इस रोग से घोडे की छाती भारी हो जाती, शरीर स्तब्ध हो जाता है और वह चलते समय कुवडे की तरह हाथ, पैर बटोरकर चलता है ।

२. जातिच्युत व्यक्ति (को०) । ३. वह जो पाप करता हो । पापी आदमी (को०) ।

प्रस्कृन्द—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रस्कृन्द] १. सहायता । सहारा । अवलंब । २. गोल आकृति की वेदी [को०] ।

प्रस्वलन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] स्वलन । पतन ।

प्रस्तर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पत्थर । २. डाम या कुश का पूला । ३. पत्ते आदि का विछावन । ४. विछावन । ५. चौकी सतह । सम तल । ६. चमड़े की थैली । ७. मणि । रत्न (को०) । ८. प्रस्तार । ९. एक ताल का नाम । १०. अथ आदि का परिच्छेद (को०) ।

प्रस्तरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. विछाना । फैलाना । २. विछावन । विछौना । ३. आसन । पीठ (को०) ।

प्रस्तरणा—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] १. आसन । पीठिका । २. शय्या [को०] ।

प्रस्तरभेद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पखान भेद ।

प्रस्तरयुग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रस्तर + युग] ऐतिहासिक क्रम में वह समय जब मानव ने पत्थरों के औजार तथा अन्य सामान बनाकर उनका उपयोग करना साखा था । उ०—उन युग-स्थितियों का आज दृश्यपट परिवर्तित । प्रस्तरयुग की सभ्यता हो रही श्रव श्रवसित ।—ग्राम्या, पृ० ६० ।

प्रस्तरिणी—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] १. श्वेत दुर्वा । २. गोजिह्वा ।

प्रस्तरोपल—संज्ञा पुं० [सं०] चन्द्रकांत मणि ।

प्रस्तब—संज्ञा पुं० [सं०] १. स्तुति या प्रार्थनापरक गीत । ३. अनुकूल अवसर [श्लो०] ।

प्रस्तवन—संज्ञा पुं० [सं० प्रस्ताव] प्रस्तुतीकरण । उपस्थित करने का भाव ।

प्रस्तार—संज्ञा पुं० [सं०] १. फैलाव । विस्तार । २. आध्याय । वृद्धि । ३. घास या पत्तियों का बिछोना । ४. परत । पटल । तह । ५. सीढ़ी । ६. समतल । चौड़ी सतह । ७. पान का जगल । ८. छद्मशास्त्र के अनुसार नौ प्रत्ययों में पहला जिससे छंदों के भेद की संख्या और स्वरों का ज्ञान होता है । यह दो प्रकार का होता है, चणुप्रस्तार और मानाप्रस्तार । ९. पाठ्या । विद्यालय [श्लो०] । १०. फैलाना । मातृक करना । ढकना [श्लो०] ।

प्रस्तारपक्ति—संज्ञा स्त्री० [सं० प्रस्तारपट्टिक] एक वैदिक छंद जो पक्ति छंद का एक भेद है । इसके पहले और दूसरे चरणों में बारह अक्षर और तीसरे चौथे में साठ साठ अक्षर होते हैं ।

प्रस्तारी^१—वि० [सं० प्रस्तारिन्] फैलानेवाला । प्रस्तारकर्ता [श्लो०] ।

प्रस्तारी^२—संज्ञा पुं० नेत्र का एक रोग [श्लो०] ।

प्रस्तार्यम्—संज्ञा पुं० [सं० प्रस्तार्यमन्] मातृ का एक रोग जिसमें ब्राह्म के छेले पर चारों ओर सास या गाले रग का मांस बढ़ जाता है । वैद्यक में इसकी उत्पत्ति सन्निपात के प्रतीक से मानी गई है ।

प्रस्ताव—संज्ञा पुं० [सं०] १. अवसर । २. प्रथम । सिद्धी हुई बात । ३. प्रकरण । विषय । ४. अवसर पर कही हुई बात । जिज्ञा । चर्चा । उ०—जीवन नाटक का मत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र में जहाँ अर्घ्य अंधेरा ।—साकेत, पृ० २३५ । ५. गमा या समाज में उठाई हुई बात । समा के सामने उपस्थित मतभ्य (प्राधुनिक) ।

क्रि० प्र०—करना ।—पास करना ।—होना ।—पारित करना ।—पारित होना ।

६. प्रकृष्ट स्तवन [श्लो०] । ७. कथा या विषय के पूर्ण का वक्तव्य प्रावकथन । भूमिका । विषयपरिचय । ८. सामवेद का एक अक्ष जो प्रस्तोता नामक ऋत्विक् द्वारा प्रथम गाया जाता है ।

प्रस्तावक—संज्ञा पुं० [सं०] वह जो किसी विषय को किसी सभा में समिति या स्वीकृति के लिये उपस्थित करे । प्रस्ताव उपस्थित करनेवाला । जैसे,—प्रस्तावक ने ही अपना प्रस्ताव उठा लिया ।

प्रस्तावन—संज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रस्तावित] १. प्रस्ताव करने की क्रिया । २. प्रस्ताव करने का भाव ।

प्रस्तावना—संज्ञा स्त्री० [सं०] १. आरंभ । २. किसी विषय या कथा को आरंभ करने के पूर्व का वक्तव्य । प्रावकथन । भूमिका । उपोद्घात । जैसे, पुस्तक की प्रस्तावना । ३. नाटक में आद्यायन या वस्तु के अभिनय के पूर्व विषय का परिचय देने, इतिवृत्त सूचित करने आदि के लिये उठाया हुआ प्रथम ।

विशेष—मनुष्य, १८, गरी, विद्वय, परिष्कार के परस्पर अद्योपनयन के रूप में प्रस्तावना होती है, जिसमें कभी कभी कवि का परिचय, गमा की प्रकथा आदि भी आती है । भरत मुनि के मनुष्य प्रस्तावना पाँच प्रकार की बनी गई है—उद्घातन, उपोद्घात, प्रयोगाभिप्रेत, प्रथम और अन्तगणित ।

प्रस्तावित—वि० [सं०] १. जिसके लिये प्रस्ताव हुआ हो । जिसके लिये प्रस्ताव किया गया हो । २. आरंभ किया हुआ । शोभु विद्या गया हो । आरंभ () । ३. अर्पित । उक्त । जा रहा गया हो । पणित () ।

प्रस्ताव्य—वि० [सं०] प्रस्ताव करने योग्य ।

प्रस्तिर—संज्ञा पुं० [सं०] गुरु या गुरु की कथा । पान पट्टे आदि का विद्यालय ।

प्रस्तोत, प्रस्तोम—वि० [सं०] १. पढ़ाया या पढ़ाया गया हुआ । प्वनित । २. एतिस । सं० [श्लो०] ।

प्रस्तु^१—वि० [सं०] १. जिसकी स्तुति या प्रशंसा की गई हो । २. जो कहा गया हो । उक्त । कथित । ३. जिसकी चर्चा होती गई हो । जिसकी बात उठाई गई हो । प्रथम प्रथम । प्रारंभित । उ०—पर में उद्घात प्रस्तु विषय गाया है, जिसका अर्थ प्रस्तु विषयों का उपस्था आदि द्वारा उठाया हो । अर्थ है ।—रत्न, पृ० ११२ । ४. प्रस्तुत । प्रथम । उपस्थित । मानवी मान्य हुआ । शो मानने हो । ५. उक्त । उद्योग । ६. विस्तृत जो किया गया हो । मनादित । ७. उपस्थित ।

प्रस्तु^२—संज्ञा पुं० १. विद्यालयीन प्रथम । वह विषय या विचार-योग्य हो । २. उद्योग [श्लो०] ।

प्रस्तुताकुर—संज्ञा पुं० [सं० प्रस्तुताकुर] एक नाथानुसार । प्रस्तुता-सकार ।

प्रस्तुतालकार—संज्ञा पुं० [सं० प्रस्तुतालकार] एक प्रकार का जिसे एक प्रस्तुत के मध्य में गोष्ठ बात कहकर उसका अतिप्रथम दूसरे प्रस्तुत में प्रति पठाया जाता है । जैसे, 'बर्षों माल' । मालति आदि गयी 'बर्षों बर्षों' में प्रस्तुत होने को उद्योग रसाकर प्रस्तुत वाचन के प्रति उद्योग किंवा गया है ।

प्रस्तुति—संज्ञा स्त्री० [सं०] १. प्रथम । २. प्रति उ०—प्रस्तुति गुरुह कीन्द्र धमि हेतु । प्रगटेत विषयवाचन अन्तरेतु ।—मानस, १।८३ । २. प्रस्तावना । ३. उपस्थिति । ४. विचारिता । वैपारी ।

प्रस्तुतीकरण—संज्ञा पुं० [सं० प्रस्तुत+करण] प्रस्तुत करने का भाव उपस्थित करना । उ०—गौरासिक गणायो का शतीभात्मक प्रस्तुतीकरण और मनुष्यता की मनीषिता के ऊपर रसावना आदि अनेक तरह हिंदी कवियों के नवीन प्रयोगों के परिष्कारक है ।—हि० का० प्र०, पृ० १०८ ।

प्रस्तोत—संज्ञा पुं० [सं०] १. एक प्रकार का सामगान । २. उद्योग के पुत्र का नाम ।

प्रस्तोता—संज्ञा पुं० [सं० प्रस्तोतृ] १. एक सामवेदी ऋत्विक् जो यज्ञों में पहले सामगान का आरंभ करता है । २. वह जो स्तवन

करे। प्रस्तवन करनेवाला व्यक्ति। ३. प्रस्ताव करनेवाला। प्रस्तुत करनेवाला। रजिस्ट्रार। जैसे, संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रस्तोता।

प्रस्तोभ—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का साम।

प्रस्थपच—वि० [सं० प्रस्थपच] माप या तौल में एक प्रस्थ पकाने-वाला [को०]।

प्रस्थ^१—सज्ञा पुं० [सं०] १. पहाड के ऊपर की चौरस भूमि। अघित्यका। टेबुललैंड। २. वह मैदान जो बराबर या समतल हो। ३. प्राचीन काल का एक मान।

विशेष—यह दो प्रकार का होता था, एक तौलने का, दूसरा मापने का। इसके मान में मतभेद है, कोई चार कुडव का प्रस्थ मानते हैं कोई दो शराव का। बहुतों के मत से एक आडक का चतुर्थांश प्रस्थ होता है। वमन, विरेचन और शोणितमोक्षण में माड़े तेरह पल का प्रस्थ माना जाता है। कुछ लोग इसे छह पल का और कुछ लोग द्रोण का षोडशांश मानते हैं।

४. पहाडों का ऊँचा किनारा। ५. वह भाग जो ऊपर बहुत उठा हो। ६. विस्तार। ७. कोई वस्तु जो एक प्रस्थ मान की हो [को०]।

प्रस्थ^२—वि० १. जानेवाला। यात्रा करनेवाला। २. फैलानेवाला। ३. प्रकृष्ट रूप से स्थित। दृढ [को०]।

प्रस्थकुसुम—सज्ञा पुं० [सं०] मरुवा।

प्रस्थपुष्प—सज्ञा पुं० [सं०] १. मरुवे का पौधा। २. छोटे पत्तों की तुलसी। ३. जबीरी नीबू।

प्रस्थभुक्—वि० [सं०] एक प्रस्थ अन्न खानेवाला [को०]।

प्रस्थल—सज्ञा पुं० [सं०] महाभारत के अनुसार एक देश जो उस समय सुशर्मा नामक राजा के अधिकार में था।

प्रस्थान—सज्ञा पुं० [सं०] १. गमन। यात्रा। रवानगी। २. विजय के लिये सेना या राजा की यात्रा। कूच। ३. पहनने के कपड़े आदि जिसे लोग यात्रा के मुहूर्त पर घर से निकालकर यात्रा की दिशा में कहीं पर रखवा देते हैं। उ०—तिथि नखर गुरुवार कहीजै। सुदिन साधि प्रस्थान घरीजै।—जायसी (शब्द०)।

विशेष—यह ऐसी दशा में किया जाता है जब कोई ठीक मुहूर्त पर यात्रा नहीं कर सकता।

क्रि० प्र०—धरना।—रखना। करना।

४. मार्ग। ५. उपदेश की पद्धति या उपाय। ६. बैखरी बानी के भेद जो अठारह हैं, यथा—४ वेद, ४ उपवेद, ६ वेदांग, पुराण, न्याय, सीमांसा और धर्मशास्त्र। ७. मरण। मृत्यु [को०]। ८. प्रेषण। भेजना [को०]। ९. विधि। दण्ड। तरीका [को०]। १०. निम्न श्रेणी का नाटक [को०]। ११. धार्मिक निकाय। धार्मिक स प्रदाय [को०]। १२. आगमन। आना [को०]।

प्रस्थानत्रय—सज्ञा पुं० [सं०] २० 'प्रस्थानत्रयी' [को०]।

प्रस्थानत्रयी—सज्ञा स्त्री [सं०] भगवद्गीता, उपनिषद् और ब्रह्मसूत्र [को०]।

प्रस्थानदुन्दुभि—सज्ञा स्त्री [सं० प्रस्थानदुन्दुभि] कूच का ढंका [को०]।
प्रस्थानी—वि० [हिं० प्रस्थान + ई] जानेवाला। प्रस्थान करनेवाला। उ०—उठे सुनत हरि उद्वव वानी। भे पुनि शुक्रप्रस्थ प्रस्थानी।—सवर्णसिंह (शब्द०)।

प्रस्थानीय—वि० [सं०] प्रस्थान योग्य।

प्रस्थापन—सज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रस्थापित, प्रस्थापी, प्रस्थाप्य] १. प्रस्थान कराना। भेजना। २. प्रेरण। दूतादि के काम में नियुक्त करना। ३. स्थापन। ४. सिद्ध करना। प्रमाणित करना। [को०]। ६. व्यवहार में लाना। काम में लाना [को०]। ७. जानवरो को खुरा ले जाना [को०]।

प्रस्थापना—सज्ञा स्त्री [सं०] भेजना। रवाना करना। प्रेषण [को०]।

प्रस्थापित—वि० [सं०] १. अच्छी तरह स्थापित। २. प्रेषित। भेजा हुआ। ३. आगे की ओर किया या बढ़ाया हुआ। ४. अनुष्ठित। जैसे, कोई उत्सव आदि [को०]।

प्रस्थायी—वि० [सं० प्रस्थायिन्] जो भविष्य में प्रस्थान करने-वाला हो।

प्रस्थावा(७)—सज्ञा पुं० [सं० प्रस्थान] चलना। गमन। उ०—भएउ इद्र कर आयेसु प्रस्थावा यह सोइ। कबहुँ काहुँ कै प्रभुता कबहुँ काहुँ कै होइ।—जायसी अ० (गुप्त), पु० ३५२।

प्रस्थिका—सज्ञा स्त्री [सं०] १. आमडा। २. पुदीना।

प्रस्थित—वि० [सं०] १. ठहरा हुआ। टिका हुआ। स्थिर। २. दृढ़। ३. जो गया हो। गत। ४. जो जाने को तैयार हो। गमनोद्यत।

प्रस्थिति—सज्ञा स्त्री [सं०] १. प्रस्थान। यात्रा। २. विशेष स्थिति।

प्रस्न^१—सज्ञा पुं० [सं०] स्नानपात्र।

प्रस्न(७)^२—सज्ञा पुं० [सं० प्रस्न] दे० 'प्रघ्न'। उ०—ऐसिअ प्रस्न विहगपति कीन्ह काग सन जाइ।—मानस ७।५५।

प्रस्नव—सज्ञा पुं० [सं०] १. बहना। प्रवाह। प्रस्राव। २. घारा। जैसे दूध की। ३. अश्रु। आंसु। ४. मूत्र [को०]।

प्रस्निग्ध—वि० [सं०] १. जिसमें बहुत अधिक चिकनाई हो। २. बहुत अधिक कोमल [को०]।

प्रस्तुत—वि० [सं०] बहनेवाला। टपकनेवाला। क्षरणशील। प्रस्रवित होनेवाला [को०]।

यौ०—प्रस्तुतस्तनी—वह स्त्री जिसके स्तनों से वात्सल्य के कारण दुग्धस्राव हो।

प्रस्तुषा—सज्ञा स्त्री [सं०] नतोहू। पोते की स्त्री।

प्रस्नेय—वि० [सं०] (जल आदि) जो स्नान के योग्य हो।

प्रस्पन्दन—सज्ञा पुं० [सं० प्रस्पन्दन] फडकना। कपन [को०]।

प्रस्पर्धी—वि० [सं० प्रस्पर्धिन्] प्रतिद्वंद्वी। प्रतिस्पर्धी [को०]।

प्रस्फुट—वि० [सं०] १. विकसित। खिला हुआ। २. प्रकट। स्पष्ट। साफ। ज्ञात।

प्रस्फुटन—सज्ञा पुं० [सं०] १. खिलना। विकसित होना। २. प्रकट होना। स्पष्ट होना। अभिव्यक्त होना। उ०—बहुवा देखा

जाता है कि विरुद्ध संसर्ग से ही किसी अनुकूल भाव का प्रस्फुटन होता है।—पोद्दार अभि. प्र०, पृ० १०२ ।

प्रस्फुटित—वि० [सं०] विकसित । प्रस्फुट ।

प्रस्फुरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ निकलना । २ प्रकाशित होना । ३ कपन । फड़कना (को०) । ४ स्पष्ट या व्यक्त होना (को०) ।

प्रस्फुरित—वि० [सं०] कपित । फड़कता हुआ । हिलता हुआ ।

यौ०—प्रस्फुरिताधर = जिसके होठ हिल रहे हो । कुछ कहने के लिये जिसका अधर फड़क रहा हो ।

प्रस्फोटन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ किसी वस्तु का इस प्रकार एकवारगी खुलना या फूटना कि उसके भीतर के पदार्थ वेग से बाहर निकल पड़े । जैसे, ज्वालामुखी का प्रस्फोटन । २ फोड़ निकालना । ३ विकसित होना या करना । खिलना या खिलाना । ४ पीटना । ठोकना । ताड़न । ५ फटकना (भ्रम आदि) । ६ सुप ।

प्रस्मृत—वि० [सं०] विस्मृत । भूला हुआ (को०) ।

प्रस्मृति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] विस्मृत करना । भूल जाना (को०) ।

प्रस्यद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रस्यद्] टपकना । चूना । बहना । द्रवित होना ।

प्रस्यद्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रस्यद्न] दे० 'प्रस्यद्' (को०) ।

प्रस्यद्दी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रस्यद्दिन्] वर्षा की झड़ी । वर्षा की फुहार (को०) ।

प्रस्रंस—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] (गर्भ का) पतन । भ्रम । गिरना ।

प्रस्रसन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] द्रवणशील वस्तु । द्रावक वस्तु (को०) ।

प्रस्रसिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार का योनिरोग जिसमें प्रसग के समय रगड़ से योनि बाहर निकल आती है और गर्भ नहीं ठहरता ।

प्रस्रसी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रस्रसिन्] [स्त्री० प्रस्रसिनी] १ पतनशील । गिरनेवाला । २ अकाल ही में गिरनेवाला (जैसे, गर्भ) ।

प्रस्रव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चूना । टपकना । २ प्रवाह । धारा । ३ स्तनो से बहता हुआ दूध । ४ मूत्र । ५ पकते हुए चावल का उबलकर बहनेवाला माँड़ । ६ छलकते वा गिरते हुए भाँसू (को०) ।

प्रस्रवण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ जल आदि (द्रव पदार्थों) का टपक टपककर या गिर गिरकर बहना । २ किसी स्थान से निकल निकलकर बहता हुआ पानी । सोता । ३ किसी स्थान से गिरकर बहता हुआ पानी । प्रपात । झरना । निर्झर । ४ पसीना । ५ स्तनो से टपकता हुआ दूध । ६. माल्यवान् पर्वत । ७ पेशाव करना (को०) । ८ झरने के जल से बना हुआ कुछ (को०) ।

प्रस्रवणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वैद्यक के अनुसार बीस प्रकार की योनियों में एक ।

विशेष—इसे दुःप्रजाविनी भी कहते हैं । इसमें से पानी सा निकलता रहता है । इस योनिवाली स्त्री को सतान होने में बड़ा कष्ट होता है ।

प्रसवी—वि० [सं० प्रस्रविन्] [स्त्री० प्रस्रविणी] १ स्रवित होता हुआ । चूनेवाला । २ दूध देनेवाला । ३ जिसमें अधिक दूध हो (को०) ।

प्रस्राव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ क्षरण । झरना । बहना । २ बहाव । ३ प्रस्रवण । ४. पेशाव । मूत्र । ५ पकते हुए चावल का उबलकर बहनेवाला माँड़ (को०) ।

प्रस्रुत—वि० [सं०] झडा हुआ । गिरा हुआ ।

प्रस्रुति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] झरना । गिरना (को०) ।

प्रस्वन, प्रस्वान्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जोर का शब्द । ऊँचा स्वर ।

प्रस्वाप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह वस्तु जिसके प्रयोग से निद्रा आवे । २ सोना । शयन करना (को०) । ३ स्वप्न । सपना (को०) । ४ एक अस्त्र का नाम जिसके प्रयोग से शत्रु को युद्धस्थल में निद्रा आ जाती है ।

प्रस्वापक—वि० [सं०] १ सुलानेवाला । नींद लानेवाला । २ मारक । मृत्यु देनेवाला (को०) ।

प्रस्वापन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रस्वाप' ।

प्रस्वापिनी—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हरिवंश के अनुसार कृष्णचंद्र की एक स्त्री का नाम ।

प्रस्वार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] श्लोककार । ॐ ।

प्रस्विन्न—वि० [सं०] जिसे पसीना आ गया हो । प्रस्वेदयुक्त (को०) ।

प्रस्वीकरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं० (उप०) प्र + स्वीकरण] स्वीकारना । स्वीकृति देना ।

प्रस्वेद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पसीना ।

प्रस्वेदित^१—वि० [सं०] १. जिसे पसीना आ गया हो । २. प्रस्वेदयुक्त । ३. पसीना लानेवाला । गर्म (को०) ।

प्रस्वेदित^२—वि० [सं०] पसीने से तर । प्रस्वेद से भाद्रं (को०) ।

प्रहंतव्य—वि० [सं० प्रहन्तव्य] बध करने योग्य । बध्म्य (को०) ।

प्रह(उ)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रभ] १ प्रभा । चमक । दीप्ति । उ०—पहु विन पुकार पहु उप्परिग । सु प्रह पहक फट्टी फहन ।—पृ० रा०, ६१।१६५८ । २. पी । उ०—प्रह फूटी दिस पुंडरी, हणहणिया हय थट्ट ।—ढोला०, हु० ६०२ ।

प्रहणन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मारना । बध । हनन (को०) ।

प्रहणेमि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रहनेमि । चद्रमा ।

प्रहत्^१—वि० [सं०] १. हत । निहत । मारा हुआ । २. प्रताडित । पीटा हुआ । ३. फेलाया हुआ । प्रसारित । उ०—बहता है साथ गत गौरव का दीर्घकाल प्रहत् तरंग कर ललित तरल ताल ।—प्रनामिका, पृ० १८६ । ४. आघातित । (नगाड़ा आदि) जिसपर आघात किया गया हो (को०) । ५. पराजित हारा हुआ (को०) । ६. शिक्षित । पठित (को०) ।

प्रहत्^२—सञ्ज्ञा पुं० १. पासे आदि का फेंकना । २. वार । ठोकर । प्रहार ।

प्रहति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] धक्का । आघात (को०) ।

प्रहनेमि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चद्रमा ।

प्रहर—सखा पुं० [सं०] पहर। दिन रात के घाठ सम भागों में से एक भाग। पहरा। उ०—इस स्वप्न में भी चार प्रहर के चार स्वप्न हैं।—श्यामा०, पृ० ३।

प्रहरक—सखा पुं० [सं०] वह मनुष्य जो पहरे पर हो और घटा बजाता हो। घड़ियाली।

प्रहरकुटुवी—सखा स्त्री० [सं० प्रहर कुटुवी] अर्कपुष्पी।

प्रहरखना—क्रि० प्र० [सं० प्रहर्षण] हर्षित होना। आनन्दित होना। उ०—जनकसुता समेत रघुराई। पेशि प्रहरखे मुनि समुदाई।—तुलसी (शब्द०)।

प्रहरण—सखा पुं० [सं०] १ हरना। हरण करना। छीनना। २. अस्त्र। उ०—और प्रहरणों से प्रभुवर के रण में रिपु गण मरते थे।—साकेत, पृ० ३७६। ३. युद्ध। ४. प्रहार। वार। ५. मारना। आघात पहुँचाना। ६. फेंकना। ७. हटाना। हूर करना। ८. स्त्रियों की सवारी के लिये एक प्रकार का परदेवाला रथ। बहली। ९. गाड़ी में बैठने की जगह। १०. मृदग के चारह प्रवधों में एक।

प्रहरणकलिका—सखा स्त्री० [सं०] चौदह अक्षरों की एक वरुणवृत्ति जिसके प्रत्येक चरण में दो नगण, एक भगण, फिर एक नगण और अत में सधु गुरु होते हैं। जैसे,—महि हरि जनमे खलन दलन को प्रहरण कलि काटन दुख जन को।

प्रहरणकलिता—सखा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रहरणकलिका'।

प्रहरणीय^१—वि० [सं०] १. प्रहरण के योग्य। २. आक्रमण या प्रहार करने योग्य। ३. क्षेपणीय [को०]।

प्रहरणीय^२—सखा पुं० अस्त्र। आयुध [को०]।

प्रहरत्—सखा पुं० [सं०] योद्धा। वीर [को०]।

प्रहरपन—सखा पुं० [हि०] एक अलंकार। दे० 'प्रहर्षण-२'।

प्रहरी—वि० [सं० प्रहरिन्] १. पहर पहर पर घटा बजानेवाला। घड़ियाली। २. पहरेवाला। पहरेवा। पहरा देनेवाला। उ०—बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है।—पंचवटी, पृ० ६।

प्रहर्ता—वि० [सं० प्रहर्त्] [वि० स्त्री० प्रहर्त्री] १. प्रहार करनेवाला। २. योद्धा।

प्रहर्ष—सखा पुं० [सं०] १. हर्ष। आनंद। २. पुरुषेन्द्रिय का उत्तेजित होना [को०]।

प्रहर्षण^१—सखा पुं० [सं०] १. आनंद। २. एक अलंकार जिसमें कवि बिना उद्योग के अनायास किसी के वांछित पदार्थ की प्राप्ति का वर्णन करता है। जैसे,—प्राण पियारो मिल्यो सपने में भई तब नेसुक नौद निहोरे। कत को आयबो त्योही जगाय सखी कस्यो बोलि पियूष निचोरे। यो मतिराम बड़घो उर में मुख बाल के बालम सो एग जोरे। ज्यों पट में अति ही चटकीलो चर्ई रंग तीसरी वार के बोरे।—मतिराम (शब्द०)। ३. बुध नामक ग्रह। ४. मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति [को०]।

प्रहर्षण^२—वि० आनन्दित करनेवाला। हर्षप्रद [को०]।

प्रहर्षणी—सखा स्त्री० [सं०] १. हर्षिणी। हलसी। २. तेरह अक्षरों की एक वरुणवृत्ति जिसके प्रत्येक चरण में भगण फिर नगण, फिर जगण, रगण और अत में एक गुरु होता है। (म न ज र ग)। तीसरे और दसवें वर्ण पर यति होती है। जैसे,—वैसो ही विरचहु राम हे कन्हारै, सरद प्रहर्षणी जुहारै।

प्रहर्षिणी—सखा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रहर्षणी'।

प्रहर्षित—वि० [सं०] १. प्रमन्न। हर्षित। आनन्दित। २. पठोर या उडा। अकहा हुआ, जैसे वैत (को०)। ३. ममोग के लिये उत्तेजित किया हुआ [को०]।

प्रहर्षुल—सखा पुं० [सं०] बुध ग्रह [को०]।

प्रहल्लाद—सखा पुं० [सं०] दे० 'प्रह्लाद-२'। उ०—प्रहल्लाद उद्धार कियो पूरन पद जान्हन।—पृ० रा०, २।२१३।

प्रहसती—सखा स्त्री० [सं०] १. प्रहसन्ती। २. वापती। ३. प्रकृष्ट अंगारधानी। गच्छी भंगेडी। ४. वह जो हँस रही हो या प्रफुल्ल हो।

प्रहसन—सखा पुं० [सं०] १. हँसी। दिल्लगी। परिहास। चुहल। खिल्ली। ३. उपहास या गाथिषोप रचना [को०]। ४. एक प्रकार का काव्यमिश्र नाट्य।

विशेष—यह रूपक के दस भेदों में है। इस खेल में नायक कोई राजा, धनी, ब्राह्मण या धूर्त होता है और अनेक पात्र रहते हैं। खेल भर में हास्यरस प्रधान रहता है। पहले के प्रहसनो में एक ही अक्ष होता था पर अब लोग कई अक्षों का प्रहसन लिखते हैं। जैसे, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति और अक्षर नगरी आदि। इस प्रकार के नाटक प्रायः कुंगीतिसंगोचन के लिये बनाए और खेले जाते हैं।

प्रहसित^१—सखा पुं० [सं०] १. एक बुद्ध का नाम। २. हास्य।

प्रहसित^२—वि० हँसता हुआ [को०]।

प्रहस्त—सखा पुं० [सं०] १. अपत। पण्ड। हस्तल। उँगलियों सहित फेंकाई हुई हथेली। २. रामायण के अनुभार रावण के एक भेनापति का नाम।

प्रहाण—सखा पुं० [सं०] १. परित्याग। २. चित्त की एकाग्रता। ध्यान। ३. प्रयत्न। उद्योग। प्रयास [को०]।

प्रहाणि—सखा स्त्री० [सं०] १. परित्याग। २. हानि। नाश। ३. कमी। घाटा। हानि।

प्रहान—सखा पुं० [सं०] दे० 'प्रहाण'।

प्रहानि—सखा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रहाणि'।

प्रहास्य—सखा पुं० [सं०] सदेवयाहक। दूत [को०]।

प्रहार—सखा पुं० [सं०] १. आघात। वार। चोट। मार। २. धप। हत्या। हनन। मारण [को०]। ३. युद्ध। रण [को०]। ४. गले का हार [को०]।

क्रि० प्र०—करना।—होना।

प्रहारक—वि० [मं०] प्रहार करनेवाला । मारनेवाला ।
 प्रहारण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] काम्य दान । मनचाहा दान ।
 प्रहारना^७—क्रि० प्र० [सं० प्रहार] १ मारना । आघात पहुँचाना ।
 आघात करना । उ०—(क) मन नहिं मारा मनकरी, सका
 न पाँच प्रहारि । सोल साँच सरघा नहीं, अजहूँ इद्वि उधारि ।
 —कवीर (शब्द०) । (ख) दीन्हों डारि शैल तें सु पर पुनि
 भीतर डारयो । डारि अग्नि में शस्त्रन मारयो नाना भाँति
 जल प्रहारयो ।—सूर (शब्द०) । २ मारने के लिये चलाना ।
 फेंकना । उ०—(क) वृत्रासुर पर बजू प्रहारयो । तिन
 तिरसूल इद्र पर मारयो ।—सूर (शब्द०) । (ख) तव दुहुँ
 गाहन बजू प्रहारा । करि तापर पुनि लातन मारा ।—
 पद्माकर (शब्द०) । (ग) आजु राम श्याम को प्रहारि वान
 मारिहो । उग्रसेन सीस काटि भूमि बीच डारिहो ।—गोपाल
 (शब्द०) ।
 प्रहारवल्ली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] मांसरोहिणी लता ।
 प्रहारार्त्त^१—वि० [मं०] जो आघात से घायल हो गया हो ।
 प्रहारार्त्त^२—सञ्ज्ञा पुं० घाव से उत्पन्न तीव्र पीडा [को०] ।
 प्रहारित^३—वि० [सं० प्रहार] जिसपर प्रहार हो । प्रताडित ।
 विशेष—मनुष्य के शरीर में मुष्टिप्रहार आदि से प्रहारित
 स्थान का माम दूषित होकर शोथ उत्पन्न करता है ।
 प्रहारी^४—वि० [सं० प्रहारिन्] [वि० स्त्री० प्रहारिणी] १ मारनेवाला ।
 प्रहार करनेवाला । २ चलानेवाला । मारनेवाला । छोड़ने-
 वाला । ३ नष्ट करनेवाला । दूर करनेवाला । भजन करने-
 वाला । जैसे, गर्वप्रहारी ।
 प्रहारी^५—सञ्ज्ञा पुं० सर्वश्रेष्ठ योद्धा । प्रधान योद्धा [को०] ।
 प्रहारक—वि० [सं०] बलपूर्वक हरण करनेवाला । जबरदस्ती छीनने-
 वाला ।
 प्रहार्य—वि० [सं०] १ प्रहार करने योग्य । २ हरण योग्य ।
 प्रहास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ अट्टहास । जोर की हँसी । ठहाका । गहरी
 हँसी । २ नट । ३ शिव । ४ कातिकेय का एक अनुचर ।
 ५ उपेक्षा । तिरस्कार [को०] । ६ व्यग्य कथन । कद्वक्ति
 ७ रगो की चमक [को०] । ८ सोमतीर्थ का एक नाम । दे०
 'प्रभास'—२ ।
 विशेष—इस अर्थ में यह शब्द 'प्रभास' का प्राकृत रूप जान
 पड़ता है ।
 प्रहासक—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह व्यक्ति या वस्तु जो हँसाए [को०] ।
 प्रहासी^१—वि० [सं० प्रहासिन्] १ खूब हँसानेवाला । २ खूब हँसने-
 वाला । ३ चमकीला । द्योतित । चमकनेवाला [को०] ।
 प्रहासी^२—सञ्ज्ञा पुं० विदुषक । मसखरा [को०] ।
 प्रहि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कूप । कूआ [को०] ।
 प्रहित^१—वि० [सं०] १ प्रेरित । २ फेंका हुआ । क्षित । ३ फटका
 हुआ । निष्कासित । ४ उपयुक्त । ठीक [को०] । नियुक्त [को०] ।
 प्रहित^२—सञ्ज्ञा पुं० १. एक प्रकार का साम । २ सूप । पकी हुई दाल ।

प्रहीण^१—वि० [सं०] १ परित्यक्त । २ प्रक्षित । फका हुआ [को०] ।
 ३. समाप्त । नष्ट [को०] ।
 प्रहीण^२—सञ्ज्ञा पुं० विनाश । हानि [को०] ।
 यौ०—प्रहीणजीवित = मृत । मरा हुआ । प्रहीणदोष ।
 प्रहीणदोष—वि० [सं०] निष्पाप । पापरहित [को०] ।
 प्रहुत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वलिवैश्वदेव । भूतयज्ञ ।
 प्रहुति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] आहुति । उत्तम आहुति ।
 प्रहृत्^१—वि० [मं०] १ फेंका हुआ । चलाया हुआ । २ पसारा
 हुआ । फँसाया हुआ । उठाया हुआ । ३ मारा हुआ ।
 प्रताडित । ४ पीटा हुआ । ठोका हुआ ।
 प्रहृत्^२—सञ्ज्ञा पुं० १ प्रहार । चोट । आघात । २ एक गोत्रकार
 ऋषि का नाम ।
 प्रहृष्ट—वि० [मं०] १ अत्यंत प्रसन्न । आह्लादित । २ उठा
 हुआ । खडा । जैसे, रोम ।
 यौ०—प्रहृष्टचित्त, प्रहृष्टमना = आनंदित । प्रफुल्ल । प्रहृष्टमुख =
 प्रहृष्टवदन । प्रहृष्टरूप = जिसे देखने से प्रसन्नता हो । जो
 प्रसन्न दिखाई दे । प्रहृष्टरोमा = जिसके घास, रोएँ आदि
 सँढे हो ।
 प्रहृष्टक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कौआ । काक [को०] ।
 प्रहृष्टात्मा—वि० [सं० प्रहृष्टात्मन्] प्रसन्नचित्त । आनंदित [को०] ।
 प्रहेणक—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] लपसी । प्रहेलक ।
 प्रहेति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] रामायण के अनुसार एक राक्षस का नाम ।
 यह हेति का भाई था ।
 प्रहेलक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ लपसी । प्रहेणक । २. पहेली । प्रहे-
 लिका [को०] । ३ वह मिष्ठान्न जो उत्सवादि में वितरित
 किया जाय [को०] ।
 प्रहेला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] आनंदपूर्ण फीटा । स्वच्छंद विलास [को०] ।
 प्रहेलि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] 'प्रहेलिका' [को०] ।
 प्रहेलिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पहेली । बुझोवल ।
 प्रहृत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रीति ।
 प्रह्लाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ दे० 'प्रह्लाद' । २ एक नाग का नाम ।
 प्रह्लास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] क्षीण होना । क्षय [को०] ।
 प्रह्ल—वि० [सं०] प्रसन्न । आनंदित ।
 प्रह्लत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रीति । आनंद । प्रसन्नता [को०] ।
 प्रह्लन्न—वि० [सं०] प्रसन्न । खुश [को०] ।
 प्रह्लन्नि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रह्लत्ति' ।
 प्रह्ल्ताद—सञ्ज्ञा पुं० [मं०] १ आनंद । आनंद । २. एक दैत्य जो
 राजा हिरण्यकशिपु का पुत्र था ।
 विशेष—यह बचपन ही से बड़ा भगवद्भक्त था । हिरण्य-
 कशिपु ने प्रह्लाद को ईश्वर की भक्ति से विचलित
 करने के लिये अनेक प्रयत्न किए और बहुत कष्ट
 पहुँचाया पर वह विचलित न हुआ । अंत में भगवान
 ने नरसिंह रूप धारण कर प्रह्लाद की रक्षा की और

हिरण्यकशिपु को मार डाला । प्रह्लाद का पुत्र विरोचन और पौत्र बलि था ।

३ एक देश का नाम । ४ एक नाग का नाम । ५ ध्वनि । आवाज (की०) । ६ चावल की एक जाति ।

प्रह्लादक—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रह्लादिका] आह्लादित करनेवाला । अनिदित करनेवाला [की०] ।

प्रह्लादन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] आह्लादित करना । प्रसन्न करना ।

प्रह्लादन^२—वि० आनन्ददायक । आह्लादक ।

प्रह्लादित—वि० [सं०] आनदित । हर्षित । प्रफुल्लित ।

प्रह्लादी—वि० [सं० प्रह्लादिन्] आनदित होनेवाला । प्रसन्न होनेवाला [की०] ।

प्रह्ण—वि० [सं०] १ विनीत । नम्र । २ झुका हुआ । ढालुआँ । ३. आसक्त ।

प्रह्णय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रदर्शन के लिये झुकना । सम्मानार्थं नम्र होना [की०] ।

प्रह्वल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सौंदर्ययुक्त देह । सुंदर शरीर ।

प्रह्वलिका, प्रह्वलीका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पहेली ।

प्रह्वान्जलि—वि० [सं० प्रह्वान्जलि] हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए [की०] ।

प्रह्वण्य—वि० [सं०] नम्र । झुका हुआ [की०] ।

प्रह्वाय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] आह्वान । अभिनिमग्नण । आवाहन [की०] ।

प्रांग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राङ्ग] एक प्रकार का छोटा परणव या ढोल [की०] ।

प्रांगण्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राङ्गण्य] १. मकान के बीच या सामने का खुला हुआ भाग । आंगन । सहन । २ एक प्रकार का ढोल । परणव ।

प्रांगन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राङ्गण] दे० 'प्रांगण' ।

प्रांजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राञ्जन] १. भजन या रंग । २ प्राचीन काल का एक प्रकार का लेप या रंग जो वाण पर लगाया जाता था ।

प्रांजल—वि० [सं० प्राञ्जल] १ सरल । सीधा । २ सच्चा । ईमानदार । ३. बराबर । समान । जो ऊँचा नीचा न हो ।

प्रांजलता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्राञ्जलता] प्रांजल होने का भाव । सरलता । सीधापन [की०] ।

प्रांजलि^१—वि० [सं० प्राञ्जलि] जो अंजलि वांछे हो । अंजलिबद्ध ।

प्रांजलि^२—सञ्ज्ञा पुं० १. सामवेदियों का एक भेद । २ अंजलि । अंबली ।

प्रांजलिक, प्रांजली—वि० [सं० प्राञ्जलिक, प्राञ्जलिन] दे० 'प्रांजलि' [की०] ।

प्रांत—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रांत] [वि० प्रांतिक] १. अंत । शेष । सीमा । २ किनारा । छोर । सिरा । उ०—अधरो के प्रांतो पर खेलती रेखाएँ, सरस तरंग भग लेती की ।
—अनामिका, पृ० ३७ । ३. छोर । ४.

किसी देश का एक भाग । खड । प्रदेश । जैसे, सयुक्त प्रांत, पंजाब प्रांत । ५ एक ऋषि का नाम । ६ इस ऋषि के गोत्र के लोग । ७ कोना (जैसे आँसू का) ।

यौ०—प्रांतग । प्रांतचर = दे० 'प्रांतग' । प्रांतदुर्ग । प्रांतनिवासी = दे० 'प्रांतग' । प्रांतपति = प्रदेशपति । राज्यपाल । गवरनर । प्रांतपुष्पा । प्रांतभूमि । प्रांतविरस = प्रारंभ में सरस पर अंत में रसहीन या वेरस । प्रांतवृत्ति । प्रांतशून्य = दे० 'प्रांतरशून्य' प्रांतस्थ ।

प्रांतग—वि० [सं०] १. सीमा पर रहनेवाला । जो प्रांत में था सरहद पर रहता हो । २ पास रहनेवाला । समीपस्थ (की०) ।

प्रांतत.—क्रि० वि० [सं० प्रान्ततस्] सीमा या हृद से होता हुआ । छोर से होकर [की०] ।

प्रांतदुर्ग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रान्तदुर्ग] वह दुर्ग जो नगर के किनारे प्राचीर के बाहर हो । नगर के परकोटे के बाहर का दुर्ग ।

प्रांतपुष्पा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रान्तपुष्पा] १ एक फूल का नाम । २ इस फूल का पौधा ।

प्रांतभूमि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रान्तभूमि] १ किसी पदार्थ का अंतिम भाग । किनारा । छोर । २ योगशास्त्र के अनुसार समाधि, जो योग की अंतिम सीमा मानी जाती है । ३ सीढी ।

प्रांतभूमौ—क्रि० वि० [सं० प्रान्तभूमौ] अंत में । आखीर में [की०] ।

प्रांतर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रान्तर] १ दो स्थानों के बीच का लंबा मार्ग जिसमें जल या वृक्षों आदि की छाया न हो । २ दो गावों के बीच की भूमि । उ०—कहीं खड़े थे खेत, कहीं प्रातर पड़े, शून्य सिंधु के द्वीप गाँव छोटे बड़े ।—साकेत, पृ० १२६ । ३ दो प्रदेशों के बीच का शून्य स्थान । अवकाश । ४. जंगल । ५. वृक्ष के बीच का खोखला अण ।

प्रातरशून्य—वि० [सं० प्रान्तरशून्य] दो स्थानों के बीच का पेड़ और छाया आदि से रहित लंबा रूखा मार्ग [की०] ।

प्रातवृत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रान्तवृत्ति] क्षितिज ।

प्रातयन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रान्तयन] प्रात नामक ऋषि के गोत्र के लोग ।

प्रातिक—वि० [सं० प्रान्तिक] १. प्रांत सबधी । प्रातीय । २ प्रदेशी । ३. किसी एक देश या प्रात से सबंध रखनेवाला । उ०—भाषा के बिना न रहता अन्य भाव प्रातिक ।—अपरा, पृ० ६४ ।

प्रांतीय—वि० [सं० प्रान्तीय] प्रात या प्रदेश से संबंध रखनेवाला । प्रातिक । जैसे, युक्तप्रातीय सम्मेलन ।

प्रांतीयता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रान्तीय + ता] प्रात के प्रति अत्यधिक मोह । प्रात के प्रति पक्षपातपूर्ण भाव ।

प्राशु^१—वि० [सं०] [सञ्ज्ञा प्राशुता] ऊँचा । उच्च ।

प्राशु^२—सञ्ज्ञा पुं० १ वैवस्वत मनु के एक पुत्र का नाम । २ विष्णु । ३ लंबा व्यक्ति । वह जो ऊँचा हो (की०) ।

प्राशु^३—वि० [सं०] जिसकी दीवाल लंबी और ऊँची हो [की०] ।

प्रांशुलभ्य—वि० [सं०] लंबे व्यक्ति के द्वारा प्राप्य । जहाँ तक लंबा व्यक्ति ही पहुँच सके [को०] ।

प्रासु^७—वि० [सं० प्रासु] दे० 'प्रांशु' । उ०—प्रथुल प्रासु परिनाह पृथु आयत तु ग बिसाल ।—अनेकार्थ०, पृ० ४० ।

प्राइम मिनिस्टर—पञ्चा पुं० [अ०] १. किसी राज्य या देश का प्रधान मंत्री । वजीर राजम । २ भारत गणराज्य के केंद्रीय शासन का प्रधान मंत्री ।

प्राइमर—सञ्चा पुं० [अ०] १ किसी भाषा की वह प्रारंभिक पुस्तक जिसमें उस भाषा की वर्णमाला आदि दी गई हो । २ किसी विषय की वह प्रारंभिक पुस्तक जिसमें उस विषय का ज्ञान प्राप्त करनेवालों के लिये साधारण मोटी मोटी बातें दी गई हों ।

प्राइमरी—वि० [अ०] प्रारंभिक । प्राथमिक । जैसे,—प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी पाठशाला, प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी स्कूल, आदि ।

प्राइमरी स्कूल—सञ्चा पुं० [अ० प्राइमरी + स्कूल] प्राथमिक पाठशाला । प्रारंभिक पाठशाला ।

प्राइवेट^१—वि० [अ०] जिसका सबंध केवल किसी व्यक्ति से हो । निज का । व्यक्तिगत । जैसे,—यह सम्मेलन का नहीं बल्कि मेरा प्राइवेट काम है । २ जो सार्वजनिक न हो, बल्कि निज के सबंध का हो । जैसे, प्राइवेट जीवन, प्राइवेट सभा । ३. जो सर्वसाधारण से छिपाकर रखा जाय । गुप्त । जैसे,—में आज आपसे एक बहुत प्राइवेट बात करना चाहता हूँ ।

प्राइवेट^२—सञ्चा पुं० [अ०] पलटन का सिपाही । सैनिक । जैसे, प्राइवेट जेम्स ।

प्राइवेट सेक्रेटरी—सञ्चा पुं० [अ०] वह कर्मचारी या लेखक जो किसी की निज की चिट्ठी पत्री आदि लिखने के लिये नियुक्त हो । किसी बड़े अदमी का निज का मंत्री या सहायक । खास नवीस । खास कलम ।

प्राक्^१—वि० [सं०] १ पहले का । अगला । २ पूर्व का ।

प्राक्^२—सञ्चा पुं० पूव । पूरव ।

प्राक्^३—अव्य०, पहले । पूर्व में ।

विशेष—व्याकरण के अनुसार 'प्राच्' शब्द का 'च्' समस्त पदो में 'क्' ग् 'ह्' आदि रूपों में हो जाता है, जैसे, प्राक्कर्म, प्राग्भाव, प्राङ्मुख आदि ।

प्राकट्य—सञ्चा पुं० [सं०] प्रकट वा व्यक्त होने का भाव [को०] ।

प्राकरणिक—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्राकरणीकी] १ प्रकरण या विषय से संबंधित । प्रकरणप्राप्त । २ उपमेय [को०] ।

प्राकषे—सञ्चा पुं० [सं०] एक प्रकार का साम ।

प्राकर्षिक^१—वि० [सं०] जिसको प्राथमिकता दी जाय । तरजीह देने लायक ।

प्राकर्षिक^२—सञ्चा पुं० [सं०] १ स्त्रियों के बीच में नाचनेवाला पुरुष । २ वह पुरुष जिसकी जीविका दूसरो को स्त्रियों से चलती हो । परदारोपजीवी ।

प्राकाश्य—पञ्चा पुं० [सं०] घाट प्रकार के ऐश्वर्यो या सिद्धियों में से एष । इच्छा का अनभिघात ।

विशेष—कहते हैं, इस ऐश्वर्य के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य की इच्छा का व्याघात नहीं होता । वह जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे तुरंत प्राप्त हो जाती है । वह इच्छा करने पर जमीन में समा सकता है या प्राप्तमान में उठ सकता है ।

पर्यां—अपसर्ग । साच्छदानुमति ।

प्राकार—पञ्चा पुं० [सं०] १ वह दीवार जो नगर, किले आदि की रक्षा के लिये उनके चारो ओर बनाई जाती है । परकोटा । कोट । चहारदीवारी ।

पर्यां—चरण । वप्र । शाल । साल । २ घेरा । बाड़ ।

प्राकारधरणो—सञ्चा स्त्री० [सं०] प्राकार के ऊपर की भूमि [को०] ।

प्राकारस्थ—वि० [सं०] परकोटे के भीतर का । प्राकार पर या प्राकार में स्थित ।

प्राकारीय—वि० [सं०] १ प्राकारयोग्य । चहारदीवारी के लायक । २ प्राकार से घिरा हुआ [को०] ।

प्राकाश—सञ्चा पुं० [सं०] १ दे० 'प्रकाश' । २ एक आभूषण [को०] ।

प्रकाश्य—सञ्चा पुं० [सं०] १ प्रकीर्ति । यश । २. प्रकाश का भाव । ३ प्रसिद्ध या ख्यात होना । ४ चमक । ज्योति ।

प्राकृत^१—वि० [सं०] १ प्रकृति से उत्पन्न या प्रकृति संबन्धी । २ स्वाभाविक । नैसर्गिक । ३ भौतिक । ४ स्वाभाविक । सहज । ५ साधारण । मामूली । ६. ससारी । लौकिक । ७ नीच । असंस्कृत । अनपठ । ग्रामीण । फूहड़ ।

प्राकृत^२—स्त्री स्त्री० १ बोलचाल की भाषा जिसका प्रचार किसी समय किसी प्रांत में हो अथवा रहा हो । उ०—जे प्राकृत कवि परम सयाने । भाषा जिन हरिकथा बलाने ।—नुलघी (शब्द०) । २ एक प्राचीन भाषा जिसका प्रचार प्राचीन काल में भारत में था और जो प्राचीन संस्कृत नाटकों आदि में स्त्रियो, सेवको और साधारण व्यक्तियों की बोलचाल में तथा अलग ग्रथों में पाई जाती है । भारत की बोलचाल की भाषाएँ बोलचाल की प्राकृतों से बनी हैं ।

विशेष—हेमचंद्र ने संस्कृत को प्राकृत की प्रकृति कहकर सूचित किया है कि प्राकृत संस्कृत से निकली है, पर प्रकृति का यह अर्थ नहीं है । केवल संस्कृत का आधार रखकर प्राकृत व्याकरण की रचना हुई है । पर अनुमान है कि इसी सत् से प्राय ३०० वर्ष पहले यह भाषा प्राकृत रूप में आ चुकी थी । उस समय इसके पश्चिमी और पूर्वी दो भेद थे । यह पूर्वी प्राकृत ही पाली भाषा के नाम से प्रसिद्ध हुई (दे० 'पाली') । बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ इस भागधी या पाली भाषा की बहुत अधिक उन्नति हुई, क्योंकि पहले उस धर्म के सभी ग्रथ इसी भाषा में लिखे गए । धीरे धीरे प्राचीन प्राकृतों के विकास से आज से प्राय १००० वर्ष पहले देश-भाषाओं का जन्म हुआ था । जिस प्रकार संस्कृत भाषा का सबसे पुराना रूप वैदिक भाषा है, उसी प्रकार प्राकृत भाषा

का भी जो पुराना रूप मिलता है उसे अप्रामं प्राकृत कहते हैं। कुछ बौद्ध तथा जैन विद्वानों का मत है कि पाणिनि ने इस अप्रामं प्राकृत का भी एक व्याकरण बनाया था। पर कुछ लोगों को यह संदेह है कि कदाचित् पाणिनि के समय प्राकृत भाषा का जन्म ही नहीं हुआ था।

मार्कण्डेय ने प्राकृत के इस प्रकार भेद किए हैं—(१) भाषा (महाराष्ट्री, शौरसेनी, प्राच्या, आवती, मागधी, अद्दमागधी), (२) विभाषा (शाकारी, चाडाली, शावरी, आभीरी, टाक्की, श्रीडू, द्राविडी), (३) अपभ्रंश, और (४) पेशाची। पुलिका पेशाची आदि कुछ निम्न श्रेणी की प्राकृतें भी हैं। सबसे प्राचीन काल में मागधी की भाषा पाली के नाम से साहित्य की ओर अप्रसर हुई। बौद्ध ग्रंथ पहले इसी भाषा में लिखे गए। यह मागधी व्याकरणों की मागधी से पृथक् और प्राचीन भाषा है। पीछे जैनो के द्वारा अद्दमागधी और महाराष्ट्री का आदर हुआ। महाराष्ट्री साहित्य की प्राकृत हुई जिसके एक कृत्रिम रूप का व्यवहार संस्कृत के नाटकों में हुआ। इन प्राकृतों से भागे चलकर और घिसकर जो रूप हुआ वह अपभ्रंश कहलाया। इसी अपभ्रंश के नाना रूपों से आजकल की आर्य शाखा की देशभाषाएँ निकली हैं। इसके अतिरिक्त ललितविस्तर में एक प्रकार की और प्राकृत मिलती है जो संस्कृत से बहुत कुछ मिलती जुलती है। प्राकृत भाषा में द्विवचन नहीं है और उसकी वर्णमाला में ऋ ऌ लृ ए और ओ स्वर तथा ष ष और विसर्ग नहीं हैं।

३. पराशर मुनि के मत से बुध ग्रह की सात प्रकार की गतियों में पहली और उस समय की गति जब वह स्वाती, भरणी और कुत्तिका में रहता है। यह चालीस दिन की होती है और इसमें आरोग्य, वृष्टि, धान्य की वृद्धि और मंगल होना है।

प्राकृतज्वर—सज्ञा पुं० [सं०] वैद्यक के अनुसार वह ज्वर जो वर्षा, शरद या हेमंत ऋतु में, ऋतु के प्रभाव से होता है।

विशेष—कहते हैं, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुओं में क्रमशः वात, पित्त और कफ की प्रधानता होती है और उसी समय मनुष्य पर वातादि की प्रधानता से ऐसा ज्वर आक्रमण करता है।

प्राकृतत्व—सज्ञा पुं० [सं०] प्राकृत होने का भाव या धर्म।

प्राकृतदोष—सज्ञा पुं० [सं०] वात, पित्त और कफ नामक प्रकृतियों के प्रकोप से उत्पन्न दोष जो वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुओं में यथाक्रम उत्पन्न होता है।

प्राकृतप्रलय—सज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार एक प्रकार का प्रलय जिसका प्रभाव प्रकृति तक पर पड़ता है, अर्थात् जिसमें प्रकृति भी ब्रह्म या परमात्मा में लीन हो जाती है।

प्राकृतमानुष—सज्ञा पुं० [सं०] साधारण व्यक्ति [को०]।

प्राकृतमित्र—सज्ञा पुं० [सं०] १ स्वभावसिद्ध मित्र। २. वह राजा जिसका राज्य प्राकृत शत्रु के वाद हो।

प्राकृतशत्रु—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्राकृतारि'।

प्राकृतारि—सज्ञा पुं० [सं०] १ स्वाभाविक शत्रु। स्वभावसिद्ध दुश्मन। २. वह राजा जिसका राज्य किसी अन्य राज्य से लगा हो।

प्राकृताभास—वि० स्त्री० [सं० प्राकृत + आभास] जिसमें वर्ण और वाक्य का विन्यास प्राकृत की भाँति ही है। जिसकी वनावट प्राकृत भाषा के आधार पर हो। उ०—इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की सातवीं शताब्दी में मिलता है।—इतिहास, पृ० ६।

प्राकृतिक^१—वि० [सं०] १. जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो। २. प्रकृति के विकार। ३. प्रकृति सवधी। प्रकृति का। ४. स्वाभाविक। सहज। उ०—इसी प्रकार शिथिल में दुशाला ओढ़े 'गुलगुली गिलमें, गलीचा' विछाकर बैठे हुए स्वर्ग से धूप में खपरल पर बैठे वदन चाटती हुई विल्ली में अधिक प्राकृतिक भाव है।—रस०, पृ० १४३। ५. साधारण। मामूली। ६. भौतिक। ७. सासारिक। लौकिक। ८. नीच।

प्राकृतिक^२—सज्ञा पुं० दे० 'प्राकृतप्रलय'।

प्राकृतिक चिकित्सा—सज्ञा स्त्री० [सं० प्राकृतिक + चिकित्सा] वह चिकित्सा पद्धति जिसमें प्रकृतिजन्य साधनों (जैसे मिट्टी, पानी आदि) से चिकित्सा की जाती है।

प्राकृतिक भूगोल—सज्ञा पुं० [सं०] भूगोल विद्या का वह अंग जिसमें भौगोलिक तत्वों का तुलनात्मक दृष्टि से विचार होता है।

विशेष—भूगर्भ शास्त्र से इसमें यह अंतर है कि भूगर्भ शास्त्र तो पृथ्वी की वनावट के प्राचीन इतिहास से संबंध रखता है, पर इस शास्त्र में उसकी वर्तमान स्थिति तथा भिन्न भिन्न प्राकृतिक अवस्थाओं का वर्णन होता है। इस विद्या में यह बतलाया जाता है कि पर्वत, समुद्र, नदियाँ, द्वीप और महाद्वीप आदि किस प्रकार बनते हैं, पहाड़ों की ऊँचाई और समुद्रों की गहराई कितनी है, समुद्र में ज्वार भाटा किस प्रकार आता है, पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में प्राणियों और वनस्पतियों आदि का किस प्रकार विभाग हुआ है, वातावरण का तापमान कहीं किस प्रकार और कितना घटता बढ़ता है, और किस प्रकार ऋतुपरिवर्तन होता है, और नदियों तथा झीलों आदि की सृष्टि किस प्रकार होती है, आदि आदि।

प्राक्कथन—सज्ञा पुं० [सं०] (किसी पुस्तक की) भूमिका या प्रस्तावना।

प्राक्कर्म—सज्ञा पुं० [सं० प्राक्कर्मन्] १ पूर्वकर्म। २, अदृष्ट। भाग्य।

प्राक्कल्प—सज्ञा पुं० [सं०] पुराकल्प। पूर्वकल्प।

प्राक्काल—सज्ञा पुं० [सं०] गत समय। प्राचीन काल [को०]।

प्राक्कालिक, प्राक्कालीन—वि० [सं०] पुराकालीन। पहले का। प्राचीन काल से संबंधित। प्राचीन काल का [को०]।

प्राक्कूल—सज्ञा पुं० [सं०] वह कुश जिसका अगला भाग पूर्व की ओर किया गया हो।

प्राक्कृत^१—सज्ञा पुं० [सं०] पूर्व में किया हुआ कर्म। कर्म जो पूर्व जन्म में कृत हो।

प्राक्कृत^२—वि० पूर्व काल या जन्म में कृत।

प्राक्केवल—वि० [सं०] जो पहले से ही मित्र रूप में प्रकट रहा हो।

प्राक्चरण—सज्ञा पुं० [सं० प्राक्चरणा] भग। योगि।

प्राक्चिह्न—क्रि० वि० [सं०] ठीक समय पर। अधिक देर होने के पूर्व [क्रि०]।

प्राक्छाय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जिस समय छाया पूर्व की ओर पड़ती हो। अपराह्न काल।

प्राक्तन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह कर्म जो पहले किया जा चुका हो और आगे जिसका शुभ और अशुभ फल भोगना पड़े। भाग्य। प्रारब्ध।

प्राक्तन^२—वि० प्राचीन। पुराना। पहले का।

प्राक्तूल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रक्कूल'।

प्राक्पद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] समास में पूर्व पद [क्रि०]।

प्राक्प्रवण—वि० [सं०] पूरव की ओर मुकावदार या ढालुवाँ [क्रि०]।

प्राक्प्रहार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पहला आक्रमण। प्रथम आघात [क्रि०]।

प्राक्फल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कटहर।

प्राक्फाल्गुनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्राक्फाल्गुनी'।

प्राक्फाल्गुन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वृहस्पति ग्रह।

प्राक्फाल्गुनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र।

यौ०—प्राक्फाल्गुनीभववृहस्पति ग्रह।

प्राक्संध्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्राक्सन्ध्या] वह संधिकाल जो दिन आरम्भ में हो। सूर्योदय के समय का संधिकाल। सवेरा।

प्राक्सधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रातःकालीन उदकदान, या हवन यज्ञ [क्रि०]।

प्राक्सी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह लेख जिसके द्वारा किसी सस्या का कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य आदि को अपना प्रतिनिधि नियत करके उसे अपनी ओर से उपस्थित होकर समति प्रदान करने का अधिकार देता है। प्रतिनिधिपत्र। २ प्रतिनिधि। वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर उसका कर्तव्य पालन करे।

प्राक्सौमिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह कर्तव्य जो यजमान को सोमयाग के पूर्व कर लेना चाहिए। जैसे, अग्निहोत्र, दर्शपोर्णुमास, पशुयाग।

प्राक्स्रोता—वि० [सं० प्राक्स्रोतस्] पूरव की ओर बहनेवाला [क्रि०]।

प्राखर्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रखरता। तीक्ष्णता। तेजी।

प्राग(पु)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रयाग] तीर्थराज प्रयाग। उ०—कासी प्राग द्वारिका मथुरा, कहें कहें चित्त दौरावों।—जग० श०, पृ० ११७।

प्रागट्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राकट्य] दे० 'प्राकट्य'। उ०—सो हरि जी तो सुरगी सखी की प्रागट्य हैं।—दी० सी० बावन०, भा० १, पृ० १५१।

प्रागनुराग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूर्वापुराग।

प्रागभाव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह अभाव जिसके पीछे उसका प्रतियोगी भाव उत्पन्न होता है। किसी विशेष समय के पूर्व न होना। जैसे, घट, वस्त्र बनने के पूर्व नहीं थे। इस प्रकार के अभाव को वैशेषिक शास्त्र में प्रागभाव कहते हैं। वैशेषिक

दर्शन में यह पाँच प्रकार के अभावों में पहला माना गया है।

२. वह पदार्थ जिसका आदि न हो पर अंत हो। अनादि। सात पदार्थ।

प्राग्भिहित—वि० [सं०] पूर्वोक्त। पूर्वकथित [क्रि०]।

प्रागल्भ्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रगल्भता। वीरता। २. धीरता। ३. साहस। ४ निर्भयता। ५ घमड। ६ चतुरता। ७. प्रधानता। प्रबलता।

प्रागार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रासाद। भवन। महल।

प्रागुक्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पूर्वकथन। बात जो पहले कही गई हो [क्रि०]।

प्रागुत्तर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रागुत्तरा'।

प्रागुत्तरा—देश० स्त्री० [सं०] पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। ईशान कोण।

प्रागुदीची—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। ईशान कोण।

प्रागैतिहासिक—वि० [सं०] इतिहास से पूर्व का। उस समय से पूर्व का जहाँ से इतिहास उपलब्ध होता है। उ०—वह समस्या यह है कि प्राचीन ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक कथा-नकों और भावधारार्यों को हम आज किस रूप में अपनाएँ। नया०, पृ० १७।

प्राग्ज्योतिष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] महाभारत आदि के अनुसार कामरूप देश।

विशेष—प्राग्ज्योतिष देश आसाम में है। महाभारत के समय में यहाँ का राजा भगदत्त था और वह चीन और किरात की सेना लेकर महाभारत सग्राम में आया था। यह देश अपनी राजधानी प्राग्ज्योतिष के नाम से प्रख्यात है जिसे अब गोहाटी कहते हैं। यहाँ देवी योगनिद्रा का प्रधान स्थान है। पौराणिक दृष्टि से यह स्थान बहुत ही पवित्र और सर्वतोभद्रा नामक लक्ष्मी का निवासस्थान माना जाता है। कहते हैं, नरकासुर की राजधानी यही थी। रामायण में लिखा है कि इस देश की राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर को कुश के पुत्र अमूर्तरज ने बसाया था।

प्राग्ज्योतिषपुर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्राग्ज्योतिष देश की राजधानी जिसे अब गोहाटी कहते हैं। रामायण के अनुसार इस नगर को कुश के पुत्र अमूर्तरज ने बसाया था।

प्राग्दक्षिणा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा। दक्षिणपूर्व।

प्राग्देश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूर्व की ओर के देश। पूरव के देश [क्रि०]।

प्राग्द्वार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूरव की ओर का दरवाजा [क्रि०]।

प्राग्बोधि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक पर्व का नाम।

प्राग्भक्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ भोजन करने के पहले औषध खाना। २ सुश्रुत के अनुसार औषध खाने के दस समयों में से एक। दवा खाने के लिये भोजन करने से पहले का समय।

विशेष—सुश्रुत में लिखा है कि जो औषध भोजन करने से पहले

खाया जाता है वह के के रास्ते बाहर नहीं निकलता, खाया हुआ अन्न बहुत अच्छी तरह पचाता है और बल बढ़ाता है। बुढ़ों, बालको, स्त्रियों और दुर्बलों आदि के लिये ऐसे ही समय दवा खाने का विधान है।

प्राग्भरा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] जैन मतानुसार सिद्धशिला का एक नाम।

प्राग्भव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जन्म [को०]।

प्राग्भार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पर्वत के आगे का भाग। २ किसी वस्तु का अगला भाग या सिरा। ३ उत्पत्ति। उत्कर्ष। ४. राशि। ढेर। बाढ़ [को०]।

प्राग्भाव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पर्वत के आगे का भाग। २ उत्कर्ष। उन्नति। ३ पूर्व जन्म।

प्राग्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चरम बिंदु [को०]।

प्राग्सर—वि० [सं०] १. श्रेष्ठ। २ प्रथम। पहला।

प्राग्हर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मुख्य। श्रेष्ठ।

प्राग्घाट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पतला। दही। मठा।

प्राग्य—वि० [सं०] श्रेष्ठ। बड़ा।

प्राग्वश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ यज्ञशाला में वह घर जिसमें यजमानादि रहते हैं। यह घर हविर्गृह के पूर्व और होता है। २ विष्णु ३ पूर्व वश। पहले का वश।

प्राग्वचन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. महाभारत के अनुसार मन्वादि महर्षियों के वचन। २. पूर्व का निश्चय। पहले का निर्णय [को०]।

प्राग्वर्ती—वि० [सं०] प्राक् + वर्तिन् । पूर्व का। प्रारम्भ का। शुरु का।

प्राग्वाट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] रामायण के अनुसार प्राचीन काल के एक नगर का नाम।

विशेष—यह नगर यमुना और गंगा के बीच में था। भारत जी केकय से अयोध्या आते समय इस नगर में से होकर आये थे।

प्राग्वृत्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पहले की घटना। पहले का हालचाल [को०]।

प्राग्वृत्तात्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूर्ववृत्त। प्राग्वृत्त।

प्राघात—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. भारी आघात। कड़ी चोट। २. युद्ध। समर [को०]।

प्राघार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चूना। टपकना। क्षरण [को०]।

प्राघुण, प्राघूणक, प्राघुणिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे०, 'प्राघूण' [को०]।

प्राघूण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अतिथि। मेहमान। पाहुना।

प्राघूणिक—दे० पुं० [सं०] अतिथि। मेहमान।

प्राघूण, प्राघूणक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्राघूण' या 'प्राघूणिक'।

प्राघूणिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्राघूण'।

प्राङ् न्याय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह विवाद जो पहले किसी न्यायालय में निर्णीत हो चुका हो। किसी विवाद का पहले भी किसी न्यायालय में उपस्थित होकर निर्णीत हो चुकना।

विशेष—अध्याहारशास्त्र के अनुसार यह अभियोग का एक प्रकार

का उत्तर है जिसके उपस्थित होने पर यह विवाद नहीं चल सकता। यह उत्तर उसी समय दिया जा सकता है जब उपस्थित विवाद के सबंध में पहले ही न्यायालय में निर्णय हो चुका हो। अर्थात् प्रतिवादी कह सकता है कि पहले इस विवाद का निर्णय हो चुका है, फिर से इसका निर्णय होने की आवश्यकता नहीं।

प्राङ्मुख—वि० [सं०] जिसका मुँह पूर्व दिशा की ओर हो। पूर्वाभिमुख।

प्राचंड्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्राचण्ड्य] प्रचंडता। तीव्रता। उग्रता। भयकरता [को०]।

प्राच्—वि० [सं०] [स्त्री० प्राची] पूर्व।

प्राचार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का कीड़ा।

प्राचार—वि० [सं०] प्रचलित परंपरा या नियम के विरुद्ध [को०]।

प्राचार्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ आचार्य। गुरु। शिक्षक। २. विद्वान्। पंडित।

प्राचिका—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ हांस की जाति की एक प्रकार की जंगली मक्खी। २ श्येन। बाज [को०]।

प्राची—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. पूर्व दिशा। पूरव। उ०—पूरन ससि प्राची उदै बिहरनि रुचि कीनी।—घनानंद, पृ० ४५५। २. वह दिशा जो देवता के या अपने आगे की ओर हो। ३ जल प्रांवाला।

प्राचीन^१—वि० [सं०] १ जो पूर्व देश में उत्पन्न हुआ हो। पूरव का। २. जो पूर्व काल में उत्पन्न हुआ हो। पिछले जमाने का। पुराना। पुरातन। ३ वृद्ध। बुढ़ा।

यौ०—प्राचीनकल्प = पुरा कल्प। प्राचीनगाथा = पुराना इतिहास। पुरानी कथा। प्राचीनतिलक। प्राचीनपनस। प्राचीनवर्हिप। प्राचीनमत = पुराना विश्वास। पहले से चला आता मत। प्राचीनमूल।

प्राचीन^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्राचीर'।

प्राचीन काव्यमिश्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह दृश्य काव्य जिसकी रचना प्राचीन काल में हुई हो और जिसका अभिनय भी प्राचीन काल में होता रहा हो।

विशेष—इसके पाँच भेद हैं—(१) नाट्य, (२) नृत्य, (३) नृत्त, (४) तंडव और (५) लास्य।

प्राचीनकुल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्राचीन ऋषि का नाम जिन्हे आयातरतम और प्राचीनगर्भ भी कहते हैं।

प्राचीनगर्भ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्राचीन ऋषि का नाम जिनको प्राचीनकुल और आयातरतम भी कहते हैं।

प्राचीनता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्राचीन होने का भाव। पुरानापन। जैसे—इस पुस्तक की प्राचीनता में कोई सदेह नहीं हो सकता।

प्राचीनतिलक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चंद्रमा।

प्राचीनत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन होने का भाव। प्राचीनता। पुरानापन।

प्राचीनरत्नस—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बेल का पेड़ ।

प्राचीनवर्हि—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राचीनवर्हिस्] १ इद्र । २ एक प्राचीन राजा का नाम ।

विशेष—अग्निपुराणानुसार यह अग्निगोत्रीय राजा हविर्धान के पुत्र थे और प्रजापति कहलाते थे । प्रचेतागण इनके पुत्र थे ।

प्राचीनमूल—वि० [सं०] जिसका जड़ या मूल पूर्व और हो [तो०] ।

प्राचीनयोग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्राचीन गोत्रप्रवर्तक ऋषि का नाम ।

प्राचीनशाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पुराना घर । २ पूर्व दिशा का घर ।

प्राचीना^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पाठा । २ रास्ता ।

प्राचीना^२—वि० स्त्री० [सं० प्राचीन का स्त्रीलिंग रूप] जो प्राचीन हो ।

प्राचीनामलक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पानी आमला । जल आमला ।

प्राचीनावीत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] यज्ञोपवीत धारण करने का एक प्रकार जिसमें बायाँ हाथ यज्ञोपवीत से बाहर रहता और यज्ञोपवीत दाहिने कंधे पर रहता है । यह उपवीत का उलटा है । इस प्रकार का यज्ञोपवीत पितृकार्य में धारण किया जाता है । पितृसव्य । सव्य ।

प्राचीनावीती—वि० [सं० प्राचीनावीतिन्] जो प्राचीनावीत यज्ञोपवीत धारण किए हो । सत्य ।

प्राचीनोपवीत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्राचीनावीत' ।

प्राचीपति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] इद्र ।

प्राचीर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नगर या किले आदि के चारो ओर उसकी रक्षा के उद्देश्य से बनाई हुई दीवार । चहारदीवारी । शहर पनाह । परकोटा ।

प्राचीरवती—वि० [सं० प्राचीर + वत + ई (प्रत्य०)] प्राचीरयुक्त । चहारदीवारी से आवृत । उ०—मैंने नयनोन्मीलन करके इधर उधर, सब ओर निहारा, पर लोचनगत हुई मुझे तो यह प्राचीरवती छ्द कारा ।—अपलक, पृ० ७६ ।

प्राचुर्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राचुर्य, प्राचुर्य] १ प्रचुर होने का भाव । अधिकता । प्रचुरता । बहुतायत । २ राशि । ढेर (को०) ।

प्राचेतस्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्रचेतागण जो प्राचीनवर्हि के पुत्र थे और जिनकी संख्या दस थी । २. वाल्मीकि मुनि का नाम । ३. प्रचेता के अपत्य या वंशज । ४. विष्णु । ५. दक्ष । ६. मनु का पितृक नाम (को०) । ७. वरुण के पुत्र का नाम ।

प्राच्य^१—वि० [सं०] १ पूर्व देश या दिशा में उत्पन्न । पूर्व का । २ पूर्वीय । पूर्व संबन्धी । जैसे, प्राच्य सभ्यता, प्राच्य विद्या महाराष्ट्र । ३ पूर्व काल का । पुराना । प्राचीन ।

प्राच्य^२—सञ्ज्ञा पुं० शरावती नदी के पूर्व का देश ।

प्राच्यक—वि० [सं०] पूर्वी । पूरब का (को०) ।

प्राच्यभाषा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पूर्वी या पुरानी भाषा (को०) ।

प्राच्यवृत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वैताली वृत्ति के एक भेद का नाम जिसके सम पादों में चौथी और पाँचवी मात्रा मिलकर गुण

हो जाती है । जैसे,—हर हर भज जाम पाठहूँ । तज सबे भरम रे करो यही । तन मन धन दे लगा सबे । पाइहो परम धाम ही सही ।

प्राच्यायन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूर्व के ऋषियों के गोत्र में उत्पन्न पुरुष ।

प्राच्छित्त, प्राच्छित्त(०)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रायश्चित्त] दे० 'प्रायश्चित्त' । उ०—(क) जिहि विरचि रवि जिन प्रपंच की प्राच्छित्त कोन्ह्यो ।—रत्नाकर, भा० १, पृ० ५५ । (ख) चौदह नेम सँभाले निच । लागे दोष करै प्राच्छित्त ।—अर्ध०, पृ० ५४ ।

प्राजक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सारथी । रथ चलानेवाला ।

प्राजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कोडा । चाबुक (को०) ।

प्राजहिष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गार्हपत्य अग्नि ।

प्राजापति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रजापति का धर्म या भाव ।

प्राजापत्य^१—वि० [सं०] १ प्रजापति संबंधी । २. प्रजापति से उत्पन्न । ३ प्रजापति निमित्तक ।

प्राजापत्य^२—सञ्ज्ञा पुं० १ आठ प्रकार के विवाहों में चौथा ।

विशेष—इस विवाह में कन्या का पिता वर और कन्या को एकत्र कर उनसे यह प्रतिज्ञा कराता है कि हम दोनों मिलकर गार्हस्थ धर्म का पालन करेंगे, और फिर दोनों की पूजा करके वर को अलंकारयुक्त कन्या का दान करता है । ऐसे विवाह को काम भी कहते हैं ।

२ एक व्रत का नाम जो वारह दिन का होता है ।

विशेष—इस व्रत में पहले तीन दिन तक सायंकाल २२ ग्रास, फिर तीन दिन तक प्रातःकाल २६ ग्रास, फिर तीन दिन तक अर्धरात्रि अन्न २४ ग्रास खाकर अंत के तीन दिन उपवास करना पड़ता है । धर्मशास्त्रों में इस व्रत का विधान प्रायश्चित्त में किया गया है ।

३. रोहिणी नक्षत्र । ४. यज्ञ । ५. प्रयाग का नाम । ६. विष्णु का नाम (को०) । ७. पितृलोक ।

प्राजापत्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. एक इष्टि का नाम ।

विशेष—यह इष्टि अन्नज्याश्रम या सन्यासाश्रम ग्रहण के समय की जाती है । इस यज्ञ में सर्वस्व दक्षिणा में दे दिया जाता है ।

२. वैदिक छंदों के आठ भेदों में एक भेद ।

प्राजिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बाज नामक पक्षी ।

प्राजिता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राजित्] सारथी ।

प्राजी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राजिन्] एक प्रकार का पक्षी । श्येन ।

प्राजेश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ रोहिणी नक्षत्र । २ वह वरु आदि पदार्थ जो प्रजापति देवता के लिये हो ।

प्राज्ञमन्य, प्राज्ञमानी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राज्ञमन्य, प्राज्ञमामिन्] दे० 'प्राज्ञमानी' (को०) ।

प्राज्ञ^१—वि० [सं०] [स्त्री० प्राज्ञा, प्राज्ञी] १. बुद्धिमान् । समझदार । चतुर । २. विज्ञ । पंडित । विद्वान् । उ०—जायत ती

नहिं मेरे विषे कछु स्वप्न सुतो नहिं मेरे विषे है। नाहिं सुषोपति मेरे विषे पुनि विषय हूँ तैजस प्राज्ञ पर्व है।—सु० द० ग्र०, भा० २, पृ० ६१६। ३. मुखे । वेवकूप ।

प्राज्ञ^२—सज्ञा पु० १ वेदातसार के अनुसार जीवात्मा । २ पुराणा-नुसार कल्किदेव के बड़े भाई का नाम । ३ चतुर मनुष्य । बुद्धिमान व्यक्ति (को०) । ४. एक प्रकार का शुक्र या तोता (को०) ।

प्राज्ञता—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्राज्ञत्व' [को०] ।

प्राज्ञत्व—सज्ञा पु० [सं०] १ चतुराई । बुद्धिमत्ता । २ पांडित्य । विज्ञता । ३ सुर्वता । वेवकूपी ।

प्राज्ञमन्य—वि० [सं०] दे० 'प्राज्ञमानी' ।

प्राज्ञमान—सज्ञा पु० [सं०] प्राज्ञ व्यक्ति का आदर [को०] ।

प्राज्ञमानी—सज्ञा पु० [सं०] प्राज्ञमानित्व वह जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो । जो अपने आपको विद्वान् या बुद्धिमान समझना हो ।

प्राज्ञा—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ बुद्धि । समझ । उ०—प्राज्ञा अभिमानी जु ब्रह्माकृत जमगुण रूपा । ईश्वर तहें देवता भोग आनंद स्वरूपा ।—सु० द० ग्र०, भा० १, पृ० ६८ । २ चतुरा स्त्री । विदुषी स्त्री ।

प्राज्ञी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ सूर्य की भार्या का नाम । २ विद्वान् की स्त्री (को०) । ३ चतुरा या विदुषी स्त्री (को०) ।

प्राज्य—वि० [सं०] १ प्रचुर । अधिक । बहुत । २. जिसमें बहुत धीं पडा हो । ३ विशाल (को०) । ४ उच्च । ऊँचा (को०) ।

प्राड्विवाक—सज्ञा पु० [सं०] १ वह जो व्यवहारशास्त्र का ज्ञाता हो और विवादों आदि का निर्णय करता हो । न्याय करनेवाला । न्यायाधीश ।

विशेष—प्राचीन काल में जो राजा स्वयं न्याय नहीं करते थे वे विद्वान् ब्राह्मणों को प्राड्विवाक या न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर देते थे । वे ही सब झगड़ों का फैसला किया करते थे ।

२ वह जो दूसरों के अभियोग आदि चलाता या उनका उत्तर देता हो । वकील ।

प्राड्विवेक—सज्ञा पु० [सं०] दे० 'प्राड्विवाक' ।

प्रायत—सज्ञा पु० [सं०] प्रायन्त] १ वायु । हवा । २ रसाजन ।

प्रायंती—सज्ञा स्त्री० [सं०] प्रायन्ती] १ क्षुधा । भूख । २. हिक्का । हिचकी । ३. छीक ।

प्राण—सज्ञा पु० [सं०] दे० 'प्राण' [को०] ।

प्राण—सज्ञा पु० [सं०] १ वायु । हवा । २ शरीर की वह वायु जिससे मनुष्य जीवित रहता है । उ०—कह कथा अपनी इस घ्राण से, उड गए मधु शौरभ प्राण से ।—संकेत, पृ० २६७ ।

विशेष—हिंदुओं के शास्त्रों में देशभेद से दस प्रकार के प्राण माने गए हैं जिनके नाम प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकिल, देवदत्त और मनजय हैं । इनमें पहले पाँच

(प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान) मुख्य हैं, और पंचप्राण कहलाते हैं । ये सबके सब मनुष्य के शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में काम किया करते हैं और उनके प्रकोप करने से मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के रोग उठ खड़े होते हैं । इन सबमें प्राण सबसे प्रधान और मुख्य है । जिस वायु को हम अपने नथने द्वारा साँस से भीतर ले जाते हैं उसे प्राण कहते हैं । इसी पर मनुष्य, पशु आदि जंतुओं का जीवन है । इस वायु का मुख्य स्थान हृदय माना गया है । प्राण धारण करने ही के कारण साँस लेनेवाले जंतुओं को प्राणी कहते हैं । मरने पर श्वास प्रश्वास, या वायु का गमनागमन बंद हो जाता है, इसलिये लोगों का कथन है कि मरने पर प्राण निकल जाते हैं । शास्त्रों में श्वाँस, कान, नाक, मुँह, नाभि, गुदा, मूर्च्छेन्द्रिय और ब्रह्मरन्ध्र आदि प्राणों के निकलने के मार्ग माने गए हैं । लोगों का कथन है कि मरने के समय मनुष्य के शरीर से जिस इन्द्रिय के मार्ग से प्राण निकलते हैं, वह कुछ अधिक फैल जाती है और ब्रह्मरन्ध्र से निकलने पर खोपड़ी चिटक जाती है । लोगों का विश्वास है कि जिस मनुष्य के प्राण नाभि से ऊपर के मार्गों से निकलते हैं उसकी सद्गति होती है और जिसके प्राण नाभि से नीचे के मार्गों से निकलते हैं उसकी दुर्गति या अव्यगति होती है । ब्रह्मरन्ध्र से प्राण निकलनेवाले के विषय में यह प्रसिद्ध है कि उसे निर्वाण या मोक्ष पद प्राप्त होता है । प्राण शब्द का प्रयोग प्राय बहुवचन में ही होता है ।

३. जैन शास्त्रानुसार पाँच इन्द्रियाँ, मनोबल, वाक्बल, और कायबल नामक त्रिविध बल तथा उच्छ्वास, विश्वास और वायु इन सबका समूह । ४ श्वास । साँस । ५ छादोग्य ब्राह्मण के अनुसार प्राण, वाक्, चक्षु श्रोत्र और मन । ६ वाराहमिहिर और आर्यभट्ट आदि के अनुसार काल का वह विभाग जिसमें दस दीर्घ मात्राओं का उच्चारण हो सके । यह विनाडिका का छठा भाग है । ७ पुराणानुसार एक कल्प का नाम जो ब्रह्मा के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन पड़ता है । ८ बल । शक्ति । ९. जीवन । जान । उ०—(क) अगद दीख दसानन वैसा । सहित प्राण कज्जल गिरि जैसा ।—तुलसी (शब्द०) । (ख) प्राण दिए घन जायें दिए सब । केशव राम न जाहिं दिए भव ।—केशव (शब्द०) । (ग) ए रे मेरे प्राण कान्ह प्यारे के चलाचल में तब तो चले न भव चाहत किते चले ।—पदाकर (शब्द०) ।

यौ०—प्राणआधार या प्राणाधार । प्राणप्रिय । प्राणप्यारा । प्राणानाथ । प्राणपति, इत्यादि ।

विशेष—इस शब्द के साथ अत में पति, नाथ, कात आदि शब्द समस्त होने पर पद का अर्थ प्रेमी या पति होता है ।

मुहा०—प्राण उड़ जाना = (१) होश हवास जाता रहना । बहुत घबराहट हो जाना । हक्का बक्का हो जाना । जैसे,—उसके देखने ही से उसमें के बच्चों का प्राण उड़ गया ।—गदाधरसिंह (शब्द०) । (२) डर जाना । भयभीत होना ।

प्राण आना या प्राणों में प्राण आना = धवराहट या भय कम होना । चित्त कुछ ठिकाने होना । हवास ठिकाने होना । प्राण या प्राणों का गले तक आना = मरने पर होना । मरणासन्न होना । उ०—ठाने अथवा जेठानिनहूँ सब लोगन हूँ अकलंक लगाए । सासु खरी गहि गौस खरी ननदीन के कोल न जात गिनाए । एती सही जिनके लए मैं सखी तै कहि बौने कहाँ विलमाए । आय गले लगे प्राण पै कैसेहूँ कान्हर राज अजो नहि आए ।—(शब्द०) । प्राण या प्राणों का मुँह को आना या चले आना = (१) मरने पर होना । (२) अत्यंत दुःख होना । बहुत अधिक हादिक कष्ट होना । जैसे,—हाय हाय इसकी बातों से तो प्राण मुँह को चले आते हैं और मालूम होता है कि ससार उलटा जाता है ।—हरिश्चंद्र (शब्द०) । प्राण या प्राणों के चले पडना = प्राणों की चिता होना । प्राणरक्षा की परवा होना । जैसे,—ब्राह्मणों के प्राणों के लाले पड रहे थे ।—प्रेमघन०, पृ० ३०६ । प्राण खाना = बहुत तग करना । बहुत सताना । प्राण छटना, जाना या निकलना = जीवन का अंत होना । मरना । प्राण डालना = जीवन प्रदान करना । जीवन का संचार करना । प्राण त्यागना, तजना या छोड़ना = मरना । प्राण देना = मरना । किसी पर या किसी के ऊपर प्राण देना = (१) किसी के किसी काम से बहुत दुखी या रुब होकर मरना । (२) किसी को बहुत अधिक चाहना । प्राणों से भी बढ़कर चाहना । प्राण नहीं में समाना = भयभीत होना । आशंकित होना । प्राण निकलना = (१) मर जाना । मरना । (२) भय से होश हवास जाता रहना । धवरा जाना । भयभीत होना । प्राण पचाना होना = प्राण निकलना उ०—प्राण पचाव होत को राखा । कोयल श्री चातक मुख भाखा ।—जायसी (शब्द०) । प्राणों पर आ पडना = जीवन का सकट में पडना । जान जोखिम होना । घड़ी कठिनाई पडना । उ०—ब्रज यहि जाय ना कहूँ यों भाई आखिन ते, उमगि अनोखी घटा बरसति नेह की । कहै पचाकर चलावै खान पान की को, प्राणन परी है आनि दहसति देह की ।—पचाकर (शब्द०) । प्राण या प्राणों पर खेलना = ऐसा काम करना जिसमें जान जाने का भय हो । प्राणों को सकट में डालना । उ०—तुम तो अपने ही मुख भूठे । हमसो मिसे बरप द्वादस दिन चारिक तुम सो तूठे । सूर आपने प्राणन खेलै ऊधो खेखै रूठे ।—सूर (शब्द०) । प्राण या प्राणों पर वीतना = (१) जीवन सकट में पडना । जान जोखिम होना । जैसे,—ऐसे समय जब कि क्षण क्षण केटो के प्राण पर वीत रही है ।—तोताराम (शब्द०) । (२) जान निकल जाना । मर जाना । प्राण बचाना = (१) जीवन की रक्षा करना । जान बचाना । (२) जान छुडाना । पीछा छुडाना । प्राण मुट्ठी में या हथेली पर लिए रहना = जीवन को कुछ न समझना । प्राण देने पर उतारू रहना । जैसे,—रात दिन लीलायश गाती हैं और अवधि की आस किए प्राण मूठी में लिए हैं ।—लल्लू

(शब्द०) । प्राण रगना = (१) जिलाना । जीवन देना । (२) जान बचाना । जीवन की रक्षा करना । प्राण खेना = मार डालना । जान लेना । उ०—वलनिकेत साकेत चटयो निज विजय हेतु बढ़ि । प्रंतराज गम समर गेत पर प्राण सेत बढ़ि ।—गोपाल (शब्द०) । प्राण हरना = (१) मारना । मार डालना । उ०—कीन के प्राण हरे हम, यों दग कानन लागि मतो चहै नृमन ।—(शब्द०) । (२) अधिक दुःख देना । उ०—मिलत एक दाया दुख देही । बिलुरत एक प्राण हरि लेही ।—तुलसी (शब्द०) । प्राण हारना = (१) मर जाना । उ०—सब बल तजे प्रेम के नाते । समुभन मीन नीर की वारें तजत प्राण हृठि हारत । जानि पुरग प्रेम नहि त्यागत यदपि व्याघ घार मारत ।—सूर (शब्द०) । (२) साहस दूट जाना । उल्हाह न रह जाना । प्राण या प्राणों से हाथ धोना = जान देना । मर जाना । प्राण मा पाना = उत्साहित होना । सजीव होना ।

१० वह जो प्राणों के समान प्यारा हो । परम प्रिय । ११. वैवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक ऋषि । १२ हरिवंश के अनुसार घर नामक वसु के एक पुत्र का नाम । १३ यकार वर्ण । १४ एक साम का नाम । १५ ब्रह्म । १६ अक्षा । १७ विष्णु । १८ घाता के पुत्र का नाम । १९ अग्नि । अग । २० एक गध द्रव्य (को०) । २१ मूलाधार में रहने-वाली वायु ।

प्राणप्रधार^१—मन्त्र पुं० [सं० प्राण+प्रधार] १ वह जो प्राणों के समान प्यारा हो । बहुत प्रिय व्यक्ति । उ०—(क) अथ ही और की और हीति बहुत लागे वाय, ताते में पाती लिखी तुम प्राणप्रधारा ।—सूर (शब्द०) । (ख) अपने ही गेह मधुपुरी प्रावन देवकी प्राणप्रधारा हो । असुर मारि सूर साथ बढ़ावन ब्रजजन सुखदातारा हो ।—सूर (शब्द०) । २. पति । स्वामी ।

प्राणप्रधार^२—वि० प्रिय ।

प्राणक—सज्ञा पुं० [म०] १ जीवक वृक्ष । २ जीव । प्राणी । ३ एक प्रकार का सुगंधित गोंद । वीस (को०) ।

प्राणकर—वि० [सं०] जिससे शरीर का बल बढ़े । शक्तिवर्द्धक । पीष्टिक ।

प्राणकष्ट—मन्त्र पुं० [सं०] वह दुःख जो प्राण निकलते समय होता है । मरने के समय की पीडा ।

प्राणकात—मन्त्र पुं० [म० प्राणकान्त] १ प्रिय व्यक्ति । प्यारा । २ पति । स्वामी ।

प्राणकृच्छ्र—मन्त्र पुं० [सं०] वह कष्ट जो मरने के समय होता है । प्राणकष्ट ।

प्राणग्रह—सज्ञा पुं० [सं०] नासिका । नाक ।

प्राणघात—सज्ञा पुं० [सं०] मार डालना । हत्या । बध ।

प्राणघातक—वि० [म०] प्राण लेनेवाला । मार डालनेवाला (को०) ।

प्राणघ्न—वि० [सं०] (वह विष आदि) जिससे प्राण निकल जायें । प्राण लेनेवाला (जहर आदि) ।

प्राणचय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बल या शक्ति की वृद्धि [को०] ।
 प्राणच्छिद्—वि० [सं०] प्राणघाती । प्राण लेनेवाला [को०] ।
 प्राणच्छेद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हत्या । वध ।
 प्राणजीवन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्राणाधार । २ परम प्रिय व्यक्ति ।
 अत्यंत प्रिय मनुष्य । उ०—रघुनाथ पियारे आजु रहो हो ।
 चारि याम विश्राम हमारे छिन छिन मीठे वचन कहो हो ।
 बृथा होइ वर वचन हमारो री कैकेयी जीव कल से रहो हो ।
 भ्रातुर है अब छाडि कोशलपुर प्राणजीवन कित चलन चहो
 हो ।—सूर (शब्द०) ।
 प्राणजीवन^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विष्णु, जो प्राणों की रक्षा करते हैं ।
 प्राणत्याग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्राण छोड़ देना । आत्मघात करना ।
 २ मर जाना । मरण । मृत्यु ।
 प्राणथ^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. जैन शास्त्रानुसार एक देवता, जो
 कल्पभव नामक वैमानिक देवताओं के अंतर्गत हैं । २ वायु ।
 हवा । ३ श्वास वायु । ४ प्रजापति । ५ तीर्थ । पवित्र
 स्थान ।
 प्राणथ^२—वि० बलवान् । हृष्ट पुष्ट । ताकतवाला ।
 प्राणदृढ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणदृढ] किसी को हत्या अथवा इसी
 प्रकार के दूसरे अपराध के घदले में मार डालना । मौत की
 सजा ।
 क्रि० प्र०—देना ।—पाना ।—होना ।
 प्राणद^१—वि० [सं०] १ प्राणदाता । जो प्राण दे । २ प्राणों की
 रक्षा करनेवाला ।
 प्राणद^२—सञ्ज्ञा पुं० १ खल । पानी । २ रक्त । खून । ३. जीवक
 नामक वृक्ष । ४. विष्णु ।
 प्राणदयित^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पति [को०] ।
 प्राणदयित^२—वि० प्राणप्रिय [को०] ।
 प्राणदा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ हरीतकी । हरे । २ ऋद्धि नामक
 ओषधि ।
 प्राणदाता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणदात्] १ किसी को बचाने में प्राण
 देनेवाला । २. प्राणों की रक्षा करनेवाला । प्राणद ।
 प्राणदान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्राण देना । २ किसी को मरने या
 मारे जाने से बचाना ।
 प्राणदायक—वि० [सं० प्राण + दायक] प्राण देनेवाला । जीवन-
 दायक । उ०—अनेक धार्मिक आचार्यों ने जिन प्राणदायक ।
 सत्त्यों का अपने जीवन में साक्षात्कार किया था ।—संपूर्णनिद
 भमि० प्र०, पृ० १६ ।
 प्राणदुरोदर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्राणद्यूत' [को०] ।
 प्राणद्यूत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ जान पर खेलना । अपने को ऐसी
 स्थिति में डालना । २. जीवन का मोह छोड़कर युद्ध करना ।
 प्राणद्रोह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] किसी के प्राण लेने का प्रयत्न करना [को०] ।
 प्राणधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जो हृदय का सर्वस्व हो । अत्यंत
 प्रिय व्यक्ति । प्यारा । उ०—नंदलू के बारे कन्हैया छाडि दे
 सधनियाँ । बार बार कहे मात यशोमति रनियाँ । नेक रही

माखन देठ मेरे प्राणधनियाँ । भारि जिन करी बलि जाउं
 हो निधनी के धनियाँ ।—सूर (शब्द०) ।

प्राणधार^१—वि० [सं०] प्राणवाला । जिसमें प्राण हो । जीवित ।
 प्राणधार^२—सञ्ज्ञा पुं० प्राणी । प्राणधारी । जीव ।
 प्राणधारण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १- जीवन धारण करने का भाव या
 क्रिया । २ प्राण धारण करने का संवल (को०) । ३ शिव ।
 प्राणधारो^१—वि० [सं० प्राणधारिन्] १. जीवित । प्राणयुक्त । २
 जो सांस लेता हो । चेतन ।
 प्राणधारी^२—सञ्ज्ञा पुं० प्राणयुक्त । व्यक्ति । प्राणी । जंतु । जीव ।
 प्राणन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. जीवन । २ चेष्टा करना । हिलना
 डोलना जिससे जीवित होने का प्रमाण मिले । ३. जल ।
 पानी । ४. गला । गर्दन (को०) ।
 प्राणनाथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० प्राणनाथा] १. प्रिय व्यक्ति ।
 प्यारा । प्रियतम । २. पति । स्वामी । ३ यमराज । यम
 (को०) । ४. एक संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम ।
 विशेष—ये छाति के क्षत्रिय थे और औरगजेव के समय में हुए
 थे । हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म की एकता पर इनके
 ग्रंथ मिलते हैं । कहते हैं कि पन्ना के राजा छत्रसाल इनके
 शिष्य थे । कबीर, नानक आदि के समान ये भी आजन्म
 साधु होकर हिंदू और मुसलमान धर्म की एकता के संध में
 उपदेश देते रहे । इनके संप्रदाय के लोग बुदेलखड में बहुत
 हैं । ये लोग मूर्तिपूजा नहीं करते और प्राणनाथ के ग्रंथों की
 बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं । इस संप्रदाय में प्रवेश करते समय
 इस संप्रदायवालों के साथ चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान एक
 साथ बैठकर खाना पढ़ता है और सब बातों में हिंदू और
 मुसलमान अपने अपने पूर्वजों के आचार व्यवहार मानते हैं ।
 हिंदू मुसलमान दोनों मत के लोग इस संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण
 करते हैं ।
 प्राणनाथी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणनाथ + हि० ई] १ प्राणनाथ के
 संप्रदाय का पुरुष । २. स्वामी प्राणनाथ का चलाया हुआ
 संप्रदाय ।
 प्राणनाश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्राणों का नष्ट हो जाना या कर देना ।
 हत्या या मृत्यु । जैसे,—कल एक नाव डूब जाने के कारण
 कई आदमियों का प्राणनाश हुआ ।
 प्राणनाशक—वि० [सं०] प्राण लेनेवाला । मार डालनेवाला ।
 प्राणनिग्रह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्राणायाम ।
 प्राणपण्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राण + पण्य (= द्यूत या बाजी) प्राण की
 बाजी । जीवन का दांव । उ०—फिर भी लड़े थे हम निज
 प्राणपण्य से ।—लहर, पृ० ५६ ।
 प्राणपति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. आत्मा । २ हृदय । ३. पति ।
 स्वामी । ४ प्रिय व्यक्ति । प्यारा । उ०—करि मन नदन दन
 ध्यान । सेठ चरन सरोज सीतल तजि विषयरस पान । सूर
 श्री गोपाल की छवि दृष्टि भरि भरि लेहि । प्राणपति की
 निरखि शोभा पलक परन न देहि ।—सूर (शब्द०) । ५.
 चिकित्सक । वैद्य । हकीम (को०) ।

प्राणपत्नी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] ध्वनि । आवाज [को०] ।
 प्राणपन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणपण] दे० प्राणपण' । उ०—वे
 किसी दीन प्राणी की रक्षा प्राणपन से कर सकते हैं ।
 —रगभूमि, भा०२, पृ० ५५० ।
 प्राणपरिक्रय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अपने या किसी के प्राण की वाजी
 लगाना [को०] ।
 प्राणपरिक्षय—वि० [सं०] जिसका जीवन खत्म हो रहा हो ।
 मरणासन्न [को०] ।
 प्राणपरिग्रह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्राण धारण करना । जन्म लेना ।
 प्राणपरिवर्तन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] किसी मृत पुरुष की आत्मा को
 किसी जीवित पुरुष के शरीर में बुलाना । (मिस्मेरिज्म) ।
 प्राणपूरक—वि० [सं० प्राण+पूरक] जीवन भरनेवाला । उत्साह
 भरनेवाला । जीवित । प्राणमय । उ०—उनके वस्त्रों में ऐसी
 स्वाभाविकता और प्राणपूरक प्रवीणता रहती है कि पाठक
 साँस बंद करके उनके किसी उपन्यास को तबतक पढ़ता
 जाता है जबतक पुस्तक समाप्त न हो जाय ।—प्रेम० और
 गीर्वा, पृ० १२६ ।
 प्राणप्यारा—सञ्ज्ञा पुं० [हि० प्राण+प्यारा] [स्त्री० प्राणप्यारी]
 १ प्रियतम । अत्यंत प्रिय व्यक्ति । उ०—प्राणन की हानि
 सी दिखान सी लगी है हाय कौन गुन जानि मान कीन्हों
 प्राणप्यारे सों ।—पद्माकर (शब्द०) । २ पति । स्वामी ।
 उ०—खानपान पीछूँ करति सोवति पिछले छोर । प्राणप्यारे
 ते प्रथम जगति भावती भोर ।—पद्माकर (शब्द०) ।
 प्राणप्रतिष्ठा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ प्राण धारण करना । २ हिंदू
 धर्मशास्त्रों के अनुसार किसी नई बनी हुई मूर्ति को मंदिर
 आदि में स्थापित करते समय मंत्रों द्वारा उसमें प्राण का
 आरोप करना ।
 विशेष—साधारणतः जबतक किसी मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा
 न हो ले तबतक वह मूर्ति पूजा के योग्य नहीं होती और
 उसकी गणना साधारण घातु, मिट्टी या पत्थर आदि में होती
 है । प्राणप्रतिष्ठा के उपरांत ही उस मूर्ति में देवता का आना
 माना जाता है ।
 प्राणप्रद—वि० [सं०] १ प्राणदाता । जो प्राण दे । २. प्राण की
 रक्षा करनेवाला । ३. स्वास्थ्यवर्धक । शरीर का स्वास्थ्य
 और बल आदि बढ़ानेवाला ।
 प्राणप्रदा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] ऋद्धि नामक श्लेषधि ।
 प्राणप्रदायक—वि० [सं०] प्राणदाता । प्राणप्रद ।
 प्राणप्रयाण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्राणों का जाना । मृत्यु [को०] ।
 प्राणप्रिय^१—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रायप्रिया] जो प्राण के समान
 प्रिय हो । प्रियतम ।
 प्राणप्रिय^२—सञ्ज्ञा पुं० १ अत्यंत प्रिय व्यक्ति । प्राणप्यारा । २ पति ।
 प्राणवल्लभ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणवल्लभ] दे० 'प्राणवल्लभ' ।
 प्राणभक्त—वि० [सं०] केवल हवा पर जीवित रहनेवाला । केवल
 हवा पीकर रहनेवाला [को०] ।

प्राणवास्वान्—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणवास्वत्] समुद्र [को०] ।
 प्राणभूत—वि० [प्राण+भूत] जीवनरूप । प्राणवत् ।
 प्राणभृत्^१—वि० [सं०] १ प्राण धारण करनेवाला । २. प्राणपोषक ।
 प्राणभृत्^२—सञ्ज्ञा पुं० १ जीव । प्राणी । २ त्रिपुण ।
 प्राणमय—वि० [सं०] प्राण समुक्त । जिनमें प्राण हो ।
 प्राणमय कोश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वेदांत के अनुमान पंच कोशों में
 से दूसरा ।
 विशेष—यह पाँच प्राणों से जिन्हें प्राण, अहान, ध्यान, उदान
 और समान कहते हैं, बना हुआ माना जाता है । वेदांतसार
 में पाँचों कर्मेन्द्रियों को भी प्राणमय कोश के अन्तर्गत माना है ।
 इसी प्राणमय कोश से मनुष्य को सुषुप्त आदि का बोध होता
 है । सूक्ष्म प्राण सारे शरीर में फैलकर मन को सुप्त दुःख का
 ज्ञान कराते हैं । यही कोश बौद्ध ग्रंथों में वेदना रूढ़ माना
 गया है ।
 प्राणमोक्षण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्राणों का जाना । मृत्यु । २
 आत्महत्या । आत्महत्या [को०] ।
 प्राणयम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्राणायाम ।
 प्राणयात्रा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ श्वास प्रश्वास के आने जाने की
 क्रिया । साँस का आना जाना । २ नोजनादि जो जीवन के
 साधनभूत हैं । वे व्यापार जिनमें मनुष्य जीवित रहता है ।
 प्राणयोग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राण+योग] १ 'प्राणायाम' । उ०—
 प्रथम प्राणयोग जो भाखा । कारज सिद्ध जो बाहिर राखा ।
 —कबीर सा०, पृ० ८७७ ।
 प्राणयोनि^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ परमेश्वर । २ वायु । हवा ।
 प्राणयोनि^२—सञ्ज्ञा स्त्री० प्राण का मूल । जीवन का मूल [को०] ।
 प्राणरश्मि—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणरश्मि] १ नासिका । नाक । २ मुख ।
 मुँह ।
 प्राणरोध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्राणायाम । २ जीवन का खतरा
 [को०] । ३ एक नरक [को०] ।
 प्राणरोधन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्राणायाम ।
 प्राणवंत—वि० [सं० प्राणवत्] जीवित । सजीव । उ०—जनता के
 मानस को जिसने प्राणवंत, उत्साहित और आनंदित बनाया
 है ।—पोद्दार अभि० ग्रं०, पृ० ६४८ ।
 प्राणवत्ता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सप्राण या जीवित होने का भाव [को०] ।
 प्राणवध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हत्या । प्राणघात । जान से मार डालना ।
 प्राणवल्लभ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० प्राणवल्लभा] १ वह जो
 बहुत प्यारा हो । अत्यंत प्रिय । २ स्वामी । पति ।
 प्राणवान्—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणवत्] [स्त्री० प्राणवती] वह जिसमें
 प्राण हो । प्राणी । जीव ।
 प्राणवायु—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ प्राण । उ०—प्राणवायु पुनि माइ
 समावे । ताको इत उत पवन चलावे ।—सूर (शब्द०) । २
 जीव । प्राणी ।

प्राणविद्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] उपनिषदों का वह प्रकरण जिसमें प्राण का वर्णन है ।

प्राणविनाश, प्राणविप्लव, प्राणवियोग—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] आत्मा का शरीर से वियुक्त होना । मृत्यु [को०] ।

प्राणवृत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्राण, भ्रपान, उदान आदि पंचप्राणों का कार्य ।

प्राणव्यय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्राणनाश । मृत्यु ।

प्राणशरीर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ उपनिषदों के अनुसार एक सूक्ष्म शरीर जो मनोमय माना गया है । इसी को विज्ञान और क्रिया का हेतु मानते हैं । २ परमेश्वर ।

प्राणशोषण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वायु ।

प्राणसकट—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणसङ्कट] वह वृष्ट जो प्राणों पर हो । जान जोखिम ।

प्राणसंगिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [प्राण + सङ्गिनी] स्त्री । पत्नी । उ०—प्रेयसी, प्राणसंगिनी नाम, शुभ रत्नावली सरोज दाम । —तुलसी०, पृ० २७ ।

प्राणसदेह—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणसन्देह] जीवन की आशका । वह अवस्था जिसमें जान जाने का डर हो ।

प्राणसंन्यास—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणसन्त्यास] मृत्यु । मोत ।

प्राणसम्भूत—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणसम्भूत] वायु । हवा ।

प्राणसम्भृत्—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणसम्भृत्] वायु ।

प्राणसयम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्राणायाम ।

प्राणसवाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] उपनिषद् का वह प्रकरण जिसमें श्रेष्ठता दिखाने के लिये प्राण का ग्यारह इन्द्रियों के साथ विवाद कराया गया है और अत में सबसे प्राण की श्रेष्ठता स्वीकार कराई गई है ।

प्राणसंशय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ जीवन की आशका । प्राणसकट । २ मरणासन्नता ।

प्राणसहिता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वेदों के पढ़ने का एक क्रम ।

विशेष—इसमें एक सँस में जहाँतक अधिक हो सके पाठ किया जाता है ।

प्राणसद्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणसद्मन्] शरीर । देह [को०] ।

प्राणसभ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० प्राणसभा] १. वह जो प्राण के समान प्रिय हो । २ पति [को०] ।

प्राणसार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ बल । शक्ति । ताकत । २ वह जिसमें बहुत बल हो । बलिष्ठ । ताकतवर ।

प्राणसूत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जीवनसूत्र ।

प्राणहंता—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणहन्तृ] प्राणघातक । घातक प्राण लेनेवाला ।

प्राणहर^१—वि० [सं०] १ मारक । नाशक । घातक । प्राण लेनेवाला । २ बलनाशक । शक्ति नष्ट करनेवाला ।

प्राणहर^२—सञ्ज्ञा पुं० विष आदि जिससे प्राण निकल जाते हों ।

प्राणहारक^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वत्सनाभ ।

प्राणहारक^२—वि० प्राण लेनेवाला । प्राणनाशक ।

प्राणहानि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह अवस्था जिसमें प्राणों पर सकट हो । जान जोखिम ।

प्राणहारी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणहारिन्] [स्त्री० प्राणहारिणी] प्राण लेनेवाला । प्राणनाशक ।

प्राणात—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणान्त] मरण । प्राणनाश । मृत्यु ।

प्राणांतक—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणान्तक] प्राण लेनेवाला । जान लेनेवाला । घातक । जैसे, प्राणांतक कष्ट होना ।

प्राणांतिक^१—वि० [सं० प्राणान्तिक] १. घातक । प्राण लेनेवाला । जीवन के अंत तक रहनेवाला । जीवन पर्यंत रहनेवाला । २ खतरनाक [को०] ।

प्राणांतिक^२—सञ्ज्ञा पुं० वध । हत्या [को०] ।

प्राणाग्निहोत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भोजन के समय पहले पाँच ग्रास निकालकर एक एक ग्रास को 'प्राणाय स्वाहा', 'भ्रपानाय स्वाहा', 'उदानाय स्वाहा', 'समानाय स्वाहा' इस प्रकार एक एक मन्त्र पढ़कर खाने की क्रिया ।

प्राणाघात—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पीडा । कष्ट । २ हिंसा । हत्या । मार डालना ।

प्राणाचार्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] राजचिकित्सक [को०] ।

प्राणातिपात—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जीवहिंसा । जान से मार डालना ।

प्राणातिपात विरमण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जैन मतानुसार अहिंसा व्रत ।

विशेष—यह दो प्रकार का होता है—द्रव्य प्राणातिपात विरमण और भाव प्राणातिपात विरमण । इस व्रत के पाँच अतिचार हैं, बध, वध, छेदविच्छेद प्रतिभारारोपण और भोगव्यवच्छेद ।

प्राणात्मा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणात्मन्] प्राण । लिगात्मा । जीवात्मा ।

प्राणात्यय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्राणनाश । मृत्यु । २ मृत्युकाल । मरने का समय । ३ प्राण जाने का डर । जान जोखिम [को०] ।

प्राणाद्—वि० [सं०] प्राणनाशक ।

प्राणाधार^१—वि० [सं०] अत्यंत प्रिय । प्यारा ।

प्राणाधार^२—सञ्ज्ञा पुं० १ प्रेमपान । २. पति । स्वामी । ३ जीवन का आधार । जीवन का सहारा । उ०—जन्म जन्मों की मेरी साध, मुरा हो मेरी प्राणाधार । जीवन का सहारा । —मधुज्वाल, पु० ७४ ।

प्राणाधिक^१—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्राणाधिका] १ प्राणों से अधिक प्रिय । बहुत प्यारा । २ अत्यधिक शक्तियुक्त [को०] ।

प्राणाधिक^२—सञ्ज्ञा पुं० पति । स्वामी ।

प्राणाधिनाथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पति । स्वामी ।

प्राणाधिप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्राणों के अधिष्ठाता देवता । आत्मन् ।

प्राणापहारकता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्राण + अपहारक + ता (प्रत्य०)] किसी के प्राण ले लेने का भाव । उ०—वक्ता के उक्त शब्द प्रयोग द्वारा अनतादेवी की क्रूरता, दुष्टता, निर्ममता एवं प्राणापहारकता आदि का आभास मिलता है ।—शैली, पु० १७५ ।

प्राणापान—सज्ञा पुं [सं] १. प्राण और अपान वायु । २. अश्विनीकुमार ।

प्राणावाध—सज्ञा पुं [सं] प्राणसंशय ।

प्राणायतन—सज्ञा पुं [सं] प्राणों के निकलने का प्रधान स्थान या मार्ग ।

विशेष—याज्ञवल्क्य संहिता में दोनों कान, नाक के दोनों छेद, दोनों आँखें, गुदा, लिंग और मुख के द्वार ये प्राण निकलने के नौ प्रधान मार्ग गिनाए गए हैं । इन्हीं मार्गों से प्राणियों के शरीर से मृत्यु के समय प्राण निकलते हैं ।

प्राणायन—सज्ञा पुं [सं] ज्ञानेंद्रिय [को०] ।

प्राणायाम—सज्ञा पुं [सं] योग शास्त्रानुसार योग के आठ अंगों में चौथा ।

विशेष—श्वास और प्रश्वास की गति के विच्छेद को पतजलि दशन में प्राणायाम माना है । बाहर की वायु को भीतर ले जाना श्वास और भीतर की वायु को बाहर फेंकना प्रश्वास है । इन दोनों प्रकार की वायुओं की गतियों को प्रयत्नपूर्वक धीरे धीरे कम करने का नाम प्राणायाम है । इसकी तीन वृत्तियाँ मानी गई हैं—ब्राह्म, आभ्यन्तर और स्तम्भ । इन्हीं तीनों को रेचक, पूरक और कुम्भक भी कहते हैं । भीतर की वायु को बाहर फेंकना रेचक, बाहर की वायु को भीतर ले जाना पूरक और भीतर खींची हुई वायु को उदरादि में भरना कुम्भक कहलाता है । इसके अतिरिक्त एक और शक्ति है जिसे बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी कहते हैं । इसमें श्वास प्रश्वास की बाह्य और आभ्यन्तर दोनों वृत्तियों का निरोध करके उसे रोक देते हैं । इन चारों वृत्तियों के देश काल और सख्या के भेद से दीर्घ और सूक्ष्म नामक दो दो भेद होते हैं । योग शास्त्र में प्राणायाम की बड़ी महिमा है । पतजलि ने इसका फल यह माना है कि इससे प्रकाश का आवरण क्षीण होता है और धारणा में, जो योग का छठा अंग है, योग्यता होती है । प्राण के निरोध से चित्त की चंचलता निवृत्त होती है और फिर योगी को प्रत्याहार सुगम होता है । योगाभ्यास के लिये यह प्रधान कर्म माना गया है । इसके अतिरिक्त प्राणायाम सध्या का एक अंग है । शास्त्रों में इसे सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ तप माना है और कहा गया है कि प्राणायाम करने से सब प्रकार के पाप नष्ट होते हैं ।

प्राणायामी—वि० [सं प्राणायामिन्] प्राणायाम करनेवाला । जो प्राणायाम करे ।

प्राणायम्य—वि० [सं] योग्य । उपयुक्त ।

प्राणावरोध—सज्ञा पुं [सं] प्राण का अवरोध होना । श्वास का रुकना ।

प्राणासन—सज्ञा पुं [सं] तत्रानुसार एक प्रकार का आसन ।

प्राणाहुति—सज्ञा स्त्री [सं] वे पाँच प्रास जो भोजन के पूर्व 'प्राणाय स्वाहा', 'अपानाय स्वाहा', 'ध्यानाय स्वाहा', 'समानाय स्वाहा' और 'उदानाय स्वाहा' मंत्र से खाए जाते हैं । इसे प्राणाग्निहोत्र भी कहते हैं ।

प्राणि—सज्ञा पुं [सं प्राणिन्, प्राणी] 'प्राणी' ।

प्राणिक—वि० [सं प्राण + इक (प्रत्य०)] प्राण सबधी । प्राणों की । उ०—भौतिक आग नहीं यह, कार्यात्मक आग नहीं यह प्राणिक आग नहीं, न मानसिक आग सही यह ।—अतिमा, पृ० ८६ ।

प्राणिजात—सज्ञा पुं [सं] पशु वर्ग । जीव जगत् [को०] ।

प्राणित—वि० [सं] जो जीवित रखा गया हो । जिसमें प्राण संचार किया गया हो [को०] ।

प्राणित्त—सज्ञा पुं [सं] धर्मशास्त्रानुसार वह बाजी जो मेढे, तीतर, घोड़े आदि जीवों की लड़ाई या दौड़ आदि पर लगाई जाय ।

पर्या०—समाह्वया । साहय ।

प्राणिपीडा—सज्ञा स्त्री [सं प्राणिपीडा] पशुओं को मताना [को०] ।

प्राणिमाता—सज्ञा स्त्री [सं प्राणिमातृ] गर्भदात्री नाम का ध्रुप ।

प्राणियोधन—सज्ञा पुं [सं] पशुओं को लडाना [को०] ।

प्राणिवध—सज्ञा पुं [सं] जीवहत्या ।

प्राणिहिंसा—सज्ञा स्त्री [सं] पशुओं को चोट पहुँचाना या मारना [को०] ।

प्राणिहिता—सज्ञा पुं [सं] १. पाहुका । खडालें । २. सूता ।

प्राणी^१—वि० [सं प्राणिन्] प्राणधारी । जिसमें प्राण हो ।

प्राणी^२—सज्ञा पुं १. जंतु । जीव । २. मनुष्य । ३. व्यक्ति । जैसे, तुम्हारे घर में कितने प्राणी हैं ?

प्राणी^३—सज्ञा स्त्री पुं पुरुष या स्त्री ।

सुहा०—दोनों प्राणी—दपति । स्त्री पुरुष ।

विशेष—किसी किसी प्राण में पुरुष अपनी स्त्री के लिये और स्त्री अपने पति के लिये 'प्राणी' शब्द का व्यवहार करते हैं ।

प्राणीत्य—सज्ञा पुं [सं] कर्ज । ऋण [को०] ।

प्राणेश—सज्ञा पुं [सं] [स्त्री प्राणेशा] १. पति । स्वामी । २. प्यारा । प्रेमी व्यक्ति । ३. वायु [को०] ।

प्राणेशा—सज्ञा स्त्री [सं] १. पत्नी । २. प्रिया ।

प्राणेश्वर—सज्ञा पुं [सं] [स्त्री प्राणेश्वरी] १. पति । स्वामी । २. प्रेमी व्यक्ति । बहुत प्यारा । ३. वायु [को०] ।

प्राणेश्वरी—सज्ञा स्त्री [सं] १. पत्नी । २. प्रिया ।

प्राणोत्क्रमण—सज्ञा पुं [सं] दे० 'प्राणोत्सर्ग' ।

प्राणोत्सर्ग—सज्ञा पुं [सं] प्राण जाना । मृत्यु [को०] ।

प्राणोद्बोधन—सज्ञा पुं [सं प्राण + उद्बोधन] प्राणों को उद्बुद्ध करना या प्रेरणा देना । उ०—यह जमाना राष्ट्र के लिये प्राणोद्बोधन का था ।—सुखदा, पृ० २६ ।

प्राणोपहार—सज्ञा पुं [सं] भोजन । आहार । खाना ।

प्रात^१—सज्ञा पुं [सं प्रातर्] सवेरा । प्रभात । तड़का ।

प्रातः^२—अव्य० सबेरे । तड़के । प्रभात के समय [को०] ।

प्रातःकर्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह कर्म जो प्रातःकाल किया जाता हो। सवेरे किए जानेवाले कृत्य। जैसे, शौच, स्नान, संध्योपासन आदि।

प्रातःकाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ रात के अंत में सूर्योदय के पूर्व का काल। यह तीन मुहूर्त का माना गया है।

विशेष—जिस समय सूर्य उदय होने को होता है, उससे डेढ़ दो घंटा पहले पूर्व दिशा में कुछ प्रकाश दिखाई पड़ने लगता है और उधर के नक्षत्रों का रंग फीका पड़ना प्रारंभ होता है। तभी से इस काल का आरंभ माना जाता है।

२ सवेरे का समय। सूर्योदय के कुछ देर बाद तक का समय।

प्रातःकार्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रातःकार्य] वह काम जिसे प्रातःकाल करने का विधान है। प्रातःकृत्य। जैसे, शौच, स्नान, संध्योपासन आदि।

प्रातःकालिक—वि० [सं०] प्रातःकाल संबंधी। प्रातःकाल का [को०]।

प्रातःकालीन—वि० [सं०] प्रातःकाल संबंधी। प्रातःकाल का।

प्रातःकृत्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रातःकार्य'।

प्रातःसंध्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ वह संध्या जो प्रातःकाल में की जाय। २ रात्रि का अंतिम और दिन का प्रारंभिक दृश्य।

प्रातःसवन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] तीन प्रधान सवनो या सोमयागो में से पहला सवन।

प्रातःस्नान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह स्नान जो प्रातःकाल में किया जाय। सवेरे का स्नान।

प्रातःस्नानी—वि० [सं० प्रातःस्नानिन्] जो प्रातःकाल स्नान करता हो। सवेरे नहानेवाला।

प्रातःस्मरण—सञ्ज्ञा [सं०] प्रातःकाल के समय ईश्वर, देवतादि के नामों का स्मरण या जप आदि करने की क्रिया या भाव। सवेरे के समय ईश्वर का भजन करना।

प्रातःस्मरणीय—वि० [सं०] जो प्रातःकाल स्मरण करने के योग्य हो। श्रेष्ठ। पूज्य।

प्रात^१—अव्य० [सं० प्रातः] सवेरे। तर्हके। प्रभात के समय। उ०—(क) एक देखि षट् छाँह भलि, डासि मृदुल तृण पात। कर्हहि गंवाइय छिनकु श्रम, गवनव अर्वाहि कि प्रात।—तुलसी (शब्द०)। (ख) वनमाली दिसि मैं कै ग्वाली चाली वात। आली जमुना जाउँगी काली पूजन प्रात।—शृ० सं० (शब्द०)।

प्रात^२—सञ्ज्ञा पुं० सवेरा। प्रातःकाल। सूर्योदय के पूर्व का काल। उ०—(क) प्रात भए मव भूप, बनि बनि मंडप में गए। जहाँ रूप अनुरूप, ठौर ठौर सब शोभिजै।—केशव (शब्द०)। (ख) साँस भए जाय शयन ठौरहि तहँ सोवति। करत दुख की हानि प्रात लौं रोवति रोवति।—श्रीधर (शब्द०)।

प्रातःकृत^३—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रातःकृत्य] दे० 'प्रातःकार्य'। उ०—प्रातःप्रातःकृत करि रघुराई। तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। मानस, २।१०५।

प्रातःक्रिया^४—सञ्ज्ञा स्त्री [सं० प्रातःक्रिया] दे० 'प्रातःकर्म'। उ०—प्रातःक्रिया करि तात पहि आए चारिहु भाइ।—मानस, २।३५८।

प्रातनाथ^५—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रात + नाथ] सूर्य। उ०—सूर छिप्यो पश्चिम प्रकाशयो शशि प्राची दिशि, चक्रवाक विछुरे चकोर सुख पायो है। कृमुदिनी फूली कुद मूँदे भौर बाँधे बीच, प्रातनाथ वूहो मानों कालकूट छायो है। आधी राति बीती सब सोए जिय जान भान, राक्षसी प्रभजनी प्रभाव सो जनायो है। वीजुरी सी फुरी भाँत बुरी हाथ छुरी लोह चुरी ढीठ जुरी देखि अनद लजायो है।—हनुमान (शब्द०)।

प्रातमाघ^६—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रातः + माघ] माघ मास का प्रभात। उ०—ब्रिहसिन्त नगर नन प्रसव साध। सिर द्रवत उदक विष प्रातमाघ।—पृ० रा०, १।५०१।

प्रातर^१—अव्य० [सं०] प्रभात। सवेरे।

प्रातर^२—सञ्ज्ञा पुं० पुष्यार्ण और प्रभा के पुत्र, एक देवता का नाम।

प्रातर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक नाग का नाम।

प्रातरनुवाक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ऋग्वेद के अंतर्गत वह अनुवाक जो प्रातःसवन नामक कर्म में पढ़ा जाता है।

प्रातरभिवादन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रातःकाल का प्रणाम। वह अभिवादन जो प्रातःकाल सोकर उठने के समय किया जाय।

प्रातरशन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रातराश' [को०]।

प्रातरह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दोपहर के पहले का समय। पूर्वाह्न।

प्रातराश—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रातःकाल का हलका भोजन। जलपान। कलेवा। उ०—खाने के कमरे में जा आली की प्रतीक्षा किए बिना प्रातराश करना आरंभ कर दिया।—ज्ञानदान, पृ० १७३।

प्रातराहुति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह आहुति जो प्रातःकाल दी जाय। अग्निहोत्र का द्वितीयाण।

प्रातर्दन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रतर्दन के गोत्र में उत्पन्न पुरुष। प्रतर्दन का अपत्य।

प्रातर्भोक्ता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रातर्भोक्त्] कौआ।

प्रातश्चंद्रद्युति—वि० [सं० प्रातश्चन्द्रद्युति] निष्प्रभ। मलिन। निस्तेज [को०]।

प्रातस्तन, प्रातस्त्व—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रातस्तनी] प्रातःकाल से संबंधित। प्रातःकाल का [को०]।

प्रातस्त्रिवर्गा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] गंगा।

प्रातस्सवन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रातःसवन' [को०]।

प्राति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ अँगूठे और तर्जनी के बीच का स्थान। पितृ तीर्थ। २ भरना। पूति [को०]।

प्रातिकंठिक—वि० [सं० प्रातिकंठिक] गला पकड़नेवाला।

प्रातिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] जवा या जपा का पेड़।

प्रातिकामी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रातिकामिन्] १ सेवक नौकर। २ दुर्योधन के एक दूत का नाम।

प्रातिकूलिक—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रातिकूलिकी] [सञ्ज्ञा प्रातिकूलिकता] विरुद्ध। विपरीत [को०]।

प्रातिकूल्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रतिकूल होने का भाव [को०]।

प्रातिजनीन—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रतिजनीनी] १ शत्रु के विरुद्ध उपयुक्त । २ प्रत्येक के लिये उपयुक्त । सार्व-जनीन [को०] ।

प्रातिद्वैवसिक—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रतिद्वैवसिकी] प्रतिदिन होने-वाला [को०] ।

प्रातिनिधिक^१—वि० [सं० प्रतिनिधि] प्रतिनिधित्व से युक्त । जैसे,—प्रातिनिधिक संस्था ।

प्रातिनिधिक^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रतिनिधि [को०] ।

प्रातिपक्ष—वि० [म०] १ विपरीत । विरुद्ध । शत्रु सबधी । शत्रु का । शत्रुव [को०] ।

प्रातिपक्ष्य—सञ्ज्ञा पुं० [म०] शत्रुना । दुश्मनी [को०] ।

प्रातिपथिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] राहगीर । यात्री [को०] ।

प्रातिपद्—वि० [सं०] १ प्रारम्भिक । आरम्भ का । २ प्रतिपदा से संबंधित [को०] ।

प्रातिपदिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ अग्नि । २ संस्कृत व्याकरण के अनुसार वह अर्थवान् शब्द जो घातु न हो और न उसकी सिद्धि विभक्ति लगने से हुई हो । जैसे, पेड, अच्छा आदि ।

विशेष—प्रातिपदिक के अंतगत ऐसे नाम, सर्वनाम, तद्धितात कृदत् और समासात् पद आते हैं जिनमें कारक की विभक्तियाँ न लगाई गईं हो । व्याकरण में उनकी 'प्रातिपदिक' सञ्ज्ञा केवल विभक्तियों को लगाकर उनसे सिद्ध पद बनाने के लिये की गई है ।

प्रातिपीय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ महाभारत के अनुसार एक राजा का नाम । २ एक ऋषि का नाम जो गोश्रवतक थे ।

प्रातिपेय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] महाभारत के अनुसार एक राजा का नाम ।

प्रातिभ^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पुराणानुसार उन पाँच प्रकार के उपसर्गों या विघ्नों में से एक प्रकार का विघ्न जो योगियों के योग में हुआ करता है ।

विशेष—यह विघ्न प्रतिभा के कारण हुआ करता है और इसमें योगी के मन में सब वेदों और शास्त्रों आदि के अर्थ और अनेक प्रकार की विद्याओं तथा कलाओं आदि का ज्ञान उत्पन्न हुआ करता है ।

२ वह जिसमें प्रतिभा हो । प्रतिभाशाली ।

प्रातिभ^२—वि० १. प्रतिभा से संबंधित । प्रतिभा का । २ बौद्धिक । मानसिक । ३ प्रतिभायुक्त [को०] ।

प्रातिभाव्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रतिभू का भाव । जमानत । जामिनी । २ वह धन जो प्रतिभू या जामिन को देना पड़े ।

प्रातिभाव्य ऋण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह ऋण जो किसी की जमानत पर लिया गया हो ।

प्रातिभासिक—वि० [सं०] १ प्रतिभास सबधी । अनुरूपक । २. जो वास्तव में न हो पर भ्रम के कारण भासित हो । जैसे, रज्जु में सर्प का ज्ञान प्रातिभासिक है । ३ जो व्यावहारिक न हो ।

प्रातिरूपिक—वि० [म०] समान रूप का । नकली । दिखावटी [को०] ।

प्रतिलोमिक—वि० [सं०] १ आनुलोमिक का उलटा । प्रतिलोम से उत्पन्न । २ विपक्ष । विरुद्ध । ३ अतीतिकर । जो भला न जान पड़े ।

प्रतिलोम्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रतिलोम का भाव । २ विरुद्धता । ३ प्रतिकूलता ।

प्रतिवेशिक—सञ्ज्ञा पुं० [म०] पड़ोसी । प्रतिवेशी ।

प्रतिवेशिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० प्रतिवेशिकी] पड़ोसी ।

प्रतिवेश्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पड़ोस । २ पड़ोसी । ३ वह पड़ोसी जिसका द्वार अपने द्वार के ठीक सामने हो । आनुवेश्य का उलटा ।

प्रतिवेश्यक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पड़ोसी ।

प्रातिशाख्य—सर्व० पुं० [म०] वह ग्रंथ जिसमें वेदों की किसी शाखा के स्वर, पद, संहिता, सयुक्त वर्ण इत्यादि के उच्चारण आदि का निर्णय किया गया हो ।

विशेष—वेदों की प्रत्येक शाखा की संहिताओं पर एक एक प्रातिशाख्य थे और उनके कर्ताओं के मत का उल्लेख यथा-स्थान मिलता है । पर आजकल इष्ट विषय के केवल पाँच छह ग्रंथ मिलते हैं ।

प्रातिसीम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पड़ोसी । प्रतिवेशी [को०] ।

प्रातिस्विक—वि० [सं०] १ अपना । निज का । २ अपना अपना । प्रत्येक का । यथाक्रम पृथक् पृथक् । ३. जिसमें कुछ असाधारणता हो ।

प्रातिह्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रातिह्न] प्रतीकार । बदला । प्रतिषोष [को०] ।

प्रातिहृत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] स्वरित ।

प्रातिहर्त्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रतिहर्ता का कम । प्रतिहर्ता का भाव । प्रतिहर्तापन ।

प्रातिहार—सञ्ज्ञा पुं० [म०] १ लाग का खेल करनेवाला । मायावी । जादूगर । २ द्वारपाल । प्रतिहार ।

प्रातिहारिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रातिहार' [को०] ।

प्रातिहारिक^१—वि० [सं०] प्रतिहार सबधी ।

प्रातिहारिक^२—सञ्ज्ञा पुं० १. द्वारपाल । २ लाग का खेल करनेवाला । जादूगर । मायावी ।

प्रातिहार्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ द्वारपाल का काम । २. माया । लाग । इद्रजाल ।

प्रातीतिक—वि० [सं०] १ जिसकी प्रतीति केवल चिंता या कल्पना के द्वारा मन में होती हो । जो केवल कल्पना और चिंतन से भासमान होता हो । प्रातिभासिक । २ जिसकी प्रतीति स्वयं किसी को हो ।

प्रातीप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रतीप का अपत्य । २ प्रतीप के पुत्र शानुन नरेश ।

प्रातीपक—वि० [सं०] १ प्रतिकूल आचरण करनेवाला । विरुद्धा-चारी । २ विपरीत । उलटा ।

प्राद्व—सज्ञा पुं० [सं०] एक वैदिक ऋषि का नाम ।
 प्रात्यतिक—सज्ञा पुं० [सं० प्रात्यन्तिक] १. वह राज्य जो सीमाप्रात में हो । ऐसा राज्य जो दो राज्यों की सीमा के मध्य में हो ।
 २. सीमा की रक्षा के लिये नियुक्त पुरुष ।
 प्रात्यक्ष—वि० [सं०] प्रत्यक्ष सन्नधी ।
 प्रात्यग्रथि—सज्ञा पुं० [सं०] प्रतिग्रथ के गोत्र में उत्पन्न पुरुष ।
 प्रात्ययिक^१—सज्ञा पुं० [सं०] मितक्षरा के अनुसार तीन प्रकार के प्रतिभू में से दूसरा । वह जो किसी की पहचान करके उसका प्रतिभू बने ।
 प्रात्ययिक^२—वि० विश्वासदायक । विश्वस्त [को०] ।
 प्रात्यहिक—वि० [सं०] दैनिक । प्रतिदिन का ।
 प्राथमकल्पिक—सज्ञा पुं० [सं०] १. वह विद्यार्थी जिसने अभी वेदाध्ययन प्रारंभ ही किया हो । २. वह योगी जिसने अभी योगाभ्यास शुरू किया हो [को०] ।
 प्राथमिक—वि० [सं०] १. पहले का । जो पहले उत्पन्न हुआ हो ।
 २. प्रारंभिक । आदिम । ३. जो पहली बार हुआ हो [को०] ।
 प्राथम्य—सज्ञा पुं० [सं०] प्रथम का भाव । प्रथमता । पहलापन ।
 प्रादक्षिण्य—सज्ञा पुं० [सं०] प्रदक्षिण संबंधी ।
 प्रादानिक—वि० [सं०] जो दान करने के योग्य हो ।
 प्रादीपिक—सज्ञा पुं० [सं०] घर या खेत आदि में प्राग लगानेवाला ।
 विशेष—कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार जो लोग इस अपराध में पकड़े जाते थे, उनको जीते जी जलाने का दंड दिया जाता था ।
 प्रादुराक्षि—सज्ञा पुं० [सं०] गोत्र प्रवरकार एक ऋषि का नाम ।
 प्रादुर्भाव—सज्ञा पुं० [सं०] १. आविर्भाव । प्रकट होना । अस्तित्व में आना । तिरोभाव का उलटा । २. विकास । ३. उत्पत्ति ।
 ४. देवताओं का आविर्भाव होना [को०] ।
 प्रादुर्भूत—वि० [सं०] १. आविर्भूत । प्रकटित । जिसका प्रादुर्भाव हुआ हो । २. विकसित । निकला हुआ । ३. उत्पन्न ।
 प्रादुर्भूतमनोभवा—सज्ञा स्त्री० [सं०] केशव के अनुसार मध्या के चार भेदों में एक ।
 विशेष—इसके मन में काम का पूरा प्रादुर्भाव होता है और काम-कला के समस्त चिह्न प्रकट होते हैं । जैसे,—प्राण में देखि है गोपसुता इक होइ न ऐसि अहीर की जाई । देखति ही रहिए द्युति देह की देखतै औरन देखि सुहाई । एकहि बंक बिलोकनि ऊपर वारो बिलोक त्रिलोक निकाई । केशवदास कलानिधि सो बरू बूझिहै काम कि भेरो बन्हाई ।
 प्रादुष्करण—सज्ञा पुं० [सं०] १. किसी अप्रकट वस्तु को प्रकट करने का भाव । प्रदर्शन । उत्पादन । प्रकटीकरण । २. दृष्टि-गोचरकरण । दिखलाना ।

प्रादुष्कृत—वि० [सं०] १. जिसका प्रादुष्करण हुआ हो । जो प्रकट किया गया हो । २. प्रदर्शित । जो दिखलाया गया हो ।
 प्रादुष्कृत्य—वि० [सं०] १. उत्पाद्य । २. प्रकट करने योग्य । जो दिखलाने के योग्य हो ।
 प्रादुष्य—सज्ञा पुं० [सं०] प्रादुर्भाव ।
 प्रादेश—सज्ञा पुं० [सं०] १. षंठे से प्रारंभ कर तर्जनी तक की लंबाई का एक मान ।
 विशेष—यह षंठे की नोक से लेकर तर्जनी की नोक तक का होता था और नापने के काम आता था ।
 २. तर्जनी और षंठे के बीच का भाग । ३. प्रदेश । स्थान ।
 प्रादेशान—सज्ञा पुं० [सं०] दान । भेंट [को०] ।
 प्रादेशिक^१—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रादेशिकी] १. प्रदेश सबधी । किसी एक प्रदेश का । प्रातिक । २. प्रसंगगत । प्रसंगानुसार । विषयानुसार । ३. सीमित स्थानगत [को०] ।
 प्रादेशिक^२—सज्ञा पुं० १. सामंत । जमीनदार या सरदार आदि ।
 २. सूबेदार ।
 प्रादेशिनी—सज्ञा स्त्री० [सं०] तर्जनी ।
 प्रादेशी—वि० [सं० प्रादेशिन्] प्रादेश मात्र लंबा । वित्ते भर का । जिसकी लंबाई एक बिता हो [को०] ।
 प्रादोष—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रादोषी] प्रदोष सबधी । प्रदोष का । प्रदोष से संबंध रखनेवाला ।
 प्रादोषिक—वि० [सं०] [स्त्री० प्रादोषिकी] प्रदोष का [को०] ।
 प्राधनिक^१—वि० [सं०] लडाका । योद्धा ।
 प्राधनिक^२—सज्ञा पुं० युद्ध का उपकरण । लडाई का सामान ।
 प्राधा—सज्ञा स्त्री० [सं०] कश्यप की एक स्त्री और दक्ष की एक कन्या का नाम ।
 विशेष—पुराणों में इसे गधवों और अप्सरसों की माता बतलाया गया है ।
 प्राधानिक—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्राधानिकी] १. प्रधान । श्रेष्ठ ।
 २. प्रधान-संबधी । ३. मूल प्रकृति से संबद्ध ।
 प्राधान्य—सज्ञा पुं० [सं०] १. प्रधानता । श्रेष्ठता । २. मुख्यता ।
 ३. मूल प्रकृति । मूल कारण । निदान ।
 प्राधिकरण—सज्ञा पुं० [सं० प्र (उप०) + अधिकरण] विशेष अधिकारप्राप्त व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ।
 प्राधिकारी—सज्ञा पुं० [सं० प्र (उप०) + अधिकारी] सत्ताप्राप्त व्यक्ति । विशेष अधिकारी । (प्र० अथारिटी) ।
 प्राधिकृत—वि० [सं० प्र (उप०) + अधिकृत] अधिकारपूर्ण । साधिकार । उ०—राज्य विधान सभा द्वारा पारित किए जानेवाले विधेयक और अन्य बातें राज्य की भाषा में ही हो कितु उनके साथ ही प्राधिकृत और प्रामाणिक अनुवाद भी रहें ।—शुक्ल अभि० प्र०, पृ० ७३ ।

प्राधीत—वि० [सं०] जिसने काफी अध्ययन किया हो। पूर्ण शिक्षित। अत्यंत शिक्षित [को०]।

प्राधीन—वि० [सं० पराधीन] दे० 'पराधीन'। उ०—हे प्रभु मेरे बंदी छोरा। हौं प्राधीन दास मैं तोरा।—कवीर सा०, पृ० ८१।

प्राध्ययन—वि० [सं०] अध्ययन। पढ़ना [को०]।

प्राध्यापक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रधान अध्यापक। वरिष्ठ अध्यापक। (भ० प्रोफेसर)।

प्राध्व^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ लंबी राह। बहुत बड़ा रास्ता। २ जिस वस्तु पर सवार होकर लोग लंबी यात्रा करें। सवारी। ३ पहर। ४ विनय। ५ वष। ६ परिहास। क्रीड़ा (को०)।

प्राध्व^२—वि० १ दूर का। लंबा। २ झुका हुआ। प्रवृत्त। ३ बंधा हुआ। बद्ध। ४ अनुकूल। ५ यात्रा पर गया हुआ [को०]।

प्राध्वन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सड़क। २ नदी का गर्भ।

प्राध्वर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वृक्ष की शाखा। पेड़ की डाल।

प्राण^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राण] दे० 'प्राण'। उ०—जय जय दशरथ कुल कमल भान। जय कुमुद जनन शशि प्रजा प्राण।—सूर (शब्द०)।

मुह०—प्राण तजना = मरना। उ०—प्रिय विद्युरन को दुसह दुख हरखि जात प्योसार। दुरजोधन लौं देखियत तजत प्राण इहि वार।—विहारी (शब्द०)। प्राण नहीं में समाना = आशक्ति होना। भयभीत होना। जैसे,—जब से इसे ज्वर है मेरे प्राण नहीं में समाए हुए हैं।—मान०, भा० ५, पृ० ६। प्राण रखना = जिलाना। जीवन देना। उ०—अचल करो तन राखौ प्राणा। सुनि हंसि बोलेउ कृपानिधाना।—तुलसी (शब्द०)। प्राण सा पाना = सजीव होना। उत्साहित होना। उ०—नद महर घर जब सुत बायो। सुनतहि सबन प्राण सो पायो।—नंद० प्र०, पृ० २३३।

विशेष—अन्य मुहावरे तथा अर्थों के लिये दे० 'प्राण' शब्द।

प्राणअधार^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राण + आधार] वह जो प्राण के समान प्यारा हो। बहुत प्रिय व्यक्ति। उ०—चारिहु चक्र फिरौं मैं खोजत दख नाहि थिर वार। होइके भस्म पवन संग घात्रो जहाँ प्राण अधार।—जायसी (शब्द०)।

प्राणनाथ^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणनाथ] दे० 'प्राणनाथ—१'। उ०—भावे सो करी तो उदास भाउ प्राणनाथ, साथ ले चलो कैसे लोक लाज वहिनो।—गोदर अभि० प्र०, पृ० ४५८।

प्राणपियारा^१—वि० [सं० प्राणप्रिया] दे० 'प्राणपियारा'। उ०—प्राणपियारो चल्यो जब तै, तबतै कछु और ही रीति निहारी। पीरी जनावति भगन में, कहि पीर जनावत काहे न प्यारी।—मति० प्र०, पृ० २६५।

प्राणप्रिया^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्राणप्रिया] अत्यंत प्यारी। प्राणप्यारी। उ०—प्राणप्रिया केहि हेतु रिखानी।—मानस, २।२५।

प्राणराम^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राण + राम] प्राण। उ०—प्राणराम जब निकसन लागे उलट गईं हूनो नैन पुतरिया।—कवीर सा०, भा० १, पृ० ३।

प्राणायाम^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणायाम] दे० 'प्राणायाम'। उ०—प्राणायाम सार्ध सुद्ध प्राण होयें ताके अरे, वावरे गए रे प्राण प्राणनाथ साथ ही।—भज० प्र०, पृ० १३०।

प्राणी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणी] दे० 'प्राणी'।

प्राणेश^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणेश] पति। स्वामी। उ०—वामा भामा कामिनी कहि बोली प्राणेश। प्यारी कहत खिसात नहि पावस चलत विदेस।—विहारी (शब्द०)।

प्राणेशुर^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राणेश्वर] दे० 'प्राणेश्वर'। उ०—भजवन रस सबही तें न्यारो। मुरलीधर प्राणेशुर प्यारो।—घनानंद, पृ० २२७।

प्राय—वि० [सं०] जिस तक पहुँचा जा सके। प्राप्य [को०]।

प्रापक—वि० [सं०] १ प्राप्ति सबधी। २. पानेवाला। जो पाने योग्य हो। ३. प्राप्त होनेवाला। ४. प्राप्त करनेवाला।

प्रापण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रापणीय, प्राप्य, प्राप्त] १. प्राप्ति। मिलना। २. प्रेरण। २. ले घाना। ४. सदम। हवाला (को०)।

प्रापणिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सीदा या माल बेचनेवाला।

प्रापणीय—वि० [सं०] १ जो मिलने योग्य हो। प्राप्य। २. पहुँचाने या ले जाने लायक।

प्रापत^१—वि० [सं० प्राप्त] दे० 'प्राप्त—१'। उ०—कौनहु भाँत जोग करि कोई। तुव पद पकज प्रापत होई।—नद० प्र०, पृ० २२६।

प्रापति^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्राप्ति] दे० 'प्राप्ति'। उ०—सुदध प्रेम मधि प्रापति करै। इक विरोध इहि विधि विस्तरे।—नद० प्र०, पृ० २१७।

प्रापत्ता^१—वि० [सं० प्राप्त] दे० 'प्राप्त—४'। उ०—क्रीडत जमुन सुदरि बिसाल। प्रापत्त षट् सत भरष बाल।—पु० रा०, २।३६७।

प्रापना^१—क्रि० सं० [सं० प्रापण] प्राप्त होना। मिलना।

प्रापित—वि० [सं०] १ जो ले जाया गया हो। २. जिसे प्राप्त कराया गया हो। ३. प्राप्त। पाया हुआ [को०]।

प्रापी—वि० [सं० प्रापिन्] १ प्राप्त करनेवाला। जिसे कुछ मिले। २. पहुँचनेवाला (समासात में)।

प्राप्त—वि० [सं०] १ लब्ध। प्रस्थापित। २. उत्पन्न। ३. समुपस्थित। उ०—भरत, अपराधी भरत, है प्राप्त।—साकेत, पृ० १८६। ४. पाया हुआ। जो मिला हो। ५. सहा हुआ। भोगा हुआ (को०)। ६. पूर्ण किया हुआ (को०)। ७. उचित। ठीक (को०)।

प्राप्तकारी—वि० [सं० प्राप्तकारिन्] उचित कार्य करनेवाला [को०]।

प्राप्तकाल^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ कोई काम करने योग्य समय। २. उपयुक्त काल। उचित समय। ३. मरण योग्य काल। ४. वर्तमान समय। वह समय जो चल रहा हो। उ०—अतीत काल की वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति जो हमारा रागात्मक भाव होता है, वह प्राप्तकाल की वस्तुओं और

व्यक्तियों के प्रति हमारे भावों को तीव्र भी करता है और उनका ठीक ठीक अवस्थान भी करता है।—रस०, पृ० १४६।

प्राप्तकाल^२—वि० समयप्राप्त। जिसका काल आ गया हो।

प्राप्तजीवन—वि० [सं०] जो रोग आदि के कारण मरते मरते बचा हो। जिसकी नई जिंदगी हुई हो।

प्राप्तदोष—वि० [सं०] जिसने कोई दोष या अपराध किया हो। दोषी।

प्राप्तपंचत्व—वि० [सं० प्राप्त पञ्चत्व] जो पंचत्व प्राप्त कर चुका हो। मरा हुआ। मृत।

प्राप्तप्रसवा—वि० स्त्री [सं०] (स्त्री) जो बच्चा जनने को हो।
प्रासन्नप्रसवा [को०]।

प्राप्तबीज—वि० [म०] जो बोया हुआ हो [को०]।

प्राप्तबुद्धि—वि० [सं०] १ चतुर। बुद्धिमान्। २ जो बेहोश होने के बाद फिर होश में आया हो।

प्राप्तभार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जो बोझ ढोता हो (पशु आदि)।

प्राप्तभाव^१—वि० [सं०] १ बुद्धिमान। होशियार। २ सुन्दर [को०]।

प्राप्तभाव^२—सञ्ज्ञा पुं० जवान बेल [को०]।

प्राप्तमनोरथ—वि० [सं०] जिसने अपना लक्ष्य या ईप्सित प्राप्त कर लिया हो [को०]।

प्राप्तयौवन—वि० [सं०] जिसका यौवनकाल आ गया हो। जवान।

प्राप्तरूप—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ विद्वान्। पंडित। २ रूपवान्। सुंदर। ३ मनोहर। आकर्षक [को०]। ४ ठीक। उपयुक्त [को०]।

प्राप्तर्तु—वि० स्त्री [सं० प्राप्त+ऋतु] वह कन्या जो ऋतुमती हो चुकी हो [को०]।

प्राप्तवर—वि० [सं०] जिसे वर प्राप्त हो चुका हो। जिसे वरदान मिल चुका हो। उ०—अवसन्न भी हूँ प्रसन्न मैं प्राप्तवर, प्रात तव द्वार पर।—अपरा, पृ० २५।

प्राप्तव्य—वि० [सं०] जो मिलने को हो। मिलनेवाला। प्राप्य।

प्राप्तव्यवहार—वि० [सं०] जो अपना कार्य सम्हालने के योग्य हो गया हो। बालिग [को०]।

प्राप्तार्थ^१—वि० [सं०] सफल [को०]।

प्राप्तार्थ^२—सञ्ज्ञा पुं० वह वस्तु जो प्राप्त हो गई हो [को०]।

प्राप्ति—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] १ उपलब्धि। प्राप्ति। मिलना। २ पहुँच। ३ अधिगम। अर्जन। ४ उदय। ५ अग्निमादि आठ प्रकार के ऐश्वर्यों में से एक जिससे वाञ्छित पदार्थ मिलता है अथवा सब इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं। ६ फलित ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा का ग्यारहवाँ स्थान, जिसे लाभ भी कहते हैं। ७ भाग्य। ८ व्याप्ति। प्रवेश। प्रवृत्ति। ९ जरासब की एक पुत्री का नाम जो कंस से ब्याही थी। १०. काम की पत्नी का नाम। ११ आय। आमदनी। १२ मेल। संगति। १३ लाभ। फायदा। १४ समिति। सभ। १५ नाटक का सुखद उपसंहार। फलागम।

प्राप्तिसम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] न्याय में वह प्रत्यवस्थान या प्राप्ति जो हेतु और साध्य को ऐसी अवस्था में, जब दोनों प्राप्य हों, अविशिष्ट बतलाकर की जाय।

विशेष—यह एक प्रकार की जाति है। जैसे, एक मनुष्य कहता है कि पर्वत वह वृद्धिमान् है, क्योंकि वह धूमवान् है, जैसे, पाक-गृह। इसपर वादी के इस कथन पर कि पर्वत धूमवान् है, क्योंकि वह वृद्धिमान् है जैसे, पाकगृह, प्रतिवादी यह आपत्ति करता है कि जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ धूम सदा रहता है अथवा कभी नहीं भी रहता। यदि सर्वत्र रहता है तो साध्य और साधक में कोई अंतर नहीं, फिर तो धूम अग्नि का वैसे ही साधक हो सकता है जैसे अग्नि धूम का। इसे प्राप्तिसम जाति कहते हैं।

प्राप्त्याशा—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] किसी वस्तु की प्राप्ति की आशा। २ नाटक की पाँच अवस्थाओं में से तीसरी अवस्था जिसमें फलप्राप्ति की आशा रहती है, पर आशाकाएँ और विघ्न बाधाएँ भी मार्ग में आती हैं। उ०—आगे चलकर उन फल की प्राप्ति की आशा होने लगती है, जिसे प्राप्त्याशा कहते हैं।—सा० दर्पण पृ० १३४।

प्राप्य—वि० [सं०] १ पाने योग्य। प्राप्त करने योग्य। प्राप्यव्य। २ गम्य। ३ जो पहुँच में हो। जिसतक पहुँच हो सकती हो। ४ जो मिल सके। मिलने योग्य।

प्राप्यकारी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राप्यकारिन्] इन्द्रिय जो किसी विषय तक पहुँचकर उसका ज्ञान कराती है।

विशेष—भ्यायदर्शन के अनुसार ऐसी इन्द्रिय केवल आँख ही है, पर वेदातदर्शन में कहा है कि कान में भी यह गुण है।

प्राप्यरूप—वि० [सं०] जिसे प्राप्त करना प्रायः आसान हो [को०]।

प्राबल्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रबलता। तेजी। २ प्रधानता। ३ ताकत। शक्ति [को०]।

प्राबालिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रबाल का व्यापार करनेवाला पुरुष।

प्राबोधक, प्राबोधिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रभातकाल। उप-काल। २ वह पुरुष जो राजाओं को उनकी स्तुति सुनाकर जगाने के लिये नियुक्त हो।

विशेष—प्राचीन काल में यह काम करने के लिये मगध देश के लोग नियुक्त किए जाते थे जिन्हें मागध कहते थे।

प्राभंजन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राभञ्जन] स्वाति नक्षत्र।

प्राभंजन^२—वि० १ प्रभजन या वायु देवता सवधी। २ जो वायु देवता के द्वारा अविष्ट हो।

प्राभजनि—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राभञ्जनि] १ हनुमान। २ भीष्म [को०]।

प्राभव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्रभुत्व। अधिकार। २ श्रेष्ठता। प्रधानता।

प्राभवत्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रभुता। प्रभुत्व। २ सर्वप्रधानता। विभुत्व [को०]।

प्राभाकर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. वह जो प्रभाकर के मत का मानने

वाला हो। २ मीमासा के आचार्य प्रभाकर से सबद्ध विचार, मत आदि (को०)।

प्राभातिक—वि० [सं०] [वि० जी० प्राभातिकी] प्रभात सबधी। सबेरे का।

प्राभासिक—वि० [सं०] प्रभास देश सबधी। प्रभास देश का।

प्राभृत, प्राभृतक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ उपहार। नजर। २ घूस। रिश्वत (को०)।

प्राभृण्डो—सञ्ज्ञा पुं० [हि० पाहुना] दे० 'पाहुना'। उ०—करतब नह राजी कृपण, राजा रूपैयाह। कडवो दास कुडबियाँ, प्राभृण्डो पइयाह।—बाँकी० प्र०, भा० २, पृ० ३५।

प्राभृति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार दसवें मन्वतर में होनेवाले एक ऋषि का नाम जो उस समय के सप्तपियों में होंगे।

प्राभृधि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्राभृति'।

प्राभाषिक^१—वि० [सं०] १ जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो। २ माननीय। मानने योग्य। ३ ठीक। सत्य। ४ शास्त्रसिद्ध। ५ हेतुक। ६ जो प्रमाणों को मानता हो। ७ प्रमाण सबधी (को०)। ८ प्रमाणरूप। प्रमाणस्वरूप (को०)। ९ शास्त्रज्ञ।

प्राभाषिक^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ व्यापारियों का मुखिया। २ प्रमाण को जानने माननेवाला। न्यायशास्त्र का ज्ञाता। ३ एक जातीय उपाधि।

प्राभाष्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रमाणता। प्रमाण का भाव। २ मान मर्यादा। ३ विश्वास कराने की योग्यता या शक्ति। विश्वसनीयता।

प्राभाष्यवादी—वि० [सं० प्राभाष्यवादिन्] जो प्रमाण में विश्वास करता हो (को०)।

प्राभाषिक—वि० [सं०] १ प्रमादजनित। २ दोषयुक्त। दूषित। जिसमें दोष हो। उ०—जिन्हें प्राभाषिक तर्क-प्रमाण-शून्य समझकर विद्वान् उपेक्षा के ही साथ सुनते आए हैं।—रस क०, पृ० १३।

प्राभाष्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ श्रद्धा। २ श्रुति। गलती। भूल (को०)। ३ पागलपन। उन्माद।

प्राभृत्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. ऋण। कर्ज। २ मरण। मृत्यु (को०)।

प्राभिसरी नोट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्राभिसरी नोट'।

प्राभिसरी नोट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह लेख या पत्र जिसपर लिखनेवाला अपना हस्ताक्षर करके यह प्रतिज्ञा करे कि मैं श्रमिक पुरुष को, या जिसे वह आज्ञा या अधिकार दे, या जिसके पास यह लेख हो, किसी नियत समय पर, या जब वह मरिगे या जब वह उसे दिखलावे, तब इतना रुपया दे दूँगा। हुडी। २ वह सरकारी कागज या ऋणपत्र जिसमें सरकार अपनी प्रजा से कुछ ऋण लेकर यह प्रतिज्ञा करती है कि मैंने इतना ऋण लिया और इसका सुद इस हिसाब से इस लेख के मालिक को दिया कलेंगी।

विशेष—इसकी भवधि निश्चित रहती है। ऐसी हुडी का सरकारी खजाने से बराबर समय समय पर सुद मिला करता है;

और जब उस हुडी का नियत समय पूरा हो जाता है, तब सरकार से उसका रुपया भी मिल सकता है। ऐसी हुडी या नोट मालिक बीच में ही बेचना चाहे तो दूसरे प्राभिसरीयों के हाथ बेच भी सकता है। ऐसी हुडी या नोट का भाव बराबर घटा बढ़ा करता है।

प्राभोद—वि० [सं०] मनोज्ञ। मनोहारी।

प्राभोदक, प्राभोदिक—वि० [सं०] दे० 'प्राभोद'।

प्राय^१—वि० [सं०] १ विशेषकर। बहुधा। अक्सर। जैसे,—सावन में प्राय पानी बरसता है। २. लगभग। करीब करीब। जैसे,—उनके यहाँ मेरे प्रायः ५०० रु० बाकी होंगे।

विशेष—इसका प्रयोग शब्द के अन्त में होता है।

प्राय^२—क्रि० वि० अक्सर। सामान्यतया (को०)।

प्राय^३—वि० [सं०] १ लगभग। जैसे, प्रायद्वीप। २ समान। तुल्य। जैसे,—मृतप्राय। ३, पूर्ण।

प्राय^४—सञ्ज्ञा पुं० १ अनशनादि तप जिससे मनुष्य शक्तिहीन होकर मृतक के तुल्य हो जाता या मर जाता है। २ मृत्यु। जैसे, प्रायगत। ३ अवस्था। उन्न। ४ अधिक्ता। दाहृत्य (को०)।

प्रायगत—वि० [सं०] जिसके मरने में अधिक विलम्ब न हो। जो मर रहा हो। प्रासन्नमृत्यु।

प्रायण्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। स्थानांतर गमन। २ एक शरीर त्यागकर दूसरे शरीर में जाना। शरीरपरिवर्तन। ३ जन्मांतर। ४ अनशन व्रत द्वारा शरीरत्याग। ५ वह पथ्य या आहार जो अनशन व्रत की समाप्ति पर ग्रहण किया जाता है। पारण। ६ प्रवेश। प्रारम्भ। ७ जीवनपथ। जीवितावस्था। ८ शरण लेना (को०)। ९ एक प्रकार का खाद्य पदार्थ जो दूध में मिलकर बनता था।

प्रायणीय^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सोमय याग में पहली सुत्या के दिन का कर्म। २ प्रारम्भिक कर्म। उदनीय का उल्टा। ३ सोम याग का प्रथम दिवस (को०)।

प्रायणीय^२—वि० आरम्भ सबंधी। प्रारम्भिक। जैसे, प्रायणीय याग, प्रायणीय कर्म, प्रायणीयातिरात्र, प्रायणीयेष्टि इत्यादि।

प्रायत्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पवित्रता। पूतता। शुद्धता (को०)।

प्रायदर्शन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] साधारण घटना, जो प्राय देखने में आती हो। साधारण सी बात।

प्रायद्वीप—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रायोद्वीप] स्थल का वह भाग या अश जो तीन ओर पानी से घिरा हो और केवल एक ओर किसी बड़े स्थल से मिला हो। प्रायोद्वीप।

प्रायभव—वि० [सं०] जो साधारण रीति से भयवा प्राय, होता हो। साधारण।

प्रायवृत्त—वि० [सं०] जो बिलकुल गोल या चतुर्लाकार न हो पर बहुत कुछ गोल हो। अष्टाकार।

प्रायशः—क्रि० वि० [सं० प्रायशस्] प्राय। बहुधा। अक्सर।

प्रायश्चित्त—सज्ञा पुं० [सं०] १ षास्त्रानुसार वह कृत्य जिसके करने से मनुष्य के पाप छूट जाते हैं। उ०—मैं जिसे लोकापवाद निमित्त, तब न होगा तनिक प्रायश्चित्त।—साकेत, पु० १६०।

विशेष—यह दो प्रकार का होता है एक व्रत दूसरा दान। षास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के कृत्यों का विधान है। किसी पाप में व्रत का, किसी में दान का, किसी में व्रत और दान दोनों का विधान है। लोक में भी समाज के नियमविरुद्ध कोई काम करने पर मनुष्य को समाज द्वारा निर्धारित कुछ कर्म करने पड़ते हैं जिससे वह समाज में पुन व्यवहार योग्य होता है। इस प्रकार के कृत्यों को भी प्रायश्चित्त कहते हैं।

२. जैनियों के मतानुसार वे नौ प्रकार के कृत्य जिनके करने से पाप की निवृत्ति होती है—(१) आलोचन (२) प्रतिक्रमण, (३) आलोचन प्रतिक्रमण, (४) विवेक, (५) व्युत्सर्ग, (६) तप, (७) छेद, (८) परिहार, (९) उपस्थान और (१०) दोष।

क्रि० प्र०—लगना।

प्रायश्चित्ति—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रायश्चित्त'।

प्रायश्चित्तिक—वि० [सं०] १. प्रायश्चित्त के योग्य। प्रायश्चित्ताहं।
२. प्रायश्चित्त सबधी।

प्रायश्चित्ती—वि० [सं० प्रायश्चित्तिन्] १. प्रायश्चित्त के योग्य।
२ जो प्रायश्चित्त करे। प्रायश्चित्त करनेवाला।

प्रायश्चित्तीय—वि० [सं०] प्रायश्चित्त सबधी।

प्रायाणिक^१—वि० [सं०] प्रयाण सबधी। यात्रा सबधी।

प्रायाणिक^२—सज्ञा पुं० शख, चेंबर आदि मगल द्रव्य जो यात्रा के समय आवश्यक होते हैं।

प्रायात्रिक—वि० [सं०] दे० 'प्रायाणिक [क्रि०]।

प्रायास—सज्ञा पुं० [सं०] एक देश का वैदिक नाम।

प्रायिक—वि० [सं०] प्राय होनेवाला। जो बहुधा या अधिकता से होता हो।

प्रायुद्धेपी—सज्ञा पुं० [सं० प्रायुद्धेपिन्] धरम। षोडा [क्रि०]।

प्रायोगिक—वि० [सं०] जो नित्य काम में आता हो। जिसका प्रयोग नित्य होता हो।

प्रायोज्य^१—वि० [सं०] प्रयोग में आनेवाला। जिससे प्रयोजन चलता हो।

प्रायोज्य^२—सज्ञा पुं० मित्ताक्षरा आदि धर्मशास्त्रों के अनुसार वह वस्तु जिसका काम किसी को नित्य पड़ता हो। जैसे, पढ़नेवाले को पुस्तकादि का, कृषक को हल बैल आदि का, योद्धा को भस्त्र शस्त्र का इत्यादि।

विशेष—ऐसी वस्तुएँ शास्त्रों में विभाजनीय नहीं मानी गई हैं, विभाग के समय वे उसी को मिलती हैं जिसके प्रयोजन की हो प्रथवा जो उन्हें व्यवहार में लाता रहा हो या जिसकी उनसे जीविका चलती हो।

प्रायोदेवता—सज्ञा पुं० [सं०] सर्वमान्य देवता। वह देवता जिसे सब मानते हैं।

प्रयोद्वीप—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रायद्वीप'।

प्रयोपगमन—सज्ञा पुं० [सं०] आहार त्याग कर मरने पर उच्यत होना। अनशन व्रत द्वारा प्राण परित्याग करने का प्रयत्न। भूखों मरकर जान देना।

प्रायोपयोगिक—वि० [सं०] प्राय. उपयोग में आनेवाला। सामान्य। साधारण [क्रि०]।

प्रायोपविष्ट—वि० [सं०] जिसने प्रायोपवेश व्रत किया हो।

प्रायोपवेश—सज्ञा पुं० [सं०] १ वह अनशन व्रत जो प्राण त्यागने के निमित्त किया जाता है। २. अन्न और जल त्याग कर मरने के लिये तैयार होकर बैठना।

प्रायोपवेशन—सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रायोपवेश'।

प्रायोपवेशनिका—सज्ञा स्त्री० [सं०] प्रायोपवेशन। अनशन व्रत।

प्रायोपवेशी—वि० [सं० प्रायोपवेशिन्] [वि० सं० प्रायोपवेशिनी] प्रायोपवेशन व्रत करनेवाला।

प्रायोपेत—वि० [सं०] प्रायोपवेशन व्रत का व्रती। प्रायोपवेश व्रत करनेवाला।

प्रायोभावी—वि० [सं० प्रायोभाविन्] जो प्राय. होता हो [क्रि०]।

प्रायोवाद—सज्ञा पुं० [सं०] कहावत [क्रि०]।

प्रारम्भ—सज्ञा पुं० [सं० प्रारम्भ] १. आरम्भ। शुरु। २. आदि।

प्रारंभण—सज्ञा पुं० [सं० प्रारंभण] [वि० प्रारंभ] प्रारंभण। प्रारम्भ करना। शुरु करना।

प्रारम्भिक—वि० [सं०] १. प्रारम्भ सबधी। प्रारम्भ का। २. आदिम।
३. प्राथमिक।

प्रारब्ध^१—वि० [सं०] आरम्भ किया हुआ।

प्रारब्ध^२—सज्ञा पुं० १. तीन प्रकार के कर्मों में से वह जिसका फल-भोग आरम्भ ही चुका हो। २. भाग्य। किसमत। जैसे,—जो प्रारब्ध में होगा वही मिलेगा। ३. वह कार्य आदि जो आरंभ कर दिया गया हो।

प्रारब्धि—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. आरम्भ। शुरु। २. हाथी के बाँधने की रस्सी या सूँटा।

प्रारब्धी—वि० [सं० प्रारब्धिन्] भाग्यवाला। भाग्यवान्। किसमतवर।

प्रारूप—सज्ञा पुं० [सं० (उप०) + प्र (= आरंभ, आदि) + रूप अथवा प्राक् + रूप] किसी योजना, प्रस्ताव, विधेयक आदि का वह प्राथमिक रूप जिसमें आगे आवश्यक होने पर सशोधन आदि किया जा सके। मसौदा। प्राथमिक रूप। प्रालेख।

प्रारोह—सज्ञा पुं० [सं०] अकुर। प्ररोह [क्रि०]।

प्राज्येयता—वि० [सं० प्राज्येयित्] [वि० सं० प्राज्येयिणी] दान करनेवाला। दानी।

प्राञ्जुन—सज्ञा पुं० [सं०] एक प्राचीन देश का नाम।

प्रार्थ—सज्ञा पुं० [सं०] प्रधान ऋण। मुख्य ऋण [क्रि०]।

प्रार्थक—वि० [सं०] [वि० सं० प्राथिका] प्रार्थना करनेवाला। प्रार्थी।

प्रार्थन—उच्चारण पुं [सं०] याचना । याचना । प्रार्थना करना । माँगना ।
 प्रार्थना^१—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] १ किसी से कुछ माँगना । याचना ।
 चाहना । जैसे,—मैंने उनसे एक पुस्तक के लिये प्रार्थना की
 थी । २. किसी से नम्रतापूर्वक कुछ कहना । विनती । विनय ।
 निवेदन । जैसे,—मेरी प्रार्थना है कि अब भाप यह झगडा
 मिटा दें । ३. इच्छा । आकांक्षा । स्पृहा (को०) । ४. तंत्रसार
 के अनुसार एक मुद्रा का नाम ।

विशेष—इस मुद्रा में दोनों हाथों के पंजों की उँगलियों को
 फेनाकर एक दूसरे पर इस प्रकार रखते हैं कि दोनों हाथों
 की उँगलियाँ यथाक्रम एक दूसरे के ऊपर रहती हैं । इस
 प्रकार हाथ जोड़कर उँगलियों को सीधे और सामने की ओर
 करके हृदय के पास ले जाते हैं और वहाँ इस प्रकार रखते हैं
 कि दोनों फलाई की सधि छाती के सधिमध्य में रहती है ।

प्रार्थना^२—क्रि० सं० [सं० प्रार्थन] प्रार्थना करना । विनती
 करना । उ०—हरिवल्लभ सब प्रार्थना जिन चरण रेणु आशा
 धरी ।—नाभादास (शब्द०) ।

प्रार्थनापत्र—सञ्ज्ञा पुं [सं०] वह पत्र जिसमें किसी प्रकार की
 प्रार्थना लिखी हो । निवेदनपत्र । अर्जो ।

प्रार्थनाभग—सञ्ज्ञा पुं [सं० प्रार्थनाभङ्ग] याचना स्वीकार न
 होना [को०] ।

प्रार्थनासमाज—सञ्ज्ञा पुं [सं०] एक नवीन समाज या संप्रदाय ।
 विशेष—इस मत के अनुयायी दक्षिण में बर्मा की ओर अधिक
 हैं । इस मत के सिद्धांत ब्राह्मसमाज से मिलते जुलते हैं । इस
 मत के लोग जाति पतिता का भेदभाव नहीं मानते और न
 मूर्तिपूजा आदि करते हैं ।

प्रार्थनासिद्धि—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] इच्छा का पूरा होना । अभिलाषा-
 प्राप्ति [को०] ।

प्रार्थनीय^१—सञ्ज्ञा पुं [सं०] द्वापर युग का एक नाम ।

प्रार्थनीय^२—वि० प्रार्थना करने योग्य । निवेदन करने के योग्य ।
 याचनीय ।

प्रार्थयितव्य—वि० [सं०] माँगने योग्य । प्रार्थना करने के योग्य ।
 याचनीय ।

प्रार्थयिता—सञ्ज्ञा पुं [सं० प्रार्थयितृ] १. प्रार्थना करनेवाला ।
 माँगनेवाला । याचक । २. प्रणय की कामना करनेवाला ।
 प्रणयी [को०] ।

प्रार्थित^१—वि० [सं०] १. जो माँगा गया हो । याचित । २. जिस-
 पर आक्रमण किया गया हो । आक्रांत (को०) । ३. जो मार
 दिया गया हो । जिसकी हिंसा कर दी गई हो (को०) । ४.
 जिसे आघात पहुँचाया गया हो (को०) । ५. जिसकी इच्छा
 की गई हो । आकांक्षित (को०) ।

प्रार्थित^२—सञ्ज्ञा पुं इच्छा [को०] ।

प्रार्थितदुर्लभ—वि० [सं०] जो इच्छित हो या जिसकी इच्छा की
 गई हो पर जिसका पाना कठिन हो [को०] ।

प्रार्थी—वि० [सं० प्रार्थिन्] [वि० स्त्री० प्रार्थिनी] १ माँगनेवाला ।
 प्रार्थना करनेवाला । याचक । २. निवेदक । निवेदन करने-
 वाला । ३. प्रार्थनाशील । इच्छुक ।

प्रार्थ्य—वि० [सं०] प्रार्थना के योग्य । याचनीय ।

प्रालव—सञ्ज्ञा पुं [सं० प्रालम्ब] १ रस्सी आदि के ढंग की वह
 वस्तु जो किसी ऊँची वस्तु में टँगी और लटकती हो ।
 २. वह माला जो गर्दन से छाती तक लटकती हो । हार ।
 ३. मोतियों का हारनुमा एक आभूषण (को०) । ४. स्तन ।
 कुच (को०) । ५. एक प्रकार का कद्दू या तुबी (को०) ।

प्रालवक—सञ्ज्ञा पुं [सं० प्रालम्बक] दे० 'प्रालव' [को०] ।

प्रालविका—सञ्ज्ञा स्त्री [सं० प्रालम्बिका] गले में पहनने का सोने
 का हार । सोने की माला ।

प्राल—सञ्ज्ञा पुं [हिं०] दे० 'पलाल' ।

प्रालब्ध—सञ्ज्ञा पुं [सं० प्रारब्ध] दे० 'प्रारब्ध' ।

प्रालेय—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १ हिम । तुषार । उ०—व्यस्त बरसने
 लगा अश्रुमय यह प्रालेय ह्लाहल नीर ।—कामायनी, पु०
 १३ । २. वर्षा । ३. भूगर्भशास्त्रानुसार वह समय जब अत्यंत
 हिम पडने के कारण उत्तरीय ध्रुव पर सब पदार्थ नष्ट हो गए
 और वहाँ शीत की इतनी अधिकता हो गई कि अब कोई
 जंतु या वनस्पति वहाँ नहीं रह सकती ।

यौ०—प्रालेयकर = हिमकर । चंद्रमा । प्रालेयपर्वत, प्रालेय-
 भूधर = हिमालय । प्रालेयरश्मि । प्रालेयशैल ।

प्रालेयरश्मि—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १ चंद्रमा । २. कपूर (को०) ।

प्रालेयशैल—सञ्ज्ञा पुं [सं०] हिमालय [को०] ।

प्रालेयाशु—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १ हिमाशु । चंद्रमा । २. कपूर ।

प्रालेयाद्रि—सञ्ज्ञा पुं [सं०] हिमालय ।

प्रावट—सञ्ज्ञा पुं [सं०] यव । जौ ।

प्रावण—सञ्ज्ञा पुं [सं०] कुदाल । खनित्र । फावड़ा [को०] ।

प्रावधान—सञ्ज्ञा पुं [सं० प्र (उप०) + अवधान] नियम ।
 कानून । व्यवस्था । उ०—उसके एक प्रावधान में बहुत कुछ
 ऐसा कहा गया है कि केंद्र और राज्यों में भी पाँच वर्षों तक
 अग्नेजी को ही प्रशासनीय भाषा के रूप में जारी रखना
 होगा ।—शुक्ल० अभि० प्र०, पु० ७१ ।

प्रावर^१—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १ प्राचीर । चहारदारी । २. उत्तरीय ।
 उपरना । ३. एक देश का नाम (को०) ।

प्रावर^२—वि० चारों ओर । चतुर्दिक् । उ०—दोह घरी दिन पछुछ
 रहि, चल्थो दिली पुर माँह । प्रति उज्जल वस्त्रग वर प्रावर
 खिति उछाह । पू० रा०, २४।३०० ।

प्रावरण—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १ प्रच्छादन । ढक्कन । २. उत्तरीय
 वस्त्र । ओढ़ने का वस्त्र । चादर ।

प्रावरणीय—सञ्ज्ञा पुं [सं०] उत्तरीय । ओढ़ने का वस्त्र [को०] ।

प्रावार—सञ्ज्ञा पुं [सं०] १ एक प्रकार का कपड़ा जो प्राचीन काल में

वनता था और बहुमूल्य होता था । २ उत्तरीय वस्त्र ।
३. प्रच्छादन । आच्छादन आवरण (को०) । ४. एक जनपद
का नाम (को०) ।

प्रावारक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ऊपर से ओढ़ने का वस्त्र । प्रावार [को०] ।

प्रावारकर्क—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का उल्लू ।

प्रावारकीट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कपड़े में लगनेवाला एक प्रकार का
श्वेत कीड़ा ।

प्रावारिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रावार या उत्तरीय बनानेवाला [को०] ।

प्रावालिक—वि० [सं०] प्रवाल या मूँगे का व्यापारी [को०] ।

प्रावासिक—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रावासिकी] प्रवास के
उपयुक्त [को०] ।

प्राविट (पु)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रावृट्] पावस । वर्षा ऋतु । उ०—
प्राविट सरद पयोद घनेरे । लरत मनहुँ मास्त के प्रेरे ।—
मानस, ६।४५

प्रावित्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] किसी के आश्रम में रहना । रक्षण का
प्राश्रय प्राप्त करना ।

प्राविष्ट्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] औचहीप के एक खड का नाम । (केशव) ।

प्रावीण्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रवीणता । कुशलता । नैपुण्य ।

प्रावृट्—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रावृप्] वर्षा ऋतु । पावस । उ०—प्रावृट्
में तव प्राणण घन गर्जन से हर्षित ।—ग्राम्या, पृ० ५७ ।

प्रावृट्काल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वर्षाकाल [को०] ।

प्रावृढत्यय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वर्षा का समाप्तिकाल । शरद ऋतु ।

प्रावृत्^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] ओढ़ने का कपड़ा । आच्छादन ।

प्रावृत्^२—वि० १ अच्छी तरह आवृत या घिरा हुआ । आच्छादित ।

प्रावृत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ प्राचीर । घेरा । २. मल जो आत्मा
की दृक् और दृक्शक्ति को आच्छादित करता है । (जैन) ।
३ आड । रोक ।

प्रावृत्तिक^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० प्रावृत्तिका] वह दूत जो एक
स्थान के समाचार को दूसरे स्थान में पहुँचाने का काम करता
हो । एलची ।

प्रावृत्तिक^२—वि० १. अमुख्य । गौण । २ जिसे पूर्णतः सूचित हो ।
जानकार [को०] ।

प्रावृष—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रावृष्ट् । वर्षा ऋतु ।

प्रावृषा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रावृष' ।

प्रावृषायणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. केवाँच । २. विपखोपरा ।

प्रावृषिक^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मयूर । मोर ।

प्रावृषिक^२—वि० १. जो वर्षा ऋतु में उत्पन्न हो । २. वर्षा ऋतु
संबंधी ।

प्रावृषिज^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह तीक्ष्ण वायु जो वर्षा ऋतु में चलती
है । ऋष्माघात ।

प्रावृषिज^२—वि० जो वर्षा ऋतु में उत्पन्न हो [को०] ।

प्रावृषीण—वि० [सं०] १ वर्षाकाल में उत्पन्न होनेवाला । २ वर्षा-
काल संबंधी ।

प्रावृष्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. ईति । २. कर्दव । ३. धारा कर्दव ।
४ वह कर जो वर्षा ऋतु में दिया जाता हो । ५ कुटज ।
कुरैया । ६ प्रचुरता । अधिकता ।

प्रावृषेय—वि० वर्षाकाल में उत्पन्न । वर्षाकाल का । वर्षा ऋतु
संबंधी । २ वर्षा में देय (को०) ।

प्रावृषेया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ केवाँच । २. लाल पुनर्नवा ।

प्रावृषेय^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक देश का नाम ।

प्रावृषेय^२—वि० [स्त्री० प्रावृषेयी] वर्षाकाल में होनेवाला ।

प्रावृष्य^१—वि० [सं०] जो वर्षाकाल में हो ।

प्रावृष्य^२—सञ्ज्ञा पुं० १ वैदूर्य । २. कुटज । ३ धाराकदवा । ४.
विकटक ।

प्रावेयथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का ऊनी वस्त्र ।

प्रावेशन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वह जो प्रवेश के अवसर पर दिया या
किया जाय । २ प्रवेशन का कार्य । प्रवेश करना । ३. कार-
खाना । सस्थान (को०) ।

प्रावेशिक—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रावेशिकी] १ प्रवेश का
साधनभूत । जिसके कारण प्रवेश मिले । प्रवेश करने में
सहायता देनेवाला । २ प्रवेश संबंधी (को०) । ३. प्रवेश करना
जिसका स्वभाव हो (को०) ।

प्राव्रज्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] 'प्राव्राज्य' [को०] ।

प्राव्राज्य^१—वि० [सं०] प्रव्रज्या संबंधी ।

प्राव्राज्य^२—सञ्ज्ञा पुं० १. सन्यास जीवन । सन्यास । २ इतस्तत् चक्र-
मण या परिभ्रमण [को०] ।

प्राश्—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] भोजन । आहार [को०] ।

प्राश्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ भोजन करना । स्वाद लेना । चखना ।
२. भोजन । आहार [को०] ।

प्राशक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भोजन करनेवाला । भोक्ता । भक्षक ।
खानेवाला [को०] ।

प्राशन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. खाना । भोजन । २ चखना । जैसे,
अन्नप्राशन । ३ खिलाना । चखाना (को०) ।

प्राशनीय^१—वि० [सं०] प्राशन के योग्य । खाने के योग्य । चखने
के योग्य ।

प्राशनीय^२—सञ्ज्ञा पुं० आहार । भोजन [को०] ।

प्राशस्त्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रशस्तता । प्रशस्त होने का भाव ।
२ वैशिष्ट्य । विशिष्टता (को०) ।

प्राशास्ता—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्रशास्ता नामक ऋत्विज का काम ।
२ प्रशास्ता का भाव ।

प्राशास्त्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ दे० 'प्राशास्ता' । २ सरकार ।
शासन [को०] ।

प्राशित^१—वि० [सं०] भक्षित । खाया हुआ । चखा हुआ ।

प्राशित^२—सञ्ज्ञा पुं० १ पितृयज्ञ । तर्पण । २. भक्षण ।

प्राशित्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. यज्ञों में पुरोडाश आदि में से काटकर
निकाला हुआ वह छोटा टुकड़ा जो ब्रह्मोद्देश से अलग करके

प्राशिन्नाहरण नामक यज्ञपात्र मे रखा जाता है। यह भाग जो या पीपल के गोदे बराबर निकाला जाता और प्राय नोक की ओर से काटा जाता है। २ दे० 'प्राशिन्नाहरण'। ३ खाद्य पदार्थ। खाने योग्य कोई वस्तु (को०)।

प्राशिन्नाहरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] यज्ञ के एक पात्र का नाम।

विशेष—यह पात्र गोवर्ण के आकार का होता है और इसी में प्राशिन्न रखा जाता है।

प्राशी—वि० [सं० प्राशिन्] [वि० स्त्री० प्राशिनी] प्राशन करने-वाला। खानेवाला। भक्षक।

प्राशु^१—वि० [सं०] त्वरित। शीघ्र। तुरत।

प्राशु^२—सञ्ज्ञा पुं० १ खाना। भक्षण। भोजन। १ वह जो सोम खाता है। ३ वृत्रासुर का एक शत्रु (को०)।

प्राशिनक—वि० [सं०] १ सभ्य। सभा की कार्यवाही करनेवाला। २ प्रश्नकर्ता। पूछनेवाला। ३ परीक्षक। ४ निर्णायक। निर्णायक (को०)।

प्राशनीपुत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक ऋषि का नाम।

प्राश्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ अर्कप्रकाश के अनुसार वे पशु जो गौव में रहते हैं। जैसे, गाय, बकरी, भेड़ा आदि। २ प्राशन करने योग्य पदार्थ।

प्रासग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रासङ्ग] १ हल का जुआ या जुआठा जिसमें नए बैल निकाले जाते हैं। २ तराजू। तुला। २. तराजू की ढही।

प्रासंगिक^१—वि० [सं० प्रासङ्गिक] १ प्रसंग संबंधी। प्रसंग का। २ प्रसंग द्वारा प्राप्त। प्रसंगागत।

प्रासंगिक^२—सञ्ज्ञा पुं० कथावस्तु के दो भेदों में से एक। गौण कथा-वस्तु।

विशेष—इससे अधिकारिक या मूल कथावस्तु का सौंदर्य बढ़ता है और मूल कार्य या व्यापार के विकास में सहायता मिलती है। इसके दो भेद कहे गए हैं—पताका और प्रकरी।

प्रासग्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रासङ्ग्य] जुआ वहन करनेवाला (को०)।

प्रास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्राचीन काल का एक प्रकार का साला। बरछी। भाला। वर्षास्त्र।

विशेष—इसमें सात हाथ लंबी वास की छड़ लगती है और दूसरी नोक पर लोहे का नुकीला फल रहता है। इसका फल बहुत तेज होता है जिसपर स्तवक चढ़ा रहता है। इसे वर्षास्त्र भी कहते हैं।

२ फेंकना। प्रक्षेपण (को०)। ३. अनुप्रास (को०)।

प्रासक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्रास नामक अस्त्र। २ पाशक। पाँसा।

प्रासन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] फेंकना।

प्रासन^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्राशन] दे० 'प्राशन'।

प्रासहा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] इद्र की पत्नी का नाम (को०)।

प्रासाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्राचीन वास्तुविद्या के अनुसार लवा, चोटा, ऊँचा और कई भूमियों का पक्का या पत्थर का घर

जिसमें अनेक शृंग, शृखला, अडकादि हों तथा अनेक द्वारों और गवाक्षों से युक्त त्रिकोण, चतुर्कोण, आयत, वृत्त शालाएँ हों।

विशेष—आकृति के भेद से पुराणों में प्रासाद के पाँच भेद किए गए हैं—चतुरस्र, चतुरायत, वृत्त, पृत्ताय और अष्टास्र। इनका नाम क्रम से वैराज, पुष्पक, कैलास, मालक और त्रिविष्टप है। भूमि, अडक, शिखरादि की न्यूनाधिकता के कारण इन पाँचों के नौ नौ भेद माने गए हैं। जैसे, वैराज के मेरु, मदर, विमान, भद्रक, सर्वतोभद्र, रुचक, नदन, नदिवर्धन और श्रीवत्स, पुष्पक के वलभी, गुहराज, शालागृह, मंदिर, विमान, ब्रह्ममंदिर, भवन, उत्तम और शिविकावेशम, कैलास के वलय, दृढुभि, पद्म, महापद्म, भद्रक, सर्वतोभद्र, रुचक, नदन, गुवाक्ष या गुवावृत्त, मालव के गज, वृषभ, हस, गदह, सिंह, भूमुख, भूवर, श्रीजय और पृथिवीधर, और त्रिविष्टप के वज्र, चक्र, मुष्टिक या वभ्रु, वक्र, स्वस्तिक, खड्ग, गदा, श्रीवृक्ष और विजय। पुराणों में केवल राजाओं और देवताओं के गृह को प्रासाद कहा है।

२ बहुत बड़ा मकान। महल। उ०—वे प्रासाद रहे न रहें, पर, अमर तुम्हारा यह साकेत।—साकेत, पु० ३७१। ३ महल की चोटी। ४. कोठे के ऊपर की छत। ५ वीहों के सघाराम मे वह बड़ी शाला जिसमें साधु लोग एकत्र होते हैं। ६ मंदिर। देवालय (को०)। ७ दर्शकों के लिये बना हुआ स्थान (को०)।

प्रासादकुक्कुट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कबूतर।

प्रासादगर्भ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] महल का भीतरी भाग (को०)।

प्रासादप्रतिष्ठा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] मंदिर में मूर्ति की स्थापना (को०)।

प्रासादमण्डना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रासादमण्डना] प्राचीन काल का एक प्रकार का रंग जिससे प्रासाद के ऊपर रंगाई होती थी।

विशेष—यह पीला या लाल होता था और इसकी रंगाई बहुत दिनों तक टिकती थी।

प्रासादशायी—वि० [सं० प्रासादशायिन्] महल मे सोनेवाला (को०)।

प्रासादशिखर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रासादशृंग'।

प्रासादशृंग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रासादशृङ्ग] महल या मंदिर का सर्वोच्च स्थान। चोटी (को०)।

प्रासादिक—वि० [सं०] १ दयालु। कृपालु। २. सुदर। अच्छा। ३ जो प्रसाद मे दिया जाय। ४. प्रसाद संबंधी। ५ प्रसाद गुण संबंधी। प्रसाद गुण का। उ०—काम्य का जो प्रासादिक रूप, दिखाया तुमने मनोभिराम। कहाँ से लाकर भरी अनूप, छटा उसमें स्वर्गीय ललाम।—सागरिका, पु० ५७।

प्रासादीय—वि० [सं०] प्रासाद संबंधी। प्रासाद का।

प्रासिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जिसके पास प्रास हो। प्रासघारी। बरछी बरदार।

प्रासु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दीर्घप्रास। गहरी साँस।

प्रासुक^१—वि० [सं० प्राशु या प्राशु] १. प्रचुर। अधिक। विशेष।

२. शीघ्रतापूर्वक । चटपट । उ०—वाकी हाट उधार करि लेहि कचौरी सेर । यह प्रासुक भोजन करहि नित उठि सकि सवेर ।—अर्घ०, पु० ३१ ।

प्रासूतिक—वि० [सं०] प्रसूति से संबंधित [को०] ।

प्रासेव—सज्ञा पुं० [सं०] वह रस्सी जो घोड़े के साज में सम्मिलित हो ।

प्रास्कएव—सज्ञा पुं० [सं०] एक साम का नाम ।

प्रास्त—वि० [सं०] फेंका हुआ । प्रक्षिप्त । २. निर्वासित । बहिष्कृत [को०] ।

प्रास्तारिक—वि० [सं०] १ जिसका व्यवहार प्रस्तार में हो । २. प्रस्तार सबधी ।

प्रास्ताविक—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रास्ताविकी] १ भूमिका रूप में काम आनेवाला । सूचनात्मक । २ परिचयात्मक । जैसे, प्रास्ताविक वचन, प्रास्ताविक विलास । समयानुकूल । ३. सगत । समीचीन [को०] ।

प्रास्तुत्य—सज्ञा पुं० [सं०] विचार या बहस के प्रतंगत होना । विचारणीय होना [को०] ।

प्रास्थानिक^१—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रास्थानिकी] वह पदार्थ जो प्रस्थान के समय मंगलकारक माना जाता हो । जैसे, शस्त्र की ध्वनि, दंही, मछली आदि ।

प्रास्थानिक^२—सज्ञा पुं० यात्रा की तैयारी [को०] ।

प्रास्थिक^१—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रास्थिकी] १ प्रस्थ संबंधी । २. जिसमें एक प्रस्थ अन्नादि अँठ जाय । ३. एक प्रस्थ द्वारा बोलने योग्य [को०] । ४. जो प्रस्थ के हिसाब से खरीदा गया हो । ५. पाचक ।

प्रास्थिक^२—सज्ञा पुं० भूमि । जमीन ।

प्रास्पेक्टस—सज्ञा पुं० [अ०] १ वह छपा हुआ पत्र जिसमें आरंभ होनेवाले किसी बड़े कार्य का पूरा पूरा विवरण और उसकी कार्यप्रणाली आदि दी हो । विवरणपत्र । जैसे, जानबीमा कपनी का प्रास्पेक्टस, बक का प्रास्पेक्टस । २ वह पुस्तक या पुस्तिका जिसमें शिक्षा का पाठ्यक्रम या पूरा न्यौरा हो । विवरण पत्रिका ।

प्रास्त्रवण—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रास्त्रवणी] जोत सबधी । झरने से सबद्ध [को०] ।

प्राह—सज्ञा पुं० [सं०] नृत्य की शिक्षा देना [को०] ।

प्राहारिक—सज्ञा पुं० [सं०] पहरुआ । चौकीदार ।

प्राहुण, प्राहुणक—सज्ञा पुं० [सं०] अतिथि । मेहमान । पाहुना । उ०—जोवन जायइ प्राहुणउ, वेगहरउ घर आय ।—ढोला०, दू० १३४ ।

प्राहुन्ना^७—सज्ञा पुं० [सं० प्राहुणक] मेहमान । पाहुना । उ०—चित्रग राय रावर चर्व प्राहुन्ना भग्गा फिर ।—दू० रा०, ६६।३६० ।

प्राह्ण—सज्ञा पुं० [सं०] दिन का पूर्व भाग । दोपहर के पूर्व का समय [को०] ।

प्राह्णोत्तन—वि० [सं०] दिन के पूर्वभाग में होनेवाला या उससे संबंधित [को०] ।

प्राह्लाद—सज्ञा पुं० [सं०] प्रह्लाद अर्थात् विरोचन की सतान ।

प्रिटर—सज्ञा पुं० [अ०] १ वह जो किसी छापेखाने में रहकर छापने का काम करता हो । मुद्रण करनेवाला । छापनेवाला । २ वह जो किसी छापेखाने में छपनेवाली चीजों की छपाई का जिम्मेदार हो । मुद्रक ।

प्रिटिंग—सज्ञा स्त्री० [अ०] छापने का काम । छपाई । मुद्रण ।

प्रिटिंग इंक—सज्ञा स्त्री० [अ०] वह स्याही जो प्रेस में सीसे के टाइप (अक्षर) से छापने के काम में आती है । टाइप के छापने की स्याही । यह कच्ची और पक्की दो प्रकार की तथा अनेक रंगों की होती है ।

प्रिटिंग प्रेस—सज्ञा स्त्री० [अ०] सीसा आदि धातु के ढले हुए या लकड़ी के अक्षर या टाइप छापने की वह कल जो हाथ से चलाई जाती है । हैंड प्रेस । दे० 'प्रेस' ।

प्रिटिंग मशीन—सज्ञा स्त्री० [अ०] सीसे धातु के अक्षर या टाइप छापने की वह कल जो साधारण हाथ की कल की अपेक्षा बहुत अधिक काम करती है और जो हाथ तथा इंजिन दोनों से चलाई जा सकती है । दे० 'प्रेस' ।

प्रिस—सज्ञा पुं० [अ०] १ राजा । नरेश । २ युवराज । राज-कुमार । शाहजादा । ३ राजपरिवार का कोई व्यक्ति । ४ सरदार । सामंत ।

प्रिस आफ वेल्स—सज्ञा पुं० [अ०] इंग्लैंड के राजा के ज्येष्ठ पुत्र की पदवी । इंग्लैंड का युवराज ।

प्रिसिपल—सज्ञा पुं० [अ०] १ किसी बड़े विद्यालय या कालिज आदि का प्रधान अधिकारी । प्रधानाचार्य । २ वह मूल धन जो किसी को उधार दिया गया हो और जिसके लिये ब्याज मिलता हो ।

प्रिआ^७—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रिया] दे० 'प्रिया' । उ०—अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकर प्रिआ ।—मानस, १।६८।

प्रिथिमी^७—सज्ञा स्त्री० [सं० पृथ्वी] पृथ्वी । जमीन । उ०—जो नहि सीस पेम पथ लावा । सो प्रिथिमी महे काहे क आवा ।—जायसी (शब्द०) ।

प्रियंकर^१—सज्ञा पुं० [सं० प्रियङ्कर] एक दानव का नाम ।

प्रियंकर^२—वि० १ दया दिखानेवाला । २ स्नेह करनेवाला । स्नेहवान । ३ अनुकूल [को०] ।

प्रियंकरी—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रियङ्करी] १ सफेद कटेरो । २. बड़ी जीवती । ३. असगध ।

प्रियंकार—वि० [सं० प्रियङ्कार] दे० 'प्रियंकार' [को०] ।

प्रियगु—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रियङ्गु] १ कंगनी नाम का अन्न । २ राजिका । ३ पिप्पली । पीपल । ४ कुटकी । ५ राई ।

प्रियगू—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रियङ्गु] दे० 'प्रियगु' ।

प्रियदद—वि० [सं० प्रियन्दद] प्रिय वस्तु देनेवाला । ईप्सित वस्तु देनेवाला [को०] ।

प्रियवद^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. खेचर । आकाशकारी । पक्षी । २ एक गधर्व का नाम ।

प्रियवद^२—वि० [स्त्री० प्रियवदा] प्रिय वचन कहनेवाला । भीठा बोलनेवाला । प्रियभाषी ।

प्रियवदा—सञ्ज्ञा [स्त्री०] १ अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला की एक सखी । २ एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में नगण, भगण, जगण और रगण (III, SII, ISI, SIS) होता है और ४४ पर यति होती है । जैसे—न भज रे हरिजु सो कबों नरा । जिहि भजै हर विधी सुनिर्जरा ।

प्रिय^१—पुं० [सं०] [स्त्री० प्रिया] १. स्वामी । पति । २ जामाता । जेवाई । दामाद । कन्या का पति । ३ कार्तिकेय । स्वामि कार्तिक । ४ एक प्रकार का हिरन । ५ जीवक नाम की औषधि । ६. ऋद्धि । ७. धर्मात्मा और मुमुक्षुओं को प्रसन्न करनेवाला और सबकी कामना पूरी करनेवाला, ईश्वर । ८ कंगनी । ९ हित । भलाई । १० वैत । ११ हरताल । १२ धारा कदव ।

प्रिय^२—१ जिससे प्रेम हो । प्यारा । २ जो भला जान पड़े । मनोहर । ३ महंगा । खर्चीला (को०) ।

प्रियक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पीतसालक । पियासाल नाम का वृक्ष । २ कदम का पेड़ । ३ कंगनी नामक अन्न । ४ केसर । ५ धारा कदव । ६ चितकधरा हिरन जिसके रोएँ रग-विरगे, मुलायम, बड़े और चिकने होते हैं । चित्र भृग । ७ षाहद की मक्खी । ८. भ्रमर । भौरा (को०) । ९ एक पक्षी ।

प्रियकर—वि० १ आनंद देनेवाला । २ हितकर [को०] ।

प्रियकलत्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह पति जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हो [को०] ।

प्रियकाक्षी—वि० [सं० प्रियकाक्षिन्] भला चाहनेवाला । हितकारी । शुभाभिलाषी ।

प्रियकाम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] भला चाहनेवाला । हितकारी । शुभ-चित्तक ।

प्रियकारक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रियकाम' ।

प्रियकारी^१—वि० [सं० प्रियकारिन्] दयापूर्ण व्यवहार करनेवाला ।

प्रियकारी^२—सञ्ज्ञा पुं० १. मित्र । २ हितकारी [को०] ।

प्रियकृत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रिय करनेवाला मित्र । २. विष्णु का एक नाम ।

प्रियजन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सगा सबंधी । २ प्रिय व्यक्ति ।

प्रियजात—देश० पुं० [सं०] अग्नि का एक नाम ।

प्रियजानि—पुं० [सं०] दे० 'प्रियकलत्र' [को०] ।

प्रियजीव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सोनापाठा ।

प्रियतम^१—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रियतमा] सबसे अधिक प्यारा । प्राणों से भी बढ़कर प्रिय ।

प्रियतम^२—सञ्ज्ञा पुं० १ स्वामी । पति । २ प्यारा । अत्यंत प्रिय व्यक्ति । ३. मोरशिखा नाम का वृक्ष ।

प्रियतमता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रियतम + ता (प्रत्य०)] प्रतीव प्रियता । अत्यंत प्रिय होने का भाव । उ०—मूनन प्रियता का प्रियतमता समता नृतन । —अपरा, पृ० २१२ ।

प्रियतमा^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पत्नी । २. प्रिया [को०] ।

प्रियतमा^२—वि० सबसे अधिक प्यारी । अत्यंत प्रिय (स्त्री) ।

प्रियतर—वि० [सं०] अत्यंत प्रिय [को०] ।

प्रियता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रिय होने का भाव ।

प्रियतोषण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. वह जिससे प्रिय सतुष्ट हो । २ एक प्रकार का रतिवध ।

प्रियत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रिय होने का भाव ।

प्रियद—वि० [सं०] जो प्रिय वस्तु दे ।

प्रियदत्ता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पुष्पी ।

प्रियदर्श—वि० [सं०] दे० 'प्रियदर्शन' ।

प्रियदर्शन^१—वि० [सं०] [स्त्री० प्रियदर्शना] जो देखने में प्यारा लगे । शुभदर्शन । सुदर ।

प्रियदर्शन^२—सञ्ज्ञा पुं० १. खिरनी का पेड़ । २ तोता । ३. एक गधव का नाम ।

प्रियदर्शी^१—वि० [सं० प्रियदर्शन्] सबको प्रिय देखने या समझने-वाला । सबसे स्नेह करनेवाला । मनोहर ।

प्रियदर्शी^२—सञ्ज्ञा पुं० अशोक की एक उपाधि । अशोक का नाम ।

प्रियदेवन—वि० [सं०] शूतश्रीका का प्रेमी । जिसे जुप से प्रेम हो [को०] ।

प्रियधन्वा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रियधन्वन्] शिव ।

प्रियनिवेदन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सुसमाचार [को०] ।

प्रियपात्र—वि० [सं०] जिसके साथ प्रेम किया जाय । प्रेमपात्र । प्यारा ।

प्रियवादिनी^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रियवादिनी] राजवल्ली । उ०—अविष्टा प्रियवादिनी, राजपुत्रिका आहि । —नद० प्रं०, पृ० १०५ ।

प्रियव्रत^(५)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रियव्रत] प्रियव्रत । उ०—मतिराम बहुत प्रियव्रत प्रताप में, प्रवल बल पृथु, पारबहि धारों पन में । —मति० प्रं०, पृ० ३७३ ।

प्रियभाषण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मधुर वचन बोलना । ऐसी बात कहना जो प्रिय लगे ।

प्रियभाषी—वि० [सं० प्रियभाषिन्] [स्त्री० प्रियभाषिनी] मधुर वचन बोलनेवाला । भीठी बात कहनेवाला ।

प्रियमंजन—वि० [सं० प्रियमंजन] जिसे आभूषण, शृंगार प्रिय हो [को०] ।

प्रियमधु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. बलराम का एक नाम । २. वह जिसे मदिरा प्यारी हो (को०) ।

प्रियमेध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ एक ऋषि का नाम । २ भागवत के अनुसार अजमीढ़ के एक पुत्र का नाम ।

प्रियरण—वि० [सं०] युद्धप्रिय । वीर [को०] ।

प्रियरूप—वि० [सं०] मनोहर । सुंदर ।

प्रियवल्ली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रियवल्ली] दे० 'प्रियवर्णी' ।

प्रियवक्त्रा—वि० [सं० प्रियवक्त्र] १ प्रिय वचन बोलनेवाला । मधुरभाषी । २. चापलूस (को०) ।

प्रियवचन^१—वि० [सं०] मीठी बात करनेवाला । मधुरभाषी ।

प्रियवचन^२—सञ्ज्ञा पुं० १. कृपापूर्ण शब्द । २ प्रिय लगनेवाली बात [को०] ।

प्रियवर—वि० [सं०] अति प्रिय । प्यारो में श्रेष्ठ । सबसे प्यारा ।

विशेष—इसका व्यवहार प्रायः पत्नी आदि में संबोधन के रूप में होता है ।

प्रियवर्णी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कौंगनी नाम का अन्न ।

प्रियवल्ली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रियवर्णी [को०] ।

प्रियवादिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] एक प्रकार का पक्षी [को०] ।

प्रियवादिन्—वि० स्त्री० [सं०] मधुर बोलनेवाली ।

प्रियवादी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रियवादिन्] [स्त्री० प्रियवादिनी] प्रिय बोलनेवाला । मधुरभाषी । मीठा बोलनेवाला ।

प्रियव्रत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ स्वायंभुव मनु के एक पुत्र का नाम जो उत्तानपाद का भाई था । पुराणों के अनुसार इसके रथ दौड़ाने से पृथ्वी में जो गड़ढे हुए, वे ही पीछे समुद्र हो गए । २. वह जिसे व्रत प्रिय हो ।

प्रियशालक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रियाशाल ।

प्रियश्रवा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रियश्रवस्] परमेश्वर का एक नाम ।

प्रियसंगमन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रियसङ्गमन्] १. वह स्थान जहाँ प्रिय और प्रिया का मिलन हो । अभिसार का स्थान । सकेत स्थान । २ वह स्थान जहाँ अदिति और कश्यप का मिलन हुआ था ।

प्रियसदेश—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रियसन्देश] १ खुशाखबरी । अच्छा संदेश । २. चपा का पेड़ ।

प्रियसंप्रहार—वि० [सं० प्रियसम्प्रहार] मुकदमा लड़ने का शौकीन । मुकदमेवाज [को०] ।

प्रियसख—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ खैर का पेड़ । २ प्रिय मित्र (को०) ।

प्रियसत्य—वि० [सं०] १ जिसे सत्य प्रिय हो । २ सत्य होने पर भी प्रिय [को०] ।

प्रियशालक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रियाशाल नामक वृक्ष ।

प्रियसुहृद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अंतरंग मित्र । दिली दोस्त [को०] ।

प्रियस्वप्न—वि० [सं०] १ जिसे निद्रा प्रिय हो । २. शालस्पृक्त । शालसी [को०] ।

प्रियांबु—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रियाम्बु] १ आम का पेड़ । २ आम का फल । ३. वह जिसे जल बहुत प्रिय हो ।

प्रिया—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ नारी । स्त्री । २ भार्या । पत्नी । जोरू । ३ इलायची । ४. मल्लिका । चमेली । ५ मदिरा, शराब । ६ प्रेमिका स्त्री । माशुका । ७ एक वृक्ष का नाम जिसके प्रत्येक चरण में रणगु (JIS) होता है, इसका दूसरा नाम मुगी है । ८ १४ मात्रा का एक छंद । जैसे, तब लंकनाथ रिसाय के । ९ कौंगनी । १० समाचार । खबर (को०) ।

प्रियाख्य—वि० [सं०] प्रिय । प्यारा ।

प्रियाख्यान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सुखद समाचार । शुभ समाचार [को०] ।

प्रियातिथि—वि० [सं०] अतिथि का आदर सरकार करनेवाला [को०] ।

प्रियात्मज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चरक के अनुसार पसह जाति का एक पक्षी ।

प्रियात्मा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रियात्मन्] वह जिसका चित्त उदार और सरल हो ।

प्रियान्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] महंगा खाद्य पदार्थ [को०] ।

प्रियापाय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रिय वस्तु की हानि । प्रिय वस्तु का विश्लेष या अभाव [को०] ।

प्रियाप्रिय^१—वि० [सं०] प्रिय और अप्रिय । रचिकर और अरचिकर (भावना आदि) ।

प्रियाप्रिय^२—सञ्ज्ञा पुं० अनुकूलता और प्रतिकूलता । हित और अहित [को०] ।

प्रियाह^१—वि० [सं०] १ प्रेम या कृपा के योग्य । २ सुशील । सुप्रिय [को०] ।

प्रियाह^२—सञ्ज्ञा पुं० विष्णु [को०] ।

प्रियाल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चिरौजी का पेड़ । प्रियाल ।

प्रियाला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दाख । द्राक्षा ।

प्रियाव^(५)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रिय + हिं० आव (= आना)] आमत्रण युक्त संबोधन । हे प्रिय, तू आ । उ०—वावहियउ नइ विरहिणी, दूहुवाँ एक सहाव । जव ही वरसाइ घण घणउ, तवही कहइ प्रियाव ।—ढोला०, दू० २७ ।

प्रियासु—वि० [सं०] जिसे प्राण प्रिय हो । जिसे जीवन प्रिय हो [को०] ।

प्रियाहवा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कौंगनी नामक अन्न ।

प्रियैषी—वि० [सं० प्रियैपिन्] १ प्रिय की इच्छा करनेवाला । २ किसी को प्रसन्न करने या किसी की सेवा करने का इच्छुक । २ मैत्रीपूर्ण । स्नेहपूर्ण [को०] ।

प्रियोक्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] चाटुकारिता से भरी उक्ति । प्रिय लगनेवाली बात । चापलूसी [को०] ।

प्रिविलेज लीव—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वह छुट्टी जो, सरकारी तथा किसी गैर सरकारी सस्था या कंपनी के नौकर, कुछ निर्दिष्ट अवधि तक काम कर चुकने के बाद, पाने के अधिकारी या हकदार होते हैं ।

प्रिवीकॉसिल—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ किसी बड़े शासक को शासन

के काम में सहायता देनेवाले कुछ चुने हुए लोगों का वर्ग ।
२ इंग्लैंड में वहाँ के राजा को परामर्श देनेवाले का वर्ग या परिषद् ।

विशेष—इसका संगठन १५ वीं शताब्दी में हुआ था । इस वर्ष में या तो कुछ पुराने पदाधिकारी और या राजा के चुने हुए कुछ लोग रहते हैं । आजकल इसमें राजकुल से सबंध रखनेवाले लोग, बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी रईस और पादरी आदि सम्मिलित हैं, जिनकी संख्या २०० से ऊपर है । इस वर्ग के दो विभाग हैं । एक विभाग शासनकार्य में राजा को परामर्श देता है जिनके नाम के साथ राष्ट्र प्रान्तेजुल की उपाधि रहती है, और दूसरे विभाग में न्याय विभाग के सर्वप्रधान कर्मचारी होते हैं । कौंसिल का यह दूसरा विभाग अपील के काम के लिये अंगरेजी राज्य भर में अतिम न्यायालय है और यही अतिम निर्णय होता है । शासन कार्य में अथ प्रिवी कौंसिल का विशेष महत्व नहीं रह गया और उसका स्थान प्रायः मंत्रिमंडल ने ले लिया है ।

प्री^१—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ प्रीति । प्रेम । २ काति । चमक । ३ इच्छा । ४ तृप्ति । ५ तर्पण ।

प्री^२ (पुं०)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रिय] दे० 'प्रियतम' । उ०—बलि मालवणी वीनवद्, हूँ प्री दासी तुम्हूँ । का चिंता चित्त अतरे सा प्री दाखर तुम्हूँ ।—ढोला०, पृ० २३६ ।

प्रीर्ध्वक—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रियक] कदव । कदम । (मनेकायं०) ।

प्रीऊ (पुं०)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रिय] प्रियतम । प्यारा । उ०—बावहिया निलपखिया बाढत दइ दइ लूण । प्रिउ मेरा मई प्रीउ की तूँ प्रिउ कहइ स कूण ।—ढोला०, पृ० ३३ ।

प्रीक्षित (पुं०)—सञ्ज्ञा पुं० [सं० परीक्षित] दे० 'परीक्षित' ।

प्रीण—वि० [सं०] १. पुराना । २. पहले का । पूर्ववर्ती । ३. जो प्रसन्न हो । प्रीतियुक्त ।

प्रीणन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ प्रसन्न करना । २ वह जो सतोष दे या प्रसन्न करे [को०] ।

प्रीणस—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] गेंडा । खजूरी [को०] ।

प्रीणित—वि० [सं०] प्रसन्न । हर्षयुक्त [को०] ।

प्रीत^१—वि० [सं०] प्रीतियुक्त । प्रसन्न । हर्षित । तुष्ट ।

प्रीत^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रीति] दे० 'प्रीति' । उ०—कठिन पड़े सुख दुख सहै, प्रीत निभावै और ।—धरम० श०, पृ० ७६ ।

प्रीतडी (पुं०)—सञ्ज्ञा स्त्री० [हिं० प्रीत+डी (प्रत्य०)] प्रीति । स्नेह । उ०—परब्रह्म सौ प्रीतडी सुदर सुमिरन सार ।—सुदर० श०, भा० २, पृ० ६७८ ।

प्रीतम—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रियतम] १. पति । भर्ता । स्वामी । उ०—
डाढी जइ प्रीतम मिलइ यूँ दाखविया जाइ ।—ढोला०, पृ० ११८ । २ वह जिससे प्रेम या स्नेह हो । प्यारा । उ०—
सुरत सज मिली जहाँ प्रीतम प्यारा ।—चुरसी श०, पृ० २१ ।
प्रीतम—प्रीतम गवनी = दे० 'प्रवत्स्यत्यतिका' । उ०—चित ही

चित चिंता परि लहिए । सो तिय प्रीतमगवनी कहिए ।—
नंद० श्र०, पृ० १५८ ।

प्रीतमा (पुं०)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रियतमा] प्रेमिका । प्रियतमा । उ०—
मानस भएउ प्रीतमा ठाऊँ । भूलि गएउ सुमिरन प्री नाऊँ ।
—इद्रा०, पृ० १६३ ।

प्रीतात्मा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रीतात्मन्] शिव का एक नाम ।

प्रीति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ वह सुख जो किसी इष्ट वस्तु को देखने या पाने से होता है । तृप्ति । २ हर्ष । आनंद । प्रसन्नता । ३ प्रेम । स्नेह । प्यार । मुहूर्त्त । ४ मध्यम स्वर की चार श्रुतियों में से अतिम श्रुति । ५ काम की एक परनी का नाम जो रति की सौत थी ।

विशेष—कहते हैं कि किसी समय अनगवती नाम की एक वेश्या थी जो माघ में विभूतिद्वादशी का विधिपूर्वक व्रत करने के कारण दूसरे जन्म में कामदेव की पत्नी हो गई थी । मत्स्य पुराण में इसका आख्यान है ।

६ फलित ज्योतिष के २७ योगों में से दूसरा योग ।

विशेष—इस योग में सब शुभ कर्म किए जाते हैं । इस योग में जन्म ग्रहण करने से मनुष्य नीरोग, सुखी, विद्वान् और धनवान् होता है ।

७ कृपा । दया (को०) । ८ अभिलाषा । आकांक्षा । वाञ्छा ; (को०) । ९ अनुकूलता । सख्य । हितबुद्धि (को०) । १० अनुरजन । प्रसाधन (को०) ।

प्रीतिकर—वि० [सं०] प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला । प्रेमजनक ।

प्रीतिकर्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रीतिकर्मन्] मैत्री अथवा प्रेम का कार्य । कृपापूर्ण कार्य ।

प्रीतिकारक—वि० [सं०] दे० 'प्रीतिकर' ।

प्रीतिकारी—वि० [सं० प्रीतिकारिन्] दे० 'प्रीतिकर' ।

प्रीतिजुषा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] अनिरुद्ध की पत्नी उषा का नाम ।

प्रीतिवृत्—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रीतिवृत्] कामदेव का एक नाम [को०] ।

प्रीतिद^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विदूषक । भडि ।

प्रीतिद^२—वि० सुख या प्रेम उत्पन्न करनेवाला ।

प्रीतिदत्त—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्रेमपूर्वक दिया हुआ दान । २ वह पदार्थ जो सास अथवा ससुर अपने पुत्र या पुत्रवधु को, या पति अपनी पत्नी को भोग के लिये दे ।

प्रीतिदान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रेम या मैत्र्याविश दिया हुआ उपहार । प्रमोपहार (को०) ।

प्रीतिदाय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रीतिदान' ।

प्रीतिपात्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जिसके साथ प्रीति की जाय । प्रेमभाजन । प्रेमी ।

प्रीतिभोज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह भोज या खान पान जिसमें मित्र, और बंधु आदि प्रेमपूर्वक सम्मिलित हों ।

प्रीतिमान्—वि० [सं० प्रीतिमन्] १ प्रेम रखनेवाला । जिसमें प्रेम हो । २. प्रसन्न । हर्षित (को०) । ३ अनुकूल (को०) ।

प्रीतिय—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रेम ।

प्रीतिरीति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रेमपूर्ण व्यवहार । परस्पर का प्रेम संवध । प्रणयभाव ।

प्रीतिवर्द्धन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] विष्णु का एक नाम ।

प्रीतिवर्द्धन^२—वि० प्रेम बढ़ानेवाला । प्रानदवर्धक ।

प्रीतिवर्धन—सञ्ज्ञा पुं० वि० [सं०] दे० 'प्रीतिवर्द्धन' ।

प्रीतिविवाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रेम के आधार पर होनेवाला विवाह । प्रेम विवाह [को०] ।

प्रीतिस्निग्ध—वि० [सं०] प्रेम के कारण आर्द्र, जैसे, आँखें [को०] ।

प्रीती^७—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रीति] दे० 'प्रीति' । उ०—तिनकी तुम भाव प्रीती सहित सेवा करियो ।—दो सी वाक्य ०, भा० २, पृ० ७६ ।

प्रीत्यर्थ—अर्थ० [सं०] १. प्रीति के कारण । प्रसन्न करने के वास्ते । जैसे, विष्णु के प्रीत्यर्थ दान करना । २ लिये । वास्ते ।

प्रीमियम—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] वह रकम जो जीवन या दुर्घटना आदि का बीमा कराने पर उस कपनी को, जिसके यहाँ बीमा कराया गया हो, निश्चित समयों पर दी जाती है । किश्त । विशेष—'दे० बीमा' ।

प्रीमियर—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] प्रधान मंत्री । बजीर आजम ।

प्रीय^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रिय] दे० 'प्रिय' । उ०—उद्दित अधान सुम गतनह जेम जलधि पुन्निम वढहि । हुलसत हीय जे प्रीय प्रिय जिम सुजोति जनिता चढहि ।—पु० रा०, १।६८४।

प्रीव^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रिय] दे० 'प्रिय' । उ०—पच सखी मीली बइठी छई आई । निगुणी ! गुण होई तो प्रीव क्यु जाई ।—बी० रासो, पृ० ३८ ।

प्रुपित—वि० [सं०] १. सिक्त । सिंचित । प्रोक्षित । २ तापक । दाहक । ज्वलित [को०] ।

प्रुष्ट—वि० [सं०] जला हुआ । जो जल गया हो । दग्ध ।

प्रुष्ट्व^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. वर्षा ऋतु या काल । २ सूर्य । ३. शिर । ४. जल की बूँद [को०] ।

प्रुष्ट्व^२—वि० तप्त । ऊष्म । गरम [को०] ।

प्रूफ—सञ्ज्ञा पुं० [थ] १. किसी बात को ठीक ठहराने के लिये दिया जानेवाला प्रमाण । सबूत । २. किसी छपनेवाली चीज का वह नमूना जो उसके छपने से पहले अशुद्धियाँ आदि दूर करने के लिये तैयार किया जाता है । ३. किसी वस्तु का असर होने से पूरा बचाव ।

विशेष—इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग योगिक शब्दों के उत्तर पद के रूप में हुआ करता है । जैसे, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ आदि । वाटर प्रूफ से ऐसे पदार्थ का बोध होता है, जिसके संवध में इस बात की परीक्षा हो चुकी होती है कि उसपर जल नहीं ठहर सकता अथवा जल का कोई प्रभाव नहीं हो सकता । जैसे, वाटरप्रूफ कपडा । इसी प्रकार फायर प्रूफ ऐसे

पदार्थ को कहते हैं जिसकी अग्नि का प्रतीप सहन करने की परीक्षा हो चुकी होती है । जैसे, लोहे का फायर प्रूफ सट्टक, प्रूफ, चिमनी, इमारत का फायर प्रूफ सामान ।

प्रूफरीडर—सञ्ज्ञा पुं० [अ० प्रूफ+रीडर] प्रूफ को पढ़कर अशुद्धियाँ दूर करनेवाला । प्रूफ पाठक । प्रूफ शोधक ।

प्रूम—सञ्ज्ञा पुं० [?] सीसे आदि का बना हुआ लट्टू के आकार का वह यंत्र जिसे समुद्र में डुबाकर उमकी गहराई नापते हैं ।

विशेष—यह रस्सी के एक सिरों में, जिसपर नाप के निशान लगे होते हैं, बाँधकर समुद्र में डाला जाता है । और इस प्रकार उसकी गहराई नापी जाती है । कभी कभी इसके नीचे के अंश में कुछ ऐसी व्यवस्था रहती है जिसे समुद्र की तह के कुछ ककड पत्थर, बालू या घोघे आदि भी उसके साथ लगकर ऊपर चले आते हैं जिससे समुद्र की गहराई के साथ ही साथ इस बात का भी पता लग जाता है कि यहाँ की नीचे की जमीन कैसी है ।

प्रेंख^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रेङ्ख] १ भूलना । पेंग लेना । २ एक प्रकार का सामगान ।

प्रेंख^२—वि० १ जो काँप रहा हो । २ हिलता या भूलता हुआ ।

प्रेंखण—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रेङ्खण] १. अचछा तरह हिलना या भूलना । २ भूला जिस पर भूलते हैं । ३. अठारह प्रकार के रूपों में से एक प्रकार का रूपक ।

विशेष—इस रूपक में सूत्रधार, विष्कम्भक और प्रवेशक आदि की आवश्यकता नहीं होती और इसका नायक नीच जाति का हुआ करता है । इसमें प्ररोचना और नादी नेपथ्य में होता है और यह एक अंक में समाप्त होता है । इसमें वीररस की प्रधानता रहती है ।

प्रेंखणकारिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रेङ्खणकारिका] नाचनेवाली । नर्तकी [को०] ।

प्रेंखा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रेङ्खा] १. हिलना । २ भूलना । भूला । ३. यात्रा । अमण । ४ नृत्य । नाच । ५ एक प्रकार का गृह [को०] । ६ घोड़े की चाल ।

प्रेंखित—वि० [सं० प्रेङ्खित] भूला हुआ । काँपा हुआ [को०] ।

प्रेंखोल—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रेङ्खोल] दे० 'प्रेंखोलन' [को०] ।

प्रेंखोलन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रेङ्खोलन] १. भूलना । २ हिलना । ३ काँपना ।

प्रेक्षक—वि० सञ्ज्ञा पुं० [सं०] देखनेवाला । दर्शक ।

प्रेक्षण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ आँख । २. देखने की क्रिया । ३. दृश्य । नजारा [को०] । ४ खेल, तमाशा, अभिनय आदि [को०] ।

प्रेक्षणक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दृष्टिविषय । दृश्य । प्रदर्शन [को०] ।

प्रेक्षणकूट—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] आँख की पुतली । आँख का डेला [को०] ।

प्रेक्षणिका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] तमाशा देखने की शोकित स्था [को०] ।

प्रेक्षणीय—वि० [सं०] १. देखने के योग्य । दर्शनीय । २ देखने में सुंदर । ३. विचार योग्य । विचारणीय [को०] ।

प्रेक्षणीयक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दृश्य । नजारा [को०] ।

प्रेक्षा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ देखना । २ नाच तमाशा देखना । ३ दृश्य । नजारा (को०) । ४ कोई भी नाटक तमाशा आदि (को०) ५ किसी विषय की अच्छी और बुरी बातों का विचार करना । ६ दृष्टि । निगाह । ७ वृक्ष की शाखा । डाल । ८ शोभा । ९ प्रज्ञा । बुद्धि ।

प्रेक्षाकारी - वि० [सं० प्रेक्षाकारिन्] विचार कर काम करनेवाला । विवेकशील [को०] ।

प्रेक्षागार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ राजाओं आदि के मंत्रणा करने का स्थान । मंत्रणागृह । २. प्रेक्षागृह ।

प्रेक्षागृह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. राजाओं आदि के मंत्रणा करने का स्थान । मंत्रणागृह । २. थियेटर या नाट्य मंदिर में वह स्थान जहाँ दर्शक लोग बैठकर अभिनय देखते हैं । नाट्यशाला में दर्शकों के बैठने का स्थान ।

प्रेक्षाप्रपंच—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] रूपक का अभिनय । नाटक ।

प्रेक्षावान्—वि० [सं० प्रेक्षावत्] ज्ञानी । विवेकी । चतुर [को०] ।

प्रेक्षावेतन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] कोटिल्य अर्थशास्त्रानुसार लैसस लेने का महसूल या फीस ।

प्रेक्षासयम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] जैने के अनुसार सोने से पहले यह देख लेना कि इस स्थान पर जीव आदि तो नहीं हैं ।

प्रेक्षासमाज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रेक्षक समूह । दर्शकवृत्त [को०] ।

प्रेक्षास्थान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रेक्षागृह' ।

प्रेक्षित—वि० [सं०] देखा हुआ ।

प्रेक्षिता—वि० [सं० प्रेक्षितृ] देखनेवाला । दर्शक [को०] ।

प्रेक्षी^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रेक्षिन्] बुद्धिमान् । समझदार ।

प्रेक्षी^२—वि० १ देखनेवाला । दर्शक । २. सावधानी से देखनेवाला । ३ (किसी के जैसे) आँखें या दृष्टि रखनेवाला । जैसे मृगप्रेक्षणी [को०] ।

प्रेक्ष्य—वि० [सं०] दे० 'प्रेक्षणीय' [को०] ।

प्रेण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ गवित । चाल । २ प्रेरणा करना ।

प्रत^१—वि० [सं०] मृत । मरा हुआ । गतप्राण [वि०] ।

प्रत^२—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ मरा हुआ मनुष्य । मृतक प्राणी । २ पुराणानुसार वह कल्पित शरीर जो मनुष्य को मरने के उपरांत प्राप्त होता है ।

विशेष—पुराणों में कहा है कि जब मनुष्य मर जाता है और उसका शरीर जला दिया जाता है तब वह अतिवाहिक या लिङ्ग शरीर धारण करता है, और जब उसके उद्देश्य से पिंड आदि दिया जाता है, तब उसे प्रेत शरीर प्राप्त होता है । इसी प्रेत शरीर को भोग शरीर भी कहते हैं । यह शरीर मरने के उपरांत सपिंडी होने तक रहता है, और तब वह अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है । जिन लोगों की श्राद्ध आदि या ऊर्ध्व दैहिक क्रिया नहीं होती, वे प्रेतवस्था में ही रहते हैं । कुछ लोग अपने कर्म के अनुसार

ऊर्ध्व दैहिक क्रिया हो जाने पर भी प्रेत ही बने रहते हैं । पुराणों में यह भी कहा है कि जो लोग ग्राहृति नहीं देते, तीर्थ-यात्रा नहीं करते, विष्णु की पूजा नहीं करते, दान नहीं देते, पराई स्त्री हर लाते हैं, झूठे या निर्दय होते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, अथवा इसी प्रकार के और कुकर्म करते हैं, वे प्रेत होकर सदा दुःख भोगते हैं । यह भी कहा गया है कि प्रेतों का निवास मल, मूत्र आदि गंदे स्थानों में रहता है और वे निर्लज्ज होते तथा अपवित्र पदार्थ खाते हैं ।

३ पितर (को) । ४. नरक में रहनेवाला प्राणी । ५ पिशाचों की तरह की एक कल्पित देवयोनि जिसके शरीर का रंग काला, शरीर के बाल खड़े और स्वरूप बहुत ही विकराल माना जाता है ।

यौ०—भूत प्रेत ।

६ भयंकर आकृतवाला व्यक्ति । वह व्यक्ति जिसकी आकृति विकराल हो । ७. वह व्यक्ति जो बिना थके लगातार काम करता जाय । ८ बहुत ही चालाक और कजूस आदमी ।

प्रेतकर्म—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रेतकर्मन्] हिंदुओं में दाह आदि से लेकर सपिंडी तक का वह कर्म जो मृतक के उद्देश्य से किया जाता है । प्रेतकार्य ।

प्रेतकार्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रेतकर्म' ।

प्रेतकृत्य—सञ्ज्ञा सं० [सं०] दे० 'प्रेतकर्म' ।

प्रेतगत—वि० [सं०] मरा हुआ । मृत [को०] ।

प्रेतगृह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मसान । मसान । मरघट । २. मृत शरीरों के रखे या गाड़े जाने आदि का स्थान ।

प्रेतगेह^७—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रेतगृह' ।

प्रेतगोप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रेत का रक्षक । मृत शरीर का रक्षक [को०] ।

प्रेतचारी—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रेतचारिन्] महादेव । शिव ।

प्रेततर्पण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह तर्पण जो किसी के मरने के दिन से सपिंडी के दिन तक उसके निमित्त किया जाता है ।

विशेष—साधारण तर्पण से इसमें यह अंतर है कि यह केवल मृतक के उद्देश्य से किया जाता है और केवल सपिंडी के दिन तक होता है । इस तर्पण के साथ और पितरों का तर्पण नहीं हो सकता ।

प्रेतता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रेतत्व' ।

प्रेतत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रेत का भाव या धर्म 'प्रेतता' ।

प्रेतदाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मृतक के जलाने आदि का कार्य ।

प्रेतदेह—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पुराणानुसार किसी मृतक का वह कल्पित शरीर जो उसके मरने के समय से सपिंडी तक उसकी आत्मा को प्राप्त रहता है ।

विशेष—इस शरीर की उत्पत्ति उन पिंडों से होती है जो सपिंडी के दिन तक नित्य दिए जाते हैं । कहते हैं कि यह शरीर एक वर्ष तक बना रहता है और उसके उपरांत उसे भोगदेह प्राप्त होता है ।

प्रेतधूम—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चिता में से निकलनेवाला धुँआँ। वह धुँआँ जो मृतक को जलाने से निकलता है।

प्रेतनदी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वैतरणी नदी।

प्रेतनाथ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रेतपति। यमराज [को०]।

प्रेतनाह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रेतनाथ। यमराज।

प्रेतनिर्यातक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] घन लेकर प्रेत का दाह आदि करनेवाला। मुरदाफरोश।

प्रेतनिर्हारक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जो मृतक को उठाकर श्मशान तक ले जाय।

प्रेतनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रेत + हि० नी (प्रत्य०)] भूतनी। चुहल।

प्रेतपक्ष^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] चांद्र आश्विन का कृष्ण पक्ष। पितृपक्ष।

प्रेतपक्ष^२—वि० दे० 'पितृपक्ष'।

प्रेतपटह—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्राचीन काल का एक प्रकार का बाजा जो किसी के मरने के समय बजाया जाता था।

प्रेतपति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] यमराज।

प्रेतपात्र—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह वर्तन जो श्राद्ध में काम आता है [को०]।

प्रेतपावक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह प्रकाश जो प्रायः दलदलो, जंगलों या कब्रिस्तानों में रात के समय चलता हुआ दिखाई पड़ता है और जिसे लोग भूतों और पिशाचों की लीला समझते हैं। शहावा। लुक। उ०—उभय प्रकार प्रेतपावक ज्यों घन दुख प्रद श्रुति गायो।—तुलसी (शब्द०)।

प्रेतपिंड—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अन्न आदि का बना हुआ वह पिंड जो मृतक के उद्देश्य से उसके मरने के दिन से लेकर सपिंडी के दिन तक नित्य दिया जाता है और जिसके विषय में यह माना जाता है कि इससे प्रेतदेह बनती है।

प्रेतपुर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] यमपुर। यमालय।

प्रेतभाव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मृत्यु [को०]

प्रेतभूमि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] श्मशान [को०]

प्रेतमेध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मृतक के उद्देश्य से होनेवाला श्राद्ध।

प्रेतयज्ञ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का यज्ञ जिसके करने से प्रेतयोनि प्राप्त होती है।

प्रेतराक्षसी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] तुलसी।

विशेष—कहते हैं कि जहाँ तुलसी रहती है, वहाँ भूत प्रेत नहीं आते। इसी से उसका यह नाम बड़ा है।

प्रेतराज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. यमराज। २. महादेव। शिव।

प्रेतलोक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] यमपुर। यमालय।

प्रेतवन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] श्मशान। मरघट।

प्रेतवाहित—वि० [सं०] प्रेतावृष्टि। भूतवाधा पीडित [को०]

प्रेतविधि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] मृतक का दाह आदि करना।

प्रेतविमाना—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पच प्रेत के विमानवाली भगवती।

प्रेतशरीर—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रेतदेह'।

प्रेतशुद्धि, प्रेतशौच—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सवधी के मरणाशौच से शुद्ध होना [को०]।

प्रेतश्राद्ध—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] किसी के मरने की तिथि से एक वर्ष के अंदर होनेवाले सोलह श्राद्ध जिनमें सपिंडी, मासिक और पाएमासिक आदि श्राद्ध सम्मिलित हैं।

प्रेतहार—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. सन्निकट संबंधी जन [को०]। २. मृत शरीर को उठाकर श्मशान आदि तक ले जानेवाला। मुरदा उठानेवाला।

प्रेता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. स्त्री प्रेत। पिशाची। २. भगवती कात्यायिनी का एक नाम।

प्रेतात्मिका—वि० [सं०] प्रेत + आत्मिका] प्रेत से संबंधित। उ०—मुझे ऐसा लगा जैसे कोई प्रेतात्मिका छाया किसी रहस्यमय लोक ले आ घमकी हो।—जिप्सी, पृ० २५।

प्रेताधिप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] यमराज।

प्रेतान्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह अन्न जो प्रेत के उद्देश्य से दिया जाय।

प्रेतायन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक नरक का नाम। [को०]।

प्रेतावास—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] श्मशान [को०]

प्रेताशिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] भगवती का एक नाम। २. मृतकों को खानेवाली।

प्रेताशौच—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह अशौच जो हिंदुओं में किसी के मरने पर उसके सवधियों आदि को होता है। मरने का अशौच। सूचक।

प्रेतास्थि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मुर्दे की हड्डी।

यौ०—प्रेतास्थिधारी।

प्रेतास्थिधारी—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रेतास्थिधारिन्] मुरदों की हड्डियों माला पहननेवाले, रुद्र।

प्रेति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. मरण। मरना। २. गमन। जाना। पलायन [को०]। ३. अन्न। अनाज। आहार। भोजन।

प्रेतिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मृतक। प्रेत।

प्रेतिनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] प्रेत + हि० नी (प्रत्य०)] प्रेत की स्त्री। प्रेतनी। पिशाचिनी।

प्रेती—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रेत + हि० ई (प्रत्य०)] प्रेत की उपासना करनेवाला। प्रेतपूजक। उ०—प्रजापति कहे पूजे जोई। तिनकर दास यक्षपुर होई। भूती भूतहि यक्षो यक्षन प्रेती प्रेतन रक्षी रक्षन।—गोपाल (शब्द०)।

प्रेतीवाल—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] वह मनुष्य जो कभी खास अपने लिये और कभी अपने मालिक के लिये काम करे। (वाजाल)।

प्रेतीवाला—सञ्ज्ञा पुं० [देश०] दे० 'प्रेतीवाल'।

प्रेतीपणि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] अग्नि का एक नाम।

प्रेतेश, प्रेतेश्वर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] यमराज।

प्रेतोन्माद—सञ्ज्ञा पु० [सं०] एक प्रकार का उन्माद या पागलपन जिसके विषय में यह माना जाता है कि यह प्रेतों के कोप से होता है।

विशेष—इस उन्माद में रोगी का शरीर कांपता है और उसका खाना पीना छूट जाता है। लक्ष्मी लक्ष्मी साँसें आती हैं, वह घर से निकल निकलकर भागता, है, लोगों को गालियाँ देता है और बहुत चिल्लाता है।

प्रेत्य—सञ्ज्ञा पु० [सं०] लोकांतर। परलोक। अमृत।

प्रेत्यजाति—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] दे० 'प्रेत्यभाव' [को०]।

प्रेत्यभाव—सञ्ज्ञा पु० [सं०] अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार जन्म लेकर मरने और मरकर जन्म लेने की परंपरा जो मुक्ति न होने के समय तक चलती है। बार बार जन्म लेना और मरना। (दर्शन)।

प्रेत्यभाविक—वि० [सं०] प्रेत्यभाव या इहलोक सबधी।

प्रेत्वा—सञ्ज्ञा पु० [सं० प्रेत्वन्] १ वायु। २ इंद्र [को०]।

प्रेप्सा—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] १ प्राप्त करने की इच्छा। २ इच्छा। कामना। ३ कल्पना। धारणा [को०]।

प्रेप्सु—वि० [सं०] १ प्राप्त करने का इच्छुक। २. अनुमान करनेवाला। धारणा करनेवाला। ३. देने का इच्छुक [को०]।

प्रेम—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १ वह मनोवृत्ति जिसके अनुसार किसी वस्तु या व्यक्ति आदि के सबध में यह इच्छा होती है कि वह सदा हमारे पास या हमारे साथ रहे, उसकी वृद्धि, उन्नति या हित ही अथवा हम उसका भोग करें। वह भाव जिसके अनुसार किसी दृष्टि से अच्छी जान पढनेवाली किसी चीज या व्यक्ति को देखने, पाने, भोगने, अपने पास रखने अथवा रक्षित करने की इच्छा हो। स्नेह। मुहूर्वत्। अनुराग। प्रीति।

विशेष—परम शुद्ध और विस्तृत अर्थ में प्रेम ईश्वर का ही एक रूप माना जाता है। इसलिये अधिकांश धर्मों के अनुसार प्रेम ही ईश्वर अथवा परम धर्म कहा गया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रेम अनिवर्चनीय कहा गया है और उसे भक्ति का दूसरा रूप और मोक्षप्राप्ति का साधन बतलाया है। मुमुक्षुओं के लिये शुद्ध प्रेमभाव का ही विधान है। शास्त्रों में, और विशेषतः वैष्णव साहित्य में, इस प्रेम के अनेक भेद किए गए हैं—(१) उत्तम, वह जिसमें प्रेम सदा एक सा बना रहे। जैसे, ईश्वर के प्रति भक्त का प्रेम। (२) मध्यम, जो अकारण हो। जैसे, मित्रों का प्रेम और (३) अधम, जो केवल स्वार्थ के कारण हो।

२ स्त्री जाति और पुरुष जाति के ऐसे जीवों का, पारस्परिक स्नेह जो बहुधा रूप, गुण, स्वभाव, सान्निध्य अथवा काम-वासना के कारण होता है। प्यार। मुहूर्वत्। प्रीति। जैसे—(क) वे अपनी स्त्री से अधिक प्रेम करते हैं। (ख) उस विधवा का एक नौकर के साथ प्रेम था। ३ केशव के अनुसार एक प्रकार का। ४. माया और लोभ। ५. कृपा। दया। उ०—

अतिहि भानंद कद वानि हूँ सुनावै। सतगुरु जत्र दया जानि प्रेम हूँ लगावै।—गुलाल ०, पृ०, ३५। ६ श्रीडा। नर्म (को०)। ७. हृषं। भानंद (को०)। ८. विनोद (को०)। ९. वायु। हवा (को०)। १० इद्र (को०)।

प्रेमकर्षा—सञ्ज्ञा पु० [सं०] प्रीति करनेवाला। प्रेमी।

प्रेमकलह—सञ्ज्ञा पु० [सं०] प्रेम के कारण हँसी बिल्ली या झगडा करना।

प्रेमगरविता—सञ्ज्ञा स्त्री [सं० प्रेम + गर्विता] दे० 'प्रेमगर्विता'। उ०—निज नायक के प्रेम की गरव जनावै बाल। प्रेमगरविता कहत हैं तासों सुमति रसाल।—मति० प्र०, पृ० २६२।

प्रेमगर्विता—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] साहित्य में वह नायिका जो अपने पति के अनुराग का अहंकार रखती हो। वह स्त्री जिसे इस बात का अभिमान हो कि मेरा पति मुझे बहुत चाहता है। उ०—आखिन में पुतरी हूँ रहै द्वियरा में हरा तूँ सवे रस लूटै। भगन सग वसैं भोगराग हूँ, जीव तैं जीवनमूरि न दूटै। देव जू प्यारे के न्यारे मने गुन, मो मन मानिक तैं नहि छूटै। और तियान तैं तो बतियाँ करैं, मो छतियाँ तैं छिनो जनि छूटै।—देव (शब्द०)।

प्रेमजल—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १ प्रस्वेद। पसीना। २ प्रेम के कारण आँसु से निकलनेवाले आँसु। प्रेमाश्रु।

प्रेमजा—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] मरीचि ऋषि की पत्नी का नाम।

प्रेमद—सञ्ज्ञा पु० [सं० प्रिय + मद] प्रेम का नशा। प्रेममद। उ०—कहवौ मृग नेनी वह बाला। प्रेमद दीन्ह कीन्ह मत-वाला।—इंद्रा०, पृ० ११।

प्रेमनीर—सञ्ज्ञा पु० [सं०] प्रेम के कारण आँसु से निकलनेवाले आँसु। प्रेमाश्रु।

प्रेमपातन—सञ्ज्ञा पु० [सं०] १ प्रेम के आवेग में रोना। २ वह आँसु जो प्रेम के कारण आँसु से निकले। ३ नेत्र जिससे अश्रु गिरें (को०)।

प्रेमपात्र—सञ्ज्ञा पु० [सं०] वह जिससे प्रेम किया जाय। माशुक।

प्रेमपाश—सञ्ज्ञा पु० [सं०] प्रेम का फंदा या जाल।

प्रेमपुत्तलिका—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] १ प्यारी स्त्री। २ पत्नी। भार्या।

प्रेमपुलक—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] वह रोमांच जो प्रेम के कारण होता है।

प्रेमप्रत्यय—सञ्ज्ञा पु० [सं०] वीणा आदि के शब्दों से जिनसे राग रागिनी निकलती हैं, प्रेम करना। (जैन)।

प्रेमबंध, प्रेमबंधन—सञ्ज्ञा पु० [सं० प्रेमबन्ध, प्रेमबन्धन] प्रेम अथवा स्नेह का बंधन [को०]।

प्रेमभक्ति—सञ्ज्ञा स्त्री [सं०] पुराणानुसार श्रीकृष्ण की वह भक्ति जो बहुत प्रेम के साथ की जाय।

प्रेमभगति—सञ्ज्ञा स्त्री [सं० प्रेम + हिं भगति < सं० भक्ति] दे० 'प्रेमभक्ति' उ०—प्रेमभगति जल विनु रघुराई।—मानस, ७।५६।

प्रेमभाव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रेम का भाव । स्नेह । प्रेम [को०] ।

प्रेमल—वि० [सं० प्रेम + हिं० ल (प्रत्य०)] प्रेमी स्वभाववाला । स्नेही । सहृदय । उ०—इन स्वामी को कष्ट से मैं कैसे बचाऊँ इतने उदार, इतने निश्छल, इतने प्रेमल ।—सुखदा, पृ० ११३ ।

प्रेमलक्षणाभक्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] वैष्णव मतानुसार प्रेमपूर्वक श्रीकृष्ण के चरणों की भक्ति करना ।

प्रेमलेश्या—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] जैनियों के अनुसार वह वृत्ति जिसके अनुसार मनुष्य विद्वान्, दयालु, विवेकी होता और निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है ।

प्रेमघटी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ पत्नी । २ प्रेमिका [को०] ।

प्रेमवारि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह आँसू जो प्रेम के कारण निकले । प्रेमाश्रु ।

प्रेमविह्वल—वि० [म० प्रेम+विह्वल] प्रेम से व्याकुल । प्रेममय । उ०—भर अमृतधारा आज कर दो प्रेम विह्वल हृदयदल, आनंद पुलकित हो सकल तव त्रुम कोमल चरणतल ।—अनामिका, पृ० ३३ ।

प्रेमांकुर—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रेम + अङ्कुर] प्रेम का अकुर । प्रेम का सूत्रपात । प्रेम की प्रारम्भिक अवस्था । उ०—उगा रहा उर में प्रेमाकुर ।—गीतिका, पृ० १५ ।

प्रेमांजली—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्रेम + अञ्जलि] प्रेम से जुड़े हुए हाथ, प्रेमभावपूर्ण अंजलि । उ०—अराधना, प्रार्थना, पूजा, प्रेमांजली, विलाप, कलाप । 'तेरा' हूँ, तेरे चरणों में हूँ, पर कहीं पसीजे आप ।—हिम०, पृ० ८८ ।

प्रेमा—सञ्ज्ञा पुं० [म० प्रेमन्] १. स्नेह । २ स्नेही । ३ वासव । इंद्र । ४ वायु । ५ उपजाति वृत्त का ग्यारहवाँ भेद, जिसके पहले, दूसरे और चौथे चरण में (ज त ज ग ग) ।।। SSI ।।। SS और तीसरे चरण में (त त ज ग ग) SSI SSI SS होता है ।

प्रेमाक्षेप—पञ्चा पुं० [सं०] केशव के अनुसार आक्षेप अलंकार का एक भेद जिसमें प्रेम का वर्णन करने में ही उसमें वाधा पड़ती दिखाई जाती है । जैसे, यदि नायक से नायिका यह कहे कि 'हमारा मन तुम्हें कभी छोड़ने को नहीं चाहता ; पर जब तुम उठकर जाना चाहते हो, तब हमारा मन तुमसे भागे ही चल पड़ता है ।' तो यह प्रेमाक्षेप हुआ क्योंकि इसमें पहले तो यह कहा गया है कि हमारा मन तुम्हें कभी छोड़ने को नहीं चाहता, पर नायिका के इस कथन में उस समय वाधा पड़ती है; जब वह यह कहती है कि 'जब तुम उठकर जाना चाहते हो तब हमारा मन (तुमको छोड़कर) तुमसे भागे ही चल पड़ता है ।' (कविप्रिया) ।

प्रेमाख्यान, प्रेमाख्यानक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सुफी कवियों की वह काव्यमय रचना जिसमें नायक नायिका के प्रेम की कथा वर्णित हो ।

प्रेमाख्यानी—वि० [सं० प्रेमाख्यान + ई (प्रत्य०)] प्रेमाख्यान से संबंधित । प्रेमकथा संबंधी । उ०—गोस्वामी जी ने एक

दूसरी काव्यपरंपरा का अनुसरण करते हुए कथा को 'प्रेमाख्यानी रग (रोमैटिक टर्न) देने के लिये 'धनुषयज्ञ के प्रसंग में 'फुलवारी' के दृश्य का सतिवेश किया ।—माचार्य०, पृ० १११ ।

प्रेमात्मक—वि० [सं० प्रेम + आत्मक] प्रेम संबंधी । प्रेम का । उ०—प्रेमात्मक रहस्यवाद और विरह की उदात्त कल्पना सुफी सिद्धांतों की देन है ।—हिंदी काव्य०, पृ० ८४ ।

प्रेमानंद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रेम + आनन्द] प्रेम का आनंद । प्रेम में अनुभूत आनंद । उ०—यद्यपि प्रेमदशा के भीतर सुखात्मक और दुःखात्मक दोनों प्रकार के भाव पाए जाते हैं पर कान में 'प्रेमानंद' शब्द पड़ता है, 'प्रेमापन्न' नहीं ।—रस०, पृ० ७४ ।

प्रमानल—पञ्चा पुं० [सं० प्रेम + अनल] प्रेम की आग । प्रेमनि । उ०—तुझको न भले भाता ही प्रेमी का यह पागलपन । उर उर में दहक रहा पर तेरे प्रेमानल का कण ।—मधुञ्जाल, पृ० ६१ ।

प्रेमापन्न—वि० [सं० प्रेम + आपन्न] प्रेम से पीड़ित । प्रेम में व्याकुल । प्रेम की पीड़ा से दुखी । उ०—पर कान में प्रेमानंद शब्द ही पड़ता है; प्रेमापन्न नहीं । इससे 'प्रेम आनंद स्वरूप है' यह लोकधारणा प्रकट होती है, जो साहित्य मीमांसकों को भी मान्य है ।—रस०, पृ० ७४ ।

प्रेमालाप—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह बातचीत जो प्रेमपूर्वक हो । परस्पर प्रेमी जनों की बातचीत । उ०—विहग युग ही विह्वल सुख से आप । पखों से प्रिय पख मिला करते हैं प्रेमालाप ।—युगवाणी, पृ० ७६ ।

प्रेमालिंगन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रेम + आलिंगन] १ प्रेमपूर्वक गले लगाना । २ कामशास्त्र के अनुसार नायक और नायिका का एक विशेष प्रकार का आलिंगन ।

प्रेमाभ्रु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रेम के आँसू । वे आँसू जो प्रेम के कारण आँखों से निकलते हैं ।

प्रेमास्पद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रेम + आस्पद] प्रिय । प्रेमी । उ०—मधुर चाँदनी सी तंद्रा जब फैली मुँछित मानस पर, तब अभिन्न प्रेमास्पद उसमें अपना चित्र बना जाता ।—कामायनी, पृ० १८० ।

प्रेमिक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जो प्रेम करता हो । प्रेम करनेवाला । प्रेमी ।

प्रेमी^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रेमिन्] १ वह जो प्रेम करता हो । प्रेम करनेवाला । चाहनेवाला । अनुरागी । २. आशिक । प्रासक्त ।

प्रेमी^२—वि० प्रेमपूर्ण । स्नेहपूर्ण [को०] ।

प्रेमोत्कर्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रेम + उत्कर्ष] प्रेम की उच्चता । प्रेम की प्रवृत्ति । प्रेम का आधिक्य । उ०—उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जगाती है ।—रस०, पृ० ३१ ।

प्रेयःमार्ग—सज्ञा पु० [म० प्रेयस्मार्ग] वह मार्ग जो मनुष्य को सामारिक विषयो मे फँसता है । अविद्यामार्ग ।

प्रेय^१—सज्ञा पु० [सं० प्रेयस्] एक प्रकार का फलकार जिसमें कोई भाव किसी दूसरे भाव अथवा स्थायी का भ्रम होता है ।

प्रेय^२—वि० प्रिय । प्यारा ।

प्रेयर—सज्ञा स्त्री० [अं०] १ प्रार्थना । स्तुति । २ ईश्वरप्रार्थना ।

प्रेयस्^१—वि० [सं०] [वि० स्त्री० प्रेयसी] सबसे प्यारा । बहुत प्यारा । प्रियतम ।

प्रेयस्^२—सज्ञा पुं० १ प्यारा व्यक्ति । प्रियतम । २ पति (को०) । ३. प्रिय मित्र (को०) । ४ चापलूसी (को०) ।

प्रेयान्—वि०, सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रेयस्' [को०] ।

प्रेयसी—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ वह स्त्री जिसके साथ प्रेम किया जाय । प्यारी स्त्री । प्रेमिका । २. पत्नी । स्त्री (को०) ।

प्रेरक—वि०, सज्ञा पुं० [सं०] १ प्रेरणा करनेवाला । उत्तेजना देने या दवाव डालनेवाला । किसी काम में प्रवृत्त करनेवाला । २ भेजनेवाला (को०) । ३ निर्देश करनेवाला (को०) ।

प्रेरकता—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रेरक + ता (प्रत्य०)] प्रेरणा देने का भाव । उ०—शास्त्रनहू कछु प्रेरकता कहि उलटो दियो भुलाई । सब में मिल्यो सबन सो न्यारी कैसे यह न बुझाई । —भारतेंदु प्र०, भा० २, पृ० ५४३ ।

प्रेरण—सज्ञा पुं० [सं०] १ किसी को किसी काम में लगाना । कार्य में प्रवृत्त करना । २ फँकना । प्रक्षेपण (को०) । ३ भेजना । प्रेषण (को०) । ४ आदेश । निर्देश (को०) । ५ सक्रियता । परिश्रमशीलता (को०) ।

प्रेरणा—सज्ञा स्त्री० [म०] १ किसी को किसी कार्य में लगाने की क्रिया । कार्य में प्रवृत्त या नियुक्त करना । दवाव डालकर या उत्साह देकर काम मे लगाना । उत्तेजना देना । २ दवाव । जोर । बक्का । झटका । ३. फँकना (को०) । ४ भेजना । प्रेषण (को०) । ५. आदेश । निर्देश (को०) । ६ सक्रियता । परिश्रमशीलता (को०) ।

प्रेरणार्थक क्रिया—सज्ञा स्त्री० [सं०] क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के व्यापार के सबब मे यह सूचित होता है कि वह किसी की प्रेरणा से कर्ता के द्वारा हुआ है । जैसे,—लिखना का प्रेरणार्थक रूप है लिखाना या लिखवाना, देना का दिलाना या दिलवाना, पढना का पढ़वाना ।

प्रेरणीय—वि० [सं०] प्रेरणा करने के योग्य । किसी काम के लिये प्रवृत्त या नियुक्त करने के योग्य ।

प्रेरना(पुं०)—क्रि० सं० [सं० प्रेरणा] १ प्रेरणा करना । चलाना । २ भेजना । पठाना । उ०—(क) तव उस शुद्ध आचोरवाले काकुत्स्थ ने दुष्टों का प्रेरना हुआ दूषण न सहा ।—लक्ष्मण सिंह (शब्द०) । (ख) भूतन जान प्रेरि रघुवीरा । विरह विवस भा सिथिल सरीरा ।—रामाश्वमेध (शब्द०) ।

प्रेरयिता—सज्ञा पुं० [सं० प्रेरयितृ] [स्त्री० प्रेरयित्री] १. प्रेरणा

करनेवाला । उभाड़नेवाला । २. भेजनेवाला । ३. भाषा देनेवाला ।

प्रेरित—वि० [म०] १ जो किसी कार्य के लिये प्रेरित या नियुक्त किया गया हो । २. भेजा हुआ । प्रचालित । प्रेषित । ३. ढकेला हुआ । धक्का दिया हुआ ।

प्रेष—सज्ञा पुं० [सं०] १ प्रेरणा । २ पीडा । कष्ट (को०) ।

प्रेषक—सज्ञा पुं० [सं०] १ भेजनेवाला । २ प्रेरक ।

प्रेषण—सज्ञा पुं० [म०] १ प्रेरणा करना । २ भजना । रवाना करना ।

प्रेषणीय—वि० [सं०] १ भेजने योग्य । २ प्रेरित करने योग्य । ३ दूरमे तक पहुँचाने लायक । दूरमे के मन में जमाने योग्य । उ०—उमे प्रेषणीय बनाने के लिये—दूसरों के हृदय तक पहुँचाने के लिये—भाषा का सट्टारा लेना पडता है ।—चिन्तामणि, भा० २, पृ० १०४ ।

प्रेषणीयता—सज्ञा स्त्री० [म०] प्रेषित होने का भाव । दूसरे के हृदय तक पहुँचाने की स्थिति । उ०—उनकी रचनाएँ स्वातःसुस्वाय हैं, पर उनमे प्रेषणीयता बहुत है ।—शुक्ल अभि० प्र०, पृ० २३६ ।

प्रेषना(पुं०)—क्रि० सं० [सं० प्रेषण] प्रेषित करना । भेजना ।

प्रेषित^१—वि० [सं०] १ प्रेरित । प्रेरणा किया हुआ । २ भेजा हुआ । रवाना किया हुआ । ३ निर्वासित (को०) ।

प्रेषित^२—सज्ञा पुं० [म०] संगीत में स्वरसाधन की एक प्रणाली जो इस प्रकार है—सारे, रेग, गम, मप, पध धनि, निसा । सानि, निष, घप, पम, मग, गरे, रेसा ।

प्रेषितव्य—वि० [सं०] जो प्रेषण करने के योग्य हो ।

प्रेष्ठ^१—वि० [सं०] [स्त्री० प्रेष्ठा] अतिशय प्रिय । प्रियतम । बहुत प्यारा ।

प्रेष्ठ^२—सज्ञा पुं० पति । प्रियतम (को०) ।

प्रेष्ठतमा—वि० स्त्री० [सं० प्रेष्ठ + तमा] सबसे अधिक प्रिय । सर्वाधिक प्रिय । उ०—प्रेष्ठतमा नायिका के साथ इस सुखोपभोग के लिये वह कितना उत्कण्ठित है ।—गोदर अभि० प्र०, पृ० १४४ ।

प्रेष्ठा—सज्ञा स्त्री० [सं०] १. वह जो बहुत प्यारी हो । अत्यंत प्रिय स्त्री । २ जाँघ ।

प्रेष्य^१—सज्ञा पुं० [सं०] १ दास । सेवक । २ दून । ३ सेवा (को०) ।

प्रेष्य^२—वि० १ जो प्रेषण करने के योग्य हो । जिसे भेजा जाय ।

प्रेष्यजन—सज्ञा पुं० [सं०] नौकर समूह । दाससमुदाय [को०] ।

प्रेष्यता—सज्ञा स्त्री० [सं०] १ दासत्व । २. दूनत्व ।

प्रेष्यभाव—सज्ञा पुं० [सं०] दासत्व । गुलामी [को०] ।

प्रेष्या—सज्ञा स्त्री० [म०] दासी । सेविका [को०] ।

प्रेस—सज्ञा पुं० [म०] १. वह कल जिससे कोई चीज दबाई या कसी जाय । पेंच । २ हाथ से चलाने की वह कल जिससे छपाई

का काम होता है। छापने की कल। ३ वह स्थान जहाँ पुस्तको आदि की छपाई का काम होता हो। छापाखाना।
मुहा०—(किसी चीज का) प्रेस में होना = (किसी चीज की) छपाई का काम जारी रहना। छपना। जैसे, अभी वह पुस्तक प्रेस में है।

यौ०—प्रेस ऐक्ट। प्रेस कम्प्यूनिक्। प्रेस मशीन। प्रेस रिपोर्टर।

प्रेस ऐक्ट—सञ्ज्ञा पुं० [प्र०] वह कानून जिसके द्वारा छापाखानेवालों के अधिकारों और स्वतन्त्रता आदि का नियंत्रण होता है।

विशेष—ऐसा कानून उनको उच्छृंखल होने, राजनीय अथवा सामाजिक नियमों को तोड़ने, अथवा इसी प्रकार के और काम करने से रोकता है। जो छापाखानेवाले ऐसे नियमों का भंग करते हैं, उन्हें इसी कानून के द्वारा दंड दिया जाता है।

प्रेस कम्प्यूनिक्—सञ्ज्ञा पुं० [प्र० प्रेस + कम्प्यूनिक्] किसी विषय के संवध में वह सरकारी विज्ञप्ति या वक्तव्य जो अखबारों को छापने के लिये दिया जाता है। जैसे,—सरकार ने प्रेस कम्प्यूनिक् निकाला है कि अफसरों को डालियाँ आदि नजर न करें।

प्रेसमैन—सञ्ज्ञा पुं० [प्र०] छापे की कल चलानेवाला मनुष्य। वह जो प्रेस पर काम करता है।

प्रेस रिपोर्टर—सञ्ज्ञा पुं० [प्र०] १. 'रिपोर्टर'—१।

प्रेसिडेंट—सञ्ज्ञा पुं० [प्र०] १. किसी सभा या समिति आदि का प्रधान। सभापति। अध्यक्ष। २. राष्ट्रपति। जैसे, अमेरिका के प्रेसिडेंट का निर्वाचन।

प्रेसिडेंसी—सञ्ज्ञा स्त्री० [प्र०] १. प्रेसिडेंट का पद या कार्य। सभापति का आह्वान या काम। २. ब्रिटिश भारत में शासन के सुचीते के लिये कुछ निश्चित प्रदेशों या प्रांतों का किया हुआ विभाग जो एक गवर्नर या लाट की अधीनता में होता था। वगल प्रेसिडेंसी, मदरास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी ये तीन प्रेसिडेंसियाँ उस समय भारत में थीं।

प्रेस्क्रिप्शन—सञ्ज्ञा सञ्ज्ञा पुं० (प्र०) रोगी के लिये डाक्टर की लिखी हुई औषध या दवा। औषध या दवा का पुरजा। नुसखा।
उ०—डाक्टरों प्रेस्क्रिप्शन के एक अत्यंत कठवे मिक्सचर की तरह उस भाव को चुपचाप एक घूँट में पी गया।
—सन्ध्यासी, पृ० ४३६।

प्रेय—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. प्रिय का भाव। स्नेह। प्रेम। २. कृपा। दया।

प्रेयव्रत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह जो प्रियव्रत के वश में हो।

प्रेष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. क्लेश। कष्ट। दुःख। २. मर्दन। ३. उन्माद। पागलपन। ४. प्रेषण। भेजना। ५. वह शब्द या वाक्य जिसमें किसी प्रकार की आज्ञा हो।

प्रेषणिक—वि० [सं०] आदेश माननेवाला (जैसे नौकर)।

प्रेष्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. दास। सेवक। २. दासत्व।

प्रौञ्चन—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रौञ्चन] १. मिटाना। पोछना। २. वचे हुए अंश का चुनना (की०)।

प्रौढ—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रौढ] पीकदान। उगलदान।

प्रोक्त^१—वि० [सं०] कथित। कहा हुआ। २. पूर्वाक्त। पूर्व-सूचित (की०)।

प्रोक्त^२—क्रि० वि० कथित या सूचना होने के बाद (की०)।

प्रोक्लेमेशन—सञ्ज्ञा पुं० [प्र०] १. राजाज्ञा या सरकारी सूचनाओं का प्रचार। घोषणा। एलान। २. डिंडोरा। डुग्गी।

प्रोक्ष—वि० [सं० परोक्ष] दे० परोक्ष 'उ०—देह ई की वध मोक्ष देह ई अप्रोक्ष प्रोक्ष, देह ई क्रिया कर्म शुभाशुभ ठान्यो है।
—सु दर० प्र०, भा०२, पृ० ५६२।

प्रोक्षणा—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पानी छिड़कना। २. यज्ञ में वध के पहले बलिपशु पर पानी छिड़कना। ३. पानी का छीटा। ४. वध। हिंसा। हत्या। ५. विवाह की परिछन नामक रीति। ६. आद्व आदि में होनेवाला एक संस्कार।

प्रोक्षणी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. यज्ञ का वह पात्र जिसमें पशु पर छिड़कनेवाला जल रहता है। २. कुश की मुद्रिका जो होमादि के समय अनामिका में धारण की जाती है।

प्रोक्षणीय^१—वि० [सं०] प्रोक्षण कार्य के योग्य। छिड़का जानेवाला (की०)।

प्रोक्षणीय^२—सञ्ज्ञा पुं० प्रोक्षण कार्य में प्रयुक्त जल। वह जल जो छिड़का जाय (की०)।

प्रोक्षित^१—वि० [सं०] १. सींचा हुआ। २. जल का छीटा मारा हुआ। ३. वध किया हुआ। मारा हुआ। ४. बलिदान किया हुआ।

प्रोक्षित^२—सञ्ज्ञा पुं० वह मास जो यज्ञ के लिये संस्कृत किया गया हो।

विशेष—ऐसा मास खाने में किसी प्रकार का दोष नहीं माना जाता है।

प्रोक्षितव्य—वि० [सं०] जो प्रोक्षण के योग्य हो।

प्रोग्राम—सञ्ज्ञा पुं० [प्र०] १. किसी सभा, समाज, नाटक, संगीत अथवा व्यक्ति के होनेवाले कार्यों की सिलसिलेवार सूची। होनेवाले कार्यों आदि का निश्चित क्रम। कार्यक्रम। उ०—वरच, यात्रा के प्रोग्राम का निर्माण ही कठिन था।—प्रेमधन०, भा० २, पृ० १३२। २. वह पत्र जिसमें इस प्रकार का कोई क्रम या सूची हो। कार्यक्रमसूचक पत्र।

प्रोच्चड—वि० [सं० प्रोच्चड] अत्यंत भयकर। अत्यंत प्रचंड (की०)।

प्रोच्चून—वि० [सं०] १. फैला हुआ। विस्तृत। २. सूजा हुआ (की०)।

प्रोज—सञ्ज्ञा पुं० [प्र०] गद्य। उ०—पोद्दटी में बोलती थी प्रोज में बिलकुल अढी।—कुकुर०, पृ० १६।

प्रोज्जासन—पञ्चा पुं० [सं०] हत्या। वध (की०)।

प्रोज्ज्वल—वि० [सं० (उप०) प्र + उज्ज्वल] दीप्त। ज्योतिर्मय। प्रगट। स्पष्ट। उ०—उसके भीतर का पुरुष प्राज्ज्वल हुआ।
—सुनीता, पृ० २४७।

प्रोज्जन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] त्याग। दुरीकरण (की०)।

प्रोम्बित—वि० [सं०] त्यक्त। तिरस्कृत (की०)।

प्रोटीन—सज्ञा स्त्री० [म०] एक पदार्थ जो प्राणियों और पौधों की शरीररक्षा के लिये आवश्यक होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सीजन और नाइट्रोजन तथा थोड़ा गंधक रहता है।

प्रोटेस्टेंट—सज्ञा पुं० [अ०] ईसाइयों का एक संप्रदाय।

विशेष—इसका आरंभ यूरोप में सोलहवीं शताब्दी में उस समय हुआ था जब लूथर ने ईसाई धर्म का संस्कार आरंभ किया था। इस संप्रदाय के लोग रोमन कैथोलिक संप्रदाय-वालों का और साथ ही पोप के प्रबल अधिकारों का विरोध और मूर्तिपूजा आदि का निषेध करते हैं। कुछ दिनों तक इस मत की बहुत प्रबलता थी, और अब भी ईसाई देशों में इस संप्रदाय के लोगों की संख्या अधिक है।

प्रोट्टी—वि० [सं०] दे० 'प्रोट्ट' [को०]

प्रोट्टी^१—सज्ञा पुं० [सं० प्रोट्ट या देश०] एक प्रकार का डिगल गीत। इसे सोरठिया भी कहते हैं। उ०—विषम बले सम विषम बले सम पद चहुँ दालों पुणज, सुष भस्वरोट मध्य सरसावै गीत प्रोट्ट सो गुणजे।—रघु० ६०, पृ० ८२।

प्रोट्टा—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रोट्टा'।

प्रोट्टि—सज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रोट्टि'।

प्रोत^१—वि० [सं०] १. किसी से अच्छी तरह मिला हुआ। २. सीया या गाँठ दिया हुआ। गुँथा हुआ। ३. छिपा हुआ। धुसा हुआ। प्रविष्ट [को०]। ४. खचित। जडा हुआ [को०]।

प्रोत^२—सज्ञा पुं० वस्त्र। कपडा।

प्रोत्कट—वि० [सं० प्रोत्कट] २ अत्यधिक उत्कठित [को०]।

प्रोत्कट—वि० [सं०] बहुत बडा। अत्यंत महान्।

प्रोत्कट मृत्यु—सज्ञा पुं० [सं०] १. प्रिय नीकर। २. ऊँचा पदाधिकारी।

प्रोत्कर्ष—सज्ञा पुं० [सं०] सर्वप्रधान। सर्वोत्कृष्ट। सर्वश्रेष्ठ [को०]।

प्रोत्तु ग—वि० [सं० प्रोत्तुङ्ग] बहुत ऊँचा [को०]।

प्रोत्तेजित—वि० [सं०] अत्यंत उत्तेजित। उत्तेजना से भरा हुआ। मडकाया हुआ। उ०—इसके उद्धार करने की प्रबल इच्छा से प्रोत्तेजित मडली।—प्रेमघन०, भा० २, पृ० २७०।

प्रोत्थित—वि० [सं०] आघार पर रखा या टिका हुआ। उठाया हुआ। ऊँचा किया हुआ।

प्रोत्फल—सज्ञा पुं० [सं०] ताड़ की जाति का एक वृक्ष।

प्रोत्फुल्ल—वि० [सं०] फच्छी तरह खिला हुआ। विकसित।

प्रोत्सारण—सज्ञा पुं० [सं०] मुक्त होना। पिड छुडाना। हटाना। हूर करना [को०]।

प्रोत्सारित—वि० [सं०] १. हटाया हुआ। अलग किया हुआ। पिड छुड़ाया हुआ। २. उत्साहित किया हुआ। उकसाया हुआ। ३. छोडा हुआ। परित्यक्त। ४. दिया हुआ। प्रदत्त [को०]।

प्रोत्साह—सज्ञा पुं० [सं०] बहुत अधिक उत्साह या उमंग।

प्रोत्साहक—वि०, सज्ञा पुं० [सं०] उत्साह बढ़ानेवाला। हिम्मत बढ़ानेवाला।

प्रोत्साहकता—सज्ञा स्त्री० [सं० प्रोत्साहक + ता (प्रत्य०)] प्रोत्साहन का भाव। उत्साह। उ०—उल्लास या प्रोत्साहकता के संपर्क से शैली में एक प्रकार का बल, एक प्रकार का श्रोज उत्पन्न हो जाता है।—शैली, पृ० ८६।

प्रोत्साहन—सज्ञा पुं० [सं०] [वि० प्रोत्साहित] खूब उत्साह बढ़ाना। हिम्मत बढ़ाना। उत्तेजित करना।

प्रोत्साहित—वि० [सं०] खूब उत्साहित। (जिमका) उत्साह खूब बढ़ाया गया हो। (जो) खूब उत्तेजित किया गया हो। (जिसकी) हिम्मत खूब बढ़ाई गई हो।

प्रोत्सुक—वि० [सं०] अत्यंत अभिमानी। बडा घमंडी [को०]।

प्रोथ^१—सज्ञा पुं० [सं०] १. घोड़े की नाक या नाक के भागे का भाग। २. सुप्रर का धूयन। ३. कमर। ४. नाभि के नीचे का भाग। पेड। ५. स्त्री का गर्भाणय। ६. गड्डा। गर्त। गड्डा। ७. कठि का पश्चाद्भाग। नितम्ब। स्फिक् [को०]। ८. वस्त्र। शाटक। साडी। ९. भीषण। भय। [को०]। १०. पथिक। यात्री [को०]।

प्रोथ^२—वि० १. स्थापित। रखा हुआ। २. भीषण। भयानक। ३. विख्यात। प्रसिद्ध। मशहूर। ४. यात्रा पर गया हुआ [को०]।

प्रोथथ—सज्ञा पुं० [सं०] १. घोड़े का हिनहिनाना। २. भ्रश्व की नाक या धूयन [को०]। ३. शूकर का धूयन [को०]।

प्रोथी—सज्ञा पुं० [सं० प्रोथिन्] घोडा। भ्रश्व। (डि०)।

प्रोथक—वि० [सं०] आर्द्र। गीला। तर [को०]।

प्रोथर—वि० [सं०] बड़े पेटवाला। तुँदिल [को०]।

प्रोथगत—वि० [सं०] भागे को निकला हुआ। उन्नत। प्रलम्ब [को०]।

प्रोथगोर्पा—वि० [सं०] अपाकृत। नि सृत [को०]।

प्रोथ्युष्ट—वि० [सं०] ध्वनित होनेवाला। जोर की ध्वनि करनेवाला।

प्रोथ्योपण—सज्ञा पुं० [सं०] [स्त्री० प्रोथ्योपणा] १. धोपणा करना। २. जोर की ध्वनि करना [को०]।

प्रोथीप्त—वि० [सं०] जलता हुआ। प्रज्वलित।

प्रोथ्दार—सज्ञा पुं० [सं०] ऊपर उठाना। उद्धार करना [को०]।

प्रोथ्दन्न—वि० [सं०] १. भेद कर बाहर निकाला हुआ। २. म कुरित [को०]।

प्रोथत—वि० [सं०] १. उठाया हुआ। २. सक्रिय। उद्योगी [को०]।

प्रोनोट—सज्ञा पुं० [म०] वह कागज जिसे कर्ज की शर्तों के साथ लिखकर कर्ज लेनेवाला महाजन को देता है।

प्रोन्नत—वि० [सं०] १. बहुत ऊँचा। २. भागे को निकला हुआ। ३. शक्तिशाली। चली [को०]।

प्रोपैगेंडा—सज्ञा पुं० [अ०] १. व्याख्यान, उपदेश, विज्ञापन, पुस्तिका, समाचारपत्र आदि के द्वारा किसी मत या सिद्धांत के प्रचार करने का ढग या काम। प्रचार कार्य। जैसे,—(क) भाजकल कांग्रेस की ओर से विदेशों में अच्छा प्रोपैगेंडा हो रहा है। (ख) मार्क्सवाजियों ने वहाँ मिशनरियों के विरुद्ध प्रोपैगेंडा किया।

प्रोपोज—क्रि० सं० [अ०] १ तजवीज करना । २. प्रस्ताव करना ।

प्रोपोजल—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] प्रस्ताव ।

प्रोप्राइटर—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] मालिक । स्वामी । अध्यक्ष ।

प्रोफेसर—स्त्री० पुं० [अ०] १ किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता । भारी पंडित या विद्वान् । २. किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय आदि का अध्यापक । वह जो किसी कालिज आदि में शिक्षक हो ।

प्रोफेसरी—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ० प्रोफेसर + हि० ई (प्रत्य०)] प्राध्यापन । पढ़ाने का कार्य । उ०—उन्नाव में उनकी खासी अच्छी जमींदारी है, और प्रोफेसरी से उन्हें जो कुछ मिलता है वह एक तरह से घाते में ही समझो ।—ग्रन्थासी, पृ० ३७६ ।

प्रोवेशन—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] वह परीक्षा या जाँच जो किसी व्यक्ति के कार्य के सबंध में निर्धारित की जाय । यह देखना कि यह व्यक्ति भ्रमक कार्य कर सकेगा या नहीं । काम करने की योग्यता के सबंध में जाँच । जैसे,—अभी तो वे तीन महीने के लिये प्रोवेशन पर रखे गए हैं; यदि ठीक तरह से काम करेंगे तो स्थायी रूप से उनकी नियुक्ति हो जायगी ।

प्रोवेशनरी—वि० [अ०] १ प्रोवेशन के संबन्ध का । योग्यता की जाँच से सबंध रखनेवाला । २ जो कुछ निर्धारित समय तक इस धातं पर रखा जाय कि यदि संतोषजनक कार्य करेगा तो स्थायी रूप से रख लिया जाएगा ।

प्रोमिसरी नोट—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] दे० 'प्रोमिसरी नोट' ।

प्रोमोशन—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] १ किसी पदाधिकारी का अपने पद से ऊँचे पद पर नियुक्त किया जाना । तरक्की । २ विद्यार्थी का किसी कक्षा में से आगे की कक्षा में भेजा जाना । दर्जा चढ़ना ।

प्रोयना^(७)—क्रि० सं० [हि० परोना] वेधना । उ०—खैंग लसकर-खान रा, प्रोया सेल प्रमाण ।—रा० रू०, पृ० ३४२ ।

प्रोलेतेरियट—सञ्ज्ञा पुं० [अ० प्रोलिटेरियट] सर्वहारा वर्ग । श्रमिक वर्ग । मजदूर श्रेणी ।

प्रोलेतेरियन—वि० [अ० प्रोलिटेरियन] सर्वहारा वर्ग से संबन्धित । सर्वहारा वर्ग का । उ०—ईसा द्वारा प्रचारित कम्प्यूनिज्म में और मार्क्स द्वारा प्रचारित प्रोलेतेरियन श्राति के स्वरूपों में बहुत अंतर था ।—जिप्सी, पृ० २१५ ।

प्रोवाइसचासलर—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] उपकुलपति । वाइसचासलर या कुलपति का सहायक अधिकारी ।

प्रोव्लाधित—वि० [सं०] १ निरामय । नीरुज । २. दबाग । पुष्ट-शरीर [को०] ।

प्रोव्लासी—वि० [सं० प्रोव्लासिन्] देदीप्यमान । कांतियुक्त [को०] ।

प्रोव्लेखन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] खुरचना । कुरेदना [को०] ।

प्रोष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] बहुत अधिक दुःख या कष्ट । सताप । दाह ।

प्रोषक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] महाभारत के अनुसार एक देश का नाम ।

प्रोषित—वि० [मं०] १ जो विदेश में गया हो । प्रवासी । जैसे, प्रोषितपति आदि । २. दूरगत । दूर गया हुआ [को०] ।

प्रोषितनायक, प्रोषितपति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] वह नायक जो विदेश में अपने पत्नी के वियोग से विकल हो । विरही नायक ।

प्रोषितपतिका (नायिका)—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पति के विदेश जाने से दुःखित स्त्री । प्रवर्त्यप्रियसी । वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुःखी हो । विदेश गए हुए व्यक्ति की शोकातुर स्त्री या प्रेमिका ।

विशेष—साहित्य में इसके मुग्धा, मध्या, स्वकीया, परकीया आदि अनेक भेद माने गए हैं ।

प्रोषितप्रियसी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० दे० प्रोषितपतिका] ।

प्रोषितभर्तृका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] दे० 'प्रोषितपतिका' ।

प्रोषितभार्य—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रोषितभार्य] वह नायक जो अपनी भार्या के विदेश जाने के कारण दुःखी हो ।

प्रोषितमरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्रवास में मरण । विदेश में मृत्यु [को०] ।

प्रोष्ठ—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. एक प्रकार की मछली । सीरी । २. गी । गाय । ३. बैल । वृषभ [को०] । ४. महाभारत के अनुसार एक प्राचीन देश का नाम जो दक्षिण में था ।

प्रोष्ठपद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पूर्वभाद्रपद और उत्तरभाद्रपद नक्षत्र । २. भाद्रपद मास । भादो का महीना ।

प्रोष्ठपदा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पूर्वभाद्रपद और उत्तरभाद्रपद नक्षत्र ।

प्रोष्ठपदी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] भाद्रपद मास की पूर्णिमा ।

प्रोष्ठपाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] पूर्वभाद्रपद और उत्तरभाद्रपद नक्षत्र ।

प्रोष्ठी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सीरी नाम की मछली ।

प्रोष्ण—वि० [सं०] जो बहुत गरम हो । अत्यंत उष्ण ।

प्रोसीडिंग—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ०] किसी सभा या समिति के अधिवेशन में सपन्न हुए कार्यों का लेखा या विवरण । कार्यविवरण । जैसे,—गत अधिवेशन की प्रोसीडिंग पढी गई ।

प्रोसीडिंग बुक—सञ्ज्ञा स्त्री० [अ०] वह वही या किताब जिसमें किसी सभा या समिति के अधिवेशन में सपन्न हुए कार्यों का विवरण लिखा जाता है । कार्यविवरण पुस्तक । जैसे, प्रोसीडिंग बुक में यह बात लिखी जानी चाहिए ।

प्रोसेशन—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] धूमधाम की सवारी । जुलूस । शोभायात्रा । जैसे,—महासभा के प्रेसिडेंट का प्रोसेशन बड़ी धूमधाम से निकला ।

प्रोह^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ हाथी का पैर । २ तर्क । ३ पर्व ।

प्रोह^२—वि० १. बुद्धिमान् । चतुर । २. तार्किक । तर्क या विचार करनेवाला [को०] ।

प्रोहिता—सञ्ज्ञा पुं० [सं० पुरोहित] दे० 'पुरोहित' । उ०—गुरु नृप, गुरु माता पितः, गुरु प्रोहित, गुरु छद । विहके गुरु दीरघ गुरु, सब के गुरु गोविद ।—नद० ग्रं०, पृ० ७४ ।

प्रौढ़^१—वि० [सं० प्रौढ] [वि० स्त्री० प्रौढ़ा] १ अच्छी तरह बढ़ा

हुमा । २. जिसकी अवस्था अधिक हो चली हो । जिसकी युवावस्था समाप्त पर हो । ३ पक्का । पुष्ट । मजबूत । छ । ४ पुराना । ५ गंभीर । गूढ़ । ६ निपुण । होशियार । चतुर । ७ घना । सघन । भरा हुआ । परिपूर्ण । (को०) । ८ उद्वत । प्रगल्भ । अभिमानी (को०) । ९. विलासी (को०) । १० विवाहित (को०) । ११ उठाया या ऊपर किया हुआ । १२ तर्कित । निरोध किया हुआ (को०) । १३ बडा । महान (को०) । १४ व्यस्त । लीन (को०) ।

श्रीद्ध^३—सञ्ज्ञा पुं० तान्त्रिकों का चौबीस अक्षरों का एक मन्त्र ।

श्रीद्धजलद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं० श्रीद्धजलद्] घने बादल (को०) ।

श्रीद्धता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० श्रीद्धता] प्रौढ होने का भाव । प्रौढत्व ।

श्रीद्धत्व—सञ्ज्ञा पुं० [सं० श्रीद्धत्व] प्रौढ होने का भाव । प्रौढता ।

श्रीद्धपाद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं० श्रीद्धपाद्] पैर के दोनों तलुएँ जमीन पर रखकर बैठना । उकड़ें बैठना ।

विशेष—शास्त्रों में इस प्रकार बैठकर, भोजन, स्नान, तर्पण, पूजन, अध्ययन आदि कार्य करने का निषेध है ।

श्रीद्धपुष्प—वि० [सं० श्रीद्धपुष्प] पुरांत. विकसित । पुरा खिला हुआ (को०) ।

श्रीद्धमताधिकार—सञ्ज्ञा पुं० [सं० श्रीद्ध + मत + अधिकार] प्रजातांत्रिक शासन की वह व्यवस्था जिसमें प्रत्येक प्रौढ़ (बालिग) माने गए व्यक्ति को चुनाव में अपना मत देने का अधिकार होता है ।

श्रीद्धमनोरमा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० श्रीद्धमनोरमा] सिद्धांतकीमुदी की एक टीका या व्याख्या ।

श्रीद्धवाद—सञ्ज्ञा पुं० [सं० श्रीद्धवाद] दृढ़ कथन । प्रबल उक्ति (को०) ।

श्रीद्धा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० श्रीद्धा] १. अधिक वयसवाली स्त्री । वह स्त्री जिसे जवान हुए बहुत दिन हो चुके हो । २ साहित्य में एक नायिका । वह नायिका जो कामकला आदि अच्युती तरह जानती हो ।

विशेष—षाधारणत ३० वर्ष से ५० या ५५ वर्ष तक की आयु-वाली स्त्री प्रौढ़ा मानी जाती है । भावप्रकाश के अनुसार ऐसी स्त्री वर्षा और वसंत ऋतु में समोग करने के योग्य होती है । साहित्य में इसके रतिप्रीता और आनन्दसामोहिता ये दो भेद माने गए हैं । मानभदानुसार धोरा, अधीरा और धीरा-धीरा ये तीन भेद तथा स्वाभावानुसार अन्यसुरतदु खिता, वक्रोक्तिगविता और मानवती ये तीन भेद माने जाते हैं । इसके अतिरिक्त स्वकीया, परकीया और सामान्या ये तीन भेद इसमें लगे हैं ।

श्रीद्धाअधीरा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० श्रीद्धाअधीरा] वह प्रौढ़ा नायिका जो अपने नायक में विलासमूचक चिह्न देखने पर प्रत्यक्ष कोप करे । वह प्रौढ़ा जिसमें अधीरा नायिका के लक्षण हो ।

श्रीद्धाधीरा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० श्रीद्धाधीरा] वह प्रौढ़ा नायिका जो अपने नायक में विलासमूचक चिह्न देखने पर प्रत्यक्ष कोप न करके

व्यग्न से कोप प्रकट करे । ताना देकर कोप प्रकट करनेवाली प्रौढ़ा ।

श्रीद्धाधीराधीरा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० श्रीद्धाधीराधीरा] साहित्य में वह नायिका जो अपने नायक में परस्त्रीगमन क चिह्न देखने पर कुछ प्रत्यक्ष और कुछ व्यग्नपूर्वक कोप प्रकट करे । वह प्रौढ़ा जिसमें धीराधीरा क गुण हो ।

श्रीद्धि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० श्रीद्धि] १. सामर्थ्य । शक्ति । २. धृष्टता । ठिठई । ३. प्रौढ़ता । ४. वादविवाद । ५. पूण वृद्धि (को०) ।

श्रीद्धि—प्रौढिवाद = प्रौढवाद ।

श्रीद्धोक्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० श्रीद्धोक्ति] एक अलंकार । दे० 'प्रौढ़ोक्ति' । उ०--प्रौढ़ोक्ति तासो कहत, भूपन कवि विरदेत । भूपन ग्रं०, पृ० ६० ।

श्रीद्धोक्ति—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्रौद्धोक्ति] १. अलंकार विशेष जिसमें उत्कर्ष का जो हेतु नहीं है वह हेतु कल्पित किया जाय । २. दृढ़ कथन । हठोक्ति । ३. गूढ़ रचना । किसी बात को बहुत बढ़ाकर कहना ।

श्रीद्धि—वि० [पुं०] प्रवीणा । चतुर । होशियार (को०) ।

श्रीद्धि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] सारी मछली ।

श्रीद्धिपद्—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. कुवेर के निपिरक्षकों में से एक का नाम । २. भाद्रमास का नाम । । मादो । प्रौद्धपद ।

श्रीद्धिपदिक—सञ्ज्ञा सं० [सं०] भाद्रपद । भादो ।

श्रीद्धिपदी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] भाद्रमास की पूर्णिमा ।

श्रीद्धि—वि०, सञ्ज्ञा पुं० [सं०] दे० 'प्रौह' ।

प्लक्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] स्त्रियों का कमर के नीचे का भाग ।

प्लक्ष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पाकर नाम का वृक्ष । पिन्खा । २. पुराणानुसार सात कल्पित द्वीपों में से एक द्वीप का नाम ।

विशेष—कहते हैं, वह जमुद्वीप के चारों गार है । और दो लाख योजन विस्तृत है । इसमें शातभय, शिशिर, सुखोदय, आनन्द, शिव, क्षेमक और ध्रुव नामक सात वर्ण और गोमद, चद्र, नारद, दुदुभि, सोमक, सुमना और वैश्राजक नाम के सात पर्वत माने जाते हैं । भागवत में इसके वर्षा का नाम शिव, वयस, सुमद्र, शात, क्षेम, अमृत और अमय तथा पर्वतों का नाम मणिकूट, वज्रकूट, इन्द्रसोम, ज्योतिष्मान्, सुवर्ण, हिरण्यप्लीन और मंघमाल लिखा है । विष्णुपुराण के अनुसार अनुत्पत्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता और सुकृता नाम की सात नदियाँ हैं, पर भागवत में उनका नाम अरुण, नृमला, आगिरसी, सावित्री, सुप्रभात ऋतभरा और सत्यभरा दिया है । कहते हैं, इस द्वीप में युगव्यवस्था नहीं है, इसमें सदा प्रेतायुग बना रहता है । यहाँ चातुर्वर्ण का नियम है । इस द्वीप में प्लक्ष का एक बहुत बडा वृक्ष है, इसी से इसे प्लक्षद्वीप कहते हैं । ३. अश्वत्थ वृक्ष । पीपल । ४. बडो खिडकी या दरवाजा । ५. पार्ष्वस्य या पिच्छला दरवाजा (को०) ६. द्वार के पास की भूमि (को०) । ७. एक तीर्थ का नाम ।

प्लक्षजाता—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सरस्वती नदी का एक नाम ।

- प्लक्षतीर्थ**—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हरिवंश के अनुसार एक तीर्थ का नाम ।
प्लक्षप्रसवण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] 'प्लक्षराज' ।
प्लक्षराज—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] उस स्थान का नाम जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है ।
प्लक्षसमुद्रवाचका—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सरस्वती नदी [को०] ।
प्लक्षादेवी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] सरस्वती नदी ।
प्लक्षावतरण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] महाभारत के अनुसार एक स्थान का नाम जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है ।
प्लक्षि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक वैदिक ऋषि का नाम ।
प्लवग—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्लवङ्ग] १ वानर । बदर । २ साठ सवत्सरो मे से इकतालीसवाँ सवत्सर । ३ मृग । हरिन । ४. प्लक्ष । पाकर ।
प्लवंगम—पञ्चा पुं० [सं० प्लवङ्गम] एक छद जिसके प्रत्येक पाद मे ८ + १३ के विराम से २१ मात्राएँ, आदि का वर्ण गुरु और अत मे १ जगण और १ गुरु होता है । २ बदर । वानर । कपि । ३. मेढक ।
प्लवंगमैद्रु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] हनुमान [को०]
प्लव^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ साठ सवत्सरो में से पैंतीसवाँ सवत्सर । २ मुरगा । ३. उछलकर या उडकर जानेवाले पक्षी आदि । ४. कारडव पक्षी । ५. मेढक । ६. बदर । ७. भेड । ८. चाडाल (डि०) । ९. शत्रु । दुष्मन । १०. नागरमोथा । ११ मछली पकडने का जाल या काठ का पाटा । १२ नहाना । १३. तैरना । १४ नदी की बाढ़ । १५ एक प्रकार का बगला । १६ कोई जलपक्षी । १७ शब्द । आवाज । १८ अन्न । १९ गोपाल करज । २०. छोटी नौका । बाँस, वृण आदि से बनी नाव । उड्डुप (को०) । २१. प्लक्ष का वृक्ष । (को०) । २२. ढाल । उतार (को०) । २३. कुदाना । उछाल (को०) । २४ वापस होना या लौटना (को०) । २५ प्रोत्साहन (को०) ।
प्लव^२—वि० १ तैरता हुआ । २ झुका हुआ । ३ क्षणभंगुर । ४ कूदता या उछलता हुआ (को०) । ५ विशिष्ट । श्रेष्ठ । उत्कृष्ट (को०) ।
प्लवक^१—वि० [सं०] १ तैरनेवाला । पैराक । २ सतरणोपजीवी, जैसे मल्लाह (को०) ।
प्लवक^२—सञ्ज्ञा पुं० १ तलवार की धार पर नाच करनेवाला पुरुष । २ मेढक । ३ पाकर वृक्ष । ४. चाडाल (को०) ५ वानर । कपि (को०) ।
प्लवग^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ सिरस का पेड । २ बदर । ३—कपि, साखाभृग, बलीमुख, प्लवग, कीस, लंगूर । वानर के कर नारियर, दयो विधाता कर । नंद० ग्र०, पु० ६३ । ३ मेढक । ४ हरिन । ५ जलपक्षी । ६ सूर्य का सारथी ।
प्लवग^२—वि० १ कूदनेवाला । उछलनेवाला । २ तैरनेवाला ।
यौ०—प्लवगराज = कपिराज । सुग्रीव । प्लवगैद्रु = हनुमान ।
प्लवगति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] मेढक [को०] ।

- प्लवगा**—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] कन्या राशि या लग्न [को०] ।
प्लवन^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ उछलना । कूदना । २ तैरना । ३. वाढ़ जलप्लावन (को०) । ४ उडना (को०) । ५. घोडे की एक चाल (को०) । ६ ढालवाँ जमीन (को०) ।
प्लवन^२—वि० नत । नीचे की ओर झुका हुआ [को०] । ढालू । ढालवाँ [को०] ।
प्लवर्ग—सञ्ज्ञा पुं० १. अग्नि । आग । २. जलपक्षी ।
प्लवाका—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नाव [को०] ।
प्लविक—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] नाव से पार करनेवाला केवट । माँझी [को०] ।
प्लवित—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पैरना । तैरना । २. कूदना । उछलना [को०] ।
प्लविता—वि० [प्लवित्] [वि० स्त्री० प्लवित्री] तैरनेवाला । तैराक ।
प्लांचेट—सञ्ज्ञा पुं० [अं०] मेस्मेरेज्म पर विश्वास रखनेवालो के काम की पान के आकार की लकडी की एक छोटी तख्ती ।
विशेष—इसके चौडे भाग के नीचे दो पाए मडे हुए होते हैं । जिनके नीचे छोटे छोटे पहिए लगे हुए होते हैं और आगे की नोक की ओर एक छेद होता है जिसमें एक पेंसिल लगा दी जाती है । कहते हैं, जब एक या दो आदमी उस तख्ती पर घीरे से अपनी उगलियाँ रखते हैं तब वह खसकने लगती है और उसमें लगी हुई पेंसिल से लकीरें, अक्षर, शब्द और वाक्य बनते हैं, जिनसे लोग अपने प्रश्नों का उत्तर निकाला करते हैं, अथवा गुप्त भेदों का पता लगाया करते हैं । इसका आविष्कार ईसवी १८५५ में हुआ था और इसके संबंध मे कुछ दिनों तक लोगों में बहुत से झूठे विश्वास थे ।
प्लाईवुड—सञ्ज्ञा स्त्री० [अं०] एक प्रकार की हलकी लकडी जो तीन विभिन्न प्रकार की पतली लकडियों को मशीन से दबाकर बनाई जाती है । उ०—इसके अतिरिक्त सेमल, शीशम और सागौन से प्लाईवुड बनाने का उद्योग भी उल्लेखनीय है ।—अभि० ग्र०, पु० १५ ।
प्लाक्ष^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ पाखर का फन । २. प्लक्ष का भाव ।
प्लाक्ष^२—वि० प्लक्ष संवधी । प्लक्ष का ।
प्लाक्षायन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्लक्षि के गोत्र मे उत्पन्न ।
प्लाट—सञ्ज्ञा पुं० [अं०] १ इमारत बनाने या खेती आदि करने के लिये जमीन का टुकडा । २ ऐसी जमीन का बना हुआ नक्शा । ३. कोई कार्य करने का निश्चित किया हुआ ढग । मनसूबा । ४ उपन्यास, नाटक या काव्य आदि की वस्तु या मुख्य कथाभाग । वस्तु । ५ गुप्त और हानि करनेवाली कार्रवाई । षड्यंत्र । साजिश ।
प्लाटफार्म—सञ्ज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'प्लेटफार्म' ।
प्लान—सञ्ज्ञा पुं० [अ० प्लैन] दे० 'प्लेन' ।
प्लाव—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ गोता । डुबकी । २. परिपूर्णता । ३. जल

का उमडकर बहना (को०) । ४ उछाल । कूर्दन (को०) ।
५ किसी तरल पदार्थ को छानना (को०) ।

प्लावन—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ वाढ़ । सेलाव । जैसे जलप्लावन । उ०—
नीचे प्लावक की प्रलय घार, ध्वनि हर हर ।—तुलसी०,
पृ० ४ । २ खूब अच्छी तरह धोना । बोर । ३ किसी चीज
को ऊपर फेंकना । ४ जल का उमडकर बहना (को०) ।
५ तेरना । ६ विस्तार । दीर्घ करना । जैसे, स्वरों का ।

प्लावित^१—वि० [सं०] १. जो जल में डूब गया हो । पानी में डूबा
हुआ । २ दीघकृत । दीर्घोच्चारित, जैसे, स्वर (को०) ।

प्लावित^२—सञ्ज्ञा पुं० वाढ़ । जलप्लावन (को०) ।

प्लाविनी—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] युक्तिकल्पतव के अनुसार १४४ हाथ
लंबी, १८ हाथ चौड़ी और १४२ हाथ ऊंची नाव या
जहाज ।

प्लावी^१—वि० [सं० प्लाविन्] १. फैलनेवाला । २ बहनेवाला [को०] ।

प्लावी^२—सञ्ज्ञा पुं० पक्षी [को०] ।

प्लाव्य—वि० [सं०] जल में डुवाने के योग्य । जो जल में डुवाया
जाय ।

प्लाशि—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] पुरुष के मूर्धेन्द्रिय की जड़ के पास की
नाड़ी ।

प्लाशुक—वि० [सं०] जो शीघ्र पक जावे । शीघ्र तैयार होनेवाला ।

प्लास्टर—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] १ डाक्टरों के अनुसार वह औषधि जो
शरीर के किसी रूग्ण अंग पर उसे अच्छा करने के लिये
लगाई जाय । औषधलेप ।

क्रि० प्र०—लगाना ।—चढ़ाना ।

२ टूटों आदि की दीवारों पर लगाने के लिये सुखी चूने आदि
का गाढ़ा लेप । पलस्तर ।

प्लास्टर आफ पेरिस—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] एक प्रकार का अंगरेजी
मसाला जो बहुत ठोस और कड़ा होता है और जो घातु,
चीनी, पत्थर और शीशे आदि के पदार्थों को जोड़ने और
मूर्तियाँ आदि बनाने के काम में आता है ।

विशेष—जिस अवस्था में जोड़ने या छेद आदि वद करने में
और मसाले काम नहीं आते उस अवस्था में यह बहुत
उपयोगी होता है । ज्योंही यह जल में मिलाकर कहीं
लगाया जाता है त्योंही वह दृढ़तापूर्वक बैठ जाता और
फैलकर सधियों आदि को भरने लगता है । प्लेस्टर
डी पेरिस ।

प्लास्टर—सञ्ज्ञा पुं० [अ० प्लास्टर] दे० 'प्लास्टर' ।

प्लिहा—सञ्ज्ञा पुं० [सं० प्लिहन्] दे० 'प्लीहा' [को०] ।

प्लीडर—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] १ वह जो वकालत करता हो । वकील ।
२ किसी का पक्ष लेकर वादविवाद करनेवाला ।

प्लीह—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्लीहन्] दे० 'प्लीहा' । उ०—विदाही और
अभिष्यदी वस्तु स्नाय तो प्लीह (तापतिल्ली) होय ।—
माधव०, पृ० १६१ ।

प्लीहघ्न—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] रोहडा वृक्ष ।

प्लीहशत्रु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्लीहघ्न । रोहडा वृक्ष ।

प्लीहा—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं० प्लीहन्] पेट की तिल्ली । बरबट ।

विशेष—दे० 'तिल्ली' । २. वह रोग जिसमें रोगी की तिल्ली
बढ़ जाती है । दे० 'तिल्ली' ।

प्लीहाकर्ण—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] एक रोग का नाम जो कान के पास
होता है ।

प्लीहारि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] अश्वत्थ ।

प्लीहाश्वरस—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्लीहा के एक औषध का नाम ।

विशेष—ईंगुर, गधक, सोहागा, अन्नक और विष घाठ घाठ
तोले लेकर और उसमें चार चार तोला मिर्च और पीपल
मिलाकर छह छह रत्ती की गोलियाँ बनाई जाती हैं । यह
निगुंडी के रस और मधु के साथ दी जाती है ।

प्लीहाविद्रधि—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] तिल्ली का एक रोग जिसमें रुक रुक-
कर साँस आती है ।

प्लीहाशत्रु—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] रोहडा ।

प्लीहोदर—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] प्लीहा रोग । तिल्ली । उ०—अथ
प्लीहोदर के लक्षण कहता हूँ तू सुन ।—माधव ०, पृ० १६५ ।

प्लीहोदरी—वि० [सं० प्लीहोदरिन्] [वि० स्त्री० प्लीहोदरिणी]
जिसे प्लीहा रोग हुआ हो । प्लीहा रोगग्रस्त ।

प्लुत्ति—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ अग्नि । आग । २ गृहादि का जलना
(को०) । ३ स्नेह । प्रेम । ४ तेल । स्नेह

प्लुत^१—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ घोड़े की एक चाल का नाम जिसे पोई
कहते हैं । २ टेढ़ी चाल । उछाल । ३ स्वर का एक भेद जो
दीर्घ से भी बड़ा और तीन मात्रा का होता है । ४ वह ताल
जो तीन मात्राओं का हो । (संगीत) ।

प्लुत^२—वि० १ कागति युक्त । जो काँपता हुआ चने । २ प्लावित ।
३ तराबोर । ४ जिसमें तीन मात्राएँ हो ।

प्लुतगति^१—वि० [सं०] जो कूद कूदकर चलता हो ।

प्लुतगति^२—सञ्ज्ञा पुं० सरगोश [को०] ।

प्लुत्ति—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १ उछल कूद की चाल । २ जल आदि का
उमडकर बहना (को०) । ३ फैल जाना । फैलना । ४. घोड़े की
एक चाल जिसे पोई कहते हैं । ५. वह वर्ण जो तीन मात्राओं
से बोला गया हो ।

प्लुष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १ दाह । जलना । २ पूर्ति । ३. स्नेह । प्रेम ।

प्लुष्ट—वि० [सं०] दग्ध । जला हुआ ।

प्लोट—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] वह आवेदनपत्र जो किसी दीवानी अदालत
में किसी पर नालिषा या दावा करते समय दिया जाता है
और जिसमें दावे के सबंध में अपना सब वक्तव्य रहता है ।
अर्जीदावा ।

प्लेड्ज कार्ड—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] ताम्र ।

प्लेग—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] १. भयकर और सङ्क्रामक रोग जिसके

फैलने पर बहुत अधिक लोग मरते हैं। ताऊन। २. एक सक्रामक रोग जो प्रायः जाड़े में फैलता है।

विशेष—इसमें रोगी को बहुत तेज ज्वर आता है और जाँघ या बगल में गिलटी निकल आती है। यह रोग प्रायः ३-४ दिन में ही रोगी के प्राण ले लेता है और कभी कभी इसके १०० में से ६०—६५ तक रोगी मर जाते हैं। कहते हैं, छठी शताब्दी में यह रोग पहले पहल लेवाट से युरोप में—गया था और वही से अनेक देशों में फैला। इधर सन् १६०० से भारत में इसका विशेष प्रकोप था पर अब कम हो गया है।

प्लेट—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] १. किसी धातु का पत्तर या पतला पीटा हुआ टुकड़ा। चादर। २. छिन्नली थाली। तश्तरी। रिकामी। ३. सीने चाँदी आदि का बना हुआ प्याला या किसी प्रकार की तख्ती जो किसी (विलायती) खेल में बाजी जीतनेवाले को पुरस्कार और प्रमाण के रूप में दी जाय। जैसे, घुड़दौड़ का प्लेट, क्रिकेट का प्लेट। ४. धातु का बना हुआ वह चौड़ा पत्तर जिसपर कोई लेख आदि खुदा या बना हो। यह कई कामों में आता है, जैसे, दरवाजे या साइनबोर्ड की जगह लगाने के लिये, लेखों आदि के चित्र छापने के लिये, पुस्तकों आदि की जिल्द पर नाम आदि का ठप्पा करने के लिये। ५. फोटो लेने का वह शीशा जो प्रकाश में पहुँचते ही अपने ऊपर पढ़नेवाली छया को स्थायी रूप से ग्रहण कर लेता है। पीछे से इसी शीशे से फोटो चित्र छापे और तैयार किए जाते हैं।

प्लेटफार्म—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] १. कोई चौकोर और समतल चबूतरा, विशेषतः किसी इमारत आदि में इस उद्देश्य से बना चबूतरा कि उसपर खड़े होकर लोग वक्तुता या उपदेश दें। २. रेलवे स्टेशनों पर बना हुआ वह ऊँचा और बहुत लंबा चबूतरा जिसके सामने आकर रेलगाड़ी खड़ी होती है और जिसपर से होकर यात्री रेल पर चढ़ते या उससे उतरते हैं।

प्लेयर—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] खिलाड़ी। उ०—खुदा ने मुझे वैया 'प्लेयर' नहीं बनाया जैसा तुम्हें दोस्त।—चद०, पृ० ५२।

प्लैटर—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] वह जो विदेश में जमीन लेकर (चाय, गन्ने, नील आदि की) खेती करता हो। बड़े पैमाने में खेती करनेवाला।

विशेष—हिंदुस्तान में 'प्लैटर' शब्द से गोरे प्लैटरो का ही बोध होता है, जैसे,—टी प्लैटर (चाय बगान का साहब), इंडिगो प्लैटर (निलहा गोरा या साहब) आदि।

प्लैकड—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] छपा हुआ बड़ा नोटिस या विज्ञापन जो

प्रायः दीवारों आदि पर चिपकाया जाता है। पोस्टर। जैसे,—दीवारों पर पिएटर, सिनेमा आदि के रंग विरंगे प्लैकड लगे हुए थे।

क्रि० प्र०—चिपकना।—चिपकाना।—लगाना।—लगाना।

प्लैटिनम—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] चाँदी के रंग की एक प्रसिद्ध बहुमूल्य धातु जो पठारहवीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण अमेरिका से यूरोप गई थी।

विशेष—यह धातु शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती और इसमें कई धातुओं का कुछ न कुछ मेल रहता है। यह प्रायः सब धातुओं से अधिक भारी होती है और इसके पत्तर पीटे या तार खींचे जा सकते हैं। यह भाग से नहीं पिघल सकती, विजली अथवा कुछ रासायनिक क्रियाओं की सहायता से गलाई जाती है। इसमें मोरचा नहीं लगता और न इसपर तेजाबों आदि का कोई प्रभाव होता है। इसी लिये विजली के तथा और अनेक रासायनिक कार्यों में इसका व्यवहार होता है। रूस में कुछ दिनों तक इसके सिक्के भी चलते थे। दक्षिण अमेरिका के अतिरिक्त यह युराल पर्वत तथा बोरिनियो द्वीप में भी पाई जाती है।

प्लैन—सञ्ज्ञा पुं० [अ०] १. किसी बननेवाली इमारत का रेखा-चित्र या नक्शा। ढाँचा। खाका। जैसे,—मकान का प्लैन म्युनिसिपैलटी में दाखिल कर दिया है। मञ्जुरी मिलते ही काम में हाथ लग जायगा। २. किसी काम को करने का विचार या आयोजन। वदिश। मनसुवा। तजवीज। योजना। स्कीम। जैसे,—तुमने यहाँ आकर मेरा सारा प्लैन बिगाड़ दिया।

प्लैनचट—सञ्ज्ञा पुं० [अ० प्लाचेट] दे० 'प्लाचेट'।

प्लोत—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. पट्टी। घाव पर बाँधने की पट्टी (की०)। २. कपड़ा (की०)। ३. पित्त का विकार जो मुँह से गिरता है।

प्लोष—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. भक से जल जाना। २. दाह। जलन। पित्तविकार।

प्लोषण—वि० [सं०] [वि० क्षी० प्लोषणी] जलनेवाला। जैसे, मदनप्लोषण। दहकनेवाला।

प्लोषण—सञ्ज्ञा पुं० जलन। दाह। [की०]।

प्ला—सञ्ज्ञा स्त्री० [सं०] १. भुख। बुभुक्षा। २. खाना। खाद्यवस्तु [की०]।

प्लात—वि० [सं०] १. भुखा। बुभुक्षित। २. भक्षित। खाया हुआ [की०]।

प्लान—सञ्ज्ञा पुं० [सं०] १. भोजन। २. खाना। खाद्यपदार्थ।

प्पुर—वि० [सं०] १. सुंदर। सलोना। प्यारा। २. रूप या आकार। युक्त [की०]।

